
रेपर्टरी



एम० भट्टाचार्य एण्ड को०

सङ्कलित।



इकानमिक फार्मेसी

८४, क्लाइव स्ट्रीट

कलकत्ता।

प्रथम संस्करण]   १८९५   [मूल्य ६)

प्रकाशक—
श्रीफकीरदास सरकार
इकानमिक फार्मेसी।
८४ नं०, क्लाइव स्ट्रीट,
कलकत्ता।

मुद्रक—
श्रीशैलेन्द्रचन्द्र भट्टाचार्य
इकानमिक प्रेस
२५, रायबागान स्ट्रीट,
कलकत्ता।

भूमिका।

होमियोपैथ चिकित्सकोंके लिये औषधि चुननेका प्रधान सहाय्य रेपर्टरी ही है। चिकित्सा करते समय सब तरहकी दवाओंके लक्षण स्मरण कर ठीक ठीक दवा चुन लेना सहज साध्य नहीं है। रेपर्टरी इस कार्यमें सहायता पहुँचाती है। चिकित्सक रेपर्टरीकी सहायतासे सहजमें ही लक्षणोंके किसी एक विषयका प्रभेद समझकर, सदृश विधान नीतिके अनुसार ठीक ठीक दवा चुन सकेंगे। उदाहरणार्थ—छूपं खाँसीकी चिकित्साके समय पहले 'ड्रोसेरा' ही सबको याद आता है। पर यदि सर दर्दके साथ भवोंका ऊपरी और निचला भाग फूला हो, तो केलि-कार्बसे लाभ होता है या ड्रोसेराके समस्त लक्षण रहनेपर भी, वमनके समय यदि कपालमें ठण्ढा पसीना दिखाई दे तो वेरेट्रम एल्बमसे फायदा होगा। अतएव, बाहरसे दिखाई देनेवाले लक्षण एक रहनेपर भी किसी एक विषयके उपसर्गके प्रभेदसे दवा भी बदल जाती है। इसीलिये, होमियोपैथी मतके अनुसार दवा चुन लेना सहज काम नहीं है। साधारण गृहस्थ लोग जब कोई दवा देते हैं और उससे लाभ नहीं होता तो उनकी श्रद्धा छूट जाती है, पर ऐसा न होना चाहिये—जरूर भूल रहती है। इस भूलका सुधार रेपर्टरी करती है। इसके अलावा एक वृहत् मेटिरिया मेडिका या भेषज लक्षणको याद कर सब तरहके अवस्था-भेदका पार्थक्य समझकर दवा चुननेका अवसर और सुयोग भी सबको नहीं मिलता।

इन सब असुविधाओंको दूर करनेके लिये रेपर्टरीकी जरूरत है। यह किसी विशेष ग्रन्थका अनुवाद नहीं, बल्कि अनेक ग्रन्थोंका सार संग्रहकर अपनी अभिज्ञतासे तैयारकी गयी है।

जिस लक्षणकी जो दवा पहले याद आना उचित है। सर्व साधारणकी सुविधाके लिये वह दवा मोटे अक्षरोंमें दी गयी है।

आशा है, हमारे सहृदय पाठक अनुग्राहक हमारी प्रकाशित अन्य पुस्तकोंकी भांति ही इसे भी अपनायेंगे। तभी हमारा परिश्रम और धन व्यय सार्थक होगा।

कलकत्ता
श्रावण शुक्ल १५, सं० १९८२ } श्री महेशचन्द्र भट्टाचार्य एण्ड कों०।

विषय-सूची ।

रेपर्टरी

मन ।

अकाल परिपक्वता—(असमयमें बुढ़ापा)—मर्क ।

अङ्ग-भङ्गी (gestures) आर्स, बेल, कैम्फ, कैना-इ, सिफि, काफि, हायो, मस्क, नक्स वोम, प्लैटि, गैम्बो, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो, टैरे, विरे ।

„ केश नोचना, पासवाले मनुष्यका—बेल ।

„ खेलना, अङ्गुलीसे—बेल, कोल्कि, क्रोटे-टी, हायो, कैलि ब्रो ।

„ चबाना या निगलनेकी तरह करना—मौलि-ना ।

„ ढालना उठाना, दोनो हाथोंसे दो गिलास पकड़कर—बेल ।

„ नोचना बिछावन—ऐको, ऐगेरि-क्रू, आर्नि, आर्स, ऐट्रो, बेल, कैमो चायना, सिना, काकु, कोनचि, कोना, उल, हेलि, हिपर, हाइयो, कैलि-ब्रो, आयो, लाइको, म्यू ऐ, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, फास ऐ, सोरि, रसटक्स, मौलि-ना, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे-वि, जिङ्क ।

„ „ नाक या ओंठ—ऐरम ट्रि, सिना, कोना, हेलि ।

„ मतवालेकी तरह, नाशाखोरोंकी तरह—हाइयो ।

„ मूर्खों की तरह, पागलकी तरह—बेल, सिकि कौक, कुप्रम हाइयो, इग्ने, कैलि-फास, लैके, मार्क, मस्क, नक्स म, ओपि, सिपि, स्ट्रैमो, विरे ।

„ व्यवसायके अनुसार—आर्स, बेल, ब्रायो, स्ट्रैमो ।

„ सकोचक या खींचन भरी (convulsive)—ओपि, बेल, कैना से, ब्रम्म ।

„ हाथमें मानो एक गेंट घुमाता है—सिना, स्ट्रैमो ।

„ हाथसे कुछ मानो समझ रहा है—टैरे ।

हाथसे मुंह या और कुछ मानो झाडकर साफ करता है,—हाइयो।
हाथ फेंकता है, चारों ओर—ऐङ्गो, बेल, ब्राई, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, मस्क, नेट्र-का, फास, साइलि, स्ट्रैमो।
हाथ जोडता है—पल्स।
हाथसे ताली बजाता है—बेल, सिके, स्ट्रैमो, विरे।
हाथ बढाकर मानो कुछ पकडना चाहता है—आर्नि, आर्स, बेल, बोरा, कैल्के-फास, कैमो, सिना, काफि, हाइयो, लाइको, मस्क, इग्नेन्थि, ओपि, फास, फास-ऐ, प्लैटि, सोरि, रास्टक्स, सोले-ना, **स्ट्रैमो**, सल्फ, जिङ्क।
हाथ बढाकर मानो पासका आदमी पकडना चाहता है—फास।
हाथ मरोडना—कैलि-ब्रो, फास, सोरि, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ।
हाथ मलना—कैना-इ।
(बेहोशी unconciousness)—ऐब्सि, ऐमि-ऐ, ऐको, इस्कु, ऐगा, ऐलैन्थ, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमो-का, ऐमो-मि, ऐमिग, ऐनाका, ऐपिटे-क्रू, ऐपिटे-टा, एपि, ऐपो, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, बैप्टी, **बैरा-का**, **बेल**, बोवि, ब्रायो, ब्यूफो, कैल्क, कैलेडि, कैडमि, कैल्के-का, कैम्फ, **कैना-इ**, कैना-से, कैन्थ, कार्बो-वेज, कार्बोनि-इा, कार्बो-आक्सि, कार्बो-स, कास्टि, कैमो, चेलि, चाय, चिनि-स, सिक्यु, सिमि, सिना, **काफि**, कोल्चि, कोना, क्रोटे-हो, क्यूप्रम, साइक्ला, डिजि, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, गुये, **हेलि**, हिपर, **हाइड्रो-ऐ**, **हाइयो**, **इग्ने**, इपि, कैलि-बा, कैलि ब्रो, कैलि-का, कैलि-आयो, कैलि-ना, क्रियो, लैक-डि, **लैके**, लोरो, लिडम, लाइको, मैंग-म्यू, मैनसि, मर्कु, मर्कु-कोर, मेजे, **मस्क**, म्यू-ऐ, नेजा, नेट्र-का, नेट्र-म्यूर, नेट्र-फास, नाइ-ऐ, **नक्स-म**, नक्स-वोम, इग्नैन्थ, ओलियै, ओलि-ऐनि, **ओपि**, आक्सा ऐ, पेट्रो, **फास-ऐ**, फास, प्लैटि, प्लम्ब, **पल्स**, रैना-बा, रियुम, रोडो, रास-ट, रूटा, सैबा, सार्सा, सिके, सिलि, सिपि साइलि, सोले ना, स्पाई, स्कुइला, ष्टैनम, स्ट्रैफि, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैबे, टैनासिटम, टेरा, टेरि, बेल, बार्वा, विरे, विरे-वि, वेस्पा, वायो-ओ, वाइपे, विस्कम, जिङ्क।

अचैतन्य अकेले रहनेपर—फास ऐ।

" अचल मूर्त्ति की तरह—हाइयो, स्ट्रैमो।

" आंशिक (थोडा, कुछ कुछ)—आर्स, क्लोरे, क्रोटे-हो, कार्बो-ऐनि, कृप्रम ऐसि, कृप्रम-आर्स, मार्फि, सिके, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ।

" आँखें स्थिर रहनेके साथ—इथु, आर्स, बोवि, कैम्फ, कैन्थ, कूप्र, स्ट्रैमो।

" " खोल नहीं सकता—जेल्स।

" " भारी भारी, साथ ही धुंधली दृष्टि—सेने।

" उत्तेजनाके बाद— नक्स-म।

" उदरामयके बाद—आर्स।

" ऋतुके पहले—नक्स-म, स्पृ रे।

" समय—एपि, काफि, इग्ने, लैके, नक्स-वोम, प्लम्ब, पल्स, सार्सा, सिपि, सल्फ, विरे।

" " बाद—चाय, लेके, लाइको।

" ऋतु बन्द होकर—(After suppression of)—ऐको, कैमो, चायना, कोना, लाइको, **नक्स-म**, नक्स-वोम, विरे।

" एकाएक—ऐव् सि, कैना-इ, कैन्थ, कैनि का, प्लम्ब।

" कुछ पूछनेपर ठीक उत्तर देता है, पर दूसरे ही क्षण बेहोश हो जाता है—आर्नि, बैप्टो, हाइयो।

, खींचनके साथ (with convulsion)—ऐव्-मि, ऐको, इथु, आर्स, बेल, कूप्र, ग्लोनो, हाइड्रो, मस्क स्ट्रैमो, विरे।

" खुली हवामें—कैन्था, कास्टि, हिपर, सल्फ।

" खून देखनेपर—नक्स म।

, गन्धसे—"सुंघनेपर" देखिये।

" गर्भावस्थामें—नक्स म, नक्स वोम, सिके।

" गर्म कमरेमें—ऐको, लाइको, पल्स,।

" गोटी (उद्भेद) बैठकर—जिङ्क।

" घटना—वमनसे—ऐको, टैब, टैबाकिटम।

" गर्मी हवामें—टैरे।

" माथे पर ठण्डा पानी देनेपर—टैब।

अचैतन्य घूमते घूमते—कैल्के, कार्बो-ऐ, ग्रैटि।
„ चिल्लानेके साथ बीच बीचमें—बेल।
„ तन्द्रा भावके साथ—फास ऐ।
„ (थोड़ी देरके लिये)—ऐसाफि, बोवि, ब्यूफो, कैलेडि, कैल्के, कैनाइ, कैन्था, कार्बो ऐनि, चेलि, इग्ने, मेडो, मस्क, नेट्रम म्यू, ओलियें, पल्स, सिके, साइलि, जिङ्क।
„ दर्दकी वजहसे—हिपर, नक्स म, फाइटो, वेले।
„ देखने सुननेकी ताकत गायब होनेके साथ—स्ट्रेमो।
„ पहचान नहीं सकता, किसीको भी, पर छूने या पूछनेपर सटीक उत्तर देता है—सिकि।
„ पाखाना फिरनेके पहले—आर्स, डिजि।
„ „ „ समय—ऐलो, अक्सा-ऐसि, सल्फ।
„ „ „ बाद—कैल्के, काफि, फास, टैरे।
„ प्रसवके समय—सिमि, काफि, **नक्स-वोम**, पल्स, **सिकी**।
„ बैठनेपर—ऐसाफि, बेल, कार्बो वेज, मस्क, नेट्र-म्यू, साइलि, टैरे।
„ बोलते बोलते—लाइको।
„ बोखारके समय—ऐको, **आर्नि**, ड्रयू, एपिस, वैरिट, बेल, कैल्के, इयुपे पार्फो, हाइयो, लैके, नेट्रम, ओपि, फास, सोले-ना।
„ भीड़ भरे कमरेमें—ऐम्ब्रा, आर्स, बैरा-का, कोना, इग्ने, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स म, फास, पल्स, सल्फ।
„ भोजनके बाद—क्रास्टि, मैग-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ।
„ मानसिक उद्वेगकी वजहसे—(after emotion)—ऐको, ऐमोन-का, कैम्फर, कास्टि, कैमो, **काफि**, **इग्ने**, **लैके**, ओपि, नक्स म, फास-ऐ, विरे।
„ मुर्देकी तरह—आर्नि।
„ मोहाच्छन्न अवस्थामें पड़ा रहता है (trance, as in a)—**लैके**, लोरो, टैवे।
„ रातमें—आर्ज-नाइ, बेल, चेलि, नेट्र-म्यू।
„ विकारके बाद—ऐड्रो, आइयो, फास।
„ सङ्गमके बाद—ऐगा, ऐसाफि, डिजि।

„ मध्याके समय—ऐको, आर्स, कैल्के, कास्टि कोलोसि, लाइको, मार्कु, नक्स-म, ओलियै, पल्स, स्टिक्टा, जिङ्क।

„ सर दर्दके साथ—"मस्तक" देखिये।

„ सरमें चक्करके समय—ऐको, इथू, ऐगा, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, बेल, बोवि, बैर्य, कार्बो-ऐनि, चेलि, चिनि स, काफि, फेरम, ग्रैटि, आइयो, जैंड्रो, क्रियो, लैके, लोरो, लाइको, मैग का, मेजि, मस्क, मार्कु, नेट्रम-म्यू, नक्स-म, नक्स वोम, ओपि, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, टैवै, जिङ्क।

„ सवेरे—ऐगा, ब्राइयो, बोवि, कार्बो-वेज, चेलि, ग्लोनो, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यु, **नक्स-वोम,** फास ऐ, फास, सोरि, स्टिक्टा, सल्फ।

„ सूघनेपर, गन्धसे—नक्स-वोम, फास।

, हिलने डोलनेपर—**आर्स,** विरे।

अच्छा हू, कहना कठिन रोगमें भी—एपि, **आर्नि,** आर्स, सिनावि, हाइयो, क्रियो, मर्कु, पल्स।

अतीन्द्रिय पदार्थ देखना—(clairvoyance)—ऐको, ऐना का, कैना-इ, हाइड्रोफो, नक्स म, फास, स्ट्रैमम।

अधैर्य (Impatience)—ऐको ऐलि सै, ऐम्ब्रा, ऐना का, एपि, आर्स आरम, बैरा-का, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, कैल्के, कार्बो वेज, **कैमो,** चायना, सिमि, कोलचि, कोलोसि, डाल्का जेलस, ग्रैफि, हिपर, हाइयो, **इग्ने,** आइयो, इपि कलि आई, कलि कार्ब, कलि फास, लैके, लिलि-टि लाइको, मेडो, मार्कु नेट्र का, नेट्र म्यु नाई ऐसि, **नक्स-वोम,** ओलि, ओपि, पैट्रो, फास-ऐ प्लैटि, प्लैटि, सोरि पल्स, रास्ट सैबा, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्पंजि, स्ट्रैमम स्टैफि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैरे, थूजा, वैलि, वायोला ट्रा, जिङ्क।

अनुन्नतिके कारण—कोको।

ऐल खेलनेपर (बालक बालिकाओंकी)—ऐनाका।

तुच्छ कारणसे सामान्य कारणमें—कालि-फास मेडो, मर्क, नैट्र म्यू, सल्फ-ऐ, सल्फ।

पेशाब करनेके पहले—सल्फ।

अचेतन्य घूमते घूमते—कौक्को, कार्बो-ऐ, ग्रैफि ।
„ चिल्लानेके साथ बीच बीचमें—बेन ।
„ तन्द्रा भावके साथ—फास ऐ ।
„ (थोड़ी देरके लिये)—ऐसाफि, बोवि, ब्यूफो, कैलेडि, कक्को, कोनाइ, कैन्था, कार्बो ऐनि, चेलि, इग्ने, मेडो, मस्क, नेट्रम म्यू, ओलियेे, पल्स, सिकि, साइलि, जिङ्क ।
„ दर्द की वजहसे—हिपर, नक्स म, फाइटो, वेले ।
„ देखने सुननेकी ताकत गायब होनेके साथ—ष्ट्रेमो ।
„ पहचान नहीं सकता, किसीको भी, पर छूने या पूछनेपर सटीक उत्तर देता है—सिकि ।
„ पाखाना फिरनेके पहले—आर्स, डिजि ।
„ „ „ समय—ऐलो, अक्सा-ऐसि, सल्फ ।
„ „ „ बाद—कौक्को, काफि, फास, टैरे ।
„ प्रसवके समय—सिमि, काफि, **नक्स-वोम**, पल्स, **सिकि** ।
„ बैठनेपर—ऐसाफि, बेल, कार्बो-वेज, मस्क, नेट्र-म्यू, साइलि, टैरे ।
„ बोलते बोलते—लाइको ।
„ बोखारके समय—ऐको, **आर्नि**, ड्यू, एपिस, बैप्टि, बेल, कौक्को, ड्युपे-पार्फो, हाइयो, लैके, नेट्रम, ओपि, फास, सोले-ना ।
„ भीड़ भरे कमरेमें—ऐम्ब्रा, आर्स, बेरा-का, कोना, इग्ने, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स म, फास, पल्स, सल्फ ।
„ भोजनके बाद—कास्टि, मैग-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ ।
„ मानसिक उद्वेगकी वजहसे—(after emotion)—ऐको, ऐमोन-का, कैम्फर, कास्टि, कैमो, **काफि, इग्ने, लैके**, ओपि, नक्स-म, फास-ऐ, विरे ।
„ मुर्दे की तरह—आर्नि ।
„ मोहाच्छन्न अवस्थामें पड़ा रहता है (trance, as in a)—**लैकै**, लोरो, टैबे ।
„ रातमें—आर्ज-नाई, वेल, चेलि, नेट्र म्यू ।
„ विकारके बाद—ऐट्रो, हाइयो, फास ।
„ सङ्गमके बाद—ऐगा, ऐसाफि, डिजि ।

" मंध्याके समय—ऐको, आर्स, कैल्के, कास्टि कोलोसि, लाइको, मार्कु, नक्स-म, ओलियें, पल्स, स्टिक्टा, जिङ्क।

" सर दर्दके साथ—"मस्तक" देखिये।

" सरमें चक्करके समय—ऐको, इथू, ऐगा, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, बेल, वोवि, बैन्थ, कार्बो-ऐनि, चेलि, चिनि स, काफि, फेरम, ग्रेटि, आइयो, जैट्रो, क्रियो, लैके, लोरो, लाइको, मेग का, मेजी, मस्क, मार्कु, नेट्रम-म्यू, नक्स म, नक्स वोम, ओपि, सिकि, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, टैबे, जिङ्क।

" सवेरे—ऐगा, ब्राइयो, वोवि, कार्बो-वेज, चेलि, ग्लोनो, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्य, **नक्स-वोम,** फास ए, फास, सोरि, स्टिक्टा, सल्फ।

" खु घनेपर, गन्धसे—नक्स-वोम, फास।

" हिलने डोलनेपर—**आर्स,** विरे।

अच्छा हूं, कहना कठिन रोगमें भी—एपि, **आर्नि,** आर्स, सिनावे, फाइयो, क्रियो, मर्कु, पल्स।

अतीन्द्रिय पदार्थ देखना—(clairvoyance)—ऐको, ऐना का, कैना-इ, हाइड्रोफो, नक्स म, फास, स्ट्रैमस।

अधैर्य (Impatience)—ऐको, ऐलि सै, ऐम्बा, ऐना का, एपि, आर्स, आरम, वैरा का, वेल, ब्राइयो, ब्यूफो, कैल्के, कार्बो वेज, **कैमो,** चायना सिमि, कोलचि, कोलोसि, डाल्का, जेलस, हिलि, हिपर, फाइयो, **इग्ने,** आइयो, इपि, कैलि बाई, कैलि कार्ब, कैलि फास, लैके, लिलि टि, लाइको, मेडो, मार्कु, नेट्र का, नेट्र म्य, नाई ऐसि, **नक्स-वोम,** ओलि, ओपियम, पैलै, फास-ऐ, प्लैटि, प्लैटि, सोरि, पल्स, रास्ट, मेड्रु, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाई, स्टैनि, स्ट्रैमम, स्ट्रैफि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैरे, थूजा, येसि, सायोल्ला ग्रा, जिङ्क।

खुजलीके कारण—पोर्मी।

दांत निकलनेपर (बालक बालिकाओंको)—ऐराफा।

तुच्छ कारणसे सामान्य कारणसे—आर्नि-फास, मेडो, मर्कु, नेट्र म्यू, सल्फ-ऐ सल्फ।

पेशाब करनेके पहले—सल्फ।

अधैर्य बात करनेसे (दूसरेसे)—जिङ्क।

„ सर दर्द के समय—मैन्सि, पैले, लाइसि, सल्फ।

अनधिकार चर्चा—(Meddlesome)—ऐट्रो, हाइयो।

अनासक्ति—"उदास भाव" देखिये।

अनिच्छा (Aversion to) आहारसे—आर्स, बेल, कास्टि, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, कैलि-फ्लो, कैलि-फास, ओपि, फाइटो, प्लैटि, पल्स, टैरे, विरे, वायोला ओ।

„ कामसे, मानसिक (Aversion to mental work)—ऐको, ऐगा, ऐलो, अरम, **बैप्टी,** बेल, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कार्ल-स, कैमो, **चेलि, चायना,** कोलचि, कोलोसि, फेरम, जेलस, हैमा, हिपर, हायो, आइयो, इपि, कैलि का, लैके, लिलि-टि, लाइको, मैग-म्यू, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, **नक्स-वोम,** ओपि, **फास-ऐ, फास,** फाइटो, पिक्रि ऐ, प्लैम्बे, प्लैटि, पल्स, रास्ट, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ खेलनेसे—बैरा-का, बैरा-म्यू, सिना, हिपर, लाइको, **रियुम,** सल्फ।

„ गाडीमें चढनेसे—सोरि।

„ घर छोडनेसे—(Home-sickness)—अरम, बेल, कैल्के-फास, **कैप्सि, कार्बो-ऐनि,** कास्टि, क्लिमे, युपि पार्फो, हाइयो, **इग्ने,** कालि-फास, लैके, मैग-कार्ब, मार्कु, नेट्र-म्यू, **फास-ऐ,** पल्स, सिपि, साइलि, स्टैफि।

„ घृणा या उपहाससे—ऐको, ऐमोन-का, एपि, आर्स, बोराक्स, बोवि, कैम्फि, सिना, काफि, साइक्ला, मार्कु, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ पढनेसे (Reading)—ऐको, बैरा-का, ब्रोमि, कार्ल स, क्लिमे, साइक्ला, कैलि बाई, लैकि-ऐ, लिलि-टि, नेट्र-आ, नक्स-वोम, साइलि।

„ बात करनेसे—अर्थात चुप रहनेकी इच्छा—ऐको, ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-का, ऐण्टि-क्रू, आर्जे-मे, आर्जे-ना, आर्निका, आर्स, **अरम,** बैप्टी, बेल, ब्राइयो, ब्रोमि, कैल्के, कैना-इ, कैम्फि,

कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिमि, सिना, कोलोसि, फेरम, जेल्स, ग्लोना, ग्रैफा, हेलि, हिपर, आइयो, इग्ने, लाइको, मैग-का, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, प्लैटि, प्रम्ब पल्स, रास्ट, सल्फ, विरे, जिङ्क।

अनिच्छा बात करनेसे ऋतुके समय—ऐमोन-कार्ब, कैस्टो, इग्नेप, म्यू-ऐ, सिपि।

„ „ चिल्लाकर—माइलि।

„ „ भोजनके बाद—ऐलो आर्ज्ज-नाई, फेरम-मेट, मेजे, प्लम्ब।

„ „ शामके समय—ऐमोन म्यू, जिङ्क।

„ „ सर दर्द के समय—कोना, नेट्र-आ।

„ „ सवेरेके वक्त—काफि, हिपर मैग-म्यू, नेट्र म, सैबाई।

„ बातका जवाब देनेसे—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-का, आर्नि, आर्स, बेल, कास्टि, चाय, चिनि-स, कक्कु, काफि, कोलोसि, ग्लोना, आइयो, मैन्सी, नेट्र-म्यू नक्स वोम, फास ऐ, फास, पल्स, रास्टक्स, सिकेलि, स्टैनम, सल्फ, विरे।

„ बैठे रहनेसे—आइयो, मैके।

„ भोजनसे—"आहारसे" देखिये।

„ लिखनेसे—हाइड्रो-ऐ, स्कुइ, थिया।

„ सहवाससे (Coitus)—ऐगा, ऐमोन कार्ब, वोवि, कैना सै, कास्टि, क्लिमे, काफि, ग्रैफा, इग्ने, कैनि-का, मैके, लाइको, नेट्र-म्यू, पेट्रो, फास, सोरि, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ „ ऋतुके बाद—बार्य, कास्टि कैनि का, नेट्र म्य, फास, सिपि, स्टैनम।

„ „ किसी खास आदमीके साथ—ऐमोन म्य, बरन, कॉटि-ह, कैल्के, सिपि, स्टैनम।

„ „ पतिके साथ—ग्लोनो, नेट्रम का, नेट्र म्य, सिपि, विरे।

„ सोनेसे—कैना-मै, कैल्के, कास्टि, मॉश्च, फ़्रस पेर, लाइको मार्फ, नेट्र म।

अन्यमनस्क (absent minded)—ऐको, ऐगा ऐम्ब ऐसि-फि, ऐग्नु-लि,

ऐग्नो-का, ऐनाका, ऐपि, आर्जे-मे, आर्नि, आर्स, अरम, बैरा का, बेल, बोवि, कैलेडि, **कैना-ई, कैमो, साइक्यूटा,** काफि, कोलचि, क्यूप्रम-ऐसि, ग्रैफाइ, हेलि, हिपर, ह्लाइयो इग्ने, कैलि-ब्रो, कैलि-का, क्रियो, लैक-कै, **लैकि,** लाइको, मैगका, मार्कु, मेजे, **नेट्र-म्यू,** नक्स म, नक्स वोम, ओलि, अरम, ओपि, पेट्रो, फास ऐ, फास, **प्लैटि,** प्लम्बम, **पल्स, रास्ट, सिपि,** साइलि, सल्फ, **विरे।**

अन्यमनस्क—थोडी देरके लिये सामयिक—म्यू-ऐसिड, नक्स म।

„ पढनेके समय—ऐगा, लैकै, नक्स म, फास-ऐ।

„ लिखनेके समय—मैग कार्ब।

अपव्ययी (फजूल खर्च)—विरे।

अमनोयोगी—ऐलू, ऐमोन का, ऐमोन-म्यू, बैरा-का, बेल, बोविष्टा, कास्टि, कैमो, कैलि-कार्ब, मर्कु, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, ओलि, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, सिपि, सल्फ।

अल्प भाषी, अनालापी (थोडा बोलनेवाला—reserved)—इग्नूजा, आर्जे-ना, आर्स, अरम, बेल, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, क्लिमे, हेलि, ह्लाइयो, इग्ने, इपि, लाइको, मैङ्ग, म्यू-ऐ, नेट-म्यू, नाई-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, प्लैटि, पल्स, स्टैनम, विरे।

अवज्ञासे उत्पत्ति, रोगोंकी (Ailments from scorn)—ऐको, अरम, बेल, **ब्राई, कैमो,** काफि, कोलोसि, फेरम, ह्लाइयो, इपि, लाइको, नेट्र-म्यू, **नक्स-वोम,** फास, प्लैटि, स्टैफि, सल्फ, विरे।

„ अपनी ओर—ऐग्नस।

अवसन्नता, सुस्ती मानसिक (Prostation of mind)—ऐन्नो, ऐगा, ऐनाका, आर्ज-नाइ, आर्स, **अरम,** बैरा-कार्ब, ब्राइ, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, काफि, कोलचि, **कोनायम, क्यूप्रम,** ग्लोरो, लिडम, **लाइको,** मर्कु, नेजा, **नेट्रम-का,** नेट्रम म्यू, **नाइट्रिक-ऐ,** नक्स म, **नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ,** प्लेग्टे, पोडो, पल्स, रास्ट, सार्सा, **सिपि, साइलि,** स्याइ, स्टैफि, सल्फ, ऐसि, पल्स, टियुक्रि, जिङ्क।

अवसन्नता—ऋतुके बाद—ऐलूमि ।

» पढ़नेके बाद—अरम, साइलि ।

» लिखनेके बाद—साइलि ।

» सामान्य कारणसे—ऐ-फास ।

अवाध्यता (disobedience)—ऐकोन, ऐग्ना, ऐमोन-का, ऐमोन-म्यू, आर्निका, कैन्थ, कास्टि, चायना, डिजि, लाइको, नाइ ऐ, नक्स वोम, फास, सल्फ, वायलो-ट्रि ।

अविवेचक—कैप्सि, मिलि, पल्स ।

अविश्वासी—ऐनाका, ऐसिड-फ्लू, आर्निका, बैरा-कार्ब, बेल, कास्टि, कैमो, सिकि, ड्रोसेरा, हाइयो, लैके, मर्क, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, पल्स, रूटा, सल्फ-ऐ ।

अव्यवस्थित चित्त—जरासेमें मत बदल देनेवाला—(१) इग्ने, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सार्स, जिङ्क । (२) ऐको, ऐलू, एपि, आर्स, अरम, बैरा-कार्ब, बेल, बोरैक्स, कैल्के, काफि, चायना, क्रोक, फ्यूमम, डिजि, फेरम, कैलि-का, मैग-का, मर्क, पेट्रो, फास, प्लैटि, सोरि, सिपि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, वैले ।

अश्लील कल्पना—"कल्पना" देखिये ।

» गाना गाता है—हाइयो, ओपि, स्ट्रैमो ।

» बातें करना—बेल, कैम्फ, हाइयो, लिलि-टि, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, स्ट्रैमो, विरे ।

असन्तुष्ट, अलस—ऐलूमि ऐमोन-का, ऐमोन-म्यू, आर्निका, अरम, बेल, ब्रिअय, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कैप्सि, कास्टि, चायना, सिकि, सिना, कोलोसि, कोना, क्रियो, फ्यूमम, हिपर, इग्ने, कैलि-का, नेट्र-का, पेट्रो, फास-ऐसिड, प्लम्बम, पल्स, रास्ट्र, रूटा, साइलि, स्पञ्जिया, स्टैफि, सल्फ ।

असभ्यता (wildness)—ऐकोन, ऐण्टिम टार्ट, बैप्टी, बेल, कैल्के-फास, कैम्फ, कैन्थ, क्रोका, फ्यूमम, हाइयो, मेडो, मर्क, ओपि पेट्रो फास, ऐसिड फास, स्ट्रैमो, विरे ।

असहिष्णु, अभिमानी, थोड़ेमें ही घबड़ा उठनेवाला, थोड़ेमें ही कातर—(over-sensitive) ऐकोन इग्ने, ऐलूमि ऐमो-का, ऐसाफि ऐसिड-फ्लू,

ऐपिस, आर्नि, आर्स, ऐसाराम, अरम, बैरा-का, बेल, **बोरै,** बोवि, ब्राई, कैल्के, कैम्फ, कैना-सै, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना,** चिनि-स, सिना, काकु, काफि, कोलचि, क्रोटे-ह्रो, फ्लू-ऐसिड, **जेल्स,** हिपर, हाइयो, **इग्ने,** आइयो, कैलि-का, लैके, **लाइको,** मैग-म्यू, मार्कु, मेजे, नेट्रम-का, नेट्र-म्यू, नेट्र-सल्फ, **नाइ-ऐ, नक्स-वोम,** फास-ऐ, फास, प्लैटि, **प्लम्बम,** सोरि **पल्स, रैना-बा,** सैबाडि, सैम्बु, सार्सा, सेने, सिपिया, **साइलि** स्पाई, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टियुक्रि, वेले, वायो-ओ, जिङ्क ।

असहिष्णु, असभ्यताके कारण—काकु, कोलचि, फास-ऐ, स्टैफि ।

" आवाजसे, पानी छिड़कनेकी—नाइ-ऐसिड ।

" " पैरकी—सैङ्ग, **काफिया,** नाई-ऐसिड, नक्स-वोम ।

" ऋतुके पहले—नाइ-ऐ, नक्स-वोम, सिपि ।

" गडबडीके कारण—ऐकोन, ऐलो, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐरिट-क्रू, ऐरिट-टा, एपि, आर्ज-नाई, आर्निका, आर्स, ऐसाराम, अरम, बैरा-का, बैप्टि, **बेल,** बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-सै, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना,** काक्य, **काफिया,** कोना, फेरम, फ्लु-ऐसिड, हेलि, इग्ने, **आइयो,** इपि, केलि-का, लैके, लाइको, मार्कु, मस्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नेट्र-स, नाई-ऐसिड, **नक्स-वोम,** ओपि, फास, ऐसिड-फास, प्लैटि, पल्स, रास-ट, **सिपि, साइलि,** स्पाई, थेरि, **जिङ्क** ।

" गाने बजानेसे—ऐकोन, ऐम्ब्रा, कास्टि, कैमो, काफि, डिजि, ग्रैफा, क्रियो, लाइको, मर्कु, नेट्र-फा, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नक्स-वोम, फास-ऐ, सैबाई, **सिपि** [illegible], टैरे, [illegible] वायो-ओ, जिङ्क ।

" छूने या देखनेसे—ऐरिट [illegible] ।

" थोडा [illegible]

अर्साह्ष्णु गैग्रनोसे—ऐकोन, आर्स.वेल, कोलचि, नक्स-वोम, फास, ।

" शिकायत करता है, अनुयोग करता है (Complaining)—ऐकोन, आर्स, आरम, बिस्मथ, ब्राई, ब्यूफो, कैल्के, कैन्थ, कैमो, चायना, सिना, काकु, काफि, कोलोसि, कोरा-रु, डाल्का, हेलि, इग्ने, लैके, लाइको, मस्क, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, पेट्रो, प्लाटि, पल्स, सिपि, सल्फ, टैरे।

" हवामें—कास्टि, कैमो, लैके, सल्फ।

असान्त्वनीय (Inconsolable)—ऐको, ऐन्थ्रा, आर्स, कैमो, चायना, काफि, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, स्पाजि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

असावधान (Heedless)—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐना-का, ऐसाफि, बेल, कास्टि, कूप्रम, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, मार्क, नक्स-म, ओपि, फास, रास्टक्स, रूटा, सिपि, जिङ्क।

अस्थिर चित्तता, (व्याकुलता Distraction)—ऐको, ऐगारिकस, ऐलूमि, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, आर्नि-का, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-वेज कास्टि, कैमो, चायना, काकु, कोलोसि, युफ्रे, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हाइयो, इग्ने, लिलि-टि, लाइको, मर्कु, मेजे, नेट्रम्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, साइलि, स्पाइ, स्पञ्जि सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।

अस्थिरता (बेचैनी Restlessness)—ऐको, ऐगा, ऐलो, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, एपि, आर्ज-मेट, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, आरम, आरम-म्यू, बैप्टी, बेल, बोरा, ब्रायो, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैन सै, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो वेज, कास्टि कैमो, चेलि, चायना, सिना, सिमि, काकु, काफि, कोल्चि, कोलोसि, कोना कोपे, कोरा-रू, क्रोका, कूप्रम, कूप्रम आर्स, डिजि, ड्राय, ड्रोसे डल्के, युफ्रे, फेरम फा, ग्रैफा, हेमा, हाइयो, इग्ने, आयो इपि, कैड्री, कैलि-का, कैलि-फास, मैलके, लैके, लिडम लिलि-टि, लाइको, मेडो, मर्कु, मर्क-को, मस्क, नेट्र-का नेट्र-म्यू, नाई ऐ, नक्स म, नक्स वोम, ओपि, फास ऐ, फास, प्लैटि

ऐपिस, आर्नि, आर्स, ऐसाराम, अरम, बैरा-का, बेल, **बोरै,** बोवि, ब्राइ, कैल्के, कैम्फ, कैना-सै, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना,** चिनि-स, सिना, काकु, काफि, कोलचि, क्रोटे-हो, फ्लू-ऐसिड, **जेल्स,** हिपर, हाइयो, **इग्ने,** आइयो, कैलि-का, लैके, **लाइको,** मैग-म्यू, मार्कु, मेजे, नेट्रम-का, नेट्र-म्यू, नेट्र-सल्फ, **नाइ-ऐ, नक्स-वोम,** फास-ऐ, फास, प्लैटि, **प्लम्बम,** सोरि **पल्स, रैना-बा,** सैबाडि, सैम्बु, सार्सा, सेने, सिपिया, **साइलि,** स्पाइ, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टियुक्रि, वैले, वायो-ओ, जिङ्क।

असहिष्णु, असभ्यताके कारण—काकु, कोलचि, फास-ऐ, स्टैफि।

" आवाजसे, पानी छिडकनेकी—नाइ-ऐसिड।

" " पैरकी—सैङ्ग, **काफिया,** नाइ-ऐसिड, नक्स-वोम।

" ऋतुके पहले—नाइ-ऐ, नक्स-वोम, सिपि।

" गडबडीके कारण—ऐकोन, ऐलो, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, ऐगिट-क्रू, ऐगिट-टा, एपि, आर्ज-नाइ, आर्निका, आर्स, ऐसाराम, अरम, बैरा-का, बैप्टि, **बेल,** बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-मै, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना,** काक्यु, **काफिया,** कोना, फेरम, फ्लु-ऐसिड, हेलि, इग्ने, **आइयो,** ड्रपि, कैलि-का, लैके, लाइको, मार्कु, मस्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नेट्र-स, नाइ-ऐसिड, **नक्स-वोम,** ओपि, फास, ऐसिड-फास, प्लैटि, पल्स, रास-ट, **सिपि, साइलि,** स्पाइ, थेरि **जिङ्क।**

" गाने बजानेसे—ऐकोन, ऐम्ब्रा, कास्टि, कैमो, काफि, डिजि, ग्रैफा, क्रियो, लाइको, मर्कु, नेट्र-फा, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नक्स-वोम, फास-ऐ, सैबाइ, **सिपि, स्टैनम,** टैरे, थूजा, वायो-ओ, जिङ्क।

" छूने या देखनेसे—ऐगिट-क्रू, ऐगिट-टा, आर्स, कैमो, सिना, साइलि।

" थोडा—ऐको, ऐलो, ऐगिट-क्रू, आर्ज-नाइ, बैरा-का, बोरैक्स, फेरम, लाइको, नेट्र-स, फास।

असहिष्णु गैग्रनोमि—ऐकोन, आर्स-ब्रेख, कोलचि, नक्स-वोम, फास, ।
" शिकायत करता है, अनुयोग करता है (Complaining)—ऐकोन, आर्स, अरम, विस्मथ, ब्राई, ब्यूफो, कैल्के, कैन्थ, कैमो, चायना, सिना, काकु, काफि, कोलोसि, कोरा-रु, डाल्का, हेलि, इग्ने, लैके, लाइको, मस्क, नक्स-वोम, ओपि, फास-ए, पेट्रो, प्लाटि, पल्स, सिपि, सल्फ, टैरे।
" हवामें—कास्टि, कैमो, लैके, सल्फ।

असान्त्वनीय (Inconsolable)—ऐको, ऐन्थ्रा, आर्स, कैमो, चायना, काफि, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, स्पंजि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

असावधान (Heedless)—ऐलूमि, ऐम्बा, ऐमोन-का, ऐना-का, ऐमाफि, बेल, कास्टि, कूप्रम, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, मार्कु, नक्स-म, ओपि, फास, रास्टक्स, रूटा, सिपि, जिङ्क।

अस्थिर चित्तता, (व्याकुलता Distraction)—ऐको, ऐगारिकस, ऐलूमि, ऐनाका, ऐग्नि-क्रू, आर्नि-का, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-वेज कास्टि, कैमो, चायना, काकु, कोलोसि, युफ्रे, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हाइयो, इग्ने, लिलि-टि, लाइको, मर्कु, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ए, फास, पल्स, साइलि, स्पाई, स्पंजि, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।

अस्थिरता (बेचैनी Restlessness)—ऐको, ऐगा, ऐलो, ऐनाका, ऐग्नि-क्रू, ऐग्नि-टा, एपि, आर्ज-मेट, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, अरम, अरम-म्यू, बैप्टी, बेल, बोरा, ब्रायो, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैन-सै, कैन्थ, कैपि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेली, चायना, सिना, सिमि, काकु, काफि, कोल्चि, कोलोसि, कोना, कोपे, कोरा-रु, क्रोका, कूप्रम, कूप्रम-आर्स, डिजि, ड्राय, ड्रॉसि, डल्के, युफ्रे, फेरम-फा, ग्रैफा, ग्रैटा, हाइयो, इग्ने, आइयो इपि, जैट्रो, कैलि-का, कैलि-फास, लैक-कै, लैके, लिडम, लिलि-टि, लाइको, मेडो, मर्कु, मर्कु-को, मास्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाई-ए, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास-ए, फास, प्लैटि

प्लम्ब, पल्स, रास्ट, रस-वे, रियुमेक्स, रूटा, सैम्बु, **सिकी,**
सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, स्टैफि, स्टैनम, **सल्फ,** टैरे, टेलू,
थूजा, विरे, वायो-ओ, जिङ्क।

अस्थिरता अकेलेमें रहनेपर—ऐलि-सि, मेजे, फास।
„ अंधड पानीके पहले—सोरि।
„ „ „ समय—जेल्स, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, फास, सोरि।
„ ऋतुके पहले—ऐको, कोलोसि, कोना, कैलि-का, क्रियो, लाइको, मैग-का, मैङ्ग, सिपि, साइलि, सल्फ।
„ „ समय—ऐको, आर्स, कैल्के, कैमो, काफि, साइक्ले, इग्ने, इपि, कैलि-का, नक्स-वोम, पल्स, रास-ट, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ।
„ „ बाद—मैग-फा।
„ ऋतु बन्द होकर (*suppressed*)—आर्स, सिमि, कैलि-का, निको, नक्स-वोम, रास-ट, सिपि, जिङ्क।
„ गर्भावस्थामें—ऐको, विरे।
„ गाना बजाना सुननेसे—टैवे।
„ घटना, बच्चो को गोदमें लेकर घूमनेपर—ऐण्टि-टा, आर्स, कैमो, सिना, कैलि-का।
„ „ खुली हवामें—अरम-म्यू, ग्रैफा, लैके, लोरो, लाइको, वैले।
„ घरके भीतर—लाइको।
„ जागनेपर—ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, बेल, कैम्फ, चायना, सिना, डाल्के, फास-ऐ, फास, सिपि, साइलि, स्कुट्टे, स्टैनम, टैरे।
„ ज्वरकी उत्तापवाली अवस्थामें—ऐको, ऐण्टि-टा, आर्नि, **आर्स,** बैप्टी, बैरा-का, बेल, कैमो, चायना, सिना, जेल्स, इपि, लैके, लाइको, मैग-का, ओपि, **पल्स,** रियुम, रास-ट, सैबाइ, सिकि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, वैले।
„ „ पसीनेवाली अवस्थामें—ब्राइयो, ग्रैफा, लैके।
„ „ शीतावस्थामें—ऐको, आर्स, बेल, बोरा, कैप्सि, कार्बो-वेज, युपेटो-पर्फ, नेट्र-म्यू, प्लैटि, रास-ट, साइ।

अस्थिरता बढना—बिछावनकी गरमीसे—आर्म-आयो, फेरम, आइयो, कौनि-स, लैके, नेट्रम-म्यू, पल्स।

" बच्चोंकी—ऐण्टि-टा, बोरा, कैमो, रियुम।

" बिछावनसे उठकर भागना चाहता है—आर्स, विसमथ, ब्राइयो, कार्बो-वेज, ग्रैफा, हिपर, आइयो, लाइको, मैग-का, नेट्र-म्यू, नाई-ए, नक्स-वोम, पल्स, रास-ट, सिपि, साइलि।

" बिछावनपर लेटकर छटपटाता है, करवट बदला करता है, (Tossing about)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐण्टि-टार्ट, एपि, आर्स, ऐसाफि, आरम-टि, बेप्टी, बेल, बोरै, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कैस्टो, कास्टि, कैमो, सिफि, सिना, सिस्टस, क्लिमे, काकु, कोरा रू, क्रोटन-टि, क्यूप्रम, वयूबे, डालके, फेरम, फेरम-आर्स, फेरम-फास, गुये, हेलि, इग्ने, कैलि-आर्स, क्रियो, लैके, लिडम, लाइको, मैग-म्यू, मार्कु, म्यू-ए, नेट्र का, नेट्र-म्यू, ओपि, पैरिस, फास, पल्स, रैना स्यू, रियुम, रास-ट, सेनि, सिपि, स्कुटे, स्ट्रैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, वैले, विरे।

" भीतरी (Internal)—ऐको, ऐगा, ऐट्रो, आर्स, कार्बो ऐनि कार्ल, चेलि, ड्रोसे, युपे, जिन्स, लौरे, लाइको, मैग का, मैग म्यू, मैंग-स, मिफा, नेट्र-म्यू, ओपि, पैरिस, प्लम्ब, फास, फास ए, रैना-बा, रियुम, रास-ट सिपि, साइलि।

" रातमें—ऐको ऐलूमि, एपि, आर्जे मे, आर्स, बैप्टि, बेल ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कोलोफा, कास्टि, कैमो, चायना, सिना सिष्टा, साइ ए, साइक्ला, डिजि गुफ्रे, इग्ने, लैक फै, लाइको, मैग-म्यू, मेडो, मार्कु, मार्क-को, नेट्र म्यू, नक्स वोम, ओपि, फास-ए, फास, पोडो पल्स, रैना बा, रास ट सिपि टिरुफि वैले, विरे, जिङ्क।

" शय्या त्यागनेके लिये बाध्य हो जाता है—ग्रैफा।

" शामको (सन्ध्यामें)—ऐको ऐगा ऐलूमि ऐमोन का, आर्स कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि हिपर, लाइको मार्क नक्स वोम फास ए, फास रियुम, सिपि सल्फ थूजा जिङ्क।

„ सवेरे (प्रातःकालके समय)—जेल्स, हाइयो, आइयो, लाइको, नेट्र-म्यू, फास-ऐ, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ सर-दर्दके समय—आर्ज-नाई, आर्स, वेल, ब्राइयो, कैमो, चायना, इग्ने, लैके, लाइको, रूटा, साइलि, सिफिलि।

„ स्त्री-सहवासके समय—कैल्के, कोपि, डिजि, पेट्रो।

अहङ्कारी—(Haughty)—ऐलूमि, आर्नि, कैना-ई, कास्टि, चायना, क्यूप्रम, फेरम, हाइयो, इग्ने, इपि, लैके, **लाइको,** मार्कु, नक्स-वोम, पैलै, फास, **प्लैटि,** स्टाफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे।

आघात करना—आर्ज-मेट, वेल, कूप्रम, ग्लोनो, हाइयो, इग्ने, कैलि-का, लाइको, फास, प्लम्ब, स्टैफि, स्ट्रैमो, टैरे, विरे।

„ करनेकी इच्छा—वेल, क्यूफो, हाइड्रो, हाइयो, नेट्र-का, स्टैफि।

„ „ अपने शरीरपर—आर्स, वेल, कैम्फर, टैरे, विरे-वि।

„ बालकके ऐसा करनेपर—**कैमो, सिना।**

आच्छन्न भाव (सुन्न होना stupor, sopor, coma)—इथि, ऐगा, ऐलान्थ, **एपि,** आर्नि, वैप्टी, वेल, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, हेलि, हाइयो, लोरो, म्यू-ऐ, नक्स-म, ओपि, फास-ऐ, फास, पाइलो, रास-ट, स्ट्रैमो, टैरि, थाइरायेड, विरे, जिङ्क।

आत्मनिर्भरता, या आत्मप्रत्ययकी कमी—ऐग्न, ऐलूमि, **ऐनाको,** आर्ज-नाई, अरम, बैरा-का, वेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, जेल्स, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-का, लैक-कै, लैके, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, रास-ट, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि, टैबे, जिङ्क।

आत्महत्याकी इच्छा—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, आर्ज-नाई, आर्स, **अरम, अरम-म्यू** वेल, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिमि, क्रोटै-हो, ड्रोसे, जेल्स, हेलि, हिपर, हाइयो, कैलि-ब्रो, लैके, मार्कु, मेजे, नेट्र-स, नाई-ऐ, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रास-ट, सिपि, साइलि, स्पाई, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ ऊँचे स्थानसे कूदकर—ऐना-का, आर्ज-नाई, आर्स, अरम, वेल, कैम्फ, नक्स-वोम, स्ट्रैमो।

आत्महत्याकी इच्छा खिड़कीसे कूदकर—इग्नि, आर्स, अरम, बेल, ग्लोनो, थूजा, विरे।

„ ऋतुके समय—मार्कु, साइलि।

„ पर साहस नहीं होता—चायना, नक्स-वोम, फास, टैरे।

„ गलेमें फांसी लगाकर—आर्स, बेल, टैरि।

„ गोली मारकर—ऐनाका, अरम, कार्बो-वेज, हिपर, मेडो, नेट्र-स, नक्स-वोम, पल्स।

„ छुरी मारकर—ऐलूमि, आर्स, बेल, कॉल्कि, मार्कु, स्ट्रैमो।

„ पानीमें डूबकर—ऐग्रिट-क्रू, बेल, ड्रोसे हेलि, हाइयो, इग्ने, लैके, पल्स, रास-ट, सिके, साइलि, विरे।

„ विष खाकर—लिलि-टि।

आनन्द (Pleasure)—ऐना-गे, कैना-इ, ड्रिलि।

„ अपनी ही बातोंसे—पैरि, नेट्र-म्यू, स्ट्रैमो।

„ कामोद्दीपक विचारों से—वेल।

„ की वजहसे बीमारियां—(Ailments from excessive joy) ऐको, कास्टि, काफि, क्रोक, साइक्ला, नेट्र-का, ओपि, पल्स।

आनन्दित (Cheerful) "प्रफुल्लचित्त" देखिये।

आमोदकी इच्छा (हंसी दिल्लगी)—लैके।

„ से चिढ़—मिनि।

आलसी—"दीर्घ-सूत्री" देखिये।

आलस्य—(Idleness, aversion to work)—ऐगा, ऐलूमि ऐमो-का, ऐनाका, एपि, आर्नि, आरम, आरम-म्यू, बैप्टी, बेरा-का, बेल, बोरै, कॉल्कि, कैप्सि, चेलि, चायना, काफ, माइका, ग्रैफा, हिपर, लैके, लैकि, मिफा, मेजे, नेट्र-म्यू, नाइ-ए, नक्स-वोम, फास-ए, फास, पल्स, सैबाडि, सिपि, सल्फ, टियुक्रि थेरि थूजा, जिङ्क।

आशापूर्ण (Hopeful)—ऐको फेरम-मे, हाइड्रो, गिने।

इच्छा, असम्पूर्ण—(पूरी न होना)—ऐनाका, आर्ज-नाइ आर्स ब्राइओ कोना, हेलि, इपि, लैक, मार्कु, नेट्र-म्यू, फस्फ-ए ओपि प्लैटि ?, पल्स सल्फ।

इच्छा असम्पूर्ण, दो इच्छाएं एक साथ है ऐसा सोचता हैं—**ऐनाका,** लैके।
„ प्रबल—ऐलो, कैल्के, हाइयो, हेलि, लैके, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, स्टैफि।

उच्चाकांक्षा नष्ट—(Loss of ambition)—ऐपोसा, डाय, नेट्र-फास, पेट्रो, सेङ्ग, सिपि।

उत्कण्ठा—"उद्वेग" देखिये।

उत्तर देना, अनिच्छासे—ऐगा, आर्नि, कोलोफा, बेल, चायना, **ग्लोनो, हाइयो,** मैन्सि, मर्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, **फास-ऐ,** फास, पल्स, सिके, स्ट्रैम, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।
„ असगत—(ठीक ठीक नहीं)—बेल, कार्बो-वेज, हाइयो, नक्स-म, फास-ऐ, सल्फ-ऐ, वेले।
„ अस लग्न—बेल, कैना-ई, हाइयो, फास, वैले,।
„ „ मानो कुछ दूसरी ही चिन्तामें है—वेरा-म्यू, मस्क।
„ अस्वीकार करता है—ऐगा, एम्ब्रा, आर्नि, आर्स, बेल, कैम्फ, चायना, सिमि, हेलि, हाइयो, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, **सल्फ,** विरे।
„ एक बातमें—कार्बोनि-हा, जेल्स, ऐसिटि-ऐ, प्लम्ब।
„ कष्टसे—फास-ऐ, फास, सल्फ, विरे।
„ क्रोधमें रहनेकी तरह—रास-ट।
„ गडबड—"अस लग्न" देखिये।
„ गाता है, बात करता है पर सवालका जवाब नहीं देता—ऐगा।
„ जल्दी जल्दी—आर्स, बेल, ब्राइयो, सिमि, ल्पिर, लैके, लाइको, रास-ट।
„ थोडेमें—(स क्षेपमें) सिकि, हाइयो जैट्रो, फास-ऐ, स्ट्रैम, सल्फ, टैरे।
„ धीरे धीरे—ऐनाका, आर्स, कार्बो-वेज, काक्यु, कोना, हेलि, **मार्कु,** नक्स-म, ओपि, **फास-ऐ, फास,** रास-ट, सल्फ, थूजा।
„ नहीं, सभी बातो का—क्रोटे-हो, हाइयो।
„ पूछनेपर, पर किसीको पहचान नहीं सकता—सिकि।
„ मूर्खों की तरह—आर्स, बेल।

सोरि, पल्स, रोडो, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैफि, सल्फ, थूजा, विरे, वायो-ट्रि।

उदासी, दोष या कमी नहीं बताता—हाइयो, ओपि।

„ „ न पूछनेपर—कोलचि।

„ पूछनेपर कहता है, वह अच्छा है—आर्नि।

„ प्रत्येक पदार्थसे—ऐकोन, ऐनाका, आर्नि, बेल, कैप्सि, **कार्बो वेज**, सिना, इग्ने, मार्कु, नक्स-म, फास, सिपि, सल्फ।

„ बदनका कपड़ा उतार देनेपर भी—हाइयो, फास, फाइटो, सिके।

„ रिश्तेदारोंके प्रति—फ्लू-ऐ, हेलि, हिपर, नेट्र-का, **फास**, प्लैटि, सिपि।

„ रोग आराम होनेके सम्बन्धमें अपना—कैल्के।

„ व्यवसाय-वाणिज्यमें—ऐगा, आर्ज-ना, फ्लू-ऐ, सिपि, स्ट्रैमो।

„ स्त्री-पुरुषोंमें—थूजा।

„ हँसी-दिल्लगीसे—ऐलूमि, ऐना-का, आर्स, कैमो, काफि, ग्रैफा, हिप, इपि, कैलि-का, मेजे, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, पल्स, स्ट्रैफि, **सल्फ**।

उद्वेग, उत्कण्ठा (Anexiety)—ऐब्रो, **ऐको**, ऐसि-फास, इथि, ऐगा, ऐग्न, ऐलि-सि, ऐलो, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐसोन-का, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, एपि, आर्ज-मे, **आर्ज-ना**, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, **अरम**, बैरा-का, बैरा-म्यू बेल, **बिस्मथ**, **बोरे**, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैल्के, **कैल्की-फास**, **कैम्फ**, **कैना-इ**, कैन्थ, कार्बो-ऐ, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कैमो, चेलि, **चायना**, सिफि, सिना, काक्यू, काफि, कोलिसि, कोना, क्रूप्रम, डिजि, ड्रोसे, डाल्के, फेरम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, **कैलिका**, कैलि-आ, क्रियो, लैके, लोरो, लीडम, लिलि-टि, लाइको, मैंग्ने-का, मैग-म्यू, मार्कु-को मेजे, मस्क, म्यू-ऐ, **नेट्र-का**, नेट्र-म्यू, **नाइ-ऐ**, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, **फास**, प्लैटि, प्रम्ब, **सोरि**, **पल्स**, रास, सेवाडि, सेब्रा, सेम्ब्यु, सेङ्गु, **सिके**,

उद्वेग—बोलनेके समय—ऐल्‌मि, ऐम्ब्र्‌ा, नेट्र-का, प्लैटि, स्ट्रैमो।

" भयकी वजहसे—ऐल्‌मि, ऐमोन-म्यू, ऐगिट-क्रू, ऐगिट-टा, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, चायना, सिना, काक्यू, काफि, कूप्रम, डिजि, ड्रोसे, डाल्के, ग्रैफा, हिपर, ह्लाइयो, इग्ने, कालि-का, क्रियो, लैके, मैंग-का, मार्कु, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्‌स, रासूटक्स, सिकि, सिपि, स्पाइजि, स्ट्रान्सि, सल्फ, थूजा, विरे।

" भविष्यकी चिन्ताके कारण—ऐकी, ऐल्‌मि, ऐनाका, ऐगिट-क्रू, ऐगिट-टा, आर्नि, बैरा-का, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, चिनि-स, सिकि, डिजि, ड्रोसे, डाल्का, युफ्रे, जेल्‌स, ग्रैफा, लैके, नेट्र-म्यू, नेट्र-का, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, सोरि, पल्‌स, रासूटक्स, सैबाई, स्पाई स्पञ्जि, स्ट्रैनम, स्ट्रैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

" भीड़में—ऐको, ऐम्ब्र्‌ा, बेल, लाइको, पेट्रो, प्लैटि, स्ट्रैमो।

" भ्रमणके समय—ऐको, ऐनो, ऐगिट-क्रू, आर्जे मे, आर्जे-ना, बैरा-का, बेल, सिना, हिपर नक्स-वोम, प्लैटि, स्पञ्जि, स्ट्रैफि-

" " खुली हवामें—ऐनाका, आर्जे नाई, बेल, सिना, हिपर, लाइको, नक्स-वोम, प्लैटि।

" " घटना—पल्‌स रसूटक्स।

" " बढ़ना—नाई-ऐ, स्ट्रैफि।

" " मानो कोई पीछा करता है—ऐनाका।

" " " और भी तेज जानेके लिये बाध्य करता है—आर्जे-ना।

" मानसिक परिश्रमके बाद—नेट्र का, प्लैटि।

" रात जागरणसे—कास्टि, काफि, कूप्रम, नाइट्रि-ऐ।

" मद्यपानके बाद—सिपि।

" " की चिन्तामें—क्रियो।

" मद्यपानका स्वप्न देखनेपर—"स्वप्न" देखिये।

" सामान्य कारणमें—ऐनाका, आर्स, बैरा का, कैल्के, कास्टि, चायना काक्यू, कैमो, ग्रैफा, नाइमि।

„ घूमनेके लिये बाधा करता है, तेज—"घूमनेके लिये बाधा करता है," देखो ।

„ चिन्ताके कारण—ऐको, आर्स, कैल्के, कैम्फ, कैमो, नक्स-वोम, पल्स, रास-टा, सिके, विरे ।

„ छातीमें दबावके साथ—**सल्फ** ।

„ छातीमें धड़कनके साथ—ऐको, अरम, कैल्के, कैमो, डिजि, फेरम, लाइको, ग्लने, मस्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, प्लेटि, पल्स, **स्पाई**, ऐण्टि-टा, विरे ।

„ ज्वरकी हालतमें—(१) ऐको, आर्स, सिपि, (२) ऐलूमि, ब्राइयो, कैल्के, मैग-का, फास, पल्स, (३) आर्नि, बेल, कैमो, चायना, हिपर, ग्लने, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, प्लेटि, सल्फ ।

„ ज्वर छूटनेके समय—ऐंथो, कैम्फर ।

„ दर्दकी वजहसे—ऐको, आर्स, कार्बो-वेज, सिपि, विरे ।

„ दुःख भरी कहानी सुननेपर—सिकि ।

„ पाकाशयकी वजहसे—ऐसाफि, जेल्स, हिपर, लैके, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, फास, रोडो, सिपि, सल्फ ।

„ पाखाना होनेके पहले—ऐकोन, ऐण्टि-क्रू, आर्स, बोरा, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, कैमो, मर्कु, रास-ट, सेबाडि, विरे ।

„ „ समय—ऐकोन, आर्स, कैम्फ, कैन्थ, कास्टि, कैमो, मार्कु, प्लेटि, सिके, सिपि, स्ट्रेमो, सल्फ, विरे ।

„ „ बाद—ऐकोन, बोरैक्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, मार्कु, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, रास्टकूस ।

„ पेशाब करनेके पहले—ऐलूमि ।

„ „ „ समय—ऐकोन, कैमो ।

„ बच्चोंको—बोरैक्स, कैल्के, फास, जेल्स, कैलि-का ।

„ „ बिछावनसे उठनेपर—कैल्के, फास ।

„ बुरे समाचारसे—आर्नि, आर्स, कैल्के, कैमो, ग्लने, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ फास-ऐ, बैले ।

उद्वेग—बोलनेके समय—ऐल्-मि, ऐम्ब्रा, नेट्र-का, प्लैटि, स्ट्रैमो।

„ भयकी वजहसे—ऐल्-मि, ऐमोन-म्यू, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, आर्स, आरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्प, कास्टि, चायना, सिना, काक्यू, काफि, कूप्रम, डिजि, ड्रोसे, डाल्के, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, कालि-का, क्रियो, लैके, मैग-का, मार्कु, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रास्टक्स, सिपि, सिपि, स्पाइजि, स्ट्रामि, सल्फ, थूजा, विरे।

„ भविष्यकी चिन्ताके कारण—ऐको, ऐल्-मि, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, आर्नि, बैरा-का, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, चिनि-स, सिकि, डिजि, ड्रोसे, डाल्का, ग्रुफ़ि, जेल्स, ग्रैफा, लैके, नेट्र-म्यू, नेट्र-का, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, सोरि, पल्स, रास्टक्स, सैबाडि स्पाई, स्पञ्जि, स्ट्रैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

„ भीड़में—ऐको, ऐम्ब्रा, बेल, लाइको, पेट्रो, प्लैटि, स्ट्रैमो।

„ भ्रमणके समय—ऐको, ऐनो, ऐण्टि-क्रू, आर्जे मे, आर्जे-ना, बैरा-का, बेल, सिना, हिपर, नक्स-वोम, प्लैटि, स्पञ्जि, स्टैफि-

„ „ खुली हवामें—ऐनाका, आर्जे नाई, बेल, सिना, हिपर, लाइको, नक्स-वोम, प्लैटि।

„ „ घटना—पल्स, रस्टाक्स।

„ „ बटना—नाई-ऐ, स्टैफि।

„ „ मानो कोई पीछा करता है—ऐनाका।

„ „ „ और भी तेज जानेके लिये बाधा करता है—आर्जे-ना।

„ मानसिक परिश्रमके बाद—नेट्र का, प्लैटर।

„ रात जागरणसे—कास्टि, काफि, कूप्रम, नाइट्रि-ऐ।

„ सङ्गमके बाद—सिपि।

„ „ की चिन्तामें—क्रियो।

„ सङ्गमका स्वप्न देखनेपर—"स्वप्न" देखिये।

„ सामान्य कारणसे—ऐनाका, आर्स, बैरा का, कैल्के, कालि [illegible] काफ्यू, कोना, ग्रैफा पाइलि।

उद्वेग— सीढी चढकर ऊपर जानेके समय—नाइट्रि-ऐ ।

" सोनेपर—ऐम्ब्रा, आर्स, बैरा का, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, काफि, ग्रैफा, हिपर, लाइको, मैग-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे ।

" स्वास्थ्यके सम्बन्धमें—ऐसेटि-ऐ, ऐको, ऐलूमि, आर्जे-मे, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, ड्रग्ने कैलि-का, लैके, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास ऐ, फास, सोरि, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ ।

" सवेरे (प्रातः कालके समय)—आइलैन्थ, ऐलूमि, आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, काक्यू, ग्रैफा, ड्रग्ने, इपि, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, विरे, जिङ्क ।

" " घटना—फ्लू-ऐ, नक्स-वोम, सिपि ।

" सध्याके समय—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, बेल, बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिना, काफि, डिजि, ड्रोसे, ग्रैफा, हिपर, लोरो, लाइको, मैग-का, माकु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स वोम, फास, पल्स, रास्टक्स, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, विरे ।

" " घटना—ऐमोन का, चेलि, मैग का, सल्फ-ऐ, जिङ्क ।

" रातमें—ऐको, ऐगारि, ऐलू, ऐम्ब्रा, ऐरिट-क्यू, आर्स, बेल, बोरै ब्राइयो कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, काफि, डिजि, डालका, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, ड्रग्ने, लैके, मैग-का, माकु, माकु-को, नेट्र म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, पल्स, सैंगु, सिपि, साइलि, स्पञ्जिया, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क ।

" रातमें जाग जानेपर—ऐलू, आर्स, कार्बो-वेज, चेलि, कोना, ड्रोसे,

ग्रैफाइट, लाइको, नेट्र म्यू, नाइट्रि-ए, फास, पल्स, साइलि, **सल्फ**, जिङ्क।

उन्माद, उन्मत्तता—पागलपन (Mania, madness)—ऐब्सि, ऐकोन, इथि, ऐगारि, आइलैन्थ, ऐलूमि, ऐनाका, ऐण्टि क्रू, एपि, आर्नि, आर्ज मे, **आर्स**, अरम-ट्रि, अरम, बेरा का, बैरा-म्यू, बेल, ब्रोमि, ब्यू, कैक्टस, कैलाडि, कैल्के, कैम्फ, केना-इ, कैना-से, कैन्थ, चेलि, चायना, चिनि-म, सिकि सिवि, काक्यू, काफि, कोलचि, कोना, क्रोटे कै, क्रोटे-हो, कूप्रम, कूप्रम-ऐसि, साइक्ला, डिजि, ग्लोनो, हेलि, हिपर, **हाइयो**, इग्ने, आइयो, कैलि-ब्रो, **कैलि-फस्फो**, कैलि-आ, लैके, लिडम, **लाइको**, मैंग्नि, मार्क, मार्कु को, नक्स-म, नक्स-वोम, इवा, ओपि, आक्जे-ए, फास, प्लम्ब, मोरि पल्स, रैफि, रोडो, रास टक्स, सैबाडि, सिके, सिने, सिपि साइलि, स्कु ई, **स्ट्रैमो**, सल्फ, टैरे, टेरि, **विरे**, विरे-वि, जिङ्क।

" एक विषयोन्माद, एक विषयमें आसक्ति—ऐकोन, ऐनाका, कार्बो-वेज, कैम्फ, हेलि, इग्ने, नक्स म, पल्स, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

" कामोन्माद—(Nymphomania)—ऐगा, ऐण्टि-क्रू, एपि, बैरा-म्यू, बेल, कैलाडि, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ कैना इ, कैना-से, कैन्थ, कार्बो वेज, कौक्क, चायना, काफि, डिजि डाल्का, फ्लू-ए, ग्रैफा, ग्रैटि, **हाइयो**, कैलि ब्रो लैके लिलि टिग, लाइको, मस्क, मर्क, म्यूरे, नेट्र-म्यू, नक्स-मोस, ओपि, **ओरिगै**, फास, पिक्रि-ए, **प्लैटि**, प्लम्ब पल्स रैफे रोबि, सैबा, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे, विरे जिङ्क।

" " ऋतुके पहले—कैल्के-फास स्ट्रैमो विरे।

" " ऋतुके समय—हाइयो कैलि फास, स्ट्रैमो विरे।

" " ऋतु लोप होनेपर—ऐण्टि क्रू, कैन्थ, चायना, काफ हाइयो म्यूरे, फास प्लैटि, स्ट्रैमो साइलि, सल्फ विरे जिङ्क।

" " गर्भावस्थामें—जिङ्क।

उद्वेग— सीढ़ी चढ़कर ऊपर जानेके समय—नाइट्रि-ऐ।

„ सोनेपर—ऐम्ब्रा, आर्स, बैरा-का, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, काफि, ग्रैफा, हिपर, लाइको, मैग-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे।

„ स्वास्थ्यके सम्बन्धमें—ऐसेटि-ऐ, ऐको, ऐलूमि, आर्जे-मे, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, इग्ने कैलि-का, लैके, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास ऐ, फास, सोरि, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ सवेरे (प्रातः कालके समय)—आइलैन्थ, ऐलूमि, आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, काक्यू, ग्रैफा, इग्ने, इपि, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ „ घटना—फ्लू-ऐ, नक्स-वोम, सिपि।

„ संध्याके समय—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, बेल, बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिना, काफि, डिजि, ड्रोसे, ग्रैफा, हिपर, लोरो, लाइको, मैग-का, मार्क, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स वोम, फास, पल्स, रास्टक्स, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, विरे।

„ „ घटना—ऐमोन का, चेलि, मैग का, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

„ रातमें—ऐको, ऐगारि, ऐलू, ऐम्ब्रा, ऐण्टि-क्रू, आर्स, बेल, बोरे ब्राइयो कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐ, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, काफि, डिजि, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके, मैग-का, मार्क, मार्क-को, नेट्र म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, पल्स, सैगु, सिपि, साइलि, स्पञ्जिया, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।

„ रातमें जाग जानेपर—ऐलू, आर्स, कार्बो-वेज, चेलि, कोना, ड्रोसे,

ग्रैफा, हेलि, हाइड्रो ऐ, हाइयो, कालि-का, लैक-कैन, मेडो, मार्कु, नेट्र का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, टेबे, टैरि, थूजा, (२) ऐगा, आर्स, बैप्टी, बेल, काफि, कोल्चि, इग्ने, गस-टक्स, सेगु, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, ज़िङ्क।

एकाग्रचित्त, काष्टकर, पढनेके समय—ऐग्न, ऐलूमि, बैरा-का, बेल, कास्टि, कैमो, कैल्नि-कार्ब, नेट्र-का, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ बोलनेके समय—मार्कु-कोर।

कल्पना—"खेद करना" देखिये।

कलहप्रिय (झगड़ालू—Quarrelsome)—ऐको, ऐगिट टा, आर्नि, आर्स, अरम, बेल, बोवि, ब्रोमि, ब्राइयो, केल्के, कैम्फ, कास्टि, कैमो, चायना, कोना, क्रोका, कूप्रम, कूप्रम-आर्स, डाल्का, हाइयो, इग्ने, इपि, लैके, लाइको, मार्कु, मस्क, नेट्र म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, मोरि, रैना-का, सिपि, स्ट्रैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे-वि।

कल्पनामें अभिभूत (Absorbed in fancies)—आर्निका, कूप्रम, साइलि, स्ट्रैमो।

„ ऊँची—ऐब्-मि, ऐकोन, ऐगा, ऐलूमि, ऐन्या, ऐड्रा, ऐगिट-म्यूड, आर्जना, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, अरम, बेल, ब्रायो, कैल्के, कैना-इ, कैन्थ, कैमो चायना, फाकु, डिजि, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हाइयो, लैके, लाइको, मार्कु, नेजा, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लैटि प्रम्बम, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ कामोद्दीपक—ऐम्ब्रा, ग्रैफा, लाइको, ओपि।

„ डरानेवाली—कैल्के, कास्टि, मर्क, ओपि, साइलि, स्ट्रैमो।

„ नींदमें—नेट्र-म्यू।

„ नींदसे पहले—चेलि हेलि, इग्ने, फास।

कविता करता है—ऐगा, ऐगिट कै [illegible] मो [illegible]

काटना दाँतसे—ऐगिट-टा, बेल, [illegible] [illegible] ना-क, कैना कार्ब-ओपि फास फास्टो,

पेज [illegible]

स्ट्रै [illegible]

उन्माद, चौर्योन्माद—(Kleptomania)—कमी न रहनेपर भी चोरी करनेकी अदम्य इच्छा—ऐब्सि, आर्स, आर्टिमे-वा, ब्राइयो, कास्टि, क्यूरेयार, कालि-का, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ, स्टैफि, स्ट्रैमो, टैरे।

„ „ धन चुराना—कैल्के।

„ धर्म-विषयमें—सिलि, सल्फ।

„ विषादोन्माद—(Lypemania, melancholia, with insanity)—आर्स, **अरम**, कास्टि, सिकि, **इग्ने**, नक्स-वोम, पल्स।

„ शराब पीनेके कारण—ऐकोन, **ऐगरि**, ऐण्टि-क्रू, आर्नि, **आर्स**, बेल, बिस्मथ, कैल्के, कैना-इ, कार्बो-वेज, चायना, क्लोरे, सिमि, काफि, क्रोटे ह्वो, डिजि, जैल्स, ग्रैटि, हेलि, हाइयो, इग्ने, कैलि-ब्रो, **लैके**, लिडम, लाइको, मार्क, नेट्र-का, **नेट्र-म्यू**, **नक्स-म**, नक्स वोम, ओपि, फास, पल्स, रैना-वा, रोडो, रास-टक्स, रूटा, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ ऐ, सल्फ, विरे जिङ्क।

„ सूतिकोन्माद—(Peurperal mania)—इग्ने, अरम, बेल, कैम्फ कूप्र-ऐ, सिमि, हाइयो, प्लैटि, सिके, सेनेकि, स्ट्रैमो, विरे, विरे-डि।

उपहास करनेके समय—ऐकोन, हाइयो, लैके, नक्स-वोम, विरे।

उल्लास—(Exhilaration)—ऐकोन, ऐगा, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रू, आर्जे मे, बेल, कैम्बर, **कैना-इ**, कार्बो-ऐनि, सिनावे, कक्कु, **काफि**, फ्लू ऐ, जैल्स, हाइयो, **लैके**, मेडो, **ओपि**, आक्जा ऐ, फास, पाइप-मि, माइरि, सिके, सेने, स्ट्रैमो, टैरे, थेरि, वैले, जिङ्क।

एकाग्रचित्त, सहजमें—काफिया, आक्जा-ऐ।

„ कष्टकर—(१) ऐनाका कार्बो-वेज, ग्लोनो, लैके, लाइको, नक्स-म, नक्सवोम, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, (२) इथू, ऐग्न, ऐलूमि, ऐमोन-का, एपि, बैरा-का, बोवि, कैना-इ कैम्फ, कार्बो-ऐ, कास्टि, सिमि, कोना, कूप्र, क्रोमेरा, डाल्का, जैल्स,

कोमल स्वभाव—आर्नि, आर्स, बेल, बोरा, कैक्ट, कैलेडि, कैल्के, कैना-इ, कार्बो-ऐ, कास्टि, चेलि, सिना, काकु, इग्ने, आइयो, लिलि-टि, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, ओपि, फास-ऐ, फास, सल्फ, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरि, जिङ्क।

कञ्जूस—आर्स, लाइको, पल्स, सिपि।

क्रोध,—(Anger)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐसोन-का, ऐनाका, एपि, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, ऐसार, अरम, बैरा-का, बेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, काकि, काफि, कोलोसि, कोना, क्रोका, डिजि, ड्रोसे, डालके, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने आइयो, इपि, कैलिका, लाइको, मार्कु, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पैने, पेट्रो, फास, प्लैटि, सोरि, पल्स, रूटा, सिपिया, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, स्टैनम, सल्फ, टैरे, थूजा, वैले, विरि, जिङ्क।

क्रोध—छूनेपर—ऐण्टि-क्रूड।

„ भ्रमकी वजहसे उत्पन्न, अपने—नाइ-ऐ, सल्फ।

„ बात काटनेपर, प्रतिवाद करनेपर—ऐलो, ऐनाका, आर्स, अरम, ब्राइयो, कैल्के-फास, काकि, फ़ेरम, इग्ने, लाइको, मार्कु, निको, नक्स-वोम, ओलियेै, पेट्रो, साइलि, स्ट्रैमो, थूजा।

„ बीमारी, क्रोध या चिढ़ उठने बाद—ऐकोन, ऐगा, ऐसोन-का, ऐण्टि-टा, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के फास, कास्टि, कैमो, चायना, काकि, काफि, कोलोसि, कुप्रम, हाइयो, इग्ने, इपि, लाइको, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नक्स म, नक्स-वोम, ओपि, फास ऐ, फास, प्लैटि, पल्स रास्टक्स सिपि, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरि, जिङ्क।

„ बच्चा यह वह मांगता है, पर देनेसे क्रोध करता है—ऐण्टि टा आर्यो, कैमो, सिना, इपि, क्रियो, रियुम, स्टैफि।

काटना दाँतसे—अपनेको—ऐकोन, ओपि, प्लम्बम, टैरे, लाइसि।
„ अंगुली—अरम-ट्रि, प्लम्बम, ओपि।
„ चम्मच, गिलास इत्यादि—आर्स, वेल, कूप्र, लाइसि।
„ तकिये को—लाइसि, फास।
„ „ हाथ—हियुरा, ओपि।

कामकाजसे अनिच्छा (मानसिक)—ऐकोन, **ऐलोज**, ऐनाका, अरम, वैप्टी, वेल, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, **चेलि, चायना,** कोलचि, कोना, डालका, फेरम, जेल्स, लिलि-टिग, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाट्र-ऐ, **नक्स-वोम,** ओपि, फास-ऐ, फास, फाइटो, पिक्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाई, स्टैफि, सल्फ, थूजा।
„ की इच्छा (मानसिक)—ऐलो, आर्नि, अरम, ब्रोमि, कोवाल्ट, थेरि।
„ की इच्छा न करना—असफल होनेके भयसे—आर्ज-ना, साइलि।
„ में आस्था न रहना (Business, averse to)—ऐगा, ऐमोन-का, ऐना-का, आर्स, कोना, ग्रैफा, लैके, फाइटो, पल्स, सल्फ।
„ अपारग—ऐगा, कैलि-वा, सल्फ-ऐ।

कामुकता (Lasciviousness)—ऐलो, ऐम्ब्रा, एपि, अरम, बोवि, कैलेडि,
„ कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, चायना, काकु, कोना, हाइयो, इग्ने, **लैकि,**
„ लाइको, लिलि-टि, मार्कु, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, पिक्रि-ऐ, प्लैटि,
„ सिलिनि, सिपि, साइलि, **स्टैफि,** टैरे।

कामोन्माद—"उन्माद देखिये।"

काखना, कराहना—"गोगियाना" देखिये।

कूद पड़ना (Jumping)—ऐगा, वेल, सिकु, क्रोक, ग्रैटि, हाइयो, लैकि, स्ट्रैमो।
„ खिड़कीसे—"आत्महत्या" देखिये।
„ बिछावनसे—ऐकोन, आर्ज-ना, आर्स, वेल, चायना, चिनि-स, कूप्रम, ग्लोनो, **हाइयो,** लैके, मार्कु, ओपि, फास, पल्स, मेवाडि, स्ट्रैमो।

कोमल स्वभाव—आर्नि, आर्स, बेल, बोरा, कैक्ट, कौलेडि, कौल्के, कैना-ष्ट, कार्बो-ऐ, कास्टि, चेलि, सिना, काकु, इग्ने, आइयो, लिलि-टि, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, ओपि, फास-ऐ, फास, सल्फ, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सब्जि, ष्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरि, जिङ्क।

कञ्जूस—आर्स, लाइको, पल्स, सिपि।

क्रोध,—(Anger)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐनाका, एपि, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, ऐसार, अरम, बैरा-का, बेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैन्थ, कैपि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, काकि, काफि, कोलोसि, कोना, क्रोका, डिजि, ड्रोसे, डलके, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने आइयो, इपि, कैलिका, लाइको, मार्कु, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेलि, पेट्रो, फास, प्लेटि, सोरि, पल्स, रूटा, सिपिया, साइलि, स्टैफि, ष्ट्रैमो, स्ट्रैनम, सल्फ, टैरे, थूजा, वैले, विरि, जिङ्क।

क्रोध—छूनेपर—ऐपिट-क्रूड।

„ भ्रमकी वजहसे उत्पन्न, अपने—नाइ-ऐ, सल्फ।

„ बात काटनेपर, प्रतिवाद करनेपर—ऐलो, ऐनाका, आर्स, अरम, ब्राइयो, कैल्के-फास, काकि, फेरम, इग्ने, लाइको, मार्कु, निको, नक्स-वोम, ओलियेँ, पेट्रो, साइलि, ष्ट्रैमो, थूजा।

„ बीमारी, क्रोध या चिढ उठने बाद—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-का, ऐपिट-टा, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के फास, कास्टि, कैमो, चायना, काकि, काफि, कोलोसि, फ्रम, हाइयो, इग्ने, इपि, लाइको, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास ऐ, फास, प्लेटि, पल्स, रासटक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमस, स्टैफि, ष्ट्रैमो सल्फ, विरि, जिङ्क।

„ बच्चा यह सब मांगता है, पर देनेसे मांग फेंकता है—ऐपिट टा आयो कैमो, सिना, इपि क्रियो, रियुम ष्टैफि।

काटना दाँतसे—अपनेको—ऐकोन, ओपि, प्लम्बम, टैरे, लाइसि।

, अंगुली—अरम-ट्रि, प्लम्बम, ओपि।

„ चम्मच, गिलास इत्यादि—आर्स, बेल, कूप्र, लाइसि।

„ तकिये को—लाइसि, फास।

„ „ हाथ—हियुरा, ओपि।

कामकाजसे अनिच्छा (मानसिक)—ऐकोन, **ऐलोज,** ऐनाका, अरम, बैप्टी, बेल, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, **चेलि, चायना,** कोलचि, कोना, डालका, फेरम, जेल्स, लिलि-टिग, लाइको, माकु, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, **नक्स-वोम,** ओपि, फास-ऐ, फास, फाइटो, पिक्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टैफि, सल्फ, यूजा।

„ की इच्छा (मानसिक)—ऐलो, आर्नि, अरम, ब्रोमि, कोबाल्ट, थेरि।

„ की इच्छा न करना—असफल होनेके भयसे—आर्ज-ना, साइलि।

„ में आस्था न रहना (Business, averse to)—ऐगा, ऐमोन-का, ऐना-का, आर्स, कोना, ग्रैफा, लैके, फाइटो, पल्स, सल्फ।

„ अपारग—ऐगा, कैलि-बा, सल्फ-ऐ।

कामुकता (Lasciviousness)—ऐलो, ऐम्ब्रा, एपि, अरम, बोवि, कैलेडि,

„ कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, चायना, काकु, कोना, हाइयो, इग्ने, **लेकै,**

„ लाइको, लिलि-टि, माकु, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, पिक्रि-ऐ, प्लेटि,

„ सिलिनि, सिपि, साइलि, **स्टैफि,** टैरे।

कामोन्माद—"उन्माद देखिये।"

काखना, कराहना—"गोंगियाना" देखिये।

कूद पड़ना (Jumping)—ऐगा, बेल, सिकु, क्रोक, ग्रैटि, हाइयो, लैकि, स्ट्रैमो।

„ खिड़कीसे—"आत्महत्या" देखिये।

„ बिछावनसे—ऐकोन आर्ज-ना, आर्स, बेल, चायना, चिनि-स, कूप्रम, ग्लोनो, **हाइयो,** लैके, माकु, ओपि, फास, पल्स, मेयाडि, स्ट्रैमो।

कोमल स्वभाव—आर्नि, आर्स, बेल, बोरा, कैक, कैलेडि, कैल्के, कैना-इ, कार्बो-ऐ, कास्टि, चेलि, सिना, काकु, इग्ने, आइयो, लिलि-टि, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, ओपि, फास-ऐ, फास, सल्फ, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, ष्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरि, जिङ्क।

कञ्जूस—आर्स, लाइको, पल्स, सिपि।

क्रोध,—(Anger)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐनाका, एपि, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, ऐसार, अरम, बैरा-का, बेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, काक्कि, काफि, कोलोसि, कोना, क्रोका, डिजि, ड्रोसे, डालके, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने आइयो, इपि, कैलिका, लाइको, माकु, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेलो, पेट्रो, फास, प्लैटि, सोरि, पल्स, रूटा, सिपिया, साइलि, स्टैफि, ष्ट्रैमो, स्टैनम, सल्फ, टैरे, थूजा, वैले, विरि, जिङ्क।

क्रोध—छूनेपर—ऐण्टि-क्रूड।

" भ्रमकी वजहसे उत्पन्न, अपने—नाइ-ऐ, सल्फ।

" बात काटनेपर, प्रतिवाद करनेपर—ऐलो, ऐनाका, आर्स, अरम, ब्राइयो, कैल्के-फास, काक्कि, फेरम, इग्ने, लाइको, माकु, निको, नक्स-वोम, ओलिये, पेट्रो, साइलि, ष्ट्रैमो, थूजा।

" बीमारी, क्रोध या चिढ़ उठने बाद—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-का, ऐण्टि-टा, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कास्टि, कैमो, चायना, काक्कि, काफि, कोलोसि, फेरम, हाइयो, इग्ने, इपि, लाइको, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, प्लैटि, पल्स, रास्टक्स, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, ष्ट्रैमो, सल्फ, विरि, जिङ्क।

" बच्चा यह वह माँगता है, पर देनेसे फेंक देता है—ऐण्टि टा, ब्रायो, कैमो, सिना, इपि, क्रियो, रियुम, स्टैफि।

कैना-से, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, काकि, काफि, इग्ने, आइयो, लिडम, लाइको, माकु, नेट्र-का, नक्स म, ओपि, फास-ऐ, प्लैटि, प्लम्बम, पल्स, रास-टक्स, स्पाइ, स्ट्रैफि, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा, विरे।

गम्भीर—हँसानेवाली चीज़ देखना—ऐनाका।

गर्वित—बेल, कैन्थ, ग्रैफा, हाइयो, **लाइको**, नक्स-म, पैले, फास, प्लैटि।

गीत गाना—ऐकोन, ऐगा, एपि, बेल, कैना-इ, कैना-सै, सिकि, काफि, क्रोक, कूप्रम, जेल्स, हाइड्रो, हाइयो, लैके, लाइको, मैग-का, माकु-आ-रू, नेट्र-म्यू, नकस-म, ओपि, फास-ऐ, फास, प्लैटि, स्प्जि, स्ट्रैमो, टियुक्रि, विरे।

„ अश्लील—हाइयो, ओपि, स्ट्रैमो।

„ ज्वरके समय—बेल, स्ट्रैमो, विरे।

„ गाली गानेका स्वभाव—हाइड्रो, हाइयो।

„ नींदमें—बेल, क्रोक, फास-ऐ।

गोंगियाना (Moaning, groaning—काँखना, कराहना)—**ऐकोन,** ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टा, एपि, आर्स, बैरा-का, **बेल,** ब्राइयो, कैलाडि, कैल्के, कैम्फ, **कैना-इ,** कैन्थ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिकि, काकि, काफि, कूप्रम, डिजि, डाल्का, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-का, लैके, माकु माकु-को, म्यू-ऐ, नाइ-ऐ, नक्स-वोम।

„ खाँसीके समय—बेल, सिना, पोडो।

„ ज्वरके समय—ऐकोन, आर्निका, बेल, कैमो, काफि, युपे-पर्फो, इपि, लैके, नक्स-वोम, **पल्स,** थूजा, विरे।

„ नींदमें—आइलैन्थ, ऐलो, ऐलू, ऐमोन-का, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैमो, काफि, ग्रैफाइ, हाइयो, इग्ने, इपि, लैके, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, पोडो, पल्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ।

„ वृद्ध मनुष्योंका—बैरा-का।

घर छोड़नेकी इच्छा न होना या कातरता—'अनिच्छा' देखिये।

घूमनेकी इच्छा—**कैल्के-फास, सिमि,** क्यूबे, इलै, मर्कु, सेनि।

घृणा, कामकाजसे—आर्ज-ना, आर्नि, कैल्के, हाइयो, कालि-का, नेट्र-म्यू, पेट्रो, पल्स, साइलि, सल्फ, टेरे, टैबा।

" गाने बजानेसे—ऐकोन, नक्स-वोम।

" जीवनसे—ऐम्न, ऐलूमि, **ऐरिट्म-क्रूड,** ऐण्टि-टा, आर्स, अरम, अरम-म्यू, बेल, वार्बे, बोवि, कैल्के, काफि, चायना, ड्रोसे, हिपर, हाइयो, कालि-फास, लैके, लाइको, मार्कु, मेजी, नेट्र-म्यू, नेट्रम-स, नाइ-ऐ, नक्स, वोम, ओपि, **फास,** प्लैटि, पोडो, पल्स, रास्टक्स, रस-वे, सिके, सिपि, साइलि, स्पंजि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि, थूजा।

" मानव-जातिके प्रति (Misanthropy)—ऐकोन, अरम, बैरा-का, कैल्के, कूप्रम, हाइयो, लैके, लिडम, लाइको, नेट्रम-म्य, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लैटि, पल्स, स्ट्रैनम।

" से उत्पन्न रोग—(Ailments from scorn)—ऐको, अरम, बेल, **ब्राई, कैमो,** काफि, कोलोसि, फेरम, हाइयो, इपि, लाइको, नेट्र-म्यू, **नक्स-वोम,** फास, प्लैटि, सिपि, स्टैफि, सल्फ, विरे।

घृणा, साधारण—ऐकोन, ऐनूमि, ऐट्रा, ऐण्टि-टा, आर्ज-ना, आर्नि, बेल, कैल्के, कैन्थ, कैमो, चेलि, हाइयो, ज्रैट्रो, कैलि-का, लोरो, मेग म्य, मार्कु, फाइटो, प्लैटि, पल्स, सिके, सेने, स्ट्रैमो, टैरे, थिया।

चलना देरसे सीखता है—ऐगा, बेल, **कैल्के, कैल्के-फास,** नक्स वोम, साइलि, सल्फ।

चिड़चिड़ा स्वभाव (क्षणिक)—**ऐण्टिम-क्रू,** आर्स, अरम, कैन्थ कार्बो वि, कास्टि, केमि कैलि ब्रोम, कैलि का, नक्स वोम, ओपि प्लैटि।

चिन्ता, अनिच्छा—ऐगा, ऐपटो, ब्राइयो कैम्फि कार्बो-वेज चायना हिपर हाइयो, लाइको, नेट्र-म्यू, **फास-ए, फास,** प्लैटि, स्ट्रैमो थिरे।

" कष्टदायक—आर्स, कास्टि, मेजे लाइको सिपि, नेट्रम म्यू, नाइ फास, रास्टक्स सिपि सल्फ।

चिन्ता, गड़बड़—ऐकोन, आर्नि, बैप्टी, कैना-ई, कैना-से, ग्रैफा, इग्ने, आइयो, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, आलियै, ओपि, फास-ऐ, पल्स, वैले, वायो-ओ, जिङ्क।

„ गहरी—वेल, साइला, ग्रैटि, म्यू-ऐ।

„ डरावनी—कैल्के, कास्टि, फास, फाइसो, रासटक्स, थिया।

„ भविष्य सम्बन्धी—साइला, सिनि, सिपि, स्पाई।

चिल्लाना, नींदमें—ऐमोन-कार्ब, ऐना, एपि, आर्जे-मे, अरम, वेल, बोरै, ब्राइयो,

„ कैल्के, कैमो, सिना, काफि, फ्लू-ऐ, हिपर, लाइको, मैग-का, नेट्र-

„ म्यू, नाइट्रि-ऐ, ओपि, **पल्स**, साइलि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ दर्दसे—**ऐकोन**, आर्स, वेल, **कैक्टस**, **कैमो**, **काफि**, कोलोसि, ओपि, प्लैटि, पल्स।

„ बच्चोंका—एपि, वेल, **बोरै**, कैल्के-फास, कैमो, सिना, काफि, डालका, इग्ने, इपि, जैलापा, क्रियो, लाइको, रियुम, सेनि, स्ट्रैमो।

„ मस्तिष्क रोगमें—**एपि**, आर्नि, आर्स, डालका, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, कैलि-आ, लाइको, मार्क-वा, फास, रास्टक्स, सोले-ना, स्ट्रैमो, सल्फ।

चौंक उठना—ऐकोन, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐसिट-क्यू, ऐण्टिम-टार्ट, आर्निका, **आर्स**, बैरा-का, **वेल**, बैरा, ब्राइयो, ब्यूफो, कैल्के, **कैप्सि**, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, काफि, ग्रैफा, हिपर, **हाइयो**, इग्ने, कैलि-का, लैके, लाइको, मेडो, मार्क, नेट्र-का **नेट्र-म्यू**, नक्स म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, सोरि, रास्टक्स, सिपि, साइलि, **स्ट्रैमो**, स्टान्नि, सल्फ, थेरि, विरे, जिङ्क।

„ गोलमाल या आवाजसे—एपि, आर्स, बैरा-का, बोरा, कैल्के, कैना-से, कार्बो-वेज, कास्टि, काफि, कैलि-का, लैके, लाइको, मार्क, नेट्र-का, नेट्र-म्य, नेट्र-स, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, रास्टक्स, साइलि, सल्फ।

चौंक उठना, छूनेपर—**कैलि-का**, रूटा।

„ डरकर—ऐकोन, ऐमोन-का, ऐनाका, एपि, आर्नि, बैरा-का, **वेल**,

बोरा, ब्रायो, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, काफि, डिजि, युफ्रे, हाइयो, कैलि-का, क्रियो, लाइको, मार्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, ओपि, प्लम्ब, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

चौंक उठना, नाम लेकर पुकारनेपर—सल्फ।

„ नींदमें—एपि, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कोसी, ग्रैफा, हाइयो, इपि, कालि-का, क्रियो, लाइको, मार्क, मार्क-को, मार्फि, नेट्र-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, पल्स, सल्फ, टेरे, जिङ्क।

„ प्रश्न करनेपर—कार्बो-ऐ, सल्फ।

„ मानो गिरा जाता है—वेल, विस्म, मेजे।

चौर्योन्माद—"उन्माद" देखिये।

छिपा लेनेका स्वभाव—डिजि, इग्ने।

छिप रहनेकी इच्छा—वेल, कूप्रम, टेलि, हाइयो, लैके, पल्स, स्ट्रैमो, टेरे।

जकड रखना, चीज़ या असबाव—काफि, जेल्स, स्ट्रैमो।

जड बुद्धि—(Idiocy) "मूर्खता" देखिये।

जलातङ्क—(Hydrophobia)—ऐसिटि-ऐ, आर्ज-ना, आर्स, बेल, कैन्थे, कैना-इ, कूप्रम, क्यू, हाइयो, आइयो, लैके, लाइसिन, मार्क, फास, सैबाडि, स्ट्रैमो, विरे।

जल्दी करना (Hurry)—ऐकोन, ऐग्नोज, ऐना, एपि, आर्ज-ना, आर्स, आरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फो, कैना-इ, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कार्बु, काफि, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, हाइपे, इग्ने, आइयो, कैलि-का, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सल्फ-ऐ, सल्फ, विरे।

„ कामकाजमें—ऐमोन, आरम, कार्बो-वेज, कैलि-का, लिलि-टिग, ओपि, पल्स, सिपि, सैले-ऐ, थायो-ड्रि।

„ भोजनके समय—लैके, पाड-मे।

„ लिखनेके समय—ड्रिमि।

जिद्दी—(Obstinate)—ऐकोन [illegible], ऐलुमि, ऐमोन-का [illegible], ऐण्टि-टा, एपि, आर्नि, आर्स, आरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के,

कोष्ठि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना**, सिना, क्रोक, डिजि
ड्रोसे, हिपर, इग्ने, इपि, लैके, लाइको, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम
पैले, फास-ऐ, फास, थेरि, सिके, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ,
थूजा, वायो-श्रो, जिङ्क।

झुलानेसे आराम—(Rocking amel)—ऐकोन, कैमो, सिना, पल्स, रास्टक्स।

झूठा—(Untiutbful)—ओपि, विरे।

डरना सहजमें (Frightened)—ऐकोन, ऐगिट-टा, आर्ज-ना, आर्निका, **आस**, वेल, वोरा, ब्रायो, कैल्के, कैना-इ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कूप्रम, डिजि, **ग्रैफा, इग्ने**, कैलि का, कैलि-फास, लैके, लाइको, मार्कु, **नेट्र-का**, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सैम्बु, **सिपि**, साइलि, **स्ट्रैमो**, सल्फ।

„ नींद आनेके समय—अरम, नक्स-वोम, फास।

„ रातमें—नेट्र-म्यू।

डरपोकपन—"भीरुता" देखिये।

ढिठाई, गुस्ताखी, (Impertinence)—कैम्फ, ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, पैले, फास, विरे।

तिरस्कार करना स्वभाव—वेल, कास्टि, डाल, हाइड्रो-फो, हाइयो, इपि नक्स-वोम, पेट्रो, विरे, वायो-श्रो।

तीक्ष्ण-बुद्धि (Clearness of mind, ideas abundant)—ऐकोन, आर्स, वेल, ब्रायो, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, **काफि, लैके**, लाइको, ओपि, **फास**, पल्स, सल्फ।

तुनुक मिजाज—(Fastidious)—आर्स।

„ „ इच्छाके विरुद्ध कहनेपर—मार्कु।

„ „ खून करनेकी इच्छा, (Desire to kill)—ऐगा, आर्स, कैल्के, कैम्फ, हिपर, हाइयो, आइयो, नक्स-वोम, स्ट्रैमो।

„ समान्य दोषसे—हिपर, मर्कु, नक्स-वोम,।

तोड़नेकी इच्छा—एपि, हिउ स्ट्रैमो।

थूक देना आदमीके मुंहपर—वेल, कैन्थे, कैना-इ, कूप्रम, हाइयो, मार्कु, फास, प्रम्ब, स्ट्रैमो, विरे।

दाम्भिकता—ऐकोन, ऐनाका, आर्नि, कैन्थ, कास्टि, लाइको, नक्स वोम, सल्फि।

दीर्घ-निश्वास—ऐकोन, आर्ज-नाई, वेल, व्राइयो, कैमो, चायना, सिमि, ककु, कूप्रम, डिजि, ग्रैफा, इग्ने, इपि, लैके, नेट्र-का, नाइट्रि-ऐ, ओपि, पल्स, रास-टक्स स्ट्रैमो, सल्फ।

दीर्घसूत्री (सुस्त-slow)—ऐनाका, आर्स, वेल, कैल्क, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, कास्टि, कूप्रम, ग्रैफा, इग्ने, इपि, नक्स-म, आक्जे-ऐ, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सिपि, थूजा, विरे।

दुःसम्वादसे उत्पन्न रोग—ऐपिस, कैल्के, चायना, कूप्रम, जेल्स, इग्ने, लैके, मेडो, नेट्र-म्यू, पेले, फास, स्ट्रैमो, सल्फ।

दृष्टि असह्य—दूसरोंकी—ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, आर्स, कैमो सिना, आइयो, नेट्र-म्यू, रास-टक्स स्ट्रैमो सल्फ।

दृढ़ प्रतिज्ञा—"स्थिर प्रतिज्ञा" देखिये।

दूसरेके कहनेसे अनिच्छा बढ़ना—ऐगा, ऐमोन-का, आर्स, कैल्क, चायना, ककि, कोना, फेरम, ईग्नि, हाइयो, कैलि-फास, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, रासटक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, विरे, जिङ्क।

„ „ रोग लक्षणोंका बढ़ना—आर्नि, ककु, सल्फ।

„ कहना सहन न होना—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि टा, आर्नि, आर्स, आरम, वोम्फ, कैमो, जेल्स, ग्रैफा, ईमा, हाइयो, इग्ने, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, साइलि स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टियुक्रि, विरे, जिङ्क।

„ „ असम्भव मालूम हो—ऐगा, ऐनाका आर्ज-नाई, आर्स, ब्रेप्टी, वेल, व्राइयो, कैम्फ कैना इ, कैमो चेलि कोटि-हो, कूप्रम, डल्का, जेल्स, हिपर, हाइयो, लैके, मार्कि नक्स-म, ओपि फास ऐ, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

„ „ अस्पष्ट—ऐकोन आर्स, वेल, इग्ने, हाइयो, लैके, मार्क, नक्स वोम, फास ऐ, सिङ्क, साइलि, स्ट्रैमो।

दूसरेके कहनेसे आनन्द, अपनी बात कहनेपर—पैरे, नेट्र-म्यू, स्ट्रैमो।

„ अपने मन ही मन—ऐस्टि-टा, एपि, बेल, हाइयो, कैलिका, म्यू-ऐ, मैग-फास, मर्कु, मस्क, ओपि, फास-ऐ, प्लम्ब, पाइरो, रैना-बा, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

„ इधर उधर करना—ऐब्सि, कैलि-ब्रोम, मार्कु, नक्स-मस, फास-ऐ, वाइपे।

„ एक विषय बोलते बोलते दूसरा विषय कहना—ऐकोन, ऐनाका, आर्नि, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, कैन्थ, कैमो, चायना, सिना, कोलोसि, क्यूप्रम, डालका, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, नक्स म, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, सिके, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

„ „ कामकाजके सम्बन्धमें—ब्रायो, हाइयो।

„ „ गड़बड़ मालूम हो—बेल, कैल्के, कैना-सै, कास्टि, हाइयो, लाइको, मस्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, स्ट्रैमो, थूजा।

„ से कहना चिल्लाकर—आर्नि, आर्स, ऐट्रो, अरम, बेल, हाइयो, नक्स-म, स्ट्रैमो।

„ „ जल्दी जल्दी—ऐकोन, ऐम्ब्रा, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, कैना-इ, कैना-सै, सिमि, सिना, काफि, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, मार्कु, मस्क, नक्स-वोम, फास-ऐ, प्लम्बम, सिपि, स्ट्रैमो, थूजा, विरे।

„ „ धीरे धीरे—इथि, ऐस्टि-क्रू, आर्जे-ना, बेल, काकि, कैलि-ब्रोम, लैके, मार्कु, मार्फि, नक्स-म, ओपि, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, सिके, सिपि, थूजा।

„ निद्रित अवस्थामें—ऐकोन, ऐस्टि-टार्ट, एपि, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, हाइयो, इग्ने, कैलि-का, लाइको, मर्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

दूसरेसे कहना, कामकाजके सम्बन्धमें—कैमो, रास-टक्स, सल्फ।

द्रोही (Malicious) ऐकोन, ऐना-का, बेल, कैल्के, कैमो, क्रिपर, हाइयो, ड्रग्ने, लैक-कै, लैके, लिड, लाइको, नक्स-वोम, स्ट्रैमो, सल्फ।

दौड़ता फिरता है—ऐगा, आर्स, बेल, कैल्के, कैन्थ, चायना, कूप्र-ऐसे, हाइयो, प्लम्ब, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

धनका लोभ (Avericious)—"लालची" देखिये।

धर्म सम्बन्धी रोग (Religious affection)—आर्ज-ना, आर्स, आरम, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, सिना, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, कालि-फास, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मेडो, मिलि, मार्कु, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, प्लैटि, सोरि, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।

„ बालकोंका—आर्स, कैल्के, लाइको, सल्फ।

धृष्टता—"ढिठाई" देखिये।

नङ्गा होनेकी इच्छा या चेष्टा—बेल, कैम्फ, कैमो, हाइयो, मार्क, मार्कु-को, फास, फाइटो, सिके, स्ट्रैमो।

„ विकारके झोंकमें—बेल, हाइयो, मार्कु, फास, फाइटो, सिके।

नाचना (नृत्य करना—Dancing)—ऐकोन, ऐगारि बेल, कैना-इ, सिकु, काकि, कोव्रा, क्रोटन टिग, हाइयो मार्कु, नेट्र-म्यू, फास ऐ, प्लैटि, स्ट्रैमो, टैरे।

„ असभ्य—बेल, कैम्फ, टैरे।

„ हंसानेवाला—ऐगा, सिकु।

नास्तिक—ऐनाका, कोलोसि, क्रोक।

निन्दक—ऐनाका, आर्स, बेल, बोरा, हाइयो, इपि, लाइको, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, सिपि, स्ट्रैमो, विरे।

निर्बुद्धिता (Dullness, sluggishness)—(१) एण्टी ऐना-का बेल बाइयो कैल्के, कार्बो-वेज, जेल्स हाइयो कैलि-फा, लैके, मर्को मार्को नेट्र-का नेट्र म्यू नक्स म फोवि फास ऐ, फास प्लम्ब पल्स, सिपि स्ट्रैफि सल्फ जिङ्क। (२) ऐकोन ऐगा ऐग्नि, ऐम्ब्र, ऐनाका एपि आर्ज-नैट, बैराइटा कार्बि, कमो बेलि, कास्ट

सिकि-वि, लिमि, काकि, कोलचि, कोना, क्रोटे-ह्रो, डिजि, ग्वोनो, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइड्रो-ऐ, मैग-म्यू, मार्कु, मार्कु-कोर, मेजे, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलियै, पेट्रो, रास-टक्स, सिकि, सेने, साइलि, स्पाई, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, टैवा, थूजा, विरे, (२) आर्नि, आर्स, अरम, कैना-इ, कैन्थ, कैप्सि, कूप्र, इग्ने, आयो, इपि, प्लैटि, टैरे, वायो-ओ।

निर्बोध आचरण—ऐसिट-क्रू, एपि, वेल, कार्बो-वेज, चायना, सिक्यू, कुप्र, हाइयो, इग्ने, लेके, मार्कु, नक्स-वोम, फास-ऐ, प्लम्ब, स्ट्रैमो, विरे।

निर्लज्ज—"लज्जा" देखिये।

निराशा—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐसिट-टार्ट, आर्निका, आर्स, आर्ज-ना, अरम, वेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैना-इ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, कॉफि, काकि, कोना, क्रोटन-टिग, ग्रैफा, हेलि, इग्ने, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मार्कु, मेजे नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, वार्बे।

„ आराम होनेसे—ऐकोन, आर्स, वैप्टी, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, हेलि, इग्ने, नक्स-वोम, सोरि, सिपि, साइलि, जिङ्क।

„ दर्दके साथ—ऐकोन, आर्स, अरम, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काफि, लैके, नक्स-वोम, विरे।

„ सामान्य विषयोंमें—ग्रैफा।

निरुत्साह (Discouraged)—ऐकोन, ऐलोज, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, एपि, आर्नि, आर्स, अरम, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, कार्बो-वे, कार्ले, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-स, कूप्र, ड्रोसे, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइड्रो-ऐसि, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, कैलि-वा, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐसि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टैन, स्ट्रैमो, सल्फ, वार्बे, विरे, जिङ्क।

„ घटना, रोनेसे—

निरुत्साह—सामान्य कारणसे—अरम।
निर्लज्ज—"लज्जा" देखिये।
निष्ठुरता—ऐन्ट्रो, ऐनाका, क्रोक, नाइट्रि-ऐ, ओपि, प्लैटि, स्ट्रैमो, विरे।
निस्तब्ध—"स्थिर" (silent) देखिये।
नैतिक ज्ञानकी कमी (Want of moral feeling)—ऐनाका, बिस्मथ, काकि, कोना, कोलोसि, हाइयो, कैलि-ब्रोम, लोरोसि, ओपि, सैबाडि।
नोचना, बिछावनकी चादर—"अंग-भंगी" देखिये।
नोच फेंकना, केश अपने—बेल, लिलि-टिग, टैरे।
" चीज-वस्तु—बेल, कैम्फ, कैन्थ, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-स, मार्कु, ओपि, फास, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।
" जननेन्द्रिय—सिकि।
" तकिया, दाँतसे—फास, स्ट्रैमो।
" शरीर, अपना—आर्स, बेल, कक्यू, सिकि, स्ट्रैमो।
पढ़नेसे अनिच्छा—"अनिच्छा" देखिये।
" की इच्छा—चायना, क्रिमे।
पद्य-रचना करता है—ऐगा ऐग्नि-क्र, कैना-इ, स्ट्रैमो, थिया।
परदु:खकातर—(Sympathetic)—कास्टि, सिकु, क्रोक, इग्ने, आइयो, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स।
परित्यक्त, समझता है, अपनेको—कार्बो-वेज।
प्रतिवाद, सहन नहीं होता—अरम, कैन्थ, कास्टि, हाइयो, इग्ने मर्क, लाइको मार्कु, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओलियै।
प्रफुल्ल चित्त—ऐकोन, आर्ज-मे अरम, बेल, कैना-इ कैना से कार्बो एनि कार्बो-वेज कास्टि, चायना, सिमि, सिन्निबा कॉफि क्रोक, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हाइयो, लैकि, लाइको, फास्फो नेट्र-का, नेट्र म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-मस नक्स वोम, ओपि, फास, प्लैटि, सार्सा स्ट्रैमो, सल्फ टैरैन्ट, थिरि, जिङ्क।
" पागलपनके साथ—बेल, कैन से, क्रोक।
" रोनेके साथ—ऐकोन, बेल, कैन से। कार्बो ऐ इग्ने, आइयो प्लैटि स्प्रि।

सिकि-वि, क्लिमे, काकि, कोलचि, कोना, क्रोटे-ट्री, डिजि, ग्लोनो, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइड्रो-ऐ, मैग-म्यू, माकु, माकु-कोर, मेजे, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलियै, पेट्रो, रास-टक्स, सिकि, सेने, साइलि, स्पाइ, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, टैबा, थूजा, विरे, (२) आर्नि, आर्स, अरम, कैना-इ, कैन्थ, कैम्फि, कूप्र, इग्ने, आयो, इपि, प्लैटि, टैरे, वायो-ओ।

निर्बोध आचरण—ऐग्टि-क्रू, एपि, बेल, कार्बो-वेज, चायना, सिक्यू, कुप्र, हाइयो, इग्ने, लैके, माकु, नक्स-वोम, फास-ऐ, प्लम्ब, स्ट्रैमो, विरे।

निर्लज्ज—"लज्जा" देखिये।

निराशा—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐग्टि-टार्ट, आर्निका, आर्स, आर्ज-ना, अरम, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्कि, कैना-इ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, कॉफि, काकि, कोना, क्रोटन-टिग, ग्रैफा, हेलि, इग्ने, लैके, लिलि-टिग, लाइको, माकु, मेजे नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, वार्बे।

„ आराम होनेसे—ऐकोन, आर्स, बैप्टी, ब्राइयो, कोलको, कैमो, हेलि, इग्ने, नक्स-वोम, सोरि, सिपि, साइलि, जिङ्क।

„ दर्दके साथ—ऐकोन, आर्स, अरम, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काफि, लैके, नक्स-वोम, विरे।

„ सामान्य विषयोंमें—ग्रैफा।

निरुत्साह (Discouraged)—ऐकोन, ऐलोज, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, एपि, आर्नि, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्कि, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, कार्बो-वे, कार्ले, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-स, कूप्र, ड्रोसे, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइड्रो-ऐसि, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, कैलि-बा, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐसि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टैन, स्ट्रैमो, सल्फ, वार्बे, विरे, जिङ्क।

„ घटना, रोनेसे—

बुंदबुदाकर बकना—"विकार" देखिये।

बेचैनी—"अस्थिरता" देखिये।

बेहोशी—"अचैतन्य" देखिये।

बैठा रहता है, चुपचाप (Sits still)—कैमो, हाइयो, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो।

बैठे रहनेसे अनिच्छा—"अनिच्छा" देखिये।

" की इच्छा—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-म्यू, ऐना-का, ऐगिट-क्रू, ऐगिट-टा, आर्जे-मैट, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैना-सै, कार्बो-वेज, कैमो, चेलि, चायना, काकु, कोना, युफ्रे, ग्रैफा, गुये, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, लैके लाइको, मार्क, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, पल्स, रैना-म्यू, रास-टक्स, सिके, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्क्वुई, सल्फ, टैरेक्स, म्यू, जिङ्क।

" एक जगह स्थिर होकर ३।४ दिन—कोना।

" गहरा दुःख और चिन्तामें घिरा—काकि, पल्स, विरे।

" निस्तब्ध भावसे—काकु, हिपर, हियो, प्लैटि, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो, विरे।

बोलनेसे अनिच्छा—ऐकोन, ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-का, ऐगिट-क्रू, आर्जे-मे, आर्जे-नाइ, आर्नि, आर्स, ओरम, बैप्टी, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैना-सै, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिकि, सिपि, सिना, काफि, काफि कोलोसि, कोना, क्रोटे-टी क्युप्रम, साइक्ला, डिजि युफ्रे, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हैनि, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि कैलि-बा, लैके, लिड, लाइको, मैग का, मेनि, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र म्यू, नेट्र स, नाइट्रि-ऐ, नक्स म नक्स वोम, फोपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रास टक्स, सीको, सेवाई सिपि साइलि स्ट्रैमम, स्टैफि, सल्फ, थिरे, जिङ्क।

" " खानेके समय—ऐमोन-का इग्ने म्यू-ऐ, सिपि।

" " चिढ़ानेसे—साइलि।

" " भोजनके बाद—ऐलो, आर्जे ना, फेरम, नेट्र, प्लम्बम।

प्रफुल्ल चित्त, क्षणभर बाद ही क्रोधित—क्लिमे, हाइयो, नेट्र-स, ओपि, सेनि, टैरे।

प्रलाप (Delirium)—ऐको, ऐक्टि, स्माट्रि, इथि, **ऐगा**, ऐग्टि-क्रू, ऐग्टि-टा, एपि, आर्निका, **आर्स**, **अरम-ट्रि**, अरम, बैप्टि, बेल, **ब्राइयो**, कैल्के, कैम्फ, **कैना-इ**, कैन्थ, कार्बो-वेज, कैमो, **चेलिडो**, चायना, चिनि-आर्स, चिनि-स, साइक्यू, सिलिका, कोलूचि, कोना, क्रोटे-हो, कूप्रम, कूप्रम-ऐ, डिजि, जेल्स, हिपर, **हाइयो**, इग्ने, इपि, **लैके**, **लाइको**, माकु, मार्क-को, नेट्र-म्य, **नाई-ऐ**, नक्स-म, नक्स-वोम, **ओपि**, पेट्रो, फास, प्लम्ब, पोडो, पल्स, **रास-टक्स**, सैबाडि, सैम्बु, **सिके**, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि, **विरे**, **विरे-वि** ।

" सवेरे—ऐम्ब्रा, ब्रायो, कोना, डाल्का, हेलि, हिपर, माकु, नेट्र-का।

" शामको—बेल, कैन्थ, क्रोक, फास, प्लम्ब ।

" रातमें—**ऐकोन**, एपि, **आर्स**, **बैप्टि**, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैन्थ, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, कैलि-का, **लैकै**, लाइको, माकु, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, पल्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे ।

प्रलाप—"विकार" देखिये ।

प्रहार करना—"आघात करना" देखिये ।

प्रेम, व्यर्थकी वजहसे रोग (Ailments from disappointed love)—ऐग्टि-क्रू, अरम, कैल्के-फास, सिमि, काफि, साइलि, हाइयो, इग्ने, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, **फास-ऐ** सिपि, स्टैफि, टैरे ।

बकवादीपन (वाचालता loquacity)—ऐब्रो, ऐकोन, ऐनाका, ऐग्टि-टार्ट, एपि, आर्जे-मे, आर्निका, आर्स, अरम, बैप्टी, बेल, कैम्फ, कैना-इ, कास्टि, क्रोक, कूप्रम, जेल्स, **हाइयो**, **लैकै**, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, फास, पोडो, रास-टक्स, सेलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क ।

बात न मानना—हेलो ।

बालक जैसा व्यवहार (Child like behavior)—ऐकोन, ऐलूमि, एपि, आर्जे-ना, **बैरा-का**, कार्बो-वेज, **सिफि**, क्रोक, इग्ने, नक्स-म, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रैमो ।

बुंदबुदाकर बकना—"विकार" देखिये।

बेचैनी—"अस्थिरता" देखिये।

बेहोशी—"अचैतन्य" देखिये।

बैठा रहता है, चुपचाप (Sits still)—कैमो, हाइयो, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो।

बैठे रहनेसे अनिच्छा—"अनिच्छा" देखिये।

„ की इच्छा—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-म्यू, ऐना-का, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, आर्ज-मेट, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैना-से, कार्बो-वेज, कैमो, चेलि, **चायनो**, काकु, **कोना**, गुफ्रे, **ग्रैफा**, **गुये**, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, लैके, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, **फास**, पिक्रि-ऐ, पल्स, रैना-म्यू, रास-टक्स, सिके, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, **स्टैफि**, सल्फ, टैरेण्ट, म्यू, जिङ्क।

„ एक जगह स्थिर होकर १४ दिन—कोना।

„ गहरा दुःख और चिन्तामें घिरा—काकि, पल्स, विरे।

„ निस्तब्ध भावसे—काकु, हिपर, **हिपो**, प्लैटि, पल्स, सिपि स्ट्रैमो, **विरे**।

बोलनेसे अनिच्छा—ऐकोन, ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-का, ऐण्टि-क्रू, आर्ज-मे, आर्ज-नाइ, आर्नि, आर्स, **आरम**, बैप्टी, **बेल**, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैना-से, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिकि, सिपि सिना, काकि, काफि, कोलोसि, कोना, क्रोटे-टी, कूप्रम, डाइस्को, डिजि गुफ्रे, फेरम, जेल्स, **ग्लोनो**, ग्रैफा, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-बा, लैके, लिड, लाइको, मैग-का, मेनि, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि पेट्रो **फास-ऐ**, **फास**, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सेकेलि, सेवाइ, सिपि साइलि स्ट्रैमो, **स्टैफि**, **सल्फ**, **विरे**, **जिङ्क**।

„ „ ऋतुके समय—ऐमोन-का, इग्नेश म्यू-ऐ, सिपि।

„ „ चिल्लानेसे—साइलि।

„ „ भोजनके बाद—ऐलो, आर्ज-ना, फेरम, नक्स, प्लम्बम।

बोलनेसे अनिच्छा, सर दर्दके समय—कोना, नेट्र-का।

बोध-शक्ति, अनुभूति—

„ तीक्ष्ण—आर्नि, **आर्स**, बैरा-का, **बेल**, कैना-इ, चायना, **काफि**, इग्ने, लाइसि, **नक्स-वोम**, **ओपि**, **फास**।

„ शून्य—ऐनाका, आर्नि, आर्स, बेल, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, सीड्रन, सिकु, साइक्ला, हेलि, हाइयो, इग्ने, लाइको, मर्कु, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सिकी, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

भग्नोद्यम—"निरुत्साह" देखिये।

भर्त्सना करना, अपनेको—ऐकोन, आर्स, डिजि, नेट्र-म्यू, ओपि, फास-ऐ, सैबा।

„ „ दूसरेको—ऐकोन, **आर्स**, कैमो, **चायना**, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्य, नक्स-वोम, रास-टक्स, सिपि, स्टैफि, विरे।

„ की वजहसे बीमारी—कोलोसि, इग्ने, **ओपि**, फास-ऐ, स्टैफि।

भविष्यवाणी (Prophecy)—ऐकोन, ऐगा, स्ट्रैमो।

„ मृत्यु-दिवसकी—ऐकोन, आर्ज-ना।

भय (Fear)—ऐकोन, ऐगा, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि-टा, **आर्ज-ना**, आर्स, बैरा-का, **बेल**, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कोका, -काकु, कोना, कूप्रम, ड्रोसे, जेलस, **ग्रैफा**, हिपर, हाइयो, **इग्ने**, कालि-का, **लाइसि**, मस्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, **फास**, फाइटो, **प्लैटि**, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरे, विरे, जिङ्क।

„ सवेरे—आर्ज-ना, कास्टि, ग्रैफा, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ-ऐ।

„ शामको—ऐण्टि-टा, **कैल्के**, कास्टि, कूप्रम, हिपर, लैके, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, वेले, विरे, जिङ्क।

भय, रातमें—आर्स, बेल, कैल्के, **कैम्फ**, कार्बो-वेज, चायना, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, इपि, लैकै, लाइको, मार्कू, नेट्र-म्यू, नेट्र-फाम, फास, पल्स, **रास-टक्स**, सल्फ।

" अकेले रहनेपर—ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-नाई, **आर्स**, बेल, ब्रायो, कैम्फ, क्लिमे, कोना, जेल्स, **हाइयो**, कैलि-का, लाइको, मर्कु, नक्स-वोम, फास, पल्स।

" " सन्ध्याके समय—ब्रोमि, ड्रोसे, कैलि-का, पल्स।

" " रातमें—कैम्फ, स्ट्रैमो।

" अन्धकारमें—ऐकोन, बैप्टी, कैल्के, कैम्फ, **कैना-इ**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कूप्र, लाइको, मेडो, फास, पल्स, **स्ट्रैमो**, वैले।

" अन्धड पानी वज्रपातकी आवाजसे—ब्राइयो, जेल्स, हिपर, नैके, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास, स्ट्रोडी, सिपि, सल्फ।

" अपरिचित मनुष्यसे—ऐम्ब्रा, वैरा-का, कास्टि, कूप्रम, लैके, स्ट्रैमो।

" आत्महत्यासे—ऐलूमि, आर्ज-नाई, आर्स, मर्कु, नेट्र-स।

" आल्पीनसे—स्पाई।

" आंख बन्द करनेपर—कास्टि, कार्बो-ऐनि।

" उन्माद होगा—ऐकोन, ऐलूमि, **कैल्के**, **कैना-ई**, चेलि, सिमि, कूप्रम, डिजि, जेल्स, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-ब्रोम, लैक-कै, लिलि-टिग, मर्कु, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, स्ट्रैमो।

" उपदंश होगा—हाइयो।

" ऊंची जगहोंसे—आर्ज-ना, पल्स।

" ऋतुके पहले—ऐकोन, कैल्के, हिपर, सिके, सल्फ।

" " समय—ऐकोन, नेट्र-म्यू, फास, प्लैटि, सिके।

" एकान्तमें (Solitude)—एपि, **आर्ज-नाई**, आर्स, बिस्मथ, कैल्के, कैम्फ क्लिमे, कोना, जेल्स, हाइयो कालि-का, कालि फास, लैक-कै, लाइको, मेजि, पैरि, फास पल्स, **सिपि**, स्ट्रैफि, स्ट्रैमो।

" चोरोंका—पल्स।

भय, कल्पित पदार्थों का—आर्स, वेल, आइयो, लोरो, लाइको, मार्कु, फास।
„ „ जीव जन्तुका—वेल।
„ काली चीजोंका—ष्ट्रैमो।
„ कुत्तेका—वेल, कास्टि, चायना, ष्ट्रैमो, टियुबरकु।
„ गर्भावस्थामें—सिमि, माइलि, ष्ट्रैनम।
„ गाने-बजानेका—डिजि, नेट्र-का।
„ गिर जानेका—बोरे, कूप्रम, कूप्र-ऐसि, जेल्स, लिलि-टिग, नक्स-वोम, ष्ट्रैमो।
„ चमकीली चीजोंसे, आइनेसे—ब्यूफो, कैम्फ, कैना-ई, कैन्थ, लाइसि, ष्ट्रैमो।
„ जन्तुओंसे—ब्यूफो, कास्टि, चायना, हाइयो, ष्ट्रैमो।
„ डाकूसे—ऐलुमि, आर्स, अरम, वेल, इग्ने, लैके, मर्कु, नेट्र-म्यू, फास, सल्फ, विरे, जिङ्क।
„ दम रुक जायगा—ऐकोन, कार्बो-ऐनि, मार्कु, फास, स्पिञ्जि, ष्ट्रैमो।
„ „ आँखें बन्द करनेपर—कार्बो-ऐनि।
„ „ रातमें—ऐगा, आर्निका, आर्स, कैक्ट।
„ „ सोनेसे डरता है—वैप्टी, ग्रैफिड, लैके, नक्स-वोम फास।
„ „ सोनेपर—कार्बो-ऐनि, मस्क।
„ नीचेकी ओर गतिसे—बोरे, जेलस।
„ नोकदार चीजसे—स्पाइ।
„ पक्षाघातसे—ऐनाका, आर्निका, ऐसाफि, वेल, साइक्य।
„ पाखाना फिरनेके समय—विरे।
„ पानीसे—वेल, कैना-इ, कैन्थ, कूप्रम, हाइयो, आइयो, लैके, लाइसि, फास, रूटा, ष्ट्रैमो।
„ पास आनेपर किसीके—ऐम्ब्रा, आर्निका, वेल, कूप्रम, इग्ने, लाइको, ओपि, ष्ट्रैमो, थूजा।
„ „ बच्चा किसीको आने नहीं देता—सिना, कूप्र-ऐसिटि।
„ „ पीछे कहीं छू न ले—आर्निका।
„ प्रसवके समय—ऐकोन, आर्स, काफि, प्लैटि।

भय, बोलनेसे किसीके—सिपि।

„ भविष्यके सम्बन्धमें—ऐनाका, ऐग्रिट-टा, बेरा-का, ब्रायो, कास्टि, चेलिडो, कोना, डिजि, ड्रोसे, डालका, ग्रेफा, केलि-का, मैंङ्ग, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, पल्स, स्पाई, स्टैफि।

„ भाव-भङ्गी—"अङ्ग-भङ्गी" देखिये।

„ भीड़में जानेसे—**ऐकोन**, ऐमोन-म्यू, आर्स, ऑरम, कैल्के, कार्बो-ऐ कास्टि, कोना, ग्रेफा, **जेलस**, हिपर, कैलि-बा, कैलि-का, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सेलि, सल्फ।

„ भूतका—ऐकोन, आर्स, बेल, ब्रोमि, कैना-इ कार्बो-वेज, चायना, काकु, ड्रोसे, लाइको, मैंनचि, फास, प्लैटि, पल्स, रैना-बा, रास्टक्स, सल्फि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

„ „ शामके समय—लाइको, पल्स, रैना-बा।

„ „ रातमें—ऐकोन आर्स, कार्बो-वेज, चायना, लाइको, पल्स, रैना-बा, सल्फ।

„ मनुष्यका—ऐकोन, ऑरम, बैरा-का, बोरै, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चायना, सिक्यूटा, कोना, क्यूप्रम, हिपर, हायो, इग्ने, कैलि का लैके, लिडम, लाइको, **नेट्र-का**, नेट्र म्यू, फास, पल्स, रास-टक्स सिपि, सल्फ।

„ मारे जानेका भय—सिमि, ओपि, फास, स्ट्रैमो।

„ मार डालेगा कोई—ऐड्रिम, ऐमोन म्यू, आर्स, नक्स मो, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ „ छुरीसे—आर्स, नक्स वोम।

„ मृत्युका—**ऐकोन**, ऐग्न, ऐग्नो, ऐलूमि, ऐनाका एपि ऐपिस म्यू, ऐस्टि-टा, आर्निका, **आर्स**, ऐसाफि ऑरम, बैप्टी, बैरा-का, बेल, ब्रायो कैक्ट, कैल्के-फास, कैना इ कार्बो **सिमि** ककु काफि, कोना, क्यूप्रम, गाश्का, डिजि, फेरम, फस्फ-ए, ग्लोनो, ग्रैफा, हेलि हिपर, हायो इग्ने, इपि कैलि का, कैलि फास, कैलि ना लैके लाइको मर्क, नेट्र म्यू, **नाइट्रि-ए**, नक्स मस, नक्स वोम ओपि फास ए, फास,

फाइटो, प्लैटि, पोडो, सोरि, पल्स, रास्टक्स, सिके, सिपि, स्पिञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, टैरेक्स, ड्रिलि, विरे, विरे-वि, जिङ्क।

भय, मृत्युका अकेले रहनेपर—आर्जे-ना, **आर्स,** वेल, कैलि-का, फास।

„ „ उत्तापके समय—कैल्के, काकु, इपि, मस्क, नाइट्रि-ऐ, रूटा।

„ „ ऋतुके पहले—ऐकोन, कैलि-का, प्लैटि, सिके, सल्फ।

„ „ „ समय—ऐकोन, प्लैटि, विरे।

„ „ गर्भावस्थामें—**ऐकोन।**

„ „ हृद्रोगमें—ऐसाफि।

„ रोग हो जायगा—आर्जे-ना, आर्स, बोरे, कैल्के, इग्ने, कैलि-का, लैके, लिलि-टिग, माकु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐसि, नक्स-वोम, फास-ऐ, **फास,** सिपि, सल्फ, थूजा।

„ वक्तृता देने या अभिनय करनेमें (Stage-fright)—ऐनाका, आर्जे नाइ, जेल्स।

„ विष खिला देनेका—एपि, वेल, ब्राइयो, ग्लोनो, हाइयो, लैके, रास्टक्स, विरे-वि।

„ व्यवसायमें असफलताका—सोरि।

„ संक्रामक रोगका—बोरे, कैल्के।

„ हत्याका—"मारे जानेका" देखिये।

„ हैजाका, कालराका—लैके, नाइट्रि-ऐ।

भागनेकी चेष्टा करता है—(Attempts to escape)—ऐकोन, इस्क्, ऐगा, आर्स, बैप्टी, **वेल,** ब्राइयो, कैमो, चायना, कूप्रम, डिजि, ग्लोनो, हाइयो, इग्ने, माकु, नक्स-वोम, इना, ओपि, पल्स, स्ट्रैमो, विरे।

„ खिड़कीसे—इस्क्, वेल, ब्राइयो, ग्लोनो, वैले।

„ दौड़ कर—वेल, ब्राइयो, कूप्र, डिजि, ग्लोनो, हाइयो, नक्स वोम, ओपि, रास-टक्स, विरे।

„ बिछावनसे एकाएक—वेल, चायना, ग्लोनो, नक्स वोम।

भाव-प्रवणता—(Sentimental)—ऐकोन, **ऐण्टि-क्रू,** कैल्के-फास, काकु, काफि, कूप्रम, **इग्ने,** लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, सोरि, सल्फ।

भीरुता (Timidity—डरपोकपन)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, **आर्जे-ना,**

आर्निका, **आर्स**, अरम, वेल, **बोरे**, ब्राइयो, **कैल्कै**, कास्टि, चायना, कौका, काकु, काफि, कूप्रम, जेल्स, ग्रैफा, इग्ने, **कैलि-का**, लाइको, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फोपि, पेट्रो, फास, पल्स, **सिपि**, माइलि, स्ट्रैमो, सलफर, टैवे, विरे, जिङ्क ।

भुलक्कड—"विस्मरण शील" देखिये ।

भूलना—"विस्मरण" देखिये ।

भूल करना, चीजोंका नाम—ऐमोन-का, कैल्कै, डायस्को, लैक-कै, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ ।

„ जगह—इस्कू, ऐट्रो, वेल, ब्राइयो, कैना-इ, कैमो, ग्लोनो, लैके, नेट्रम-म्यू, नक्स-म, **पेट्रो**, फास, सल्फ, वैलै, विरे ।

„ पढ़नेमें—कैमो, हाइयो, लाइको, मार्कु, साइलि, स्ट्रैनम ।

„ बोलनेमें—ऐगा, ऐलूमि, आर्निका, कैल्कै, चायना, काकु, कूप्रम, डायस्को, डाल्का, ग्रैफा, हैमा, हिपर, हाइयो, इग्ने, कैलि-का, लैक-कै, लैके, लाइको, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, साइलि, थूजा ।

„ माप, परिमाण और बातका जवाब देनेमें—नक्स वोम ।

„ लिखनेमें—कैना-सै, कार्बो-ऐनि, चायना, कैलि ब्रोम लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स म, नक्स-वोम, पल्स, रोडो, राम्टक्स सिपि साइलि, सल्फ, सैम्बु, स्ट्रैमो, थूजा ।

„ „ अक्षर छोड़ जाता है—हाइपे, लैक-कै, लाइको, नक्स म, नक्स-वोम, ओनोस, पल्स, स्ट्रैमो, थूजा, जिङ्क ।

„ समय—ऐलूमि, ऐनाका, बोविस्ट, कैना इ, ग्लोनो लैके, नक्स म, नक्स-वोम, फोपि, वैलै, पेट्रो, थेरि ।

„ हिसाब लगानेमें (Mistakes in calculating)—ऐमोन का, कौना, लाइको, मार्कु नक्स वोम, रस टक्स, सैम्बु, सिफि ।

भ्रमण—"घूमना" देखिये ।

भ्रम-भ्रान्ति (Delusions, illusions, hallucinations)—ऐकोन फेरू, ऐनाका, ऐगेरि-म, एपि आर्स अरम, अरम म, बेला बैल, कैम्फ़, कैम्फ कैना-इ, कैना-सै, कार्बो वेज कास्टि, चायना सिन

काकु, काफि, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, इग्ने, कैलि-ब्रोम, लैके, लाइको, माकु, नक्स-वोम, ओपि, पैट्रो, फास-ए, फास, प्लैटि, सोरि, पलस, रास-टक्स, सैबाडि, सिके, सिपि, साइलि, ष्ट्रैफि, स्ट्रैमो, पलस, वैल्ले, वायो-ओ, जिङ्क।

भ्रम-भ्रान्ति, अग्राह्य करता है, अपने आदमियोंको मानो—आर्ज-नाई, हियुरा।

„ अपछाया देखना—ऐम्ब्रा, ऐपिस, आर्ज ना, आर्स, बैल, कौल्कि, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, ग्रेफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, माकु, नेट्र-म्यू, ओपि, सैम्बु, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ „ आंखें बन्द करते ही—आर्ज-नाई, वेल, कास्टि, सल्फ, सैम्बु, साइलि, सल्फ।

„ „ डरावनी, डरानेवाली—ऐम्ब्रा, आर्ज-नाई, आर्स, वेल, कौल्कि, कार्बो-वेज, कास्टि, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, नक्स-वोम, ओपि, फास, पलस, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ अपराध भागी किया है, मानो—ऐलू, ऐनाका, आर्स, कार्बो-एनि, सिना, साइक्ला, इग्ने, कैलि-ब्रो, नक्स-वोम, रूटा, विरे।

„ आकार (मूर्त्ति figure) देखना—वेल, कौल्कि, कार्बो-वेज, क्रुप्रम, हेलि, कैलि-का, नेट्र-का, नाइट्रि-ए, नक्स-म, फास-ए, प्लम्ब, सल्जि, टैरे।

„ उडता है, मानो वह—ऐसार, डेटूरा-आर्बो, हाइपि, लैक-कै, ओपि, स्टिक्टा, वैले।

„ कङ्काल देखता है—क्रोटे, कैस्का, ओपि।

„ काठका बना है, मानो—कैलि-ना।

„ काचका बना है, मानो—थूजा।

„ कीडे देखता है, मानो—आर्स, वेल, हाइयो, फास, पलस, स्ट्रैमो।

„ „ बिछावनपर—आर्स।

„ कुत्ता देखता है—वेल, कौल्कि, लाइको, माकु, पलस, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ कोनेसे कुछ बाहर निकला आता है—फास।

भ्रम—खून करता है, मानो उसका—ऐट्रिस कैलि-ब्रोम, प्लैटि, स्ट्रैमो।

„ गला दबा रखा है, बरफकी तरह ठण्डे हाथोंसे, मानो—कैन्थ।

„ गन्धसे—ऐग्न, ऐनाका, आर्स, ओपि, पैरिस, पल्स, जिङ्क-स्यू।

„ गिर रहा है, मानो सामने—इलैप।

„ चूटी मानो आस पास है—प्लम्ब।

„ छूनेका, मानो किसीने छू लिया—ऐनाका, कैन्थ, एपि, स्ट्रैमो।

„ जन्तु, जानवर आदिके सम्बन्धमें—

„ „ कुत्ता, बिल्ली—इथि, कैल्के, स्ट्रैमो।

„ „ चूहा, कीड़े—इथि, बेल, मेडो, स्ट्रैमो।

„ टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मानो शरीर—ऐण्टि-क्रू, आर्निका, कोना, मैग-स्यू, मार्कु, नक्स-बोम, सिपि।

„ तलवार झूल रही है, मानो, माथेपर—ऐमोन-स्यू।

„ दुबला होता जा रहा है, मानो—सल्फ।

„ दूसरेको छोटा अपनेको बड़ा समझना—प्लैटि, स्टैफि।

„ दो हो गया है, मानो स्वयं—ऐनाका, बैप्टी, कैना-इ, ग्लोनो, मैर्क, लिलि-टिग, मस्क, पेट्रो, स्ट्रैमो, सिके, थूजा।

„ देखनेमें—जानवर खटमल, अपरिचित मुख इत्यादि।—एथिम, स्ट्रैमो, आर्ज-नाइ, बेल, कैल्के, कैना-इ, कैमो, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, लैकि, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-म, ओपि, प्लैटि, पल्स, राम-टक्स, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थेले।

„ „ अन्धकारमें—बेल, कार्बो-वेज, हेलि, पेट्रो, पल्स, स्ट्रैमो।

„ „ आँख बन्द करते ही—एपि, आर्ज-ना, पार्क, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, चायना, क्यूप्र, ग्रैफा, इग्ने, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ डरावने—ऐब्सि, बेल, कैल्के, कैम्फ, कार्बो वेज, कास्टि, कैलि ब्रोम, लाइको, मार्कु, ओपि, फास, पल्स, स्ट्रैमो सल्फ, टैरे।

„ नष्ट समझता है—स्ट्रैमो।

„ पीछा करता है—

„ „ पुलिस—बेल, क्यूप्र, हाइयो, कैलि ब्रोम, सिकि, ह्यस, जिङ्क।

भ्रम—पीछा करता है, भूत—लेपि, स्ट्रैमो।
„ „ शत्रु—ऐष्टिस, ऐनाका, आर्स, वेल, चायना, क्यूप्रम, ड्रोसेरा, हाइयो, लेके, प्लम्ब, साइलि, स्टिक्टा, जिङ्क।
„ „ हत्यारा—ऐक्नो।
„ पीछे पीछे चलता है कोई, मानो—क्रोटे-कै।
„ फूलना शरीरके सब यन्त्र, मानो—क्राकु-ई, आर्जि।
„ बगलमें चलता है, मानो कोई—कैल्के।
भ्रम—बिछावन बहुत कड़ा मालूम होता है—आर्नि, बैप्टी, ब्राइयो, मार्फि, पोड्रोजे, रूटा।
„ बिछावन या खाट मानो नीचे उतरती जाती है—बैप्टी, वेल, बेञ्जि, कैल्के फा, चिनि-स, डाल्का, कैलि-का, लैकै, रास-टक्स।
„ बिल्ली देखना—इथि, आर्नि, वेल, कैल्के, हाइयो, पल्स।
„ विदेशमें है, समझता है, घर जाना चाहता है—स्ट्रैमो।
„ भूत प्रेत देखना—आर्स, वेल, कैम्फर, हाइयो, इग्ने, लैके, ओपि, स्ट्रैमो, सल्फ।
„ मरे मनुष्य देखना—ऐनाका, आर्स, वेल, ब्राइयो, कैल्के, क्रिपर, हाइयो, कैलि-का, मैग-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लैटि, साइलि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।
„ मृत्यु हो गयी है, मानो उसकी—ऐपिस, लैकै, मस्क, ओपि।
„ रोगी समझता है अपनेको—आर्स, वेल, कैल्के, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, पोडो, सोरि, सैबा, स्ट्रैमो।
„ सजीव पदार्थ पेटमें हिलता है, मानो—क्रोकस, साइला, ओपि, सैबाडि, थूजा, विरे।
„ साप सब उसके पास और चारों ओर है—आर्जे-ना, वेल, कैल्के हाइयो, लै-कै, लैके, ओपि।
„ सुननेसे—ऐगा, ऐनाका, आर्स, वेल, कैना-इ, कैमो, क्लै, नैजा, नेट्र-फास, पल्स, स्ट्रैमो, थिया।
„ हवामें उड़ता फिरता है, मानो—ऐसा।
„ इच्छा—"घूमनेकी इच्छा" देखिये।

मद्यपानकी बहुत इच्छा (Dipsomania)—आर्स, ब्यूफो, कैल्के, कास्टि, हिपर, लैके, मैग-का, मर्क, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, पल्स, स्टैफि, सल्फ।

मनोभाव, परिवर्त्तनशील—ऐकोन, ऐग्न, ऐलूमि, बेल, आर्नि, आर्स, कैनार्स, कैम्फि, कार्बो-ऐनि, चायना, क्रोक, कूप्रम, फेरम, जेल्स, **इग्ने**, आइयो, कैलि-का, मर्क-कोर, नेट्र-म्यू, **नक्स-मस**, फास, प्लैटि, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

मानसिक दुर्बलता, क्षीण-बुद्धि (Imbecility)—**ऐलोज**, ऐना, आर्जे-नाइ, आर्स, अरम, बैरा-का, **बेल**, कोल्के, कैल्के-फास, कैना-सैट, कैम्फि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, काकु, कोना, डायस्को, हेलि, हाइयो, इग्ने, **लैके**, लोरो, **लाइको**, मेडो, मार्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, **नक्स-मस**, नक्स-वोम, ओपि, आक्जि, पेरिस, पेट्रो, **फास-ऐ**, फास, **पिक्रि-ऐसि**, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सैबाइ, सिपि, **साइलि**, स्पाइजि, **स्ट्रैमो**, सल्फ, थेरि, विरे, वार्ब्बा, वायो-थ्रो, जिङ्क।

मानसिक परिश्रमसे उत्पन्न दुर्बलता (Exertion, from mental)—ऐग्नो, ऐगा, ऐलो, अनाका, आर्स, **अरम**, बेल, बोरे, **कैल्के**, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, काकु, कोलचि, कूप्र, जेल्स, हेलि, **इग्ने**, लैके, लाइको, **नेट्र-का**, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओलिये, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, प्लैटि, सोरि, पल्स, सैबाडि, **सिपि**, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, वाइपे, जिङ्क।

मुँहचोर (Reserved)—"अल्पभाषी' देखिये।

मूर्खता (Idiocy)—ऐब्सि, इथि, ऐगा, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, बैरा-का, बेल, ब्यूफो, कैल्के-फास, कैम्फि, कैमो, हेलि, हाइयो, मार्क, नक्स-म, फास, प्लम्ब, सार्मा, टर्।

मूर्च्छा रोग प्रवण (Hysterical)—ऐग्नो, ऐग्नस, ऐसि-फ, ऐम्ब्रा, ऐसा, ऐना-का, एपि, आर्जे-ना, आर्स, ऐसाफि, बरम, बैरा-का, बेल, ब्राइयो, कैल, कैल्के, कैम्फ, कैना, कौलोफा, कास्टि, कैमो, सिमि, सिमि

काकु, काफि, कोना, क्रोक, दूलैम्प, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, ग्रेटि, हाइयो, **इग्ने**, इपि, कैलि-का, लैके, लिलि-टग, लाइको, **मैग-मि**, मार्क, मिलि, मस्क, नेट्र-का, **नाइट्रि-ऐसि, नेट्र-म्यू, नक्स-म**, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, **प्लैटि**, प्लम्ब, **पल्स**, रैफा, रास-टक्स, सिके, सिपि, **साइलि**, स्टैनम, स्टैफि, स्टिक्टा, स्ट्रैमो, सल्फ, **टैरे**, थेरि, वैले, विरे, वाया-ग्रो, जिङ्क।

मृत्यु की इच्छा (Death desires)—ऐग्नस, **अरम**, बेल, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, क्रियो, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मार्क, मेजि, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, ओपि, फाइटो, रास्टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे-वि, वाइपे।

„ चिन्ता—**ऐकोन**, ऐग्न, एपि, आर्स, कास्टि, कोना, क्रोटे-हो, फेरम, ग्रैफा, सोरि, स्ट्रैमो, टैरे, विरे, जिङ्क।

यन्त्रणा, बहुत ज्यादा, शारीरिक और मानसिक (Anguish)—**ऐकोन**, इथि, ऐलो, ऐलूमि, ऐण्टि-टा, एपि, आर्ज-ना, आर्नि, **आर्स**, अरम बिस्मथ, बेल, बोवि, ब्यूफो, **कैल्के**, कार्बो-वेज, काफि, कूप्रम, ग्रैफा, फास, **प्लैटि**, सोरि, पल्स, सिपि।

„ उत्तापके समय—आर्नि।

„ एक जगह स्थिर नहीं रह सकता—आर्स।

„ पसीनेवाली अवस्थामें—आर्नि।

„ शीत (जाडा) के समय—आर्नि।

„ पखाना फिरनेके पहले—ऐकोन, मर्क, विरे।

„ समय—मर्क, विरे।

रक्त या छुरी नहीं देख सकता—ऐलूमि।

रतिज-रोग (Sexual ailments from)—ऐगा, आर्स, ऐसाफि, अरम, बोवि, **कैल्के**, कार्बो-वेज, चायना, कोना, आइयो, कैलि-फास, **लाइको**, मार्क, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐसि, नक्स वोम, **फास-ऐसि, फास**, पल्स, **सिपि**, साइलि, स्टाई, स्टैफि, सल्फ, जिङ्क।

रोग, भयकी वजहसे (Complaint from fright)—**ऐकोन**, एपि, आर्जे-ना, आरस, बेल, ब्रायो, कास्टि, कैमो, काफि कुप्रम, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइयो, **इग्ने**, लैके, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यु, नक्स-वोम, **ओपि**, फास-ऐ, फास, प्लैटि, **पल्स**, रास-टक्स, सिपि, विरे जिङ्क ।

रोग-लक्षणके वर्णनमें कष्ट होता है, रो देता है—केल्के, सिपि, इग्ने, पल्स, टियुक्रि ।

रोना स्वभाव—ऐकोन, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रू, ऐण्टि टा, **एपिस**, आर्जे-मे, आर्नि आर्स, आरम, बैरा-का बेल, बोरैक्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैना-इ, कैना-से कैन्थ, कार्बो-वेज, **कास्टि**, कैमो चेलि, चाइना, सिकि, सिमि, सिना, काकु, काफि, कोलोसि कोना कुप्रम क्रोटे-टी, डिजि, ड्रोसे, डाल्का, युपे-पार्फ फेरम, जेल्स, **ग्रैफा**, हेलि, हिपर, हाइयो, **इग्ने**, आइयो, इपि कैलि-का, **कैलि-ब्रोम**, लिलि टिग **लाइको**, मैग्नी मेडो मिलि, मार्कु, नेट्र-म्यु नेट्र-म, नाई-ऐ नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, **पेरी**, पेट्रो, फास-ऐ फास, **प्लैटि**, सोरि, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्टैफि **सल्फ**, **विरे**, जिङ्क ।

,, सवेरे—ऐलू, ऐमोन-का, बोरै, कार्बो-ऐ डाल्का, क्रियो, फास, प्लैटि, प्रून-स्पा, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ ।

,, सन्ध्याके समय—ऐकोन ऐमोन-का, कैल्के, कार्बो ऐ ग्रैफा, नेट्र म्यु, प्लैटि, रेना-आ, रास-टक्स, साइलि, स्ट्रैमो सल्फ ।

, घटना—ऐमोन-का, कैस्टा ।

,, रातके समय—ऐलूमि, ऐमोन-म्यु आर्नि आर्स, बैरा-का, बेन, बोरैक्स ब्राइयो, कैल्के कार्बो ऐ कास्टि कैमो चेलि चायना, सिना ग्राफ़ाइ, इग्ने इपि लैके, लाइको मैग-म्यु मार्कु, नेट्र-म्यु नाई ऐ, नक्स वोम, फास-ऐ फास, प्लाटी सोरि पल्स, रियुम, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, स्ट्रैमो, सल्फ टैरे थुजा विरे ।

,, समझानेपर—रोना नेट्र म्यु ।

,, ऋतुके समयमें—लाइको फास पल्स जिङ्क ।

„ „ समय—आर्स, कैल्के, काफि, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, लैके, लाइको, पेट्रो, फाइटो, फास, प्लैटि, पल्स, सिके, सिपि, स्ट्रैमो, थूजा, विरे, जिङ्क।

„ „ बाद—ऐलूमि, लाइको, फास, स्ट्रैमो।

„ खाँसनेके पहले—आर्नि का, वेल।

„ „ समय—ऐण्टि-टा, आर्निका, आर्स, वेल, कैमो, चायना, सिना, **हिपर**, इपि, लाइको, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, विरे।

„ „ बाद—आर्निका, वेल, कैप्सि, सिना, हिपर, ओपि।

„ खींचनके समय—ऐब्सि, कैमो, प्लम्ब।

„ गर्भावस्थामें—इपि, मैगका, इग्ने, नेट्र म्यू, पल्स, स्टैनम।

„ गाना बजाना सुननेपर—**ग्रैफा,** क्रियो, कोलिका, नेट्र-स, नक्स-वोम, थूजा।

रोना स्वभाव—

„ गोदमें लेकर घूमनेपर (बच्चेको)—सिना।

„ „ „ नहीं रोना, बच्चेका—कैमो।

„ जाडेके समय—ऐकोन, आर्म, अरम, **वेल, कैल्के,,** कार्बो-वेज, **कैमो,** हिपर, इग्ने, **लाइको,** मार्क, नेट्र-म्यू, पेट्रो, **पल्स,** सल्फ, **वायो-चो।**

„ दर्दके कारण—काफि, मेजे, प्लैटि, पल्स।

„ „ पहले—फास, पल्स, रास-टक्स।

„ „ समय—इथि, वोरा, कैमो, सिना, रास-टक्स, साइलि, सल्फर।

„ दुःखकी चिन्तामें—ऐलूमि, कार्बो-वेज, सिना, कैलि-का, प्लैटि, स्ट्रैमो।

„ नींदके समय—ऐलूसि, ऐण्टि-टार्ट, अरम, वेल, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-का, लैके, लाइको, मैग-का, मार्क, नेट्र म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सेम्बु, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, टैरे, थूजा।

„ प्रतिवाद करनेपर—वेल, कैल्के, इग्ने, कैलि-का, नाइट्रि-ऐ, प्लैटि, स्टैफि।

—रनेपर—इग्ने, नेट्र म्य, प्लैटि,-साइलि, स्टैफि, थूजा।

ोना, पेशाब करनेके पहले—बोरै, लाइको, सार्सा।
" " " समय—सार्सा।
" फूट फूट कर रोना—हेलि, लोबि।
" बच्चोंकी तरह नकियाया करता है—ब्रम, कैमो, हाइयो, इग्ने, मर्कु, नाई ऐ, नक्स-वोम, विरे।
" बढना - ऐण्टि-टा, आर्नि, बेल, बोरै, कैमो, कोका, कुप्रम, ह्निपर, लेके, नाड-ऐ, टियुक्रि, विरे।
" विना कारणके ही—एपि, आर्स, बेल, कैम्फ, सिना, ग्रैफा, लाइको, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, पल्स, सल्फ, जिङ्क।
" रोगके विषयमें कहनेके समय—केलि-का, मेडो, पल्स।
" समझाने-बुझानेपर रोना बढना—बेल, केल्के-स, चायना, इग्नि, इग्ने, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइ ऐ, नक्स-वोम, प्लैटि, सिपि, साइलि, स्टेफि, थूजा।
" हँसनेके साथ पर्यायक्रमसे—ऐकोन, आरम, बेल केल्के, कैना-से, काफि, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम फास, प्लैटि, पल्स, स्ट्रेमो।
ज्जा—ऐम्ब्रा, बैरा-का, कैल्क, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, कोको कुप्रम हाइयो, इग्ने, आयोड, मेजे, नेट्र-का पेट्रो, फास, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे।
" की कमी, निर्लज्ज (Shameless)—बेल, कैन्ने यैन्थ, कुप्रम, हाइयो, मर्क, नेट्र म्यू, नक्स म, नक्स वोम, फास, फास्टो सिके, स्ट्रैमो, विरे।
ानची—आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फस, सिना, कोलो सि, लाइको नेट्र का पल्स, रियुम, सिपि।
ोदना, जमीनमें—चोपि।
ाचालता—"बकवादीपन" देखिये।
वकार (delirium) "प्रलाप भय" देखिये।
" अच्छा है कहता है रोग जितना भी कठिन हो—एपि आर्नि आर्स।
" अनवरत, लगातार बिना रुके—ऐण्टी टा।

विकार, उग्र—ऐकोन, ऐगा, एपि, **आर्स, बेल,** कैम्फ, केन्थ, कोना, कूप्रम, **हाइयो,** लैके, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, मिकेलि, **स्ट्रैमो,** विरे, जिङ्क।

" उन्मत्तता (raving)—ऐकोन, ऐगा, बेल, कैन्थ, सिकि, कूप्र-मेट, हेलि, **हाइयो,** लाइको, मार्कु, नाई-ऐ, ओपि, **सिकि, स्ट्रैमो,** विरे।

" ओठ-नाक नोचनेके साथ—अरम-ट्रि।

" कामुकताके साथ (Laciviouness)—कैन्थ, हाइयो, फास, प्लेटि, स्ट्रैमो, टैरेन्स, विरे।

" गडबडी मचाना—बेल, कैन्थ, हाइयो, स्ट्रैमो।

" घर जाना चाहता है, समझता है, घरमें नहीं है—बेल, ब्राइयो, लैके, ओपि, विरे।

" टकटकी लगाकर देखता है, पर पहचान नही सकता किसीको भी—(Coma-vigil)—क्यूप्र, हाइयो, म्यू-ऐ, ओपि, फास।

" टकटकी लगाकर देखा करता है—आर्टि-वो, बोवि, कैम्फ, क्यूप्रम, स्ट्रैमो, रैना-बा।

" डोरी मानो शून्यमें झूल रही है—रैना-बा।

" दुःख भरा—ऐकोन, बेल, डालका, लाइको, पल्स।

" नाचता है, गाता है—ऐगा, अरम, बेल, हाइयो, स्ट्रैमो।

" पहचान न सकना किसीको भी—बेल, कैना-डि, हाइयो, मार्कु, नक्स-वोम, ओपि, स्ट्रैमो, विरे।

" प्रश्नका उत्तर देता देता बेहोश हो जाता है—आर्नि, बैप्टी, हेलि, हाइयो, फास, सल्फ।

" बिछावन छोडकर भागना चाहता है—"भागनेकी चेष्टा" देखिये।

" बिछावन नोचता है—"अङ्ग-भङ्गी" देखिये।

" बुदबुदाकर बोलना—इलेन्थ, एपि, आर्नि, आर्स, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, चेलि, क्रोटे-हो, जेल्स, हेलि, हिपर, [illegible] लाइको, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, [illegible] रास-टक्स, सिकि, स्ट्रैमो, [illegible] वि[illegible]

" अपने आप—बेल, [illegible]

विकार बुदबुदाकर बोलना—मीदम—ऐरिट-टा, आर्स, ब्राइयो, सल्फ।

" भय मिला—ऐकोन, ऐङ्गे, बेल, कैन्थ, सिक्यू, कोलोसि, हायो, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, विरे-विर।

" लोटना, जमीन पर—ओपि।

" हँसना—ऐकोन, बेल, हाइयो, इग्ने, लैके, ओपि, प्लम्ब, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

विलक्षणा—विराग।

" काम काजसे—ओपि, फ्लु-ए, कोनि-का, पल्स, सिपि।

" गाने बजानेसे—कैना, फास-ए, टैबे।

" जीवनसे—ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐरिट-क्रू, आर्स, अरम, बेल, बार्बे, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चायना, कोनि फाम, क्रियो, लैके, मार्कु, नेट्र-का, फास, प्लम्ब सिपि, साइलि, सल्फ-ए, स्ट्रैफि, थूजा।

" परिवारवालोंकी ओर—ऐनाका, आर्स, कैना इण्डि, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, फास, प्लैटि, सिपि।

" समाजके प्रति—ऐनाका।

" सन्तानके प्रति—लाइको।

" स्त्रीके प्रति—आर्स, नेट्र-म, प्लैटि, स्ट्रैफि।

विरक्त होना, असन्तुष्ट होना थोड़ेमें ही (Offended easily)—ऐको, ऐलि, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिना, कोलोसि, क्रोक, माइका, ग्रैफा, लाइको, मर्यु, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, पेट्रो, फास, पल्स, सिपि, स्पाई, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

विरक्तिकर (wearisome)—ऐकोन आर्ज-ना, आरम, प्लैटि इग्नि, इग्ने, लैके, नेट्र म्यू, नक्स-वोम, फास ए, प्लैटि, पल्स, रस टक्स स्ट्रैफि, स्टाफि, सल्फ ऐसि, थूजा, जिङ्क।

विरक्ति, जीवनसे (weary of life)—ऐम्ब्र ऐमोन का ऐरिट क्रू, आर्स अरम, बेल, कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि चायना, लाइको, नेट्र म्यू, नाइट्रि-ए, नक्स वोम फास, रस टक्स, सिपि।

विकार, उग्र—ऐकोन, ऐगा, एपि, **आर्स**, **बेल**, कैम्फ, कैन्थ, कोना, क्रूप्रम, **हाइयो**, लैके, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, सिकेलि, **स्ट्रैमो**, विरि, जिङ्क।

" उन्मत्तता (raving)—ऐकोन, ऐगा, बेल, कैन्थ, सिकि, क्रूप्र-मेट, हेलि, **हाइयो**, लाइको, मार्कु, नाई-ऐ, ओपि, **सिकि**, **स्ट्रैमो**, विरि।

" ओठ-नाक नोचनेके साथ—अरम-ट्रि।

" कामुकताके साथ (Laciviouness)—कैन्थ, हाइयो, फास, प्लेटि, स्ट्रैमो, टैरेन्स, विरि।

" गडबडी मचाना—बेल, कैन्थ, हाइयो, स्ट्रैमो।

" घर जाना चाहता है, समझताहै, घरमे नही है—बेल, ब्राइयो, लैके, ओपि, विरि।

" टकटकी लगाकर देखता है, पर पहचान नही सकता किसीको भी—(Coma-vigil)—क्यूप्र, हाइयो, म्यू-ऐ, ओपि, फास।

" टकटकी लगाकर देखा करता है—आर्टि-वो, बोवि, कैम्फ, क्यूप्रम, स्ट्रैमो, रैना-बा।

" डोरी मानो शून्यमें भूल रही है—रैना-बा।

" दुःख भरा—ऐकोन, बेल, डालका, लाइको, पल्स।

" नाचता है, गाता है—ऐगा, अरम, बेल, हाइयो, स्ट्रैमो।

" पहचान न सकना किसीको भी—बेल, कैना-डि, हाइयो, मार्कु, नक्स-वोम, ओपि, स्ट्रैमो, विरि।

" प्रश्नका उत्तर देता देता बेहोश हो जाता है—आर्नि, बैप्टी, हेलि, हाइयो, फास, सल्फ।

" बिछावन छोडकर भागना चाहता है—"भागनेकी चेष्टा" देखिये।

" बिछावन नोचता है—"अङ्ग-भङ्गी" देखिये।

" बुदबुदाकर बोलना—इग्नेन्थ, एपि, आर्नि, आर्स, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, चेलि, क्रोटे-हो, जेल्स, हेलि, हिपर, हाइयो, लैके, लाइको, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, रास टक्स, सिकि, स्ट्रैमो, टेरा, टैबे, विरि।

" " अपने आप—बेल, हाइयो, रास-टक्स, टैबे।

विकार बुदबुदाकर बोलना—नींदमें—ऐण्टि-टा, आर्स, हाइयो, सल्फ।

„ भय मिला—ऐकोन, ऐट्रो, बेल, कैन्थ, सिक्यू, कोलोसि, हायो, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, विरे-विर।

„ लोटना, जमीन पर—ओपि।

„ हँसना—ऐकोन, बेल, हाइयो, इग्ने, लैके, ओपि, प्लम्ब, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

वितृष्णा—विराग।

„ काम काजसे—ब्रोमि, फ्लु-ऐ, कैलि-का, पल्स, सिपि।

„ गाने बजानेसे—कैना, फास-ऐ, टैबे।

„ जीवनसे—ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐण्टि-क्रू, आर्स, आरम, बेल, वार्बे, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चायना, कैलि-फास, क्रियो, लैके, मार्कु, नेट्र-का, फास, प्लम्ब, सिपि, साइलि, सल्फ-ऐ, स्टैफि, थूजा।

„ परिवारवालोंकी ओर—ऐनाका, आर्स, कोना, हिपर, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, फास, प्लैटि, सिपि।

„ समाजके प्रति—ऐनाका।

„ सन्तानके प्रति—लाइको।

„ स्त्रीके प्रति—आर्स, नेट्र-म, प्लैटि, स्टैफि।

विरक्त होना, असन्तुष्ट होना थोड़ेसे ही (Offended easily)—ऐको, आर्नि, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेनि, चायना, सिना, कॉलोसि, कोक, साइक्ला, ग्रैफा, लाइको, मर्कु, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, पेट्रो, फास, पल्स, सिपि स्पाइ, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे जिङ्क।

विरक्तिकर (wearisome)—ऐकोन आर्जे-ना, आर्स, ग्रैटि, हिपर, इग्ने, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम फास-ऐ प्लैटि, पल्स, रस टक्स स्टैफि स्ट्रामि, सल्फ-ऐसि, थूजा, जिङ्क।

विरक्ति, जीवनसे (weary of life)—ऐग्न ऐमोन-का, ऐण्टि-क्रू, आर्स, आरम, बेल कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, चायना, लाइको नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम फास, रस टक्स सिपि।

विलाप करना (Lamenting)—"खेद करना" देखिये।

विपन्न (Morose)—ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, **ऐनाका**, आर्निका, **अरम**, बेल, बिस्मथ, **ब्राइयो**, कोल्चि, कोलोसि, कोना, क्रोटन-टिग, साइक्ला, डिजि, इग्ने, इपि, लिडम, लाइको, मार्कु, मेजि, नक्स-वोम, फास-ए, प्लैटे, प्लैटि, प्लम्ब, **पल्स**, **साइलि**, सल्फ, थूजा, वैले, जिङ्क।

„ ऋतुके पहले—लाइको।

„ ऋतुके बाद—फेरम।

„ भोजनके बाद—कार्बो-वेज, कैमो, कैलि-का, मार्कु, नेट्र-का, फास, पल्स, थूजा।

विषन्नता, विमर्षता, विषाद, दुःखित भाव, मानसिक अवसाद (Sadness, mental depression)—(१) ऐकोन, आर्स, अरम, अरम-म्यू, कैल्के, कैल्के-आ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, चायना, सिपि, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, इग्ने, आइयो, कैलि-ब्रोम, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मार्कु, मेजि, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ए, प्लैटि, सोरि, पल्स, रास-टक्स, स्टैनम, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क। (२) ऐबि-ना, इस्कयू, ऐम्ब, ऐलूमि, ऐम्बा, ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, आर्नि, ऐसाफि, वैरा-का, ब्रोमि, ब्राइयो, ब्यूफो, कैक्ट, कैम्फ, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, चेलि, चिनि-स, सिक्यू, सिना, क्लिमे, काकु, काफि, कोना, कर्णा, क्रोक, क्रोटे-हो, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, ड्रोसे, डाल्का, ग्रैटि, हेलो, हाइड्रो, इग्नि-गो, इपि, कैलि-का, कैलि-ब्रो, लैक-के, लैक-डि, लोरो, मैन्सि, मैङ्ग, मार्कु-की, मार्कु-आ-रू, म्यू-ए, मैङ्गो, नेजा, नेट्र-स, नक्स-वोम, पेट्रो, फास-ए, फास, फाइटो, प्लम्ब, राम-बे, रूटा, सैबाइ, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्पञ्जि, स्टैफि, स्ट्रैमो, साल-ए, विरे-वि। (३) ऐलोज, ऐपिस, बैप्टी, बेल, ओपि, पोडो, रियुम, वैले।

„ सवेरे, प्रातःकालके समय—ऐलूमि, आर्ज-ना, कार्बो-ऐनि, लैके, लाइको, नेट्र-स, नाइ-ए, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि, पल्स, सिपि, साइलि।

„ दोपहरके पहले, पूर्वाह्नमें—ऐमोन-का, आर्ज-मे, एपि, कैना-से, थूजा।

दोपहर (मध्याह्नमें)—कास्टि, मार्सा, जिङ्क।

„ तीसरे पहर, अपराह्नमें—ऐलूमि, ऐसिड-टा, चिनि-स, कास्ट, ड्रसे, ओपि, फास, जिङ्क।

„ सन्ध्याके समय—ऐसिड-क्र, ऐसिड-टा, आर्स, अरम, बोव्हि, कार्बो-वेज, ग्रैफा, हिपर, ड्रसे, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लैटि, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फर, विरे।

„ रातमें—ऐमोन-का, आर्स, कार्बो-ऐनि, कास्टि, डाल्का, ग्रैफा, प्लैटि, रास-टक्स।

विपन्नता—

„ अकेले रहनेपर—आर्स, अरम, बोवि, लाइको, सेप्री, नेट्र-म्यू।

„ ऋतुके पहले—कैल्के, कास्टि, कोना, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, म्यूरे, फास, पल्स, सिपि, स्टैनम।

„ „ समय—कास्टि, ड्रसे, नेट्र-म्यू, पेट्रो, पल्स, सिपिया, साइलि, थूजा, जिङ्क।

„ „ बाद—ऐलूमि, चायना, फेरम, साइलि।

„ „ लोप होनेपर—आर्स, कैल्के, नेट्र-म्यू, नक्स म, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—सिमि, लैके, नेट्र-म्यू।

„ घरमें—कैल्के, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स।

„ जवानी फूटनेके समय—ऐसिड-क्र, हेलि, मेन्सी, नेट्र-म्यू।

„ वर्षाकी—आर्स, कैल्क, लैके, सल्फ।

„ बालिका अवस्थामें, (यौवनके पहले), आर्स कैल्के-फास, हेलि, लैके।

„ भोजनके पहले—मैग-म्यू।

„ „ समय—सिपि।

„ „ बाद—ऐलूमि, ऐनाका, आर्जे-ना, आर्स, ऐसाफि, कास्टि, कैमो, चायना, सिपाय, नेट्र-का, नक्स-वोम, पल्स।

„ मैथुनके बाद—कैल्के, कोना, स्टैफि।

„ सामान्य कारणसे—डिजि, ग्रैफा।

„ अधिक मैथुनसे पैदा हुई—कोना, ओनस, नेट्र-म्यू, फास-ऐ, मर्क, साइलि, सल्फ।

„ घटना, तीसरे पहर—ऐगा, कैना-सै।
„ „ खुली हवामें—प्लैटि, रास-टक्स, टैरे।
„ „ दुःख कष्ट देनेपर—टैरे।
„ „ दो पहरके पहले—ग्रैफा, सार्सा।
„ „ भोजनके पहले—लिमि, सैग स्यू, टैरे।
„ „ भ्रमणके समय—कोपे।
„ „ रातमें—ऐमोन-का, टैरे।
„ „ रोनेसे—डिजि, मैडो, फास।
„ „ सन्ध्याके समय—ऐलो, कैना-सै, कार्बो-वेज, कोका, हैमा, जिङ्क।
„ „ सन्ध्यामें भोजनके बाद—ऐमोन-का, लिमि, टैरे।
„ „ सवेरे—कार्बो-ऐनि, ग्रैफा।
„ **बढ़ना**—सान्त्वनासे "समझाने-बुझाने पर" देखिये।

विस्मरणशील, भुलक्कड़ (Forgetful) "स्मरण-शक्ति" भूल करना" देखिये—
ऐब्रो, ऐकोन, ऐग्न, ऐनाका, एपि, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, अरम, **बैरा-का**, बेल, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिना, **काकु, कोलचि,** कोना, क्रोक, कूप्र, डिज़ि, जेल्स, ग्लोना, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-ब्रोम, लैक-कै, लैके, लाइको, **मार्कु,** मिलि, नेट्र-स्यू, नक्स-वोम, **पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लैटि,** रास-टक्स, सल्फ, थूजा, जिङ्क।
„ नाम-अपना—ऐलूमि, कैलि-ब्रोम, मैडो, सल्फ, वैले।
„ बोलनेमें—ऐगा, आर्ज-ना, आर्नि, बैरा-का, **कैनाड,** कार्बो-वेज, डाल्का, कैलि-ब्रोम, लैके, लाइको, मैडो, नेट्र-स्यू, नक्स-वोम, पोडो, फास-ऐ, सल्फ, विरे।
„ रास्ता-परिचित—ग्लोनो, पेट्रो, नक्स-म।
„ सर-दर्दके समय—एपि, कैल्के, ग्लोनो।
„ स्थान, काल—मार्कु।

व्यस्त (Busy)—एपि, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कैप्सि, कालि, इग्ने, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ।

व्यस्त, कोई उद्देश्य नहीं-पर—आर्ज-ना, आर्स, कैन्थ, लिलि-टिग, सल्फ, टेरे।

शराब पीनेकी इच्छा—"मद्यपान" देखिये।

शराब पीनेके कारण उन्माद—"उन्माद" देखिये।

शान्त स्वभाव (Quiet disposition)—ऐलूमि, वेल, सिकु, क्लिमे, जेल्स, क्षाइयो, इग्ने, मैके, लाइको, म्यू-ऐ, पेट्रो, प्रेटि, प्लम्ब, पल्स, सार्सा, साइलि, स्ट्रैनम, वायो-ट्रि, जिङ्क।

„ गोदमें लेकर घूमनेपर—कैमो।

श्रान्ति लानेवाला—थकानेवाला (wearisome)—"विरक्तिकर" देखिये।

सन्दिग्ध (Suspicious)—ऐकोन, ऐनाका, ऐगिट-क्रू, आर्नि, आर्स, अरम, बैप्टी, बेरा-आ, बेल, बोरा, ब्राइयो, काल्कि, कौल्की-स, कैना-इ, कास्टि, सेनकि, कैमो, चायना, सिक्यू, सिपि, काफि, क्रोटे-हो, डिजि, ड्रोसे, हेलि, ह्वाइयो, इपि, लैकि, लाइको मार्कु, मेट्र-का, नाइ-ऐसि, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिके, सिपि, स्ट्रैनम, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐसि, सल्फ, थूजा, विरे-वि।

सन्देह (Doubtful) आरोग्यके सम्बन्धमें—ऐकोन, ऐग्न, ब्राइयो, कैल्के, इग्ने, कालि का, लैके, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, मोरि, पल्स, सिपि, सल्फ।

समझाने-बुझानेसे बढ़ना—"सान्त्वना" देखिये।

समय वृथा नष्ट होता है—काफि, नक्स-वोम।

„ भूल करना—"भूल करना" देखिये।

„ मानो कटता नहीं है—बेना-ई, कैनाबे ग्लोनो, मेके नाइयो, मेडो, मार्कु, नक्स-मस, नक्स वोम।

„ मानो जल्दी कट जाता है—ऐट्रो कौका काकु इग्ने ओपि, सल्फ, थेरि, थूजा।

सम्भोगकी वजहसे पैदा हुए रोग—"रतिज रोग" देखिये।

समदुःखी, सहानुभूति विशिष्ट (Sympathetic)—"पर दुःख कातर" देखिये।

साहसी (Courageous)—ऐकोन, ऐगा, ऐलुमि बार्ब, कैलि कैम्फर इग्ने, मार्कु, मेजे, मेट्र-का, ओपि फास, पल्स सल्फ।

सान्त्वना (Consolation) देनेसे बढ़ना—आर्निका, बेल, कैल्के, कैल्के-फास, कैमो, चायना, हेलि, इग्न, लिलि-टिग, लाइको, मार्क, नेट्र-म्यू, नाई-ऐसि, नक्स-वोम, प्लैटि, सिपि, साइलि, स्टैफि, थूजा।

सीटी देना—बेल, कैना-ई, कैना-से, क्रोक, लैके, लाइको, प्लैटि, स्ट्रैमो।

" " इच्छा न रहने पर भी—कार्बो-ऐनि, लाइको।

सूक्ष्म दृष्टि (Clairvoyance)—"अतीन्द्रिय देखना" देखिये।

स्त्री-जातिसे घृणा (Aversion to women)—ऐमोन-का, बैप्टी, डायस्को, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, पल्स, सल्फ, विरे, जिङ्क।

स्थिर-प्रतिज्ञ—कैप्सि, ड्रोसे, स्ट्रैमो।

स्थूल बुद्धि—"निर्बुद्धिता" देखिये।

स्नेह शील (Affectionate)—स्ट्रैमो।

स्वप्न देखता है, मानो (As if in dream)—ऐक्टि, ऐकोन, ऐनाका, एपि, आर्नि, आर्स, बेल, कैना-इ, कैना-से, कार्बो-वेज, कैमो, कूप्रम, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, ओपि, फास-ऐसि, फास, स्टैमो, विरे।

" अवस्थामें भ्रमण (Somnambulism)—**ऐकोन**, ऐगा, ऐलूमि, ऐनाका, ऐण्टि-क्रूड, आर्टि-व, बेल, ब्राइयो, हाइयो, इग्न, कैलि-ब्रोम, साइक्ला, लैके, लाइको, **नेट्र-म्यू**, **ओपि**, **फास**, साइलि, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैमो, सल्फ, टियुक्रि, विरे, जिङ्क।

स्वार्थपरता (Selfishness)—ऐगा, मेडो, पल्स, पाइरो, सल्फ।

स्मरण शक्ति (Memory-याददाश्त)—तेज़ (active)—ऐकोन, ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, ऐनाका, आर्निका, आर्स, अरम, **बेल**, **काफि**, फ्लू-ऐ, ग्लोनो, **हाइयो**, **लैके**, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, प्लैटि, प्लम्ब, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, बार्बे।

" दुर्बल ("भूल करना" "विस्मरणशील" देखिये)—ऐकोन, ऐगा, ऐम्ब, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, **ऐनाका**, एपि, आर्जे-ना, आर्निका, **आर्स**, अरम, बैरा-का, **बेल**, बार्बे, बोरे, बोवि, ब्राइयो, ब्यूफो,

कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कास्टि, फ्लोरि, लिमे, कोलचि, कोना, क्रोटे-हो, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, युफ्रे, जेल्स, ग्लोनो, ग्रेफा, गुए, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-ब्रोम, लैके, लौरो, लाइको, मेडो, मार्क, मार्क-को, नेट्र-का, नेट्र-म्यु, नाइ-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओलियै, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, प्लम्बम, पल्स, रास-टक्स, सिमिसि, सिपि साइलि, स्पाइजि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, सिफि, यूजा, विरे, वायो-ओ, जिङ्क।

रण शक्ति कहना चाहता था जो—आर्नि, बैरा-का, कैना इ, नेट्र-म्यु।

" " काम-काजके सम्बन्धमें—ऐम्ब्रा, चेलिडो, फ्लू ऐ, हाइयो, कोलिका, क्रियो, फास, मैबाइ, मिलि, सल्फ, टेलू, टैरि।

" " तारीख—ऐकोन, कोना, क्रोटे-हो, फ्लु-ऐ, कैलि-फाइ, कैलि-ब्रोम, मार्क, सिकि।

" " नाम—ऐनाका, कैना-इ, क्रोटे-हो, क्लोरम, गुया-ए, कैलि-ब्रोम, लैके, लाइको, मेडो, रास-टक्स, सल्फ।

" " परिचय—कैलि का, लाइको, नक्स-वोम, प्लम्ब।

" " पढ़नेमें—लैके, लाइको, मेडो, नेट्र-म्यु, ओपि, फास-ऐ, फास।

" " बोलनेमें—ऐनाका, आर्ज-ना, आर्नि का, बैरा-का, काकु, कूप्रम, डालका, कैलि-ब्रोम, कल्के, लैके, निलि-टिग, लाइको, फास-ऐसि, प्लम्ब।

स्मरण-शक्ति दुर्बल—

" " भाव प्रकाश करनेके लिये शब्द नहीं मिलता—ऐनाका आर्ज-ना, आर्नि, बैरा का, कैल्के, कैमो, काकु, कैलि ब्रोम, कैलि-का, लैके, लाइको नक्स-मस, नक्स वोम, फास ऐ, प्लम्ब।

" " सामयिक, एकाएक—कार्बो वेज।

" " सोचना और कर्म करता था—ऐकोन, ऐगा, ऐमूनि, ऐनाका, कैना-इ, काकु।

हत बुद्धि, हतभम्ब—हाइयो, सल्फ।

हताश (Despair)—"निराशा" देखिये।
हत्या करनेकी इच्छा (Desire to kill)—"खून करनेकी इच्छा" देखिये।
हंसना (Laughing)—ऐकोन, अरम, वेल, बैरा, कास्टि, कैल्के, **कैना-इ,** क्रोका, फेरम, हाइयो इग्ने, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, सल्फ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि, पल्स, सिपि, **स्ट्रैमो,** टैरे, वैले, विरे, वार्ब्बा, जिङ्क।
„ अनिच्छा—ऐम्ब्रा।
„ „ रहनेपर भी—ओरा, कैना-इ, कोना, क्रोक, **इग्ने**, लाइको, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, ओपि, फास, प्लम्ब, सिपि, टैरे।
„ असङ्गत—**कैना-इ,** नेट्र-म्यू, नक्स-म, टैरे, जिङ्क।
„ आक्षेप (खींचन) के साथ—ऐकोन, ऐलूमि, ऐनाका, ऐसाफि, अरम, वेल, कैल्के, कास्टि, सिकि, कोना, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-म, ओपि, फास, प्लैटि, स्ट्रैमो, वैले, विरे, जिङ्क।
„ उन्मत्तताके साथ पर्यायक्रमसे—स्ट्रैमो।
„ ऊंचे स्वरसे—वेल, आइयो, स्ट्रैमो।
„ गम्भीर विषयोंमें—ऐनाका, कैना-इ, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-म, प्लैटि, सल्फ।
„ मूर्खकी तरह—वेल, क्रोटे-कै, **हाइयो,** लैके, लाइको, मार्क, स्ट्रैमो।
„ रोनेके साथ पर्यायक्रमसे—"रोना" देखिये।
„ लगातार—**कैना-इ** विरे।
„ सामान्य कारणसे—ऐमोन-का, आर्स, कैना-इ, ग्रैफा, जिङ्क।
हिंसक (Malicious)—ऐकोन, ऐनाका, वेल, कैल्के, केमो, हिपर, हाइयो, इग्ने, लैके-कै, लैक, लिड, लाइको, **नक्स-वोम** स्ट्रैमो, सल्फ।

मस्तक (HEAD) ।

तंग मालूम होना, ढीला मालूम होना मस्तिष्क (Looseness of Brain)—ऐकोन, बैरा-का, कास्टि **चायना**, सिक्यू, क्रोक डिजि, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइयो, कैलि-का, लैके लेकि-ऐ, लौरो, नेट्र-म्यू, नक्स-म, रास-टक्स स्टैफि, टेलु, विरे ।

„ खाँसनेके समय—ऐकोन, हाइयो, कार्बो-ऐनि, सिपि, सल्फ-ऐ ।

„ हिलने डोलनेसे—कार्बो-ऐनि, कास्टि, क्रोक, मैग-म, टेलू ।

घात करता है मानो माथेकी खोल (खोपडीमें) के भीतरसे—आर्स, बेल, **चायना**, लौरो ।

घातकी वजहसे मस्तिष्कका काँपना (Concussion of brain)—**आर्नि**, बेल, **सिक्षि**, हेलि, हाइयो, जिङ्क, नक्स-म, प्लैटि, रास-टक्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ ।

ताप—ऐकोन, **ऐम्ब्रा**, ऐलू, ऐमोन-का, **आरम**, **आर्नि**, **आर्स**, बेल, कार्बो ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, युफ्रे, हेलि, हाइयो, लैके लौरो, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-म, ओपि, फास, फास ऐसि प्लमूब सोरि सार्सलि, स्ट्रैमो, स्ट्रानि टैरे थेरि, वायो-ओ, जिङ्क ।

„ सवेरे—ग्रवि, लाइको ।

„ तीसरे पहर—स्टैनम ।

„ रातमें—कैम्फ, साइलि ।

„ ब्रह्मतालुमें—(१) ग्रैफा कैल्के सल्फ (२) पिथेना, डाफनि पेट्रो, रास्ट्रक्स, टैरेक्स ।

ट (Eruptions)—

„ एक्जिमा (Eczema)—कैल्के, काफ, डाल्का **ग्रेफा**, **हिपर**, **लाइको**, मेजि, पेट्रो, फाइटो **सोरि**, साइलि सल्फ ।

„ „ एक कानसे दूसरे कानतक केशोंके किनारे किनारे पीछेकी ओर—पेट्रो सल्फ ।

„ पपड़ी, खुरण्ड (Scalp crusts)—ऐन्टि क्रू, ऐन्टि टा, थार्स आरम बेरा का बैरा म्यू, ब्रोमि, कैल्के-म कैप्सि कार्बि सिजि

क्लिमे क्रोटन-टिग, डाल्का, थुये-पर्फो, फ्लू-ऐ, **ग्रे फा**, हिपर, आइरि, कैलि-स, क्रियो, **लाइको, मार्क**, मार्कु-ऐ-फ्लु, मेजे, नेट्र-म्यू, **नेट्र-स**, नाइ-ऐ, पेट्रो, फाइटो, **सोरि**, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टैफि, **सल्फ।**

उद्भेद-पपड़ी-खुरण्ड—खड़के रङ्गका—डाल्का।

" " खुजली मिले—क्लिमे, **ओलि**, साइलि, स्टैफि, **सल्फ।**

" " खून निकाला है, खुजलाने बाद—लाइको।

" जखम भरे—आर्स, मेजे।

" " तर—कैल्के।

" " पीले रंगके—डालका, कैलि-वा, मार्कु, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ।

" पीछेकी ओर (Occiput) माथेके—लाइको।

" " बदबूदार—नाइ-ऐ।

" " सफेद—ऐलमि, कैल्के, मेजे, नेट्र-म्यू, टेलु, थूजा।

" " सूखा—आर्स, मेजे।

" जलन-भरे—आर्स, ऐनथ्र, सिकु, ग्रैफा, कैलि-वा, सार्सा, सल्फ।

" दाद (Tinea capitis)—(१) बेसिलि, ग्रैफा, मेजे, सोरि, सिपि, टेलू (२) आर्स, बैरा-म्यू, कैल्के, डालका, कैलि-स, पेट्रो, साइलि, सल्फ, टियुबर, वायो-ट्रि।

" दुधिया-पपड़ी (Milk crust)—(१) कैल्के, डाल्का, हिप, लाइको, मेजे, सिपि, ड्राइफो-पेंटे, विङ्का-मा, वायो-ट्रि।

" दुष्टव्रण (Carbuncles)—ऐन्थ्रा, आर्स, हिपर, लेके, साइलि, सल्फ।

" पीब भरी गुटिका, व्रण (Pustules)—आर्स, कैल्के, हिपर, आइरि, मार्कु, सोरि, साइलि, सल्फ।

" पीब भर जाता है—बैरा-म्यू, लाइको, मेजे।

" फुन्सियाँ, खुजलानेवाली—क्लिमे, **ओलि**, साइलि, स्टैफि, **सल्फ,** ।

" " रस निकलता है—**कैल्कि-स, क्लिमे, ग्रेफा, हिपर**, लाइको, **मेजे**, मार्कु, **ओलि**, पेट्रो, सोरि, **रास-टक्स,** सिपि, साइलि, स्टैफि, विङ्का-माई।

उद्भेद, फोड़े—ऐना-का, ऐसिट-टा, आर्नि, आर्स, कैल्के, हिपर, कैलि-का, **कैलि-आर्स**, मेजे, नाइ-ऐ, सोरि, सल्फ।

„ „ पश्चाद् भागसे—नैट्र-का, लाइको।

„ „ कानके पीछे, रस गिरता है—**ग्रैफा**, लाइको, **ओलि**, **पेट्रो**, स्टैफि, टियुवर।

„ रस भरे दाने—(१) क्लिमे, ओलि, (२) लाइको, नैट्र-म्यू, सल्फ।

„ विसर्प (Erysipelas)—**एपि**, आर्स, चेलिडो, चायना, युफ्रे, ग्रैफा, लैके, फास-ऐ, फाइटो, रास-टक्स, रूटा, सल्फ, टेरि, विरे-वि।

कपकपीका भाव (Trembling sensation)—ऐसिट-क्रू, ऐसिट-टा, बेल, ब्यूफो, कैल्के, कार्बो-वेज, चेलि, सिक्यू, काकु, कोपि, ग्रैफा, इग्ने, इपिड़, लिथि, मैग-फास, मार्कु, ओपि, पेट्रो, प्लैटि, प्लम्ब, सल्फ।

„ ऋतुके समय—ऐसिट-क्रू, सिकु, सिनाबे, क्यूबे।

„ खाँसनेके समय—ऐसिट-टा, लैक्टि-ऐ।

„ बढ़ना—हिलने डोलनेसे—सिकु।

कसापन (Tightness)—ऐकोन, ऐनाका, आर्नि, ऐसाफि, कैडमि, कैम्फ, **काकु**, **ग्रैफा**, लाइयो, स्टैनम, सल्फ-ऐ, **ऐसिट-टा**, विरे।

„ नाकको जड़में—नाइट्रा (कैलि-ना)।

केश उड़ जाना (Alopecia)—ऐम्ला, ऐसिट-क्रू, आर्स, **आरम**, बैरा-का, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, चेलिडो, फेर, फ्लू-ऐसि, फार्मि, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, कैलि-का, कैलि-फा, कैलि-स, क्रियो, **लाइको**, मैग-का, मार्कु, मार्कु-कोर, मेजे, नैट्र-म्यू, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, सिलि, सिपि, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, यूजा, जिङ्क।

„ „ मुट्ठी-मुट्ठी—लाइको, मेजे, **फास**, सल्फ।

„ „ ऐंठ जाता है—मेजे।

„ „ गर्भावस्थामें—लैसी।

„ „ बहुत बहुत सा—आर्नि, कैन्थ, डल्का, लैक-पै, म्यास्कि, सिङ्क।

„ जटा बँध जाती है, मस्तकमें ही—बोरे, मेजे, नैट्र-म्यू, सोरि।

„ झड़ जाना, मस्तकमें—बोरा, ग्रैफा, फ्लू-ऐ।

केश, टाक पड़ना (चँदला हो जाना)—ऐनाका, ऐपि, बैरा-का, फ्लु-ऐ, ग्रैफा, हिपर, लाइको, फास, सिपि, साइलि।

„ टूटनेवाले—आर्स, वेल।

„ „ युवकोंके—बैराइटा-कार्ब, साइलि।

„ पक जाते हैं—आर्स, ग्रैफा, हिपर, कैलि-ना, **लाइको**, फास-ऐ, सिके, सैल-ऐ।

„ सूखे, रूखे—ऐम्ब्रा, कोल्को, फ्लू-ऐ, फास, सोरि, सल्फ, थूजा।

कोमलता, मस्तिष्ककी (Softening of brain)—ऐन्थ्रा, लैके, नक्स-म, फास।

क्लान्ति मालूम होना, मस्तिष्कमें (Tired feeling)—ऐपि, कोना, आइरि, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-म, सोरि।

खाली मालूम होना (Empty, hollow sensation)—"शून्य मालूम होना" देखिये।

खुजली—(१)-ग्रैफा, मेजे, नेट्र-म्यू, सल्फ। (२) ऐमोन-का, ऐमोन-म्यू, बैरा-का, बोवि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कास्टि, लिमे, क्रोटे-हो, फेर, फ्लू-ऐसि, फार्मि, लोरो, मार्कु-आ-फ्लो, ओपि, पेट्रो, फास, सिपि, साइलि, स्टैफि, टेलू। (३) ऐकोन, ऐगा, ऐनाका, ऐरिट-म्यू, आर्स, कैम्फि, रासृक्स, फास-ऐ।

„ चूटी रेंग रही है, मानो—कैल्के, साइलि।

„ जलन करनेवाली—कैल्के, कार्निका।

„ रगड़नेसे—नेट्र-म्यू।

„ रक्त निकलता है, खुजलाते खुजलाते—कार्बो-ऐनि।

„ घटना खुजलानेपर—ऐगा, बैरा-का, कैम्फि, मेजे, नेट्र-म्यू, ओलि, ओपि, फास-ऐ, सार्सा, थूजा।

„ बढ़ना खुजलानेपर—**फास**।

„ „ बिछावनकी गरमीसे—बोवि, कार्बो-वेज, लाइको, साइलि।

खोपड़ीमें आघात करता है, मानो भीतरसे—आर्स, वेल, **चायना**, लोरो।

„ गर्म घरमें—ऐमोन-म्यू।

„ छोटी हथौड़ीसे—नेट्र-म्य, सोरि।

„ ...में—आर्स, ऐसाफि, **वेल**, ब्राइयो कैम्फि, सिङ्क, चेलिडो, जेल्स,

ग्लोनो, ग्रेटि आइयो, लैक-के, लेके, फास, मैङ्ग, स्याई, स्टैफि सल्फ।

खोपड़ीमें आघात करता है, मानो दाहिनी—इस्क, क्रूप-ऐ, ह्निपर।

" बाईं ओर—कोलोसि।

" दाहिनी ओर—ऐण्टि-टा।

" " बाईं दोनों ओर—ऐकोन, आर्ज-ना, कैलि का, क्रियो, नक्स।

" ब्रह्मतालुमे (Vertex)—ऐलूमि, काल्चि, कैमो, चेलिडो ग्लोनो, हाइयो, लैक-डि, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे।

" मानसिक परिश्रमसे उत्पन्न—नेट्र-म्यू, पिक्रि-ऐ, पल्स, रेफा साइलि।

" घटना खुली हवामें—ऐण्टि-टा, कैलि-बा, कैलि-आर्स, सैङ्ग, निको, फास, पिक्रि-ऐ।

" चाय पीनेपर, दबानेपर—इथि, ऐलूमि, ऐमोन-का, बेल, नाइयो, फेर, ग्लोनो, कैलि-बा, कैलि-ना, नेट्र-म्यू, पल्स।

" माथा ऊँचा कर सोनेमें—नेट्र-म्यू।

" " गर्म कपड़ा बाँधनेसे—साइलि।

" " किसी चीजसे बाँधनेसे—पिक्रि-ऐसि।

खोपड़ीमें आघात करता है, मानो—

" बढ़ना खुली हवामें—इथि, ऐमोन-म्यू, कार्बो ऐनि, फाक, गुए, थाइरिम।

" " खाँसनेसे—आर्स।

" " घुमानेमें माथा—ग्लोनो।

" " बातचीतमें—ऐकोन काफि, नेट्र-म्यू माइलि, सल्फ।

" " माथा जोरसे हिलानेपर—ग्लोनो।

" " सूर्यके तापसे—ऐकोन, सल्फ।

" " हिलने-डोलनेपर—ऐकोन ऐगा का बायि आर्स, बेल ब्रायो कैल्के-फास, काक्, फेर, थाइयो, ग्लैसि या मैग न्याक्स नेट्र म्यू, सिपि सल्फ।

खोपड़ी उठाकर फेंकता है मानो (Sensation of lifting up of the skull)—कैना इ मेक डि।

खोलनेपर रोग बढना, माथा (Uncovering aggravates)—ऐकोन, ऐसिड-फ्लू, आर्जे-मे, आर्स, अरम, **बेल**, कैमो, चायना, कोलचि, कोना, ग्रैफा, **हिपर** हाइयो, इग्ने, लेके, मार्कु, नेट्र-म्यू, नक्स-म, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, पल्स, **रास-टक्स**, सिपि, स्टैनम।

,, सुन्न भाव—ऐलूमि, बैप्टी, ब्यूफो, ब्राइयो, कैल्के-आर्स, काकु, कोना, कैलि-ब्रोम, **ग्रैफा**, **नाइ-ऐ**, ओलि, पेट्रो, प्लैटि।

गर्म आवरणसे (माथेमें) रोगकी वृद्धि (Warm covering on head aggravates)—ऐकोन, अरम, बोरै, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, फेरम, इग्ने, **आइयो**, लेके, लिडम, **लाइको**, मार्कु, नाइ-ऐसि, ओपि, **फास**, प्लैटि, **पल्स**, सिके, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, विरै।

धुसा देना, माथा-तकियेमें—एपि, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, डिजि, हेलि, स्ट्रैमो।

चक्कर आना (Vertigo-माथा घूमना)—**ऐकोन**, इस्कि, ऐगा, ऐग्न, **इला**, ऐलो, ऐलूमे, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐमिल-ना, ऐसिड-फ्लू, **एपि**, आर्जे-नाइ, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, ऐस्टि, अरम, अरम-मेट, **बैप्टो**, बैरा-का, बार्बे, **बेल**, ब्रोमि, **ब्राइयो**, ब्यूफो, कैक्ट, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैम्फ, **कैना-इ**, कैना-सै, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिड्र, **कैमो**, चेलि, चायना, चिनि-स, सिक्यू, सिपि, सिना, स्टिक्टा, **काकु**, काफि, कोलो, **कोना**, क्रूम, **साइक्ला**, **डिजि**, डालका, इलेप्स, युपे-पर्फ, युपे-पर्पु, युफ्रे, फेरम, फेरम-फास, **जेलस**, ग्लोनो, ग्रैफा, गुयारि, हिपर, हाइड्रोक्लो-ऐसि हाइड्रोसि-ऐ, हाइयो, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-ब्रो, कैलि-का, कैलि-आ, कैलि-ना, कैलमि, क्रियो, लैके, **लाइको**, मार्कु, मार्क-को, मेजे, फास्फो, म्यू-ऐ, माइगे, **नेट्र-म्यू**, नेट्र-स, नाइ-ऐसि, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, **अरम**, पेट्रो, फास-ऐसि, **फास**, फाइटो, प्लैटि, पोडो, सोरि, पल्स, **रैना-बा**, **रास-टक्स**, रास-बे, सैबाडि, **सेङ्ग**, **सिके**, सेने, सिपि, **साइलि**, स्पाइ, स्पञ्जि, स्टैनम, स्ट्रैमो,

स्ट्रान्सि, सल्फ, टेरे, टेरि, थेरि, थूजा, वेले, विरि, विरे-वि, वेरम, जिङ्क।

चक्कर आना, सवेरे-प्रात.कालके समय—ऐकोन, ऐगा ऐलूमि, ऐमोन-का, आर्जे-नाइ, वेल, वोवि, कैल्के, **कार्वो-ऐनि**, कैस्ट-ड, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिनावे, डिजि, डालका, जेल्स, ग्रैफा हिपर, आइयो, कैलि-का, **लेवी, लाइको**, मेग-म्यू, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, टेलू, विरे, जिङ्क।

" पूर्वाह्न, दोपहरके पहले (forenoon)—कास्टि, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, फास, सल्फ, जिङ्क।

" मध्याह्न (दोपहरमें-Noon)—आर्नि, केल्के-फास, फास, कास्टि, चायना, डालका, लाइको, मेग-म्य, मेग स, मार्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

" अपराह्न (तीसरे पहर)—इस्कु, ऐगा, ऐलूमि, ऐन्या, वेञ्जो-ऐसि, ब्राइयो, चेलि, चायना, कूप्रम, ब्राइयो, फेरम, ग्लोनो, कैलि-का, लाइको, मार्क, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, फास-ऐ, फास, पल्स रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैफि, सल्फ, थूजा।

" सन्ध्याके समय—ऐमोन-का, एपि आर्नि आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि चायना, माइका, ग्रैफा, हिपर, कैलि का, लैके, लाइको, मेग-का, मार्क, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स वोम, फास-ऐसि, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, थूजा, डिलि।

" रातमें—ऐमोन-का, वेरा-का, वेल, कैल्के, कास्टि, चायना, लैके, नेट्र-का, नक्स-वोम, फास, मेट्र, साइलि स्पञ्जि, सल्फ, थेरि, जिङ्क।

" आंख खोलनेपर (On opening eyes)—ऐलूमि फिना।

" " बन्द करनेपर—ऐलूमि, ऐपिस टा, एपि आर्स आर्ट आर्नि, आर्स थैमो, चेलिडो, हिपर, लैसि, फास पि, सिपि साइलि, स्ट्रैमो, थेरि।

चक्कर आना, उठनेपर (On rising)—**ऐकोन**, ऐलैन्थ, आर्नि, बैरा-का, बेल, **ब्राइयो**, कैल्के, कैना-इ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, सिक्य, डिजि, फेर, ग्लोनो, गुये, हैमा, हिपर, लैके, नैट्र-म्य, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, **रास-टक्स**, सल्फ, टैबे, विरे।

" उठना चाहने पर—"उठनेपर" देखिये।

" उपदेशकी वजहसे—अरम।

" उड़ता फिरता है, पैर जमीनमे नहीं लगते मानो—ऐगा, ऐसार, **कैल्कि-ऐ**, कैम्फ, चायना, काफि, हियुरा, **लैक-कै**, नैट्र-म्यू, नक्स-म, ओपि, रामटक्स, थ जा, वैले।

" उतरनेमें, नीचे (On decending)—**वोरै**, काफि, कोना, **फेर**, जेल्स, मैग-म्यू, माकु, सैनि, स्टैनम।

" सीढ़ीसे—बोरै, कोना, माकु, फाइटो, प्लैटि।

" ऋतुके पहले—कैल्के-फास, कोना, लैके, नक्स-म, फास, पल्स, विरे, जिङ्क।

" ऋतुके समय—ऐकोन, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कास्टि, कोना, क्रोक, साइक्ला, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, आइयो, कैलि-का, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सल्फ।

" औंघाईके साथ—इथू, आर्जे-ना, क्रोटन-टिग, लोरै, नाइ-ऐ, नक्स-मस, पल्स, सेबाडि, माइलि।

" कब्जियतके समय—ऐलो, कैल्के-फास, चायना, क्रोटे-हो, नैट्रम-सल्फ।

" कलेजा धड़कनेके साथ—कैक्ट, इथि, डिजि, स्पाई।

" खुली हवामें—ऐगा, ऐम्ब्रा, आर्नि, आर्स, अरम, कैल्के, कैल्के-फास, डायस्को, माइक्ला, ड्रोसे, कैलि-का, लैके, लिडम, लाइको, म्यू-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, सिपि, स्पाई, स्टैनम, सल्फ, टैरे, थिया, टेलू, थूजा।

" कानमें भो भो आवाजके साथ—चिनि-स, जेल्स, स्ट्रिक, आर्ज-नाई, बेल, कार्बो-वेज, चिनोपो, पिक्रि-ऐ वैले।

" कांपती है सब चीजें—कार्बो-वेज।

खड़े होनेपर (While standing)—ऐकोन, अरम, ब्राइयो, कैल्के,

कोना-से, कास्टि, कैमो, काकु, लैके, लाइको, ओपि, फास-फास-ऐ, पल्स, सैवे, स्याइ, सल्फ।

चक्कर आना—उच्च स्थानमें—जिङ्क।

" खाँसनेके समय—ऐण्टि-टा, कैल्के, काफि, कैलि-का, मस्क, नक्स-वोम।

" खुली हवामें—"हवामें खुली" देखिये।

" गन्धसे, फूलके (Odor of flowers)—फाइयो, नक्स-वोम, फास।

" गर्भावस्थामें—आर्स, जेल्स, नेट्रम-म्यू, फास।

" गर्म कमरेमें—क्रोक, ग्रैफि, लिलि टिग, लाइको, मार्क, फास-ऐ, फास, पल्स, सैनि।

" गाड़ी चढ़नेपर—ऐकोन, हिपर, कैल्के, लाइको, साइलि।

" गिरा जाता है मानो ऊँचेसे—कास्टि, जेल्स, मस्क।

" गिर जानेकी तरह होना (Tendency to fall)—ऐकोन, ऐगारि, ऐलूमि, ऐङ्गा, आर्निका, आर्स, बेल, बार्बे, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिकु, काकु, कोना, फेर, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, लिड, लाइको, मैग-का, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, फिला, फास-ऐ, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सैवाड़ि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, टेरि, जिङ्क।

" गिर जानेकी तरह होना, सामने—ऐलूमि, आर्नि, कैम्फ, कास्टि, सिकु, इलैप्स, फेर, ग्रैफा, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐसि, पोडो, पल्स, रैना-बा, रास-टक्स, सैवाड़ि, साइलि, सल्फ।

" " पीछे—ऐगा, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, कैलि-का, नक्स-वोम, फास-ऐ, रास टक्स, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

" " दाहिनी ओर—ऐकोन, कास्टि, फेर, साइलि, जिङ्क।

" " बाईं ओर—ऐनाका, आरम, बेल, बोरे, युपे पार्फो, युपे-पर्पु, आइरिस-वार्स, लैके, नेट्र-म्यू, सल्फ, जिङ्क।

" गोमशामकी वजहसे—थेरि।

" घटना आँखे बन्द करनेपर—ऐनासा, हिपि फेर, सिपि मल्फ, थिरि जि।

" " आँखें रगड़नेपर—ऐलमि।

चक्कर आना—खा लेने बाद—ऐलूमि, आर्जे-ना, काकु, डालका, सैबा।
„ „ खुली हवामें—ऐमोन-म्यू, कैम्फ, कास्टि, ग्रैटि, मैग-म्यू, फिला, पल्स, सैनि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैबे।
„ „ „ घूमनेके समय—कार्बो-ऐ, कैलि-का, नेट्र-का, पल्स।
„ „ चाय पीनेपर—ग्लोनो।
„ „ पानी पीनेपर—ओपि।
„ „ बैठ जानेपर—ऐकोन, ब्राइयो, साइक्ला, लैके, पल्स, साइलि।
„ „ वमनके बाद—ओपि।
„ „ विश्रामसे—कैना-इ, कोक्का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम।
„ „ सोनेपर—आर्नि, कार्बो-ऐ, सिना, चायना, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, रास्टक्स, साइलि, थूजा।
„ घूमते हैं, मानो समस्त पदार्थ—ऐकोन, ऐलूमि, आर्जे-ना, आरम, बेल, आर्नि, बिस्म, **ब्राइयो**, कैल्के, **चेलि**, चिनि-स, काकु, कोना, **साइक्ला**, ग्रैटि, हिपर, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स।
„ „ लौटनेपर—कोना, ग्लोनो, कैलि-का।
„ „ मानो चक्राकार-सभी पदार्थ (Turning as if in circle)—ऐलूमि, ऐनाका, आर्नि, ब्रायो, **चेलि**, सिक्यू, काक्कि, **साइक्ला**, लाइको, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, सोरि, रास्टक्स।
„ „ विछावन—कोना, नक्स-वोम, प्लम्ब, पल्स।
„ घोड़ेपर चढनेपर—कोपे, रास-टक्स।
„ चढनेपर ऊँची जगह (Ascending)—बोरा, कैल्के, सल्फ।
„ „ सीढ़ीकी राहसे—ऐलोज, ऐरिट-क्रू, बोर्र कैल्के, ग्लोनो, कैलि-बा, मार्कु, पिक्रि-ऐ, सल्फ।
„ चलनेके समय, टहलनेके समय (While walking)—ऐनाका, एपि, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैना-सै, कार्बो-वेज, चायना, सिकु, कोक्का, डालका, फेर, जेल्स, हेलि, इग्ने, इपि, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, पेट्रो,

फिला, फास-ऐ, फास, फास्टो, सोरि, पल्स, रास्टक्स, सिपि, स्पाई, स्ट्रैमो, सल्फ, टेलु, वायो-ट्रि, जिङ्क ।

चक्कर आना, चलनेके समय अन्धकारमें—स्ट्रैमो ।
„ „ जल्दी जल्दी—फेर, ग्रैटि, पल्स, सल्फ ।
„ „ भोजनके बाद—नक्स-वोम ।
„ चीजें बड़ी मालूम होना—कार्ष्टि ।
„ छींकनेके समय—ऐगारि, नक्स-मस ।
„ जम्हाई लेनेपर—ऐगारि ।
„ झुके रहनेपर (Stooping while)—ऐलूमि, ऐनाका, बरम, ब्रा-का, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, कैना-ई, कार्बो वेज, कार्ष्टि, कैमो, काकु, ग्लोनो, ग्रैफा, गुये, हैमा, हेलि, इग्ने, आइयो, कैलि बा, कैलि-का, कैल्मि, लैके, लाइको, मार्कु, मार्कु-को, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ ।
„ झूल पड़नेपर (In stooping)—"झुक पड़नेपर" देखिये ।
„ डोलता है, मानो माथा—कैलेडि, फेर, लैकि-ऐ, मार्कु, थूजा जिङ्क ।
„ डगमगानेके साथ (Staggering)—आइग्ने, आर्जे ना, बरम, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, सिकु, फेरम, जेल्स, नक्स-मस, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास्टो, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ ।
„ डगमगाती है, मानो सब चीजें—ऐनाका, बेल, ब्राइयो ग्लोनो ।
„ डोलता हुआ मालूम होना (Rocking, as if)—बेल कैनेडि ।
„ „ मानो झूलेमें (Swinging, as if)—फेर, मार्कु, सल्फ, थूजा, जिङ्क ।
„ „ थाम-थाम शरीर (Staggering)—(१) जेल्स, नक्स वोम फास, (२) आर्जे नाई, बरम, कैल्के, कैम्फ कार्बो ऐनि कार्बो-वेज कैमो चायना, सिकु, कोनि हेल, नक्स मस, फास्टो, सिपि, स्ट्रैमो ।
„ „ सामने और पीछे हिल (Swaying)—आर्जे पेट्रो सिपि ।

चक्कर आना, दूर मालूम होना सब चीजें—ऐनाका, स्ट्रैम, **पल्स**।

„ दृष्टिकी कमीके साथ (With vision obscured)—ऐकोन, ऐनाका, बेल, कैम्फ, कूप्र, **साइक्ला**, **फेर**, ग्रैफा, **जेल्स**, ग्लोनो, माकु, नाई-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, फास, फाइटो, पल्स, सैबाई, स्ट्रैमो, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ देखनेपर पानीकी ओर (बहते हुए)—आर्ज-मे, ब्रोमि, विरे।

„ „ ऊँचे मकानमें ऊपरकी ओर—आर्ज-ना।

„ „ खड़े होकर—आर्ज-नाई, लोथि।

„ „ घूमते हुए पदार्थकी ओर—लाइको।

„ „ चलते या हिलते हुए पदार्थकी ओर—ऐनाका, कोना, लोरी, मस्क, नेट्र-म्यू, सिपि, सल्फ।

„ „ टकटकी लगाकर—कास्टि, कोना लैके, ओलिये, **नेट्र-म्यू**, कैल्के, साइलि, स्पाई, सल्फ।

„ „ दाहिनी या बाईं ओर—कोना, ओलि, सल्फ, सैम्बु, थूजा।

„ „ नीचेकी ओर—कैलमि, ओलि, **फास**, **स्पाई**, बोरा, सल्फ।

„ „ रोशनीकी ओर—कूप्रम, प्लम्ब, थूजा, जिङ्क।

„ „ „ रङ्गीन—आर्टिमि-वाल।

„ देखनेपर आँखें घूमाकर (Looking with eyes turned)—

„ „ ऊपरकी ओर—कैल्के, कास्टि, कूप्रम, ग्रैफा, लैके, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास**, प्लैटि, प्लम्ब, **पल्स**, सेङ्ग, साइलि, टैबे।

„ धूम्रपानकी वजहसे—जेल्स, **नेट्र-म्यू**, ओपि, साइलि, **नक्स-वोम**, टैबे।

„ नशा हुआ सा मालूम होना (As if intoxicated)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐनाका, आर्ज-मे, आर्ज-ना, अरम, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, कैना-इ, कास्टि, कैमो, चायना, सिकु, **काकु**, कोना, फेर, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइयो, लिडम, मेडो, मेजि, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, ओपि, फास-ऐ, **पल्स**, रास-टक्स, सिके, साइलि, स्पिञ्जिया, स्पाई।

चक्कर आना, नाकसे रक्तस्रावके साथ—ऐकोन, ऐसिड-का, ब्रोमि, कैल्क, कार्बो-ऐनि, क्रोटे-हो, सल्फ।

„ निद्रालुताके साथ—"औंघाईके साथ" देखिये।

„ निद्रित अवस्थामें—इथि, क्रोटे-हो, सैङ्गु, साइलि, थिया।

„ नींदके बाद—कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, डाल्का, हिपर, केलि-का, लैके, लैकि-ऐ, मेडो, **नक्स वोम** ओपि, सिपि, स्पञ्जि, थेरि, जिङ्क।

„ पढ़नेके समय (While reading)—ऐमोन-का, आर्ज-मे, आर्नि, कूप्र, ग्रैटि, हैमा, मार्कु, पेरि, फाइसो, स्ट्रैनम।

„ पाकस्थलीसे उठता है (Proceeding from stomach)—केलि-का।

„ पाखाना फिरनेके पहले—"मलत्याग" देखिये।

„ पुराना (Chronic)—नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, **फास**, सिके।

„ बढ़ना, नींदके बाद—कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, डाल्का, केलि-का, लैके, मेडो, **नक्स-वोम**, सिपि, स्पञ्जि, थेरि।

„ विश्रामसे—ऐकोन, कैल्के, माइका, लैके, पल्स, रास-टक्स, साइलि।

„ शब्द (आवाज) से—थेरि।

„ बिछावनपर करवट बदलनेके समय—कोना, थैल।

„ बेहोश जैसा हो पड़ता है (Faint like)—आर्ज-ना, ब्रायो, कार्बो वेज कोनो, मैग-का, मेडो, नेट्र-का, नेट्र म्यू, नक्स म, नक्स-वोम, फास, सिपि।

„ बैठे रहनेकी अवस्थामें (While sitting)—"बैठे रहनेपर" देखिये।

„ बैठकर उठनेमें—"उठनेमें" देखिये।

„ बोलनेके समय (While talking)—बोरा, कैमो, पेरि।

„ भोजनके समय—ऐमोन-का, आर्नि, कैल्के, केलि कोना ग्रैटि, हिपर मैग-म्यू, मार्कु, नक्स वोम, फास, साइलि।

„ „ बाद—कैमो काफ, कोरालि-रु, ग्रेनाट, ग्रैटि, केलि-का, केलि-फा, लैके मास्को नेट्र म्यू, नेट्र स, नक्स-वोम, पिट्रो, फास **पल्स**, रास टक्स, सल्फ, टैबे।

„ „ एक घण्टा बाद—सिलिसि।

चक्कर आना, भ्रमणके समय—"चलनेके समय" देखिये।

„ मतवालेकी तरह (As if intoxicated)—"नशा हुआ है मानो" देखिये।

„ मद्यपानके बाद—ऐलूमि, बेल, बोवि, काकु, कोना, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पेट्रो, जिङ्क।

„ मध्यान्ह भोजनके बाद—हिप, नेट्र-स, **नक्स-वोम**, पेट्रो, फास, पल्स, सेलि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ मलत्यागके पहले (Before stool)—ऐलूमि, लैके, इने।

„ मलत्यागनेके समय—कास्टि, कैमो, काकु, ङ्क्रिन्नि, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ „ बाद—ऐलो, कास्टि, लैके, नेट्र-म्यू, पेट्रो, फास, जिङ्क।

„ मस्तिष्क विकम्पन, चोटकी वजहसे (Concussion of brain from)—ऐकोन, आर्नि।

„ माथा उठानेपर (Raising head)—ऐकोन, इथि, ऐपिट-टा, आर्नि, बैरा-का **ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, लिमि, कोलोसि, क्रोक, हेलि, लोरो, मार्कु, नक्स-वोम, **फास**।

„ „ घुमानेपर—ऐकोन, ब्रायो, कैल्के, कोलोसि, कोना, कैलि-का, मेथ, **मार्फि**, नेट्र-आर्स।

„ „ „ जल्दी जल्दी—ऐमोन-का, बैरा-का, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कोलोसि, जेल्स, कैलि का, सैङ्ग, साइ, स्टैफि, सल्फ, विरे।

„ „ बाईं ओर—कोलोसि, कोना।

„ „ झुकाने—"झुकनेपर" देखिये।

„ „ दर्दके समय, माथेमें (During headache)—ऐकोन, एपि, आर्जमेट, आर्नि, आर्स, बैरा-का, **बेल**, बोवि, **कैलके**, कैल्के-फास, कास्टि, चेलिडो, काफि, जेल्स, ग्लोनो, हिपर, कैलि-बा, कैलि-का, कैलमि, लैके, मार्कु, नेट्र-स, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, पल्स, सैङ्ग, सिपि, **साइलि**, साइ, टैरे, विरे-विर, जिङ्क।

„ „ हिलानेसे (Moving the head)—ऐकोन, ऐलोज, ऐमोन-का, आर्नि, आरम, बेल, **ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि,

सिमे, काकु, **कोना**, कूप्रम, ग्लोनो, हिपर, इग्ने, कैलि-का, मिफा, मस्क, नेट्र-म्यू, फास, रास-टक्स, सैङ्गु, सिलि, टेलू, थेरि।

चक्कर आना, मानसिक परिश्रमकी वजहसे—बोरा, कोक्को, **नेट्र-म्यू**, **नेट्र-का**, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, पल्स।

" मिचलीके साथ (With nausea)—**ऐकोन**, ऐलूमि, ऐलू, ऐसिट-फ्लू, आर्नि, बेप्टी, बेरा-का, ब्राइयो, कोक्को, कोक्को-फास, कोक्को-स, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, **चिनि-स**, सिनावे, काकु, कोना, माइक्ला, **फेर**, ग्लोनो, ग्रैफा, हेमा, हेलि, हिपर, इग्नि, केलि-बा, केल्मि, लैक-का, लैकि, लोवे, लाइसिन, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नेट्र-म, नाइ-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, पल्स, रास-टक्स, सैङ्गु, सिपि, स्पाइ, साइलि, स्टेफि, सल्फ, टैबे, थेरि, विरे, विरे-वि, जिङ्क।

" मुर्देकी तरह उतरा चेहराके साथ—**डिजुवो**, पल्स, टैबे।

" मूर्च्छितकी तरह हो जाता है—"बेहोश जैसा" देखिये।

" वृद्ध मनुष्योंके—ऐम्ब्रा, बेरा-का, केल्के-फास, कूप्रस, रास टक्स, सिना।

" रात जागरण या नीद न होनेके कारण—काकु, नक्स-वोम।

" लिखनेके समय—आर्ज-मे, कैलि-बा, मार्कु, फास-ऐ, सिपि।

" वीर्य पतनके बाद—"शुक्रस्खलन" देखिये।

" शराब पीने बाद—"मद्यपानके बाद" देखिये।

" शीत अवस्थामें (During cool)—कैल्क, चायना फेरम ग्लोनो, नेट्र-म्यू, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, रास टक्स, सल्फ, विरे।

" शुक्रस्खलनके बाद, (After emission)—बोवि, कैल्क, कास्टि, नेट्र फा।

" सहवासके बाद—(After coition)—फास ऐ सिपि।

" सामयिक (Periodical)—ऐगा आर्ज नेट, कैल्क कार्बि, कार्बो, कैलि फा, नेट्र-म्यू, फास, टैबे।

चक्कर आना, सिलाई करते समय (While sewing)—लैकै, मैग-का, फिला, सल्फ-ऐसि ।

,, सूर्यकी गर्मी या रोशनीमें—ऐकोन, ऐगा, ब्रोमि, ग्लोनो, नेट्र-का, नक्स-वोम ।

,, सोनेके समय—एपि, आर्स, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, कोना, लैके, मार्कु, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सेङ्ग, थूजा ।

,, सोनेके लिये बाध्य होता है—ऐम्ब्रा, ऐगनि, अरम, **कार्बि**, ग्रैफा, कैलि-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐसि, **फास, पल्स,** साइलि, सल्फ-ऐ ।

,, सोनेपर चित्त होकर—ऐलू, मार्कु, पल्स, साइलि ।

,, हवामें खुली (In open air)—ऐकोन, ऐगा, ऐम्ब्रा, कास्टि, ग्लोनो, पोडो, बैरा-का, सिपि, साइलि, सल्फ ।

,, हिलाने डुलानेसे (From motion)- ऐमोन-का, आर्नि, अरम, बेल, **ब्राइयो,** कैल्के-फास, कार्बो-वेज, चायना, कार्बि, कोना, ग्लोनो, हिपर, हाइड्रो-ऐ, कैल्मि, लोरो, मेडो, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, साइलि, टेलू ।

,, ,, आँखें—चेलिडो, कोना, म्य -ऐ, प्लैटि ।

,, हिलता है या चलता है, पदार्थ—कार्बु, हाइड्रो-सि, कैलि-स, मस्क, सिपि, थूजा ।

,, ,, आसन, जिसपर बैठा है—जिङ्क ।

चूँटी या कीड़ा चलता है, मानो माथेके भीतर (Crawling, creeping sensation)—**आर्ज-ना,** कैल्के-फास, कैलि-का, नेट्र-स, पल्स, रैना-वा, रास-टक्स, सल्फ ।

चोटकी वजहसे मस्तिष्क काँपना (Concussion of brain)—**आर्नि,** बेल, **सिर्की,** हेलि, हाइयो, रास-टक्स, सिपि, सल्फ-ऐ, जिङ्क, नक्स म, प्लैटि रास-टक्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ ।

जकड़ रखना चाहता है, माथा—आर्स, हिपर, लैके, सोरि, साइलि, थूजा ।

जल-सञ्चय या शोथ (Hydrocephalus)—(१) ऐपि, ऐपोसा, आर्ज-ना, बैसि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, चायना, कूप्र-ऐसे, हेलि,

आयोडि, साइलि, सल्फ, जिङ्क। (२) ऐकोन, आर्स, बैरा-का, कैन्थ, कार्बो-ऐ, चिनि-आ, डिजि, जैल्स, इपि, कोलि-आयोड, मार्कु-को, मार्कु, ओपि, पोडो, सोले-नाई, टियुबर, विरे, जिङ्क-ओ, जिङ्क-स्यू।

जीवित पदार्थ माथेके भीतर है मानो—ऐण्टि-टा, ऐसार, क्रोक, क्रोटे-हो, हाइपो, पेट्रो, साइलि, सल्फ।

झटका लगना मालूम होना (Shaking sensation)—

„ खांसनेके समय—चायना, ह्निप, लैकि, मैग स।

„ जोरसे पैर पटकनेपर—लाइको, नक्स-वोम, साइलि।

„ बोलनेके समय—फास, विरे।

„ हिलनेपर—आर्नि, कार्बु, लैकि, मैग-का, साई।

झुनझुनी होना (Tingling sensation)—

„ कनपटीमें—बोरे, प्लैटि, रियुम, स्ट्रान्शि, सल्फ।

„ कपालमें—आर्नि, अरम, चेलिडो, कोलचि, फास-ऐ, पल्स, मेज़, स्ट्रैमो, विरे, जिङ्क।

„ पीछेकी ओर—रास-टक्स।

„ ब्रह्म-तालुमें—इस्कि, कैल्के, कोलचिकाम, क्राकस, हाइयो, मैग-का, सल्फ।

झूल जाना (Falling of head)-सामने—कैल्के, कैमो, क्रास, इग्ने, नेट्र-स्यू, ओपि, पल्स, साइलि सल्फ।

„ पीछे—ऐगा, कैम्फ, कैमो, चायना, कोलचि, डिजि, इग्ने, लिडम, स्पाइजि।

„ बगलमें—ऐसोन-का, आर्नि, आर्स, कोना-मे, सिना, डायस्को, गुर्पे, फर्म, पल्स-ऐ, हाइयो, साइरो, नक्स म, ओपि, सल्फ।

„ बायें—नक्स-स।

„ दाहिने—ऐमोन-कार्ब, फेरम।

ठण्ढा मालूम होना (Coldness, chilliness)—ऐगा आर्नि बैरा का, बेल, कैल्के-का, कैल्के-फास, कार्बो वेज, कोना वार्जि, डाल्का फेरम, चेलाडो मोरो, मास्को, मार्कु-फो, रास-टक्स, [illegible] सिपि, साइलि, स्ट्रैमम, स्ट्रान्शि, सल्फ विरे।

„ पश्चात् भागमें—(१) ऐमोड फास। (२) [illegible] डाल्का।

ठण्डा लगता है, थोड़ेमें भी (Sensitive to cold)– बेल, कार्बो-वेज, ग्रैफा, **हिपर,** कैलि-का, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, रास-टक्स, सिपि, साइलि।

ठनक, टपक (Pulsating, throbbing)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐमिल-ना, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, **बेल,** बोरे, ब्राइयो, कैक्ट, कैम्फ, कैना इ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैस्टो, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-स, क्रोक, क्रोटे-हो, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, लिथि, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, पेट्रो, फास, पलस, रियुम, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, सोले-ना, स्पिञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे-वि।

„ सवेरे—कैल्के, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ तीसरे पहर—ऐलूमि, कास्टि, ग्लोनो, मार्कु-आ-रू, नेट्र-म्यू, साइलि।

„ सन्ध्याके समय—काकु, आइरि, नेट्र-म्यू, पल्स, रूटा, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ रातमें—ऐलोज, आर्स, कैस्टे, चेलिडो, ग्लोनो, लाइको, साइलि, सल्फ।

„ उत्ताप अवस्थामें—**बेल, युफ्रे, ग्लोनो, आइरि, लैक-डि, नेट्र-म्यू, पल्स।**

डगमगाना मानो (Unsteady feeling)—बेल, लिमि, फास, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

ढँक लेना (Covers the head)—रियुमे।

तेलहा ललाट (Oily forehead)—हाइड्रो, सोरि।

दर्द—सर दर्द (Pain—headache in general)—ऐकोन, ऐमोन-का, ऐग्रिट-क्रू, एपि, आर्जे-मेट, आर्जे-नाई, आर्नि, **आर्स,** अरम, बैप्टी, **बेल,** ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-स, सिमि, **काफि,** कोलोसि, डाय, ड्रोसे, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, फेरम-फास, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, **आइरि,** कैलि-ब्रा, कैलि-का, क्रियो, लैक-डि, लैके, लाइको, मैंग म्यू, मैंन्सी, मिलि, मार्कु, मेजे, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स म, **नक्स-वोम,** पोडो, **पल्स, सिपि, साइलि,** स्पाई, सल्फ, थेरि, ट्रिलि, जिङ्क।

सवेरे—ऐकोन, ऐगा, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-

फास, क्रोटन-टिग, लु-ऐ, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पोडो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, साइ, सल्फ, थूजा।

सर-दर्द, सवेरे पहले पहल, बिछौनेसे डोलानेके साथ ही—नाइयो।

" " मिचलीके साथ—कैल्के, ग्रेफा, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " सूर्योदयके समय आरम्भ होना और सूर्यास्तके समय छूटना—कैलि-ब्रा, लैक-डि, नेट्र-म्यू।

" " सूर्योदय और सूर्यास्तके साथ दर्दका घटना बढना—ऐकोन, ग्लोनो, कैलि, नेट्र-म्यू, फास, साइ।

" मध्यान्ह (दोपहरमें)—ऐगिट-क, आर्जे-नैट, कार्बो वेज, कैमो, इग्ने, लाइको, म्यू-ऐ, नैजा, नेट्र-म्यू, फास, प म, रास-टक्स, सल्फ।

" अपरान्ह-तीसरे पहर—ऐकोन, इथू, आर्स, ऐमार, बोवि, वेल, ब्रायो, कैल्के, कार्बो-वेज, कोलोसि, क्यूप्रम, जेल्स, ग्रेफा, नैक-र्म, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सल्फ, विरे।

" सन्ध्याके समय—ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐगा, एपिस, आर्स, वेल, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, क्रोक, डायस्को, डालका, युफ्रे, ग्रेफा, हिपर, कैलि-ब्रा, मेजी, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, साइलि, थूजा, वेने।

" रातमें—ऐगिर-टा, वेल, बोरा, बोवि, कैल्के, कास्टि, चायना, फास, हिपर, कैलि-ऐ, लोरो, लाइको, साकु, माकु-सो, मेर्क, ना-ऐसि, नक्स-वोम, फाइटो रास-टक्स, साइलि, सल्फ, सिफि थूजा।

" अज्ञानताके साथ—ऐकोन, इथि, ऐगा, आर्ज ना, आर्नि, वेल, बोवि, कार्बो-वेज, कास्टि, क्रोटे-टि माइका, जेल्स ग्लोनो हिपर कैलि का, मस्क, नेट्र म्यू, नक्स वोम फास, पल्स सेकाले, स्ट्रैमो, विरे।

" धूपसेवनके साथ—आर्नि वेल, बोवि, कास्टि, कार्बो वेज क्रोटे-

ठण्डा लगता है, थोड़ेमें ही (Sensitive to cold)—बेल, कार्बो-वेज, ग्रैफा, **हिपर,** कैलि-का, माकु, नेट्र-म्यू, फास, रास-टक्स, सिपि, साइलि।

ठनक, टपक (Pulsating, throbbing)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐमिल-ना, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, **बेल,** बोरै, ब्राइयो, कैक्ट, कैम्फ, कैनाइ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैस्टो, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-स, क्रोक, क्रोटे-हो, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, लिथि, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, पेट्रो, फास, पलस, रियुम, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, सोले-ना, स्प्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे-वि।

„ सवेरे—कैल्के, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ तीसरे पहर—ऐलूमि, कास्टि, ग्लोनो, माकु-आ-रू, नेट्र-म्यू, साइलि।

„ सन्ध्याके समय—काकु, आइरि, नेट्र-म्यू, पल्स, रूटा, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ रातमें—ऐलोज, आर्स, कैस्टे, चेलिडो, ग्लोनो, लाइको, साइलि, सल्फ।

„ उत्ताप अवस्थामें—बेल, **युफ्रे, ग्लोनो, आइरि, लैक-डि, नेट्र-म्यू, पल्स।**

डगमगाना मानो (Unsteady feeling)—बेल, क्लिमे, फास, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

ढँक लेना (Covers the head)—रियुमे।

तेलहा ललाट (Oily forehead)—हाइड्रो, सोरि।

दर्द—सर दर्द (Pain—headache in general)—ऐकोन, ऐमोन-का, ऐसिट-ऋ, एपि, आर्जे-मेट, आर्जे-नाइ, आर्नि, **आर्स,** अरम, बैप्टी, **बेल,** ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-स, सिमि, **काफि,** कोलोसि, डाय, ड्रोसे, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, फेरम-फास, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, **आइरि,** कैलि-ग्रा, कैलि-का, क्रियो, लैक-डि, लैके, लाइको, मैंग-म्यू, मैंग्नो, मिलि, माकु, मेजे, नेट्र-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम,** पोडो, **पल्स, सिपि, साइलि,** स्पाइ, सल्फ, थेरि, ट्रिलि, जिङ्क।

—वेरे—ऐकोन, ऐगा, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ-

फास, क्रोटन-टिग, लू-ऐ, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, लेके, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, पेट्रो, फाम, फास-ऐ, पोडो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाई, सल्फ, थूजा।

सर-दर्द, सवेरे पहले पहल, हिलाने डोलानेके साथ हो—ब्राइयो।

" " मिचलीके साथ—कैल्के, ग्रेफा, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " सूर्योदयके समय आरम्भ होना और सूर्यास्तके समय छटना—कैलि-बा, लैक-डि, नेट्र-म्यू।

" " सूर्योदय और सूर्यास्तके साथ दर्दका घटना बढ़ना—ऐकोन, ग्लोनो, कैल्मि, नेट्र-म्यू, फास, स्पाई।

" मध्याह्न (दोपहरमें)—ऐरिट-क्रू, आर्जे-मेट, कार्बो वेज, कैमो, इग्ने, लाइको, म्यू-ऐ, नैजा, नेट्र-म्यू, फास, प स, रास-टक्स, सल्फ।

" अपराह्न-तीसरे पहर—ऐकोन, इथू, आर्स, ऐसार, बोवि, बेल, बार्य, कैल्के, कार्बो-वेज, कोलोसि, कूप्रम, जेल्स, ग्रेफा, लैक-कैं, लाइको, नेट्र म्यू, नक्स-वोम, सल्फ, विरे।

" सन्ध्याके समय—ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐगा, एपिस, आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, क्रोक, डायस्को, डालका, युफ्रे, ग्रेफा, हिपर, कैलि-बा, मेजी, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, साइलि, थूजा, वैले।

" रातमें—ऐरिट-टा, वेल, बोरा, बोवि, कैल्के, कास्टि, चायना, काकु, हिपर, कैलि-ऐ, लोरो, लाइको, माकु, माकु-को, मेजी, ना-ऐसि, नक्स वोम, फाइटो, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, सिफि थूजा।

" अज्ञानताके साथ—ऐकोन, इथि ऐगा, आर्जे-ना, आर्नि, बेल, बोवि, कार्बो वेज, काक्कि, क्रोटे-हो माइका, फेरम, ग्लोनो हिपर कैलि का, मर्क नेट्र म्यू, नक्स-वोम फास, पल्स, सेवाई, स्ट्रैमो, विरे।

" अध्यापनके साथ—आर्नि बेल, बोवि, काफि, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो,

ग्लोनो, कौलि-का, **मस्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम,** पल्स, सैवा,
साइलि, विरे।

सर दर्द—

„ आघात लगकर—आर्नि, बेल, कौल्को, सिकि हिपर, हाइपे, लेके, मार्कु, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, फास, पल्स, रास-टक्स, स्टैफि, सल्फ।

„ आच्छन्नताके साथ—लोरो, लाइको, मिलि, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, **नक्स-वोम,** ओपि, फास, फास-ऐ, साइलि।

„ आनन्दकी वजहसे, अत्यन्त—काफि, साइक्ला, ओपि, पल्स।

„ आँख खोलनेपर—ब्रायो, चायना, काफि, इग्ने, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ।

„ „ बन्द करनेके लिये बाध्य होता है—ऐगा, आर्नि, बेल, कार्बो-वेज, मेजे, साइलि।

„ „ हिलानेपर—**बेल,** कौस्टि, चायना, कोलचि, हिपर, नेट्र-म्यू, **नक्स-वोम,** ओपि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि।

„ „ परिश्रमसे, बहुत ज्यादा या बहुत देरतक, टकटकी लगाकर देखना—अरम, कौस्ट, कौल्को, कार्बो-वेज, कास्टि, सिना, **कोलि-का, लाइको,** नेट्र-का, **नेट्र-म्यू,** फास, फास-ऐ, **रोडो,** रास-टक्स, रूटा, साइलि, स्पिञ्जि, सल्फ।

„ उत्ताप (गर्म होनेपर)—ऐकोन, ऐण्टि-क्रू, बेल, ब्रायो, कार्बो-वेज, ग्लोनो, इग्ने, इपि, कैलमि, लाइको, नेट्र-म्य, सिपि, ओपि, साइलि, थूजा।

„ अङ्गकी गरमीसे—ऐण्टि-क्रू, आर्निका, बेरा-का, ब्रायो, युफोर, मार्कु, नक्स-वोम, फास, पल्स, सैनि, जिङ्क।

„ बिछावनकी गरमीसे—लाइको, नक्स-मस।

„ उत्तापके पहले—ब्रायो, चायना, पल्स, रास-टक्स, स्पिञ्जि।

„ उत्तापके समय—ऐकोन, ऐङ्गा, **ओपि, आर्नि,** आर्स, **बेल,** ब्रायो, **चायना,** काफि, **युपे-पर्फो,** हिपर, इग्ने, लैके, **नेट्र-म्यू,** नक्स-वोम, ओपि, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, **साइलि,** थूजा।

सर-दर्द, उत्तापके बाद—आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, **युपे-पर्फो, नेट्र-म्यू** ।

„ उत्तेजनाके बाद—ऐकोन, आर्जे-ना, आर्नि, अरम, बेल, ब्राइयो, केक्टस, काक्कि, काफि, जेल्स, इग्ने, लैके, लाइको, **नेट्र-म्यू, नक्स-वोम**, ओपि, फास, **फास-ऐ**, पिक्रि-ऐसि, **पल्स, स्टैफि**, विरे ।

„ उपवासकी वजहसे—कास्टि, सिस्टा, ब्राइयो, कैलि-का, लाइको, नक्स-वोम, फास, साइलि, सल्फ ।

„ ऋतु परिवर्त्तनसे—ब्राइयो, नक्स-मस, फास, रास-टक्स, साइलि ।

„ „ ठण्डी—ऐकोन, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैफि, कास्टि, डालका, टेलि, हिपर, कैलि-का, मस्क, नक्स-मस, नक्स वोम, रास-टक्स, सैबाडि, स्ट्रान्सि ।

„ „ तरीसे, नमीसे (Moist cold)—ऐमोन-का, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, **डालका**, लैके, लाइको, मेजे, मार्कु, मस्क, **नक्स-मस**, नक्स-वोम, रोडो, **रास-टक्स**, साइलि, सल्फ, विरे ।

„ „ रूखी ठण्ड लगनेपर (Dry cold)—ऐकोन, ऐगार, ब्रायो कास्टि, हिपर, नक्स-वोम ।

„ ऋतुके पहले—ऐकोन, ऐसार, बेल, बोरे, बोवि, ब्रोमि, कार्बो-वेज, सिमि सिनाबे, जेल्स, हिपर, **क्रियो**, लैके, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, प्लेटि, सल्फ, विरे ।

„ „ समय—ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-का, आर्जे-ना, बेल, बोवि ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, काफि, जेल्स ग्लोनो, ग्रेफा, हाइयो, इग्ने, कैलि-का, क्रियो, लेक-डि [illegible], लाइको, मैग-का, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, प्लेटि, पल्स, सिपि, सल्फ, विरे ।

„ „ मन्द होनेपर—ग्लोनो ।

„ „ बाद—चायना, फेरम, नेट्र-म्यू, पल्स, सिपि ।

सर-दर्द, काब्जियतकी वजहसे—ऐलो, ऐलूमि, **ब्राइयो**, काफि, कोना, नेट्र-म्य, नक्स-वोम।

„ केश कटवाने बाद—**बेल**, ग्लोनो, लिडम, पल्स, सिपि।

„ „ झाड़ने बाद—ब्राइयो, चायना, इग्ने।

„ क्रोधकी वजहसे—ऐकोन, ब्राइयो, कैमो, काफि, इग्ने, लाइको, नेट्र-म्य, नक्स-वोम, फास, स्टैफि।

„ क्षीण दृष्टिके साथ—ऐकोन, ऐनाका, बेल, कूप्रम, साइक्ला, फेरम, **जैल्स**, ग्लोनो, माकुं, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, फाइटो, सैबाडि, स्ट्रैमो, स्पाञ्जि, सल्फ।

„ क्षीण दृष्टि, पहले, दर्द बढ़नेपर दिखाई देने लगता है—कैलि-बा।

„ खाँसनेके समय—आर्नि, **बेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, **कैप्सि**, कार्बो-वेज, लिडो, सिना, कोलोसि, **कोना**, इपि, आइरि, कैलि-का, लैके, लाइको, मैङ्ग, माकुं, **नेट्र-म्य**, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, रास-टक्स, सैबा, सैङ्गु, सिपि, स्पाइ, स्कुइ, स्टैनम, **सल्फ**।

„ गड़बड़ीकी वजहसे—आर्स, **बेल**, कैक्ट, काकि, काफि, कोना, लैक-के, लैक-डि, लैके, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, साइलि, स्पाई, **थेरि**।

„ गन्धकी वजहसे, तेज़—अरम, बेल, काफि, कोलचि, इग्ने, लाइको, फास, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ गर्म कमरेमें—ऐलि-सि, ऐपि, बैरा-का, नेट्र-का, फास, पल्स, सल्फ, जिङ्क।

„ गाड़ीमें चढ़नेपर—काकि, हिपर, इग्ने, नक्स-मस, फास, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ गाने बजानेपर—**काफि**, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ।

„ ऊँचेपर चढ़नेपर—जैल्स, लैके, फास-ऐ, साइलि।

„ ऊँची सीढ़ी चढ़ने पर—**बेल**, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, कूप्रम, ग्लोनो, कैलमि, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सिपि, **स्पञ्जि**, सल्फ, टैरे।

सर-दर्द, चर्बी मिले भोजनसे—कार्बो-वेज, नेट्र-म्यू, पल्स, सिपि।

„ चर्मरोग बैठ जानेपर—ऐण्टि-क्रू, ब्राइयो, लाइको, नक्स-मस, सल्फ।

„ चाय पीनेकी वजहसे—चायना, लैके, सिलि, सिपि, थूजा, विरे।

„ जरायु रोगमें (Reflexly)—(१) सिमि, नेट्र-म्यू, सिपि। (२) ऐलो, कैल्के-फास, कोलो-फा, हैलोनि, इग्नेशी, लिलि-टिग, पल्स।

„ झटका लगनेपर किसी तरहका—बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, **लिडम,** लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, राम-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाई, सल्फ, थेरि।

„ झुकनेपर—एपि, बेल, **ब्राइयो,** कैल्के, काक्कि, काफि, कोलोसि, फेर, ग्लोनो, हैलि, हैलो, हिपर, इग्ने, केलि-का, कैलि-ना, लिडम, लाइको, मैग-म्यू, मैङ्ग, माकु, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, **पल्स,** राम-टक्स, सेङ्गु, सेने, **सिपि,** साइलि, **स्पाई,** सल्फ, **वेले,** विरे।

„ टोपीके दबावसे—कैल्के-फास, कार्बो-वेज, नाइट्रि-ऐ, साइलि, सल्फ, वेले।

„ ठण्ड लगकर—ऐकोन, **बेल, ब्राइयो,** कैल्के, कार्बो-वेज, **कैमो,** चायना, कोना, **डालका,** हिपर, लाइको, माकु, मैजि, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, **नक्स-वोम, फास,** पल्स, राम-टक्स, **साइलि,** स्पाई, स्ट्रैमो, स्पाञ्जि, सल्फ, विरे।

„ „ पैरमें—कैमो, कैलि-का, फास, पल्स, **साइलि।**

„ „ माथेमें—ऐरम, **बेल,** कार्बो-वेज, हिपर, लिडम, नक्स-वोम, पल्स **सिपि, साइलि।**

„ ठनकका दर्द—ऐकोन, ऐमोन-का, पार्स, बेल, बोरे, कार्बो वेज, कैमो, चेलिडो, ग्लोनो, इग्ने, मेफि, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पोपि, फास-ऐ, **पल्स,** रूटा, साइलि, सल्फ।

„ डग चलने, प्रत्येक (झटका लगना देखिये)—(१) बेल, **ब्राइयो, कोना,** लाइको, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, नक्स-वोम, फास, **राम-टक्स,** सिपि, **साइलि,** स्पाई, स्पाञ्जि, सल्फ।

सर-दर्द, कब्जियतकी वजहसे—ऐलो, ऐलूमि, **ब्राइयो**, काफि, कोना, नेट्र-म्य, नक्स-वोम।

„ केश कटवाने बाद—**बेल**, ग्लोनो, लिडम, पल्स, सिपि।

„ „ झाड़ने बाद—ब्राइयो, चायना, इग्ने।

„ क्रोधकी वजहसे—ऐकोन, ब्राइयो, कैमो, काफि, इग्ने, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, स्टैफि।

„ क्षीण दृष्टिके साथ—ऐकोन, ऐनाका, बेल, क्यूप्रम, साइक्ला, फेरम, **जेल्स**, ग्लोनो, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, फाइटो, सैबाइ, स्ट्रैमो, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ क्षीण दृष्टि, पहले, दर्द बढनेपर दिखाई देने लगता है—कैलि-बा।

„ खाँसनेके समय—आर्नि, **बेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, **कैप्सि**, कार्बो-वेज, लिडो, सिना, कोलोसि, **कोना**, इपि, आइरि, कैलि-का, लैके, लाइको, मैग्ने, मार्कु, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, रास-टक्स, सैबा, सैङ्गु, सिपि, साइ, स्कुइ, स्टैनम, **सल्फ**।

„ गड़बड़ीके वजहसे—आर्स, **बेल**, कैक्ट, काकि, काफि, कोना, लैक-के, लैक-डि, लैके, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, साइलि, साइ, **थेरि**।

„ गन्धकी वजहसे, तेज़—अरम, बेल, काफि, कोलचि, इग्ने, लाइको, फास, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ गर्म कमरेमें—ऐलि-सि, ऐपि, बैरा-का, नेट्र-का, फास, पल्स, सल्फ, जिङ्क।

„ गाड़ीमें चढ़नेपर—काकि, हिपर, इग्ने, नक्स-मस, फास, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ गाने बजानेपर—**काफि**, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ।

„ ऊँचेपर चढ़नेपर—जेल्स, लैके, फास-ऐ, साइलि।

„ ऊँची सीढ़ी चढ़ने पर—**बेल**, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, क्यूप्रम, ग्लोनो, कैलमि, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सिपि, **स्पञ्जि**, सल्फ, टेरे।

दर्द, पसीना बन्द होकर—आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, चायना, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ पागल कर देता है—ऐकोन, बेल, कोल्कि, चायना, इग्ने, नेट्र-म्यू, पल्स।

„ पाचनकी गडबडीकी वजहसे—ऐनाका, ऐण्टि-क्रू, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कास्टि, कार्बो-वेज, काफि, युपे-पर्फो, आइरि, लाइको, नक्स वोम, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ, टैवे।

„ पाराके दोषकी वजहसे—हिपर, नाइट्रि-ऐ, कैलि-ब्रोम।

„ पुराना—ऐमोन-का, आर्स, कास्टि, कोना, साइलि, सल्फ।

„ बीननेका काम करनेकी वजहसे—कार्बो-ऐनि।

„ बेहोशीके साथ—"अचैतन्यके साथ" देखिये।

„ भोजनेपर—आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कोलचि, डाल्का, हिपर, नेट्र-म्यू, पल्स, रास-टक्स, सिपि।

„ „ पसीनेके समय—कोलचि, डाल्का, रास-टक्स, सिपि।

„ „ देर—जेल्स, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि।

„ माथा—बैरा-का, बेल, फास, पल्स।

„ माथेमें खूनकी अधिकताकी वजहसे (Congestion)—(१) ऐकोन, बेल, ब्राइयो कोक्क, फेर-फास, जेल्स, ग्लोनो, लेके, मिल्लिफो, सैङ्गु, विरे-वि। (२) ऐमिल, आर्ज-ना, चिनि स, नक्स-वोम, ओपि साइलि, सेले-नाई, सल्फ।

„ मादक पदार्थके अपव्यवहारकी वजहसे—बेल, कैमो, काफि, लाइको, नक्स-मस, ओपि, पल्स, बेले।

„ मांस खानेके बाद—कास्टि पल्स, स्टैफि।

„ मूर्च्छायुक्त कारण—ऐसाफि, आर्ज-ना, परम, इग्ने, मस्क, प्लेटि, सिपि।

„ रक्तकी कमीके कारण (Anoemic)—(१) चायना, फेर-फास, फास-ऐसि। (२) आर्स, कैल्के-फास, लाइको फेरम-रिडाक्ट, कैप्सि, नेट्र-म्यू, जिङ्क।

„ रात जागरणसे—ऐम्ब्रा, ब्राइयो कार्बो-वेज काफि कोलचि न पल्स, सल्फ।

„ रोनेके लिये बाध्य होता है—कोमोसि सिपि साइलि।

सर-दर्द, डग चलना, जोरसे—ऐण्टि-क्रू, **बेल, ब्राइयो,** कैल्क, कार्बो, चायना, लैके, लिडम, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फास-ऐसि, फाइटो, सिपि, साइलि, थूजा।

„ डर जाने वाद—**ऐकोन,** आर्ज-ना, काफि, कूप्र, **इग्न**, नक्स, ओपि, प्लैटि, **पल्स।**

„ तरल-पदार्थोंका क्षयके कारण, शरीरके—कैल्क, कार्बो-वेज, चायना, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ दांत निकलनेके समय—ऐकोन, बेल, कैल्क, कैमो, हिपर, मर्क, रास-टक्स, साइलि।

„ „ कनकनीके साथ—रास-टक्स।

„ दु:खकी वजहसे, मानसिक—**इग्न**, ओपि, फास-ऐ, पल्स, स्टैफि।

„ देखनेसे एक दृष्टिसे, बहुत दूरतक—"आंखोंका परिश्रम" देखिये।

„ दौड़नेकी वजहसे—ब्राइयो, इग्न, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, टैरे।

„ धूप लगकर—ऐकोन, ऐण्टि-क्रू, वेरा-का, **बेल, ब्राइयो,** कैल्क, कार्बो, कार्बो-वेज, जेल्स, **ग्लोनो, लैके, नेट्र-फास,** नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम, **पल्स** सिलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि।

„ धूम्र पान—ऐकोन, ऐण्टि-क्रू, जेल्स, इग्न, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, थूजा।

„ नावपर चढ़नेपर—काकि, टैरे।

„ निद्रालुताके साथ—ऐकोन, इस्कु, ब्रोमि, जेल्स, हिपर, लैके, नक्स-मस, ओपि, फास, पल्स, स्टैनम, स्ट्रान्सि, वाइपे, जिङ्क।

„ नींदके वाद, दिनमें—बोवि, कार्बो-वेज, काफि, इग्न, नक्स-मस, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

„ परिश्रमसे, मानसिक—ऐनाका, आर्ज-ना, **अरम,** ब्राइयो, कैल्के, **कैल्के-फास,** कोलचि, ग्लोनो, इग्न, लैके, **लाइको,** नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, पिक्रि-ऐ, सोरि, **पल्स,** सिपि, **साइलि,** साइ, स्टैफि, सल्फ।

पर्पु, जेल्स, ग्रेफा, नेट्र-म्यु, नक्स-वोम, पेट्रो, सिपि, सञ्जि, सल्फ।

सर-दर्द, शीतके बाद—ऐगरि-टा, ड्रोसे, नेट्र-म्यु।

" सर्दीकी वजहसे, नयी—ऐमो-म्यु, ऐलूमि, आर्स, ग्ररम, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, डालका, युफ्रे, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, कैलि-बा, कैलि-का, लैके, लाइको, माकुं, नक्स-वोम, सल्फ।

" " रुककर—ऐकोन, ऐमोन-का, आर्स, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, सिना, लैके, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, साइलि, सिपि।

" सन्धिवातसे पैदा हुआ—आर्स, ऐसार, अरम, वेल, ब्राइयो, कैप्सि, कास्टि, सिकि, कोलोसि, युजि, गुयाई, नेट्र-म्यु, नाई-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, विरे।

" सामयिक—(१) आर्स, सिड्रन, चायना, सैङ्गु, स्पाई। (२) ऐकोन, आर्ज-ना, कैक्ट, युपे-पर्फो, जेल्स, इग्ने, मैग-म्यु, निको, सिपि, टैबे, जिङ्क, वैले, साइलि, नाई ऐ, पल्स, रास टक्स।

" " एक दिनका अन्तर—ऐलूमि, चायना, माकुं-को, नेट्र-म्यु, नक्स-वोम, फास, सोरि।

" " एक सप्ताहके अन्तरसे—लैक-डि, नक्स-मस, फास, सैङ्गु, साइलि, सल्फ।

" " दो से तीन सप्ताहका अन्तर देकर—फेरम-मेट।

" " छ सप्ताहके अन्तरसे—मैग-म्यु।

" पाक्षिक—आर्स, कैल्के, चायना, इग्ने, पल्स, सल्फ।

" स्नानकी वजहसे—ऐण्टि-क्रू ड, साइली।

" स्नायविक—ऐगारि, आर्ज-नाई ... कैमो चायना, ... कालि, जेल्स, ... नेट्र ... किनि-स, ... ङ्ग,

" ध्यानमें ...

सर-दर्द, रौशनीकी वजहसे—ऐसिड-फ्लूड, आर्स, **बेल**, बोरे, ब्राइयो, कैल्
चायना, लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, फास-ऐ, फास, सै
सिपि, सल्फ।

„ „ कालिम—ग्लोनो, सैङ्ग, **सिपि**, साइलि, स्ट्रैमो।

„ „ गैसकी—बेल, **ग्लोनो**, नेट्र-का, नेट्र-स।

„ „ दिनकी—कैल्के, हिपर, नेट्र-म्यू, **फास**, **साइलि**।

„ „ भोजनके पहले—कैना-सै, कार्बो-ऐनि, नक्स-वोम, रैना-बा, सै
इना, साइलि।

„ „ „ समय—ऐमोन-का, चेलिडो, काफि, कोना, डाल्के, जैल्
ग्रैफा, मैग-म्यू, नेट्र-म्यू, नाई-ऐ, नक्स वोम, पल्
रैना-बा, रास-टक्स, सैबाई, सिपि, सल-ऐ, टैबे, वा
जिङ्क।

„ „ बाद—ऐनाका, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कैमो
काफि, हाइयो, नेट्र-म्यू, **नक्स-वोम**, फास, रास-टक्स
जिङ्क।

„ बातका—**ब्राइयो**, सिमि, **डालका**, कैलमि, लैके, माकुं, नाइ-ऐ,
नक्स-वोम, फाइटो, पल्स, रैना-बा, रास-टक्स, सैङ्ग, साइलि।

„ हड्डोंका—(१) आर्ज-ना, नेट्र-म्यू, सोरि, साइलि, जिङ्क। (२) विनि-
स, काफि, लैके, फास, प्लम्ब, सिपि, टियुबर, वैरा-का, कैल्के-
फास, आयोड, फास।

„ शराब पीने—ऐगा, ऐसिड-फ्लू, आर्स, बेल, कैल्के, चेलिडो, चायना, काफि,
जैल्स, इग्ने, लैके, लिडम, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम,
ओपि, फास, पल्स, रोडो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सार्स,
स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ शीतके पहले—ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, काफि, कोलचि, नक्स-वोम,
पल्स, सल्फ।

„ „ समय—ऐकोन, ऐरानि, आर्ज-ना, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैक्ट,
कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, कप्र, युपे-पर्फो, युपे-

आइयो, इपि, केलि-बा, कैलि-ओ, केलि-का, कैलि-फ्लो, केलि-आ, क्रियो, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मेडो, मार्कु-आ-रू, मेजि, मार्फि, म्यू-ऐ, नेट्र-स, नक्स-वोम, पेट्रो, फाइटो, पिक्रि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सेंग, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्क्वि, सल्फ, विरे-वि।

दर्दका स्थान, फैलने बाद आँखमें—ऐट्रो, चायना, जेल्स, ग्लोनो, लेकि, नेट्र-स, पेट्रो, पिक्रि-ऐ, सैङ्गु, सैनि, सार्सा, साइलि, स्टिक्टा, जिङ्क।

„ कन्धेमें—ब्राइयो, डायस्को, जेल्स, हिपर, इपि, कैलि का, पोडो।

„ कनपटीमें—ग्लोनो, स्पाइ।

„ कपालमें—आर्जे-ना, अरम, ब्रोमि, कार्बो-वेज, चेलि चायना, जेल्स, ग्लोनो, कैलि-बा, नेट्र-म्यू, ओपि, पेट्रो, रस-टाक्स सार्सा, सैङ्गु, साइलि, सल्फ।

„ कानमें—इस्कु, बैरा-का, कैना-सै, चेलि, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, स्टिक्टा।

„ **पार्श्वमें**-एक (अधकपारी-hemicrania)—इथि, ऐलूमि, ऐनाका, एपि, **आर्जे-नाई**, आर्स, ऐसाफि, ऐसार, बैरा-का, बेल, विसमथ, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैप्सि, कैमो, चायना सिकु, काफि, कोलोसि, फेरम, जेल्स, ग्रैफाइ, इग्ने, कैलि बा कैलि-का, **केलि-आ**, लैक-डि, लैके, मार्कु, नक्स वोम, फास, फास-ऐ फाइटो प्लैटि, सोरि, पल्स, रास टक्स ब्रोमि, सैङ्गु, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाई सल्फ, सल्फ ऐ, विरे।

„ , दाहिने—बेल, कैक्ट, चेलि सिङ्को, कोना, इग्ने, फाइटो रूटा सैङ्गु, साइलि, कैलि-बा, रेडियम।

„ „ बाएँ—आर्स, बेल चेलिडो, फेरम लैके सिपि, स्पाई थूजा नक्स वोम, सेपोनिन।

„ „ आँखमें—ऐसाफि ब्रोमि कार्बो, कोक सैग म्यू, नेट्र म्यू।

„ „ फैलनेपर एक पार्श्वसे दूसरे पार्श्व तक—ऐलूमि चायना फास प्लैटि सैङ्गु।

„ „ गर्दनमें—गुये लैके साइको मार्कु।

„ ब्रह्मतालुमें (Vertex)—ऐनाका, इग्नो-ऐ म्यू, कै—

कार्बो-ऐ, कार्बो वेज, कास्टि चेलि

सर-दर्द, हवामें ठण्डी—आर्स, अरम, व्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, काफि, काकु, **डालका**, आइरि, कैलि-बा, कैलि-का, लाइको, मैगे, नेट्र-म्यू, **नक्स-मस**, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, रोडो, **रास-टक्स** सिपि, सल्फ, विरे।

„ हमेशा (सदा-सर्वदा)—आर्ज-नैट, कार्बो-वेज, सिपि, कूप, डालका, जेल्स, हिपर, नेट्र-म्यू, फास, रोडो, सिपि, टेरि।

दर्द फैलता है—

„ आँखमें—कैल्के, कास्टि, क्रोटे-टी, इग्ने, कैलि-का, मर्कु, नेट्र-म्यू, **नाइ-ऐ**, पल्स, रास-टक्स, सेने, स्पाई, **सल्फ**।

कन्धेमें—ग्लोनो, ग्रैफा।

„ कानमें—लैके, मार्कु, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स।

„ गलेमें—ऐनाका, मार्कु, टेरे।

„ छातीमें—कोना, नेट्र-म्यू।

„ जबड़ेमें—बेल, कैल्के-फास, कैलि-फ्लो, मेजे, स्पाई।

„ जीभमें—इपि।

„ दांतमें—**चायना**, ग्रैफा, इग्ने, क्रियो, लैके, लाइको, मार्कु, मेजे, पल्स, सिपि, साइलि, स्टैफि।

„ नाकमें—ऐगा, ऐगिट-टा, आर्स, बिस्मथ, बोरे, लाइको, नेट्र-का, नक्स-वोम, फास।

„ नासिका-मूलमें—कैलि-का, कैलि-ना, लैके।

„ मुखमण्डलमें—ऐमोन-म्यू, ऐनाका, ऐगिट-टा, ऐरानि, आर्ज-ना, ब्राइयो, ग्रैफा, लाइको, नेट्र-म्यू, फास, पल्स, रास-टक्स, स्पाई, टेरे, थूजा।

„ मेरुदण्डमें—काफि।

दर्दका स्थान

„ **पश्चात् भागमें** (Occipital)—ऐकोन, इस्कु, इथि, ऐलि-सि, ऐना-का, एपि, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, चेलिडो, चायना, सिपि, सिमि, सिनावे, कोना, क्रोट-टी, युपे-पा, फ्लू-ऐ, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हेलोनि, इग्ने,

मिलि, मार्कु, मार्कु-मा-फ्लो, माइगे, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम, आकजा-ऐ, पेरि, फास, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स रूमेक्स, सेङ्ग, सार्सा, स्याङ्गजि, स्पिजि, स्टेनम, सल्फ, सिपि, थेरि।

दर्द कनपटीमें, दाहिने—ऐकोन, हिपर, लोरो, मेजे, फाइटो, प्रून-स्पा, रैना-बा।

„ „ बायें—ऐकोन, ऐसिड-क्रूड, एबिस, ऐमा-राम, बेल, ब्राइयो, चायना, नेट्र-म्यू, रोडो, रास-टक्स, थूजा।

„ „ फैलनेपर आखमें—बैडि, कैमो, इग्ने, कैलि-का, फास।

„ „ „ कानमें—श्ररम-म्यू, ग्लोनो, ओस्मी, स्कुइला।

„ „ „ नाकमें—ऐगा, कैलि-का, लेकि।

„ „ „ नासिकामूलमें—ऐकोन, कैलि म, नैके, नक्स-वोम फास।

„ „ „ पश्चाद्भागमें—ब्राइयो, कैना-स, कैमो, सिमि, नक्स-वोम, प्रून-स्पाई, सिपि।

„ „ „ पीछे—ऐगा, आर्नि-का, ब्राइयो, कृम, युपे-पा, लैके, फाइटो, प्रून स्पा, थुजा।

„ आँखके ऊपरी भागमें—एपि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कौकी, जेल्स, ग्लोनो कैलि-बा, लेकि, लाइको, मिफा, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, फाइसो, फाइटो, पल्स, सैङ्ग, साइलि, स्पाइजि, स्टेनम थेरि।

„ „ दाहिने—बेल, चेलि, इग्ने, रैना-बा, सैङ्ग।

„ „ बायें—आर्स, ब्राइयो, कैलि-का, सिपि साइलि।

„ „ फैलानेपर, आँखमें—कोना, लिलि-टिग।

„ „ „ नाकमें—ऐलि-सि, थेरि लैके।

„ „ नासिका मूलके ऊपर—ऐकोना, बैप्टी, सिनाब कैल्के, कैलि हिपर, कैलि-बा, मेके मार्कु-बा फर्न।

„ „ पश्चात् भागमें—ऐकोन चेलि ड्रिसि, मेके रास टक्स थेरि।

„ „ बायमें दो भागोंमें—कार्बो वेजि कैलि-बाय, मार्कु, साइलि।

क्रोटे-हो, क्यू बे, इलैप्स, फार्मि. जेल्स, हाइड्रो, हाइपे, लैके, लिलि-टिग, लाइको, माकु, माकु-आ-फ्ले, मैजे, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, फाइटो, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे।

दर्दका स्थान, ब्रह्मतालुमें फैलनेपर आँखमें—इग्ने, नक्स-मस।

" " कपालमें—कैप्सि, कास्टि, कैमो, लिडम, मेजे, निक्रो, नक्स-मस।

" " कन्धेमें—लाइको।

" " गर्दनमें—कैल्के-फास, चेलि, ग्लोनो, कैलि।

दर्द कनपटीमें (Temple)—ऐकोन, ऐलि-सि, आर्नि, ऐट्रो, वैडि, बैप्टी, बेल, कैमो, चेलि, चायना, डेफ, फेरम, फेरम-मेट, जेल्स, हिपर, आइयो, इपि, आइरि, पेट्रो, कैलि-ब्रा, लैके, मैग-म्यू, माकु-सो, नेजा, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, अरम, ओपि, पल्स, रूटा, सैंगु, सिपि, **टैरैक्स**, स्टैनम।

" " दाहिने—आर्स, चेलि, कोलोसि, फेरम-मेट, जुग्ला, नक्स-वोम, रास-टक्स, थूजा, वार्बे।

" " बायें—इस्कु, आर्नि, सिपि, माकु, म्यू-ऐ, रोडो, सैङ्गु, साइलि, स्पाई-जि, स्टैफि।

" " फैलनेपर, आँखमें—ऐलोज, ऐस्टि-क्रूड, बार्बा, सिड्री, काल्के, नेट्र-फास।

" " " एक कनपटीसे दूसरी कनपटीतक—ऐलूमि, बेल, चायना, ग्लोनो, लैके, मेजे, फास, प्लैण्टे, सिपि, सल्फ।

" " " कानमें—अरम-म्यू, बोवि।

" " " जबड़ेमें—आर्ज-ना, कैल्के-फास, ग्लोनो, कैलि-का।

" " " दाँतोंमें—ब्रायो, कार्बो-वेज, सार्सा, बार्बे।

" " " भवोंमें—पिक्रि-ऐ।

" " **कपालमें**—इस्कु, इथि, ऐलि-सि, ऐलोज, ऐलूमि, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, आर्स, ऐसाफि, अरम, बैप्टी, बिस्मथ, ब्रायो, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैप्सि, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिकु, काफि, कोलोसि, साइक्ला, डिजि, डायस्को, इलैप्स, युफ्रे, फेरम-फास, जेल्स, ग्लोनो, हैमो, इग्ने, इपि, आइरिस, कैलि-का, कैलि-आ, कैलि, क्रियो, लैके, लाइको, मेडो,

मिलि, मार्क, मार्कु-आ-फ्ले, माइगे, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, नक्स-वोम, आकजा-ऐ, पेरि, फास, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स रूमेन्स, सेङ्ग, मार्सा, साइलि, सल्फि, स्टैनम, सल्फ, सिपि, थेरि।

दर्द कनपटीमें, दाहिने—ऐकोन, हिपर, लोरो, मेजे, फाइटो, प्रून-स्पा, रैना-बा।

„ „ बायें—ऐकोन, ऐग्रिट-क्रूड, एबिस, ऐमा-शम, बेल, व्राइयो, चायना, नेट्र-म्यू, रोडो, रास-टक्स, थूजा।

„ „ फैलनेपर आखमें—बैडि, कैमो, इग्ने, केलि-का, फास।

„ „ „ कानमें—अरम-म्यू, ग्लोनो, ओस्मो, स्कुइला।

„ „ „ नाकमें—ऐगा, केलि-का, लेंथि।

„ „ „ नासिकामूलमें—ऐकोन, केलि म, लैके, नक्स-वोम, फास।

„ „ „ पश्चाद्भागमें—व्राइयो, कैना-में, कैमो, सिमि, नक्स-वोम, प्रून-स्पाई, सिपि।

„ „ „ पीछे—ऐगा, आर्नि-का व्राइयो, कूप्र, युपे-पा, लैके, फाइटो, प्रून-स्पा, थूजा।

„ आँखके ऊपरी भागमें—एपि, आर्स, बेल, व्राइयो, कौकी, जेल्स, ग्लोनो केलि-बा, लैकि, लाइको, लिफा नेट्र-म्यू, नक्स वोम, फास, फाइसो, फाइटो, पल्स, सेङ्ग, साइलि, साइजि, स्टैनम, थेरि।

„ „ दाहिने—बेल, चेलि, इग्ने, रैना-बा, सेङ्ग।

„ „ बायें—आर्स, व्राइयो, केलि-का, सिपि साइलि।

„ „ फैलानेपर, आँखमें—कोना, लिलि-टिग।

„ „ „ नाकमें—ऐलि-सि, थोयि लैकि।

„ „ नासिका मूलके ऊपर—ऐकोना बैप्टी, बिस्मथ, कैल्के, कैलि हिपर, केलि-बा, लैक मार्कु-या फ्ले।

„ „ पश्चात् भागमें—ऐकोन चेलि, डिजि लैके रास टक्स थेरि।

„ „ बीचमें, दो आँखोंके—कार्बो वेजि कैलि-बाम, मार्कु, मार्कु, साइलि।

दर्द कनपटीमें, मस्तिष्कके गभीरतम प्रदेशमें (Aching deep in brain)—
ऐकोन, चायना, कोलो, डालका, मस्क, फास-ऐ, साइलि, सल्फ, थेरि, थूजा, जिङ्क।

दर्दकी प्रकृति—

, काटता है, छुरीसे मानो (Cutting, stabbing)—आर्नि, अरम, वेल, आइरि, कैलि-बा, कैलि-आर्स, लैके, साइलि।

„ काटो वेधती है, मानो (Nail as from a)—ऐगा, **काफि,** ग्रैफा, हिपर, इग्ने, लैके, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, **थूजा**।

„ कुचलनेकी तरह (Bruised)—आर्निका, अरम, बैप्टी, वेल, कैमो, चायना, युफोर, युफ्रे, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, इग्ने, **इपि**, लैक-डि, लैके, नक्स-वोम, प्लैटि, पल्स, रासटक्स, रूटा, सल्फ, विरे।

, कुटकुटाता है, लगातार (Aching)—ऐकोन, ऐलोज, ऐण्ट-क्रूड, आर्जे-ना, आर्स, बैप्टी, वेल, कैम्फि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, सिमि, सिना, चायना, जेल्स, हेलि, हाइड्रैस्टिस, आइरिस, इग्ने, कैलि-बा, लेप्टैण्ड्रा, लिलि-टिग, माइरि, नक्स-वोम, नैजा, नेट्र-आर्स, ओनस्मो, ओरिगेनम, फेलैन, प्लम्ब, पिक्रि-ऐ, साइलि, स्कुटेला, स्टैनम, स्टेलारिया।

„ खीच रखा है, मानो—टनक (Drawing)—ऐगा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना**, कोना, जेल्स, ग्लोनो, कैलि-आर्स, क्रियो, मैग-का, मार्कु, मस्क, नेट्रम-म्यू, **नक्स-वोम,** फास, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रोडो, रासटक्स, सिपि, सल्फ।

„ चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching)—कास्टि, लाइको, मेजे, पेट्रो, फास, साइलि।

„ चिबाता है, मानो—कैल्के, कैन्थ, लिडम, फास, लाइको, नेट्र-म्य, प्लैटि, जिङ्क।

„ छुआ न जाना, स्पर्श-असहिष्णु (Soreness, sensitive)—आर्स, वेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैन्थ, कार्बो-वेज, **चायना**, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, इग्ने, क्रियो, लैके, लाइको, मार्कु, मेजे, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, रास-ट, सिपि, साइलि, स्पाइ, सल्फ, सिफि, थूजा।

दर्दकी प्रकृति, छुरी वेधता है—"काटता है, छुरीसे" देखिये।

„ छेद करता है या खोदता है, मानो, (Boring, digging)—आर्जे-ना, ऐसाफि, अरम, बेल, क्लिमे, काकि, कोलोसि, हिपर, इग्ने, मेजे, नेट्र-म्यू र, नक्स-वोम, प्लैटि, पल्स, सिपि, स्पाइ, टैवे, स्ट्रैमो।

„ जलन करनेवाली—**ऐकोन,** आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, बैरा-का, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, ह्वाइयो, ग्लोनो, केलि-या, क्रियो, माकु, **मेजी,** पेट्रो, **फास,** सिपि, साइलि, सल्फ।

„ झटका देनेकी तरह (Jerking)—ऐकोन, आर्निका, बेल, ब्राइयो, चायना, इग्ने, लाइको, माकु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, **सल्फ।**

„ टपक, ठनक (Throbbing, pulsating, hammering, beating)—(१) ऐकोन, वेल, चायना, चिनि-स, ग्लोनो, लैके, लाइको, साइलि, सल्फ, (२) ऐमिल, आर्नि, आर्स, बोरे, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कोक, युपे-पार्फो, फेरम, जेल्स, इग्ने, आइयो, इपि, केलि-का, केलि-बा, कैल्मि, क्रियो, लोरो, लिथि-का, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, पेट्रो, फास, पल्स, रियुम, रास्टक्स, मार्सा, सेने।

„ दबा रखना (Pressing)—ऐकोन, इस्क, इथि, ऐलोज, ऐमोन-ब्रोम, ऐमोन-म्यू, ऐनाका, ऐरिए-टा, आर्जे-ना, आर्नि, ऐसाफि, वेल, विसमथ, ब्राइयो, कैम्फर, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, काकि, कोलोसि, डिजि, ड्रोसे, युफ्रे, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, ह्वाइयो, इग्ने, केलि-का, केलि-फास, केलि-ना, लैके, लाइको, **लाइसि,** मैग-का, मैग-म्यू र, चिनि, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्र म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स म, नक्स-वोम, ओलि, ओवि, पेट्रो, फास फास ऐ, प्लैटि, प्रुन्स, **पल्स,** रैना-ब, रोडो, रस टक्स रूटा, सैबाडि, सैम्ब, सेने, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पंजि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टैवेक।

„ चिमटेसे (Pressing, from pincer or vice)—ऐंटि क्रूड, विसमथ, कैल्के, कैमो, लाइको मिनयैन्थ मिलिफ्याम फास ऐ, प्लैटि, पल्स, वायो-ट्रि, मार्व।

दर्दकी प्रकृति, दबाव मालूम होना, मानो भारी चीज़से दबाया हुआ
(Pressing, dull as from a weight)—ऐलोज, ऐलू, ऐन का, कैल्क, सिमिसि, कार्बो-वेज, युपे-पार्फो, लेके, मिनियैन्थ, नैव नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फेलैन, फास-ऐ, सिपि, सल्फ।

„ धक्का देता है मानो (Shooting)—ऐकोन, बेल, कोना, फेरम कैलि-का, लैके, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ टेरि।

„ धीमा धीमा—(Dull)—ऐगा, ऐलि-सि, ऐपि, आर्ज-ना, बैप्टी चायना, सिमि, क्लिमे, डायस्को, डालका, ग्रैफा, इग्ने, इरिडगो कैलि-म्यू, लेके, लाइको, नेट्र-फा, **नक्स-वोम**, ओपि, रास-टक्स।

„ फट जायगा मानो (Bursting, splitting)—ऐमोन-म्यू, बेल **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैप्सि, कास्टि, **चायना**, फेरम, ग्लोनो लाइको, मार्कु, मिलिलोट, **नेट्र-म्यू**, ओपि, पल्स, सैंगु, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पंजि, सोलेनम, सल्फ।

„ फाडता है मानो, (Tearing)—ऐकोन, आर्नि, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कैमो, चेलि, चायना, काकि, कोलोसि, गुयाई, इग्ने, कैलि-का, क्रियो, लाइको, मैग-का मैग-म्यू, मार्कु-कोर, **मार्कु**, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ बंधा है कसकर, रस्सीसे मानो कसा जा रहा है (Constrictively band like squeezing)—(१) ऐनाका, ऐसिट-टार्ट, कैक्ट, कार्बो-ऐनि जेल्स, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, प्लैटि स्टैन, सल्फ, (२) ऐकोन, ऐसिट-पाई, कार्बो-वेज, कार्ड, कोका, काकु, युपे-पर्फो, ग्लोनो, गुआ, आइयो, लैप्टे, ओरमी, स्पाइजि, टियुबर्कु।

„ भारी, मालूम होना (Heavy, full)—"भार" देखिये।

„ वेहोश करनेवाला—आर्ज-ना, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, हाइयो, ग्लोनो, जेल्स, कैलि-ना, लरोसि, ओपि, फास, पल्स, स्टैनम, स्टैफि, सिफि।

„ मरोडनेको तरह (Twisting)—ड्यू, बेल, ब्राइयो, कैल्के, इरिडगो, आइरि, कैलि-का, पेट्रो, रास-टक्स, सेबा, साइलि।

दर्दकी प्रकृति, सुई बेधनेकी तरह—ऐकोन, ऐलूमि, ऐपिस-टा, आर्नि, बेरा-का, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैपि, कास्टि, कैमो, चेलि, सिकु, कोना, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-का, कैलि-ना, लोरो, लाइको, मैग-का, मैग-स, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पेरि, पेट्रो, पलस, रास-टक्स, सैबाडि, सार्सा, साइलि, स्पाइजी, सल्फ, वेले।

„ घटना—

„ „ अन्धेरेमें—ऐकोन, आर्नि, बेल, ब्रोमि, चायना, मैग-फास, सेडि, सैम्बु, सिपि, साइलि, जिङ्क।

„ „ आँख बन्द करनेपर—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, चेलि, साइलि, सल्फ।

„ „ „ खोलनेपर—चायना।

„ „ उत्तापके बाद—आरम, बेल, चायना, इग्ने, कैलि-का, मैग-म्यू, मैग-फास, नक्स वोम, नक्स मस, रास-टक्स, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ ऋतुके समय स्राव निकलता रहनेपर—बेल, कैपि, लैके, जिङ्क।

„ „ गर्मीसे—ऐमोन-का, कैलि-का, लैक-कै, नक्स-वोम, साइलि।

„ „ गर्म प्रयोग (सेंकने) पर—ऐमोन-का, चायना, कोलोसि इस्कयि, मैग-फास, नक्स-वोम, फास, साइलि।

„ „ घरके भीतर—बेल, ब्राइयो, कैमो, चायना, काफि मार्कु, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ घूमने फिरनेपर—कैल्के, कैमो, चायना, साइक्ला, फेरा, ग्लोनो, गुयाई, हाइयो, लाइको, म्यू-ऐ, पल्स, रास टक्स, सल्फ, थूजा।

„ „ घूमने बाद घूमी हवामें—ऐलि-स, ब्रोम, लैके, मार्का, मैग म्यू, फास, पल्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ „ चाय पीने—कार्बो ऐनि।

„ „ झुकने पर सामनेकी ओर—सिना इग्ने, मिलिफो।

„ „ झुक आने—काल्टि सिना, कोना हाइयो इग्ने, नक्स-वोम, फास, विरे।

दर्दकी प्रकृति घटना, ठण्डी-प्रयोगसे—ऐकोन, ऐलो, ऐलू, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, फास, लैके, नेट्र-म्यू, साइजि, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ „ ढक देनेपर माथा—अरम, बेल, ब्राइयो, कोलचि, कोना, क्रूप, हिपर, मैग-म्यू, नक्स-म, **नक्स-वोम**, फास, सोरि, रोडो, रास-टक्स, सैनि, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टानि।

„ „ दबा देनेसे—ऐलूमि, ऐमोन-का, एपिस, आर्ज-ना, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चायना, जेल्स, ग्लोनो, हाइयो, कैलि-बा, **लैकै**, लाइको, मैग-फास, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, **पल्स**, सैङ्गु, सिपि, साइजि, स्टैनम, सल्फ, विरे।

„ „ धूम्र पानसे—ऐमोन-का, ऐरेनि, कैल्के-फास, कार्बो-ऐ, नेजा।

„ „ घी देनेपर, ठण्डे पानीसे—ऐकोन, ऐना, ऐरिट-टा, आर्स, ब्राइयो, कैमो, नेट्र-स, फास, सोरि।

„ „ नशा खाने—ऐरिट-क्रू, ब्राइयो, कार्बो-वेज, काफि, नक्स-वोम पल्स, सल्फ।

„ „ नाकसे खून गिरनेपर—ऐरिट-क्रू, ब्यूफो, डिजि, फेरम, फास, मेलिलो।

„ „ नींदके बाद—बेल, जेल्स, ग्लोनो, पैले, फास, पल्स, सैंगु, सिपि।

„ „ पसीनेके बाद—नेट्र-म्यू, सल्फ।

„ „ पाखाना फिरने बाद—इथि, ऐगा, ऐलोज, एपि, आकन्ना-ऐ, सैगु, विरे।

„ „ पेशाब होनेपर बहुत बार—ऐकोन, जेल्स, इग्ने, फास-ऐ, साइलि, विरे।

„ „ बात चीतसे—डालका, युपे-पर्फो।

„ „ बाँधनेपर, किसी चीजसे—ऐगा, एपि, आर्ज-ना, कैल्के, इग्ने, मैग-म्यू, पिक्रि-ऐ, पल्स, रस-टाक्स, साइलि, स्टैनम।

„ „ भोजनके बाद—ऐलू, ऐनाका, ऐपियम, ग्रिफ्डे, कैलि, क्रोक, कैलि-फास, लिथि-का, लाइको, सोरि।

„ „ माथा खोल देने—ग्लोनो।

„ „ मानसिक परिश्रमसे—हैलोनि, पिक्रि-ऐ।

रातमें—म्यू-ऐ, हैमा, मैग-का, साइरा।

दर्दकी प्रकृति घटना, वमनके बाद—कैल्के, साइक्ला, ग्लोनो, केलि-बा, लैके, सैंगु, स्टैनम।

„ „ विश्रामसे स्थिर होकर बैठने पर—बेल, ब्राइयो, काकु, जेल्स, लिथि-का, मिनि, नक्स-वोम, ओरियो, पल्स, सैंगु, साइलि, स्पाइजि।

„ „ शराब पीने—इग्ने, क्रियो, जेल्स।

„ „ सवेरे—बोवि, कास्टि, क्रियो, नेट्र-म्यू, विरे।

„ „ सोचनेपर दर्दके विषयमें—आक्जा-ऐ, हेलोनि, सिकि।

„ „ सोये रहनेपर—बेल, ब्राइयो, बैप्टी, कैल्के, चायना, फेरम, जेल्स, इग्ने, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, सैंगु, सल्फ।

„ „ „ दर्दवाली करवट—आर्नि, कैल्के-आर्स, इग्ने, नक्स-वोम, पल्स, सिपि।

„ „ „ ऊँची तकियेपर माथा रखकर सोनेपर—बेल, जेल्स।

„ „ सन्ध्यामें—ब्राइयो, केलि-ना, लेके, नेट्र-म्यू, पिक्रि-ऐ, सैंगु, स्पाइजि, टेरि।

„ „ हवामें-खुली—आर्स, कार्बो-वेज, सिपि, काफि, ग्लोनो, ऐग्नि, कैलि-बा, लाइको, नेट्र-म्यू, सिकि, फास, पल्स, टेरे।

„ „ ठण्ढी—ऐलोज, आर्स, ब्यूफो, क्रोसे, गुर्फ, लाइको, फास।

„ हिलने डोलनेमें धीरे धीरे—कैप्सि, चायना, ग्लोनो, ऐलोनि, आइरिस, कैलि-फास, म्यू-ऐ, नक्स म, पल्स, राम-टक्स।

„ „ जोरसे—सिपि।

दर्दका घटना—

„ „ अन्धेरेमें—एकोन, बेल, ब्रोमि, पोडो, सैंगु सिपि साइलि।

„ „ आँखमें रोशनी लगनेपर—बेल फेरम इग्ने, मैक-फि डिजिटा कैलि-का, नक्स वोम, सिलि, सैंगु साइलि।

„ „ आँख घुमाने या हिलानेपर—बेल, ब्रायो, कैप्सि, कास्टि, कोलसि, कुप्र, हिप इग्ने, नैट्र म्यू, नक्स-वोम, पोडि, पल्स राम-टक्स, सिपि स्पाइजि सल्फ।

दर्दका बढना, उत्तापसे—ऐलि-सि, ऐलोज, ब्राइयो, युफ्रे, ग्लोनो, हाइपे, लिडम, निको, फास, पल्स, सिपि ।
" " ऋतुके समय—क्रोक, लैका-डि, नेट्र-म्यू, सिपि ।
" " ऋतु-परिवर्त्तनसे—कैल्के-फास, डाल्का, फाइटो, सोरि, रोडो, स्पञ्जि ।
" " एकाग्र-चित्त होनेपर—इग्ने ।
" " औषध सेवनके बाद-नाना प्रकारके—नक्स-वोम ।
" " काफी पीनेपर—ऐक्ट, स्पाई, इग्ने, नक्स-वोम ।
" " क्रोध आनेपर—नक्स-वोम ।
" " खासनेपर—(१) बेल, ब्राइयो, कैप्सि, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, (२) ऐकोन, आर्नि-का, कार्बो-वेज, आइरि, कैलि-का, पेट्रो, फास, सिपि, सल्फ ।
" " गन्धसे—सिलि, काफि, इग्ने ।
" " गर्म होनेपर देह—कार्बो-वेज, साइलि ।
" " गड़बड़ी या शब्दसे—ऐकोन, आर्स, बेल, कैल्के, काफि, फेरम-फास, इग्ने, लैकडि, मैलोन, नक्स-वोम, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, साइलि, सैंगु, स्पाइजि, थेरि, ट्रिलि-ड्राई ।
" " चढ़नेके समय ऊपर—ऐसिड-क्रूड, बेल, कैल्के, कानबे, सेनियेन ।
" " जल्दी जल्दी घट जाये बढ़कर—आर्ज-ना, बेल, मार्कु-को, साल-ऐसि ।
" " झटका लगनेपर—बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, लिडम, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, थेरि ।
" " झुकनेपर—(१) बेल, ब्राइयो, इग्ने, नक्स-वोम, स्पाइजि । (२) ऐकोन, रास-धे, सिपि, साइलि, सल्फ ।
" " टोपीके दबावसे—कैल्के-फास, कार्बो-वेज, नाइट्रि-ऐ, साइलि, वैले ।
" " ठण्डी हवा या ठण्ड लगनेपर—ऐकोन, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, डालका, हिपर, कैलि-का, लैके, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ ।

दर्दका बढ़ना, तम्बाकू खानेपर—कैल्के-श्रा, जेल्स, हिपर, इग्ने, लोबे-इन, नेट्र-श्रा।

" " तीसरे पहर—ऐनाग्नि, वैडि, बेल, क्रिमे, युपि-पार्फ, लेरे-इ, मिलि-लो।

" " दबानेपर—ऐगा, ऐग्रिट-क्रूड, श्रार्ज-मेट, बैरा-का बेल, डाल्का, चायना, सिना, कूप्रम, डायस्को, हिपर, कैल्नि-का, लैके, लाइको, नेट्र-श्रा, स्पून-सा, साइलि, सल्फ।

" " दाँतपर दाँत रखकर दबानेसे—ऐमोन का।

" " दूध पीनेपर—ब्रोमि।

" " देखनेपर चमकीली चीज—ब्रेल, फास ऐ, साइलि, स्पाइजि।

" " धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे घटना—प्लैटि, स्टैनम,।

" " धीरे धीरे आरम्भ होकर एकदम घट जाना—आर्ज-मेट, कास्टि सल ऐसि।

" " नशा खाने—ऐग्रिट-क्रूड, बेल, ब्राइयो कार्बो वेज, काफि, ग्लोनो लोरो, नक्स-वोम, पल्स, ष्ट्रैमो, सल्फ।

" " नींदके बाद—ऐग्रिट-टा, ब्राइयो, कोल्कि, चैनि, काफि, कैलि-श्रा, कैलि-का, लाइको, नैजा, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ।

" " नींद न आनेपर अधिक राततक—कार्बो वेज, ग्लोनो, नक्स वोम, रास-टक्स, सल्फ।

" " पढ़नेपर—कोल्कि, नेट्र-म्यू, प्लैटि।

" " पीछे झुकनेपर—ग्लोनो।

" " बोलनेपर—कैक्ट, इग्ने, सेजि।

" " भोजनके बाद—ऐमोन-कार्ब, ऐगारिक, श्रार्स, ऐट्रो, ब्राइयो, कैल्क, कार्बु, काफि, जेल्स, इग्ने, लैके, लाइको, नक्स वोम।

" " मध्याह्नमें—चिनि स, मैग्नु टैरै।

" " माथा हिलानेपर—ऐकोन हेल, ब्राइयो कैल्कि, चायना सिपि, कूप्रम, जेल्स, हिपर, लाइको, नेट्र म्यू, नक्स वोम, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " मानसिक परिश्रमसे—ऐगारिक, आर्ज-ना आरम, बेल, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-फास, कोनाय, जेल्स, ग्लोनो इग्ने, लैके

लाइको, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, प्लैटि, फास, फास-ऐसि, पिक्रि-ऐ, लोरि, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टैफि, सल्फ।

दर्दका बढना, रातमें—आर्स, बोवि, कैल्के, क्लिमे, पल्स, साइलि, सल्फ, सिफिलि, टैरे, थूजा।

„ „ विश्रामसे—आर्ज-मेट, कैप्सि, कैमो, आइयो, केलि-ना, लैके, लाइको, पल्स, रास-टक्स, स्टैनम, स्टैफि, वैले।

„ „ सन्ध्यामें—ऐलि-सि, ऐरिट-क्रूड, बेल, कैमो, कास्टि, साइला, कैलि-का, पल्स, स्पाई।

„ „ सवेरे—(१) ऐमोन म्यूर, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ। (२) इग्नु, ऐलू, साइला, हिपर, लैक-के, फास-ऐसि, पोडो, सैंगु, स्पाई।

„ „ „ नींद खुलनेपर आंख खुलते ही—(१) ब्राइयो, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम। (२) बोवि, सिपि, सल्फ।

„ „ सोनेपर—बेल, बोवि, कोलोसि, ग्लोनो, युपे-पर्फो, लाइको, सैंगु।

„ „ „ चित्त होकर—काकु, कोलोसि।

„ „ „ दर्द-वाली करवट—सिपिया।

„ „ खुली हवामें—आर्स, बेल, बोवि, चायना, काकु, काफि, मैग-म्यू, नक्स-वोम, सिपि, सल्फ।

„ „ „ घूमनेपर—बेल, कैल्के, चायना, सिना, आइरिस, म्यू-ऐ, नक्सवोम, रास-टक्स, स्पिजि, सल्फ।

„ „ हिलने डोलनेसे—ऐकोन, ऐनाका, आर्ज-ना, बेल, ब्राइयो, कैप्सि, कार्बो-वेज, चायना, सिमि, काकू, काफि, जेल्स, ग्लोनो, क्रियो, साइलि, लाइको, मेजे, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स म, नक्स-वोम, साइलि, स्पाई, थेरि।

दुर्बलता (Weakness)—ऐम्ब्रा, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, रैना-बा, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, जिङ्क।

नशाका भाव, विह्वल भाव (As from intoxication)—(१) ऐक्टि, आइलैन्थ, एपि, वैप्टो, ब्राइयो, काफि, जेल्स, ग्लोनो, हेलिबो,

नक्स-वोम, ओपि, फास-ए, फास, सल्फ। (२) ऐकोन, ऐलोज, ऐनाका, ऐरानि, आर्नि, बेल, कैना-इ, कार्बो-वेज, चायना, मैग्नल, नेट्र-का, नक्स-म, रास-टक्स, सिपि, जिङ्कम।

पसीना—ऐकोन, ऐनाका, ऐगारि, ऐण्टि-टा, ऐपि, बेल, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, ग्रैफा, गुये, हिपर, कैलि-का, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, मेजे, म्यू-ऐसि, नाइ-ऐसि, पेट्रो, फास, पल्स, रियुम, साइलि, स्ट्रैमो।

„ एक ओर शरीरमें—नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ कपालमें—चायना, क्रोटे-टिग हिपर, लिडम, सैबाडि, स्टैनम, ऐण्टि-टा।

„ खट्टी गन्ध, तेलहा—ब्राइयो।

„ गर्म—कैमो, चायना।

„ घूमनेके समय—लिडम।

„ „ खुली हवामें—ग्रैफा, गुये, नक्स-वोम।

„ „ ठण्डमें—बेल्लो-ऐ, ब्राइयो, सिना, काकु, कोनचि, क्रोक, डिजि, हिपर, मार्कु, ओपि, पल्स, विरे।

„ „ ललाटमें—ऐकोन, कार्बो-वेज, चायना, सिना, ड्रोसे, इपि, कैलि-का, स्टैफि, विरे।

„ नींदमें—कैल्के, मार्कु, पोडो, साइलि।

„ भोजन करने पर-केवल माथा—रियुम।

„ लसदार—कैमो, मार्कु, नक्स वोम।

पानी ठण्डा माथेपर ढालता है मानो—क्युप्रम, टेरे।

„ गर्म माथेके भीतर है, मानो—ऐमोन-का, पिटि, सैंगो।

पूर्णता मालूम होना (Fullness)—ऐकोन, ऐमोन-का, ऐमोन-म्यू, एपि, आर्जे-ना, बेल, बोरा, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो, सिनाबि कोना, साइक्ला, डिजि, फ्लू-ए, जेल्स, ग्लोनो, हेमा, लैक डि, मार्कु, निको नाइट्रि-ए, नक्स म फास, रना बा, रना सि, रास टक्स सेङ्गु, स्पिजि सल्फ, टेरि, केन्थ।

„ चढ़ाईके समय—बेल, कैल्के, ग्लोनो पल्स।

„ फट जायगा मानो—ऐमोन का, कैना इ, इग्नि, लिलि टिग मार्कु, नाइट्रि-ए।

पूर्णता मालूम होना, मानसिक परिश्रमसे—हेलो, इग्निगो, मिफा, नेट्र-फास, सोरि।

„ घटना खुली हवामें—सिनाबे, कार्ले।

„ „ दबानेसे—ऐगा, आर्जे-नाइ, हाइड्रो।

पूर्णता बढना—जोरसे हिलानेपर—कार्लस, ग्लोनो।

„ „ टोपीके दबावसे—कैल्के-फास।

„ „ वातचीतसे—सल्फ।

„ „ हिलने डोलनेसे—कैल्के-फास।

प्रदाह मस्तिष्कका—ऐकोन, ऐपि, वेल, ब्राइयो, कैम्फ, केन्थ, कैमो, कूप्रम, ग्लोनो, हेलि, ब्राइयो, लेके, माकु फास, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे-वि।

„ मस्तिष्क आवरणका (Meningitis)—ऐकोन, एपि, आर्नि, वेल, ब्राइयो, कैल्के, सिना, काकु, कूप्रम, जेलस, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, कैलि-ब्रोम, लेके, माकु, नेट्र-म्यू, रास-टक्स, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

फूला—प्रशस्त मालूम हो (Enlarged sensation)—आर्ज-ना, आर्नि, वैप्टी, वेल, वार्ब, वोवि, सिमि, डालका, जेलस, गलोनो, हाइपि, लेक-डि, मिलिलो, मैंगे, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, प्लैटि, **रैना-बा**, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, विरे।

बडा (Large)—कैल्के, कैल्के-फास, माकु, साइलि।

वतौडी—वैरा-का, कैल्के, **ग्रेफा**, हिपर, केलि-का, साइलि।

ब्रह्मतालु खुला (Open fontanellis)—एपि, **कैल्के**, **कैल्के-फास**, माकु, सिपि, **साइलि**, सिफि, सल्फ।

भारी मालूम होना (Feels heavy)—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-म्यू, आर्ज-ना, आर्नि, बेल, ब्राइयो, वैक्ट, कैल्के, कैम्फ, केना-इ, केन्थ, कार्बो-ऐसि, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कार्डो-मे, कैमो, चेलि, **चायना**, कोलचि, कोना, क्रोटन-टिग, कूप्रम, आर्स, डिजि, ड्रोसे, डालका, इलेप्स, गैम्बो, गलोनो, हेलि, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-बा, कैलि-

आर्स, लैके, लोरो, लाइको, मैग-म्यू, मैग-स, मैगे, मिनि, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, निको, नक्स-वोम, ओलिये, ओपि, पेट्रो, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रियुम, रास-टक्स, सैङ्गु, सिके, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्टेनम, स्टैफि, सल्फ, टेवे, टैरे, थूजा, वायो-ट्रि, जिङ्क ।

भारी मालूम होना, प्रात कालमें—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चायना, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, विरे, जिङ्क ।

„ तीसरे पहरके पहले—ऐलि-सि, ऐलूमि, आर्जे-ना, ब्राइयो, कैमो, जेल्स, मैग-का, पल्स साइलि ।

„ सन्ध्याके समय—ऐम्ब्रा, आर्जे-ना आर्स, वोवि, कोलोमि, फेरम, कैल्मि, लाइको, फास, प्लैगटे, सिपि, स्टैनम, सल्फ, जिङ्क ।

„ रातमें—आर्जे-ना, कार्बो-ऐनि, कैलि-आ लिलि-टिग, मेजे, नाइट्रि-ऐ, साइलि, टैरे ।

माथा पटकता है-चीज वस्तुपर (Knocks head against things)—एपि, आर्स, बेल, कोना, हाइयो, मैग-कार्ब, मिलि, रास-टक्स ।

„ दीवारपर—मैग-का ।

„ बिछावनपर—ऐपि, कोना, हाइयो, मिलि, रास-टक्स ।

माथेके भीतर मानो कुछ लुढकता है, (Rolling in)—ऐम-ऐमि, गुपे, येफा, हियुरा, फाइसो, सिपि ।

रगडना, मलना (Rubbing)—कैम्फ, कोना, फायो, टैरे ।

„ किसीके बदनमें—टैरे ।

„ हाथमें—विरे ।

„ सफेद—कैलि-क्लो, मेज़े, नेट्र-म्यू, फास, पूना ।

„ पीला—कैलि स ।

रक्ताधिक्य (Congestion)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐमिल-नाइ, एपि, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, आरम, बेल, बोरैक्स, ब्रायो, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, सिमि, सिमाई, कॉफि, काक्का, कास्टि, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, हेपर, इग्नि, लाइको, मर्क्यू

कैलि-बा, कलि-ब्रोम, कैलि-का, कैलि-आर्स, लैके, लोरो, लाइको, मैग-का, मैग-स, मैगे, मेलि, माकुं, मिलि, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐसि, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे, विरे।

रक्ताधिक्य, उठ बैठनेपर—यूजि, मैग-म्यू, नेट्र-का, साइलि, सल्फ।

„ उत्ताप, गर्मीके समय—ऐकोन, कैमो, काफि, फेरम, हेलि, फास, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, वेले।

„ ऋतुके पहले—ऐकोन, एपि, बेल, ग्लोनो, माकुं।

„ „ समय—बेल, ब्राइयो, कैल्क, चायना, ग्लोनो, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ बाद—चायना, इग्ने, नेट्र-म्यू, सल्फ, थूजा।

„ „ लोप हो जानेपर—ऐकोन, एपिस, बेल, ब्राइयो, कैल्क, चायना, सिमि, काकु, ग्रैफा, लैके, सल्फ।

„ क्रोधके बाद—ब्राइयो, कैमो, स्टैफि।

„ खड़े होनेपर—कैलि-का, मैगे।

„ धूप लगने—ऐकोन, बेल, कैक्ट, जेल्स, ग्लोनो, विरे-वि।

„ पाखाना फिरनेपर—ऐलो, ब्राइयो, नक्स-वोम, सल्फ।

„ हृत्पिण्डके "स्पन्दनके साथ"—सिमि, ग्लोनो।

रूसी (Dandruff)—ऐलूमि, ऐमोन-म्यू, आर्स, बेडि, ब्राइयो, कैल्क, कैन्थ, डालका, ग्रैफा, कालि-का, लाइको, मेडो, मेजे, नेट्र म्यू र, ओलियै, फास, सोरि, सिपि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ सफेद—कैलि-क्लो, मेजे, नेट्र-म्यू र, फास, थूजा।

„ पीला—कैलि-स।

शीतलता—"ठण्डा" देखिये।

शून्य मालूम होना (Empty hollow sensation)—आर्जे-मेट, आर्स, कार्बो-वेज, काकि, कोरा-रू, कूप्रम, ग्रैफा, लाइको, मैन्सि, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, सेने, स्टाइजि, सल्फ।

„ घटना—दबा रखनेपर—मैगे, सिपि।

„ वृद्धि—खुली हवामें—काकि, सल्फ।

सङ्कोचन भाव, फँस जानेका भाव (Constriction [illegible] on)

[illegible]ना, ऐण्टि-टार्ट, आर्जे-ना, आ[illegible]

कैम्फ, कास्टि, चेलि, काफि, कोना, जेल्स, ग्रेफा, लाइको, मि
मार्कु, मस्क, नेट्र-म्य, नक्स-वोम, पेरि, प्लैटि, पल्स, रास-ट
साइलि, सल्फ।

सङ्कोचन भाव, काली टोपी मानो माथेमें है—फाइसो।

„ बँधा हुआ है, मानो फीतेसे—ऐकोन, ऐम्ब्रा, वेल, कार्बो-ऐनि
कार्बो-वेज चेलि, काकु, साइक्ला, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, आइये
मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, सल्फ, मार्क, मस्क, नेट्र-म्यू, सोरि
सल्फ।

„ डोरीसे मानो—वेल, मार्क-आ-रू, नेट्र-का, सल्फ।

„ लोहेकी तारसे—ऐनाका, ऐसाफि, वेल, ग्रैफा।

„ घटना-आँख मूंदलेने पर—चेलि।

„ „ खुली हवामें—ऐकोन।

„ „ मसनसे—स्टैनम।

„ „ दबानेसे—इथि, ऐनाका, लेके, मिनि, थूजा।

„ „ विश्रामसे—हिपो, आइरि-फे।

„ „ हिलने डोलनेपर—ओपि, सल्फ, वैले।

„ बढना-खड़े होनेसे—मैग-का।

„ „ खुली हवामें—मैङ्ग, मार्कु, वैलें।

„ „ झुकनेपर—आर्ज, कोलोसि, डिजि मेडो, थूजा।

„ „ विश्राममें—सल्फ, वैले।

„ सर्दी गर्मी (Sunstroke)—कैम्फ, ग्लोनो, स्ट्रैमो, वेरि, विरे वि।

सुरसुरी मालूम होना (Formication)—ऐकोन, पिक्रि फ़ाउ आर्ज ना,
कैल्के, साइक्ला, फेरम, नक्स-वोम, पिक्रि ऐ, पल्स, राम टक्स,
सल्फ, थूजा।

हलका मालूम होना (Sensation of lightness)—ऐमे ऐसि, ऐकोन आर्ज
साइयो, कैम्फ, काफि, जेल्स, हिपो, मेङ्ग, राम स्ट्रैमो।

अकाडन पलकोंकी (Spasm)—वेल, कैल्के, कूप्र, युफ्रेश, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम पल्स, रूटा ।

अर्बुद (Tumors)—

,, अक्षिपुटमें (Tarsal)—पल्स, सिपि, साइलि, स्टैफि, थूजा, जिङ्क ।

,, कर्कट (Cancer)—हाइड्रो, लैके, फाइटो, थूजा ।

,, कोषार्बुद (Cystic)—ग्रैफा, मार्कु, साइलि ।

,, गुमड़ा (Wens)—ग्रैफा ।

,, दानामय (Nodules)—साइलि, **स्टैफि**, थूजा ।

,, पलकोंमें—कैल्के, कास्टि, हिपर, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ए, फास, पल्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ, टियुक्रि, थूजा ।

,, वतौड़ी—ग्रैफा ।

,, बहुपाद (Polypus)-पलकके भीतरकी ओर—कैलि वा ।

,, बाहरकी ओर—लाइको ।

,, बार बार—**सिपि** ।

अस्थिर-आँख—वेल, चिनि-स, स्ट्रैमो ।

,, दृष्टि (Unsteady look)—ऐलो, लैके, **मार्फि** ।

अस्वच्छता-आँखोंके सफेद अंशकी (Corneal opacity)—ऐपि, **आर्जे-ना**, अरम-म्यू, **कैडमि**, **कैल्कि**, कैना-सै, कास्टि, चेलिडो, चायना, सिनावि, **कार्फि**, कोलचि, **कोना**, क्रोटन-टिग, युफ्रे, हिपर, कैलि-बा, लैके, लाइको, मैग-का, मार्कु-आ-फ्ले, मार्कु, नाइट्रि-ए, पल्स, रास-टक्स, सिने, साइलि, सल्फ, टेरे ।

,, चेचकके बाद—साइलि ।

,, जखम या चोटकी वजहसे—युफ्रे ।

आँसू, कड़वा (Tears-acrid)—ऐलि-सि, आर्से, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कोलचि, **युफ्रे**, हैमा, इग्ने, क्रियो, लाइको, मार्कु, मार्कु-को, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ए, पल्स, रासट क्स, सल्फ ।

आँसू, गर्म—आर्स, **एपि**, युफ्रे, मार्कु, नक्स-वोम, **रास-टक्स**, सेड्र, **साइलि**, स्पाइजि, वार्बा।

„ जलन करनेवाला—एपि, आर्स, अरम, बेल, कैल्के, **चायना**, युफ्रे, लाइको, सेड्र, **सल्फ**, वार्बा।

उत्ताप आँखके कोनेमें—कार्बो-वेज, फास, सोरि, थूजा।

„ आगकी लपट मानो—जेल्स।

„ पलकोंमें—ऐकोन, केल्के, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, मेडो।

„ भीतरकी ओर (Heat in)—ऐकोन, आर्ज-ना, आर्स, **बेल**, कैम्प, **कैमो**, चेलि, **चायना**, क्लिमे, साइक्ला, ग्लोनो, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-बा, क्रियो, लिलि टिग, **लाइको**, मार्कु, मेजि, नेट्र म, नाइट्रि-ऐ, ओपि, फास, सोरि, रास टक्स, **रूटा**, स्पाइजि, सल्फ, टेरे, विरे।

उन्मुक्त—"खुला" देखिये।

उलटी-पलक बाहरकी ओर (Everted lids)—एपि, **आर्ज-मे**, **आर्ज-ना** बेल, कैल्के, हैमा, लाइको, मार्कु, मार्कु-कौर, नाइट्रि-ऐ, स्टैफि, सल्फ।

„ भीतरकी ओर (Inverted lids)—बोरा, कैल्के, ग्रैफा, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, सल्फ, जिङ्क।

कड़ापनका भाव, आँखोंका—बैरा-म्यू, कास्टि, फास, स्पाइजि।

„ „ पलकोंका—ऐपि, कैम्फ, **कैलमि**, नक्स म, रास टक्स, स्पाइजि विरे।

काली पलक—ऐकोन, कोक्क, कोना, मार्कु-कौर, नाइट्रि ऐ, फाइटो, साइलि, स्पाइजि, थूजा।

काला दाग पड़ना (चोटकी वजहसे) (Ecchymosis)—ऐकोन, आर्निका, बेल, कैल्क, कोना, क्रोटे-टी, फास ऐ, ग्लोनो, हैमा, लेकि, लैके, लिडम, लाइको, नक्स-वोम, फास, सल्फ ऐ।

„ पलकोंमें—आर्निका, लिडम।

„ आँखके चारों ओर—"मुखमण्डल" देखिये।

काचकी तरह आंख (Glassy appearance)—ऐकोन, बेल, सिकि, ग्लोनो, हेलि, लेके, लाइको, **ओपि, फास-ऐ,** प्लैटि, स्ट्रैमो।

कापना (Quivering) आंखोंका—ऐमोन-म्यू, एपि, ग्लोनो, हाइयो, रैटा, रास-टक्स, सेनि।

„ कोनेका—फास।

„ पलकोंका—ऐगा, **बेल, कैल्के,** कार्ल, **सिकि,** काकि, ओलि-ऐनि, फास, प्लैटि, रैटा, सल्फ, विरे।

„ „ दाहिने - बेल, सार्सा।

„ „ बायें, ऊपर—एरम-ड्रि, क्रोक।

„ भवोंका—ओलि-ऐनि, रूटा।

कीचड जमना (Eye-gum)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि-क्रूड, आर्ज-ना, विस्मथ, कैल्के, ग्रैफा, इपि, नक्स-वोम, सोरि, सेनि, स्टैफि, थूजा।

„ कोनेमें—ऐगा, ऐण्टि-क्रूड, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, स्टैफि, सल्फ।

„ पलकोंमें—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ग्रैफा, सेनि।

„ „ सवेरे—बार्ब, फास, सेनि।

कुचल जाने (Bruised)—**आर्निका,** अरम, कैल्के-फास, चेलिडो, सिमिसि, कूप्रम, युपे-पर्फो, हिपर, जेल्स, लाइको, नक्स-वोम, प्रून-स्पा, रूटा, सिपि, सल्फ।

केश उड जाना-बरुनीका—एपि, आर्स, युफ्रे, मार्कु, रास-टक्स, सेलि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ भवोंका—ऐलूमि, प्लम्ब, सेलि।

„ मानो आखोंमें गिर गया है—प्लैटि, पल्स, टैबे।

खींचनका भाव (Tension)—अरम, कैल्के, कोलोसि, युफ्रे, इपि, लिथि, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पैरि, साइलि।

„ चारों ओर—ऐलूमि, नक्स-म, नक्स-वोम।

„ पलकोंमें—ऐकोन, हाइपे, नक्स-म, नक्स-वोम।

खींच रखने जैसा मालूम होना, भोतरकी ओर—हिपर।

खुजलाहट—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, आर्ज-मेट, आर्ज-नाइ, बैरा-का, बेल, बार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, युफ्रे,

कालि-बा, हिपर, कैलमि, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, निको, नक्स-वोम, पेट्रो, फिना, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, वायो-ड्रि, जिङ्क।

खुजलाहट कोनेमें—ऐलूमि, ऐसिट-क्रूड, आर्जं मेट, आर्निका, अरम, बेल, कैल्के, कोना, युफ्रे, फ्लूरि-ऐ, गेम्बो, लिडम, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ कोनेमें भीतर—एपि, अरम, कास्टि, सिनेबा, गेम्बो, ग्रैफा, मेजे, नेट्र-म्यू, सोरि, रूटा, सल्फ।

„ „ बाहर—ऐसिट-क्रूड, अरम,-म्यू, ब्राइयो, युफ्रे, मेजे, नेट्र-म्यू, रास-टक्स, सल्फ।

„ पलकोंमें—ऐलूमि, एपि, आर्जं-मेट, अरम, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, कैल्के, कास्टि, क्रोटन-टिग, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, मेजे, नक्स-वोम, पेट्रो, फास-ऐ, पल्स, रास्टक्स, सल्फ, सिपि, सल्फ, टेलू।

„ „ धीरे धीरे—ऐमोन-क्रा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, युफ्रे, जेड्रोफा, मेजे, नेट्र-स, नक्स-वोम, सिपि, सल्फ।

„ भवोंमें—ऐगा, ऐग्न, आर्स, ब्राइयो, कास्टि, फेरम, मेजे, माइनि, सल्फ।

„ घटना, खुली हवामें—पल्स।

„ „ ठण्डे प्रयोगसे—पल्स।

„ „ रगड़नेपर—कास्टि नेट्र-का, नक्स योम, ओनि ऐनि सल्फ।

„ बढ़ना रगड़नेपर—कैलि, क्रियो, सल्फ।

खुली पलक (Open lids)—कास्टि, काकि, क्युप्र गुयेई, हायो आइयो, मोरो, लाइको, ओपि, स्ट्रैमो।

„ विकारकी वजहसे—क्रोटे-टो, स्ट्रैमो।

„ आधी—ऐसिट-टार्ट, एपि, आर्स आर्टि-ना बेल्टी बेल, ब्राइयो केम फेमो, काफि कोमनि क्रोटे-टो, क्युप्र, डिजि, बेल्ला हेलि, हाइड्रो सि, इपि क्रियो मैग्ने नाइट्रो मार्क, सारि, नेट्र म्यू, ओपि, फास-ऐ रास टक्स स्ट्रैमो सल्फ सिलि, जिङ्क।

„ नींदकी अवस्थामें—वेल, व्राइयो, काफि, लाइको, ओपि, फास ऐ, स्ट्रैमो, सल्फ।

खोलकर पलक नहो रखी जा सकती, तकलीफ होती है (Opening the lid difficult)—आर्स, बोरे, कास्टि, फेरम, फ्लू-ऐ, जेलस, मार्कु, नेट्र-का, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास।

गर्मी मालूम होना—"उत्ताप" देखिये।

गुहौरो, अञ्जनी (Hordeola)—एपि, अरम, ब्राइयो, कास्टि, चेलि, कोना, फेरम, फेरम-फास, ग्रैफा, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रस-टक्स, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ ऊपरी पलकपर—वेल, फेरम, मार्कु, फास-ऐ, पल्स, स्टैफि।

„ निचली पलकपर—फेरम-फास, ग्रैफा, फास, पल्स, रास-टक्स, सेने।

„ दाहिनी पलकपर—ऐमोन-कार्ब, नेट्र-म्यू।

„ वाईं पलकपर—वैरा-का, कोलचि, इले।

„ वार वार होनेपर—ग्रैफा, सोरि, सल्फ।

घूमना आँखकी पुतलीका (Rolling of eye ball)—ऐगा, वेल, व्यूफो, कास्टि, सिकि, काकु, कूप्र, युफ्रे, हाइयो, स्ट्रैमो, विरे, जिङ्क।

चमकीली आँखें—इथि, आर्स, वेल, कैम्फ, काफि, कोलोसि, युपे-पर्फो, जेलस, हाइयो, लाइको, ओपि, पल्स, स्टैमो, जिङ्क।

चर्मोद्भेद—

„ आँखके कोनेमें—कैल्क।

„ „ चारो ओर (Eruption about the eyes)—ऐम्न, आर्निका, आर्स, कोना, क्रोटे-हो, हिपर, स्टैफि, सल्फ सिकि।

„ „ छोटे छोटे (Fine)—युफ्रे।

„ „ „ फोड़े—फास।

„ „ पीले रङ्गका—फ्लू-ऐ, नेट्र-म्यू, रास-टक्स।

„ पलकोंपर—ऐरिट-टा, व्राइयो, क्रोटन-टिग, ग्रैफा, गुये, हिपर, क्रियो, मैग-म्यू, मेजे, नेट्र-म्यू, सोरि, सार्सा, साइलि, थूजा, रास-टक्स, सल्फ।

चर्मोद्भेद आँखमें अञ्जनी—"गुहौरी" देखिये।
„ „ एकज़िमा (Eczema)—**ग्रेफा**, मेजे, टेलू, **थूजा**।
„ „ पीव-भरे दाने (Pustules)—आर्ज-मेट, लाइको, मार्कु, सिपि, सल्फ, टेलू।
„ „ किनारे किनारे—आर्ज-मेट, सिपि।
„ „ फटे घाव या पपड़ी जमना—आर्स, ग्रेफा, सिपि, आर्ज-ना, बोरे, कैल्के-कार्ब, कैल-सि, लाइको, सेनि।
„ „ रस भरे दाने (Vescicles)—सिमि, क्रोटन-टिग, मेजे, सोरि, रास-टक्स, सार्सा।
„ „ स्कार्वी-शीताद (Scurvy)—मेजे, **पेट्रो**, **सिपि**।
„ „ हारपिज (Herpes-गञ्ज)—ग्रेफा, सोरि, सल्फ।
„ भवोंमें—कास्टि, कैलि-का, सेलि, थूजा।

चिपक जाना, पलकोंका—ऐगा, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, आर्ज-मेट, **आर्ज-ना**, बैरा-का, ब्राइयो, कोरकी, **कास्टि**, कैमो, क्रिमे, डिजि, गुफ्रे, **ग्रेफा**, इग्ने, केलि-का, क्रियो, लाइको, मेग-का, नेट्र-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास**, फाइटो, पल्स, **सिपि**, साइलि, स्ट्रैनम, स्टेफि, सल्फ, थूजा।
„ प्रात:कालके समय—**आर्ज-ना**, **आर्स**, कोरकी, क्रिमे, गुफ्रे, **ग्रेफा**, कैलि-का, **मेडो**, **मार्कु**, नेट्र-म्यू, सोरि, अन्य **रास-टक्स**, सिपि, **सल्फ**।
„ रातमें—ऐलूमि, एपि, आर्ज-ना, बोरे, गुफ्रे, **ग्रेफा**, **लाइको**, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्टेफि, थूजा।

चिमधा पड़ना (Blear eyed)—ऐकोन, ऐण्टि-टा, ब्राइयो, इयुफ्रे, मार्कु, **पल्स**, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

चिलक मारना (Smarting)—**ऐलि-सि**, **ऐलूमि**, एपि, आर्स, बेल, बैरा, कास्टि, चायना, कौलोसि, कौक्क, गुफ्रे, ग्रेफा, हिपर, काइलो, कैलि कार्ब, मेज़ेरि, मार्कु, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास्फो, फाइटो, **रैन-बा**, सार्सा, सल्फ।

" नीदकी अवस्थामें—वेल, ब्राइयो, काफि, लाइको, ओपि, फास-ऐ, स्ट्रैमो, सल्फ।

खोलकर पलक नहो रखी जा सकती, तकलीफ होती है (Opening the lid difficult)—आर्स, बोरि, कास्टि, फेरम, फ्लू-ऐ, **जेल्स**, मार्कु, नेट्र-का, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास।

गर्मी मालूम होना—"उत्ताप" देखिये।

गुहौरी, अञ्जनी (Hordeola)—एपि, अरम, ब्राइयो, कास्टि, चेलि, कोना, फेरम, फेरम-फास, ग्रैफा, **लाइको**, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, साइलि, स्टैनम, **स्टैफि**, सल्फ, थूजा।

" ऊपरी पलकपर—बेल, फेरम, मार्कु, फास-ऐ, पल्स, स्टैफि।

" निचली पलकपर—फेरम-फास, ग्रैफा, फास, पल्स, रास-टक्स, सेने।

" दाहिनी पलकपर—ऐमोन-कार्ब, नेट्र-म्यू।

" बाईं पलकपर—बैरा-का, कोलचि, इलै।

" बार बार होनेपर—ग्रैफा, सोरि, सल्फ।

घूमना आँखकी पुतलीका (Rolling of eye ball)—ऐगा, बेल, ब्यूफो, कास्टि, सिकि, काकु, कूम, युफ्रे, हाइयो, स्ट्रैमो, विरे, जिङ्क।

चमकीली आँखे—इथि, आर्स, वेल, **कैम्फ**, काफि, कोलोसि, युपि-पर्फो, जेल्स, हाइयो, लाइको, ओपि, पल्स, स्ट्रैमो, जिङ्क।

चर्मोद्भेद—

" आँखके कोनेमें—केल्क।

" " चारो ओर (Eruption about the eyes)—ऐन्ग, आर्निका, आर्स, कोना, क्रोटे-हो, हिपर, स्टैफि, सल्फ सिकि।

" " छोटे छोटे (Fine)—युफ्रे।

" " " फोडे—फास।

" " पीले रङ्गका—फ्लू-ऐ, नेट्र-म्यू, रास-टक्स।

" पलकोंपर—ऐरिट-टा, ब्राइयो, क्रोटन-टिग, ग्रैफा, गुये, हिपर, क्रियो, मैंग-म्यू, मेजे, नेट्र-म्यू, सोरि, सार्सा, साइलि, थूजा, रास-टक्स, सल्फ।

ठण्डा मालूम होना—आर्ज-ना, कैल्के, कैल्के-फास, कोना, युफ्रे, लाइको, फाइटो, प्लैटि, सल्फ।

" पलकोंका—ब्रोमि, हिपुरा, कैलि-कार्ब।

ढेरा देखना (Strabismus)—ऐलूमि, ऐपि, वेल, कैल्के, कैन्य सिफि, सिना, कोना, माइल्ला, जेल्स, हेलि, हाइयो, केलि-ब्रोम, केलि-का, लाइको, मैंग फास, मार्कु, मार्कु-कोर, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सैण्टो, स्पाइजि, स्ट्रैमो, टेबे, जिङ्क।

" दोनों पुतलियां नाककी ओर सरक आती है (Convergent Strabismus)—साइक्ला, जेबोरै।

" " " नाकसे दूर हो जाती है (Divergent Strabismus)—मार्फि, नेट्र-सैल्निसि।

" अकडनकी वजहसे—सिफि, वेल, हाइयो, ऐगा, जेल्स, नक्स वोम, स्ट्रैमो।

" क्रिमिकी वजहसे—सिना, साइक्ला, स्पाइजि, सैण्टो, वेल, हाइयो, मार्कु।

" चोटकी वजहसे—सिक्यू।

दर्द—ऐकोन, एलि-सि, ऐलोज, एपि, आर्ज-ना, आर्निका, आर्स, ऐट्रो, अरम, वेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कार्लस, चेलिडो, चायना सिनावि, सिमि, कोलोसि, कोलचि, कैमो, क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, इग्नैप्स, जेल्स, ग्लोनो, गुये, हैमा, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, केलि-कार्ब, कैलि, लैके, लैक्टि-ऐ, लाइको, मैग-फास, मेडो, मार्कु-कोर, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास फाइसो, रैना-बा, रूटा, सैङ्गु, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, टेरि।

" कोनेमें—ऐलूमि, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, इग्ने, मार्कु, पल्स, स्पाइजि, सल्फ।

" चारो ओर—सिनेबा, जेल्स, इग्ने, मार्कु, पल्स, स्पाइजि, सल्फ।

" दाहिनी आंखमें—एपि, कैमो, क्रोटे-हो रैना बा।

" पलकोंमें—कास्टि, लाइको सल्फ।

" बाई—ऐगा, ऐनाका, ऐसार आरम आरम म्यू, इग्नैप्स।

" सबेरे—ऐल्यू, आर्ज ना, आरम नेट्र-आर्स, नक्स वोम।

सन्ध्याके समय घटना—कैमिमि।

[illegible]म, फार्मि, नक्स-वोम, सिपि सैंके।

चिलक मारना कोनेमें—ऐसिड-फ्लूड, ऐपि, कोना, म्यू-ऐ, पेट्रो, रेना-सि, स्टैफि, सल्फ।

„ पलकका—ऐपि, कैल्के, कास्टि, हिपर, लाइको, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

„ „ किनारे—एपि, मार्क-स, सोरा, सल्फ।

जखम (Ulcers) कार्नियामें—"प्रदाह सुफेद अंश (Cornea)" देखिये।

कञ्जाटाइवरा—"प्रदाह श्लैष्मिक झिल्लीका" देखिये।

„ नासूर-कार्नियामें (Fistula of Cornea)—साइलि।

„ „ आंखोंके किनारेसे नासूर हो जाता है और उससे आँसू निकला करता है (Fistula Lachrymalis)—एपि, आर्जे-नाई, अरम-म्यू, ब्रोम, **कैल्के**, फ्लू-ऐ, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **पेट्रो, पल्स, साइलि,** सल्फ।

„ पलकोंमें—"प्रदाह पलकोंका" देखिये।

जाला पड़ना (मोतियाबिन्दु)—ऐपि, बैरा-का, कैल्के, कैना-सै, कास्टि, चेलि, सिनें मेरि, कोलचि, कोना, जैबो, कैलि-का, लाइको, मैग कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिके, **साइलि**, सल्फ, जिङ्क।

„ आरम्भमें—कास्टि, पल्स, सिपि।

„ चोटके कारण—आर्निका, कोना।

„ जालकी तरह—कास्टि, प्लम्ब।

„ नश्तर लगवाने बाद—आर्निका।

„ वृद्ध मनुष्योंका—कार्बो-ऐनि, सिके।

झिल्लीसे ढकी मालूम होना (Membrance, sensation as if drawn over eyes)—एपि, कास्टि, डैफ, पल्स, रैटा।

झूल पड़ती है, आंखकी पलकें (Falling of lids)—ऐकोन, आर्नि, बेल, कोना, **जेल्स**, ग्रैफा, लाइको, मार्क, नेट्र-का, ओपि, सिपि, साइलि, सल्फ, वायो-ट्रि, जिङ्क।

„ ऊपरकी पलकें—ऐकोन, ऐलूमि, ऐपि, बेल, कास्टि, कैमो, जेल्स, ग्रैफा, नक्स-मस, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, वाइपे।

टपकना दर्द-भीतरकी ओर (Pulsation in)—आर्स, बेल, कैल्के, चेलिडो, कोलोसि, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, मार्क, मार्क-का, थूजा, नक्स-वोम

ठण्डा मालूम होना—आर्ज-ना, कैल्के, कैल्के-फास, कोना युफ्रे, न्याइको, फाइटो, प्लैटि, सल्फ।

„ पलकोंका—ब्रोमि, हियुरा, कैलि-कार्ब।

डेरा देखना (Strabismus)—ऐलूमि, ऐपि, बेल, कैल्के, कैन्थ, सिफि, सिना, कोना, साइक्ला, जेल्स, हेलि, हाइयो, कैलि-ब्रोम, कैलि-फा, न्याइको, मैग फास, मार्कु, मार्कु-कोर, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सेण्टो, स्पाइजि, स्ट्रैमो, टेबे, जिङ्क।

„ दोनों पुतलियाँ नाककी ओर सरक आती हैं (Convergent Strabismus)—साइक्ला, जैवोरै।

„ „ „ नाकसे दूर हो जाती हैं (Divergent Strabismus)—मार्फि, नेट्र-सैलिसि।

„ अकड़नकी वजहसे—सिफि, बेल, हाइयो, ऐगा, जेल्स, नक्स वोम, स्ट्रैमो।

„ क्रिमिकी वजहसे—सिना, साइक्ला, स्पाइजि, सैण्टो, बेल, हाइयो, मार्कु।

„ चोटकी वजहसे—सिक्यू।

दर्द—ऐकोन, एलि-सि, ऐलोज, एपि, आर्ज-ना, आर्निका, आर्स, ऐट्रो, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कार्लस, चेलिडो, चायना, सिनावे, सिमि, कोलोसि, कौन्चि, कैमो, क्रोटे हो, क्रोटन-टिग, इलैप्स, जेल्स, ग्लोनो, गुये, हैमा, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लैके, लैक्टि-ऐ, न्याइको, मैग फास, मेडो, मार्कु-कोर, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास फाइसो, रैना-ब्रा रूटा, सैङ्गु, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ टेरि।

„ कोनेमें—ऐलूमि, पल्स ऐ, ग्रैफा, इग्ने, मार्कु, पल्स, स्पाइजि, सल्फ।

„ चारो ओर—सिनेबा, जेल्स, इग्ने, मार्कु, पल्स, स्पाइजि, सल्फ।

„ दाहिनी आंखमें—एपि, कैमो, क्रोटे-हो, रैना-ब्रा।

„ पलकोंमें—कास्टि न्याइको सल्फ।

„ बाईं—ऐगा, ऐनाका, ऐमार परम, परम म्यू, इन्डिड।

„ सबेरे—ऐम्ब्रा, आर्ज-ना परम नेट्र-फार्म, नक्स वोम।

„ सन्ध्याके समय, घटना—कैल्मि।

दर्द जागनेपर—फ्रिम फार्मि नक्स-वोम, सिपि ऐट।

दर्द दिनमें—हिपर, **कैलमि**, लाइको, सेंगु।

„ सन्ध्यामें—कैल्के, कार्बो-वेज, लाइको, पल्स।

„ रातमें—आर्स, सिफि, **मार्क**, मार्क-आ-फ्ले, थूजा।

„ चोटकी वजहसे—**आर्निका, सिम्फ।**

„ पढनेके समय—एगा, कैल्के, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रूटा।

„ रौशनीसे—एपि, आर्स, **बेरा का**, चेलिडो, कोना, लैक-डि, मार्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फाइसो।

„ सर-दर्दके साथ—ऐगा, एपि, **बेल**, सिपि, नक्स-वोम।

„ सामयिक—सिड्र, चायना, कोलोसि, युफ्रे, जेल्स, नेट्र-म्यू, **प्रून**।

„ सूर्यको गर्मीसे—कैल्के, नेट्र-म्यू।

„ सूर्यके सहित घटना बढना—कैलमि।

दर्दका प्रकार—

„ करकराना—एपि, **आर्स**, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलि, **चायना**, कोरा-रू-, डिजि, युफ्रे, फेरम, **फास-ऐ**, हिपर, इग्ने, लिडम, लाइको, मेडो, **नेट्रम-म्यूर**, ओपि, फाइटो, सोरि, पल्स, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ कुटकुटाना (Aching)—आर्ज-मेट, आर्स, वैडि, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कार्लस, कैमो, चेलिडो, सिमि, सिना, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, मार्क, मेजि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पोडो, **पल्स**, रास-टक्स, रूटा, **स्पाइजि**, सल्फ।

„ „ घटना-आँखे बन्द करनेपर, रातमें—नाइट्रि-ऐ, पिक्रि-ऐ।

„ „ „ गरमसे—हिपर।

„ „ „ चाय पीनेपर—पिक्रि-ऐ।

„ „ „ सन्ध्यामें—चेलि।

„ „ बढ़ना-धूपमें—नेट्र-आर्स।

दर्दका कुटकुटाना बढना हिलनेपर—चोवि, ब्राइयो, जेल्स।

„ काटता है, मानो छुरीसे (Cutting)—एपि, बेल, ब्राइयो, कैल्कि, चेलि, चायना, सिपि कोलोसि, कोलचि, काल्मि, युफ्रे, लेके, माकुं, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ „ बढनेसे—कैल्के, माकुं।

„ „ घटना-दवा रखनेपर—कोलोसि।

„ „ बढना-झुकनेपर—कोलोसि।

„ „ „ बत्तीकी रौशनी—कैल्के।

„ „ „ रातमें—माकुं।

„ काटना दाँतसे (Biting)—ऐलि सि, आर्ज-ना, केन्थ, काल्मि, चिनो, क्लिमे, युफ्रे, ग्रैफा, केलि-कार्ब, माकुं-आ-फ्ले, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, टियुक्रि।

„ „ कोनेमें—ब्राइयो, रैना-सि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ पलकोंके किनारे—कैल्के, लेके, मेजे।

„ खींच रखनेकी तरह मालूम होना (Drawing)—आर्स कैम्फ, काल्मि, चेलिडो, कोलचि, ग्लोनो, ग्रैफा, कोलमि, नेट्र-म्यूर, फास्फो, सेने, स्याइजि, सल्फ।

„ „ पश्चाद्भाग माथेके—ग्रैफ, हिपर, लेके, मेजि, पैरि, पल्स, सल्फ।

„ चिलक मारनेकी तरह (Smarting)—ऐलि-सि, ऐलूमि, एपि, आर्ज, बेल, केन्थ, काल्मि, चायना, कोलोसि, क्रोक, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, आइयो, केलि-कार्ब, नेप्टाल्ड्रा, माकुं, मेजि नेट्रम-म्यूर, फास्फो, फाइटो, रैना-बा, साइलि, सल्फ।

„ „ कोनेमें—ऐरिट्र-क्रूड, एपि, कोना, म्यूरे पेट्रो रैना सि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ पलकोंमें—एपि, कैल्के, काल्मि हिपर, माइको, मार्स्ट्रि ए, सल्फ।

„ „ „ के किनारेपर—एपि, माकुं-क, मोरा, सल्फ।

„ छेद करता है, मानो (Boring)—एपि, ऑरम क्रोटे हो माकुं, नक्स वोम, पल्स।

दर्दका जलन (Burning)—**ऐकोन, ऐलि-सि,** ऐलूमि, एपि, **आर्स,** ऐसाफि, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो वेज, कास्टि, सिड्र, चेलि, क्लोरे, कोलचि, कोलोसि, **कोना,** क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, साइक्ला, डिजि, **युफ्रे,** गैम्बो, ग्रैफा, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-आर्स, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्कु, मार्कु-कोर, मार्कु-आ-रू, मेजे, **नेट्र-म्यूर,** नेट्र-स, निको, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि, पेट्रो, फास, फास-ऐ, **पल्स,** रैना-बा, रोडो, रास-टक्स, रूटा, सिपि, **सल्फ,** थूजा, जिङ्क।

" " कोनेमें—ऐसाफि, अरम, **ब्राइयो,** कैल्के, कास्टि, क्लिमे, युफ्रे, ग्रैफा, फास-ऐ, रास-टक्स, सल्फ।

" " पलकोंके किनारे— एपि, **आर्स,** कोलचि, डिजि, **युफ्रे,** लिडम, मार्कु-कार, नेट्र-स, सल्फ।

" " " सवेरे—ग्रैम्बो, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **सल्फ,** जिङ्क,

" " प्रातः कालमें—फेरम, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर,** नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, सल्फ, जिङ्क।

" " अपरान्ह तीसरे पहर—नेट्र-का, नेट्र-स, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" " सन्ध्यामें—ऐकोन, ऐलूमि, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, **पल्स,** रूटा, जिङ्क।

" " रातमें—**आर्स,** कोना, क्रोटन-टिग।

" जलन-उत्तापावस्थामें—चायना, रोडो, सल्फ-ऐ।

" " खोलनेपर आँखे—आर्स, केलि-बा।

" " घरमें गर्म—कोना, पल्स।

" " पढ़नेके समय—कैल्के, क्रोक, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

" " बत्तीकी रौशनीमें—कैल्के, कोरा-रू, फास-ऐ।

" " रगड़नेके बाद होता है—**ऐलि सि,** चायना, पल्स।

" " रौशनीमे—क्रियो, मैग-म्यू।

सर दर्दके साथ—ऐरानि, काफि, हिपर।

दर्दका जखम हवामें खुली—ग्रेफा, मार्कु, विरे।
" " घटना-ठण्डे पानीसे—आरम, निको, थूजा।
" " " दबा रखनेपर—पिक्रि-ए।
" " " नींदमें—चेलिडो।
" " खुली हवामें—गैम्बो, फाइटो, पल्स।
" " बढ़ना-आगके पास—नेट्र-सल्फ।
" " " सोनेपर—नक्स-वोम।
" " हिलने डोलनेपर—नक्स-वोम।
" टपकना—"दर्द" देखिये।
" डङ्क मारनेकी तरह—एपिस, युफ्रे, हिपर, कैलि-का, पल्स, थूजा।
" दबा रखनेकी तरह (pressing)—ऐगा, ऐलूमि, ऐन्थ्रा, ऐनाका, एपि, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कोल्के, कार्बो-वेज, कोलो, कास्टि, क्रोमो, चेलि, चायना, क्रिमि, कोलोसि, कोना, क्यूप्रम, साइक्ला, युफ्रे, ग्लोनो, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लेके, लिडम लाइको, मैग-कार्ब, मार्कु, मार्कु-कोर, मेजे, नेट्र-स, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ए, फाइटो, प्लैटि, प्रम्ब, सोरि, पल्स, रैना-बा, रास-टक्स, रूटा, सेनी, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पञ्जि, सल्फ, जिङ्क।
" " " घटना गरमसे—नेट्र-का, सिनि।
" " " दबा रखनेपर—कास्टि।
" " " रगड़नेपर—कास्टि रैना-बा।
" " हवामें खुली—फास, थार्निका।
" " बढ़ना-टकटकी लगाकर देखनेपर—नेट्रम-म्यूर।
" " " झुकनेपर—कोलोसि, फ्लू-ए मार्कु।
" " " पढ़नेके समय—डाल्का, मर्कु।
" " " हिलनेपर—ब्राइयो, ग्लोनो, हिपर, मैङ्ग, स्पाइजि।
" फट जानेकी तरह—ग्लोनो, प्रून स्पा सेनि सीफि।
" फाड़ डालनेकी तरह (Tearing)—ऐपि थार्निका चार्ट क्रम, केन्थे.

चेलि, कोलचि, कोलोसि, हाइयो, इपि, लाइको, माकु, मेजे, नक्स-वोम, फास, प्रून-स्पा, पल्स, साइलि, सल्फ, विरे।

दर्दका जलन बालू गिर गया है, मानो (Sensation as from sand)—कुटकुटाना देखिये।

„ शूलके दर्दकी तरह (Neuralgic)—(१) आर्स, सिड्रो, सिमि, सिनेगा, जेल्स, मेजे, प्रून-स्पाई। (२) ऐसाफि, बेल, चिनि स, चायना, कोलोसि, कैमो, क्रोटन-टिग, कैलि-आर्स, मिलिलो, ओस्मो, फास, फाइसो, रोडो।

„ सुई बेधनेकी तरह—ऐकोन, एपि, आर्निका, बेल, ब्राइयो, ब्रोमि, कैल्के, कैमो, डिजि, युफ्रे, ग्लोनो, ग्रैफा, हेलि, हिपर, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मिफा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पैरि, पेट्रो, फास।

„ „ सबेरे—क्रोटे-हो, नाइट्रि-ऐ, साइलि।

„ „ सन्ध्यामें—क्रोटे-हो, लाइको।

„ „ रातमें—ऐकोन, कोलोसि, कोना, माकु, ट्रिलि, स्पाइजि।

„ „ घटना-गरमसे—हिपर, थूजा।

„ „ „ दबानेसे—कोलोसिन्थ।

„ „ „ हवासे खुली—ऐसाफि, पल्स।

„ „ दृष्टि-दबा रखनेसे—ब्रोमि।

„ „ „ रौशनीकी ओर देखनेसे—कैल्के, युफ्रे, कैलि-कार्ब, लाइको, पल्स, थूजा।

„ हाथ रखनेपर तकलीफ मालूम होना—(१) ऐकोन, बेल, ब्राइयो, हैमा, हिपर, स्पाइजि। (२) आर्निका, आर्स, अरम, सिपि, युपेटो-पार्फो, लेप्टान, रास-टक्स, थूजा।

„ घटना-अन्धेरेमें—कोना, लिलि-टिग।

„ „ गर्म प्रयोग या सेंकनेसे—आर्स, हिपर, मैग-फास, थूजा।

„ „ ठण्ढी हवासे—ऐसार, आर्जे-ना, पल्स।

„ „ „ पानीसे—ऐसार, अरम, फार्मि, नेट्र-ऐ, नाइ-ऐ, पल्स।

„ „ दबानेपर—चिनि-स, कोलोसि, ऐसाफि, चेलिडो, कोना, लिलि-टिग।

दर्दका घटना, सोनेसे चित्त होकर—पल्स।
" " स्थिर होकर बैठने पर—ऐसाफि, ब्राइयो, सिसि।
" " हिलने डोलनेपर—कैलि-ऐ।
" बढना आँखे बन्द करनेपर—स्पाइलि।
" " उत्तापसे या गर्म प्रयोगसे—कैमो, आर्जे-ना, पल्स सल्फ, घूजा।
" " छूनेपर—ब्राइयो, हिपर, लैके, स्ट्रैमो, सल्फ।
" " देखनेपर-ऊपरकी ओर—चेलिडो।
" " " नीचेकी ओर—नेट्रम-म्यूर।
" " धूपमें—ऐसार, मार्कु।
" " रातमें—(१) आर्स, कैलि-श्रा, मर्कु, चिफिलि। (२) ऐसाफि, सिनेबार, कोना, युफ्रे, हिपर, लाइको, मार्कु-कोर, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाइजि, घूजा।
" " रौशनीसे—ऐसार, कोना, मार्कु।
" " सोनेपर—बेल।
" " सूर्यके साथ घटना बढना—कैल्मि, नेट्रम-म्यूर।
" " हवामें ठण्डी—क्लिमे, ऐसार, हिपर, मैग-फास।
" " " तर-(भीजी)—रास-टक्स, स्पाइजि, मर्कु-कोर।
" " हिलने-आँखोंसे ज्यादा काम लेनेपर—(१) आर्जे-ना, ब्राइयो, नेट्र-म्यूर, रूटा, स्पाइजि। (२) आर्निका, सिपि, युफ्रे, कैल्मि, अरम, फास्फो, पल्स, रास-टक्स।
" " हिलने डोलनेमें—ब्राइयो, स्पाइजि, आर्स, क्रोटन, पियर्टे, कैल्मि रास्टक्स।

दाग-धब्बे (Spots specks on the Cornea)—एपि, आर्जे, अरम, कैल्के, कैल्के-फ्लू, कैल्के-फास कान्ति, कैनचि, कोना, युफ्रे, फार्मि, हिपर, कैलि-का, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, रूटा सेने, मार्कलि सल्फ, सिकि, घूजा।
" जख्मका (Scars)—एपि आर्स कोना, युफ्रे, मार्कु, मार्कलि।
" नीली आभा लिये—कैल्के।
" पीले रङ्गका—फास-ऐ।
" सफेद—कोनोसि।

चेलि, कोलचि, कोलोसि, हाइयो, इपि, लाइको, मार्कु, मेजे, नक्स-वोम, फास, प्रून-स्पा, पल्स, साइलि, सल्फ, विरे।

दर्दका जलन वालू गिर गया है, मानो (Sensation as from sand)—कुटकुटाना देखिये।

„ शूलके दर्दकी तरह (Neuralgic)—(१) आर्स, सिड्रो, सिमि, सिनेगा, जेल्स, मेजे, प्रून-स्पाई। (२) ऐसाफि, बेल, चिनि स, चायना, कोलोसि, कैमो, क्रोटन-टिग, कैलि-आर्स, मिलिलो, ओस्मो, फास, फाइसो, रोडो।

„ सुई बेधनेकी तरह—ऐकोन, एपि, आर्निका, बेल, ब्राइयो, ब्रोमि, कैल्के, कैमो, डिजि, युफ्रे, ग्लोनो, ग्रैफा, हेलि, हिपर, **कैलि-कार्ब**, कैल्मि, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मिफा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पैरि, पेट्रो, फास।

„ „ सवेरे—क्रोटे-हो, नाइट्रि-ऐ, साइलि।

„ „ सन्ध्यामें—क्रोटे-हो, लाइको।

„ „ रातमें—ऐकोन, कोलोसि, कोना, मार्कु, ड्रिलि, स्पाइजि।

„ „ घटना-गरमसे—हिपर, थूजा।

„ „ „ दबानेसे—कोलोसिन्थ।

„ „ „ हवासे खुली—**ऐसाफि**, पल्स।

„ „ दृष्टि-दवा रखनेसे—ब्रोमि।

„ „ „ रोशनीकी ओर देखनेसे—कैल्के, युफ्रे, कैलि-कार्ब, लाइको, पल्स, थूजा।

„ हाथ रखनेपर तकलीफ मालूम होना—(१) ऐकोन, बेल, ब्राइयो, हैमा, हिपर, स्पाइजि। (२) आर्निका, आर्स, अरम, सिपि, युपेटो-पार्फो, लेप्टान, रास-टक्स, थूजा।

„ घटना-अन्धेरेमें—कोना, लिलि-टिग।

„ „ गर्म प्रयोग या सेंकनेसे—आर्स, **हिपर**, मैग-फास, **थूजा**।

„ „ ठण्डी हवासे—ऐसार, आर्जे-ना, पल्स।

„ „ „ पानीसे—ऐसार, अरम, फार्मि, नेट्र-ऐ, नाइ-ऐ, पल्स।

„ „ दबानेपर—चिनि-स, कोलोसि, ऐसाफि, चेलिडो, कोना, लिलि-टिग।

दर्दका घटना, सोनेसे चित्त होकर—पल्स।

" " स्थिर होकर बैठने पर—ऐसाफि, ब्राइयो, सिसि।

" " हिलने डोलनेपर—कैलि-ऐ।

" बढना आखें बन्द करनेपर—साइलि।

" " उत्तापसे या गर्म प्रयोगसे—कैमो, आर्जे-ना, पल्स सल्फ यूजा।

" " छूनेपर—ब्राइयो, हिपर, लैके, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " देखनेपर-ऊपरकी ओर—चेलिडो।

" " " नीचेको ओर—नेट्रम-म्यूर।

" " धूपमें—ऐसार, माकु।

" " रातमें—(१) आर्स, केलि-ना, मर्कु, सिफिलि। (२) ऐसाफि, सिनेबार, कोना, युफ्रे, हिपर, लाइको, मार्कु-कोर, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाइजि, थूजा।

" " रोशनीसे—ऐसार, कोना, मार्कु।

" " सोनेपर—वेल।

" " सूर्यके साथ घटना बढना—कैलमि, नेट्रम-म्यूर।

" " हवामें ठण्डी—क्लिमे, ऐसार, हिपर, मैग-फास।

" " " तर-(भीजी)—रास-टक्स, स्पाइजि, मर्कु-कोर।

" " हिलने-आखोंसे ज्यादा काम लेनेपर—(१) आर्जे-ना, ब्राइयो, नेट्र-म्यूर, रूटा, स्पाइजि। (२) आनिका, सिपि, युफ्रे, कैल्मि, अरम, फास्फो, पल्स, रास-टक्स।

" " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, स्पाइजि, आर्स, क्रोटन, सिमि, कैल्मि, रासटक्स।

दाग-धब्बे (Spots specks on the Cornea)—एपि, आर्जे, अरम, कैल्के, कैल्के-फ्लू, कैल्के-फास, कास्टि, कोनायि कोना, युफ्रे, आर्नि हिपर, कैलि-का, मार्कु, नेट्र म्यू, नाइट्रि-ऐ, रूटा, मैगे मारन्नि सल्फ, सिकि, थूजा।

" जखमका (Scars)—एपि, आर्स कोना युफ्रे, मार्कु, मारलि।

" नीली आभा लिये—कैल्के।

" पीले रङ्गका—फास-ऐ।

" सफेद—कोनोसि।

दुर्बलता (Weakness)—ऐगा, ऐनाका, एपि, अरम, कैना-सै, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कोना, युफ्रे**, फेरम, ग्रैफा, कैलिका, लिलि-टिग, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, फाइसो, **रूटा**, सेनि, सल्फ, थूजा।

,, पढनेके समय—ऐगा, वेल, लाइको, नेट्र-म्यू, रूटा, सिपि।

,, सहवासके बाद—**कैलि-कार्ब**, कैल्के, चायना।

दृष्टि-दर्शन (Vision)

,, अग्निमय (Fiery)—**बेल**, ब्राइयो, डिजि, हाइयो, **कैलि-का**, लैके, नक्स-वोम, फास, सोरि, सिपि, **स्पाइजि**, जिङ्क।

,, ,, गोला—स्ट्रैमो।

,, ,, फुटकी—ऐलूमि, काक्कु, इलेप्स।

,, ,, वृत्त-(घेरा)—कैम्फ, कोर्बो-वेज, इपि, पल्स।

,, ,, वृष्टि—प्लम्ब।

,, ,, रश्मि-(किरण) रोशनीके चारो ओर—कैलि-का, **स्ट्रैमो**।

,, अग्नि शिखा (Elames आगकी लपट)—**वेल**, कैल्के, कार्बो-वेज, चिनि-सल्फ, पल्स।

,, ,, कितने ही रङ्गोंकी—क्रोटे-हो, फास, थूजा।

,, अग्नि-स्फुलिङ्ग (चिनगारियां, आगके कण-Sparks)—ऐकोन, आर्स, अरम, **बेल**, कैल्के-फ्लू, कैम्फ, कास्टि, चेलिडो, **चिनि-सल्फ**, साइक्ला, ग्लोनो, कैलि-बाइ, लैके, मार्क, न्यफा, नक्स-वोम, ओलि, सोरि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

,, ,, खांसनेके समय—बेल, कैलि-का, पैरि।

,, ,, घूमनेके समय—हियुरा।

,, ,, सर-दर्दके समय—आर्स, चेलिडो, **मैग-फास**।

,, ,, सरमें चक्कर—आर्स, कैम्फर।

,, अन्धापन—"दृष्टि-हीनता" देखिये।

,, अर्द्ध-दृष्टि (चीजें आधी दिखाई देना-Hemiopia)—आर्स, अरम, कैल्के, काफि, ग्लोनो, लिथि का, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, रास-टक्स, सिपि, स्ट्रैमो।

दृष्टि अर्द्ध-दृष्टि दाहिना आधा न दिखाई देना—कैल्के, कापि, साइक्ला, लिथि-
का, लाइको।

„ „ ऊपरी भाग नष्ट—आर्स, अरम, कैम्फ, डिजि।

„ „ निचला भाग नष्ट—अरम।

„ „ आधा भावसे (Vertically)—ऑस्टि क्लिनि-क्वाव, लाइको,
म्यू-ऐ, नैट्र-म्यू।

„ „ समतल भावसे (Horizontally)—आर्स, अरम।

„ अस्पष्ट, धुन्धली (Dim vision)—ऐगा, ऐलुमि, ऐना, ऐण्टि-टार्ट, एपि,
आर्जे-नाई, आर्स, अरम, वेल, कैक्ट, कौस्टि, कैल्के-फ्लू,
कैना-से कार्बो-ऐनि कार्बो-वेज, क्लोमिट, केमो, चेलिडो,
चायना, चिनि-स, फ्लोरि, सिमि, सिना, हिमि, काफि,
कोलोसि, कैमो, कोना, कोलचि, क्रोक, क्रोटन-टिग,
साइक्ला, डालके, युफ्रे, फार्मि, जेल्स, हिपर, हाइयो,
कैलि-बाई, केलि-ब्रोम, केलि-का, कैलि-आयो, क्रियो, लैके,
लोरी, लिलि-टिग, लाइको, मैग-का, मैंक्री म्यू-ऐ मार्क,
नैट्र-का, नैट्रम-म्यूर, नैट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि,
पेट्रो, फास, फाइसो, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, रूटा, सैबाडि
सिकि, सिने, सिमि, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि स्ट्रैमो, सल्फ,
थूजा, विरे, विरे-वि, जिङ्क।

„ „ सवेरे—केमो, नैट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स वेने।

„ „ शामको—फ्युफि, मार्क, पल्स, रूटा, सल्फ।

„ „ रातमें—पल्स स्ट्रैमो।

„ „ आँखके अधिक व्यवहारसे (Straining)—कैम्फ, रूटा।

„ „ ऋतुके समय—सेफा, साइक्ला, पल्स, सिपि।

„ „ घूमनेके समय—पल्स।

„ „ डिफ्थीरिया रोगके बाद—एपि जेल्स लैके, फाइटो, नक्स वाम,
साइलि।

„ „ दूरकी चीज—कैक्ट, युफ्रे, नैट्रम म्यूर, फास फास ऐ, साइलि
रैटा, स्ट्रैमो सल्फ।

दृष्टि अस्पष्ट, पढनेके समय—एपि, ऐसार, कैल्के, डैफि, हिपर, इग्ने, माकु, नेट्रम-म्यू र, **नाइट्रि-ऐ,** फास-ऐ, रूटा, **साइलि,** सल्फ।

„ „ रौशनीमें बत्तीकी—युफ्रे, हिपर।

„ „ लिखनेके समय—लाइको, **नेट्रम-म्यूर,** सिपि।

„ „ सर-दर्दके समय—आर्स, **साइक्ला, जेल्स, सल्फ।**

„ „ „ „ पहले—कैलि-कार्ब, लैक-कै।

„ „ सहवाससे, बहुत अधिक—चायना।

„ „ घटना—

„ „ „ आँख मलनेपर—सिना, पल्स, सल्फ।

„ „ „ आँख पोछनेपर—ऐलूमि, युफ्रे, नेट्र-आ, नेट्र-का, पल्स, साइलि।

„ „ „ ठण्डसे या नहानेपर—**ऐसार,** ग्लोनो।

„ „ „ देखनेपर, टकटकी लगाकर—अरम।

„ „ „ सवेरे—फास।

„ „ „ हवामें खुली—ऐसार, नेट्र-स।

„ „ बढना—गर्मीसे—ऐसार।

„ „ „ घसनेसे—कास्टि।

„ „ „ परिश्रमकी वजहसे—कैल्के।

„ उत्कण्ठित दृष्टि (Anxious look)—ऐलोज, आर्निका, कैल्के,

„ उल्टी मालूम हो, लिखनेके समय, लकीरें—कैलि-कार्ब।

„ „ „ सब चीजें—बेले।

„ कुहासेसे ढकी, धुन्धली (Foggy)—ऐकोन, ऐगा, ऐलूमि, मेट, अरम, बैरा-का, बेल, **कैल्के,** कैम्फ, **कास्टि,** सिना, कोना, **क्रोक,** साइक्ला, **जेल्स,** कैलि-ऐ, लाइको, **माकु,** मार्फि, नेट्रम-म्यू र, ओपि, पेट्रो, **फास,** फास-ऐ, पल्स, रैना-बा, साइलि, **स्ट्रैमो, सल्फ,** थूजा, जिङ्क।

दृष्टि कुहासेसे ढकी—
" " अक्षर सब—बेल, कार्बोनि-स।
" " काँपती है, मानो चीजें सब (Objects trembling)—कोना-इ, कोना, फास, ग्रैटि, प्लम्ब, सोरि।
" " कृत्रिम रौशनीमें—लाइको।
" " खड़े होनेपर—नेट्र-म्यू।
" " खुली हवामें—ऐमोन-म्यू।
" " पढ़नेके समय—आर्निका, कैम्फ, सिना, ग्रैटि, कैलि-का, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, सल्फ।
" " बढ़ना, रौशनीमें (चमकीली)—ऐमोन-म्यू।
" " लिखनेके समय—ग्रैफा, फास-ऐ।
" " सर-दर्द—साइक्ला, सल्फ।
" केश, आखोंके सामने झूलते है, मानो, इसीलिये वाध्य होकर आखे पोछनी पड़ती हैं—थार्म, हाइड्रो, ग्रुफ़े, मैगु।
" घूमती हुई मालूम होना (Whirling)—एपि, पेट्रो, ग्लोनो, विरे।
" चमकीली मालूम होना, सब चीजें (Glittering objects)—कौल्के-फास, कैम्फ, नक्स-वोम, शेरि।
" चञ्चल-आगकी आँचकी तरह (Flickering)-तिलमिलाती हुई—इग्न, ऐगा, ऐमोन-का, ऐण्टि-टार्ट, थार्म, बेल, ब्राइयो, कौल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि साइक्ला, ग्रैफा, हिपर हाइयो, इग्न, लाइको, लैकि, मोरि, पल्स, सेने, गाइलि, स्ट्रैफि, सल्फ, थूजा।
" " कितने ही रङ्गकी—साइक्ला।
" " देखनेपर, रौशनीकी ओर—सिपि।
" " पढ़नेकी चेष्टा करना-सन्ध्यामें—साइक्ला।
" " पढ़नेके समय—ऐगारि साइक्ला, मार्क, फास ऐ, सेने।
" " लिखनेके समय—ऐगा, बोरा, नेट्रम-म्यूर सेने।
" " सरमें चक्करके साथ—बेल कैल्के, ग्लोनो स्ट्रैमो।
" " " दर्दके साथ—कौलोसि साइक्ला, ग्रैफा मेक नेट्रम म्यूर, फास।
" " घटना-भोजनमें—फास।

लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, सिपिया, साइलि, सल्फ।

दृष्टि, द्वित्व-दृष्टि (Double vision, diplopia)—ऐलू, आर्ज-ना, अरम, बेल, चेलि, सिकि, कोना, साइक्ला, डैफ, डिजि, जेलस, हाइयो, आइयो, कैलि-स, लाइको, लाइ-सिन, मार्कु-को, मार्फि, नेट्र-म्यू, निको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, प्लम्ब, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे।

„ „ देखनेपर-ऊपर—कास्टि।

„ „ „ नीचे—आर्नि।

„ „ „ बगलमें—जेलस।

„ „ पढनेके समय—कैम्फ, ग्रैफाई।

„ „ लिखनेके समय—कोका, ग्रैफा।

„ धुआंसा-धूआ धूआ (Smoky)—अरम, चायना, साइक्ला, जेलस, फास, साइलि, सल्फ।

„ „ दूरकी चीजें—फास।

„ धुम्धली, अस्पष्ट (Blurred vision)—आर्स, कैल्के-फ्लू, कैक्ट, डायस्को, फैगो, जेलस, लिलि-टिग, नेट्र-म्यू, फाइसो, मोरि।

„ „ अक्षर—आर्ज-ना, कार्बो-ऐ, चेलिडो, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ देखनेपर-कुछ देरतक—नेट्र-आर्स।

„ „ लिखनेके समय—कैल्के-फ्लू।

„ „ सर-दर्दके पहले—आइरि-वार्स।

„ „ वीर्यपातके बाद—कैल्के, चायना, लिलि-टिग, फास।

„ रोशनी (Lights)—कैल्के, चिनि-स, फास।

„ „ दाग (Spots)—कोना।

„ „ विन्दु सब—नेट्रम-म्यूर।

„ नाचती है, मानो (Dancing)—बेल, सिकि, ग्लोनो, मोरि।

„ निकट, पासमें देखता है (Myopia)—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐना, आर्ज-ना, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, कोना, साइक्ला, जेलस, ग्रैफा, हाइयो, लैके, लाइको, ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास,

फास ऐ, फाइसो, पल्स, रूटा, स्ट्रैमो सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, वेले ।

दृष्टि निकट, मालूम होना (अपेक्षा-कृत) सब चीजें (Objects seem nearer)—बोवि, फाइसो, रास-टक्स, स्ट्रैमो ।

,, पर्देके भीतरसे मानो (As through a veil)—ऐकोन, कैल्के-फास, कैम्फ, कास्टि, कैमो, काफि, क्रोक, साइक्ला, इलैप जेल्स, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, आइयो, लोरोसि, लिलि-टिग, लिथि-का, लाइको, नेट्रम-म्यूर, मार्कु, पेट्रो-फास, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि ।

,, ,, सन्ध्यामें—युफ्रे, लाइको, सल्फ ।

,, ,, ,, घटना, रगडनेसे—पल्स ।

,, पीछे हटती जाती हैं, सब चीजें (Receding objects seem)—"हिलना" देखिये ।

,, प्रखर, बहुत छोटे छोटे अक्षर भी साफ दिखाई देते हैं—काफि ।

,, बडी दिखाई देती हैं, चीजें सब—कैना-इं, हाइयो, लोरो, नेट्रम-म्यूर, निको, नक्स-म, ओपि ।

,, मिटमिटाना (Glimmering)—ऐगारि, कैना-इ फ्लूग ऐ, जेल्स, मैंगि, लैके, नेट्रम-म्यूर, जिङ्क ।

,, ,, बत्तीकी रोशनीमें—थैरा-कार्ब ।

,, ,, लिखने पढ़नेके समय—ऐगारि ।

,, रङ्ग अनेक प्रकारके, आँखोंके सामने (Colours, before the eyes)—बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, चायना, सिकि, क्रोना, साइक्ला डिजि, आइयो, कैलि-बा, ईग फास, नेट्रम-म्यूर फास, फास-ऐ, पल्स, सल्फ ।

,, ,, पढ़नेके समय—सिकि, क्रोक ।

,, ,, बत्तीके चारों ओर—ऐनूसि, ऐगा कैल्के, सिपि ।

,, ,, चमकीला—ऐथि टार्ट, आर्स आरम, बेल बो[illegible] डिजि, मैंका, फाइ[illegible] मक्स मॉस पल्स, [illegible]

लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, **सिपिया**, **साइलि**, सल्फ।

दृष्टि, द्वित्व-दृष्टि (Double vision, diplopia)—ऐलू, आर्ज-ना, अरम, बेल, चेलि, सिकि, कोना, साइक्ला, डेफ, डिजि, **जेल्स**, **हाइयो**, आइयो, कैलि-स, लाइको, लाइ-सिन, मार्कु-को, मार्फि, **नेट्र-म्यू**, निको, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, ओलि, प्लम्ब, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे।

" " देखनेपर-ऊपर—कास्टि।

" " " नीचे—आर्नि।

" " " बगलमें—जेल्स।

" " पढनेके समय—कैम्फ, ग्रैफाइ।

" " लिखनेके समय—क्रोका, ग्रैफा।

" धुआंसा-धूआ धूआ (Smoky)—अरम, **चायना**, **साइक्ला**, जेल्स, फास, साइलि, सल्फ।

" " दूरकी चीजें—फास।

" धुन्धली, अस्पष्ट (Blurred vision)—आर्स, कैल्के-फ्लू, कौस्ट, डायस्को, फैगो, **जेल्स**, लिलि-टिग, नेट्र-म्यू, फाइसो, सोरि।

" " अक्षर—आर्ज-ना, कार्बो-ऐ, चेलिडो, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " देखनेपर-कुछ देरतक—नेट्र-आर्स।

" " लिखनेके समय—कैल्के-फ्लू।

" " सर-दर्दके पहले—आइरि-वार्स।

" " वीर्यपातके बाद—कैल्के, चायना, लिलि-टिग, **फास**।

" रोशनी (Lights)—कैल्के, चिनि-स, फास।

" " दाग (Spots)—कोना।

" " बिन्दु सब—नेट्रम-म्यूर।

" नाचती है, मानो (Dancing)—सेल, सिकि, ग्लोनो, सोरि।

" निकट, पासमें देखता है (Myopia)—ऐगा, ऐमोन-कार्ब ऐना, आर्ज-ना, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, कोना, साइक्ला, जेल्स, ग्रैफा, हाइयो, लैके, लाइको, ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, **फास**,

दृष्टि, रङ्ग नीला—आरम, बेल, **सिना,** लैके, लाइको, स्ट्रैमो।

" " पीला—बेल, कैन्थ, **सिना,** क्रोटे-हो, लाइका, डिजि, कैलि-वा, सिपि, सल्फ।

" " बैंगनी—सिना।

" " लाल—बेल, कोक्क, कैलि-वा, फास।

" " " मण्डलाकार—बेल, इपि, साइलि।

" " " सब चीजें—बेल, कोना, डिजि, हिपर, हाइयो, नक्स-मस, फास।

" " सफेद—ऐमोन-कार्ब, बेल, डिजि, कैलि-कार्ब।

" " " पानीकी तरह—एपि, आर्स।

" " " विन्दु-सब—कास्टि, मेजे, सल्फ।

" " हरा,—**आर्स, सिना,** माइका, डिजि, लैक-कै, **फास,** रूटा, सैण्टो।

" " " विन्दु सब—कास्टि, केलि-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, स्ट्रैमो।

" " रङ्ग पहचान नहीं सकता-वर्णान्ध (Colour blindness)—क्रोटे, सिना।

" " स्वप्न, आंख बन्द करनेपर—कैल्के, स्पिञ्जि।

दृष्टि—हिलना (Moving)—ऐगा, ऐलो, आर्ज-ना, बोरैक्स, कैना-इ, सिक्कि, कोना, युफ्रे, लैके, मिनि, नक्स-मोस, फोपि, सिपि।

" " अक्षर—ऐगा, फाइसो।

" " सब चीजें—ऐप्टी, कार्बो वे, युफ्रे, इग्ने, नक्स मस।

" " " पीछे हटती जाती है—चैन, कैल्के, सिकि।

" " " घूमती है—चैन।

" " एक उंलिया फोड़े—कास्टि।

" हीनता (Blindness)—ऐकोन, ऐण्टि-क्रूड, एपि, आर्स, बेल, बोथ्र, कैम्फ, कास्टि, केमो, चाइना, चिनि-स, डिजि, जेल्स, **हाइयो,** लिथि-का, **मार्क,** नेट्रम-म्यूर, फोपि, फास, प्लम्ब, **पल्स, सिपी,** सिलि **साइलि, स्ट्रैमो,** सल्फ, विरे-वि।

" " ऋतुके समय—ग्रैफाइटि, माइको, पल्स, सिपि।

दृष्टि रङ्ग—मण्डलाकार बत्तीके चारो ओर—ऐना, बेल, ब्रायो, कैलेडि, सिफि, साइक्ला, डिजि, हिपर, इपि, लैको, निको, ओस्मि, फास-ऐ, **फास, पल्स,** रूटा, सार्सा, सिपि, स्ट्रैफि, सल्फ।

" " काला—ऐना, आर्नि, बेल, कैल्के, चायना, क्लिमे, काकि, कोना, युफ्रे, लैके, मार्क, **नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, फास, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " " दाग (Spots)—अरम, बैरा-का, कैल्के, फास, सिमि, काकि, कोना, **ग्लोनो,** लिलि-टिग, लाइको, नेट्रम-म्यूर नाइट्रि-ऐसि, फास, सोरि, **सिपि,** साइलि, **सल्फ**।

" " " " चलनेपर जोरसे—ग्लोनो।

" " " " पढ़नेके बाद—काकि, क्यूबे।

" " " " मक्खीकी तरह काला काला फिरता है, आँखोंके सामने मानो—ऐगा, आर्जना, अरम, बैरा-कार्ब, बेल, कार्बो-वेज, कार्लस, **चायना, काकि,** कोना, **क्रोटे-हो,** साइक्ला, डैफि, जेल्स, कैलि-कार्ब, लिलि-टिग, लाइको, मार्क, **नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ऐ, **फाइसो,** सोरि, रास-टक्स, **सिपि,** साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे।

" " " " माथेमें चक्करके समय—कोना, ग्लोनो।

" " " " माथेमें दर्दके समय—ग्लोनो, **मिलि**।

" " " " लिखनेके समय—नेट्र-कार्ब।

" " " " शारीरिक परिश्रमसे—कैल्के।

" " " कीड़ेकी तरह—फाइसो।

" " " विन्दु सब (Points)—कास्टि, जेल्स, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

" साँप सब—काण्ड।

दृष्टि, रङ्ग नीला—आर्स, बेल, **सिना**, लैके, लाइको, स्ट्रैमो।
,, ,, पीला—बेल, कैन्थ, **सिना**, क्रोटे-हो, साइक्ला, डिजि, कौलि-वा, सिपि, सल्फ।
,, ,, बैंगनी—सिना।
,, ,, लाल—बेल, कैक्ट, कौलि-वा, फास।
,, ,, ,, मण्डलाकार—बेल, हिपि, साइलि।
,, ,, ,, सब चीजें—बेल, कोना, डिजि, हिपर, हाइयो, नक्स-मस, फास।
,, ,, सफेद—ऐमोन-कार्ब, बेल, डिजि, कौलि-कार्ब।
,, ,, ,, पानीकी तरह—एपि, आर्स।
,, ,, ,, बिन्दु-सब—कास्टि, मेजे, सल्फ।
,, ,, हरा,—**आर्स, सिना,** साइक्ला, डिजि, कैल-के, **फास,** रूटा, सैण्टो।
,, ,, ,, बिन्दु सब—कास्टि, कौलि-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, स्ट्रैमो।
,, ,, रङ्ग पहचान नहीं सकता-वर्णान्ध (Colour blindness)—क्रोटे, सिना।
,, ,, स्वप्न, आँख बन्द करनेपर—कौल्के, स्पञ्जि।
दृष्टि—हिलना (Moving)—ऐगा, ऐलो, आर्जे-ना, थोरैक्स, कैना इ, सिकि, कोना, युफ्रे, लैके, मिनि, नक्स मोस, ओपि, सिपि।
,, , अक्षर—ऐगा, फाइसो।
,, ,, सब चीजें—बैप्टो, कार्बो ऐ, युफ्रे, इग्ने, नक्स मस।
,, ,, ,, पीछे हटती जाती है—बेल, कौल्के, सिकि।
,, ,, ,, घूमती है—बेल।
,, ,, एक डनिया कोड़े—कास्टि।
,, हीनता (Blindness)—**ऐकोन,** ऐगारि क्यू, एपि आर्स, बेल, कार्ब, कौल्के, कास्टि कैमो, चाइना, सिमि स, डिजि जेल्स **हाइयो,** लिलि-का, **मार्कु,** नैट्रम म्यू र, फॉस्फ, प्लम्ब **पल्स, सिके,** सिपि, **सालि, स्ट्रैमो,** सल्फ, सिलि।
,, ,, पढ़नेके समय—ऐंकाइटि, आर्स पल्स, सिलि।

दृष्टि हीनता चोटकी वजहसे—आर्नि।

„ „ भोजनके बाद—कैल्को-कार्ब, क्रोटन-टिग, साइलि।

„ „ सामयिक—ऐगिट-टा, चेलि, चायना, डिजि, युफ्रे, नेट्र-म्यू, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ प्रात:कालमें—बेल, सल्फ।

„ „ दिनमें—कोना, साइलि, **स्ट्रैमो,** बेल।

„ „ रातमें—बेल, **चायना,** हाइयो, लाइको, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, पल्स, स्ट्रैमो, विरे।

देखते रहना, घूर घूरकर (Starings)—ऐकोन, इथि, ऐगा, ऐण्टि-टार्ट, आर्नि, आर्स, आर्टि-वा, बेल कैम्फ, कैन्थ, कैमो, चिनि-सल्फ, क्लोरे, सिफि, कोलचि, जेल्स, ग्लोनो, हेलि, **हाइयो,** हाइपि, इग्ने, **आइयो,** कैलि स, कैलि-आ, क्रियो, लोरोसि, लाइको, मेजे, नक्स-मस, नक्स-वोम, **ओपि,** फास-ऐ, फाइटो, **सिकि,** सल्फि, स्कु टे, **स्ट्रैमो,** स्टिक्टा, जिङ्क।

„ अज्ञानताके साथ (Sluder)—आर्स।

धँसी आँखें (Sunken eyes)—इथि, ऐनाका, **ऐण्टि-टार्ट,** आर्नि-का, आर्स, बार्ब, ब्यूफो, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-वेज, ड्रोसे, **चायना,** कोलचि, कोलोसि, कूप्रम, साइक्ला, ड्रोसे, ग्लोनो, ग्रैफा, कैलि ब्रोम, कैलि-कार्ब, कैलि-आर्स, क्रियो, लाइको, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, सिके, सल्फि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ विरे।

नशाखोरकी तरह आँखें—कैना-इ, युजि, मार्कु, ओपि, स्ट्रैमो।

नाचना (Twitching)—"स्पन्दन" देखिये।

निस्तेज देखना (Dull)—**ऐलि-सि, ऐण्टि-टार्ट,** कार्बो-वेज, चायना, ग्लोनो, लाइको, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, फास, फास-ऐ।

निष्प्रभ—"मलिन" देखिये।

पपड़ी जमना, पलकोंके किनारे (Crusty margins of lids)—आर्ज-ना, ऑरम, बार्ब, ब्यूफो, कैल्के, ग्रैफा, हिपर, सैनि, सल्फ।

पक्षाघात (Paralysis), आँखके स्नायुका (of optic nerve)—आर्जे-मेट, आर्स, अरम म्यू, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, चेलि, चायना, कोना, डलैम्स, फेरम, जेल्स, हाइयो, लाइको, मिनि, मार्कु, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।

„ उपतारा, कृष्ण-मण्डल (Iris)—आइरि, कैलि-ब्रोम, पेरि।

„ पलकोंका (Lids)—ऐलूमि, आर्स, बेप्टी, बैरा-म्यू, बेल, रैडमि, काफि, कोना, जेल्स, ग्रैफा, गुये, मार्कु-आ-फ्ले, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाइजि, विरे।

„ „ ऊपरकी—ऐलूमि, एपि, कास्टि, कोना, डालका, जेल्स, लिडम, मैग-फास, मेडो, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, नक्स म फास, प्लम्ब, रास-टक्स, मिके, सिपि, स्पाइजि, सिफि, जिङ्क।

„ „ मासपेशीका (Muscles of eye-ball)—कास्टि, कोना, जेल्स, रास टक्स, सेने।

पानी गिरना (Lachrymation)—ऐकोन, ऐगा, आइलैन्थ, ऐलि सि, एपि, आर्जे-नाई, आर्निका, आर्स, ऐसार, बेल ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, कोलचि, चायना, क्लीटे-गो, क्रोक, क्रोटन-टिग, युपे-पर्फो, युफ्रे, युफोर, फेरम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, ऐमा, हिपर, इग्ने, कैलि-आ, कैलि-ऐ, क्रैके, लिडम, लाइको, मैग-का, मार्कु, मेजे, नेट्र-म्यू, नेट्र-स नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेरि, फास, सोरि, पल्स, रासटक्स, सैबाडि, सैंगु सेने सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पञ्जि स्ट्रैमो सल्फ, थास थि, टैबाक, थूजा।

„ सुबहे—कैल्के, मार्कु, नेट्र म्यू, फास, सिपि सल्फ।

„ दिनमें—ऐलू मि, लाइको जिङ्क।

„ रातमें—ऐकोन, ऐलि-सि

पानी गिरना सन्ध्यामें—मैग-का, माकु्र्, फास, रास्टक्स, सिपि।

„ आँख खोलनेपर जोर लगाकर—एपि, कोना, माकु्र्-कोर, ह्रपि, रास-टक्स।

„ उत्तापकी अवस्थामें—ऐकोन, एपि, बेल, कैल्के, कैमो, युपे-पर्फो, इग्ने, लाइको, पेट्रो, पल्स, स्पाइजि, स्पञ्जि, सल्फ।

„ खाँसनेके समय—ऐकोन, ऐगा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, सिना, युपे-पर्फो, **इयुफ्रे**, ग्रैफा, हिपर, ह्रपि, माकु्र्, नेट्र-म्यू, फाइटो, पल्स, रास्टक्स, सैबाडि, सल्फ।

„ जम्हाई लेनेके समय—ऐण्टि-टार्ट, नक्स-वोम, रास्टक्स, सैबाडि।

„ देखनेपर चमकीली चीजें—मैग-म्यू, सैबा।

„ पढनेके समय—ऐमोन-का, क्रोक, ग्रैटि, इग्ने, नाइट्रि-ऐ, ओलि-ऐ, फास, सिपि, सल्फ-ऐ।

„ माथेमें दर्दके साथ—बेल, हिपर, इग्ने, फास-ऐ, स्ट्रैमो।

„ शीतके समय—इलाटे।

„ सर्दीके साथ—ऐकोन, **ऐलि-सि**, ऐना-का, आर्ज-ना, कार्बो-वेज, चायना, डालका, युफ्रे, कैलि-का, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, फाइटो, पल्स, सैबा, सैगु, **टेलु**, वार्ब्वा।

„ हवा लगनेपर-खुली—कैल्के, कैन्थ, कास्टि, क्लिमे, कोलचि, ग्रैफा, नेट्र-म्यू, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सैबा, सिपि, साइलि, **सल्फ**, विरे।

„ „ जोरसे—**युफ्रे**, नेट्र-म्यू, फास, रास-टक्स, नाइट्रि, सल्फ।

„ पानी लगने जैसा हो जाना-पलकोंका—एपिस, **आर्ज-ना**, **आर्स**, कैल्के, हिपर, माकु्र्-कोर, माकु्र्, नेट्र-म्यू, सल्फ।

„ „ कोने—ऐलूमि, एपिस, आर्स।

„ पीली आँखें—ऐकोन, आर्स, अरम-म्यू, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, कार्डु-मे, कैमो, चेलि, **चायना**, **क्रोटे-हो**, डिजि, डायस्को, जेल्स, हिपर, आइयो, ह्रपि, कैलि-बा, **लेकै**, मैग-म्यू, नेट्र-स, नक्स-मोम, फास, प्लम्ब, पोडो, सैगु, **सिपि**, विरे।

„ डिजि, माकु्र्-कोर, मार्फि, सल्फ।

पुतली कामके लायक नहीं, गतिहीन (वह सिकुड़ती-फैलती नहीं)—बैरा-का, बेल, कैम्फ, चेलिडो, सिकि कौलचि, क्युप्रम, डिजि, जेल्स, हेलि, **हाइयो,** कैलि-बाई, कैलि-आ, मार्कु-कोर, मार्कु, **ओपि,** प्लैटि, स्ट्रैमो।

" फैली हुई—ऐकोन, इथि, ऐग्न, आइलैन्थ, ऐनाका, एपि, **आर्जे-ना,** आर्निका, **बेल, कौल्कै,** कैम्फ, कार्बो-ऐनि, सिड्रो, चायना, चिनि-सल, सिकि, सिना, काफि, कौलचि, कोलोसि, कोना, कोरा-रू, क्रोक, साइक्ला, डिजि, **जेल्स,** ग्लोनो, हेलि, **हाइयो,** आइयो, कैलि-ब्रोम, कैलि-आर्स, लौरोसि, लिडम, मार्कु, मस्कस, नेट्र-का, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, **सिपी,** स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

" संकुचित (Contracted)—ऐकोन, ऐनाका, एपि, आर्निका, बेल, कौल्कै, कैम्फ, चेलिडो, चिनिन-सल्फ, डैफ, युफ्रे, जिन्स, हेलि, हाइयो, इग्ने, मार्कु, मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स मस, **ओपि,** फाइसो, प्रुन्य, पल्स।

" " दाहिने—आर्जे-ना, विरे-वि।

" " बाएँ—आर्जे-मेट।

प्रदाह—ऐकोन, ऐल्क्टि-स्पा, ऐलि-सि, ऐलमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐगिट्र क, ऐएिट-टार्ट, **एपि,** आर्जे-ना, **आर्नि, आर्स,** ऐसाफि, बराय, बैरा-का, बेल, बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, कौसो, चायना, सिनेबा, क्लिमे, कौलचि, कोलोसि, कोना, डाल्का, युफ्रे युर्दी, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, विपर्डे, हिपर, इग्ने, इपि, काइलि, कैलि-क्रो, लैके, लिडम, लिथि, **लाइको,** मैग-कार्ब, मार्कु, मार्कु-कोर, मेजे, नेट्र-म, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि, जिङ्क।

" आँखके स्नायुका (of Optic Nerve)—बेल, फास, पल्स।

" आइरिस, उपतारा, ढाल मण्डलका (Iritis)—ऐकोन, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, बराय, बेल, हेलि, सिनेबा, कौलचि, कोलोसि, कोना, डाल्का, [illegible]

कौलि-आर्स, मार्कु, **मार्कु-कोर**, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पल्स, **रास-टक्स**, सेने, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ, सिपि।

प्रदाह बढ़ना-रातके समय—डालका, **कैलि-आ, मार्कु, मार्कु-कोर**, जिङ्क।

„ „ उपदंशकी वजहसे—आर्स, आर्जे-ना, अरम, अरम-म्यू, ऐसाफि, सिनाबार, हिपर, **कैलि-आर्स**, मार्कु, **मार्कु-कोर**, मार्कु-आ-फ्ले, नाइट्रि ऐ, स्टैफि, सिपि, थूजा, जिङ्क।

„ „ बातकी वजहसे—आर्स, ब्राइयो, कोलचि, डालका, युफ्रे, कैलि-बा, **रास-टक्स**, टेरि।

„ उपदंशके कारण (Syphilitic ophthalmitis)—आर्जे-ना, आर्स, अरम, सिनेबार, क्लिमे, ग्रैफा, हिपर, **कैलि-आर्स, मार्कु, मार्कु-कोर**, मार्कु-आ-फ्ले, **नाइट्रि-ऐ**, फाइटो, स्टैफि, सिफि, थूजा।

„ कानियाका-शुभ्रमण्डल (Keratitis)—आर्स, अरम-मेट, बेल, **कैल्के**, कोना, क्रोटे-हो, युफ्रे, हिपर, कैलि-क्लो, कैल्मि, लाइको, **मार्कु**, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, **सल्फ, थूजा**।

„ „ जखमके साथ—ऐगा, **एपि**, आर्जे-ना, आर्स, ऐसाफि, अरम, बेरा-का, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैल्के-सल्फ, कैना-सै, चायना, क्लिमे, कोबा, कष्टि, युफ्रे, फार्मि, ग्रैफा, हिपर, इपि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, मार्कु, मार्कु-कोर, मार्कु-आ-फ्ले, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, सोरि, पल्स, रास टक्स, सैंगु, सैनि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ काला दाग पड़ना, चोट लगकर—आर्नि।

„ कोनेमें-भीतरके—क्लिमे।

„ „ बाहरके—बोरैक्स, ग्रैफा।

„ कोरोयडाइटिस (Choroiditis)—आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, सिड्र कोलोसि, जेल्स, इपि, कैलि-क्लो, मार्कु, मार्कु-कोर, नक्स-वोम, सोरि, जेल्स, साइलि, स्पाइजि।

प्रदाह—चोटकी वजहसे—कैलेंडि, स्टैफि।

„ छोटी माताके बाद—कार्बो-वेज, क्रोटे-ह्वी, युफ्रे, पल्स।

„ जल जानेके कारण—कैन्थ।

„ टीका देने बाद (After vaccination)—थूजा।

„ धूल वगैरह गिरकर—ऐकोन, आर्नि, कोल्चि, पल्स, साइलि।

„ नया (Acute)—ऐकोन, एपि, आर्स, बेल, ब्रायो, कोल्चि, कोसो, युफ्रे, फेरम फास, हाइड्रो, मार्कु, नक्स वोम, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ पलकोंका (Eye lids)—ऐकोन, ऐसिट-क्रूड, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, एपि, आर्स, बेल, कार्बो-ऐनि, सिनेबार, कास्टि, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, आइरिस, कैलि-कार्ब, मार्कु, मेजे, नेट्र-का, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैंगु, सेनि, सेने, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ, टेलु, टेरि, थूजा, युरे, जिङ्क।

„ „ किनारेपर—इथि आर्ज-मेट, आर्ज-ना, अरम-म्यू, बोवि, कैमो, क्लिमे, डिजि, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, हाइड्रो, मार्कु-कोर, नेट्र-म्यू, पल्स, सेनि, स्टैफि।

„ „ „ जखमके साथ—ऐपि, युफ्रे, ग्रैफा, मार्कु, नेट्र-म्यू, पल्स, सेनि, स्टैफि।

„ „ „ जखमके साथ—एपि, आर्स बैरा म्यू, ग्रैफा, हिपर, लाइको, मार्कु, मार्कु-कोर, स्पाइजि, क्रोमो, सल्फ, जिङ्क।

„ „ भीतरकी ओर आँखके—आर्स, बेल, मार्कु, नक्स वोम, पल्स रासटक्स, साइलि, सल्फ।

„ पारेके अपव्यवहारकी वजहसे—ऐसाफि, हिपर, मेजे।

„ ग्रन्थोंकी—ऐकोन एपिस, आर्ज-ना, बेल, ब्रायो कोल्चि, कैमो हामफा, युफ्रे, हिपर, हस्ने, माइको मार्कु, मार्कु कोर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रास टक्स सल्फ थूजा।

प्रदाह—बार बार होनेवाला—ब्राइयो, **कैल्कि**, सल्फ।

„ मियोमियन ग्लैण्डका—डिजि, युफ्रे, हिपर, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ पष्मके साथ—फास।

„ लैक्रिमैल कैनलका—पेट्रो।

„ „ ग्लैण्डका—ऐसिट-क्रूड, कूमम।

„ „ सैकका—एपि, ग्रैफा, मार्कु, **पेट्रो, पल्स।**

„ विसर्पसे उत्पन्न (Erysipelatus)—ऐकोन, ऐनाका, **एपिस,** बेल, हिपर, लिडम, मार्कु, मार्कु-कोर, रास-टक्स।

„ श्लैष्मिक झिल्लीका (Conjunctivitis)—**ऐकोन,** ऐलूमि, ऐसिट-क्रूड, ऐसिट-टार्ट, एपि, **आर्ज-ना, आर्स,** बेल, ब्राइयो, **कैल्कि,** कैल्के-फलु, कैमो, क्लोरे, डिजि, **युफ्रे,** फेरम-फास, आइयो, इपि, कैलि-बा, लाइको, मार्कु, नेट्र-आर्स, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, रास-टक्स, स्टैफि, **सल्फ,** थूजा, जिङ्क।

„ „ दाने भरे (Granular Cojunctivitis, trachoma, granular lids)—ऐलूमि, एपि, आर्ज-ना, **आर्स,** बेल, बोरैक्स, कास्टि, **ग्रैफा,** कैलि-बा, **लाइको** मार्कु-कोर, मार्कु-आ-फलु, मार्कु-आ-रू, नेट्र-आर्स, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, पल्स, सैगु, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ „ जखम भरे—**ऐलूमि,** कास्टि, क्रोटन-टिग, हाइड्रो, नाइट्रि-ऐ।

„ सर्दी लगकर (Catarrhal)—ऐकोन, **ऐलि-सि,** ऐसिट-टार्ट, एपिस, आर्ज-मेट, आर्स, एराण्ड, अरम, **बेल,** ब्राइयो, कैल्के, कैमो, क्लोरे, डिजि, डालका, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, आइरि, कैलि-बा, **मार्कु,** मार्कु-कोर, नक्स वोम, **सोरि, पल्स,** सैङ्गु, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

„ सन्धिवातसे उत्पन्न—ऐसिट-क्रू, **ऐसिट टार्ट,** एपिस, आर्स, बोरै, ब्राइयो, **कैल्कि,** कैमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, युफ्रे, **फार्मि,** ग्रैफा, हिपर, लिडम, लाइको, मार्कु, मेजे, नक्स-

वोम, फाइटो, सोरि, पल्स, रासटक्स, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

मवाद स्क्रोफ्यूला (गण्डमाला) की वजहसे—ऐसिट-फ्लू, एपि, आर्स, आर्जे-मेट, अरम-मि-नै, अरम, ब्रेडि, बैरा-कार्व, बैरा-म्यू, ब्रेन, कैडमि, कोल्चि, कास्टि, केमो, सिस्टस, कोना, डलका, युफ्रे, फ्लु-ऐ, ग्रैफा, हिपर, आइयो, केलि-आ, केलि आइओ, लिथि, मैग-कार्व, मार्क, मार्क-कोर, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, फाइटो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, टेलूरियम, वायो-ह्रि, जिङ्क।

" सुजाककी वजहसे (Gonorrheal opthalmitis)—ऐसिए-टार्ट, चायना, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, स्पाइजि, सल्फ, थूजा।

" हवा लगकर, सूखी ठण्डी—ऐकोन।

" चटना, ठण्डे प्रयोगसे—एपि, आर्ज-ना, आइयो, पल्स सिपि।

" बढ़ना उत्तापसे—बैडि, बेल, आइयो, ग्लोनो, केलि-आर्स, मेडो, स्ट्रिलि।

" " आगकी गर्मीसे—ऐसिए-फ्लुउ, आर्ज-ना, मार्क।

पोंछनेकी इच्छा, आंख (Inclination to wipe)—क्रोकस, क्रियो, लाइको, नेट्र-का, प्लम्ब, पल्स, रैटा।

फुन्सियां-सफेद मण्डलके ऊपर (Vesicles on the cornea)—"रस-गुटिका" देखिये।

फोड़ा पलकोंपर—साइलि।

" " कोनेमें—बेल, आइयो, कैल्के, लेके, नेट्र-का पल्स, साइलि।

बच्चोंके रोगमें—ऐकोन, आर्ज ना, बेल, आइयो, कैमो, युफ्रे, मार्क, नक्स वोम, पल्स, रासटक्स सल्फ।

बड़ा मालूम होना (Enlarged sensation)—ऐकोन, कार्ब, कैमो लाइको, मेजे, नेट्र-म्यू, ओपि, बैरि, फास प्लम्ब, रासटक्स।

बन्द रखनेकी इच्छा (Desire to close)—कैल्के, कास्टि, जेल्सि, हिपर, मेडो, फाइटो-ऐ।

बन्द रखनेकी बाध्य होता है—कैन्थ, चेलिडो, कैलि-कार्ब, लाइको।

बाहर निकल पड़ना आँखोंका (Protrution)—ऐकोन, इथि, आर्स, अरम, बेरा-कार्ब, बेल, कैक्ट, कैम्फ, कैन्थ, कैमो, सिफि, क्रिमि, काफि, **कोमो**, कोलोसि, ड्रोसे, फेरम, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, क्रियो, लेके, लोरो, माकु, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, ओपि, प्लैटि, सल्फि, **स्ट्रैमो**, सल्फ, विरे।

" एक्स-आपथैल्मस (Ex-opthalmus)—आर्स, अरम, बेरा-कार्ब, कोल्के, **फेरम**, इग्ने, **आइयो**, लाइको, नेट्र-म्यू, फास, सल्फि।

भारी मालूम होना (Heaviness)-आँखोंका—इस्कु, **ऐलोज**, आर्निका, कार्बो-वेज, कोमो, हिपर, लेके, स्ट्रैमो, सल्फ।

" पलकोंमें—ऐकोन, एपि, बेल, कैल्के, कोलोफा, **कास्टि**, कैमो, **कोना**, काफि, फेरम, फार्मि, **जेल्स**, ग्रैफा, हेलि, हाइड्रो, कैलि-बाई।

मलिन-दृष्टि-निष्प्रभ (Lustureless)—**ऐण्टिम-टार्ट**, लैप्टी, कार्बो-वेज, चिनि-स, फेरम, कैलि-ब्रोम, माकु, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

" शुक्रक्षयके बाद—स्टैफि।

मसा-पलकोंपर (Warts)—कास्टि मिवो, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

" भवोंपर—ऐनान्थि, कास्टि।

मोटी पलक—ऐलूमि, एपिस, **आर्ज-मेट**, **आर्ज-ना**, युफ्रे, ग्रैफा, **माकु**, नेट्रम-म्यूर, सोरि, पल्स, सल्फ, **टेलू**।

रक्त-स्राव, आँखसे (Bleeding from eyes)—आर्निका, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, केमो, क्रोटे-हो, कैलि-फ्लोर, लेके नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, **फास**, सल्फ।

" खाँसनेपर—कार्बो-वेज, कैमो, नक्स-वोम।

" हूप खाँसीके साथ—नक्स-वोम।

" पलकोंसे—आर्निका, बेल, हिपर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ।

रस-भरी फुन्सियाँ (Vesicles on the cornea)—ऐगा, अरम, कैल्के, युफ्रे,

हिपर, कैलि-बाईक्रोम, कैलि-फ्लोर, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, सोरि, पल्स।

रौशनी सहन न हो (Photophobia)—**ऐकोन**, ऐग्न, एलैन्थ, ऐलूमि, ऐसिट-टार्ट, एपि, **आर्ज ना**, आर्निका, **आर्स**, एरम-ट्रि, ऐसार, अरम, अरम-म्यू, **बेरा-का**, **बेल**, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के फास, कास्टि, कैमो, चेलि, **चायना**, चिनि-स, सिकि, क्लिमे, काफि **कोवा**, क्रोक, क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, डिजि, **युफ्रे**, जेल्स, ग्लोनो, **ग्रेफा**, हैलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-का, कैलि-ना, लैक-डि, लैके, लैक्टि-ऐ, लिडम, लिलि-टिग, लिथि, **लाइको**, मैग-फास, मार्क, मार्क-को, नेट्र-का, **नेट्र-म्यू**, नेट्र-स, **नक्स-वोम**, **ओपि**, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, **रास-टक्स**, सेनि सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, **सल्फ**, टैबे, विरि, जिङ्क।

„ सवेरे—ऐमोन-कार्ब, ऐसिट-क्रूड, कैल्के, नेट्र-स, **नक्स वोम**, साइलि।

„ दिनको रौशनी—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कोवा, युफ्रे, ग्रेफा, हिप, इग्ने, कैलि-का, लाइको, मार्क, नक्स-वोम फास, फास-ऐ, सार्सा, साइलि, सल्फ।

„ सन्ध्यामें—बोरा, **कैल्के**, कास्टि, युफ्रे, फास ऐ, साइलि, डिजि।

„ रातमें—जेल्स।

„ बत्तीकी—आर्ज-ना, कैल्के, युफ्रे, जेल्स, हपि, मैक-डि, मार्क।

„ मेघकी—ग्रेफिस, कैल्के, चेलि, क्रोटे-हो, फ्रामम, युफ्रे, नेट्र म्यू, फास, पल्स।

„ सूर्यकी—**ऐकोन**, आर्स, ब्राइयो, कैम्फ, **चायना**, सिकि, क्लिमे, युफ्रे **ग्रेफा**, इग्ने, लिथि, मार्क कोर, मार्क-सल्फ फास ऐ, सल्फ।

लाल होना (Redness)—"कानजङ्कटाइवा प्रदाह" देखिये—**ऐकोन**, ऐग्ना ऐलि-सि, ऐसिट-क्रूड, **एपिस**, **आर्ज-ना**, आर्निका **आर्स**, ऐमाफि बैरा-कार्ब, बेल, बोर, ब्राइयो, कैल्के कैल्के-आस **कैना-ई**, कैमि, कार्बो वेजि कास्टि केलिडो चायना, सिपि

सिनेबा, क्लिमे, कौलचि, क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, कूप्रम, डिजि, **युफ्रे**, फोम, ग्लोनो, हैमा, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, आइरिस, कैलि-बा, कैलि-ब्रोम, कैलि-आर्स, लेके, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, माकु, माकु-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू**, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्बम, सोरि, रास-टक्स, सेने, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैफि, **कैमो**, **सल्फ**, टियुक्रि, थूजा, विरे।

लाल होना, कोनेमें—**आर्ज-ना**, वेल, नेट्र-म्यू, सल्फ।

„ पलकोंमें—ऐकोन, **ऐरिट-क्रूड**, एपि, **आर्ज-ना**, आर्स, अरम, अरम-म्यू, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, चिनि-स, काफि, क्रोटन-टिग, **युफ्रे**, फेरम, **जेल्स**, ग्रैफा, हिपर, **कैलि-आ**, **लाइको**, **माकु**, माकु-आ-फ्ले, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यूर, **पेट्रो**, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, **टेलू**।

„ „ किनारे—आर्ज-मेट, आर्ज-ना, **आर्स**, चेलि, कोलोसि, कौलचि, कोना, **युफ्र**, यु-पार्फो, फेरम-मेट, जेल्स, इपि, कैलि-वा, कैलि-स, लिलि-टिग, माकु-कोर, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, रास्टक्स, **सल्फ**।

„ चोट लगने बाद—**ऐकोन**, आर्निका, युफ्रे, हिपर, साइलि।

„ माथेमें दर्दके साथ—वेल, सिकि, ग्लोनो।

विकृत आख (Distorted eye)—ऐकोन, ऐगा, आर्स, वेल, कैमो, चेलिडो, चायना, सिफि, कूप्र, हाइड्रो-ऐ, लेके, लोरो, माकु, प्लम्ब साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

शून्य दृष्टि (Vacant look)—वेल, हेलि, हाइयो, मेजे, **फास-ऐ**।

शोथ—"जखम" देखिये।

स्क्रोफ्यूलाकी वजहसे (Scrofulous)—ऐमोन-ब्रोम, आर्स, अरम, कैल्के, कैना-सै, **कास्टि**, कैमो, चिनि-आर्स, कोना डालका, **युफ्र**, **ग्रैफा**, **हिपर**, नक्स-वोम, **पल्स**, **सल्फ**।

स्थिर दृष्टि (Fixed look)—ऐनाका, आर्निका, आर्स, बेल, कैम्फ, सिकि, काकि, क्रोक, कूप्रम, हेलि, हाइड्रो-ए, हाइपी, आइयो, इपि, वैलिब्रोम, लोरो, लाइको, माकु, नक्स-वोम नक्स-मस, प्रोपि, सिके, विरे।

स्पन्दन (Twitching)—ऐगा, आर्स, कैल्के, जेलस, ग्लोनी, लैके, नेट्र-म्यू, स्ट्रैमन।

» दाहिनी, आख—रेटा।

» बाईं—एपि, सिलि।

» आखके भीतर—कालस, चेलि, रैटा, स्ट्रैमन, सोल-ए।

» आखके बाहर—कैम्फ, कोना-इ, मेज़ि, नेट्र-म्यू, फास।

» पलको में—ऐगा, एपि, आर्स, बोवि, वेल, कैल्के, कास्टि, कैमो, सिकि, कोकि, क्रोटन-टिग, आइयो, इपि, मैग-फास, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पल्स, रियुम, फाइसो, साइलि, सल्फ।

» » ऊपर—अरम, कैल्के, मेज़ि, नेट्र-म्यू, रैटा, स्ट्रैमो।

» » नीचेकी—ऐमोन-कार्ब, ग्रैफा, आइयो, सल्फ, जिङ्क।

» » दाहिने—चायना, कोलोसि, लैके, सिफि।

» » बायें—ऐलोज, क्रोक, मेज़ि, पल्स।

स्राव-श्लेष्मा या पीव (Discharge of Mucus or Pus)—एपि, आर्जे ना, आर्स, ब्राइयो, कैडमि-म, कैल्के, कैमो, क्लोरो, कोना, युफ्रे, फेरम, ग्रैफा, हिपर, केलि-कार्ब, कैलि-आर्स, क्रियो, लिथि, लाइको, माकु, नेट्र-म्यू, नेट्र-आर्स, नक्स वोम, पल्स, सेनि, साइलि सल्फ, टेलू, थूजा।

» सादा—हाइड्री, लेक-कै, पेट्रो, प्रम्य।

» पीला—युफ्रे, कैलि-क्लोर।

» गाढ़ा—आर्जे-ना, युफ्रे, हाइड्री, कैलि-बा नेट्र-म्यू, पल्स।

» पीव—आर्जे-ना, कैमो, क्लोर, ग्रैफा पिस्रे, हिपर, कैलि-बा मैग, लिडम, लाइको, माकु, सिपि।

» » सूखा—कैल्के-फास, कैल्के, फास्टि, कैमो युफ्रे, लिथि, मार्किंग।

सूखी मालूम होना (Dryness)—ऐकोन, एलुमि, आर्जे ना आर्जेन्टा

आर्स, बेल, कास्टि, कैमो, क्रिमे, क्रोक, साइक्ला, युफ्रे, ग्रैफा, लाइको, मैग-कार्ब, मैगो, मेडो, **मेजि,** नेट्र-स, **नक्स-म,** नक्स-वोम, पेट्रो, **पल्स,** रोडो, रास-टक्स, सैगु, सिपि, स्टैफि, **सल्फ,** विरे।

सूखो मालूम होना, सवेरे—कास्टि, नक्स-वोम, पल्स, हाइयो, साइलि, जिङ्क।
„ शामको—ऐलूमि, कास्टि, लाइको, साइलि, स्टैफि, जिङ्क।

सूजन (Swollen)—ऐकोन, **ऐनाका, एपि,** आर्स, ब्राइयो, सीड्र, **क्रोटे, गुये,** हिपर, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, लैके, मैग-कार्ब, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, **रास-टक्स, सिपि।**

„ सवेरे—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, **कैमो,** क्रोटे-हो, **सिपि,** साइलि, **सल्फ।**
„ रातमें—हिपर।
„ शामका—हिपर, सिपि।
„ चारों ओर आँखके—ऐलि-सि, **एपि,** आर्स, फेरम, रास-टक्स।
„ पलकोंपर—ऐकोन, ऐलि-सि, **एपि** आर्ज-मेट, **आर्ज-ना, आर्स,** बैरा-म्यू, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्लस, कास्टि, कोना, साइक्ला, डिजि- **युफ्रे,** फेरम, **ग्रैफा,** हिपर, इपि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, **कैलि-आर्स,** क्रियो, लाइको, **मार्कु,** म्यू-ऐ, **नेट्र-का,** नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, **रास-टक्स, सेनि,** सिपि, सल्फ, टेलू, थूजा।
„ „ ऋतु लोप होकर—आर्स, कैल्के, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।
„ „ ऊपरी पलक—एपिस, ब्राइयो, कोना, साइक्ला, इग्ने, कैलि-कार्ब, मेडो, पेट्रो, स्क्विला, सिफि।
„ „ निचली पलक—काइन, डिजि, ओपि, रैफे।
„ „ किनारा—चेलिडो कोना, **युफ्रे,** ग्रैफा, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, मार्कु-कोर, फास, पल्स, सल्फ, वैले।
„ „ भीतरकी ओर—एपि, **आर्स,** हिपर, **कैलि-कार्ब।**

सूजा सूजा (Bloated)—बपैटो, हियुर, सोरि, सल्फि।

हिलना, आँखका गोला (Movement of eye balls) लगातार—बेल, आइयो, साइलि, स्ट्रैमो।

» अनिच्छासे (Involuntary)—कैल्के, यूप्रस, नक्स-वोम, सल्फ।

» आक्षेपयुक्त—ऐकोन, ऐगा, बेल, काफि, इग्ने, सल्फ, जिंक, जिङ्क।

कान। (EAR)

अर्बुद (Tumour)

» सिस्टिक (Cystic) जलन भरे—नाइट्रि-ऐ।

» पालिपस (Polypus)—कैल्के-कार्ब, कालि-स, लेके, लाइको, मार्क, पेट्रो, फास, सल्फ, टियु, थूजा।

» » सहजमें ही उससे खून निकलना—कैल्के-कार्ब, मार्क, थूजा।

» » छोटा, कानके पीछे—कार्बो, बायो, कास्टि, कोना।

» » सामने—ब्राइयो, कैल्के-कार्ब।

उत्ताप (गर्मी-Heat)—ऐकोन, ऐलूमि, आर्जं-मेट, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के-कार्ब, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, सिकि, इलैप्स, ग्रैफा, इग्ने, केलि-बा, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नेट्र-म्यु, नाइट्रि-ऐसि, फास, प्रम्स, सल्फ्रि, सल्फ।

» एक कान लाल और गर्म—ऐलूमि, टैरे।

» वाहर निकलता है, मानो—इयु, कैल्के-कार्ब, कोन्य, कैलि कार्ब, पैरि।

» भीतरकी ओर—ऐकोन, कैल्के-कार्ब, कैल्के-फास, कैन्थ, चेनि, लाइको, सार्सा।

» भोजनके बाद—ऐमाफि।

उद्भेद (Eruptions)—ऐगिर-क्रूड, एपि, बार्स, ग्रैफा-कार्ब, कैल्के-कार्ब, सिकि, सिस्टा, केलि-बा, लाइको, पोपि पेट्रो सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

» खाल उधड़ना (Desquamating)—ऐना आइयो कैमो, ग्रैफा, मार्क, सोरि, फास।

» चारों ओर—सिस्टा काइपे, लाइको, मेजे, मेट फास, सल्फ।

„ -छाले (Blisters)—कैम्फ, क्रियो, मिका।
„ जलन-भरे—सिकि, पल्स, सार्सा।
„ पपड़ी जमे हुए—हाइड्रो, लैकै, म्यू-ऐ, सोरि, पल्स।
„ पानी लगनेकी तरह हो जाना—कैलि-बाई-क्रोम, मार्कु, सल्फ।
„ पीछे—बेराका, कैल्के-का, कास्टि, सिकि, ग्रैफा, हिपर, केलि-स, लाइको, मार्कु, मेजे, ओलि, पेट्रो, सिलि, सल्फ, टेल।
„ „ एकजिमा—कैल्के-कार्ब, लाइको, ओलि, सोरि, सल्फ।
„ „ पानी लगनेकी तरह—ग्रैफा, पेट्रो, सोरि, सल्फ।
„ „ पीव भरी-फुन्सियाँ—वार्ब, फाइटो, सोरि, पल्स।
„ „ फटाफटा—ग्रैफा, हिपर, हाइड्रो, लाइको, पेट्रो, सिपि, सल्फ।
„ „ फुन्सियाँ—कैल्के-कार्ब ग्रैफा, मेजे, पैले, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।
„ „ फोड़ा—ऐड्र, कैल्के-कार्ब, कोना, फाइटो, सल्फ।
„ „ भींजा भींजा—कैल्के-कार्ब, ग्रैफा, मेजे, ओपि, पेट्रो, सोरि, रास-टक्स।
„ „ हारपिस (Herpes)—कास्टि, ग्रैफा, मैंग-म्यू, सिपि।
„ फुन्सियाँ—कैल्के फास, क्रियो, मार्कु, मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, फास, सोरि सल्फ।
„ फोड़ा—कैलि-कार्ब, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, सिफि।
„ भींजा-भीजा—कैल्के-कार्ब, ग्रैफा, लाइको, मार्कु, मेजे, सोरि।
„ भीतरी पीव भरी फुन्सियाँ—(Pustules) कैक्ट-इ।
„ फोड़ा—बोवि, मार्कु, पिक्रि-ऐ रास्टक्स, सलफ।
„ भोजनके बाद—ऐसाफि।
कर्णमूल—"प्रदाह" देखिये।
खुजली (Itching)—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐना-का, ऐनागि, आर्जे-मेट, आरम, बैरा-का, बोरे, बोवि, ब्रायो, कैल्के-कार्ब, कैप्सि, कार्बो-वेज, कोलोसि, कोना, क्रोटे-हो, कूप्र, एली, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, कैलि-बा, केलि-कार्ब, लोरो-सि, लाइको, मार्कु, मेजे, नक्स-वोम, ओलि, पेट्रो, सोरि, पल्स, रासटक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ टेल।

खुजली पीछे—मेजि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, सल्फ।

„ बीचमें (Meatus)—बैरा-कार्ब, सिस्टा, कैप्सि, कार्बो-वेज, साइक्ला, हिपर, इग्ने, लोरोसि, मैगी, मार्कु, मेजि, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ, टेलू।

„ घटना, खुजलानेपर—कास्टि, मैग-कार्ब, नेट्र-कार्ब।

„ हवामें, खुली—ऐकोन।

„ बढ़ना-सर्दीसे गर्मीमें जानेपर—कालु।

ज़खम (Ulceration)—ऐना, ब्रायो, केल्के, कैम्फ, ग्रेफा, हिपर, मार्क, ओलि, पेट्रो, सल्फ।

„ कानके चारों ओर—केल्के-फास।

„ कानके पर्देमें (ear-drum)—आइयो, केल्के-कार्ब, कैलि-फास, मार्कु, सोरि, साइलि।

„ „ नासूरका घाव—कैल्के।

„ „ भीतर—केल्के, कैम्फ कार्बो-वेज, हिपर, लाइको, मार्कु, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ „ वाली पहननेके छेदमें—लेके, मेडो, स्टेन।

टपक (Pulsation)—ऐलोज, ऐमोन कार्ब, बैरा-कार्ब, बैल, कैक्ट, केल्के, कैना-इ, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, कोना, ग्लोनो, हिपर लेके, मैग म्यू, मेडो, मार्कु-कोर, मार्कु, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, र, नाइट्रि-ऐ, फाइसो, पल्स, रास्टक्स, साइलि, सल्फ, टेलू।

ठण्डा मालूम होना-(Coldness)—कैल्के, कैल्के-फास, कैलि-डो, मेजे, लाइको, मैगी, पेट्रो, विरे।

दर्द (Pain)—ऐकोन, ऐलि-मि, ऐना, ऐङ्गा, ऐपिस म., एपिस आर्स आई आर्निका, आर्स, आयोड, आरम, बैरा कार्ब बैरा म्यू, बेल, ब्रायो कैल्के-कार्ब, कैल्के-फास, कैप्सि कार्बो वेज कास्टि, कैमो, चिनिनम सिमि, डल्क, डौनम ग्रेफा, गुआई, कैलि बाई कैलि कार्ब कैल्मि लैके, लाइको, मैग फास, मेजी, मार्कु-आयोड, मार्कु-डा-रु, मार्कु, मिनि, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नेट्र स, नक्स वोम, पेट्रो फास, फास ऐ,

प्लैगटे, प्लैटि, प्लम्ब, **पल्स**, रास-टक्स, सिपि, साइलि, साइजि, स्पञ्जि, सल्फ, थूजा, **वार्वा**, जिङ्क।

दर्द दाहिने—ऐमोन-म्यू, बैरा-का, बैरा-म्यू, वेल, ब्राइयो, कास्टि, कोलोसि, इलैप्स, कैलमि, लाइको, माकुं, पल्स, **ड्रिलि**।

„ बायें—ऐकोन, डालका, लैक-कै, लैके।

„ सवेरे—आर्स, मैंगै, नक्स-वोम।

„ शामको—ऐकोन, आर्स, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, सल्फ।

„ रातमें—बैरा, ब्राइयो, **डाल्का**, हिपर, कैलि-बाई, लैके, **माकुं**, पल्स, रास-टक्स, साइलि।

„ अकड़न—ब्राइयो, कैल्के-फास, कास्टि, चायना, लैक-कै, माकुं, फास, सल्फ।

„ कानके पीछे—ऐकोन, ऐम्ब्रा, वेल, कैल्के-फास, कैप्सि, कोलोसि, क्रूम-ऐ, ग्लोनो, नैट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

„ कानके भीतर—ऐनाका, ऐसाफि, ऐसार, आरम, **वेल**, ब्राइयो, कौन्य, कास्टि, **कैमो**, डालका, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, **हिपर**, कैलि-कार्ब, **लैकी**, लाइको, माकुं, माकुं-आ-फ्ले, मेजे, म्यू-ऐ, नैट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, प्लैटि, **पल्स**, साइलि, साइजि, स्पञ्जि, सल्फ, टेलू, थूजा।

„ काटता है, मानो छुरीसे (Cutting)—कोलोसि, फार्मि, लैके, सिकि, जिङ्क।

„ कुचलनेकी तरह—आर्निका, कास्टि, रूटा।

„ कुटकुटाना (Aching)—वेल, कास्टि, **कैमो**, सिमि, कोना, **डालका**, लैके, लाइको, नैट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, **सल्फ**।

„ खाँसनेके समय—कैल्के-कार्ब, कैप्सि, कैलि-बा, नक्स-वोम, थूजा।

„ खोंचा मारना (Shooting)—वेल, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-ऐ, कैमो, सिमि, जेल्स, कैलि-बा, माकुं, फास, फाइटो, **पल्स**, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ चबानेके समय—ऐना, एपिस, वेल, हिपर, लैके, नक्स-वोम।

दर्द, चिबाता है मानो (Grinding)—ड्रोसि, कैलि-कार्ब, लैकि-ऐ, मैंगे, सल्फ।

" जलन (Burning)—ऐकोन, ऐगा, एपिस, आर्स, आरम, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, क्लिमि, इग्ने, मैगे, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, सैंगु, सल्फ, टेलू।

" टपक—(१) बेल, कैल्के-कार्ब, कोना-ड्र, फेरम, ग्लोनो, नाइट्रि-ऐ, फास। (२) कैक्ट, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, कोना, हिपर, लैके, मैग-म्यू, मेडोरि, मार्कु-कोर, मार्कु, मार्फि, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, पल्स, रास-टक्स, साइलि, टेलू।

" दबा रखनेकी तरह मालूम होना (Pressing)—ऐना, बेल, ब्रायो, कैप्सि, जिङ्क, कैमो, चेलिडो, कूप्र, ड्रोसि, ग्रैफा, मार्कु, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, पेरि, पल्स, सार्सा, स्पाइजि।

" दाँतके दर्दके साथ—ग्लोनो, मार्कु, फास-ऐ, प्लैण्टे, रोडो।

" निगलनेके समय—एपिस, कैल्के-कार्ब, कोना, इलेप्स, लैके, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पेरि, पेट्रो, फाइटो, सल्फ।

" पीसता है, मानो—ड्रोसे, कैलि-कार्ब, केलि-ऐ, मैङ्गो, सल्फ।

" फटा जाता है, मानो (Bursting)—कैल्के, कास्टि, लाइको, नाइट्रि-ऐ सोरि।

" फैलता है, दूसरे कानमें—चेलिडो, हिपर, लैके।

" " आँखमें—ग्लोनो, पल्स, स्पाइजि।

" " गलेमें—बेल, साइलि।

" " दाँतमें—चेलिडो, स्पाइजि।

" सर्दी लगकर—डालका, जेलस, कैमनि, मार्कु, पल्स, सिपि।

" सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—एकोन, इस्कु, एलूमि, एमोन-म्यू, आर्जे-ना, आर्निका, आर्स, बेल, बार्ब, बोविस्ट, ब्रायो, कैल्के, कैम्फ, कास्टि, कैमो, चायना, सिमि, सिनाब, कोलचि, कोलोसि, कोना, डालका, फेरम, ग्रैफा, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि-फा, कैलि-नाइट्रि, लैके, लैडो, मार्कु, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

दर्द, दाहिने कानमें—ऐकोन, इग्नू, कास्टि, नेट्र-म्य, नेट्र-स, रास-टक्स।
„ बायें कानमें—पल्स, स्ट्रैफि, सल्फ।
„ हवा ठण्डी लगकर—ब्राइयो, हिप, मार्क।
„ घटना - गोदमें लेकर घूमने या हिलनेपर—कैमो।
„ „ ठण्डे प्रयोगसे—पल्स।
„ „ गर्मीसे—(१) बेल, मैग-फास, (२) कैफि, कैमो, डालका, हिपर।
„ „ दिनमें—ऐकोन।
„ „ हवासे खुली—ऐकोन, अरम, फेरम-फास, पल्स।
दर्द बढना-उत्तापसे—(१) कैमो, मार्क, पल्स। (२) ऐकोन, बोरैक्स, कैल्के-फास, डालका, नक्स-वोम।
„ „ ठण्डे पानीसे धोनेपर, मुह और गर्दनके पीछे—मैग-फास।
„ „ ठण्डी हवामें—(१) कैमो, हिपर। (२) कैल्के-फास, कैफि, कैलि-म्यू, मैग-फास, सैगु।
„ „ रातमें—(१) ऐकोन, कैमो, मार्क, पल्स। (२) आर्स, बेल, कैल्के-फास, डालका, फेरम-फास, हिपर, कैलि-आ, रास-टक्स।
„ „ शब्दसे—बेल, कैमो।
पानी भीतर है, मानो—ग्रैफा।
पीछे—ऐनान्थि, बैरा-म्यू।
प्रत्येक दो सप्ताहके अन्तर पीव निकलता है—आइरिस-वार्स।
प्रदाह—ओपि, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के-कार्ब, फ्लू-ऐ, क्रियो, **मार्क-कोर**, मार्क, पिक्रि, **पल्स**, रास-टक्स, टेरि।
„ मध्यमें—ऐकोन, बैरा-का, बेरा-म्यू, **बेल**, **कैल्कि**, कैफि, कास्टि, कैमो, कोना, **ग्रैफा**, हिपर, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, **लाइको**, मैग-कार्ब, मार्क-कोर, **मस्क**, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, पेट्री, पिक्रि, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैगु, साइलि, **सल्फ**, थूजा।
फोड़ा (Abscess)—कार्बो-वेज, डालका, आइयो, कैलि-बाइ, मैग-कार्ब, सल्फ।

बन्द हो गया सा मालूम होना (Stopped Sensation)—ऐनाका, धार्जे-नाँ, **ऐगार**, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, चेलि, कौलचि, **कोना**, आइयोड, लैके, लिडम, **लाइको**, मैंगे, मिनि, मार्कु, मेजे, मिलि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, फास, **पलस**, **साइलि**, सल्फ-ऐ, सल्फ, विरि, वार्वा।

मैल (Ear wax)-अधिक (Increased)—ऐगा, बेल, कैल्के-कार्ब, **कास्टि**, फेरम, इलेप्स, हिपर, सेलेनि, सल्फ।

„ कड़ा—ऐलि से, कोना, लैके, पलस।

„ काला—इलेप्स, म्यू-ऐ, पलस।

„ पतला—कोना, हिपर, कैल्क कार्ब, मार्कु, पेट्रो, साइलि, सल्फ।

„ लाल—कोना, म्यू-ऐ, सोरि।

„ सूखा—इलेप्स, लैके।

रङ्ग (Colour)—

„ लाल—ऐगारि, ऐलूमि, एपिस, अरम, अरम-म्यू, बेल, कैम्फ, कैमि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना**, इलेप्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइड्रो, इग्ने, फास, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, क्रियो, मैग-कार्ब, मार्कु, नेट्रम-म्यू, सोरि, **पलस**, रास-टक्स, सैंगु, सल्फ, **टेलू**।

„ „ भीतरमें—ऐकोन, कैमो, मैग-कार्ब, पिक्रि, **पलस**।

„ „ पीछे—ऐकोन, हाइड्रो, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, रास-वे।

शब्द (Noise-आवाज़)—ऐकोन, इस्कु, ऐम्ब्रा, आर्निका, आर्स, ऐसार, अरम, बैरा-का, बैरा-म्यू, **बेल**, बोरैक्स, ब्राइयो, **कैल्के**, **कैना-इ**, कार्बो-वेज, कार्लस, **कास्टि**, चेनि, **चायना**, **चिनि-स**, सिक्कि, काक्कु, कोना, क्रूप्रम, डिजि, ग्रैफा, पार्वा, ग्लोनो, **ग्रैफा**, इग्ने, आइयो, कैलि-आ, क्रियो, लैके, लाइको, मार्कु, मेट्र म्यू, मेट्र म, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि, पैरि, पेट्रो **फास-ऐ**, फास, प्लैटि, प्लम्ब, सोरि, **पलस**, रोडो, रास टक्स सल्फ ऐ, सैंगु सिपि सिलि, साइलि, **स्पाइजि**, स्टैफि, **सल्फ**, टैब।

„ अनुत्तावके समय—आर्स बोरैक्स चायना, पेट्रो विरि।

दर्द, दाहिने कानमें—ऐकोन, इयू, कास्टि, नेट्र-म्य, नेट्र-स, रास-टक्स।

„ बायें कानमें—पल्स, स्ट्रैफि, सल्फ।

„ हवा ठण्डो लगकर—ब्राइयो, हिप, मार्कु।

„ घटना—गोदमें लेकर घूमने या हिलनेपर—कैमो।

„ „ ठण्डे प्रयोगसे—पल्स।

„ „ गर्मीसे—(१) बेल, मैग-फास, (२) कैप्सि, कैमो, डालका, हिपर।

„ „ दिनमें—ऐकोन।

„ „ हवासे खुली—ऐकोन, अरम, फेरम-फास, पल्स।

दर्द बढ़ना-उत्तापसे—(१) कैमो, मार्कु, पल्स। (२) ऐकोन, बोरैक्स, कैल्के-फास, डालका, नक्स-वोम।

„ „ ठण्डे पानीसे धोनेपर, मुंह और गर्दनके पीछे—मैग-फास।

„ „ ठण्डी हवासे—(१) कैमो, हिपर। (२) कैल्के-फास, कैप्सि, कैलि-म्यू, मैग-फास, सैंगु।

„ „ रातमें—(१) ऐकोन, कैमो, मार्कु, पल्स। (२) आर्स, बेल, कैल्के-फास, डालका, फेरम-फास, हिपर, कैलि-आ, रास-टक्स।

„ „ शब्दसे—बेल, कैमो।

पानी भीतर है, मानो—ग्रैफा।

पीछे—ऐनाग्थि, बेरा-म्यू।

प्रत्येक दो सप्ताहके अन्तर पीब निकलता है—आइरिस-वार्स।

प्रदाह—ओपि, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के-कार्ब, फ्लू-ऐ, क्रियो, **मार्कु-कोर**, मार्कु, पिक्रि, **पल्स**, रास-टक्स, टेरि।

„ मध्यमें—ऐकोन, बेरा-का, बेरा-म्यू, **बेल**, **कैल्कि**, कैप्सि, कास्टि, कैमो, कोना, **ग्रैफा**, हिपर, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, **लाइको**, मैग-कार्ब, मार्कु-कोर, **मस्क**, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, पिक्रि, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैंगु, साइलि, **सल्फ**, थूजा।

फोड़ा (Abscess)—कार्बो-वेज, डालका, आइयो, कैलि-बाइ, मैग-कार्ब, सल्फ।

बंद हो गया सा मालूम होना (Stopped Sensation)—ऐनाकां, ऐर्जे-नाँ, **ऐगार,** कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, चेलि, कोलचि, **कोना,** आइयोड, लैके, लिडम, **लाइको,** मेगे, मिनि, मार्कु, मेजे, मिलि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, फास, **पल्स, साइलि,** सल्फ-ऐ, सल्फ, विरे, वार्बा ।

मैल (Ear wax)-अधिक (Increased)—ऐगा, बेल, कैल्के-कार्ब, **कास्टि,** फेरम, ग्रैफ, हिपर, सेलेनि, सल्फ ।

„ कड़ा—ऐलि सै, कोना, लैके, पल्स ।

„ काला—ग्रैफ, म्यू-ऐ, पल्स ।

„ पतला—कोना, हिपर, कैल्क कार्ब, मार्कु, पेट्रो, साइलि, सल्फ ।

„ लाल—कोना, म्यू-ऐ, सोरि ।

„ सूखा—ग्रैफ, लैके ।

रङ्ग (Colour)—

„ लाल—ऐगारि, ऐलूमि, एपिस, आरम, आरम-म्यू, बेल, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चायना,** ग्रैफ, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइड्रो, इग्ने, फास, कैलि-आई, कैलि-कार्ब, क्रियो, मैंग-कार्ब, मार्कु, नेट्रम-म्यू, सोरि, **पल्स,** रास-टक्स, सैंगु, सल्फ, **टेलू ।**

„ „ भीतरमें—ऐकोन, कैमो, मैंग-कार्ब, पिक्रि, **पल्स ।**

„ „ पीछे—ऐकोन, हाइड्रो, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, रास-वे ।

शब्द (Noise-आवाज़)—ऐकोन, इग्नु, ऐम्ब्रा, आर्निका, आर्स, ऐगार, अरम, बैरा-का, बैरा-म्यू, **बेल,** बोरैक्स, ब्रायो, **कैल्के, कैना-इ,** कार्बो-वेज, कार्लस **कास्टि,** केमि, **चायना, सिनि-स,** सिकि, काफ, कोना, फ्रम, डिजि, गुम्मे, ग्राफ़, ग्लोनो, **ग्रैफा,** इग्ने, आइयो, कैलि-आ, क्रियो, मैंग आइको, मार्कु, मैग म्यू, मैग स, नाइट्रि-ऐ, नक्स मोस, ओपि पेरि, पेट्रो **फास-ऐ,** फास, प्लैटि, प्रम्म, सोरि **पल्स,** रोडो रास टक्स सल्फ ऐ, सैंगु, सिपि, सिलि, साइलि, **स्पाइजि,** स्टैफि **सल्फ,** टेब ।

„ वस्तुजागके समय—आर्स, बोरैक्स चायना, पेट्रो, सिपि ।

शब्द, चिबानेके समय—कैल्के, कार्बो-वेज, ग्रैफा, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सल्फ।

" निगलनेके समय—मैरा-का, कैल्के, सिकि, इलेप्स, ग्रु-पार्फा, ग्रैफा, नेट्र-म्यू, साइलि।

" सरमें चक्करके साथ—आर्स, वेल, कैल्के, कार्बो-वेज, कैम्फ, कास्टि, **चिनि-स,** सिकि, काकु, डिजि, ग्लोनो, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, सैंगु, साइलि।

शब्दका प्रकार—

" कड़क जैसी आवाज़, नाक छिड़कनेके समय, छींकने या निगलनेके समय कानके भीतर—(१) वैरा-कार्ब, वैरा-म्यू, ग्रैफा, कैलि-म्यू, नाइट्रि-ऐ। (२) ऐल्ब्रा, कैल्के-कार्ब, चिनापो, फार्मि, जेल्स, कैलि-कार्ब, लैके, पेट्रो, पल्स, साइलि, थूजा।

" खस खसकी आवाज़ (Rustling-खड़खड़ाहट)—ऐलोज, वेल, बोरेक्स, कार्बो-वेज, कास्टि, मर्कु, फास, पल्स, साइलि।

" गड़गड़ शब्द (बादल गरजनेकी तरह Rumbling)—एपिस, ब्राइयो, इकुई, प्लैटि, सिपि।

" गरजनेका शब्द (Roaring)—ऐकोन, ऐग्नस, ऐम्ब्रा, ऐना, आर्स, ऐसार, अरम, अरम-म्यू, वैरा-कार्ब, वैरा-म्यू, **वेल,** बोरेक्स, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-वेज, कार्लस, **कास्टि,** कैमो, चेलि, **चायना, चिनि-स,** काकि, कोलचि, कोलोसि, कोना, साइक्ला, ड्रोसे, इलेप्स, फेरम-आर्स, जेल्स, **ग्रैफा,** हेलि, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लोरो, लिडम, **लाइको,** मैग-कार्ब, मार्कु-कोर, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम,** ओपि, पेट्रो, **फास-ऐ,** फास, प्लैटि, **पल्स,** रोडो, रास-टक्स, सैलि-ऐ, सिके, सिपि, साइलि, **स्पाइजि,** स्टैफि, सल्फ, थेरि, विरे-वि।

" गाना गा रहा है, मानो (Singing)—ऐकोन, आर्स, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बोनियम-सल्फ, कास्टि, **चायना,** कोना, हाइयो, कैलि कार्ब, लैके, लाइको, नेट्र-कार्ब, नक्स-वोम, सोरि, सैंगु, स्ट्रैमो।

शब्दका प्रकार, गुन गुन शब्द, भनभनाहट, मधुमक्खीकी तरह (Humming)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐना, आर्जे-ना, आर्स, आरम, बेल, कैल्के, वोन्य, कार्बो-वेज, कार्लस, कास्टि, **चायना**, चिनि स, कोना, क्रोक, साइक्ला, ड्रोसे, फेरम, ग्रैफा, **लाइको**, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नाईट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, सोरि, पल्स, सिपि, स्पाइजि, स्टिक्टा, सल्फ।

„ घण्टेकी तरह आवाज़ (Ringing)—**ऐकोन**, इग्नि, ऐगा, ऐनि-मि, आर्जे-ना, आर्स, आरम, बैरा-कार्ब, **बेल**, बोरैक्स, ब्राइयो, **कैक्ट, कैल्के**, कैम्फ, **कैना-इ**, कार्बो-वेज, कार्लस, **कास्टि**, कैमो, चेलि, **चायना, चिनि-स**, साइक्ला या क्लिमे, काक्यु, कोना, साइक्ला, डिजि, युफो, फेरम, फ्लु-ऐ, फार्मि, ग्लोनो, ग्रैने, ग्रैफा, हैमा, हेलि, इग्ने, इपि, लिडम, लाइको, मिलि, मार्कु, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नक्स-मस, नक्सवोम, पेरि, **पेट्रो**, फास-ऐ, प्लैटि, सोरि, पल्स, रोडो, सेङ्गु, साइलि स्पाइजि, सल्फ।

„ „ ऋतुके पहले और समय—**फेरम**, विरे।

„ „ नाक झाड़नेके समय—कार्बो-ऐ, टियु।

„ „ सरमें चक्कर आनेके समय—ऐलूमि, कार्बो-वेज, काफि, डिजि, नेट्र-म्यू।

„ „ दर्दके समय—**चायना**, नैजा, पल्स।

„ चींचीं चूँचूँ शब्द, (Chirping)—ऐगा, ब्राइयो, कैलेडि, कार्बो-वेज, कास्टि लेके, लाइको, नक्स वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ भिन भिन शब्द झींगुरकी आवाज़की तरह—(१) आर्जे-ना, बैरा म्यू, कैना इ, चिनायो, चायना, चिनि स। (२) ऐसोन-कार्ब, ऐनाका, कैल्के-कार्ब कास्टि, डिजि, ग्रायस्को, फेरम-फास, फार्मि, ग्रैफा, ब्राइयो, आइरि-थार्म, केलि थाम, क्रियो, मैग्नेम, नक्स वोम, पल्स, साइलि।

„ ढोलकी आवाज़की तरह आवाज़—[illegible] बोरैक्स, [illegible], ड्रोसे, [illegible] [illegible], बैरा कार्ब, **कास्टि**, ग्रैफा, [illegible], [illegible] [illegible], नाईट्रि ऐ, नक्स वोम, **फास**, [illegible]

श्रवण-शक्ति ह्रास, छोटी माताके बाद—आर्ज-नाई, कार्बो-वेज, मार्कु, पलस,
साइलि, स्पाइजि, सल्फ।
" " टानसिल बढनेकी वजहसे—अरम, कैलि-म्, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, स्टैफि।
" " टाइफायेड ज्वरके बाद—एपि, आर्ज-नाई, आर्स, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ।
" " ठण्ड लगकर—आर्स, बेल, इलेप्स, लैके, लिडम, मार्कु, पलस, साइलि।
" " ढका हुआ है, मानो, पतले चमडेसे, कानका छेद—ऐकोन, आर्ज नाई, बेल, कैल्के, चायना, साइक्ला, ग्रैफा, मैग-म्यू, फास, सल्फ-ऐ, बार्ब्रो।
" " ताला लगा हुआ है—"हठात" देखिये।
" " पक्षाघातकी वजहसे—बैरा-कार्ब, बेल, कास्टि, ग्लोनो, हाइयो, नक्स वोम, ओपि, फास-ऐ, पलस, साइलि।
" " पाराके अपव्यवहारके कारण—ऐसाफि, कोर्बो-वेज, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, स्टैफि, सल्फ।
" " वृद्ध मनुष्योंका—बैरा-कार्ब, सिकि, पेट्रो।
" " समझनेमें देर होती है—कार्बो-ऐ, आइयो।
" " स्वर (मनुष्यका)—आर्स, फ्लू-ऐ, म्यू-ऐ, फास, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।
" " सामयिक—सिकि, स्पाइजि।
" " हठात—डिजि, इलैप्स, जेल्स, प्लम्ब, साइलि।
" " घटना—कानपर दबाव डालनेसे—फास।
" " " गर्म कमरेमें—पल्स।
" " " गाडीमें चढनेपर—ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ।
" " " नाक छिडकनेपर—हिपर, मार्कु, साइलि, स्टैनम।
" " बढना—जम्हाई लेनेपर—साइलि।
" " " भोजन करनेपर—साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

श्रवण-शक्ति, लुप्त (Lost)—ऐकोन, ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐना, आर्जे-नाई, आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसार, बैरा-म्यु, बेल, ब्राइयो, कैल्के-कार्ब, **कास्टि,** इलैप्स, ग्लोनो, ग्रैफा, **हिपर,** हाइयो कैलि-बाई, **लाइको,** नेट्र-म्यु, प्लेटि, पल्स, मिके, **साइलि,** स्ट्रैमो, **सल्फ** ।

„ „ ऋतुके समय—लाइको।

„ „ सर्दीके साथ—ऐसार, लैके ।

सुरसुरी (च्यूँटी चलनेकी तरह) (Formication)—ऐमोन-कार्ब, ऐसिड-फ्लुअ, आर्जे-मेट, आर्स, कैल्के, कास्टि, चायना, कोलोसि, ग्रैफि, कैलि-कार्ब, लैके, माकु, नेट्र-म्यु, नक्स वोम, ओलि-ऐनि, प्लेटि, सिपि, साइलि, सल्फ, जिङ्क ।

सूखापन (Dryness)—ऐलु, आर्निका, आरम, कैल्के, कार्बो-वेज, ग्रैफा, लैके, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, पल्स, सल्फ ।

सूजा मालूम होता है (Sensation of distention in)—बैल, केलि-फास, लोरोसि, मैजे, नाइट्रि-ऐ, पल्स ।

सूजन (Swelling)—ऐकोन, आर्स, **एपिस,** बैल, कैल्के, कार्बो वेज, ग्रैफा, कैलि-बा, माकु, नेट्र-म्यु, पेट्रो, **पल्स,** रास-टक्स, सिपि, साइलि टेलू ।

„ कर्णमूल (Inflamation & swelling of parotid glands parotites)—ऐमोन-कार्ब, आर्निका, आर्स, ऐरम-ट्रिफ, आरम, आरम म्यु र, बैरा-का, बैरा म्यु, बेल, **ब्रोमि,** ब्राइयो, कैल्के, **कार्बो-ऐनि, कैमो, चायना,** सिनि-फास सिनाबे, सिस्टा, काकु, कोना, कोटि डो, कामरा, फेरम मेट ग्रैफा, हिपर, इग्ने, फाइटि यार्ग, कैलि बाई, केलि कार्ब लैके, लाइको, माकु, माकु-आयो, **नाइट्रि-ऐ,** फास, फाइटो, पल्स, **रास-टक्स,** सिपि, **साइलि,** सल्फ-ऐ ।

„ „ दाहिने—बैरा म्यु, बेल, ग्रैफा, माकु, ब्रम्म, सिपि, स्पंजो ।

„ „ बायें—ब्रोमि, केलि बाई, **रास-टक्स,** सल्फ ६ ।

सूजन, कर्णमूल चेचक, छोटी माता आदिके बाद—ऐन्थ्रा, आर्नि, बैरा-कार्ब, **ब्रोमि**।

स्राव (Discharge)—ऐलिसि, ऐलूमि, ऐलोज, ऐसिड-क्रूड, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, अरम, बैरा-म्यू, बेल, ब्रायो, **कैल्के-कार्ब**, कैल्के-फ्लू, कैल्के-फास, कार्बो-ऐ, **कार्बो-वेज, कास्टि**, कैमो, सिकि, **सिष्टा, कोनो**, क्रोटे-हो, इग्नेस, फ्लू-ऐ, **ग्रैफा, हिपर**, हाइड्रो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, **लाइको**, मार्क-कोर, **मार्क**, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, फास, **सोरि, पल्स**, रास-टक्स, सेलि, सिपि, **साइलि, सल्फ, टेलू**।

„ खूनका—आर्निका, बेल, ब्रायो, चायना, सिकि, क्रोटे-हो, इग्ने, हैमो, मार्क, ओपि, पेट्रो, **फास**, पल्स, रासटक्स।

„ खून मिला—ऐमोन-कार्ब, आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के-कार्ब, कार्बो-वेज, चायना, क्रोटे-हो, ग्रैफा, हैमा, हिपर, लैके, **मार्क**, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, **सोरि**, पल्स, सिपि, **साइलि**, सल्फ।

„ गन्धकके अपव्यवहारके बाद—कैल्के, मार्क, पल्स।

„ गाढ़ा—कैल्के-स, कार्बो-वेज, हाइड्रो, कैलि-बा, कैलि-फ्लो, **पल्स**।

„ छोटी माताके बाद—कैक्ट, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, लाइको, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सल्फ।

„ पाराके अपव्यवहारके बाद—ऐसाफि, अरम, हिपर, नाइट्रि-ऐ, साइलि, सल्फ।

„ पानी जैसा पतला—**आर्स**, कैल्के-कार्ब, सिस्टा, इग्नेस, ग्रैफा, कैलि-स, **लाइको**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, साइलि, सिकि, सोरि, सल्फ, टेलू, थूजा।

„ पीले रङ्गका—आर्स, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-स, लाइको, मार्क, नेट्र-स, पल्स।

स्राव पीली आभा लिये हरा—इग्नेस, कैलि-फ्लो, मार्क, पल्स।

„ पीवकी तरह (Purulent)—ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐनोझ, ऐमोन कार्ब, आर्निका, ऐसाफि, ऐरण्ड, अरम, बोरैक्स, बोवि, **कैल्कं कार्ब**,

कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, सिस्टा, कोना, ग्रैफा, **हिपर**, हाइड्रो, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-स, लैके, **लाइको, मार्कु**, मार्कु-कोर, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, **सोरि, पल्स**, सिपि, **साइलि**, सल्फ, जिङ्क।

स्राव बदबूदार—आर्स, आर्स-आयोड, अरम, कैल्के-कार्ब, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, **सिस्टा**, फ्लोरिक, हिपर, कैलि-बा, **मार्कु**, मार्कु-कोर, नाइट्रि-ऐ, **सोरि, सल्फ, टेलू**, थूजा।

" *बुरी-गन्ध—अप्रिय गन्ध* (*Offensive*)—आर्स, **अरम**, बैरा-म्यू, कैल्के-कार्ब, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिस्टा, ग्रैफा, हिपर, हाइड्रो, कैलि-बा, **लाइको**, मार्कु-कोर, **मार्कु**, नाइट्रि-ऐ, **सोरि**, पल्स, **स्पाइजि**, सल्फ, थूजा।

" मधुकी तरह—ग्रैफा।

" रोगके उपसर्ग रूपमें (Sequelae)—अरम, कैक, कैल्के-कार्ब, **कार्बो-वेज**, कोलचि, हिपर, लाइको, नाइट्रि-ऐ, **पल्स, सोरि**, सल्फ।

" श्लेष्मा—बेल, कैल्के-कार्ब, फेरम फास, ग्रैफा, हाइड्रो, **कैलि-बा**, लाइको, **मार्कु**, फास, **पल्स**, सल्फ।

" सड़ी गन्ध—टेलू।

" सफेद—हिपर, कैलि-क्लोर।

हड्डीके जख्मकी वजहसे या सम्भावना होनेपर—ऐसाफि, **अरम**, कैल्के-कार्ब, कैल्के-फ्लू, नेट्र-म्यू, नाइट्रि, सल्फ।

" हरा—इलै, हिपर, लाइको, मार्कु।

नाक। (NOSE)

अर्बुद (Tumour)—कैलि-बा।

" कड़ा—आर्स।

" कैन्सर (Cancer)—आर्स, **अरम**, अरम-म्यू, कैल्के-कार्ब, कार्बो-ऐ, मार्कु, फाइटो, सिपि, सल्फ।

" पालिपस (Polypus)—ऐलि-सि, एपिस, अरम, बेल, **कैल्के-कार्ब**, **कैल्के-फास**, ग्रैफा, कैलि-ना, लाइको, मार्कु-आ-रू, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, **सैंगु**, सिपि, साइलि, सल्फ, टियु, थूजा।

" " उससे सहजमें ही खून गिरना—कैल्के-कार्ब, कैल्के-फास, फास, थूजा।

अस्थि-क्षय (Caries)—**ऐसाफि**, **अरम**, अरम-म्यू, हेक्ला, हिपर, मार्कु-आ-रू, फास, साइलि, स्टिलि।

" उपदंशके कारण—कैलि-बा।

उत्ताप—(गर्मी-Heat)—एपिस, बेल, कोना-इ, कैन्थ, कैमो, **चायना**, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, नक्स-वोम, सोरि, सैंगु, थूजा।

" अगले भागमें (ठोर)—नैट्र-म्यू।

" जड़में—कैलि-बा।

" श्वास प्रश्वास गर्म मालूम होना—**कैलि-बा**, रास-टक्स।

खुजलाहट (Itching)—ऐगा, आर्जनाइ, ऐरम-ट्रि, अरम, कैल्के, कार्बो-वेज, चेलिडो, **सिना**, कैलि-कार्ब, मैग-म्यू, मेजी, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, साइजि, **सल्फ**।

" अगले भागमें (ठोरमें)—कास्टि, चेलिडो, कोना, मार्कु, पेट्रो, सिपि, साइलि।

" फनक—**कास्टि**, नेट्र-स, सल्फ।

" भीतरकी ओर—ऐगा, आर्ज-मेट, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, सिना,

कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिकि, सिमि, **सिना**, कोना, साइक्ला, ड्रोसि, डाल्का, युफ्रे, युफ्रे-पार्फ, गैम्बो, ग्रैफा, आइयो, इपि, कैलि, बा, कैलि-आयोड, कैलि, क्रियो, लैक-कै, लैके, लाइको, मार्क, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ए, नक्स-म, **नक्स-वोम,** ओस्मि, पेट्रो, फास, फास-ए, प्लैण्टे, **पल्स**, रास-रू, रास-टक्स, रूमेक्स, सेवाडि, सैलि-ए, सैंगु, सिनि, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि, स्क्युइला, स्टैफि, **सल्फ**, टैरे, टियु।

—ऐलि-सि, कास्टि, माइमेक्स, जेल्स, कैलि-बा, क्रियो, मैग-कार्ब, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, **सल्फ**।

मकी—आइयो, पल्स, सल्फ।

तमें—अरम-ट्रि, इग्लेप्स, रियुमेक्स।

पड़ा उतारनेपर—हिपर, मार्क, रास-टक्स।

मैं कमरेमें—ऐलि-सि।

र्दीके साथ (With Coryza)—"सर्दी" देखिये।

दा-सर्वदा (Frequent)—ऐलि-सि, **आर्स**, अरम, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कास्टि, साइक्ला, ड्रोसि, डाल्का, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ए, **नक्स-वोम,** फास, प्लैण्टे, सैंगु, स्कुइ, स्टिक्टा, **सल्फ**, जिङ्क।

Ulcers)—ऐनाग्नि, ऐम्ब्रा, ब्राइयो, कास्टि काफि, फ्लू ए, कैलि-ब, नेट्र-कार्ब

घ्राण-शक्ति, अण्डे की गन्धसे मिचली और वमन—कोलचि।

„ फूलकी गन्ध—ऐलि-सि, **ग्रैफा**, लाइको, **नक्स-वोम**, **फास**, सैंगु।

„ भोजनके पदार्थकी गन्धसे—आर्स, कोलचि, सिपि।

„ मछलीकी „ „ और मूर्च्छा—कोलचि।

„ रसोईकी गन्धसे जी मिचलना—कोलचि, डिजि, युपे-पर्प्यु, सिपिया।

„ ह्रास (घटी) (Diminished)—ऐलूमि, ऐगा, आर्ज-ना, वेल, कैल्के, कैप्सि, काफि, साइक्ला, हेलि, हिपर, **हाइयो**, लाइको, मेजि, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, **सिपि**, **साइलि**।

घ्राण-शक्ति-नष्ट, (Loss of)—ऐलूमि, ऐमोन-म्यू, ऐना, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-आर्स, अरम, **वेल**, ब्राइयो, **कैल्के**, **कैप्सि**, कास्टि, कैमो, कूप्रम, इलै, ग्रैफा, **हिपर**, हाइयो, आइयो, इपि, कैलि-बा, कैलि-आयोड, कैलि-स, लाइको, मैंग-म्यू, मेजि, माकुं-कोर, नेट्र-कार्ब, नेट्र-आर्स, **नेट्र-म्यू**, नक्स-मस, ओपि, **फास**, **प्लम्ब**, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सैङ्गु, सैवा, सिपि, **साइलि**, सल्फ, सल्फ-ऐ, टियुक्रि, जिङ्क।

चर्मोद्भेद—

„ एकजिमा (Eczema)—वैलिस-पेरू, आइरिस, सार्सा।

„ खाल उधड़ना—कास्टि।

„ पीव भरे दाने—**हिपर**, पेट्रो, सोरि, साइलि।

„ मसे (Warts)—कास्टि, थूजा।

„ व्रण (१) आर्स-ब्रोम, कास्टि। (२) आर्स, ऐस्टिरि, बोरैक्स, क्लिमेटिस, इलैप्स, कैलि-ब्रोम, नेट्र-कार्ब, साइलि, जिङ्कि।

„ विसर्प (Erysipelas)—वेल, कैन्थ, रास-टक्स।

„ विष-व्रण (Furnucles)—हिपर, कैडमि-स, क्यूरे, साइलि।

„ हारपिस (Harpes)—ऐकोन, ऐलोज, वेल, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, सिपिया, सल्फ।

छींक (Sneezing)—ऐकोन, इस्कु, ऐगा, एलि-सि, ऐमोन-म्यू, ऐना, ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, **आर्स**, अरम, बैडि, बोरैक्स, वेल, ब्रोमि, **ब्राइयो**, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि,

कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिकि, सिमि, **सिना**, कोना, साइक्ला, ड्रोसे, डालका, युफ्रे, युफ्रे-पार्फ, गैम्बो, ग्रैफा, आइयो, इपि, कैलि, बा, कैलि-आयोड, कैल्मि, क्रियो, लैक-कै, लैके, लाइको, मार्कु, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओलि, पेट्रो, फास, फास-ऐ, प्लैण्टे, **पल्स**, रास-रू, रास-टक्स, रूमेक्स, सैबाडि, सैलि-ऐ, सैंगु, सिनि, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि, स्क्वइला, स्टैफि, **सल्फ**, टैरे, टियु।

छींक-सवेरे—ऐलि-सि, कास्टि, साइमेक्स, जेल्स, कैलि-बा, क्रियो, मेग-कार्ब, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, **सल्फ**।

„ शामको—आइयो, पल्स, सल्फ।

„ रातमें—आरम-ट्रि, इलैप्स, रियुमेक्स।

„ कपड़ा उतारनेपर—हिपर, मार्कु, रास-टक्स।

„ गर्म कमरेमें—ऐलि-सि।

„ सर्दीके साथ (With Coryza)—"सर्दी" देखिये।

„ सदा-सर्वदा (Frequent)—ऐलि-सि, **आर्स**, आरम, बेल, ब्रोमि, आइयो, कार्बो वेज, कास्टि साइक्ला, ड्रोसे, डल्का, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, प्लैण्टे, सैंगु, स्क्वइ, स्टिक्टा, **सल्फ**, जिङ्क।

जखम (Ulcers)—ऐनान्थि, ऐम्ब्रा, आइयो, कास्टि काफि, फ्लू-ऐ, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, नेट्र-कार्ब।

„ छेद-भरा (Perforating)—फ्लू-ऐ, कैलि-बा, मार्कु।

„ „ जलन मिला—आर्स, साइलि।

„ नाकके अगले भागमें—औरैक्स, आइयो, **कास्टि**।

„ „ फलफला—कैलि-बार्ब, **पल्स**, सैनि।

„ „ भीतरकी ओर—बोरैक्स आइयो, कास्टि।

„ „ सेप्टममें (Septum)—कैल्के कार्ब, फ्लू ऐ, कैलि-बा, कैलि आयोड, साइलि, सिफि, टूजा।

टपक (Pulsating)—ऐगा, आर्स-मेट, आर्स, क्रोमोमि, **कैलि-आयोड**, लैंग म्यू, साइलि।

टपक, नाककी ठोरमें—फास-ऐ।

„ „ जडमें—कैलि-बा, सँबा, बोरैक्स।

ठण्डी मालूम होना (Coldness)—आर्स, कैम्फ, **कार्बो-वेज,** चायना, **क्रोटे-हो,** इग्ने, **लैक्ष-कै,** नक्स-वोम, प्लम्ब, पल्स, साइलि, स्पिजि, **विरे।**

„ अग्र भाग (ठोर)—**एपिस,** आर्निका, आर्स, कैल्के-फास, लैके।

„ साँस लेनेपर—सिस्टा, कोरा-रू, हाइड्रो।

डिप्थीरिया—ऐमोन-कार्ब, हाइड्रो, कैलि-कार्ब, लाइको, पेट्रो।

दर्द—(Pain)—ऐकोन, आर्जे-ना, आर्स, अरम-ट्रि, **अरम,** बेल, कैल्के, **ग्रैफा, हिपर,** आइयो, **कैलि-बाई,** कैलि-आयोड, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, **पल्स,** सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ नाक छिडकनेपर—अरम, हिपर, आयोड, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, टियू, नेट्रम-म्यूर, साइलि।

„ „ छूनेपर—अरम, बेल, हिपर, मैंग-म्यू, **मार्कु,** नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास, रास्टक्स, साइलि।

„ फैलना अगले भाग ठोरतक (Tip of nose)—बैरा-कार्ब, बेल, सिस्टा, लाइको, प्लम्ब।

„ „ फैलता है, कानतक, निगलनेके समय—इग्ने।

„ „ आँखतक—हिपर, लाइको।

„ „ मस्तिष्क तक—साइलि।

„ „ कनपटी तक—कैलि बाइक्रोम, मैंग-कार्ब।

„ „ जडमें नाकके (Root of the nose)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐसिट-आर्स, अरम-ट्रि, बैप्टी, कार्बो-वेज, चायना, इलैप्स, फेरम, ग्लोनो, **हिपर,** इग्ने, **कैलि-बाई,** मार्कु, मार्कु-आ-फ्ले, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, पेट्रो, फास, फाइटो, पल्स, सँगु, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ „ „ सर-दर्दके साथ—ऐगा, फेरम, ग्लोनो, हिपर, मार्कु, मेजे।

„ पलकोंमें—बैरा-का, कैल्के-कार्ब।

„ भोतर—ग्रैफा।

दर्द भीतर, पीछेकी ओर (Posterior nares)—इलैप्स, कैलि-बैं।
„ मस्तिष्कमें—साइलि।
„ सेप्टममें—ऐलूमि, कास्टि, ग्रैफ, कैलि-बाइक्रोम, साइलि।
„ हड्डीमे नाककी—आर्ज-ना, आर्स, **ऑरम**, कार्बो-ऐ, हिपर, **कैलि-बाई**, कैलि-आर्स, मार्कु, फास, पल्स, साइलि, सल्फ।

दर्दका प्रकार—
„ अकड़न, जखम जैसा दर्द (Soreness) भीतरकी ओर—इस्कि, ऐलूमि, ऐमोन-म्यू, आर्स, अर ट्रि, **ऑरम**, ब्रोमि, कोल्चि, कोना, ग्रुफ्रे, **ग्रैफा**, हिपर हाइपे, इग्ने, **कैलि-बाइक्रोम**, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लैके, मैग-म्यू, मैङ्ग, मार्कु-कोर मार्कु, मेजे, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐसि, पेट्रो, रास-टक्स, साइलि, स्काइला, थूजा, टियु, जिङ्क।
„ „ बाहरकी ओर (Externally) आर्स, बेल, ब्रोमि, कोल्चि, हिपर, पेट्रो, फास, पल्स।
„ „ अग्रभाग नाकको ठोरमें—बेल, बोरैक्स, कोनायम, लिथि कार्ब।
„ „ किनारे किनारे—ऐमोन-म्यू, कौस्टि-फास।
„ „ छूनेपर—ऐलूमि, **ऑरम**, बेल, कोल्चि, हिपर, कैलि बाइक्रोम, मैग-म्यू, मार्कु, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ **फास**, साइलि।
„ „ जड़में नाककी—कैलि-बाइक्रोम, निक्रो, नाइट्रि-ऐसि, फास।
„ „ नाक छिड़कनेपर—ऑरम ग्रैफा, नेट्र म्यू, साइलि।
„ „ पीठमें, नाकके (Dorsum)—**हिपर**, फास, साइलि, पेट्रो, कैलि-बाइक्रोम, नेट्रम-कार्ब।
„ „ फुनगीमें नाकके—कोल्चि, आइयो, कैलि बाइक्रोम, नेट्रम म्यू।
„ „ मास लेनेमें—इस्कि, ऐगिरम म्यू, लिथि।
„ „ सेप्टममें—ऐलूमि, कोल्चि, हाइड्रो **कैलि-बाइक्रोम**, मैक ग्रो, मैग-म्यू, मार्क, पि-फास, म्यू-ऐ, साइलि थूजा।
„ „ हड्डीमें नाककी—**ऑरम**, हिपर, मार्कु, नेट्रम म्यु।
„ काटता है, मानो घुसाने (Cutting)—डाल्फिना कैलि-बाइक्रोम, कैलि आयोड।
„ „ जड़में—कैलि बाइक्रोम, नेट्र मा सल्फ।

दर्दका प्रकार—

„ काटता है, हड्डीमें—आयोड, कैलि-आयोड, मार्क्-आ।

„ काटना (मानो दाँतसे)—अरम, ब्राइयो, कार्बो-वेज, मेजी, सेबाडि।

„ काँटा मानो बिंध रहा है (Prickling)—आर्ज-नैट, कैल्को, लैकै, नेट्र-फास, सल्फ-ऐ।

„ कुटकुटाना (Aching)—सिमि, इलैप्स, मार्क्-आ-फ्ले।

„ „ जडमें—कैलि-बाइक्रोम, नेट्र-आ, सल्फ।

„ कुचलनेकी तरह (Bruised)—आर्निका, बेल, सिना, हिपर, पल्स, साइलि।

„ चबानेकी तरह मानो (Gnawing)—मार्क्, **साइलि।**

„ „ हड्डीमें—**कैलि-आयोड।**

„ छूनेसे—ऐमोन-म्यू, ब्राइयो, पेट्रो, साइलि।

„ जखमकी तरह (Ulcerative)—आर्निका, हिपर, कैलि-कार्ब, पल्स, स्टैफि।

„ जलन (Burning)-भीतरकी ओर—इस्कि, ऐलि-सि, ऐमोन-कार्ब, एपिस, **आर्स,** कैन्थ, कैप्सि, कास्टि, सिस्टा, कोलोसि, कोना, क्रोटन-टिग, हिपर, हाइड्रेस्टिस, कैलि-बाइक्रोम, कैलि-कार्ब, **कैलि-आयोड,** मैग-म्यू, मार्क्-क्रोर, मेजी, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, सल्फ।

„ „ अगले भागमें—बेल, कैप्सि, कार्बो-ऐ, साइलि।

„ „ जडमें—कार्बोनि-स, कैलि-बा, नेट्र-म्यू।

„ „ पलकोंमें—ऐलि-सि, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

„ „ सर्दीके साथ—इस्कि, ऐमोन-कार्ब, **आर्स,** कास्टि, जेल्स, सल्फ, सिपि।

„ „ हड्डीमें—**कैलि-आयोड,** मेजी, नेट्र-म्यू, फास।

„ टपक (Pulsating)—आर्स, बेरैयस, कोलोसिन्थ, कैलि-बा, फास-ऐ।

„ दबा रखनेकी तरह मालूम होना (Pressing), जडमें—ऐकोन, ऐलि-सि, बैप्टी, ब्रोमि, कैल्के, साइक्ला, डाल्का, हाइयो, **कैलि-बाई,** लैक-डि, नेट्र-म्यू, पल्स, रैना-बा, सिपि।

दर्दका प्रकार, बढ़ना-सोनेपर—बोरेक्स ।

„ फाड़ता है, मानो (Tearing)—कोल्चि, चायना, सिपि ।

„ „ जड़में—मार्क-कोर, फास ।

„ „ हड्डीमें—अरम-म्यू ।

„ „ भीतरकी ओर—ऐमोन-म्यू, आर्स, अरम, हिपर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, साइलि ।

„ सुरसुरीकी तरह (Tingling) भीतरकी ओर—ऐलि सि, आर्निका, कैप्सि, कोल्चि, कोनायम, जेल्स, हिपर, रैना-बा, सैबाडि, ट्रियुक्रि ।

„ सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—इस्कु, एपिस, अरम, बेल, कैलि कार्ब, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सेपु ।

„ „ खाँसनेके समय—नाइट्रि-ऐ ।

„ „ जड़में—ऐकोन, मार्क-आ-फ्ले, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि ऐ, फास, रासृक्स, साइलि ।

„ „ नाक छिड़कनेके समय—कैलि-कार्ब, नाइट्रि-ऐ ।

„ „ सेप्टममें- अरम, चायना, कोना, आइयो, सिनेमो ।

„ „ हड्डीमें—आर्स, कोल्चि, कैमो, सिना, लैके, स्पञ्जि ।

„ घटना—मलनेपर—बेल ।

„ „ सोनेपर—कूप्रम ।

„ „ दबानेपर—ऐग्नस ।

„ बढ़ना दबानेपर—चायना, कोनायम, कूप्रम, थाम ।

„ „ सोनेपर—बोरेक्स ।

„ „ हिलनेपर—कूप्रम ।

नाक छिड़कनेकी इच्छा बार बार—बोरेक्स, बोवि हिपर, नाइट्रो नेट्र म्यू, फास सोरि स्टिक्टा, सल्फ, टियु ।

„ „ कारण, मानो कुछ भीतर पड़ा हुआ है—टियु ।

नकियाना (Snuffle)—ऐमोन कार्ब, ऐमन्ति ड्राई आरम हेपर लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सैम्बु ।

„ बच्चोंका—डल्कामा, नक्स-वोम, पल्स सैम्बु ।

दर्दका प्रकार—

„ काटता है, हड्डीमें—आयोड, कैलि-आयोड, मार्कु-आ।

„ काटना (मानो दाँतसे)—अरम, ब्राइयो, कार्बो-वेज, मेजे, सैबाडि।

„ काँटा मानो बिंध रहा है (Prickling)—आर्ज-मेट, कैल्के, लेके, नेट्र-फास, सल्फ-ऐ।

„ कुटकुटाना (Aching)—सिमि, इग्नेस, मार्कु-आ-फ्ले।

„ „ जडमें—कैलि-बाइक्रोम, नेट्र-आ, सल्फ।

„ कुचलनेकी तरह (Bruised)—आर्निका, बेल, सिना, हिपर, पल्स, साइलि।

„ चबानेकी तरह मानो (Gnawing)—मार्कु, साइलि।

„ „ हड्डीमें—कैलि-आयोड।

„ छूनेसे—ऐमोन-म्यू, ब्राइयो, पेट्रो, साइलि।

„ जखमकी तरह (Ulcerative)—आर्निका, हिपर, कैलि-कार्ब, पल्स, स्टैफि।

„ जलन (Burning)-भीतरकी ओर—इस्कि, ऐलि-सि, ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्स, कैन्थ, कैप्सि, कास्टि, सिस्टा, कोलोसि, कोना, क्रोटन-टिग, हिपर, हाइड्रैस्टिस, कैलि-बाइक्रोम, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, मैग-म्यू, मार्कु-कोर, मेजे, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, सल्फ।

„ „ अगले भागमें—बेल, कैप्सि, कार्बो-ऐ, साइलि।

„ „ जडमें—कार्बोनि-स, कैलि-बा, नेट्र-म्यू।

„ „ पलकोंमें—ऐलि-सि, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

„ „ सर्दीके साथ—इस्कि, ऐमोन-कार्ब, आर्स, कास्टि, जेल्स, सल्फ, सिपि।

„ „ हड्डीमें—कैलि-आयोड, मेजे, नेट्र-म्यू, फास।

„ टपक (Pulsating)—आर्स, बोरैक्स, कोलोसिन्थ, कैलि-बा, फास-ऐ।

„ दबा रखनेकी तरह मालूम होना (Pressing), जडमें—ऐकोन, ऐलि-सि, बैप्टी, ब्रोमि, कैल्के, साइक्ला, डल्का, हाइयो, कैलि-बाई, लैक-डि, नेट्र-म्यू, पल्स, रैना-बा, सिपि।

दर्दका प्रकार, बढ़ना-सोनेपर—बोरैक्स।

„ फाड़ता है, मानो (Tearing)—कल्के, चायना, सिपि।

„ „ जड़में—मार्क कोर, फास।

„ „ हड्डीमें—अरम-म्यु।

„ „ भीतरकी ओर—ऐमोन-म्यु, आर्स, अरम, हिपर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, साइलि।

„ सुरसुरीकी तरह (Tingling) भीतरकी ओर—ऐलि सि, आर्निका, कैप्सि, कोल्चि, कोनायम, जेल्स, हिपर, रैना-बा, सेबाडि, ट्रियुक्रि।

„ सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—इस्कु, एपिस, अरम, बेल, कैलि-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सैंगु।

„ „ खाँसनेके समय—नाइट्रि-ऐ।

„ „ जड़में—ऐकोन, मार्क-आ-फ्ले, नेट्रम-म्यु नाइट्रि ऐ, फास, रास्टक्स, साइलि।

„ „ नाक छिड़कनेके समय—कैलि-कार्ब, नाइट्रि-ऐ।

„ „ सेप्टममें- अरम, चायना, कोना, आइयो मिनिमो।

„ „ हड्डीमें—आर्स, कल्के, कैमो, सिना, मैके, ऐपिस।

„ घटना—मलनेपर—बेल।

„ „ सोनेपर—कृप्रम।

„ „ दबानेपर—ऐम्ना।

„ बढ़ना दबानेपर—चायना, कोनायम, कृप्रम, फास।

„ „ सोनेपर—बोरैक्स।

„ „ हिलनेपर—कृप्रम।

नाक छिड़कनेकी इच्छा, बार बार—बोरैक्स बोवि हिपर कार्बो, नेट्रम्, फास, सोरि, स्टिक्टा, पल्स, टियु।

„ „ कारण, मानो कुछ भीतर भरा रहा है—टियु।

नकियाना (Snuffle)—ऐमोन कार्ब ऐसाफि ड्राई, कल्का हसेप लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सैम्बु।

„ बच्चोंका—डामरा नक्स-वोम, पल्स सैम्बु।

नोकदार नाक (Pointed Nose)—ऐण्टि-टार्ट, आर्स, कोम्फ, कार्बो-वेज, कूप्रम, हेलि, लैके, नक्स-वोम, फास-ऐ, स्टेफि, **विरे** ।

पपड़ी जमना (Crusts, Scabs)—ऐगा, ऐलूमि, ऐलोज, आर्जे-ना, आर्स, अरम, बोरेक्स, **वोवि,** ब्रोमि, ब्रायो, कल्के, कार्बो-ऐ, फेरम, ग्रैफा, हिपर, **कैलि-बा,** केयोलिन, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, नेट्र-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, सैनि, **सिपिया,** साइलि, **स्टिक्टा** सल्फर, **थूजा** ।

„ नाककी दीवारमें-(सेप्टम)—कैलि-बा, साइलि, सोरि, थूजा ।

„ काली—ड्रोसे ।

„ खाकी रङ्गको—कैलि-कार्ब ।

„ पीली—अरम, कैलि-कार्ब, कैलि-बा, मैग-म्यू, रोडो ।

„ बादामी—कैलि-कार्ब, थूजा ।

„ लाल आभा लिये—पेरि, केल्के-कार्ब ।

„ सफेद—कैलि-बा ।

„ हरी—नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ ।

„ खींचनेसे बढना—कैलि-बा, लाइको ।

„ नोंच फेंकना कठिन, निकालनेसे जखम हो जाता है और दर्द होता है—नाइट्रि-ऐ, कैलि-बा ।

„ निकालनेसे दर्द और जबतक पपडी नहीं जमती, तबतक खून गिरा करता है—आर्स, आर्जे-ना, कैलि-कार्ब ।

प्रदाह—(Inflammation)—आर्निका, ऐसाफि, अरम, वेल, ब्रायो, कल्के, कैन्थ, कास्टि, कोना, क्रोटन-टिग, फ्लु-ऐ, हिपर, **लैके,** मार्क, मार्क-आ रू, नेट्र-कार्ब, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ ।

„ अगले भागमें—अरम, वेल, कार्बो-ऐ, **कास्टि,** क्रोटे-होर, कैलि-ना, लैके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, रास-टक्स, सिपि, सल्फ ।

„ धीमा—मेजे ।

„ नाककी दीवारका (Septum)—सोरि ।

„ पुराना (Chronic)—फ्लु-ऐ ।

प्रदाह—भीतरकी ओर—ऐगा, वेल, ब्रायो, कैल्क, हिपर, कैलि-बा, केलि-आयोड, फास, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

„ विसर्पकी तरह (Erysipelatous)—एपिस, अरम-म्यु, कोल्के, ग्रेफा, रास्टक्स, स्ट्रैमो।

„ अराबियोका—आर्स वेल, कैल्के, हिपर, लेके, मार्कु, पल्स, सल्फ।

„ हड्डोका—अरम, अरम-म्यु, हिपर।

फटा घाव (Cracks)—ऐसिड-क्रूड, अरम, अरम-म्यु, ग्रेफा, पेट्रो।

„ अगले भागमें—ऐलुमि, कार्बो-ऐ।

„ नांसे सबमें—ग्रेफा, मार्कु।

„ पलकोंमें—अरम-म्यु, हिपर, मार्कु, थूजा।

फलन (Swelling)—ऐलुमि, एपिस, आर्निका, आर्स, अरम, बेल्टो, बैरा-कार्ब, वेल, ब्रायो, कैल्कि कार्व, कैल्के-फास, कैम्फ, काकु, फेरम-आर्स, ग्रैफा, गुवे, हिपर, आयो, कैलि बा, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग-म्यु, मार्कु-कोर, मार्कु, नेट्र-म्य, नाइट्रि-ऐ, फास, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स रास-वे, सिपि, साइलि, सलफ टियु जिङ्क।

„ दाहिने—अरम, कैलि-वा, लिथि, मेजे, मार्कु-आ-फ्ले।

„ वायें—ऐलुमि, अरम-म्यु, कैल्के-कार्ब, फास्ड्रो, मैके, नेट्र म्यु।

„ अगले भागमें—वैल बोरैक्स, ब्रायो, कास्टि, सेनिशो, फोर्टे शेर, कैलि कार्ब, सिपि, सल्फ।

„ जड़में—कैल्के-कार्ब, कैलि-बा, मार्कु, नाइट्रि ऐ, पेट्रो।

„ दोनों फलकोंमें—कैलि-कार्ब, नेट्र म्यु, नाइट्रि ऐ, सल्फ।

„ नाककी दीवारमें—ऐलुमि, कास्टि, मार्कु, मार्कु-आ फ्ले।

„ भीतर—ऐकोन, कैल्के, गुफ़े, इग्ने, कैलि बा कैलि कार्ब, मेजे, हार्ट, नेट्र म्यु, सिपि, साइलि, टियु।

„ हड्डोमें—हिपर, आइयो, कैलि कार्ब, मार्कु, मार्कु आ फ्ले, फास।

फोड़ा (Abscess)—कैल्के, हिपर, मैग म्यु, ग्रिलोम-कार्ब मार्कु, साइलि।

बड़ा होना, दोनो छेद (Dilated Nostrils)—ऐसिट-टार्ट, आर्स, लाइको, स्पञ्जि।

बदबूदार श्वांस (Fœtid exhalations)—ऐगा, आर्स, **अरम**, कैल्के, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, कैलि-बा, लाइको, **मार्कु**, नाइट्रि-ऐ, फास, **पल्स**, सिपि, साइलि, **सल्फ**।

बन्द—(रुकी हुई-Obstructed)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि सि, ऐलूमि ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐसिट-क्रूड, आर्जे-नाइट्रि, **आर्स, ऐरा-ट्राई, अरम**, अरम-म्यू, कैल्के, **कौस्टि**, कार्बो-ऐसिड, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, कोलोसि, कोना, क्रूप्रम, डिजि, डालका, इलैप्स, ग्रैफा, हिपर, हाइड्रो, आयोड, इपि, **कैलि-बा**, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, **लाइको**, मैग-म्यू, मैङ्ग, मार्कु, मार्कु-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्र-आर्स, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, पेट्रो, फास, फाइटो, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, रूमेक्स, रैवाडि, **सैम्बु**, सैङ्गु, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्टिक्टा, सल्फ, टियु, जिङ्क।

„ प्रातः कालके समय—कैल्के, कार्बो-ऐ, हिपर, कैलि-बा, लाइको, फास।

„ सन्ध्याके समय—कार्बो-वेज, युफ्रे, आयोड, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-म्यू, **पल्स**, रैन-बा, टियु।

„ रातमें—ऐगा, **ऐमोन-कार्ब**, आर्स, बोवि, कैल्के, कास्टि, फेरम, आर्स, **लाइको**, नेट्र-आर्स, नेट्र-कार्ब, नक्स-वोम।

„ अथच पानीकी तरह सर्दीका स्राव बहना—आर्स, क्रूप्रम, मार्कु-कोर।

„ एक ओरकी नाक—ब्रैन, नक्स-वोम, फ्लोडो, स्टैफि, सल्फ।

„ घरके भीतर—कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ दाहिनी ओर बाईं नाक—पर्यायक्रमसे—लैके, नक्स-वोम, ऐमोन-कार्ब, मैग म्यू, मेजे, फ्लोडो।

„ नये जनमे बच्चोंकी—अरम, कैलि-बा, नक्स-वोम।

„ नींदके समय—सैम्बु, ऐमोन-कार्ब, **आर्स, लाइको**।

„ पुराना—कोना, साइलि, सल्फ।

बन्द—घटना-खुली हवामें—आर्ज-नाई, फास, फ्लोडो, सल्फ।

„ वृद्धि-बर्सातके समय—डालका, इलैप्स, सेङ्ग।

बाहर निकल आना, नाकसे पतले पदार्थ, निगलनेके समय (Liquids come out through the nose, attempting to swallow)—आरम-ट्रि, बैरा-कार्ब, कार्बो-ए, कास्टि कैलि बा, लैका-कै, लैकि, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-सा, नेट्र-म्यू, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, सल्फ-ए।

बैठी-नाक (Sunken)—आरम, हिपर, साइलि।

भरापन मालूम होना (Fullness)—बैप्टी, केमो, कैलि-आयोड, लैक-कै, फास, सेने।

„ जडमें—कैलि-बा, पेरि, स्टिक्टा।

भार मालूम होना (Heaviness)—एमोन-कार्ब, कास्टि, कैमो, कोनि, क्रोटे-हो, युफ्रे, मार्क, सेंगु, साइलि, स्टैनम।

मसा (Warsts)—कास्टिक, नाइट्रि-ए, थूजा।

रक्त-गिरना (Epistaxis)—एकोन, एलि-सि, ऐम्ब्रा, एमोन कार्ब, एण्टि-क्रूड, आर्ज-मेट, आर्निका, आर्स, बैप्टी, बैरा कार्ब, बेल, बार्बे, बोथि, ब्रोमि, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के-कार्ब, कैना-इं, कैप्सि, कार्बो-ए, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चाइना, सिना, कोना, कोपे, क्रोक, क्रोटे-होर, डिजि, ड्रोसे, डालका, इरिजि, फेरम, फेरम-फास, ग्लोनो, ग्रैफा, हेमा, हेक्ला, हिपर, हाइड्रो, हायो, इपि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, क्रियो, लैकि-ए, लैके, लिडम, लाइको, मेडो, मेलि, मार्क, मार्क-कोर, मिलि, मस्क, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ए, नक्स-मस, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ए, पल्स, रैटा, रोडो, रस टक्स, रूमेक्स, सैबाइना, सेंगु, सिकेलि, सिपिया, साइलि, सल्फ, सल्फ-ए, टेरि, थ्लाप्सि।

सर्दी—एकोन, एम्ब्रा, आरम ट्रि, बेल, बोथि, ब्राइयो कार्बो-ए, कार्बो वेज, कास्टि, चाइना, क्रोक, ग्रैफा हेमा, कैलि कार्ब,

लेकि-ऐ, लैके, नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिफि, स्टैनम, सल्फ।

रक्त गिरना—उठनेके बाद—**ब्राइयो, चायना,** फेरम।

„ तीसरे पहर—कैल्के-फास, कैमो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

„ सन्ध्याके समय—ऐसिट-क्रूड, कोलचि, फेरम, ग्रैफा, लैके, लाइको, फास, पल्स, सिपिया, सल्फ, सल्फ-ऐ।

„ रातमें—बेल, कार्बो-वेज, माकुर्, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रासटक्स, विरे।

„ अपरिमित भोजनके बाद—कार्बो-वेज, लैके।

„ अर्शका स्राव रुकनेकी वजहसे—नक्स-वोम।

„ „ ऋतुके पहले—बैरा-कार्ब, **लैकि,** नेट्र-स, सल्फ, विरे।

„ „ „ समय—नेट्र-स, सिपिया, सल्फ।

„ „ „ लोप होकर—ऐकोन, बेल, **ब्राइयो,** कैक्ट, कोना, क्रोकस, जेल्स, **लैकि, फास, पल्स,** रास-टक्स, सेवाइ, सिपिया।

„ खाँसीके साथ—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, **ड्रोसे,** फेरम, इण्डि, इपि, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—काकि, सिपिया।

„ चोट लगकर—**आर्निका,** इलैप्स, हैमा, सिपिया।

„ झुकनेपर—फेरम, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रासटक्स, साइलि।

„ टाइफायड ज्वरमें—आर्निका, बैप्टी, ब्राइयो, कार्बो-वेज, विनि-स, **क्रोटे-हो,** जेल्स, **लैके,** फास ऐ, रास-टक्स।

„ डिफ्थीरिया रोगमें—कार्बो-वेज, चायना, क्रोटे-हो, हाइड्रो, इग्ने, कैलि-फ्लोर, लैके, माकुर्-स, नाइट्रि-ऐसि, फास।

„ नाक छिड़कनेके समय—ऐगा, **आर्निका,** अरम-म्यू, बोवि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, ग्रैफा, **लैकि,** नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **फास,** पल्स, सिपिया, **सल्फ,** थूजा।

„ „ सवेरे—ऐगा, बोविष्टा, कास्टि, **लैकि,** पल्स।

रक्त गिरना—निद्रावस्थामें—ब्राइयो, माकु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, विरे।

" मतवालोंको—लैके, सिकेलि।

" माथेमें रक्तकी अधिकताके कारण—वेन, क्रोक, ग्रेफा, मेलि, नक्स-वोम, पिक्रि-ऐ।

" माथेमें—चक्करके साथ—ऐग्रिट-क्रूड, कार्बो-ऐ, क्रोटे-हो, सल्फ।

" " दर्दके साथ—ऐकोन, ऐगा, वेन, सिनावे, लैके।

" मुंह धोनेके समय—ऐमोन-कार्ब, आर्निका, केलि-कार्ब।

" मूर्च्छाके समय—कोल्चि, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, क्रोक, लैके।

" रज रोधके साथ (With amenorrhoea)—ब्राइयो, कैक्ट, कोना, हैमा, लैके, फास, पल्स।

" सामयिक—कार्बो-वेज, केलि-कार्ब।

" हूप खांसीके समय (१) आर्निका, ड्रोसे, इपि (२) ब्राइयो, कोरा र, लिडम, माकु, म्यू-ऐ, नक्स-वोम।

रक्तका प्रकार, काला घोर—(Dark black)—ऐकोन, आर्निका, ऐमार, वेन, कार्बो-वेज, कैमो, सिना, क्रोक, क्रोटे-हो इग्नेश, हैमा, क्रियो, लैके, माकु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, सिपिया, स्ट्रैमो, सल्फ।

" घोर लाल—ऐकोन, वेन, कार्बो-ऐ, डल्का, इग्नेश, इरिजि, फेरम-फास, ब्राइयो, इपि, मिलि, मेशाई।

" थक्का थक्का (Clotted)—ऐकोन, आर्जे-ना, वेन, कैमो, क्रोक, फेरम, फेरम-म्यू, माकु, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, प्लेटि, पल्स, राम टक्स, सिके।

" " नहीं होता—क्रोटे-हो, हैमा।

" पतला—हैमा, लैके, नाइट्रि-ऐ, सिके, सल्फ ऐ।

" फीका—आर्निका, कार्बो-ऐ, क्रोटे-हो, ग्रेफा, नेट फास।

रंग (Colour)—लालिमा (Redness)—ऐलूमि, [illegible]

" " फेल्के, ग्रायना, [illegible] माकु- कोर, माकु, [illegible]

रंग लाल, अगले भागमें—अरम, बेल, कैल्के, कार्बो-ऐ क्रोटे-टिग, कैलि कार्ब, लैके, नाइट्रि-ऐ, फास, रासटक्स, सल्फ।

„ „ दीवार नाककी (Septum)—ऐलूमि, बोरैक्स, लिलि-टिग्।

„ „ फलस—कैलि-ब्रा, कैलि-कार्ब, मैग-म्यू, फास-ऐ, सैबाइना, सिना-मा।

„ „ भीतरकी ओर—ऐकोन, एपिस, आर्स, बेल, कैलि-आयोड, लैके, मार्कु, फास, सल्फ।

„ „ घोड़ेकी ज़ीनकी तरह—पार्थ-ग्नि।

„ „ पारेकी अपव्यवहारकी वजहसे—लैके।

„ „ बूंद बूंद—आइयो, फास-ऐ, क्रोटो, सार्सा, साइलि, विरे।

„ „ विसर्पकी तरह (Erysipelatous)—**एपिस**, रास वेन।

„ „ शराबियोंकी—लैके।

„ पीला—घोड़ेकी जीनकी तरह—कार्बो-ऐ, सैनि, सिपि।

सट जाते है, दोनो छेद—**अरम**।

सर्दी (Coryza)—ऐकोन, इस्कु, ऐगा, ऐलि-सि, **ऐम्ब्रा**, ऐमोन कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐण्टि-टार्ट, आर्जे-ना, आर्ज नैट, **आर्स**, आर्स-आयोड, ऐरा-ट्रि, **अरम**, बैरा-कार्ब, बेल, बोरैक्स, **ब्रोमि**, ब्राइयो, **कैल्के**, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कैमो, **चेलिडो**, चायना, सिना, साइक्ला, युफ्रे, **फेरम-फास**, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, आइयो, कैलि-ब्रा, कैलि-कार्ब, **कैलि-आयोड**, लैके, लाइको, **मार्कु**, मार्कु-कोर, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, **पल्स**, **रासटक्स**, रूमेक्स, सैबाडि, **साइलि**, स्पंजि, **स्टैफि**, स्टिक्टा, सल्फ, टियु।

„ आंखसे पानी गिरता है और बार बार छींक—(१) आर्स, ऐलि-सि, साइक्ला, युफ्रे, जेल्स, सेलि-ब्रा, नक्स-वोम, सैबाडि, (२) ऐकोन, आर्स-आयोड, कैम्फ, कैमो, यु-पार्फो, ड्रासि, मार्कु, नेट्र-म्यू, स्टिक्टा।

„ ऋतुके पहले—मैग कार्ब।

„ „ समय—ऐमोन कार्ब, ग्रैफा, कैलि-कार्ब।

„ खांसीके साथ—ऐकोन, ऐलि-सि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो,

कोलचि, युफ्रे, फेरम-फास, ग्रेफा, कैलि-ब्रा, लाइको, नेट्रि-स्यू, नाइट्रि-ऐ, रासटक्स, स्पंजि, स्टिक्टा, सल्फ, टेलू, थूजा।

सर्दी, खुली हवामें पतली, गर्म घरमें सूखी—आर्स, कोलोसि, आइयो, नक्स-वोम, पल्स, थूजा, सल्फ।

» गर्मीके बाद एकाएक सर्दी लगकर—आर्स।

» गलेमें घावके साथ—कार्बो-ऐ, कैल्के-फास, लैके, मर्कु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास।

» छातीमें दर्दके साथ—ऐमोन-कार्ब, बेल, फास-ऐ, सैंगु, सल्फ।

» दमाकी तरह श्वास कष्ट - आयोड, इपि, कैलि-आयोड, सिना-ना।

» पतला स्राव निकले (Fluent Coryza)—ऐकोन, ईस्क्यु, ऐगा, ऐलि-सि, ऐमोन-म्यू, ऐण्टि-टार्ट, आर्जे-मेट, आर्स, आरम-ट्रि, बैरा-कार्ब, बोरैक्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के-कार्ब, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, केमो, चायना, कोलोसि, कोरा-रु, क्रास, साइक्ला, ड्रोसे, डाल्का, इग्नेश, युपे-प, युफ्रे, ग्लोनो, हृग्ने, आइयो, केलि-ब्रा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, लाइको मार्कु, मार्कु-कोर, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सेबाडि, साइलि, स्पाइजि, स्क्विल, सल्फ, टेलु।

» सवेरे—ऐकोन, साइक्ला, युफ्रे, नक्स-वोम, सिपि, सल्फ।

» शामको—ऐलि-सि, थोपि, कार्बो वेज, रूमे।

» खुली हवामें—आर्स, कोलोसि, आइयो, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सल्फ, थूजा।

» घटना खुली हवामें—ऐकोन ऐलि सि, माइका नक्स-वोम, पल्स।

» » सवेरे—कार्बो-ऐ।

» » » ठण्डी हवामें—ऐलि-सि, माइका।

» बढ़ना ठण्डी हवामें—कैल्के-फास, डालका, मार्क।

» » » गर्मीके भीतर या गर्म हवामें—ऐलि-सि।

» पतली और सूखी पर्यायक्रमसे—एपिस, कार्बो, सिन-म्यू, सेट-कार्ब, सेट-म्यू, नक्स-वोम, नक्स-मस्का, पल्स, साइलि, सल्फ।

सर्दी, पुरानी—एपिस, कैल्के, कैन्थ, कोलचि, साइक्ला, सेंगु, साइलि, सल्फ, टियु, टियुब।

" बैठ जानेपर (Suppressed)—ऐकोन, आर्स, बेल, कैल्के, चायना, ग्रैफा, लैके, लाइको, पल्स।

" शीत मालूम होकर, आरम्भमें—ऐकोन, कैम्फ, जेल्स। (२) बैप्टी, कैम्फि, फेरम-फास, नक्स-वोम।

" सर्दीको धात (बहुत सहजमें सर्दी लग जाना)—कैल्के, हिपर, नेट्र-म्यू, सोरि, सल्फ, टियुबाकु। (२) ऐलूमि, बैसिलि, बैरा-कार्ब, कैल्के-आयोड, डालका, फेरम-फास, जेल्स, हाइड्रो, कैलि-कार्ब, माकु, नक्स-वोम, फास, सिपि।

" सर-दर्दके साथ—ब्राइयो, जेल्स, कैलि-आ, नक्स-वोम। (२) ऐकोन, आर्स, ऐलि-सि, कैम्फ, चायना, युपे-पार्फो, नेट्र-आर्स, सैबा-डि, सैंगु।

सर्दी—स्वर-लोप या स्वरभंगके साथ—(१) कास्टि, हिपर। (२) आर्स, कार्बो-वेज, सिपि, फास, ऐलू।

" स्वाद नष्ट (Loss of taste)—कैल्के, हिपर, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, **पल्स**, सोरि, रोडो, सिपिया, साइलि, सल्फ।

" सूखी (स्रावहीन-dry)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐसिट-क्रूड, आर्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के-कार्ब, कैम्फ, कार्बो-वेज, **कास्टि**, चायना, ग्रैफा, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, सैङ्गु, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, थूजा।

" हवा लगकर सूखी ठण्डी—**ऐकोन**, स्पञ्ज।

" " गर्म—एपिस, माकु।

" हाथ पैरमें दर्दके साथ—(१) युप-पर्फ, जेल्स, ब्राइयो।

साँस लेनेमें हवा असह्य मालूम हो (Air sensitive to inhale)—इस्कि, ऐसिट-क्रूड, हिपर, ओस्मी, फास, सोरि, थूजा।

सुड़सुड़ करती है, भीतरकी ओर (Tickling)—आर्जे-मेट, कैल्के-कार्ब, कैम्फि, कार्बो-वेज, कैमो, कोलचि, नेट्रम-म्यू, **नक्स-वोम**, पल्स, रैना-बा, साइलि, सल्फ, टियु, जिङ्क ।

„ छींक आती है—आर्स, आयोड, लिसिन, पल्स ।

सुरसुराना (Tingling)—"दर्द" देखिये ।

सूखापन (Dryness), भीतरकी ओर—ऐकोन, ऐगा, ऐलूमि, आर्स-ऐ, **बेरा-कार्ब**, बेल, बार्ब, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-आर्स, कैनार्स, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, साइमेक्स, कोलचि, साइक्ला, डिजि, ग्रैफा, हाइयो, आइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, **लाइको**, मार्क, मार्क-आ-रू, मार्क-आ-फ्ले, मेजि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म**, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, सोरि, रास-टक्स, रूमी, सेने, सिपि, **साइलि, स्पञ्जिया, स्टिक्टा, सल्फ**, युयाये, जिङ्क ।

„ पास्टीरियर नेयर्स, पिछला नाकका छेद (Posterior Nares)—ऐकोन, हस्कु, कार्बो-वेज, सिने-आ, **लाइको**, नेट्र-स, साइलि, सिपि, युयाये ।

„ नाक छिड़कनेके लिये बाध्य होता है—मिमि, **कैलिबा**, लेके, मैग-कार्ब, **सोरि, स्टिक्टा, टियु** ।

स्राव (Discharge)—

„ खून मिला (Bloody)—ऐगा, **आइलेन्थ**, ऐलि मि, **ऐलू-मि**, ऐमोन कार्ब, एपिस, **आर्स**, आरम-ट्रि, आरम, बेल, बोरैक्स, **चायना**, काफि, ग्रेफा, **हिपर**, कैलि-बाइक्रोम, **कैलि-आयोड**, लेके, लाइको, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स वोम, फास सिपि, साइलि, स्क्वला, स्ट्रिक्टा, सल्फ, थूजा ।

„ गर्म—ऐकोन, लाइको ।

„ गाढ़ा (Thick)—ऐलूमि ऐमोन-म्यू, **आर्स**, आरम ट्रि आरम ऐरा-कार्ब कैल्के, कार्बो वेज, हिपर, **हाइड्रैस्टिस**, **कैलि-बाइक्रोम**, कैलि कार्ब कैल्के, कैलि कार्ब, लेक,

नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाडि, सेङ्ग, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ चमडा उधेड देनेवाला (Excoriating)—**ऐलि-सि**, आइलैन्थ, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, **ऐमोन-म्यूर**, आर्स, **आर्स-आयोड**, अरम-ट्रि, अरम-म्यू, ब्रोमि, कैल्के-कार्ब, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, कोनायम, फेरम, जेल्स, **ग्रेफा**, हिपर, हिपोजि, हाइड्रैस्टिस, आइयो, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, **क्रियो**, लैक-कै, लैके, लाइको, मैग-म्यू, **मार्क**, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्लै, मेजे, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, फास, फाइटो, रास-टक्स, सेंगु, साइलि, स्क्वुइला, सल्फ, जिङ्क।

„ „ नहीं (Bland)—**युफ्रे**, पल्स।

„ जलन भरा (Burning)—**ऐलि-सि**, आर्स, कार्बो-ऐनि, हिपर, पल्स, सल्फ।

„ तरल (Thin)—बोवि, ग्रेफा, हिपर, लैके, नेट्र-कार्ब, सैबाडि, सल्फ।

„ पानीकी तरह (Watery)—ऐकोन, ऐग्ना, **ऐलि-सि**, **आर्स**, आर्स-आयोड, **अरम टिग्**, ब्रोमि, आइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, **कैमो**, चायना, साइक्ला, **युफ्रे**, **ग्रेफा**, हाइड्रो, कैलि-आ, मार्क, नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, **प्लैटि**, सैबाडि, सल्फ, **टेलू**।

„ पीबकी तरह (Purulent)—ऐलूमि, आर्जे-ना, ऐसाफि, **अरम**, बार्बे, **कैल्कि**, **कोना**, फेरम, ग्रेफा, हिपर, हाइड्रो, कैलि-बाई, कैलि-आयोड, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सेंगु, सिपि, साइलि, स्टिक्टा, सल्फ, थूजा, युरे-ना।

„ पीली (Yellow)—ऐलूमि, आर्जे-ना, आर्स, **अरम-ट्रि**, **अरम**, बैडि, **कैल्कि-कार्ब**, **कैल्कि-स**, ग्रेफा, हिपर, **कैलि-बाइक्रोम**, **कैलि-आयोड**, ...

लाइको, मैग-म्यू, मेजे, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-फास, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ, थेरि, थूजा।

„ पीली आभा लिये हरा (Yellowish green)—ऐलूमि, हाइड्रैस्टिस, कैलि-बाइक्रोम, मार्कु, नेट्र-कार्ब, नेट्र-स, फास, पल्स, सिपिया, थूजा, थेरि।

„ बदबू भरा (Foetid, offensive)—ऐसाफि, अरम, कैल्कि, कार्बो-ऐ, कास्टि, ग्रैफा, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मार्कु, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, टेलू, थेरि, थूजा।

„ बहुत ज्यादा (Copious)—ऐलि-सि, आर्स, ब्राइयो, आइयो, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि ऐ, फास, पल्स, सैबाडि, सेने, साइलि, स्टिक्टा, सल्फ, जिङ्क।

„ रसकी तरह (Ichorus)—आइलेन्थ, ऐलि-सि, लाइको, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स।

„ नसदार (Tough, Viscid)—बोविष्टा, कैना-से, कैन्थ, कास्टि, कैमो, हिपोजि, हाइड्रै, कैलि-बाइक्रोम, कैलि आयोड, मेजे, फास, प्लम्ब, सोरि, सैबा, सेंगु, सिपि, स्पञ्जि, स्टैनम, साइलि।

„ सफेद—आर्जे ना, कैलि-क्लोर, लैक कै, नेट्रम म्यू, सैबाडि।

„ हरी आभा लिये (Greenish)—ऐलूमि, आर्स, आयोड, बोरेक्स, ब्राइयो, कैलि बाइक्रोम, कैलि कार्ब, मार्कु, नेट्रम म्यू, नाइट्रि ऐ, फास, पल्स, रास टक्स, सिपि, साइलि, स्टैना, ट्युक्रि, थूजा।

नासा-दोनों नासा फलकोंका पंखोंकी तरह (Flap like motion of alae nasi)—एन्टिम टार्ट, ब्रोमि, चेलिडो, लाइको, फास, स्पञ्जि।

मुखमण्डल। (FACE)

अर्बुद (Tumors)—

कैन्सर (Cancer)—आर्स, अरम, कार्बो-ऐ, कोना, फास, सल्फ।

„ ओंठमें—आर्स, अरम-म्यू, कार्बो-ऐ, सिकि, सिष्टा, कोना, क्रियो, लेके, लाइको, फाइटो, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ ऊपरके ओंठमें—ऐसिड-क्लोर।

„ नीचे—सिस्टा, क्लिमे, लाइको, सिपि, साइलि।

सिस्टिक (Cystic)-गालमें—ग्रेफा।

„ ओंठमें—कोना, क्रियो, सिपि।

अस्थिक्षय (Caries-हड्डियोंका क्षय होना) मैस्टाइड अस्थि (Mastoid process)—कैप्सि, नाइट्रि-ऐ।

„ निचले जबड़ेकी हड्डी (Lower Jaw)—अरम, अरम-म्यू, सिस्टा, कोना, फ्लू-ऐ, केलि-आयोड, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो।

„ जखम (Necrosis) निचले जबड़ेमें—फास, साइलि।

अस्थि-चर्म्म-सार (Emaciation)—"दुर्बल" देखिये।

आक्षेप-अकड़न (Convulsion)—आर्स, बेल, बोविस्टा, ब्यूफो, कास्टि, कैमो, **सिकि**, क्यूप्रम, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, लोरो, लाइको, ओपि, फाइसो, रैना-बा, **स्ट्रैमो**, जिङ्क, जिजिया।

„ एक ओरका—जिजि, प्लम्ब।

„ ओंठका—ऐम्ब्रा, कास्टि, केलि-कार्ब, रैना-बा।

„ जबड़ेका—ऐगा, ऐसाफि, कोलोसि, केलि-कार्ब, मैङ्ग, रैना-बा।

„ चिबानेवाली पेशी (Masseters) का—ऐम्ब्रा, ऐङ्ग, काकि, क्यूप्रम, मैङ्ग, नक्स।

उत्ताप (Heat)—ऐकोन, इथू, भाइलैन्थ, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमिल, ऐना, ऐसिड-क्रूड, ऐसिड-टार्ट, आर्निका, बैप्टी, **बेल**, बोवि, **ब्रोमि**, **ब्राइयो**, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, **कैमो**, चेलिडो, चायना, **सिना**, सिनेबार, काफि, कोना, कोरा-

रू, क्रोका, ड्रोसे, डल्केमा, फेरम, फास, फ्लू-ए, जेल्स, ग्लोनो, ग्रेफा, गुयायें, जिम्नो, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लिडम, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ए, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, आक्जा-ए, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, रास-वेन, सैङ्गु, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ए, टेबे, टेरे, थूजा, आर्टिका, विरे, जैन्थि।

उत्ताप सवेरे—हिपर, नक्स-वोम, फास, सिपि, सल्फ।

„ दोपहरमें—लाइको, सिपि, स्पाइजि।

„ तीसरे पहर—असम-ट्रि, कार्बो-ए, लाइको, फास-ए, रास-टक्स।

„ सन्ध्याके समय—एकोन, ऐङ्ग, आर्निका, कोल्चि-फास, हिपर, नेट्र म्यू, फास, सल्फ।

„ खांसनेके समय—बेल, इपि, सल्फ।

„ जलन (Burning heat)—एकोन कोफि, बेल, ब्रायो, सिना, क्रिमे, इग्ने, नेट्र-कार्ब, सैंगु, सल्फ।

„ झलका (Flushes)—एकोन, एम्ब्रा, ऐग्नो, आर्स, कैंक, चेलिडो, सिक्टा, काकि, ग्लोनो, ग्रेफा, कैलि-का, लैके, लाइको, पेट्रो, फास, सिपि, स्टैनम, सल्फ, सल्फ-ए, टेरि।

„ ठण्डा एक ओर, गर्म दूसरी ओर—एकोन, ऐसि-ए, कैमो, इपि, मैके मस्के, नक्स वोम।

„ „ शरीरके साथ—आर्निका, कोल्चि-फास कैमो, चायना, लिडम, स्ट्रैमो।

„ „ हाथ पैरके साथ—आर्निका, स्ट्रैमो।

„ प्रसवके दर्दके समय—आर्निका, बेल, काफि, फेरम, जेल्स, पोडि।

„ भोजनके बाद—एनाकि, कैमो, काफि, साइको नक्स वोम, पैट्रो फास सल्फ।

„ शीतावस्थामें (During Chill)—एकोन, आर्निका, बेल चायना, फेरम, हायो पल्स, रास टक्स स्ट्रैमो सल्फ।

„ सर्दीके साथ—आर्स मेट, फ्लोर नक्स-वोम।

„ सरमें दर्दके साथ—चिनि-सल्फ, ग्लोनो स्पिजि।

उलटे ओठ (Everted lip)—**एपिस**, कैम्फ, फाइटो।

चाट्‌काट आवाज जबड़ेमें, चबानेके समय—ऐमोन-कार्ब, ब्रोमि, लैक-कै, लेके, मिनि, मेज़े, **नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स,** सेबाडि, स्पिञ्जिया, थूजा।

„ मुह फाड़नेपर, ज़ोरसे—सैबाडि।

कम्पन (कपकपी-Quivering)-ओठका—आर्स, बार्ब, कार्बो-वेज, क्रोटे-होर।

कँवल रोग (Jaundice)—"रंग पीला" देखिये।

खिची हुई त्वचा (Tension of skin)—ऐलूमि, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, ग्रैफि, हाइपे, लेके, लाइको, मैग-कार्ब, माकु, फास, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स।

„ एक ओर (One sided)—फास।

„ कपालमें—नाइट्रि-ऐ।

खोटना (Pricking) ओठ—**अरम-ट्रि,** ब्राइयो, सिपि, नाइट्रि-ऐ नक्स-वोम।

चबाता है, मानो ऐसी ही मुहकी गति (Chewing motion of the jaws) —ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, हेलि, माकु, फास, स्ट्रैमो।

„ नीदमें—कैल्के, सिपिया।

चर्म-रोग-चर्मोद्भेद—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, **ऐण्टि-क्रूड,** आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, बोवि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, सिकि, कोना, **डोलका,** ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, **कैलि-ब्रोम,** कैलि-आयोड, **क्रियो,** लैके, **लिडम,** लाइको, मैग-म्यू, माकु, **मेजे,** म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू,** नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ, **सोरि,** पल्स, **रास-टक्स,** रास-वेन, **सिपिया,** साइलि, स्टैफि, सल्फ, विरे, वायो-ट्रि।

चर्म-रोग—ओठमें—ऐमोन-कार्ब, आर्स, बोरैक्स, कैल्के, क्लिमे, कैमो, कोना, ग्रैफा, हिपर, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, मैगु, स्कुइला, **सिपिया,** साइलि।

„ ऊपरी—**आर्स,** बैरा-कार्ब, कार्बो-वेज, **कैलि-बा,** क्रियो, लाइको, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यूर, पैरि, रास-टक्स, **स्टैफि, सल्फ।**

चर्म-रोग, नीचिका—आइयो, कैल्के, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यूर, सिपिया, सल्फ।

„ कपालमें—ऐण्टि-क्रूड, बोवि, कैल्के-फास, कास्टि हिपर, क्रियो, लिडम, लाइको, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, सोरि, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ।

„ गालमें—ऐण्टि-क्रूड, वेल, बोवि, कैल्के, कास्टि, डाल्का, युफ्रे, कैलि-क्लोर, क्रियो, लेके, नेट्र-म्यूर, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्टैफि, विरे।

„ ठोडीमें (Chin)—ऐण्टि-क्रूड, डालका, ग्रेफा, हिपर, क्रियो, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, पैरि, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, सिफि।

„ मुंहके चारों ओर—ऐगा, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, औरैक्स, बोवि, केड्मि, कैल्के, कास्टि, सिकि, ग्रेफा, हेलि, हिपर, हाइपे, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, क्रियो, लिडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ऐ नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पैरि, पेट्रो-फास, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ कोनेमें (Corners)—ऐण्टि, वेल, कैल्के, कास्टि, हिपर, क्रियो, मेज़े, मार्क, नेट्र-म्यूर, नाइट्रि ऐ, पेट्रो फास, सिपि, साइलि।

„ आमवात (Urticaria)—ऐण्टि-क्रूड एपिस, आर्स, कैल्के, हिपर, लिडम, नेट्र-म्यूर, रास टक्स, सिपिया, सल्फ।

„ इम्पेटिगो (Impetigo)—सिकि, कोना क्रोटन टिग डल्का, ग्रेफा, हिपर, कैलि कार्ब, लाइको, मार्क, मेजे, नाइट्रि ऐ, रास टक्स।

„ उपदंशमें फैटा फूटा—आर्स सिनेबार, हिपर, कैलि-बा, कैलि-आयोड, मेज़े लाइको, मार्क, मार्क कोर, नाइट्रि ऐ, फाइटो साइलि, सल्फ सिफि।

चर्म्म-रोग, एकजिमा (Eczema)—ऐना, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, बोरेक्स, **कैल्के**, कास्टि, **सिकि**, **क्रोटन-टिग**, **डाल्का**, **ग्रैफा**, **हिपर**, आइरि-वार्स, लाइको, माकुं, मेजि, पेट्रो, **सोरि**, **रास-टक्स**, सार्सा, सिपिया, **सल्फ**, सिफि, वायो-ट्रि।

„ „ मुखके चारो ओर—मेजि, नेट्र-म्यू।

„ „ कोनेमें—एरण्ड, ग्रैफा, हिपर, रास-टक्स।

„ खुजलाहट, भरा (Itching)—आर्स, ऐना, कैल्के, ग्रैफा, जुग्ला, माकुं, मेजि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, रास-टक्स, सार्सा, सल्फ।

„ „ बढना, गरमसे—मेजि, सोरि, सल्फ।

„ „ „ रातमें—मेजि।

„ छाले भरा—ऐगा, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, **क्रोटन-टिग**, डाल्का, युफोर्बि, ग्रैफा, मैग-कार्ब, **मैग्से**, माकुं, नेट्र-कार्ब, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, सोरि, पेट्रो, **रास-टक्स**, **सिपिया**, साइलि, सल्फ, सिफि।

„ „ जलन भरा (Burning)—आर्स, कास्टि, रास-टक्स, सिपिया।

„ „ „ खुजलाने पर—नेट्र-स, सार्सा।

„ छाले ओंठमें—ऐलूमि, कार्बो-ऐनि, क्लिमे, कोना, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, सेनि।

„ „ „ ऊपरके—ऐगा।

„ „ „ नीचेके—अरम, नेट्र-स, पैरि।

„ „ कोनेमें—ऐगा, **सिफि**, सेने।

„ „ ललाटमें—ऐमोन-कार्ब, आर्निका, बोरेक्स, कैन्थ, मेजि, नेट्र-म्यू, म्रम्य, **सोरि**, रास-टक्स।

„ तांबेके जेसा रङ्ग—**कार्बो-ऐ**, हाइड्रो, लाइको, सोरि, रास-टक्स।

„ तिल (Comedones)—ऐब्रो, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, **ग्रैफा**, हिपर, **हाइड्रो**, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, सैबाडि, सिपि, साइलि, **सल्फ**।

चर्म्म-रोग, ददोरा (Rash)—ऐकोन, आइलेन्थ, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैली, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, पल्स, रास-टक्स।

„ पाटल (शराबियोंके मुहका लाल व्रण-Rosacea)—आर्स, ब्रम-म्यूर, कैल्के-फास, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिकि, युजि, हाइड्रो-ऐ, क्रियो, लेके, मेजे, पेट्रो, सोरि, रास-टक्स, रूटा, सिपि, साइलि, सल्फ, विरि, वायो-ट्रि।

„ „ कपालमें—आर्स, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, सिकि, हिपर, क्रियो, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ तर (Moist)—क्लिमे, डालका, हिपर, लाइको, मार्क, मेजि, पेट्रो, सोरि, रास-टक्स।

„ „ „ बदबूदार—सिकि, मार्क।

„ „ पपड़ी जमा हुआ (Crusting, scabby)—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, कैल्के-कार्ब, कास्टि, चेलिडो, सिस्टा, क्लिमे, डाल्का, हिपर, ग्रैफा, कैलि-ब्रा, लिडम, लिथि-कार्ब, मार्क, मेजे, म्यू-ऐ, पेट्रो, सोरि, रास-टक्स, सल्फ।

„ पीब भरे दाने (Pustules)—ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, ब्रम, कैल्के-कार्ब, कैल्के-स, कार्बो वेज, कास्टि, सिकि, कोना, क्रोटन टिग, हिपर, हाइड्रो, कैलि-ब्रा, कैलि आयोड, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स।

„ „ ओठोंमें—कैल्के, मिनेथार, हिपर, वायो ट्रि।

„ फटे घाव (Fissures)—ग्रेफा, मार्क, पेट्रो, सोरि, साइलि।

„ फुन्सियाँ (Pimples)—ऐण्टि क्रूड, आर्स, ब्रम कैल्के, कैल्के फास, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, चेलिडो सिकि, युफ्रि, क्लोनो, ग्रैफा, हिपर हाइड्रो लिडम नैट म्यूर मार्क, म्यू-ऐ, नैट्र-कार्ब, नैट्र म्यू, नैट्र-स नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, फास ऐ, सोरि, रास टक्स सार्सा, सल्फ।

चर्म-रोग, खुजलाती है—कास्टि, कोना, ग्रैफा, हिपर, म्यू-ऐ, सोरि, सिपिया।

" " जलन होती है, हाथ लगानेपर—नेट्र-स।

" फोडा, फोड़ा (Boils)—बेल, कैल्के, **हिपर**, **कैलि-आयोड**, मेजि, साइलि, सल्फ।

" " बड़ा (Abscess)—बेल, **हिपर**, कैलि-आयोड, **मार्क**, फास, साइलि।

" " " ओठमें—ऐन्थ्रा, बेल।

" " " ऐण्ट्रममें—कैलि-आयोड, मार्क, मेजि, **साइलि**।

" " " पैरोटिड ग्लैण्डमें—आर्स, लैके, फास, रास-टक्स, साइलि।

" " " सबमैक्सिलरी ग्लैण्डमें—कैल्के-कार्ब, हिपो, लैके, फास, साइलि।

" रसभरे दाने (Vesicles)—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, युफ्रे, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, सल्फ।

" " खुजलानेवाले—ऐण्टि-क्रूड, मेजि, सिपि।

" " जलन-भरे—कास्टि।

" " ओठमें—कार्बो-ऐ, कोना, मैग-कार्ब मैग-म्यूर, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, सैनि।

" " ठोडीमें—सिकि, हिपर, नेट्र-कार्ब, **नेट्र-मूर**, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, सैनि।

" " मुँहके चारो ओर—बोरैक्स, हेलि, नेट्र-म्यू, नेट्रम-स।

" " लाल दाने, जगह जगह (Erythema)—(१) बेल, ग्रैफा, (२) आर्स-आयोड, काण्ड्र, एकिनेसि, युफ्रे, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, सिपि, सल्फ।

व्रण (Acne)—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, कैल्के, **कार्बो-वेज**, कार्बो-ऐ, कास्टि, कोना, कोपे, क्रोटे-टिग, युजि, **हिपर**, क्रियो, लैके, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, सोरि, पल्स, **साइलि**, सल्फ।

चर्म्म-रोग, विसर्प (Erysipelas)—(१) एपिस, बेल, कैन्थ, युफोर्बि, ग्रैफा, लैके, रास-टक्स, (२) ऐनान्थि, बोरैक्स, कार्बो-ऐनि, फेरम-म्यू, हिपर, सिपि, विरे-वि।

„ विष व्रण या विषैला-फोड़ा (Furuncles)—(१)—ऐलोज, कैल्के-फास, मेडो।

„ हारपिज (Herpes)—ऐनान्थि, बैरा-कार्ब, कैल्के-स, कार्बो-वेज, सिकि, कोना, डालका, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, लिडम, लाइको, मार्क, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ए, रास-टक्स, **सिपि**, साइलि, सल्फ।

„ „ ओठमें—आर्स, कैल्के-फ्लू, ग्रैफा, हिप, मेडो, **नेट्र-म्यू**, निको, पैरि, **रास-टक्स, सिपिया**।

„ „ मुँहके चारों ओर—मोरैक्स, हिपर, **नेट्र-म्यूर**, पैरि, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ।

„ घटना, गरममें—आर्स।

„ बढ़ना, खुजलानेसे (Itching)—ऐगा, ऐग्न, ऐना, आर्स, कैल्के-कार्ब, कास्टि, फ्लु-ऐ, ग्रैफा, लोरो, मार्क, नेट्र-स, रास-टक्स, रास-वेन, सिपिया, साइलि, सल्फ, आर्टि।

„ „ गर्मीसे—युफ्रे, मेजे, सोरि, सल्फ, टियु।

„ „ गर्म कमरेमें—मैग-म्यू।

„ „ ठण्डी हवासे—आर्स, डालका।

„ घटना, खुजलानेपर—ग्रैटि।

„ घसनेपर—रास-वेन।

छिप्पी पड़ना (Freckles)—एमोन-कार्ब, एण्टि-क्रूड, कैल्के-कार्ब, डालका, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ए, नक्स-मस, **फास**, परम, सिपिया, सल्फ।

चेहरा—मुँहकी "भाव-भंगी" देखिये।

जख्म (Ulcers)—एण्टि-टार्ट, आर्स, कोना, [illegible] कैलि और कैलि-आयोड, लैके, नाइट्रि-ए, कार्बो, सोरि।

जखम, ओठमें—आर्स, ब्राइयो, कास्टि, कैम्फि, सिकि, क्लिमें, कोना, ग्रैफा, हिपर, कैलि-ब्रा, कैलि-कार्ब, मैंग-कार्ब, मार्कु, मेजे, नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, फास, फाइटो, सोरि, **साइलि,** स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ ऊपर—मेजे।

„ „ नीचे—कास्टि, क्लिमे, लाइको, साइलि।

„ „ जलन भरा—कास्टि, सिकि, नक्स-वोम।

„ मुँहके चारों ओर—नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ।

„ „ कोनेमें—ऐमोन-म्यू, बोवि, कोल्चि, काण्ड, **ग्रेफा,** हिपर, मार्कु, नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** फास, सोरि, **रासटक्स,** सल्फ।

जखमकी तरह घाव (Sore) ओंठमें—**आर्स, अरम-ट्रि,** ग्रैफा, हेलि, आइयो, लैके, लाइको, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

„ मुंहके कोनेमें—आर्स, ऐरम-ट्रि, काकि, काण्ड, हेलि, लाइको, मार्कु।

जलन—(Burning)—"चर्मरोग" देखिये।

झुर्री पड़ा—(Wrinkled)—ऐको, आर्स, बैरा-कार्ब, कोल्चि, हेलि, लाइको, नेट्र-म्यू, प्लम्ब, सार्सा।

„ कपाल—कैमो, हेलि, लाइको, रियुम, स्ट्रैमो।

झूल जाना, जबड़ा (Dropping of Jaw)—आर्निका, आर्स, बैप्टी, कार्बो-वेज, चेलिडो, हेलि, हाइयो, कैलि-आयोड, **लैके, लाइको,** म्यू-ऐ, **ओपि,** फास, स्ट्रैमो, **सल्फ।**

„ ओठ—हिप्पोमें।

„ आच्छन्नताके साथ (Stupor)—लाइको, **म्यू-ऐ, ओपि,** सल्फ।

टपक (Pulsation)—ऐकोन, ऐगा, आर्जे-मेट, आर्निका, आर्स, बेल, ब्राइयो, कोल्चि-कार्ब, कास्टि, केमो, क्लिमे, स्टैफि, सल्फ।

तिल—"चर्म रोग" देखिये।

तेलहा (Oily greasy)—मैग-कार्ब, नेट्र-म्यू, प्लम्ब, रासटक्स, सिपिया, स्ट्रैमो, थूजा।

दर्द (Pain)—**ऐकोन,** ऐगा, ऐना, आर्ज-ना, आर्निका, **आर्स, अरम,** **बेल, वार्म,** ब्राइयो, बोड्मि, **कोल्चि, कैल्के-फास,** कैम्फि,

कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, सिड्रन, केमो, चेलि, चायना, चिनि-स, क्लोरो, सिमि, सिना, कोलचि, कोलोसि, कोना, कुप्र-ऐ, डाल्का, युफ्रे, जेल्स, ग्लोनो, गुये, हिपर, हाइयो, हाइपे, इग्ने, आइरि-वार्स, कैलि-ब्रा, केलि कार्ब, कैलि-आयोड, केलि-स, लेके, लिथि-कार्ब, लाइको, मैंग-कार्ब, मेग-म्यू, मैग-फास, प्लेटि, प्ले टे, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, विरे, वार्बा।

दर्द, दाहिनी ओर—ऐमोन-म्यू, अरम वेल, केक, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलि, चायना, चिनि-स, सिस्टा, क्रिमे, काकि, फ्यूम, फेरम, केलि-आयोड, कैलमि, लाइको, मैग-फास, मार्क, पल्स, सिपिया, स्पाइजि, सल्फ।

" वाई ओर—चेलि, चिनि-स, कोलो-सि, डालका, केलि-ना, लोबे, मैग-कार्ब, आर्स, पल्स, स्पाइजि।

" सवेरे—चायना, चिनि-स, मेजि, थूजा।

" सन्ध्यामें—चिनि-स, मेजे फास, प्लेटि, पल्स, सल्फ।

" रातमें—कास्टि, केल्के-फास, कोनायम, मैंग-कार्ब, मार्क, सिपिया।

" बहुत देर बैठ जानेके कारण—डालका, कैलिमि, मेजे, थूजा।

" ऋतुके पहले—स्टैनम, जिङ्क।

" " समय—नेट्र-म्यू, सिपिया।

" किनाइनके अपव्यवहारके बाद—हिपर, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, पल्स।

" गर्भावस्थामें—इग्ने, सिपिया, स्ट्रैमो।

" ठण्ड लगकर—ऐकोन, केल्के, डालका, जेल्स, पैका, फेरमि फास रास टक्स।

" पक्षा घात (लकवा) के साथ—कास्टि, ग्रैफ जेल्स, नेट्र म्यू।

" पारेके अपव्यवहारके बाद—ऑरम-म्यू, चायना हिपर, नाइट्रि ऐ, सल्फ।

" वातसे दर्द (Rheumatic)—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, केल्के फास, कास्टि, सिमि, ड्रल्कि, केलमि मार्क, रस-टक्स, फाइटो, स्पाइ मारुमि, सार्सा।

दर्द, सन्धि वातसे उत्पन्न (Arthritic)—कास्टि, कोलचि, कोलोसि, लिथि-कार्ब, मार्कु, नक्स-वोम, रास-टक्स।

„ सामयिक (Periodical)—आर्स, सिड्रन, चायना, चिनि स, गुयो, मैंग-फास, नेट्र-म्यू, स्पाइजि।

„ फैलता है-ओठमें—ब्राइयो, हिपर, कैलि-कार्ब, म्यू-ऐ।

„ „ कान तक—बेल, कैल्का, हिपर, लैके, पल्स, सिपिया।

„ „ गालमें—ऐग्न, कास्टि, चिनि-स, चेलि, सिना, हिपर, कैलि-बा, मैग-कार्ब, प्लैटि।

„ „ निचले जबडेमें—आर्स, कास्टि, डालका, लैके, मेजे, फास, रास-टक्स, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

„ „ हड्डीमें—कैम्फि, सिमि, हिपर, मार्कु-आ-रू, नेट्र-म्यू, फाइटो।

„ हड्डीके जोडको जगहपर—कास्टि, रास-टक्स।

„ कुचलने जैसा (Bruised)—आर्निका, ड्रसे, नेट्र-म्यू, रूटा, सल्फ।

„ खोदता है, मानो (Digging)—कैलि-बा, मैग-कार्ब, प्लैटि, थूजा।

„ चिबाता है, मानो—आर्ज-मेट, बैरा-कार्ब, ग्लोनो, फास-ऐ, सल्फ।

„ चिलक मारने जैसा (Shooting)—एपिस, बेल, कार्बो-ऐ, सिस्टा, कोलोसि, जेल्स, हैमा, ड्रसे, कैलि-बा, कैलि-फ्लोर, मैग-कार्ब, मैग-फास, प्लैण्टे, सल्फ।

दर्दका प्रकार—

„ जलन (Burning)—ऐकोन, एपिस, आर्ज-मेट, आर्निका, **आर्स**, बेल, ब्राइयो, कास्टि, कैमो, चायना, क्रोटन-टिग, युफोर, कैल्मि-आयोड, क्रियो, **लाइको**, मेजे, **रास टक्स**, **सल्फ**।

„ „ ओठमें—ऐकोन, ऐलि-सि, **अरम-ट्रि**, बेल, कास्टि, कार्बो-ऐनि, सिकि, क्रोटन-टिग, ग्लोनो, हैमा, लैके, मेजे, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, सोरि, सल्फ।

„ टपक (Pulsating)—**ऐकोन**, आर्नि-का, फेरम-फास, मैग-कार्ब, पल्स।

„ डङ्क मारनेकी तरह (Stinging)—**एपिस**, **आर्स**, चायना, सिनेबार,

क्लिमे, कोलोसि, गुआ, फेरम-फास, ग्रैफा, इग्निशो, केलि कार्ब।

दर्दका-प्रकार, फाडनेकी तरह (Tearing)—ऐगा, ऐमोन म्यू र, ऐना, ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, आरम, बेल, कैल्के-कार्ब, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलि, चायना, कालि, कोलचि, कोलोसि, कोनायम, ग्रैफा, लैकी, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-फास, मार्क, नेजे, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ फास, प्लेटि, पल्स, रोडो, रास टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, विरे।

" " गण्डास्थिमें—इग्नु, ऐमोन-म्यू आर्ज-मेट, कैल्के, चेलि, कोलोसि, मैग-कार्ब, नेट्र-स, फास।

" " निचली जबड़ेमें—ऐगा, ऐन्ट्रा, आरम, ब्राइयो, कास्टि, सेंगो, कोलचि, ड्रोसेरा, केलि-सि, लेकी, मार्क, नक्स-वोम, फास, रैटा, सल्फ।

" सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—आरम, बेल, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, कालि, कोलोसि, गुया केलि-कार्ब, केलि-मि, मेझी, मार्क, पल्स, मैग्र, सिपिया, साइलि, स्टैफि।

" घटना, उत्तापसे—डालका, मैग-फास, फास।

" " गर्मीसे—कैल्के, कोलोसि, मैग-फास, सल्फ।

" " गर्म कमरेमें—कैल्के, सिपिया।

" " छूनेपर—बेल, कैप्सि, चायना, कोलोसि, हिपर, नक्स वोम, फास सिपिया।

" " दबा रखनेपर—ब्राइयो, क्रिप्सि, मैग-फास, सिपिया।

" " धोनेपर—ऐमार, मार्क-ना, फस्फ-ऐ।

" " लपेट रखनेपर कम—हिपर, मैग फास, सिलि।

" " मर्द प्रयोगसे—बिस्मथ, कार्बो कालि, फस्फ।

" " हवा लगनेपर तर—डामक्रा, सिर।

" " " ठण्डी—रूलि सि कैलि म।

" " " गर्मी—ऐमोन-म्यू, पल्सा, रास टक्स।

" झटका-उत्तापसे—ब्रायो, फास, रोडो।

दर्दका-प्रकार, बढना गर्म-बिछावनसे—ग्लोनो, माकु, पल्स।

" " " घरमें—ऐमोन-कार्ब, कैलि-स, मेजि, पल्स।

" " " गर्म भोजनसे—मेजि, पल्स, सिपिया।

" " गोलमालसे—चायना, काफि, नक्स-वोम, स्पाइजि।

" " दबानेपर—बेल, सिना, कोलोसि, कूप्रम, ड्रोसे, जेल्स, मैग-कार्ब, नक्स-वोम।

" " धीरे धीरे बढता, धीरे धीरे घटता है—स्टैनम।

" " निगलनेके समय—कैलि-ना, फास, स्टैफि।

" " बोलनेपर—फास।

" " रौशनीसे—आर्स, बेल, कैक्ट, चेलि, कोनायम, मैग फास।

" " हवामें, तर—डालका, विरे।

" " " खुली—ऐलूमि, आर्स, कार्बो-ऐ, चायना, हिपर, कैलि-कार्ब, माकु, माकु-कोर, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" " " ठण्डी—ऐकोन, ऐगा, कोलचि, माकु, मैग-फास, रास-टक्स, सल्फ।

" " हिलने-डोलनेपर—बेल, बिस्मथ, ब्राइयो, कैक्ट, चायना, फेरम-फास, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास, स्पाइजि।

दांती लगना (Lock jaw)—ऐकोनि, आर्जेना, बेल, कैम्फ, कैन्थ, काक्ति, सिङ्क, सिकि, कूप्रम, जेल्स, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, हाइपि, इग्नि, लोरो, लाइको, माकु, मस्क, नक्स-वोम, इनेन्थि, ओपि, फ्स, सिकेलि, स्ट्रेमो।

दुबला-जीर्ण—अस्थिचर्मसार (Emaciation)—आर्स, कैल्के, ब्राइयो, हैक-डि, मेजि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, सोरि सिपिया, साइलि, सल्फ।

" मुखमण्डल और दोनों हाथ—मिलि।

पक्षाघात—लकवा मारना (Paralysis)—ऐगा, बैरा-कार्ब, कास्टि, काकि, कूप्रम, क्यूबे, डालका, ग्रेफा, कैलि-क्लोर, नक्स-वोम, पल्स, सिकि।

पक्षाघात, दाहिनी ओरका—आर्निका, कास्टि, हिपर, कैलि क्लोर, फास, साइलि।

" बाईं ओरका—ऐलि-सि, क्यूबे, फार्सि, ग्रैफा, नक्स-वोम, सार्पिज।

" अर्द्धाङ्गका (Hemiplegia)—कास्टि, ग्रैफा।

" एक पार्श्वका—बेरा-कार्ब, कैड्मि, कास्टि, काकि, ग्रैफा, कैलि-क्लोर।

" ऊपरी ओठका—कैड्मि, ग्रैफा।

" निचले जबड़ेका—आर्स, डालका, लैके।

" सर्दी लगकर—कास्टि, डाल्का, रूटा।

पसीना (Perspiration)—ऐकोन, ऐगा, ऐलूमि, ऐमोन-म्यू, आर्ज-नाइ, आर्निका, आर्स, बेप्टी, बेल, ब्राइयो, कैल्कि, केल्के-फास, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, चायना, सिना, काक्कि, काफि, कूप्रम, डिजि, ड्रोसे, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि बा, लैके लाइको, मार्कु, नैट्र-म्यू, नैट्र-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, सोरि, पल्स, सिके, सिपि, साइलि, स्पञ्जिया, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, थूजा, वेलि, विरे।

" "कपालमें"—'मस्तक' देखिये।

" चेहरेपर, केवल—इग्ने।

" भोजनके समय—इग्ने, नैट्र-म्यू, सल्फ-ऐ।

" शीतल—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्रम, ब्राइयो, कैम्फ, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-वेज, चायना, सिना, काक्कि, कप्रम, फ्रूमम, डिजि, ड्रोसे, ग्लोनो, कैलि-बा, लैके, लाइको, मार्कु-कोर, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, रिगुम, सैङ्गु, सिके, स्पञ्जिया, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, विरे।

प्रदाह (Inflammation)-ओठका—ऐकोन, बेल, मार्कु।

" पैरोटिड ग्लैण्डका—"कान" देखिये।

" सब मैक्सिलरी ग्लैण्डका (जिसमें जबड़ेके भीतरकी ग्रन्थि प्रदाहित)—बेल डालका, मार्कु फाइटो सोरि, पल्स, रासटक्स, सार्सि-सल्फ, सल्फ ऐ।

प्रदाह, हड्डीका—**अरम,** कैल्के, फ्लू-ऐ, माकु, मेनि, **नाइट्रि-ऐ,** फास, **फास-ऐ,** रूटा, स्टैफि।

फटे ओंठ (Cracked lips)—ऐगा, आइलैन्थ, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, आर्निका, आर्स, **अरम-ट्रि,** बैप्टी, बोवि, **ब्राइयो,** **कैल्के,** कैम्फि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, क्रोकस, **ग्रैफा,** इग्ने, क्रियो, **लैके,** माकु, माकु-कोर, मेजि, नेट्र-म्यूर, रास-टक्स, साइलि, **स्ट्रैमो,** **सल्फ,** विरे, जिङ्क।

" " ऊपरका—कैलि-कार्ब, नेट्र-म्यू।

" " " मध्य भागमें—हिपर, नेट्र-म्यू।

" " नीचेका—नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, **सिपिया।**

" " " मध्यभागमें—कैमो, हिपर, **नेट्र-म्यूर,** पल्स।

" कोनेमें (Corner of the mouth)—ऐण्टि-क्रूड, **अरम-ट्रि,** काष्ट, **ग्रैफा,** माकु, मेजि, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, सिपिया, साइलि, जिङ्क।

फटे फटे (जाडेके दिनोंमें) (Chapped)—अरम-ट्रि, ग्रैफा, पेट्रो, साइलि।

" ओंठ—ऐण्टि-टार्ट, अरम-ट्रि, **कैल्के,** कोल्चि, कोरा-रू, ग्रैफा, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, मैग-म्यू, **सल्फ।**

फूलन (Swelling)—**एपिस,** आर्निका, **आर्स,** अरम-ट्रि, अरम, अरम-म्यू, बैरा-कार्ब, **बेल,** **बोवि,** **ब्राइयो,** केक्ट, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-वेज, **कैमो,** कोलचि, क्रोटे-होर, ग्रैफा, गुये, **हिपर,** **कैलि-आयोड,** लैके, **लाइको,** **माकु,** माकु-कोर, मेजि, नेट्र-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ड्रनेन्थि, **ओपि,** फास, प्लैटि, **रास-टक्स,** रास-वे, सैम्बु, सिपिया, स्ट्रैमो, विरे, वेस्पा।

" ऋतुके पहले—ग्रैफा, कैलि-कार्ब, माकु।

" " समय—सल्फ।

" गर्भावस्थामें—माकु-कोर, फास।

फूलन, दाँतमें दर्दके साथ—ऐसिड-फ्लू ड, कैल्के, केल्के-म, कैमो, युफ्रे, हिपर, कोलि-कार्ब, लेकि, मेग-कार्ब, माकु, सिपिया, स्पाइजि, विरे।

» मधुमक्खी काटनेपर—कार्बो-वे लेके, लिडम।

» लाल रङ्गकी—आर्निका, आर्स, बेल, कैलि-कार्ब, लैके, रास-टक्स, रुटफ।

» गोय मिली—एपिस, ऐपो, आर्स हाइड्रो, आर्स, कैक्ट, चेलि, कोनचि, क्रोटे-टीग, डालका, फेरम, ग्रैफा, हेलि, लाइको, माकु, माकु-कोर, नेट्र-कार्ब, फास, प्रूम, रास-टक्स, वेस्पा।

» आँखके नीचे—एपिस, आर्स, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, माकु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, फास।

» ओंठ—एपिस, आर्स, आरम-ट्रि, आरम-म्यू, बेल, बोवि, ब्राइयो, कैल्के, केप्सि, कार्बो ऐ, कार्बो-वेज, क्लिमे, कोरा र, क्रोटे-टीग, कोलि-कार्ब, कैलि, लैके, माकु, माकु-कोर, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, पैरि, फास, सोरि, सिपिया, साइलि, सल्फ।

फूलना-ओंठ—

» » ऊपर वाला—एपिस, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैलूफा, कैल्के-फास, कार्बो वेज, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, माकु, मेजे, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यूर, सोरि, स्टैफि, सल्फ।

» गाल—आर्निका, आरम, बेल, कैमो, कालि कार्ब, कैलि आयोड, माकु, म्यूजिया स्ट्रैमम।

» जबड़ा ऊपरका—ऐलुमि, स्ट्रैमम।

» » नीचेका—ऐकोन, ऐलू, आरम, कैल्के-फ्लू, क्रोटे टीग [illegible] मैके, माकु, फास, साइलि सल्फ।

» » » मध्यस्थ नसिका ग्रन्थिका (Submaxillary gland) — ऐसोन म्यू, ऐलान्थि, ऐसिड कार्ब [illegible] आर्स आरम-ट्रि, आरम म्यू, बैरा-कार्ब, बैरा म्यू, [illegible], कैल्के-कार्ब, कैल्के [illegible], कार्बो [illegible], कोरा र, क्रोटे टीग, [illegible]

हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, लैक-कै. **लाइको**, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-रू, **म्यू रि ऐ**, नैट्र-कार्ब, नैट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, प्लम्ब, सोरि, **रास-टक्स**, सिपिया, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

फूलना, जबड़ा नीचेका कड़ापनके साथ—**ब्रोमि**, **कैल्के-कार्ब**, ग्रैफा, कैलि कार्ब, मार्क, **रास-टक्स**।

फूला फूला (Puffy)—ऐगा, एपिस, आर्निका, **आर्स**, ब्राइयो, **कैल्के**, कैन्थ, सिकि, क्रोटन-टीग, कूप्रम, ड्रोसेरा, **फेरम**, जेल्स, हृपि, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, नैट्र-म्यू, नक्स-म, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, स्ट्रैमो।

बैठ जाना (Sunken)—इथूजा, ऐण्टि क्रूड, **ऐण्टि टार्ट**, एपिस, आर्जे-ना, आर्निका, **आर्स**, **बार्ब**, कैल्के, **कैम्फ**, **कार्बो-वेज**, कैमो, चेलि, **चायना**, कोलचि, क्यूबे, **डिजि**, फेरम, इग्ने, हृपि, कैलि-कार्ब, लेके, लाइको, **मैङ्ग**, मार्क, म्यू-ऐ, नैट्र-स, नाइट्रि-ऐ, **ओपि**, फास, फास-ऐ, प्लैटि, रास-टक्स, सैबु, सिके, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टैरे, **विरे**, जिङ्क।

भाव-भङ्गी, मुख-भाव (Appearance)—

„ उत्कट, जंगलियों जैसा (wild)—ऐगा, एपिस, आर्स, **बेल**, सिमि, कूप्रम, नक्स-वोम, ओपि, स्ट्रैमो।

„ उत्कण्ठित-चिन्तित (Anxious)—**ऐकोन**, इथू, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **आर्स**, बैप्टी, बेल, **बोरैक्स**, कैक्ट, **केम्फ**, चेलिडो, **चिनि-स**, क्रोटे-टीग, क्यूबे, डिजि, कैल्मि, लाइको, प्लम्ब, स्पञ्जिया, स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ, **विरे**।

„ गड्ढेमें धँसी आँखें (Haggard)—आर्स, बेल, केम्फ, कैप्सि, ड्राइड्रो, लैके, नैट्रम-म्यूर, फास, स्टैफि, विरे-वि।

„ जड़की तरह (Idiotic)—ऐगा, कैल्के, लैके, लोरो, लाइको।

भाव-भङ्गी, निद्रालुता (Sleepy)—कोना-इ, नक्स-मस, ओपि, फास, फाइसो।

" निर्बोधकी तरह (Foolish)—बैरा-कार्ब, नक्स-मस।

" वृद्धकी तरह (Premature, old)—ऐब्रो, आर्ज नाइट्रि, षार्भ, आर्स-हो, अरम-म्यूर, बैरा-कार्ब, कौलफि, गुयाये, भाइयो, मार्कु, नेटम-म्यूर, ओपि, सल्फ।

" मूर्खकी तरह (Stupid)—आर्ज-नाइट्रि, आर्निका, आर्स, कोना-ई, फिरम, हेलि, हाइयो, नक्स-मस, ष्ट्रेमो।

" रोगी (Sickly)—ऐकोन, एपिस, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, वार्ब, कास्टि, चेलि, चायना, सिना, क्लिमे, डिजि, युपे पार्फ, येने, आइयो, क्रियो, लाइको, मैग-म्यूर, मार्कु, नेट्रम म्यूर, फास, फास-ऐ, रास-टक्स, स्पाइजि, स्टेनम, स्टेफि, सल्फ टियुक्लि।

" हतबुद्धि भाव (Besotted)—बैप्टीशिया, काकि, क्रोटे होर जेलस, लैके, नक्स-मस, ओपि, ष्ट्रेमो।

" हरित पाण्डु रोगीकी तरह (Chlorotic)—ऐसे ऐ, षार्ज, बेन कौलफि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कोना, फेरम, येफा, हेलोनि, हेलि कौलि-कार्ब, लाइको, मैग्न, नेट्र-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स योम, फास, प्लैटि, पल्स, सिपिया, सल्फ।

मकड़ेके जालकी तरह मालूम होना, मुखमण्डल (Cobwebs, sensation of)—बैरा-का, बोरेक्स, ग्रैफाइट्स, येल्स, येफा, मोरो मार्फिया, फास ऐ रैना-स्य।

मसा (Warts)—कैल्क, कास्टि, डाल्का, फेरि-फार्ब, नाइको, नाइट्रि ऐ, सिपि सल्फ थूजा।

" ओठमें—नाइट्रि-ऐ थूजा।

" चिबुकमें—नाइको थूजा।

मुखभाव—"भावभङ्गी" देखिये।

रंग—काला—**चायना**, कोरा-रू, हाइड्रो-ऐ, लैके, ऐनान्थि।

„ काले दागकी तरह (Livid)—ऐकोन, ऐरिट-टार्ट, एपिस, **आर्स**, बेल, कैम्फर, कार्बो-वेज, **चायना**, सिकि, सिपि, क्रोक, क्रोटे-हो, ड्रोसे, फेरम, फेरम-म्यू र, **ड्रपि**, कैलि-आयोड, कैलि-फास, क्रियो, मेडो, मार्क, नेजा, नेट्र-म्यू, **ऐनान्थि**, ओपि, आक्जा-ऐ, फास, सैगु, सब्जिया, टैबे, विरे।

„ खाकी (Ashy)—आर्स, बेडि, क्लोरा, सिकि, फेरम, फास, प्लम्ब।

„ ताँबे के रंगका (Coppery)—आर्स, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, क्रियो, रास-टक्स, रूटा।

„ धूसर, धुमैला (Grayish)—आर्स, ब्राबे, ब्रोमि, ब्यूफो, कैड-मि, कार्बो वेज, चेलि, **चायना**, क्लोरा, कोलचि, कूप्रम, लैके, **लाइको**, मेजि।

„ नीली आभा लिये (Bluish)—ऐगा, एपिस, आर्जेना, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, **कैम्फ**, कैन्थ, **कार्बो-वेज**, कास्टि, सिड्रो, चैमो, क्लोरम, सिफि, सिना, काकि, **कोना**, **कूप्रम डिजि**, ड्रोसे, डालका, **हाइयो**, **ड्रपि**, कैलि-आयोड, क्रियो, लैके, लोरो, लाइको, नेट्र-म्य, ओपि, फाइटो, पल्स, सेम्बु, स जिया, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, **विरे**, **विरे-वि**,।

„ „ खाँसनेके समय—एपिस, बेल, **ड्रोसेरा**, **ड्रपि**, मैग-फास, विरे।

„ „ „ क्रुप खाँसी—आर्स, क्रोटे-हो, ड्रोसे, ड्रपि, नक्स वोम।

„ „ „ हु डी (काली खासी)—ब्रोमि, कार्बो-वेज।

„ „ खींचनके समय (During convulsion)—**कूप्रम**, फाइसो, स्टिक्टा।

„ „ ग्लाटिसकी अकडन (Spasm of glottis)—बेल, काफि, **लैके**।

„ „ दमा रोगमें—स्ट्रैमो, टैबे।

„ „ श्वासकष्टमें (Dyspnœa)—ब्राइयो, ओपि, स्ट्रैमो।

„ शीतावस्थामें—कैक्ट, नेट्र-म्यू, **नक्स-वोम**, **स्ट्रैमो**।

रंग, नीली आभा लिये—

» » हृत्पिण्डके रोगमें—एपिस, कोक्क।

» » हैजामें—कैम्फ, कूप्रम, विरे।

» » ओंठ—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, ऐपो, आर्स, बरम, कैम्फ, सिड्रन, चायना, चिनि-स, कौलचि, कूप्रम, डिजि, ड्रोसे, हिपर, हाइड्रो-ऐ, आइयो, इपि, कैलि-आयोड, लैके, लाइको, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम, फास।

» » आँखके चारों ओर, गोलाकार—ऐसि-ऐ, ऐकोन, ऐना, ऐरानि, आर्स, बार्ल, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, चायना, सिकि, सिना, कार्कि, क्रोट-होर, कूप्र, फेरम, ग्रेफा, हिपर, इग्नि, इपि, आइरिस-वार्स, कैलि-आयोड, लाइको, नेट्रम का, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि, फास, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, नक्स-मस, रास-टक्स, सेबाडि, सिकी, सिपिया, स्टैफि, विरे।

» » शीतावस्थामें—चिनि-स, युपे-प, इपि, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम, सिपि।

» परिवर्त्तनशील—ऐकोन, ऐलूमि, बेल, बोफि, कैमो, सिना, फेरम, इग्ने, लिडम, मेग-कार्ब, ओपि, प्लैटि, सिके, सल्फ-ऐ।

रंग—पीला (Yellow)—ऐम्ब्रा, आर्जे-मेट, आर्जे-ना, आर्स, बेप्टी, बेल, ब्रायो, कैल्की, कैल्की-फास, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि कैमो, चिनि-स, क्रियो कोना, कर्पस कोलास, क्रोट होर, डिजि, डल्के, फेरम, जेल्स, ग्रेफा, हेलि हिपर आइयो इपि, कैलि कार्ब, लेके, लाइको, मेग-कार्ब मेग म्यू, मेडो मार्क, मेर्क-स्यू, नेट्र-म, नाइट्रि-ऐ नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास फाइटो प्लम्ब, पल्स, मार्गा सिके, सिपिया, साइलि सल्फ।

» बिन्दु गोल गोल चकत्ते—ऐगारि [illegible] कोमचि [illegible] लाइको, नेट्र-कार्ब, नाइट्रि ऐ, सिपिया, सल्फ।

रंग—बदरङ्ग-उतरा हुआ (Pale)—ऐसे-ऐ, ऐकोन, इस्कु, ऐमोन-म्यूर, ऐना, **ऐण्टि-टार्ट,** एपिस, आर्ज-मेट, आर्निका, **आर्स,** ऐस्टि-रि, बरम, बैप्टी, बैरा-कार्ब, **बोर्व,** बोरेक्स, ब्राइयो, ब्यूफो, कैक्ट, कैल्के, फार्स, **कैल्कि-कार्व, कैल्के-फास, कैम्फ,** कैन्थ, कार्बो-ऐसि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, **चायना, चिनि-स, सिना, क्लिमे,** काकि, कोलचि, कोलोसि, कोना, क्रोकस, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, ड्रोसे, डालका, युपि-पार्फी, **फोरम,** फ्लू-ऐ, जेल्स, ग्लोनो, **ग्रैफा,** हेलि, हाइड्रो, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, कैलि-बाइक्रोम, कैलि-आयोड, कैल्मि, क्रियो, लैके, लोरा, लिडम, **लाइको,** मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मेर्क, मार्क-कोर, मार्कु, मेजे, म्यू-ऐ, **नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, फास, **फास-ऐ,** फाइटो, प्लैटि, **प्लम्ब,** सोरि, पल्स, रियुम, रास-टक्स, सैम्बु, सैंगु, **सिकेलि, सिपिया,** साइलि, स्पाई, स्पञ्जि, स्टेनम, स्ट्रैमो, **सल्फ,** सल्फ-ऐ, टैबे, टेरि **विरे,** जिङ्क।

” ” उठ बैठनेपर—ऐकोन, विरे।

” ” ऋतुके समय—आर्स, सिङ्कन, फेरम, इग्ने, इपि, लाइको मेग-कार्ब, मैग-म्यू, पल्स, विरे।

” ” भोजनके बाद—कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, थूजा।

” ” मलत्यागनेके समय—कैल्के, इपि, कैलि-कार्ब, रियुम, विरे।

” ” मानसिक उद्वेगके बाद—फेरम, ग्रैफा।

” ” मिचलीके साथ—ग्लोनो, सैंगु, टैबे।

” ” रक्त-स्रावके साथ, नाकसे—कार्बो-वेज।

” ” शीतावस्थामें—बेल, चायना, सिना, ड्रोसे, हिपर, इग्ने, नक्स-मस, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिके, **विरे**।

” ” सर-दर्दके साथ—ऐकोन, सिपिया, स्ट्रैमो, विरे।

” ” सोनेपर,—बेल, पेट्रो, थिया।

रंग, बदरङ्ग ओंठ—एपिस, ऐरानि, **आर्स,** कैल्को, कोलचि, साइक्ला, **फेरम,** **हाइड्रो-ऐ,** लाइको, **मेडो,** मार्क-कोर, ओपि, फास-ऐ, पल्स।

" मटमैला (Earthy)—ऐण्टिम-टार्ट, आर्निका, आर्स, बार्ब, बोरैक्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के-कार्ब कार्बो-ऐनि, **चायना,** सिकि, क्रोक, **फेरम,** इग्ने, लैके, लोरो, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मेडो, **मार्क,** मेजि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, **सिपिया,** साइलि, सल्फ।

" " मुर्देकी तरह (Ghostly)—**आर्स,** ओपि।

" लाल (Red)—**ऐकोन,** ऐगा, आइलैन्थ, ऐमिल-नाइ, ऐना, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जे-नाइ, आर्निका, आर्स, ऐसाफि, अरम-म्यू, बैडि, **बेपटी,** बैरा-कार्ब, बेल, बोवि, **ब्राइयो,** कैम्फ, कैन्थ, कैप्सि, कास्टि, सिड्र, **कैमो, चेलि, चायना,** चिनि-स, **सिक्वि, सिना,** काकु, काफि, काकि, कोलोसि, क्रोक, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, कूप्रम, ड्रोसेरा, डल्का, इलैप्स, युपे-पर्फो, फेरम ऐ, जेल्स, **ग्लोनो,** ग्रेटि, गुयाए, हेलि, हिपर, **हाइयो,** हाइपे, इग्ने, लैको, कैलि-ब्राम, लैसी, लाइको, **मिलि,** मार्क-कोर, **मार्क, मेजि,** मेजा, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि,** प्लैटाए, प्रूस, पल्स, रैना या, **रास-टक्स,** सैबा, सैम्बु, सैंगु, सिनि, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, स्ट्रैनम, सल्फ, टैरे, विरे, **विरे-वि।**

" " अचेतनावस्थाके साथ (With coma)—म्यू-ऐ।

" " उठ बैठनेपर—वैल।

" " एक गालमें—ऐकोन, ऐण्टि टार्ट आर्निका, बेल, कैमो चेलि इग्ने, पल्स, विरे।

" " एक ओर लाल दूसरी ओर पीला—ऐकोन, **कैमो,** मिल, इपि, लैके, मस्क, नक्स वोम, पल्स, टिट्र, सल्फ।

रंग, लाल खाँसीके साथ—ऐकोन, बेल, ब्रायो, कूप्र-ऐ, ग्रैफा, हिपर, इपि, लाइको, **सैंगु,** सल्फ।

„ „ ज्वरकी अवस्थामें—बेल, चायना, काकि, युपे-पार्फ, फेरम, लाइको, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, **सिपिया,** विरे।

„ „ पर्यायक्रमसे, पीलेपनके साथ (Alternating with paleness) **ऐकोन,** आर्स, बेल, कैम्फ, कैमो, चायना, क्रोक, **फेरम,** ग्लोनो, हेलि, इग्ने, लिडम, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स।

„ „ बिन्दु-बिन्दु दाग-चकत्ते (Spots)—ऐनान्थि, बेल, ब्रायो, कैंफि, लैक-कै, लाइको, फ्नैन्थि, फास, सैबाइ, साइलि, सल्फ।

„ „ विसर्पकी तरह (Erysipelatous)—**ऐकोन,** एपिस, आर्स, बेल, कैमो, युफोर, ग्रैफा, **हिपर,** लैके, **रास-टक्स,** सल्फ।

„ „ वृत्ताकार (Circumscribed)—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, **चायना,** कोलचि, डालका, **फेरम,** वैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, **लाइको, फोस,** पल्स, सैंगु, स्टैनम, **सल्फ।**

„ „ शीतावस्थामें—ऐकोन, ऐमोन-म्यू, आर्निका, आर्स, बेल, ब्रायो, कैमो, चायना, **फेरम,** इग्ने, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ सर-दर्दके साथ—ऐकोन, **बेल,** ब्यूफो, कैक्ट, कैल्के-कार्ब, सिकि, काक्कि, क्रोक, फेरम-फास, **ग्लोनो,** कैल्मि, लैके, **मेलि,** नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ „ सरमें चक्करके साथ—बेल, कैक्ट, काफि, स्ट्रैमो।

„ „ ओंठ—एपिस, अरम-म्यू, बेल, लैके, सैंगु, **सल्फ।**

„ „ कपालमें—कैल्के, लोरो, लिलि-टिग, रास-वे, स्ट्रैमो, वेबि, विरे।

„ सीसेकी तरह (Lead coloured)—आर्ज-ना, कैलि-आयोड, नेट्र-म्यू, फ्नैन्थि, प्लम्ब।

रंग, हरी आभा लिये (Greenish)—आर्स, कार्बो-वेज, चेलि, फेरम,
आइयो, मेडो, मार्क, नक्स-वोम, पल्स।

रक्ताधिक्य (Congestion of)—ऐकोन, **ऐमिल**, एपिस, **बेल**, ब्रायो,
जेल्स, **ग्लोनो**, आइयो, लेके, फास, **पल्स**, स्ट्रैमो।

„ पाखाना फिरनेके समय—ऐलोज।

„ भोजनके समय—कोपि।

रूखा चमड़ा—(१) बार्बे, ऐकुई, पेट्रो। (२) कैलि-कार्ब, सल्फ।

विकृत (Distroted)—ऐकोन, आर्स, बेल, ब्यूफो, कैम्फ, कैमो, सिकि
सिना, क्रोटे-हो, कूप्र, ग्रैफा, हेलि, हाइड्रो-ऐ, हायो, इग्ने, लैके,
लोरो, मार्क-कोर, नक्स-म, **नक्स-वोम**, **ओपि**, **पेट्रो**, फास,
रास-टक्स, साइलि, स्ट्रैमो।

„ निगलनेके समय—नाइट्रि-ऐ।

„ मुखगह्वर—बेल, काकु, कोना, कूप्रम, डाल्का, ग्रैफा, लोरो, माइको,
नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, स्ट्रैमो।

शोथ (Oedoma)—"फूलन" देखिये।

सङ्कोचन, आकस्मिक (Twitching)—**ऐगा**, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स,
कैमो, कोना, हेलि, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, इग्नेशि, **ओपि**,
फास, **सिलि**, सल्फ-ऐ।

सुन्न भाव (Numbness)-ओठमें—ऐकोन, क्रोटे-हो, ग्लोनो, नेट्र-म्यू।

„ गाल—कैम्फ, मेजे, ओपि, प्लैटि।

„ ठोड़ीमें—ऐगाफि, प्लैटि, म्याञ्ज।

सूखापन (Dryness)—**आर्स**, सिमि, गुवर्फा, हाइड्रो ऐ, आइयो, कैलि-
कार्ब, मार्क-कोर, सल्फ।

„ ओठका—ऐकोन ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर ऐमिल ऐण्टि-क्रूड,
एपिस आर्जे-नाइ, आर्स बेल **ब्रायो**, कैल्के कैल्के-फास,
कायना, क्रोटन-टिग, डिजि, फेरम, जेल्स ग्रैफा, हेलि इग्नेशि,
हाइड्रो, **हायो**, इग्ने, कैलि-फास, कैलि-कार्ब, कैम्फर, क्रियो
लैक-कै, लाइको मार्क, मार्क-कोर, मार्क-सोल, म्यू-ऐ, फिजस

म्यूर, नाइट्रि-ए, **नक्स-मस, नक्स-वोम,** फास, सोरि, पल्स, **रास-टक्स,** सिपिया, साइलि, ष्ट्रैमो, **सल्फ,** विरे।

सूजा भारी भारी (Bloated)—**ऐकोन,** ऐण्टि-टार्ट एपिस, ऐमो, **आर्स,** अरम, बेल, ब्राइयो, व्यूफो, कास्टि, कैम्फ, सोड़, चायना, सिना, काफि, कोलचि, क्रोटे-टो, कैलि-कार्ब, लैके, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, सैम्बु, साइलि, सल्फ।

" आँखके ऊपरी भागमें—लाइको, रूटा, सिपिया, कैलि-कार्ब।

" " निचले भागमें—एपिस, आर्स, अरम, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स।

" " चारों तरफ—एपिस, आर्स, कोलचि, फेरम, मार्क, नाइट्रि-ए फास, रास-टक्स।

मुख-विवर। (MOUTH)

अङ्गुली प्रवेश कराते हैं, लड़के लड़कियाँ—कैल्के, कैमो।

अर्बुद (Tumour)—कैल्के-कार्ब, लाइको, नाइट्रि-ए।

" कैन्सर (Cancer) जीभमें—ऐलू, एपिस, आर्स, अरम-म्यू।

" फोड़ा मसूड़ेका (Epulis)—कैल्के, नेट्र-म्यू।

" रेनूला (Ranula)—ऐम्ब्रा, कैल्के, कैन्थ, लैके, मार्क, नाइट्रि-ए, प्लम्ब, स्टैफि, थूजा।

अलग मसूड़े दाँतसे (Gums detached from teeth) बोलनेके समय—कास्टि।

उत्ताप (Heat)—ऐकोन, आर्स, बैडि, **बेल, बोरैक्स,** कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, कैमो, सिमि, कोलचि, हाइपि, जैट्रो, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लाइको, नेट्र-म्यू, सोरि, रास-टक्स, सेलि-ए, सिनि, स्ट्राम्नि, सल्फ।

उत्ताप, जीभमें—ऐकोन, एपिस, आर्स, बेल, मेजि, फाइटो, सल्फ।

„ मसूढ़ेमें—ऐकोन, बेल, कैम्फि, कैमो, डालका, क्रियो।

कड़ी जीभ—आर्स, बार्ब, बेल, केल्के-फास, कार्बो-वेज, कोलचि, कोना, क्रोटे-हो, हेलि, लैके, लोरोसि, लाइको, मार्कु-कोर, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, स्ट्रैमो।

कम्पन जीभका (Trumulous tounguo)—ऐगा, एपिस, आरम, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, केन्थ, क्रोटे-होर, जेल्स, हेलि, हाइयो, इग्ने, लैकी, लाइको, मार्कु, ओपि, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, स्ट्रैमो, टैरे।

काँटा काँटा जीभमें (Papillous erect)—आर्ज-ना, आर्स, ऐरा-ट्रि, बेल, हाइड्रो, लैके, लाइको, मार्कु, मार्कु-कोर, नक्स-म, फास, टैरे।

„ बड़ा बड़ा—ऐगा, बेल, इग्ने, केलि-कार्ब, फास, टियुक्रि।

केश है मानो, जीभमें (Sensation of hair on tonguo)—ऐलि-से, केलि-बाई, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, साइलि।

„ तालुमें—केलि-बा।

केन्सर (Cancer)—"अर्बुद" देखो।

खुला (Open)—"मुंह फाड़ना" देखो।

खोंटना, मसूढ़ा, दाँत, जब तक खून न निकले तब तक—सिलि।

गन्ध (Odour) भोजनके पदार्थकी तरह—आर्निका, कार्बो-वेज, कैमो, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ।

„ बदबूदार (Offensive)—ऐगा, ऐलिसि, ऐम्ब्रा, ऐना, आर्निका, आरम, बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, केल्के, कार्बो नि, कार्बो-वेज, कार्ल्स, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चिनि, सिमि, क्रिओ, क्रोक, डाल्का, फ्लू-ए, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, आइयो, केलि कार्ब केलि-आयोड, केलि-फास, क्रियो, [illegible] लाइको मेजि, मार्कु, मार्कु-कोर, मार्कु-[illegible] म्यू-ए, नेट्रम म्यू, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ए, नक्स मस, नक्स वोम, पेट्रो, फास ए, फाइटो प्लम्ब पल्स, सिपिया, स्टैनम सल्फ सल्फ ए।

„ „ मधुर—आर्ज ना, आरम डिप्टी, [illegible] लाइको, नक्स वोम, प्लम्ब, साइलि, सल्फ।

गन्ध, सडी (Putrid)—ऐना, एपिस, आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि, **आर्निका**, **आर्स**, अरम-ट्रि, अरम, बैप्टी, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कैमो, क्रोट-होर, डाल्का, ग्रेफा, हेलि, हृग्ने, कैलि-बा, कैलि-क्लोर, क्रियो, लेके, लाइको, **मार्कु**, मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ऐ नक्स-वोम, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, राम-टक्स, स्पाइजि, सल्फ।

" " सवेरे—ऐग्ना, आर्ज-नाइट्रि, कैम्फर, क्रोटे-होर, लाइको, मेजो, पल्स।

चबाता है मानो, कुछ (Chewing motion)—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कमो, जेल्स, हेलि, हृग्ने, लेके, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, सिपिया, स्ट्रैमो, विरे।

" सोया सोया—कैल्के, सिपिया।

चमकीली जीभ (Smooth, shining, glistering, glazed, glossy)—एपिस, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, क्रोटे-होर, ग्लोनो, हृपि, **कैलि-बा**, **लेकी**, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, सिके, सल्फ-ऐ, टेरि।

छाला (Blisters)—ऐना, आर्स, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सोरि।

" जलन भरा—कैप्सि, ग्रैफा, कैलि-क्लोर, नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

" जीभमें—ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, बोरेक्स, कैल्के, कैप्सि, कैमो, लाइको, मार्कु, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपिया।

" तालुमें—मैन्सि, नेट्रम, सल्फ।

छेद छेद स्पञ्जकी तरह (Spongy tongue)—"शीताद रोग" देखिये।

" जीभ—वेञ्जो-ऐ, कैम्फ।

" मसूढा—ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, डालका, हैमा, कैलि-क्लोर, **कैलि-फास**, **क्रियो**, **लेकी**, **मार्क**, **मार्कु-कोर**, रोबि, सैगु, स्ट्रैफि, टेरि।

(Ulcer)—ऐग्नस, ऐलूमि, ऐना, आर्स, बैप्टी, कैन्थ, सिकि, डाल्का, ग्रैफा, **आइयो**, आइरि-वार्स, कैलि-कार्ब, कैलि-ब्रा, कैलि-क्लो, **कैलि-आयोड**, मार्कु, मार्कु-कोर, मार्कु-स, **म्यू-ऐ**, नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वो, सोरि, स्टैफि, सल्फ-ऐ।

गन्ध, सडो (Putrid)—ऐना, एपिस, आर्जे-मेट, आर्जे-नाइट्रि, **आर्निका, आर्स,** अरम-ट्रि, अरम, बैप्टी, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, **केमो,** क्रोट-होर, डाल्का, ग्रेफा, हेलि, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-क्लोर, क्रियो, लेके, लाइको, **मार्कु,** मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, स्पाइजि, सल्फ।

" " सवेरे—ऐग्नस, आर्जे-नाइट्रि, कैम्फर, क्रोटे-होर, लाइको, **मेडो,** पल्स।

चबाता है मानो, कुछ (Chewing motion)—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, **कैल्के,** कमो, जेल्स, हेलि, इग्ने, लेके, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, सिपिया, स्ट्रैमो, विरे।

" सोया सोया—कैल्के, सिपिया।

चमकीली जीभ (Smooth, shining, glistering, glazed, glossy)—एपिस, आर्जे-नाइट्रि, आर्स, क्रोटे-होर, ग्लोनो, इपि, **कैलि-बा, लेके,** नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, सिके, सल्फ-ऐ, टेरि।

छाला (Blisters)—ऐना, आर्स, कैल्के, केन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, **नेट्रम-कार्ब,** नाइट्रि-ऐ, सोरि।

" जलन भरा—कैप्सि, ग्रेफा, कैलि-क्लोर, नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

" जीभमें—ऐमोन-म्यू, आर्जे-मेट, बोरेक्स, कैल्के, कैप्सि, कैमो, लाइको, मार्कु, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपिया।

" तालुमें—मैन्सि, नेट्रम, सल्फ।

छेद छेद स्पञ्जकी तरह (Spongy tongue)—"शीताद रोग" देखिये।

" जीभ—बेञ्जो-ऐ, कैम्फ।

" मसूढा—ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, डालका, हैमा, कैलि-क्लोर, **कैलि-फास, क्रियो, लेके, मार्कु, मार्कु-कोर,** रोबि, सैगु, स्ट्रैफि, टेरि।

जखम (Ulcer)—ऐग्नस, ऐलूमि, ऐना, आर्स, बैप्टी, कैन्थ, सिकि, डाल्का, ग्रेफा, **आइयो,** आइरि-वार्स, कैलि-कार्ब, कैलि-बा, कैलि-क्लो, **कैलि-आयोड,** मार्कु, मार्कु-कोर, मार्कु-स, **म्यू-ऐ,** नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वो, सोरि, स्ट्रैफि, सल्फ-ऐ।

जखम, उपदंश रोगसे पैदा हुआ—आरम, आरम म्यू, लु-ऐ, हिपर, हाइड्रो, कैलि-बा, कैलि-आयोड, लैके, मार्क, मार्क-आ-रु, फाइटो, सिफि।

„ ऊँचे किनारेका—हेलि।

„ ऊँच नीचा किनारा (Irregular)—आर्स, कैलि-आयोड, मार्क।

„ गहरा—कार्बो-वेज।

„ गैंग्रीनकी तरह (Gangrenous-सड़ने वाला जखमकी तरह)—आस, बप्टो, बोरैक्स, लेकै।

„ जलन भरा—आर्स, केप्सि, कार्बो-वेज, कैलि-आयोड, मार्क, नेट्र कार्ब, नेट्र-म्यू, फास-ऐ, सिना ना।

„ दुर्गन्ध युक्त—बैप्टि, नक्स-वोम, नाइट्रि-ऐ, मार्क।

„ पाराके अपव्यवहार होनेकी वजहसे—बोरैक्स, हिपर, आयडो, कैलि-आयोड नाइट्रि-ऐ।

„ यन्त्रणादायक—आर्स, फ्लू-ऐ, मार्क, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ।

„ जीभमें—एपिस, आर्स, आरम, वैप्टी, बैरा-कार्ब, कैप्सि, कैल्के, चायना, डिजि, फ्लू-ऐ, कैलि-बा, कैलि क्लोर, कैलि-आयोड, मेजे, लाइको, मार्क, मार्क-आ-रु, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू नाइट्रि-ऐ, फ्लम्ब, फाइटो, सोरि, सिना-ना, स्टैफि, सल्फ।

जखम जीभमें—

„ „ उपदंश रोगकी वजहसे—फ्लू-ऐ, कैलि बा, कैलि आयोड, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

„ „ किनारे—आर्स, कैल्के, मेजे, मार्क, कैलि बा, नाइट्रि-ऐ।

„ „ नीचे—फ्लू ऐ, एफा, लाइको, फ्लम्ब, सेनि।

„ तालुमें—ऐपिस, ऑरम, सिनेबार कैलि बा, मेजे लाइको मार्क, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम फास फास ऐ, फाइटो थूजा, सार्स।

„ „ उपदंश रोगकी वजहसे—आरम म्यू, कैलि बा सिफि।

„ „ छिद्र युक्त (Perforating)—कैलि-बा, सार्स।

गन्ध, सड़ी (Putrid)—ऐना, एपिस, आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि, **आर्निका,** **आर्स,** अरम-ट्रि, अरम, बैप्टी, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, केमो, क्रोट-होर, डाल्का, ग्रेफा, हेलि, इग्ने, केलि-बा, केलि-क्लोर, क्रियो, लैके, लाइको, **मार्कु,** मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, स्पाइजि, सल्फ।

„ „ सवेरे—ऐग्नस, आर्ज-नाइट्रि, कैम्फर, क्रोटे-होर, लाइको, **मेडो,** पल्स।

चबाता है मानो, कुछ (Chewing motion)—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कसो, जेल्स, हेलि, इग्ने, लैके, मार्कु, नेट्र-म्यू, फास, सिपिया, स्ट्रैमो, विरे।

„ सोया सोया—कैल्के, सिपिया।

चमकीली जीभ (Smooth, shining, glistering, glazed, glossy)—एपिस, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, क्रोटे-होर, ग्लोनो, इपि, **कैलि-बा,** **लैके,** नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, सिके, सल्फ-ऐ, टेरि।

छाला (Blisters)—ऐना, आर्स, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, **नेट्रम-**कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सोरि।

„ जलन भरा—कैप्सि, ग्रैफा, कैलि-क्लोर, नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

„ जीभमें—ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, बोरेक्स, कैल्के, कैप्सि, केमो, लाइको, मार्कु, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपिया।

„ तालुमें—मैन्सि, नेट्रम, सल्फ।

छेद छेद स्पञ्जकी तरह (Spongy tongue)—"शीताद रोग" देखिये।

„ जीभ—बेञ्जो-ऐ, कैम्फ।

„ मसूढ़ा—ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, डालका, हैमा, कैलि-क्लोर, **कैलि-फास, क्रियो, लैकै,** **मार्क, मार्कु-कोर,** रोबि, सैगु, स्ट्रैफि, टेरि।

जखम (Ulcer)—ऐग्नस, ऐलूमि, ऐना, आर्स, बैप्टी, कैन्थ, सिकि, डाल्का, ग्रैफा, **ब्राइयो,** आइरि-वार्स, कैलि-कार्ब, कैलि-बा, कैलि-क्लो, **कैलि-आयोड,** मार्कु, मार्कु-कोर, मार्कु-स, **म्यू-ऐ,** नेट्र-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वो, सोरि, स्टैफि, सल्फ-ऐ।

अखम, उपदंश रोगसे पैदा हुआ—आरम, आरम-म्यू, लु-ऐ, हिपर, काइली, कैलि-बा, कैलि-आयोड, लैके, मार्कु, मार्कु-आ-रू, फाइटो, सिफि।

„ ऊँचे किनारेका—हेलि।

„ ऊँच नीचा किनारा (*Irregular*)—आर्स, कैलि-आयोड, मार्कु।

„ गहरा—कार्बो-वेज।

„ गैंग्रीनकी तरह (Gangrenous-सड़ने वाला जखमकी तरह)—आर्स, बप्टो, बोरैक्स, लैके।

„ जलन भरा—आर्स, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैलि-आयोड, मार्कु, नैट्र कार्ब, नैट्र-म्यू, फास-ऐ, सिना-ना।

„ दुर्गन्ध युक्त—बैप्टि, नक्स-वोम, नाइट्रि-ऐ, मार्कु।

„ पाराके अपव्यवहार होनेकी वजहसे—औरैक्स, हिपर, काइयो, कैलि-आयोड नाइट्रि-ऐ।

„ यन्त्रणादायक—आर्स, फ्लू-ऐ, मार्कु, नैट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ।

„ जीभमें—एपिस, आर्स, आरम, बैप्टो, बेन-कार्ब, कैप्सि, कैल्के, चायना, डिजि, फ्लू-ऐ, कैलि-बा, कैलि क्लोर, कैलि-आयोड, लैके, लाइको, मार्कु, मार्कु-आ-रू, म्यू-ऐ, नैट्र-म्यू, नाइट्रि ऐ, प्रम, फाइटो, सोरि, सिना-ना, स्टैफि, सल्फ।

जखम जीभमें—

„ „ उपदंश रोगकी वजहसे—फ्लू-ऐ, कैलि बा, कैलि आयोड, मार्कु, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

„ „ किनारे—आर्स, कैल्के, लैके, मार्कु, कैलि बा, नाइट्रि-ऐ।

„ „ नीचे—फ्लू-ऐ, थेफा, लाइको, प्रम, मैनि।

„ तालुमें—ऐपिस, आरम, सिनिबार कैलि बा लैके, लाइको, मार्कु, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम फास, फास ऐ फाइटो सैंगु, साइलि।

„ „ उपदंश रोगकी वजहसे—आरम म्यू, कैलि बा सिफि।

„ „ छिद्र युक्त (Perforating)—कैलि-बा साइलि।

जखम, तालुमें सड़ने वाला (Sloughing)—कैलि-बाई, लैके, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, फास, सिफि।

„ वेलममें (On velum)—कैलि-आयोड, मार्क, मार्क-सा, नाइ-ऐ, फास-ऐ, सिफि।

„ मसूड़ेमें—आर्स, अरम, कैल्के, कार्बो-वेज, कूप्रम, हिपर, आइयो, कैलि-बाइ, कैलि-आयोड, **क्रियो**, लैके, लाइको, **मार्क**, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, **फास**, फास-ऐ, **सोरि**, सिपिया, साइलि, सल्फ-ऐ, स्टैफि।

„ „ सड़नेवाला (Sloughing)—मार्क-कोर, मार्क-आ-रू, ओपि, स्टैफि।

„ हड्डीमें (Caries)-तालुकी—**अरम**, मार्क, नाइट्रि-ऐ।

झिल्ली नकली (False membrane)—ऐरा-ड्रि, ब्राइयो, लैक-के, मार्क-सा, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सल्फ-ऐ।

„ तालुमें—आइयो, इपि, लैक-कै, लैके, मार्क, मार्क-सा, मार्क-बा-फ्ले, म्यू-ऐ, सैंगु, सल्फ।

„ सफेद आभा लिये पीली (Whitish yellow)—**नाइट्रि-ऐ**।

ठण्डा मालूम होना, मुँहका विवर (Coldness)—ऐकोन, ओपि, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, क्लिमे, लाइसि, प्लैटि, पल्स, विरे।

„ „ जीभमें-ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, वेल, **कार्बो-वेज**, लोरो, विरे, जिङ्क।

„ जीभ (Cold tongue)--आर्स, कैम्फ, कार्बो-वेज, कोल्चि, कूप्रम-स, आइरि-वा, लोरो, नेट्र-म्यू, आक्जे-ऐ, फास-ऐ, विरे।

दर्द, जीभमें—कास्टि, एपिस, आर्स, ऐरम, वेल, कोना, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, म्य-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लम्ब, सल्फ, वैस्पा-माइ।

„ „ अगले भागमें—आर्ज-ना, हिपर, सोरि, साइलि, स्ट्राम्नि।

„ „ जड़में—कैलि-आयोड, फाइटो, रास-वेन।

„ „ निगलनेमें—कैल्के, कैल्के-फास।

„ „ बोलनेमें—ऐसे-ऐ, फ्लु-ऐ, कैलि, लाइको।

„ „ बढ़ना, दबानेपर, दाँतसे—ऐरम-म्यू, क्रोक।

दर्द, जीभमें बढ़ना, हिलाने पर—ऐलो, ऐगिट-टार्ट, बार्बे, कैल्-मि, साइलि।
» तालुमें—एपिस, ऐरम, कैन्था, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, कैलि-बा, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, रूटा, थूजा।
» मसूड़ेमें—एपिस, आर्निका, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, क्रोटे-हो, हैमा, हिपर, लैके, लिसिन, मार्कु, फास, साइलि, स्टैफि।
» » छूनेपर—बैरा-कार्ब,- बेल, हिपर, आइयो, मार्कु, फास-ऐ, साइलि, स्टैफि, टेरि।
» » दाँत उखड़वाने पर—कैन्थ, हाइयो, हाइपे, नक्स-वोम।
» » घटना, ठण्डे पानीसे—लोरो।
» » बढ़ना, ठण्डे पानीसे—सार्सा, स्टैफि।
» » » ठण्डी हवासे—हाइपे, मेजे, फास, साइलि।
» थकाइन (Soreness)—आर्स, कैल्के, क्रोटे-होर, हैलोनि, हिपर, इग्ने, लैक-ऐ, लैके, मार्क, मार्कु-कोर, मार्क-सल्फ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, सेबाडि।
» » जीभमें—ऐगा, एपिस, आरम-ट्रि, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, सिस्टा, क्रोटे-होर, कूप्रम ऐ, डिजि, लैके, माइको, मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रास-टक्स, सेबाडि, सिपिया।
» » जीभके अगले भागमें—कैल्के, कार्बो ऐनि, हिपर, रास टक्स सिपिया, साइलि, टेरि।
» » » बगलमें—लैके, पल्स।
» » तालुमें—ऐरम-ट्रि, कास्टि, मैगे, मेजे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फाइटो।
» » मसूढ़ेमें—आर्जे-ना, आर्निका, आर्स, आरम, कैल्कि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, इग्नि, ग्लोनो, हैमा, हिपर, आइयो, कैलि-बा, मार्क, मार्क-कोर, नाट्र, नाइट्रि ऐ, पल्स, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सिङ्क।
» » » सड़नेमें—कार्बो-वेज, नाइट्रि ऐ।
» » » दाँत निकलनेमें सहजमें—बोरे।

जखम, तालुमें सड़ने वाला (Sloughing)—कैलि-बाई, लैके, माकु
नाइट्रि-ऐ, फास, सिफि।

„ वेलममें (On velum)—कैलि-आयोड, माकु, माकु-सा,
फास-ऐ, सिफि।

„ मसूड़ेमें—आर्स, अरम, कैल्के, कार्बो-वेज, कूप्रम, हिपर,
कैलि-बाइ, कैलि-आयोड, **क्रियो**, लैके, लाइको, **माकु**,
कोर, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू**, नक्स-वोम, **फास**, फास-ऐ,
रिपिया, साइलि, सल्फ-ऐ, स्टैफि।

„ „ सड़नेवाला (Sloughing)—माकु-कोर, माकु-आ-रू,
स्टैफि।

„ हड्डीमें (Caries)-तालुकी—**अरम**, माकु, नाइट्रि-ऐ।

झिल्ली नकली (False membrane)—ऐरा-ट्रि, ब्राइयो, लैक-के,
सा, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सल्फ-ऐ।

„ तालुमें—आइयो, इपि, लैक-कै, लैके, माकु, माकु-सा, माकु-आ-
म्यू-ऐ, सैंगु, सल्फ।

„ सफेद आभा लिये पीली (Whitish yellow)—**नाइट्रि-ऐ**।

ठण्डा मालूम होना, मुँहका विवर (Coldness)—ऐकोन, ओपि,
कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, क्लिमे, लाइसि, प्लैटि, पल्स, विरे।

„ „ जीभमें-ऐकोन, ऐसिट-टार्ट, बेल, **कार्बो-वेज**, लोरो,
जिङ्क।

„ जीभ (Cold tongue)—आर्स, कैम्फ, कार्बो-वेज, कोलूचि,
स, आइरि-वा, लोरो, नेट्र-म्यू, आक्जे-ऐ, फास-ऐ, विरे।

दर्द, जीभमें—कास्टि, एपिस, आर्स, ऐरम, बेल, कोना, कैलि-कार्ब, ला
माकु, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास, ग्लम्ब, सल्फ, वेस्पा-माइ।

„ „ बगले भागमें—आर्ज-ना, हिपर, सोरि, साइलि, थ्वाम्ब।

„ „ जड़में—कैलि-आयोड, फाइटो, रास-वेन।

„ „ निगलनेमें—कैल्के, कैल्के-फास।

„ „ बोलनेमें—ऐसे-ऐ, पलु-ऐ, कोलिम, लाइको।

„ „ बढ़ना, दबानेपर, दांतसे—

दर्द, जलन, जीभ निकालता है, ठण्डी होगी इसलिये—सैनि।

" " जीभमें पीसा मिर्चा लगनेकी तरह—लैके, मार्वी, मेजे, ओपि, सैनि, सिपि, टियु।

" " जीभके अगले भागमें—ऐकोन, बैरा-कार्ब, बेल, कैल्के, कैल्की-फास, कार्बो-ऐनि, कोलोसि, ड्रोसेरा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यु, नेट्र-स, फास, फाइटो, सैंग्वि, सल्फ, थूजा।

" " " " मिर्चा लगनेकी तरह—कैम्फ, चायना, मेजे, नेट्र-स।

" " " " छूनेसे बढना—ऐमोन-कार्ब, बैरा-कार्ब, बेल, नाइट्रि-ऐ।

" " " किनारे—ऐकोन, ऐगा, एपिस, कैम्फ, माइलि, कैलि-आयोड, म्यु-ऐ, नेट्र-स, प्लैटि।

" " " जड़में—ऐमोन कास्टि, ऐरम-ट्रि, बैडि, बेञ्जो-ऐ।

" " तालुमें—इस्कि, ऐलि-सि, ऐरम-ट्रि, बेल, बोरेक्स, कैम्फ, कैल्व, साइमेक्स, सैंग कार्ब, मेजे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पैरि, फास, रैना-बा, स्कु इन्ना।

" " तालुके कोमल भागमें—ऐरम्रा, कैल्के, लैके, नक्स म, फास-ऐ।

" " मसूढ़ेमें—आर्स, बेल, कैपि, कैमो, मार्की, मार्क-कोर, नेट्र-म, नक्स-वोम, पल्स, राम टक्स सिपिया, टेरि।

" टपक (Pulsating)—आर्निका, बेल, कैल्के, हैफ।

" जल गया है जैसा (Burnt, as if) जीभ—आर्जे ना आर्स, कास्टि, सिमेक्स, कोलसि, ऐमा, आइरिस, मोरोसि माइको मार्क, फास फाइटो, प्लैटि, पल्स, राम पै, सैंड्र सिरि सि।

" जल गया है जैसा मसूढ़ेमें—साइमेक्स, इग्ने, सिपिया।

" " तालुमें—साइमेक्स फेरम म्यु, मेक पि सिपिया।

" " मसूढ़ेमें—साइमेक्स, इग्ने, सिपिया।

" " जीभके अगले भागमें—ड्रोसे, मार्क-मल्फ, नेट्रम फास, नक्स वोम फास, फास ऐ।

" " " जड़में—नेट्रम मल्फ, नाइट्रि ऐ

दर्द, अकड़न मसूड़ेमें, बढ़ना गरमसे—नेट्र-म्यू।

„ „ „ „ जलसे—साइलि।

„ „ „ „ ठण्डी हवासे—कोबाल्ट।

„ कुटकुटाना, जीभमें (Aching)—ऐलि-सि, सैङ्गु, सल्फ।

„ „ तालुमें—ऐलूमि, कैलि बा, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास।

„ „ मसूड़ेमें—नाइट्रि-ऐ।

„ काँटा गड़नेकी तरह (Pricking), तालुमें—आर्ज ना, कैल्के, कास्टि।

„ चिलक मारनेकी तरह (Shooting), जीभमें—एपिस, रैना-सि।

„ „ मसूड़ेमें—कैम्फ, पल्स।

„ फाड़ डालता है मानो (Tearing) जीभमें—कोलचि, पल्स, रास, बेल, सिपिया।

„ „ मसूड़ेमें—आर्स, बार्बे, कैल्के, कोलचि, हाइयो, लाइको, मार्क, सल्फ, टियु।

„ जलन (Burning, Rawness, Smarting)—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, **आर्स, ऐरम, बेल,** ब्रोमि, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, हाइड्रो, इग्ने, **आइरि-वा,** मैग-म्यू, मार्कु-कोर, **मेजे,** नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, फास, सोरि, सिपिया, सल्फ, सल्फ-ऐ, विरे।

„ „ ठण्डे पानीसे घटना—बार्बे, ड्रोसेरा, डालका, मार्क-कोर।

„ „ „ „ बढ़ना—आर्स, ब्यूफो।

„ „ मिर्चा पीसा, लगनेकी तरह—कोका, ड्रोसे, मेजे, नेट्र-स।

„ „ जीभमें—**ऐकोन,** ऐमोन-म्यू, एपिस, **आर्स,** अरम-म्यू, **ऐरम-ट्रि,** बैप्टी, बेल, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कैमो, **चायना,** साइमेक्स, कोलचि, कोलोसि, ड्रोसे, हाइड्रो, ओपि, आइरि-वा, लैके, लोरो, लाइको, मैंगे, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, आकजे-ऐ, फास, फाइटो, प्लैटि, सोरि, सैंगु, सिकेलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, विरे-वि।

„ „ „ भोजनके समय—इग्ने, नेट्र-म्य।

„ „ „ „ पीछे—पैफा।

मार्क-कोर, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, प्लम्ब, साइलि, स्टेफि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

प्रदाह, जीभमें, पाराके अपव्यवहारसे—कैल्के, हिपर, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, स्टेफि, सल्फ।

" तालुमें—ऐकोन, एपिस, बेल, काकु, कोल्चि, जेल्स, लैके, नक्स-वोम, रैना-बा।

" " कोमल तालुमें—ऐकोन, एपिस, बेल, काफि, लैके, मिसिन।

" मसूढ़ेमें—ऐकोन, ऐलू, कैम्फि, केमो, आइयो, कैलि-क्लोर, क्रियो, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, फाइटो, साइलि, सल्फ।

पारेके अपव्यवहारसे रोग, मसूढ़ेमें (Mercurial affections of gums)—कार्बो-वेज, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

पीव मसूढ़ेमें—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, मार्क, मेजे, नेट्र-स, फास, पल्स, साइलि।

पीव भरी फुन्सियाँ, जीभमें—ऐण्टि-टार्ट, हिपर, मेजे, म्यू-ऐ, सिपिया, मेरियो।

" मसूढ़ेमें—बरम, कैल्के, कार्बो-ऐनि कार्बो-वेज, नेट्र-स, पेट्रो, पल्स।

" तालुमें—ऐलना, ऐण्टि-टार्ट, काकु, फास।

फटी जीभ (Fissured tongue)—आइलै, एपिस आर्स, बरम-ट्रि, बैप्टी, बेल बेल्जो-ऐ, बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, केमो, चायना, क्रोटे-ट्री, हाइड्रा, कैलि-बा, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लम्ब, पोडो रासटक्स, स्पाइजि, सल्फ, विरे, जिंक।

" " किनारा—लैके, नक्स वोम।

" " बीचमें—बैप्टी, कोयान्ट्र, मेजे, रास टक्स।

फूलन (Swelling)—ऐकोन, ऐमोन कार्ब, ऐन्ट्रा, बेल, कालि, कार्बो, कैलि क्लोर, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, साइलि।

" जीभ—ऐकोन, ऐमोन म्यू, एपिस, आर्स, बरम, बैप्टी बेल, कैल्के-फास, [illegible], [illegible], सिलि, केमो, क्रोटे-टाइ ट्रि,

दर्द, जल गया, तालुमें—इस्कि, कैल्के, कैम्फ, लैके, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सेबाडि, स्टैफि।

" " मसूढ़ेमें—कैल्के, लाइको, नाइट्रि-ऐ, पल्स।

" सुई-घुसानेकी तरह (Stitching) जीभमें—ऐकोन, एपिस, अरम-ट्रि, अरम-म्यू, चायना, ग्लोनो, कैलि बाई, कैलि-कार्ब, कैलि-म्यू, लेचि, **स्पाई**, सल्फ।

दाग दाँतका जीभमें (Dented tongue)—ऐण्टि-टार्ट, आर्स, आर्स-मे, कार्बो-वेज, **चेलि**, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, कैलि-आ, **मार्क**, पोडो, **रास-टक्स**, सिपि, सिफि।

नक्शेकी तरह खींचो हुई, जीभ—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, कैलि बा, लैके, लाइको, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **टैरे**, टेरि।

नासूर, मसूढ़ेमें (Fistula, Gums)—अरम-म्यू, बैरा-कार्ब, कैल्के, कैलि-क्लोर, लाइको, नेट्र-म्यू, फास, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ।

" अच्छा नहीं होता—अरम, कार्बो-वेज, फास, स्ट्रैमो।

पक्षाघात (Paralysis-लकवा) जीभका—ऐकोन, आर्निका, एपिस, आर्स, वैरा-कार्ब, बेल, **कास्टि**, काकु, कोनायम, क्यूप्रम, डालका, **जेल्स**, हेलि, हाइड्रो-ऐ, हाइयो, लैके, **लाइको**, म्यू-ऐ, नक्स-म, ओपि, **प्लम्ब**, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

" टेढ़ा दाहिने—क्यूप्र, नक्स-म, **ओपि**।

" " बायें—बेल, ग्लोनो, ओपि, प्लम्ब।

" ऋतुके समय—सिङ्ग।

" ठण्डा लगनेसे—डाल्का।

" बुड्ढोंका—बैरा-कार्ब।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, ऐलूमि, आर्स, बेल, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कोलचि, हाइड्रो, इग्ने, आइरि-वार्स, कैलि-फास, लैके, **मार्क**, मार्क-कोर, मार्क-सा, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पेट्रो, सल्फ, स्टैफि, टेरि।

" जीभमें—ऐकोन, एपिस, आर्ज-ना, आर्निका, आर्स, बेल, बेन्जो-ऐ, कार्बो-वेज, कैन्थ, कास्टि, क्रोटे-हो, हिपर, कैलि-क्लोर, लैके, मार्क,

क्रियो, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्कु, मार्कु-कोर, म्यू-ऐ, माइगेल, नेट्र-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, प्लम्ब, स्ट्रैमि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

फोड़ा, खून निकलता है—वोरैक्स।

„ जलनके साथ—नेट्र-म्यूर।

„ जीभमें—बोरैक्स, इलि, जुग्ला, लैके, मार्कु, मार्कु-स, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, सल्फ, सल्फ-ऐ।

„ तालुमें—कैल्के, हिपर, नक्स-म, फास।

„ मसूढ़ेमें—हिपर, नेट्र-म्यू, सल्फ ऐ।

„ बालक बालिकाओंका—वोरैक्स, कैलि-क्लो, मार्कु, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, सल्फ-ऐ।

„ मसूड़ेमें—हिपर, नेट्र-म्यू, सल्फ-ऐ।

बाहर निकल पड़ना-जीभ (Protruded tongue)—एपिस, क्रोटे-हो, हेलि, लैके, लाइको, मार्कु-कोर, फाइटो, स्ट्रैमो।

„ नहीं निकाली जाती जीभ (Tongue cannot be protruded)—एपिस, लाइको, मार्क-कोर, नक्स-वोम, प्लम्ब।

„ दाँत अँटक जाते हैं (Catches on the teeth)—एपिस, लेसि, लाइको।

„ कष्टकर—हाइयो, लेसि, लाइको।

बोली (Speech)—बातचीत करना देखिये।

„ अस्पष्ट (Indistinct)—एपिस, हाइयो, केल्के, काक्कि, मर्क, लाइको, नाइट्रि-ऐ सिरे।

„ „ घुमेपनकी वजहसे कपकपानाकि—हाइयो, सेनि।

„ कष्टकर (Difficult)—ऐकोन हिपा बार्ब, बैप्टि, बेल कैल्क, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, सिनाजि, सिकि, कोकि, कोना, क्रोटे हो, कुप्रम, डल्कि, चैमो, ग्लोन गेल्सि, मोरोनि, लाइको, मर्क, मेजे, नेट्र कार्ब, नक्स म नक्स वोम ओपि, फास, प्लम्ब, स्ट्रैमो, सल्फ।

डाल्का, फ्लू-ऐ, हेलि, हाइड्रो, आइयो, लैके, लाइको, लिसिन, **मार्क**, मार्ककोर, मार्क-स, नेजा, नेट्र-म्यू, ओपि, फास, प्लम्ब, पोडो, पल्स, साइलि ।

फूलन, तालु—एपिस, आर्ज-ना, वैरा-कार्ब, कैल्के, कार्बो-ऐनि, **लेके**, मार्क, नक्स-वोम, फाइटो, साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्क ।

„ तालुके कोमल भागमें (Soft palate)—ऐकोन, इथु, वेल, कैल्के, कार्बो-वेज, मार्कु, **मार्क-कोर**, स्क्वि, विरे ।

„ मसूड़ेमें—ऐगा, ऐलुमि, एपिस, आर्ज-ना, **आर्स**, वैरा-कार्ब, **वोरै**, कैल्के, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कास्टि, **चायना**, सिस्ट, क्रोटे-हो, डलि-कस, जेलस, ग्लोनो, ग्रैफा, हैमा, आइयो, कैलि-बा, कैलि-आयोड, **लेके**, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मार्क, **मार्क-कोर**, मार्क-स, मार्क-आ-फ्ले, मार्क-आ-रू, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ प्लम्ब, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ, सल्फ-ऐ ।

„ शिराएं सब (Varicose Veins) जीभमें—डिजि, हैमा, पल्स, थूजा ।

फेन भरना (Foam froth)—ऐकोन, आर्स, वेल, कैम्फ, कार्बो-ऐ, सिड्रन, कैमो, सिकि, सिना, कोलचि, कूप्रम, ग्लोनो, **हाइयो**, इग्ने, लैके-के, लेक-डि, लारो, लाइको, मैग-म्यू, इनैन्थि, ओपि, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, टैबे, विरे ।

„ खोंचनके समय (During Convulsion)—आर्स, आर्टि, बेल, ब्यूफो, कैमो, कूप्रम, जेलस, ग्लोनो, ओपि, स्टैफि, सल्फ ।

„ खूनकी तरह—कैन्थ, इग्ने, मार्क-कोर, इनान्थि, सिके, स्ट्रैमो ।

„ सफेद—मैग-म्यू ।

„ „ दूधकी तरह—इथू ।

फोड़ा मसूड़ेमें (Gum boil)—कार्बो-वेज, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लाइको, मार्कु, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐ, प्लैण्टे, प्लम्ब, साइलि, स्टैफि ।

फोड़ा (Apthae)—इथु, एपिस, आर्स, अरम-ट्रि, बैप्टो, बार्बे, बोरैक्स, कैल्के, कार्बो-ऐसि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, डिजि हेलि, हिपर, हाइयो, जुग्ला-सि, कैलि-बा, कैलि-ब्रोम, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर,

बोली तोतली, टाइफायड ज्वरसे—एपिस, आर्स, ओपि, स्ट्रामो।

" " सन्यास रोगके बाद (After appoplexy)—बैरा-कार्ब, कोटे-लो, हपि, लरो, नक्स-वोम।

" चोण (Weak)—कैमो, कैस्ट, फास, सिकि, स्टेनम।

" भारी (Thick)—जेल्स, लेकि, नेट्र-कार्ब, नक्स-वोम, प्लेटि, विरे-वि।

भारी मालूम होना, जीभका (Heaviness of tongue)—म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, प्लम्ब, विरे, वेल, कार्बो-वेज, कोलचि, लाइको।

मुँह फाड़ना (Open)—ऐण्टि-टार्ट, एपिस, बेल, जेल्स, हाइयो, लैके, लोरो, मार्क, मार्फि, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, स्ट्रेमो।

" कष्टकर—कास्टि, लेके, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, फास, थोरि।

" नींदमें—ब्रोमि, कोसी, लाइको, नक्स-वोम, ओपि, रास-टक्स।

मोटी मालूम होना, जीभ—बैप्टी, बेल, कैम्फ, जेल्स, हाइयो, लैके, मार्क, म्यू-ऐ, ओपि, फास्टो, प्लेटि, रास-टक्स, स्ट्रेमो।

रस-भरी फुन्सियाँ (Vesicles)—ऐना आर्स, बैरा-कार्ब, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, थेनि मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, रास-टक्स स्पेंफि, सल्फ, थूजा।

" जलन सहित—ऐमोन-म्यू, एपिस, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कैलि कार्ब, कैलि आयोड, नेट्र म्यू, सल्फ।

" जखम हो जाती हैं—कार्बो-ऐनि, क्रिमे, मार्क।

" जीभमें—ऐमोन कार्ब, ऐमोन-म्यू, एपिस, आर्स-मेट आर्स, बैरा-कार्ब बोरेक्स, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, चेफा, ग्रैफा हेलि कैलि कार्ब, मेके, मेक ऐ लाइको, मैग कार्ब मार्क म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, रास-टक्स, सिपिया, स्पेंफि।

" " जलन भरी—ऐमोन एपिस कैल्के, कैप्सि कार्बो ऐ, [illegible] लाइको, म्यू-ऐ नाइट्रि-ऐ, स्टाइफि, [illegible] सल्फ

बोली काष्टकर, अनेक चेष्टा करने पर एक शब्द बोलता है—स्ट्रैमो।

„ „ अकड़नको वजहसे, कण्ठमें—कूप्रम, लिसिन।

„ „ „ जीभमें—ऐगा, कूप्रम, लाइको, रूटा, स्ट्रैमो।

„ „ रुका रुक कर बड़े काष्टसे—आर्टि, काकि, स्ट्रैमो।

„ „ कापकापीको वजहसे—मार्क।

„ „ टाइफायड ज्वरसे—ऐगा, आर्स, लैके।

„ „ दुर्बलता को वजहसे—ऐमोन-कार्ब, मैन्सि।

„ „ „ स्वरयन्त्रको—नेट्र-म्यू।

„ „ „ छातीको—स्टैनम।

„ „ „ कण्ठनालो (On throat)—**स्टैनम।**

„ , फूलनकी वजहसे, जीभको—ऐण्टि-टार्ट, बैप्टि, डल्का, जेल्स, मार्फि।

„ काँपती हुई (Trembling)—ऐकोन, ऐगा, कैन्थ, इग्ने, मार्क।

बोली तोतली (Stammering)—ऐकोन, **बेल,** बोवि, कैनाई, काष्टि, कूप्रम, युफ्रे, कैलि-ब्रोम, लैके, मैग-फास, **मार्क,** नेट्र-कार्ब, **नक्स-वोम,** प्लैटि, सिके, सिपिया, सिलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ टाइफायड ज्वरके बाद—आर्ज-ना, लाइको, विरे।

„ दुर्बोध (Unintelligible)—आर्स, बेल, फ्लू-ऐ, हाइयो, फास-ऐ, **स्ट्रैमो।**

„ धीरे धीरे (Slow)—कैलि-ब्रोम, **लैके,** फास, नेट्र-कार्ब, सिके, सिपिया, रास-टक्स, थूजा।

„ फुसफुसाना—स्ट्रैमो।

„ बन्द (Wanting)—आर्ज-ना, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, कैल्के, सिकि, कोना, क्रोटे-हो, ग्लोनो, हाइयो, कैलि-ब्रोम, कैलि-फ्लोर, लैके, लोरो-सि, मैग-कार्ब, नाइड्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, प्लम्ब, स्ट्रैमो, विरे।

„ „ पक्षाघातसे (From paralysis of the organs)—ऐना, कैड-म्यू, **कास्टि,** जेल्स।

कैलि-स, लैकै, लेप्टा, मैग-म्यू, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, मार्क-आ-रू, मैजे, नेट्र-स, नाइट्रि-एँ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फाइटो, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रास्टक्स, सिपिया, स्टाइ, स्टैनम, सल्फ, विरे, विरे-वि।

रङ्ग, जीभ पीलो, जड़में—आर्स, चायना, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, नेट्र-फास, नक्स-वोम, सैनि, सिना-ना।

" " " मैली (Dirty)—आर्स, केलि-क्लो, लैकै, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, साइलि, ओलि, सिपिया।

" " " मध्यभाग—ब्राइयो, लेप्टा, पल्स।

" " बदरङ्ग (फीका Pale)—आइले, ऐरिट-टार्ट, आर्स, चेलिडो, फेरम, ह्यपि, कैलि-कार्ब, लिसिन, मार्क, नेट्रम म्यू, सिपिया विरे।

" " भूरा (Brown)—आइलेन्थ, ऐन्थ्रा, एपिस, आर्निका, आर्स, बेप्टी, बेल, ब्राइयो, कैड-म्यू, कार्बो-ऐ, कार्बो वेज, चेलिडो, चायना, चिनि-आर्स, कोलचि, क्रोटे होर, क्युप्रम, डिजि, हिपर, हाइयो, कैलि-बाई, कैलि-फास, लैक-कै, लैकै, लाइको, मार्क-आ-फ्ले, नक्स वोम, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सिकेलि, सिपिया, साइलि, स्पञ्जिया, सल्फ।

" " " बीचका भाग—आर्निका, ब्राइयो, क्रोटे-होर, गुये पर्ण, फास, प्लम्ब।

" " लाल जीभकी नोक और किनारे—लाइको, रास्टक्स।

" " लाल—ऐकोन, एपिस, आर्स आरम-म्यू, बेप्टी, बेल, कैलाडि केल्के, कैम्फ, कार्बो वेज, चैमो, कोलचि, क्रोट होर, क्युप्रम ऐ, फेरम फास, जेल्स, हाइड्रो, हाइयो, कैलि-बाइ, कैलि कार्ब, लैकै, लाइको, मैग म्यू, मार्क, मार्क कोर, नेट्रम सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ, विरे।

रसभरी फुन्सियां, जोभमें यन्त्रणादायक—आर्स, कोन्य, **कास्टि,** ग्रैफा, जिङ्क।

„ „ जखम होजाता है—कैल्के, क्लिमे, लैके।

„ „ की नोकमें—ऐमोन-म्यू, एपिस, बैरा-कार्ब, बेल, कैल्के-फास, **कास्टि, ग्रैफा,** हाइड्रो, कैलि-आयोड, लैके, **लाइको, नेट्र-म्यू,** नेट्र-फास, पल्स।

„ जीभके किनारे—कैल्के, कार्बो-ऐनि, मार्क-सा, फाइटो, स्पञ्जि, सल्फ।

„ „ नीचे—बेल, कैमो, हैमा, लेके।

„ मसूढ़ेमें—बेल, कैन्थ, आयोड, मैंग-कार्ब, रास वे, साइलि।

रङ्ग, मुख गह्वरका, पीला (Pale)—ऐसे-ऐ, चिनि-स, युपे-पार्फ, फेरम, मैंङ्ग, मार्क, **नेट्रम-म्यूर।**

„ „ पीले चकत्ते (Yellow patches)—नाइट्रि-ऐ।

„ „ लाल (Redness)—एपिस, आर्स, बेल, बोरैक्स, कैन्थ, क्रूमस-ऐ, साइक्ला हाइड्रो, हाइयो, कैलि-बाई, कैलि-क्लोर, मार्क, नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ।

„ सफेद चकत्ते (White patches)—सैलि-ऐ।

„ „ काला (Blackish)—आर्जे-नाइट्रि, आर्स, **कार्बो-वेज,** कार्बो-ऐ, **चायना,** कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मार्क, मार्कु-कोर, मार्वास, नक्स-वोम, ओपि, सिके, विरे।

„ „ „ बीचमें—मार्कु, **फास।**

„ „ किनारे किनारे लाल (With red edges)—नक्स-वोम, **मार्क।**

„ „ खाकी (Gray)—ऐम्ब्रा, ब्राइयो, चेलिडो, कैलि-कार्ब, फास।

„ जीभ गदली (Dirty)—कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, **चायना,** कैलि-क्लोर, नेट्रम-सल्फ।

„ „ नीलो—एगा, **ऐसिटम टार्ट, आर्स,** कार्बो-वेज, **डिजि,** आइरि-वा, म्यू-ऐ, प्लैटि, पोडो।

„ जीभ पीली (Yellow)—इस्कि, **ऐसिट-क्रूड,** एपिस, आर्नि, अरम-म्यू, बैपटी, ब्राइयो, कैम्फ, कार्बो-वेज, **चेलिडो,** काकि, कोलचि, कोलोसि, क्रोटे-हो, युपे-पर्फ, जेल्स, हिपर, हाइपे, इपि, कैलि-बा,

ंग, तालु लाल—ऐकोन, एपिस, वैप्टो, वेल, कैफि, कास्टि, कैमो, कोलचि, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, कैलि-बा, कैलि-आयोड, लैके, मार्क, म्यूर-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, पल्स।

„ कोमल अ श (Soft palate) लाल—ऐलूमि, एपिस, आर्ज-नाइट्रि, वेल, सिड्र, कैमो, मार्क, मार्क-कोर, पेट्रो, पल्स।

मसूड़े, फीका रंग—चेलिडो, साइक्ला, फेरम, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, स्टैफि।

„ „ मैला (Duty)—ऐलूमि, मार्क।

„ „ भूरा—कोलचि, प्लम्ब, फास।

„ „ लाल—एपिस, आरम, वेल, डाल्का, कार्बो-ऐनि, कैमो, डल्किम, आइयो, लैके, क्रियो, मार्क, मार्क-कोर, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

„ „ „ किनारे सफेद लाल (Margins bright red)—क्रोटे-हो, मार्क।

„ „ पीला—ऐसक्लि-टि, कार्बो-वेज, मार्क।

„ „ सफेद—क्रोटे-हो, फेरम, कैलि-बा, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास ऐ, स्टैफि।

„ „ मोमेकी तरह नजोर—प्लम्ब।

सदार मुंह—मार्ये, पोलिडि, नेट्र-म्यू, रूटा, म्जुइला, थिर।

„ जीभ—ऐमोन म्यू, आइयो, कार्बो-वेज, मैक-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स म, फास-ऐ, पल्स।

प (Coating)—रङ्ग देखिये।

नथिल, जीभ (Flabby tongue)—ऐसफ, एन्टि, चाइना, मिनिम, माक्को, मेग-म्यू, मार्क, फास-ऐ, रास-टक्स, सिपिया, थूजो।

ोसाद रोग, मसूड़े (Scorbutic gums)—ऐलूमि, ऐमोन कार्ब, ऐनाक्कि ऐन्टिम-टार्ट, आर्स, ऐरम, कार्बो-वेज, सिड्रो, डाल्का, हिपर कैलि-क्लोर, कैलि नाइट्रि, क्रियो, मार्क, म्यूर ऐ, नाइट्रि ऐ, नक्स म, नक्स वोम, फास, सल्फ, टेरि।

ाव (नासूर-Fistula of Gums)—नासूर देखिये।

रङ्ग, जीभ लाल अगला भाग—एपिस, **आर्स**, **आर्ज-नाइ**, फ्लु-ऐ, लैके, लाइको, नाइट्रि-ऐ, **फाइटो**, **रासटक्स**, **रास-वे**, सल्फ।

" " " तिकोनिया (Triangular red tip)—**रासटक्स**।

" " " आगकी तरह (Fiery red)—**एपिस**, वेल, केन्थ।

" " " किनारे किनारे—ऐकोन, **आर्स**, वैप्टी, केन्थ, **चेलिडो**, ओटे होर, फ्लु-ऐ, जेल्स, आइरि-वार्स, कैलि-बा, लैके, लाइको, **मार्क**, मार्क-आ-फ्ले, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ।

" " " डोरेकी तरह दाग (Stripe down centre)—आर्ज-नाइट्रि, आर्स, वेल, कैमो, कैलि बाई, फास, फास-ऐ, सैगु, **विरे-वि**।

" " " बीचमें—कैमो, कैलि-बा, फास, रास-टक्स, सल्फ।

" " सफेद—ऐकोन, इस्कि, **ऐण्टि-क्रूड**, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्ज-ना, आर्निका, **आर्स**, वेल, बिस्मथ, **ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-ऐ, कैमो, चेलि, साइमेक्स, कौलचि, कोलोसि, डिजि, युपे-प, फेरम, फ्ल्-ऐ, जेल्स, ग्रेफा, **हाइयो**, हाइपे, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, कैल्मि, क्रियो, लैके, लाइको, **मार्क**, मार्क-कोर, मेजे, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पोडो, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सिपिया, **स्पाइजि**, सल्फ, सिफि, टैरे।

" " " दूधकी तरह—**ऐण्टि-क्रूड**, ग्लोनो।

" " " किनारे किनारे (Sides)—कास्टि, कैमो, केलि-स।

" " " एक ओर—रास-टक्स।

" " " बीचमें—ब्राइयो, कैलि-क्लोर, पेट्रो।

" " हरा—कूप्र-आर्स, **नेट्र-स**, नाइट्रि-ऐ, प्लम्ब, फ्रोडो।

फास, फास-ऐ, फाइटो, प्लम्ब, पेडो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिकेलि, स्प्जि, सल्फ, सल्फ-ऐ, विरे, विरे-वि ।

सूखा जीभ, सवेरे—बैरा कार्व, बैप्टी, सिस्टा, नाइट्रि-ऐ ओपि, पल्स, सल्फ ।

„ „ „ सोकर उठनेपर—कैल्के, क्लिमे, ओपि, पैरि, पेडो पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

„ „ सन्ध्यामें—ऐलोज, आर्ज-ना, नक्स-म ।

„ „ रातमें—ऐलि-सै, कैल्के, नक्स-म, नक्स वोम, रूमेक्स ।

„ „ ऋतुके समय—सिड्रम, सल्फ-ऐ ।

„ „ बिना प्याससे—कैम्फि, नेट्र-म्यू, पल्स ।

„ „ मालूम होना—आर्स, बेल, कैल्के, काकि, नेट्र-म्यू, नक्स-म, पल्स ।

„ तालु—ऐकोन, ऐलि-सि, एपिस, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, क्रोमि, हाइयो, मार्क, नेट्र-म्यू, नक्स-म, स्टिक्टा, स्ट्रेमो, सल्फ, विरे ।

„ प्यासके साथ (With thirst)—ऐकोन, आर्स, बैरा-कार्व, ब्राइयो, कैम्फ, चायना, लैके, मार्क-कोर, नेट्र-कार्व, नेट्र-म्यू, नक्स म, फास, रास-टक्स, स्ट्रेमो, सल्फ, विरे ।

„ „ प्यास न होना (Without thirst)—बेल, ब्राइयो, कैम्फ, काकि, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, साइलि, स्ट्रेमो ।

„ मालूम होना—कोनचि, लाइको, नक्स-म ।

सूक्ष्मानुभूति विशिष्ट (Sensitive)—एपिस, काक्र, फाइटो ।

„ छूनेपर—हिपर, नेट्र-म ।

„ जीभ—आर्स ब्रोम, क्रोटन-टिग, फ्लू ऐ, मार्क, नाइट्रि ऐ, थाइकेटि, फाइटो, टेरे ।

स्कूर्व्यटिक, मसूढा—शीताद रोग देखिये ।

स्पञ्जकी तरह जीभ— „

„ मसूढ़ा— „

स्वाद (Taste) कड़ुवा (Acrid, pungent)—ओपि पल्स ।

„ कसैला (Astringent)—ऐलुमि ऐलोप आर्स मा, फास, कैल्के, [illegible] वार, [illegible] ।

सुन्न होना (Numbness)—ऐकोन, बैरा-कार्ब, बोविस्टा, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लाइको नेट्र-फास, नाइट्रि-ऐ, थेरि।

„ जीभ—ऐकोन, कैल्के-फास, कोलचि, फ्लू-ऐ, जेल्स, हेलि, हाइयो, लोरो, नेट्र-म्यू, नक्स-म, रियुम।

सूखा पन (Dryness)—**ऐकोन,** एलू-मि, ऐसिड-क्रूड, ऐसिड-टार्ट, एपिस, आर्जे-मेट, आर्निका, आर्स, आर्स-हाइड्रो, आर्स-मेट, अरम-ट्रि, ऐट्रो, बैरा-कार्ब, बेल, **बोरा, ब्राइयो,** कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैना-सै, कैन्थ, **कैप्सि, कार्बो-वेज,** कास्टि, **कैमो,** चेलि, **चायना,** कोलोसि, कूप्रम, डाल्का, फेरम, जेल्स, गैम्बो, ग्रैफा, **हाइयो,** हाइपि, इग्ने, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लैके, लोरो, लिलि-टिग, **लाइको,** मैग-म्यू, **मार्क,** मेजे, **म्यू-ऐ,** माइ, **नेजा,** नेट्र-कार्ब, **नेट्र-म्यू,** नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म, नक्स-वोम,** ओपि, पेट्रो, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, **रास-टक्स,** सार्सा, सेने, सिपिया, **साइलि, सल्फ,** स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

„ सवेरे—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैमो, डायस्को, फेरम, ग्रैफा, लाइको, मैग-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **पल्स,** सैबाडि, सिपिया, **सल्फ।**

„ सन्ध्यामें—ऐलोज, ऐमोन-कार्ब, ब्राइयो, लाइको, नक्स-वोम, सिने, विरे।

„ रातमें—ऐकोन, ऐसिड-क्रूड, कास्टि, काकि, लाइको, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास, रासटक्स, साइलि।

„ ऋतुके समय—सिड्रन, **नक्स-म।**

„ जीभ—**ऐकोन,** आइलैन्थ, **ऐगा,** ऐसिड-टार्ट, **एपिस,** आर्जे-ना, आर्निका, **आर्स,** आर्स-हाइड्रो, ऐरम-ट्रि, बैप्टी, बैरा-म्यू, **बेल, ब्राइयो,** कैल्के, **कैम्फ,** कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कास्टि,** कैमो, चेलि, चायना, सिकि, सिस्टा, काफि, क्रोटन-टिग, कूप्रम, फ्लू-ऐ, **हेलि,** हाइड्रो, **हाइयो,** आइयो, इपि, कैलि-बाइ, कैलि-आयोड, कैलि-म्यू, क्रियो, लैक-ऐ, **लैके,** लाइको, मैग-म्यू, **मार्क,** मार्क-करो, **म्यू-ऐ,** नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम,

पल्स, रैफे, रियूम, रास-टक्स, सेबाइना, सैनि-ऐ, सार्सा, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे, टार्टा, विरे।

स्वाद, तीता सबेरे—ऐमोन-म्यूर, बेरा-कार्ब, ब्राइयो, केल्के-फास, कार्बो-ऐनि कार्बो-वेज, कैमो, चायना, हिपर, लाइको, मैग कार्ब, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स सिपिया, साइलि, सल्फ।

" " नींदके बाद—हेलोनि, कैलि-आयोड, सल्फ।

" " शामको—ऐमोन-कार्ब, ब्राइयो, लाइको, फास, पल्स, राम-टक्स।

" " रातको—ऐण्टिम-टार्ट, लाइको, राम-टक्स।

" " ऋतुके समय—केल्के-फास।

" " तम्बाकूका—कम्फ, चायना, नेट्रम-म्यूर, स्पञ्जि।

" " दूध—सैनि।

" " पीनेके बाद (After drinking)—आर्स, ब्राइयो, चायना, जिंगो, पल्स।

" " भोजनके पहले—कार्बो-वेज, टैरे।

" " " समय—ब्राइयो, कैम्फ, चायना, इग्ने, लाइको, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, राम-टक्स, सेबाइना, स्ट्रैमो सल्फ।

" " " बाद—आर्स, ब्राइयो, कार्बो-वेज, नेट्रम म्यूर, फास, पल्स, सल्फ।

" " रोटीका—केल्के-फास, चायना, चिनि स नक्स-वोम फास पि राम टक्स पल्स, सल्फ।

" " दर चोपका, पानीके सिवा—ऐकोन, स्टैनम।

" धातुकी तरह (Metallic)—एक्न, एग्नस, एमोन कार्ब, आर्जि-ना, आर्स, कैल्के, कैन्थ कास्ति, कक्क कोर्नोसि, कुप्रम कुप्रम ए कुप्रम सल्फ, हेप लाइको मार्क, मार्क कोर नेट्रम कार्ब, नक्स वोम, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, राम-टक्स, सिपिया, सल्फ, जिङ्क।

" नष्ट (Wanting loss of)—हिमा, ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम टर्ट, आर्स, बेल, बोरेक्स, ब्राइयो, कैल्के कैन्थ, कोटेलस, हाइड्रा हिपर, ब्राइयो कैलि बाई, मैग म्यूर, मार्क, नेट्रम म्यूर, नक्स वम,

स्वाद, चर्बीको तरह (Greasy, fatty)—ऐसाफि, कास्टि, कैमो, ड्रपि, कोलि-आयोड, लाइको, म्यू-ऐ, सोरि, पल्स, साइलि।

„ झाल (मिर्चाकी तरह) (Peppery)—डैफ, हाइड्रो, जेल्य।

„ ताँबेके जङ्ग जैसा—(१) कूप्रम-आर्स, कूप्रम-सेट, लोबे-इन, मार्क-कोर, रास-टक्स। (२) इथू, आर्ज-ना, आर्स, बिस्मथ, काकि, लैक-ऐ, नाइट्रो-म्यू-ऐ, नक्स-वोम, सल्फ।

खट्टा (Sour)—ऐलोज, ऐसिट-ऐसिड, **आर्ज-ना**, आर्स, बैरा-कार्ब, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, चायना, चेलि, काफि, क्रोक, क्रोटे-हो, ग्रैफा, हिपर, **इग्ने**, कैलि-क्लोर, कैल्मि, लैके, लाइको, मैग कार्ब, मैग-म्यू, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, आक्जे-ऐ, **फास**, फास-ऐ, पल्स, सिपिया, स्टैनम, सल्फ, टैरे।

„ „ सवेरे—लाइको, **नक्स-वोम**, पल्स, सिपिया, सल्फ।

„ „ गर्भावस्था—लैक-ऐ, मैग-कार्ब।

„ „ भोजनके पहले—बैरा-कार्ब, नेट्र-म्यू।

„ „ „ बाद—कार्बो-वेज, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपिया, साइलि।

„ „ भोजनके पदार्थ—आर्स, कैल्के, कैप्सि, चायना, लाइको, नक्स-वोम, पोडो, पल्स।

„ तीता (Bitter)—**ऐकोन**, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐङ्गू, ऐसिट-ऐसिड, एपिस, आर्ज-ना, आर्निका, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, बोराक्स, **ब्राइयो**, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कार्डु, कास्टि, कैमो, **चेलि**, चायना, चिनि-आर्स, कोलचि, कोलोसि, कोना, कर्ण, क्रोटे-हो, डिजि, डाल्का, ड्रसेरा, यूप-पर्फ, ग्रैफा, ग्रैटि, हेलि, हिपर, हिपो, इग्ने, जैबो, कैलि-कार्ब, लैके, लेप्टा, लाइको, मैग-कार्ब, मैग म्यू, मैग-फास, मैग-स, मैनसि, **मार्क**, मार्क-कार, मार्कु-आयो-रू, म्यू-ऐ, माई, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, **नेट्र-स**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, पैरि, फास, प्रम्ब, पोडो, पलिप, **सोरि**,

स्वाद फीका भोजनके पदार्थ—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, चायना, लाइके, फेरम।

„ बेस्वाद (Bad)—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐलू, ऐष्ट्र, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बैपटी, ब्राइयो, कैल्के, कैना-से, चायना, काफ, जेल्स, ग्रैफा, हाइड्रो, केलि-बाई, केलि-कार्ब, केलि-क्लोर, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, नेट्रम-म्यू.र, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फास्टो, पोडो, पल्स, सिपिया, सल्फ, जिङ्क-म्यू।

„ „ सवेरे—ब्राइयो, कैम्फ, लाइकी, मार्क, नेट्रम-म्यू.र, नेट्रम सल्फ, नक्स-वोम, पल्स, सिपिया, सल्फ।

„ „ सोकर उठनेपर—मार्क, मार्क-फ्लु, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, सल्फ-ऐ।

„ „ पानीकी तरह—फेरम, नेट्रम-म्यू.र साइलि।

„ मिचली पैदा करनेवाला (Nauseatus)—ऐलि-सि, कार्बो-ऐ, इपि, लाइकी, साइ, पोलिप, पल्स, सल्फ।

„ मिट्टीका (Earthy)—फेरम, इपि, नक्स-म, पल्स।

„ मीठा (Sweetish)—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐलू-म्यू, ऐलोज, आर्स, बेल, ब्राइयो, चायना, कफ, काफि, फासम, डालका, केलि कार्ब, केलि ऐ, मार्क, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, सेबाडि, स्क्वइला, स्प्ञि, स्टैनम, सल्फ।

„ „ सवेरे—ऐलू-सि, आर्स नाइट्रि-ऐ सल्फ।

„ „ जलका—लाइको, फिलान।

„ „ दूधका—पल्स।

„ „ रोटीका—मार्क।

„ „ अविराम ज्वरमें—फेरम, लाइको।

„ „ खांसीके समय—चिन, केलि-बा, नाइट्रि ऐ, रास टक्स।

„ „ खूनका (Blood taste)—चिन फेरम इपि केलि कार्ब, नेट्र कार्ब, सल्फ।

„ „ नमकका (Saltish)—आर्स कैल्के, कार्बो वेज कार्बो-ऐ, ग्राफा, ग्रैफा हाइयो, केलि क्लोर, मार्क, मार्क-कार,

नक्स-वोम, पेरि, **फास**, सोरि, **पल्स**, सिपि, **साइलि**, सल्फ, सल्फ-ऐ, विरि, थेरि।

स्वाद, नष्ट दूधका—नक्स-वोम, पल्स।

" " नमकका—कैल्के, कैन्थ।

" " भोजनके पदार्थका (स्वाद नहीं होता)—आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कोलचि, कोरा रू, **हेलि**, इग्ने, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, **पल्स**, स्ट्रैमो, विरि।

" सड़ा (Putrid)—ऐकोन, **ऐना**, आर्निका, आर्स, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ**, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, सिनावे, काकि, ड्रोसे, फेरम, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, लैक-कै, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, पेट्रो, पोडो, **सोरि**, **पल्स**, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ, विरि।

" " सवेरे—**आर्स**, चायना, मार्क-कोर, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

" " रातमें—कैमो।

" " ऋतुके समय—कैलि-कार्ब।

" " भोजनके पदार्थ—ऐना, बैरा-म्यू इग्ने, पोडो।

" " पानीका—अरम, नेट्रम-म्यूर।

" " मांसका—पल्स।

" सड़ा, अण्डेकी तरह—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, आर्निका, फेरम, हिपर, **मार्क**, **म्यू-ऐ**, साइलि।

" " सवेरे—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, **आर्निका**, **ग्रैफा**, हिपर, फास, फास-ऐ, साइलि, थूजा।

" फीका (Insipid)—ऐकोन, ऐलू-मि, **ऐना**, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, अरम, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, कैप्सि, चायना, काफि, कोलचि, फेरम, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क**, **नेट्र-म्यूर**, पेट्रो, सोरि, **पल्स**, रियूम, सैनि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

" " सवेरे—पल्स, सैनि, **सल्फ**, वेले।

स्राव, रक्त मसूड़ेसे शीताद रोगमें (Scurvy)—ऐसिड-म्यूर, आर्स, कार्बो-ऐ, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, सल्फ।

" " " सहजमें—ऐमोन-कार्ब, ऐना, ऐसिड-क्रूड, आर्ज-ना, आर्स, बोविस्टा, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, सिस्टा, हैमा, हिपर, फाइटो।

" " " " केलि-क्लोर, क्रियो, लैके, मैग-म्यू, मार्क, मार्क-कोर, नेट्र-म्यू, फास, फास-ऐ, सिपिया, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

" " " छूनेपर—लाइको, मार्क, नेट्र कार्ब, फास, फास ऐ, प्लम्ब, सिपि, सल्फ-ऐ।

" लार (Saliva)—ऐकोन, ऐलू-मि, ऐना, ऐसिड-क्रूड, आर्ज-ना, आर्स, ऐमर, आरम-म्यू, बेरा-म्यू, बेल, बोरक्स, ब्रोमि, कैल्के, कैम्फ, केन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, चायना, सिक्कि, सिनेबार, कष्ट, कोलचि, कूप्रम, ड्रोसे, डल्का, फ्लू-ऐ, गैम्बो, ग्लोनो, हेलि, हिपर, इग्ने, आइयो, आइरि-वार्स, केलि-क्लोर, केलि-आयोड, क्रियो, लैक् कै, लाइको, सैन्सि, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-रु, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नेट्र-म, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स वोम, ओलि-ऐ, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लम्ब, पोडो, पल्स, सिपिया, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ऐ, विरे।

" " सबेरे—आरम, ग्रैफा, आइयो, लाइको, मैग कार्ब, रास टक्स, सल्फ।

" " रातमें—आर्ज नाइट्रि, मार्क, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" " गाढ़ा (Thick)—आर्स, बेल, कैना इ, मिजूर, सिपि नक्स मस, ओपि, रास-टक्स।

" " थोड़ा (Scanty)—आर्स, मार्क कोर, नक्स मस, ओपि प्लम्ब, पिया, विरे।

" " फेन भरा (Frothy)—एपिस कोट रोग, कूप्रम डिजि, फाइटो क्रियो

नेट्र-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, पल्स, रियूम, सिपिया, सल्फ, टेरे, जिङ्क।

स्वाद, मोठा भोजनकी पदार्थका—आर्स, बेल, कार्बो-वेज, चायना, **साइलो**, पल्स, सिपि, सल्फ, टेरे।

" " पानीका—ब्रोमि, मार्क, नाइट्रि-ऐ।

स्राव, रक्त (Bleeding)—ऐकोन, आर्निका, आर्स, ऐरम-ट्रि, बेल, कार्बो-वेज, **चायना**, कोरा-रू, **क्रोटे-हो**, फेरम, हैमा, **हिपर**, इपि, क्रियो, लिडम, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सिके, सल्फ-ऐ।

" " काला काला—कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, लेके।

" " थक्का थक्का—कैन्थ, कास्टि, काकि।

" " सहजमें ही होना—**हिपर**, लेके, **फास**।

" " जीभसे—आर्स, **ऐरम-ट्रि**, **बोरेक्स**, कैल्के, कैमो, लेके, मार्क, नेट्र-म्यू, नेट्र-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पोडो।

" " मसूड़ेसे—ऐगा, ऐलू-मि, ऐण्टि-क्रू-ड, आर्ज-ना, आर्स, बेल, बोविस्टा, कैल्के, **कार्बो-वेज**, कास्टि चेलिडो, **क्रोटेहो**, हैमा, हिपर, आइयो, **लेके**, मैग-म्यू, **मार्क**, **मार्क-कोर**, माइ, **नेट्रम-म्यू**, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास**, फास-ऐ, सोरि, सैंगु, सिके, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, सल्फ-ऐ, टेरि, जिङ्क।

" " " ऋतुके समय—सिड्रन।

" " " " बन्द होने (Suppressed)—कैल्के।

" " " चूसनेपर (Sucking)—बोवि, कार्बो-वेज, नाइट्रि-ऐ, रेटा।

" " " दाँत उखड़वानेपर (After extraction)—ऐलू, **आर्निका**, क्रियो, हैमा, लेके, **फास** बोविस्टा।

" " " मञ्जन करनेके समय—कार्बो-वेज, कैलि-क्लोर, लाइको, रूटा, सिपिया, स्टैफि, टेरि।

दांत (TEETH)।

अकल जाड़ या बुद्धि-दन्त निकलनेके समयकी बीमारी (Ailments from eruption of wisdom teeth)—कैल्के-कार्ब, फ्लु-ए, मैग-कार्ब, साइलि।

असहिष्णु (Sensitive)—ब्राइयो, कैमो, कोल्चि, फ्लू-ए, कैल्मि, लैके, मार्कु, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

„ गर्मी—नेट्रम-म्यूर।

„ चिबानेपर—ऐगा, कैल्के फास, कार्बो-ऐनि, हिमे, ओलि, साइलि।

„ छूनेपर—बार्व, लैके, नाइको, नेट्र-म्यू।

„ दबानेपर—ऐगा, आर्स, हैक्ला, कैलि-ब्राइ।

„ पानीसे (ठण्डा)—ऐकोन, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, चिना, हैलि, मार्क, सिपि, साइलि, स्टैफि, थेरि।

„ हवासे—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, नेट्र-म्यू।

कड़कड़ाना (पीसना Grinding)—ऐकोन ओपि, आर्णिका, आर्स आर्टि-या, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, सिकि, सिना क्रोटे, फूसम, ग्रैटि, हैलि, हाइयो, मोरो, नाइको, मार्कु, प्रम्य, पोडो, सिपिया, स्ट्रैमो, सल्फ, थिरि।

„ नींदमें—ऐकोन, ऐपि-म्यूउ, आर्स, बेल, कोना-इ, सिना, काफि, क्रोटे, हैलि, हाइयो, इग्ने, कैमि-ब्रोम, कैलि कार्ब, मार्कु, मार्गे, प्रम्य, पोडो, स्ट्रैमो, थिरि।

„ मृगी रोगमें (In epilepsy)—क्यू फो, हाइयो, सल्फ, टैरे।

काटता है, गिलास दांतसे पानी पीनेके समय (Bites tumbler when drinking)—आर्स।

कीड़े लगना—"क्षय" देखिये।

क्षय मील (Caries, decayed—hollowed teeth)—ऐण्ट्रा, ऐण्टिम क्रूड, :, बेल, बोरैक्स, कैल्के कैल्क

स्राव, लार—लसदार (Tenacious)—ऐसार, वेल, केम्फ, कैष्सि, कार्बो-वेज, **चेलिडो**, कूप्रम, डाल्का, कैलि-बाइ, लैके, **मार्क, मार्क-कोर**, फाइटो, पल्स, स्ट्रैमो, विरे।

„ „ लाल आभा लिये हुए (Bloody)—**व्यूफो**, कार्बो-वेज, क्रोटे-होर, ड्रोसे, हाइयो, कैलि-आयोड, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, **फास, रास-टक्स**, सिके, सल्फ।

„ „ भोजनके बाद—ऐलि-सै, कास्टि, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ ऋतुके समय—मैग-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, पल्स।

„ „ बोलनेके समय—ग्रैफा, लैके, आइरि-वार्स, नेट्रम-कार्ब, सेबाइना।

„ „ गर्भावस्थामें—ऐण्टिम-टार्ट, काफि, हेलो, कैलि-आयोड, क्रियो।

„ „ ज्वरावस्था—हेलि, हिपर, नाइट्रि-ऐ, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ निद्रावस्था—बैरा-कार्ब, कैलि कार्ब, लैक-कै, **मार्क**, रास-टक्स।

„ „ थूकनेपर हमेशा—ऐमोन कार्ब, कैंड-मि, ग्रैफा, लिसिन, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, स्पाइजि।

„ „ पारेके अपव्यवहारसे—ऐसाफि, **चायना**, कूप्रम, हिपर, **आइयो**, लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, सल्फ।

„ „ मिचलीके साथ—आर्स, कैल्के, कैम्फ, चायना, **इपि**, लैके, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ, विरे, जिङ्क।

हिलाना, कष्टकर, जीभ—आर्स, वेल, सिकि, कोलचि, **हाइयो**, कैलि-ब्रोम, **लैके**, लाइको, मार्क, माइगे, नेट्र-कार्ब, फास, पल्स, स्ट्रैमो।

दवा रखनेकी इच्छा हमेशा, दांतपर दांत (Constant inclination to clinch together)—ऐकोन, कैना-इ, कास्टि, हाइयो, लाइको, नक्स-वोम, फाइटो, पोडो।

दर्द-दन्तशूल (Toothache in general)—ऐसि-ऐ, **ऐकोन**, आइलैन्थ, ऐन्ना, ऐण्टि-क्रूड, ऐरानि, आर्जे-नाइट्रि, आर्स, ऐरन, बैरा-कार्ब, **बेल**, बेन्जो-ऐ, बोरैक्स, **ब्रायो**, ब्यूफो, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, चेलिडो, चायना, **काफि**, युफ्रे, फेरम, फ्लू-ऐ, **ग्लोनो**, ग्रैफा, हैलि, हाइयो, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, क्रियो, **लैकै**, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मैग-स, **मार्क**, मार्क-कोर, मेजे, **नेट्र-कार्ब**, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, फाइटो, प्लेण्टे, पल्स, रोडो, रास-टक्स, सिपि, **स्टैफि**, सल्फ, वेले, **जिङ्क**।

„ ऊपरी दांतमें—ऐगा, ऐलूमि, **ऐमोन-कार्ब**, आरम, बेल, कैल्के कार्बो-वेज, **चायना**, कैलि-कार्ब, **क्रियो**, मैग म्यू, मेजे, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, **जिङ्क**।

„ निचले दांतमें—ऐगा, आर्निका, आरम, बेल, ब्रायो कैन्थ, कार्बो-वेज **कास्टि**, **कैमो**, चायना, [illegible] **लैके**, **नेट्र-कार्ब**, फास, प्लम्ब, पल्स, रास टक्स, [illegible] **सिपिया**, [illegible], **स्टैफि**, सल्फ, [illegible], जिङ्क।

„ दाहिने ओरका—बेल, ब्रायो कैल्के, कार्बो-ऐ, [illegible] कार्ब, मर्क कोर, [illegible] सोरि, स्टैफि।

„ बाईं ओरका—[illegible], [illegible] आर्निका [illegible] **कास्टि**, कैमो, [illegible] [illegible], [illegible] मर्क, [illegible] **सिपिया**, [illegible] सल्फ, **थूजा**, जिङ्क।

„ [illegible]

कार्बो-वेज, कोमो, चायना, ग्लोनो, हिपर, हाइयो, कलिबाई, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, क्रियो, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, **मार्क,** **मेजे, नेटम-म्यू,** नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, फास, फास-ए, प्लम्ब, रोडो, रास-टक्स, **सिपिया,** साइलि, स्टैफि, सल्फ, टैरे।

क्षय शील, बढ़ोवाला—कैल्के, कैल्के-फ्लू, कैल्के-फास, काफि, फ्लू-ए, **क्रियो,** **स्टैफि।**

„ जड़ दाँतको (दन्तमूलका)—**मार्क**, मेजे, साइलि, सिकेलि, थूजा।

„ सिरा दाँतका (शीर्ष-देश)—**स्टैफि**, मार्क।

चिपक जाते हैं (Adhere or stick together)—आर्ज-मेट, मोरि, जिङ्क-मे।

ठण्डक (ठण्डे मालूम होना-Coldness)—ऐकोन, कार्बो-वेज, गैम्बो, मेजे, नाइट्रि-ए, साइजि।

ढोला (Loose)—ऐलू, ऐमोन-कार्ब, आर्स, अरम-म्यूना, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज,** कास्टि, चायना, कोना, हिपर, **हाइयो,** कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क, मार्क-कोर,** म्यू-ए, नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ए,** नक्स-वोम, फास-ए, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रोडो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जिया, स्टैफि।

„ मालूम होना—ऐमोन-कार्ब, आर्स, कोना, हाइयो, लाइको, मार्कु, नक्स-मस, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

„ यन्त्रणादायक (तकलीफ देनेवाला)—बेरा-कार्ब, कैम्फ, कास्टि, जेल्स, मार्कु, पल्स।

दन्त-मल (दाँतपर मैल जमना-Sordes)—**आइलैन्थ,** एपिस, **आर्स, वैप्टी,** कैक्ट, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, **चायना,** डिजि, जेल्स, **हाइयो,** म्यूरि-वार्स, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ए, फास, फास-ए, प्लम्ब, **रास-टक्स,** स्ट्रैमो, सल्फ।

„ काला—चायना, फ्लू-ए, कोना।

„ भूरा (Brown)—एपिस, कैक्ट कोलचि, कैलि-फास, वेरियो।

कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, पल्स, मेगु, साइलि, स्टैफि, सल्फ-ऐ।

दर्द-दन्तशूल, चेहरा लाल और गर्म रहनेके साथ—ऐकोन, बेल, कैमो, काफि, नक्स-वोम, फास, रास्टक्स, सल्फ।

" दाँत उखाड़ने के कारण—आर्निका, स्टैफि।

" पसीना रुक कर—कैमो, रास-टक्स।

" पानीमें भीजनेके कारण—बेल, कैल्के, लैके, रास-टक्स।

" पाराके अपव्यवहारके कारण—हिपर, नाइट्रि-ऐ, स्टैफि।

" फूलनके साथ—बेल, कैल्के, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, पल्स, सल्फ।

" फैलता है-आँखमें—बेल, कैल्के-फास, कैमो, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

" " कानमें—ऐमोन-कार्ब, आर्निका, कैल्के, कास्टि, कैमो, क्रोमि, क्रियो, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, फ्रोडो, सिपिया, स्टैफि, सल्फ।

" " चेहरेमें—ब्राइयो, कैमो, हाइयो, केलि-कार्ब, मार्क, नक्स वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

" " माथेमें—ऐसिट-ऐसिड, आर्स, ब्राइयो, कैमो, हाइयो, क्रियो, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, रास टक्स, मेगु, सल्फ।

" बालक बालिकाओंका—ऐकोन, ऐसिट-ऐसिड, बेल, कैल्के, कैमो, काफि, मार्क, पल्स, साइलि।

" भोजनके समय—ब्राइयो, कास्टि, कोना, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्र कार्ब, पल्स, स्टैफि, सल्फ।

" " बाद—ऐसिट ऐसिड, बेल, ब्राइयो, कैमो, [illegible] कैलि कार्ब, लैके, लाइको, मैग कार्ब, मार्क, नेट्र म्यू, नक्स म, नक्स वोम, [illegible] स्टैफि, सल्फ।

" रक्ताधिक्यके साथ [illegible] फौस्फ़ि, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]।

दर्द-दन्तशूल सन्ध्यामें—ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, वेल, कैमो, हिपर, हाइयो, कैलि-आयोड, कैलि, लाइको, मैग-स, मार्क, नक्स वोम, फास, **पल्स**, रैटा, रास्टक्स, स्टैफि, सल्फ सल्फ-ऐ।

„ रातमें—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, अरम, वेल, कार्बो-वेज, सोड्रन, **कैमो**, चेलि, कोलचि, साइक्ला, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रडोडो, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ।

„ ऋतु परिवर्त्तनके समय तक—ऐलि-सि, डाल्का, **मार्क**, नेट्र-स, नक्स-म, **रास-टक्स**।

„ उत्तेजनाकी वजहसे (From excitement)—ऐकोन, वेल, कैमो, काफि, जेल्स, हाइयो।

„ ऋतुके पहले—ऐण्टि-क्रूड, नेट्रम-म्यूर, पल्स, सल्फ।

„ „ समय—आर्स, कैल्के, सिड्रन, कैमो, काफि, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पल्स, **सिपिया, स्टैफि**।

„ एकाएक आरम्भ हो जाती है और एकाएक गायब हो जाती है—वेल, सैनि।

„ छिनाइनके अपव्यवहारसे—हिपर, पलस।

„ कीड़े लगनेके कारण—क्रियो, कैमो, मार्क, मेजे, स्टैफि।

„ गर्भावस्थामें—ऐकोन, वेल, कैमो, हाइयो, **लिसिन**, मैग-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, कैल्क, रास-टक्स, **सिपिया**, स्टैफि, टैरे।

„ गर्म पतले पदार्थ पीनेसे (From hot drinks)—ऐलि-सि, ब्राइयो, कार्बो-वेज, **कैमो, काफि**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, **सिपिया**।

„ गर्म भोजनसे—वेरा-का, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, काफि, ग्रैफा, हेलि, मार्क, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, साइलि, सल्फ।

„ चिबानेसे (From mastification)—ऐलू-मि, आर्निका, ब्राइयो, कास्टि, **कैमो**, चायना, काकि, काफि, युफ्रे, हाइयो, इग्ने,

दर्द-दन्तशूल, चिबाता है, मानो (Gnawing)—ऐगिट-क्रूड, कैमो, कोना कैलि-आयोड, नक्स-वोम, पल्स, स्टैफि, थूजा।

„ चिलक मारना, झटका लगना (Jerking)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि-क्रूड, बेरा-कार्ब, बेल ब्राइयो, कैल्कि, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, चायना, क्लिमे, कक्क, काफि, कोना, यूफ्रे, हाइयो, लेके, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, रेना-सि, रास-टक्स सल्फ।

„ छेदने की तरह (Boring)—बरा-कार्ब, बेल, कैल्के, कैल्के-फास, कास्टि, साइक्ला, इग्ने कैलि-कार्ब, लैके, मेजि, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लेटि, साइलि सल्फ।

„ जलन करने वाला (Burning)—कास्टि, कोलो-सि, मैग-कार्ब, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ टनक जैसा (Pulsating, Throbbing)—ऐकोन, ऐग्ना, ऐलि सि, आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज कास्टि, चायना, काफि, कोलोसि, युफोर, ग्लोनो, हाइयो, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्र-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐसि, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ, विर।

„ दबाव के जैसा मालूम होना (Pressing)—ऐलि सि बार्बेरिस, कैल्के, कोलोसि, ग्रैफा, कैम्फि, मार्क, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, रास-टक्स, स्टैफि, सल्फ।

„ फाड़नेकी तरह (Tearing)—एकोन, ऐगा ऐमोन कार्ब, आर्स बेल, ब्राइयो कार्बो-वेज कास्टि, कैमो चायना काकु, काफि कोलचि, कोलोसि फ़ेरम ग्राफ़ा, हेपा, हाइयो, कैलि बा, लैके, लाइको, मेग कार्ब, मार्क, मेजि नेट्र म्यूर, नाइट्रि ऐ नक्स म, नक्स वोम फास, फास ऐ प्लाटि, पल्स रेट, रोडो रास टक्स सैम्बु, सार्सा, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ।

„ सुई धसनेकी तरह (Stitching)—ऐगा, ऐमोन कार्ब, एपिस, बैरा कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो [illegible]

दर्द-दन्तशूल लार बहनेके साथ, बहुत अधिक मात्रामें—बेल, कैमो, डाल्का, मार्क, नेट्रम-म्यूर।

„ सर्द चीजोंसे—आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कोलचि, कोना, मैग-कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लैण्टे, पल्स, **रास-टक्स, सिपिया,** स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ चीजें पीनेसे (From cold drinks)—**ऐगिट-क्रूड,** आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, फ्लू-ऐ, **हिपर,** कैलि-कार्ब, लैक-का **लैंकि,** मार्क, म्यू ऐ, नेट्रम म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, प्लैण्टे, **रास-टक्स,** सार्सा, **स्टैफि,** सल्फ।

„ सर्दी लगकर (From cold)—ऐकोन, बैरा-कार्ब, कास्टि, कैमो, चायना, डाल्का, जेल्स, हाइयो, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स।

„ „ बहुत अधिक गर्म हो जाने बाद (After over-heating)—कैमो, ग्लोनो, रास-टक्स।

„ सील भरी जगहमें काम करनेकी वजहसे—आर्स, **कैल्कि,** डाल्का, **रास-टक्स।**

„ स्तन पिलानेके समय (धात्रियोंका)—चायना।

„ स्नायविक रोगियोंका (Nervous patients)—ऐकोन आर्स, बेल, **कैमो, काफि,** जेल्स, मैग-फास, पल्स।

„ अकड़न भरा, जखम जैसा (Sore)—आर्निका, ब्राइयो, बेल, कैल्के, कैमो, ग्रम्ने लाइको, मार्क, नेट्र-म्यूर, नक्स-वोम, फास, प्लैण्टेगो, पल्स, रास-टक्स, स्टैफि, जिङ्क।

„ कनकनी मालूम होना, ठण्ढ या जीभ लगनेपर—(१) ऐकोन, काफि, फ्लू-ऐ, स्टैफि। (२) आर्स, बेल, कार्बो-वेज, कैमो, मार्क, प्लैण्टे।

„ काटता है, मानो छुरीसे (Cutting)—अरम, कोष्क, लैके, फ्रोडो।

„ काँटा गड़ता है मानो (Pricking)—ऐमोन-कार्ब, ऐगिट-क्रूड, बैरा-म्यू, कैल्के, कास्टि, नक्स-म।

„ खोदता है मानो (Digging)—ऐगिट-क्रूड, बेल, ब्राइयो, कास्टि, कैमो, ग्रम्ने, नक्स-वोम, प्लैण्टे, पल्स, रूटा, साइलि।

दर्द घटना, भोजनके बाद—कैमो, इपि, फास-ऐ, क्रोडो, रास-टक्स, साइलि।

" " रक्तस्रावसे (खून निकलनेपर) मसूड़ेसे—बेल, कार्बो, सैनि।

" " सोनेपर—ब्राइयो, मार्क, नक्स-वोम।

" " " दर्दवाली करवट—ब्राइयो, चिनि-स, हाइयो, इग्ने, मैग-कार्ब, पल्स।

" " हवामें खुली—ऐन्टि-सि, ऐसिट-क्रूड, नक्स-वोम, पल्स, कैल्सि-सल्फ।

" " " ठण्डी—क्लिमे, नेट्र-स, नक्स-वोम, पल्स।

दर्द बढ़ना—गर्म चीजें पीनेपर (Hot drinks)—ऐन्टि-सि, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कैमो, काफि, ड्रोसेरा, फेरम-फास, लैके, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सैबाडि, सिपिया।

" " गर्म खानेके पदार्थसे—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो, ग्रैफा, हैलि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पल्स, साइलि।

" " " किसी तरहसे भी—(१) कैमो मार्क, पल्स। (२) ब्यूनि-स्पाई, सिपिया।

" " गर्मीसे—बाहरी (External warmth)—ब्राइयो, कोस-क्र, फेरम-फास, हिपर, फास, फास-ऐ, पल्स, सल्फ।

" " " बिछावनकी—कैमो, मैग-कार्ब, मार्क, फास-ऐ, पल्स, सल्फ।

" " " कमरेकी—ऐन्टि-सि, कैमो, हिपर, मेजेरि-याम, पल्स।

" " गाने बजानेसे—फास-ऐ।

" " घरके भीतर—कैमो, पल्स, क्रोडो, सिपिया सल्फ।

" " छूनेसे—आर्निका, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, चायना, ग्रैफा, हिपर, माइकौ, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, फ्रेफ, पल्स, सिपिया, स्टैफि, सल्फ।

" " तम्बाकू पीनेसे—ब्राइयो, इग्ने, मार्क, नक्स-वोम।

" " धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे घटना—स्टैनम।

" " ठण्डे पानीसे—कैल्के, कैल्कि-कार्ब, मार्क, नक्स-म, म्यूरि-ऐसि, स्ट्याफि।

साइलिसि, ड्रोसे, युफोर, ग्रैफा, आइरि-वा, कलि-कार्ब, **लैकै**, **लाइको**, मैग-फास, मार्क, मेजि, नेट्र-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सैबु, **सिपिया**, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

दर्द-दन्तशूल, घटना—गर्म चीज पीनेपर—लाइको, मैग-फास, नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ गर्म प्रयोगसे—**आर्स**, मैग-फास, चायना, लाइको, मार्क, नक्स-वोम।

„ „ गर्मीसे—आर्स, आर्स-ऐ, कैल्के, कैस्टा, चायना, कैमो, कैलि-कार्ब, लाइको, **मैग-फास**, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, **नक्स-म**, **नक्स-वोम**, पल्स, सीरि, ह्रोडो, **रास-टक्स**, सल्फ-ऐ।

„ „ „ बिछावनकी—लाइको, मैग-स, नक्स-वोम, स्पाइजि।

„ „ „ कमरेकी—आर्स, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

„ „ घूमने फिरनेसे—मैग-कार्ब, रैटा।

„ „ चिबानेसे—ब्राइयो, ह्रोडो।

„ „ छूनेपर—ब्राइयो, नक्स-वोम।

„ „ ठण्डी चीजोंसे—काफि, फेरम, फास, पल्स, सल्फ।

„ „ ठण्डे पानीसे—इस्कु, ऐलूमि, बिस्मथ, **ब्राइयो**, कास्टि, कैमो, क्लिमे, **काफि**, फेरम, फेरम-फास, मैग-कार्ब, नेट्र-स, **पल्स**।

„ „ तम्बाकू सेवनसे—मार्क, नेट्र-कार्ब, नेट्र-स, सिपिया, स्पाइजि।

„ „ दबानेसे—ऐलूमि, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, मैग-फास, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, पल्स, रास-टक्स, स्टैफि।

„ „ „ दाँतपर दाँत—ब्राइयो, चायना, ओलियै, **फाइटो**, पल्स, रास-टक्स, स्टैफि।

„ „ नोचनेपर, दाँत—ऐलि-सि, बेल, फास-ऐ, सैनि।

„ „ भोजनके समय—ऐमोन-कार्ब, बेल, चायना, काफि, इग्नि, फास-ऐ, साइलि, स्पाइजि।

दाँत निकलना (Dentition) कष्टकर—कैल्के, कैमो, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, क्रियो, फाइटो, पोडो, रियुम, साइलि, स्टेनम।

„ अकड़नके साथ—(१) बेल, कैमो, हाइयो, मैग-फास जिङ्क, ब्रोम। (२) कैल्के, कूप्रम, कैलि-ब्रोम, सोले-नाइट्रि।

„ उत्तेजनाके साथ स्नायविक ,या मानसिक—मस्तिष्ककी—(१) बेल, कैमो, हेलि, पोडो, जिङ्क। (२) ऐगा, सिपिया, डालिकस, कैलि-ब्रोम, सोले-नाइट्रि, टेरिबिन्थ।

„ उदरामयके साथ—(१) कैल्के, कैल्के-फास, कैमो, पोडो, साइलि, (२) इथू, फेरम-फास, इपि, क्रियो, मैग-कार्ब, ओलिये, फास, पल्स, रियुम।

„ देरसे दाँत निकलना (Slow dentition)—कैल्के, कैल्के-फास, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, साइलि।

„ निद्राहीनताके साथ—(१) काफि, साइप्रि। (२) बेल, कैमो, क्रियो, पैसि-फ्लो, स्कोटे, टेरि।

„ मसूड़ेसे मसूड़ेको बराबर दबा रखना—मिकि, फाइटो, पोडो।

दाँती लगना (Lock jaw)—ऐलूमि, बेल, कैम्फ, मिकि, हाइयो, पोडो, स्ट्रैमो।

नासूर दाँतकी जड़में—(१) कैल्के-फास, फ्लुओ-ऐ, साइलि। (२) कैल्के-फ्लू, कास्टि नेट्रम-म्यूर स्टैफि, सल्फ।

बदरङ्ग (Discoloured) काला—आर्ज-नाइट्रि, चायना, क्रोम, कोना, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, प्रम्ब, पल्स, स्टेफि, सिपिया, थूजा।

„ धुमैला—मार्क, फास, प्रम्ब।

„ पीला—ऐलि मि, बाइयो, नाइको, मार्क नाइट्रि ऐ, फास ऐ, प्रम्ब थूजा।

लम्बा या ऊँचा मालूम होना, नंगी दाँत (Sensation of elongation)—(१) कैमो, मार्क, सिपि। (२) साइयो, कार्बो वेज, कास्टि, क्रिसे, नाइको, मैग कार्ब, प्लैटि, रास टक्स।

सड़ै दाँत—"क्षय रोग" देखिये।

हिलना—"ढीला" देखिये।

दर्द बढ़ना—पतली चीज पीनेसे—ऐसिट क्रूड, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, फलू-ऐ, हिपर, कैलि-कार्ब, लेक-कै, लैचि, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, रास-टक्स, सार्सा, स्टैफि, सल्फ।

" " परिश्रमसे, दैहिक—चिना।

" " " मानसिक—बेल, इग्ने, नक्स-वोम।

" " बैठनेपर—ऐसिट-क्रूड, मार्क, पल्स, रास-टक्स।

" " भोजनके समय—ब्राइरो, कैल्टो, कास्टि, कोना, कोलि-कार्ब, लाइको, नेट्र-कार्ब, स्टैफि।

" " " बाद—ऐसिट-क्रूड, बेल, ब्राइयो, कैमो, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, सेबाइना, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ।

" " रातमें—(१) बेल, कैमो, लिमि, मैग-कार्ब, मार्क, पल्स। (२) ऐसिट-क्रूड, ऐरेनि-डा, कास्टि, मेजे, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " शब्दसे—कैल्के, टेरे, थेरि।

" " शराब पीनेपर—ऐकोन, कैम्फर, नक्स-वोम।

" " सर्दीसे—सब तरहकी—(१) ऐसिट-क्रूड, कैल्के, नक्स-वोम, साइलि। (२) ब्राइयो, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, प्लैटि, स्पाइजि, सल्फ।

" " सोनेपर—(१) ऐरानि-डा, रेटा, सिपिया। (२) मैग-कार्ब, नेट्र-स।

" " " दर्द वाली करवट—आर्स, इग्ने, नक्स-वोम, पल्स।

" " " जिस बगल दर्द न हो—ब्राइयो, कैमो, इग्ने, पल्स।

" " हवामें-ठण्डी—ऐनाथ्रि, बेल, कैल्के, कास्टि, कैमो, हिपर, मैग-कार्ब, मैग-फास, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

" " हिलने डोलनेपर—ब्राइयो, चायना, मेजे, नक्स-वोम।

उत्ताप, अन्ननलीका (Æsophagus)—आर्स, बेल, कैम्फ, कोलचि, फास।

उत्तेजना (Irritation)—आइलैन्थ, बेल, कार्बो-वेज, कोना, क्रोटन-टिग, ग्लोन, हिपर, कैलि-आयोड, लैके, नक्स-वोम।

" खांसनेके लिये बाध्य करती है—डायस्को, लैके, लाइको, साङ्गि, स्क्वु इ, सल्फ।

केश रहने जैसा मालूम होना (Sensation of hairs)—आर्स, कानाबि-स, काक्क, कैलि-बाइ, साङ्गि, सल्फ।

खखारना, गला साफ करना (Hawking)—आइलैन्थ, ऐलुमि, आरम-ट्रि, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कास्टि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, सिमिक्स, काफि, कोरा-रु, क्रोटन टिग, डालका, फ्लु-ऐ, ग्रेफा, हिपर, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, लैकै, लिलि-टिग, लाइको, मार्कु-आ-फ्लै, मार्क-आ-रु, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फाइटो, सोरि, रुमेक्स, सिलि, सेनि, साङ्गि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, यूजा, जिङ्क।

" प्रात:कालके समय—आइलैन्थ, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, फास, फाइटो, रास-टक्स।

" बोलनेके समय—कैल्के-फास।

खरोंचनेका भाव (Scratching)—कार्बो वेज, मिस्टा कैलि-बाइक्रोम, क्रियो, नक्स म, नक्स-वोम, फास, पल्स फाइटो स्पंजि, सल्फ।

गुदगुदाहट (Itching)—ड्रयू, एपिस, आर्ज-मेट, कैल्के, सल्फ मिस्टा, कोना ग्लोनो कैलि कार्ब, कैलि आयोड।

खुरच लेने जैसा मालूम होना (Scraping)—एस्क, ऐलुमि ऐमो, ऐमोन कार्ब, ऐपि, ऐनाका, आर्ज ना आर्स, ब्रोमि, कार्बो ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, कोक्यु लि कोक, ग्रैफा, हिपर, कैलि कार्ब, कैल्मि, लैके, मेजे, नक्स-वोम, पेट्रो फास, फाइटो पल्स, फाइटो, रूमेक्स, सैबाडि, सल्फ, टैब स्टिल पिर।

गलेके भीतर (कण्ठ THROAT) ।

अकड़न (Spasm)—ऐग्टि-क्रूड, आर्ज-ना, बेल, कैल्के, **कैमो**, सिकि, कोनायम, जेल्स, ग्रैफा, हाइयो, आइरि-वार्स, कैलि-आयोड, लैके, **लोरो, स्ट्रैमो**, सल्फ, जिङ्क ।

" क्रोधके कारण—कैमो ।

" निगलनेके समय—आइरि-वार्स, **स्ट्रैमो**, स्ट्रिक, सल्फ ।

" " ओकनेके लिये बाध्य होता है (Compelling to retch)—ग्रैफा, **मार्क-कोर** ।

" पानी देखने या पानीके विषयमें सोचनेपर—ऐनान्थि, लिसिन ।

" अन्ननलीकी (Æsophagus)—ऐलूमि, ऐलू, आर्ज-ना, आर्स, ऐसाफि, **बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल**, कैल्के, सिमिक्स, कोना, क्रोटे, कूप्रम, डलेम्स, जेल्स, हाइयो, इग्ने, **लैकै, लोरो**, लिसिन, मैग्नि, मार्क-कोर, नैजा, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे-वि ।

" " सन्ध्यामें—आर्स, कैमो ।

" " रातमें—लैके, नक्स-वोम ।

" " निगलनेके समय—**बैप्टी, बैरा-कार्ब**, हाइयो, मार्क-कोर, सल्फ ।

" " " तरल पदार्थ—बेल, ग्रैफा, मैग्नि, मार्क-कोर ।

" " निगल सकता है केवल तरल पदार्थ—**बैप्टी**, बैरा-कार्ब ।

अटक जाता है, खाद्य पदार्थ, गलेके भीतर (Food lodges in throat)—ब्राइयो, कास्टि, चायना **लैकै, नाइट्रि-ऐ**, सल्फ ।

" जाने जैसा मालूम होना, खाद्य पदार्थ, नलीमें—आर्स, बैरा-कार्ब, कैल्के, कास्टि, जेल्स, पल्स ।

उत्ताप (गर्मी-heat)—ऐकोन, आर्स, बेल, कैप्सि, कैमो, सिस्टा, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, मार्क, **मेजे**, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, रासटक्स, सैङ्गु, सिनि, सल्फ ।

त्ताप, अन्ननलीका (Æsophagus)—आर्स, बेल, कैम्फ, कोलचि, फास।

त्तेजना (Irritation)—आइलेन्थ, बेल, कार्बो-वेज, कोना, क्रोटन-टिग, ग्लोन, हिपर, केलि-आयोड, लैके, नक्स-वोम।

" खांसनेके लिये बाध्य करती है—डायस्को, लैके, लाइको, साङ्गि, स्कुई, सल्फ।

श रहने जैसा मालूम होना (Sensation of hairs)—आर्स, कासाल्लि-स, काक, केलि-बाई, साइलि, सल्फ।

खारना, गला साफ करना (Hawking)—आइलेन्थ, ऐलूमि, आरम-ट्रि, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कास्टि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, सिमेक्स, काफि, कोरा-रु, क्रोटन टिग, डालका, फ्लु-ऐ, ग्रेफा, हिपर, केलि-बाई, केलि-कार्ब, लैची, लिलि-टिग, लाइको, मार्कु-आ-फ्ले, मार्क-आ-रु, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फाइटो, सोरि, रूमेक्स, सिलि, सेनि, साइलि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" प्रातः कालके समय—आइलैन्थ, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, फास, फाइटो, रास-टक्स।

" बोलनेके समय—कैल्के-फास।

खरोंचनेका भाव (Scratching)—कार्बो वेज, सिस्टा, केलि बाइक्रोम, क्रियो, नक्स म, नक्स-वोम, फास, पल्स, ब्रोडी स्पञ्जि, सल्फ।

खुजलाहट (Itching)—इथू, एपिस, आर्ज मेट, कैल्के, सल्फ सिस्टा, कोना, ग्लोनो, केलि-कार्ब, केलि-आयोड।

खुरच लेने जैसा मालूम होना (Scraping)—एक्न, ऐलूमि ऐमा, ऐमोन कार्ब, ऐगा ऐनाका, आर्ज ना आर्स ब्रोमि कार्बो ऐ, कार्बो वेज, कास्टि, चायना, कोनो सि, क्रोक, ड्रोसे, ग्लोन, केलि कार्ब, केलि, लैके लैडो, नक्स-वोम, पैरि फास सोरि, पल्स स्पोंजी, रूमेक्स सेबाडि, सल्फ, टेलु जिङ्क।

खुरच लेने जैसा, खाँसनेकी लिये बाध्य होता है—ऐमोन-कार्ब, बोरेक्स, ग्रेफा, पल्स, सैबाडि, थूजा।

" सवेरे—आइलैन्थ, कास्टि, लाइको।

गडगड शब्द पीनेके समय (Gurgling, when drinking)—कूप्रम हाइड्रो-ऐ।

" अन्ननलीका—आर्स, सिना, कूप्रम, हाइड्रो-ऐ, लोरो।

जखम (Ulcer)—ऐलू, **आर्स,** अरम-ट्रि, अरम, अरम-म्यूर, वैप्टी, कैल्के, कैप्सि, फ्लू-ऐ, **हिपर,** आइयो, कैलि-बाई, कैलि-फ्लोर, कैलि-आयोड, लैक-कै, लैके, लाइको, मैन्सि, **मार्क, मार्क-कोर,** मार्क-स, म्यू-ऐ, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, फाइटो सोरि, सँगु, साइलि, सल्फ।

" अन्ननलीमें—आइयोड।

" उपजिह्वामें (Uvula)—अरम, फ्लू-ऐ, कैलि-बाई, मार्क मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो, सल्फ।

" " उपदंशकी वजहसे (Syphilitic)—अरम, फ्लू-ऐ, कैलि-बाई, मार्क, मार्क-कोर नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

" गल कोषमें (Pharynx) - कैलि-बाई, मार्क-कोर, मेजी, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

" तालु-ग्रन्थियोमें (Tonsil)—**आइलैन्थ,** ऐमोन-कार्ब, एपिस, अरम, कैल्के, हिपर, कैलि-बाई, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि ऐ,** फाइटो।

" पारेके अपव्यवहारसे—अरम, आइयो, कैलि-आयोड, लाइको, नाइट्रि-ऐ।

" मुखगह्वरका (Faces)—आइलैन्थ, अरम-ट्रि, **बैप्टी,** कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ, **कैलि-बाई, कैलि-आयोड, लैके, मार्क, मार्क-कोर,** नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

झिल्ली नकली—नकली पर्दा स्राव डिफ्थिरियाका पर्दा (Membrane, exudation, Diphtheria)—ऐसि-ऐ, ऐमोन-कार्ब, **एपिस, आर्स, अरम-ट्रि,** बैप्टी, ब्रोमि, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कोटे, आइयो,

कैलि-बाई, कैलि-क्लोर, मियो, लैका-कै, लैके, नेत्र-नै, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-सल्फ, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, रास-टक्स, सेंगु, सिकेलि, सल्फ-ऐ, सल्फ।

झिल्ली नकली दाहिनी ओर—एपिस, लैक-कै, लाइको, मार्क, मार्क आ-फ्लै, फाइटो, रास-टक्स।

" " फैलती है, बाई ओर तक—लैक-कै, लाइको, सल्फ।

" बाई ओर—बेल, क्रोटे-हौ, लैक-कै, लैके, मैग्नि, मार्क-आ-रू।

" " फैलती है, दाहिने पार्श्व तक—लैक-कै, लैके, पेट्रो।

" बदबूदार—बेप्टी, कार्बो-ऐ, मार्क-स।

" मोटी—आर्स आइयो, सल्फ-ऐ।

" धुमैला रङ्ग (Gray)—एपिस, कार्बो-ऐ, आइयो, कैलि-ग्रा, लैक-कै, लैके, मार्क, मार्क-आ-फ्लै, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

" पीला आभा लिये—मार्क-स, सल्फ, सल्फ ऐ।

" सफेद—एपिस, आर्स, कैलि-क्लोर, लैक-कै, लैके, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-स, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, सल्फ-ऐ।

" हरी आभा लिये—इलैप्स, कैलि-ग्रा, मार्क-स।

" उपजिह्वामें (Uvula)—एपिस, कैलि-ग्रा, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

" तालु ग्रन्थिमें (Tonsil)—एपिस, कैलि-ग्रा, कैलि-म्या, लैक-कै, लैके, लाइको, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

डिफ्थीरियाका पर्दा—"झिल्ली" देखिये।

ढेला, गोला इत्यादि रहने जैसा मालूम होना (Sensation of lump plug etc)—एम्ब्रि, कैल्के, कार्बो वाइ, कोना, क्रोटे-हौ, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैक-कै, लैके, लिडम, नेट्र-म्यू, नक्स मॉस, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, सिपिया, सल्फ, थूजा।

" उठनेकी तरह मालूम होना (Rising up)—[illegible] बेलिडो, कोना, जेल्स, इग्ने, [illegible] लाइको,

मैग-म्यू, मस्क, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-म, नक्स-वोम, प्लेटि, पल्स, सिपिया, स्ट्रैमो, सल्फ।

ढेला, गोला घूट लेनेसे—बैरा-कार्ब, ग्रैफा, लैके, मार्क, नक्स-वोम, सिपिया।

" नींदमें—**लैके, नक्स-वोम**, सिपिया।

तरल पदार्थ निगलनेमें, नाकसे बाहर निकल पड़ते हैं—**अरम-ट्रि,** बोरैक्स, कार्बो-ऐ, कैलि-से, लैक-कै, **लैके, लाइको,** मार्क, मार्क-कोर, मार्क-स, नेट्रम-म्यूर, फाइटो, प्लम्ब, सल्फ-ऐ।

दर्द (Pain)—इस्कु, ऐलूमि, ऐलू, एपिस, **अरम-ट्रि, बैप्टी, बेल,** कैल्के, कास्टि, कोना, क्रोटे-होर, कूप्रम, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लैक-कै, **लैके,** लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो, **रास-टक्स, साइलि,** सल्फ, जिङ्क।

" दाहिने पार्श्वमें—ऐमोन-कार्ब, कार्बो वेज, आइयो, लाइको, फाइटो।

" बाएँ पार्श्वमें—क्रोटे-होर, लैके।

" खानेके समय—कार्बो-वेज, फेरम, फास।

" खाँसनेपर—ऐकोन, आर्जे-मेट, अरम-ट्रि, **बैप्टि,** कार्बो-वेज, लैके, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

" निगलनेके समय—आइलैन्थ, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, एपिस, **आर्जे-मेट, आर्स,** अरम-ट्रि, **अरम,** बैडि, बैरा-कार्ब, **बेल,** ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कैमो, **चायना,** इग्नेस, फलू-ऐ, **हिपर,** कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर **लैक-कै,** लैके, **मार्क,** मार्क-कोर, मार्क-आ फले, मार्क-आ-रू, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, रास-टक्स, सैंगु, साइलि, स्ट्रैफि, सल्फ।

" " घूट लेनेके समय—आइलैन्थ, **बैरा-कार्ब,** बेल, सिनेबा, क्रोटे-हो, **लैके,** मार्क, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" " तरल पदार्थ—बेल, इग्ने, लैके, लाइको, मार्क-कोर।

" " भोजनके पदार्थ—ब्राइयो, हिपर, लैके, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सल्फ।

दर्द, निगलनेके समय लार—बैरा-कार्ब, लेकी, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।
" फैलता है कान तक—ऐम्ब्रा, बेल, कैल्के, हिपर, लेके, लिथि कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, पोडो।
" " निगलनेके समय—जेल्स, **नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम,** फाइटो।
" बोलनेके समय—ऐकोन, बेल, कैल्के, ड्रोसे, मार्क, रास-टक्स।
" सर्दीकी वजहसे—ऐकोन, बैरा-का, बेल कैमो, डाल्का।
" जखम मिला (Ulcerative)—आर्जेना, कार्बो-ऐ, ग्रेफा, हिपर।
" अन्ननलीमें (Æsophagus)—ऐलूमि, ऐण्टि-टार्ट, कास्टि, कैलि-बा, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास।
" उपजिह्वामें (Uvula)—कोल्चि, कैलि-बा।
" गलकोषमें (Pharynx)—एपिस, आर्स, कैन्थ, कैनि-कोर, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, फास ऐ।
" तालु ग्रन्थिमें (Tonsil)—कास्टि, हिपर, लेके।
" अखाड़न घाव जैसा (Soreness)—ऐकोन, ईस्कि, आइलेन्थ, ऐलूमि, ऐमोन ब्रोम, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, **आर्जे-मेट, आर्जे-नाइट्रि,** आर्स, **ऐरम-ट्रि,** ऐसाफि, **वैप्टी, बेल, कैल्के,** कैल्के-फास, कैप्सि, कार्बो ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, सिष्ट्रा, जेलस, हपि, लैके, लिडम, लिथिन, **मार्क,** मार्क-कोर, मेजे, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स म, नक्स वोम, फाइटो, मोरि, रास टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ।
" " दाहिने पार्श्वमें—लैक-कै, **लाइको,** मार्क।
" " बायें पार्श्वमें—कार्मि लैक-कै, लैके, गेशा, सल्फ ऐ।
" " खसुके समय—कैल्के, लैका-कै, सल्फ।
" " सांसनेके समय—**आर्जे-मेट,** कार्बो वेज, मेजे, साइको, फास।
" " गवैयोंका (of singers)—आर्निका, **ऐरम-ट्रि,** आर्जे नाइट्रि, कैप्सि फिरम फास, मेजे, **रास-टक्स।**
" फांसकी तरह (As from a splinter)—ऐलूमि **आर्जे नाइट्रि, वेलिडो, डालि, हिपर,** केलि-कार्ब, मेजम म्यू, नाइट्रि ऐ।

१२

दर्द, चिर जानेकी तरह—इस्कि, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, आर्ज मेट, **आर्ज-नाइट्रि,** अरम-ट्रि, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कार्बो-ए, कार्बो-वेज, **कास्टि,** काकु, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, लैके, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, **मार्क-कोर,** मेजि, म्यू-ऐ, नेजा, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** नाइट्रि-ए, फास, फाइटो, पल्स, सैगु, सेने, स्पिञ्जि, स्टैनम, **ट्रिलि,** सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" " खाँसनेके समय—**आर्ज-मेट,** कार्बो-वेज, कास्टि, फास, **स्पञ्जिया।**

" " ठण्डी हवा खींचनेपर—नक्स-वोम।

" " निगलनेके समय—**आर्ज-मेट,** बैरा-कार्ब, ब्राइयो, हिपर, नक्स-वोम, **स्टैनम।**

" जलन करनेवाला (Burning)—ऐकोन, इस्कु, इथु, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्ज-नाइट्रि, आर्निका, **कैन्थ,** अरम-ट्रि, ऐसाफि, बेल, बोवि, कैम्फ, **कैन्थ, कैप्सि,** कार्बो-ऐसि, कार्बो-वेज, **कास्टि,** क्रोटन-टिग, जेल्स, हिपर, हाइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, लाइको, मार्क, **मार्क-कोर,** मेजि, म्यू-ऐ, **नेट्र-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, आक्जे-ऐ, पेट्रो, फास, फाइटो, सोरि, फ्रोडो, रास-टक्स, सैबाडि, **सेङ्गु,** सिकै, सिपिया, स्पञ्जिया, स्कुई, स्ट्रैमो, **सल्फर,** सिफि, टैरे, विरे।

" " निगलनेके समय—आर्स, **बैरा-कार्ब,** कैन्थ, हिपर।

" " सवेरे—अरम-ट्रि, कार्बो-ऐ, कैलि-बा, लाइको, सल्फ।

" " रातमें—**बैरा-बा,** नक्स-वोम।

" डङ्क मारनेकी तरह (Stinging)—ऐकोन, **एपिस,** अरम-ट्रि, बेल, मैग-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, स्पिञ्जि।

" " निगलनेके समय—ऐलूमि, अरम-ट्रि, अरम-म्यू, ड्रोसे, **कैलि-आयोड,** मैग-कार्ब, मार्क, पल्स।

दर्द, फाड़ डालनेकी तरह (Tearing)—ब्रय्, बिस्मथ, कैल्के, कान्थि, कैमो, कोलचि, जिङ्क।

" " मिर्चा लगनेकी तरह—मेजे।

" " " अन्ननलीमें—एकोन, एमोन-कार्ब, आर्निका, आर्स, एसाफि, काफि, माइक्रा, हिपर, मार्क-कोर, मेजे, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो, सैंगु, सल्फ-ऐ।

" " " उपजिह्वामें—एपिस, सैंगु।

" " " टानसिलमें—बेल, मार्क, फाइटो।

दर्द, सूई बेधनेकी तरह (Stitching)—ऐकोन, इस्कि, ब्रय्, ऐलूमि, ऐमोन-म्यू, ऐसार, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, हिपर, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लैकि, लिडम, लाइको, मार्क, नैट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पैट्रो, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

" " टानसिलमें—बेल, मार्क, रैना-स्यू।

" " निगलनेके समय—ऐलू, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्क, हिपर, लैकि, मार्क, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, सैबाडि, सिपिया, साइलि, सल्फ।

" " " फैलता है, कानतक—इग्ने, मार्क, नक्स-वोम।

" घटना—गरमसे (साधारणतः) (Warmth in general)—चार्म, हिपर।

" " ठण्डी हवामें—कैलि बाइ, मेज़।

" " पतले पदार्थ निगलनेसे—इग्नेशि कैली हिपर, लाइको, नक्स वोम, सल्फ।

" " मोतेपर—स्पञ्जिया।

दर्द बढ़ना, गरमीसे (Warmth in general)—काकु, लैकि, मार्क।

" " गर्मी बिछावनमें—काकु मार्क।

" " गर्म पानी पीनेसे—एपिस बेल, लैकि, मार्क, फाइटो।

" " ठण्डी हवामें—कायना लिडम हेपर, मार्क, नक्स वोम।

दर्द बढना ठण्डी पतली चीजें पीनेसे—कैन्थ, लाइको।

„ „ नींदके बाद—कैलि-बाई, लैका-कै, लैके, मार्क-प्रा-रू।

निगलनेकी इच्छा, घूंट लेनेकी इच्छा, लगातार (Constant inclination to swallow)—इस्क, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कास्टि,** कोना, जेल्स, हिपर, लैक-कै, लैके, लाइको, लिसिन, मार्क, नेट्रम-म्यूर, सैबाडि, पल्स, विरे-वि।

„ गोलेकी तरह, ढेलेकी तरह, गलेके भीतर रहनेके कारण—कक, इग्ने, **लैकि,** लिसिन, नेट्रम-म्यूर, सैबाडि, सल्फ।

निगलनेमें कष्ट (Difficult to swallow)—ऐकोन, इस्क, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्ज-मेट, आर्स, अरम, बैप्टी, **बैरा-कार्ब,** बेल, ब्रोमि, कैक्ट, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, चायना, कोलचि, कोना, क्रोटे, क्यूप्रम, डालका, इलैप्स, जेल्स, हेलि, हिपर, **हाइयो,** इग्ने, आइयो, इपि, **कैलि-कार्ब,** कैलि, लैक-कै, **लैकै,** लाइको, मार्क, मार्क-कोर, **नाइट्रि-ए,** नक्स-वोम, ओपि, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, **रास-टक्स,** सिपि, साइलि, **स्ट्रैमो,** सल्फ, सल्फ-ए, टैबे, गुयाई।

„ कड़े पदार्थ (Solids)—ऐलूमि, एपिस, आर्ज-नाइट्रि, बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, कार्बो-वेज, कैमो, कैलि-बाई, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स।

„ तरल पदार्थ ही निगल सकता है, कड़े पदार्थ अटक जाते हैं—बैप्टी।

„ तरल पदार्थ (Liquids)—बेल, कैन्थ, क्यूप्रम, हाइयो, इग्ने, आइयो, **लैकि,** लाइको, **लिसिन,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम। **स्ट्रैमो।**

„ „ कड़े पदार्थकी अपेक्षा—ब्रोमि, क्रोटे, हाइयो, इग्ने, लाइको।

निगलनेमें अटक जाता है (Impeded)—ऐमोन-कार्ब, आर्निका, आर्स, बैप्टो, कैन्थ, कार्बो-वेज, सिना, **हाइयो,** लोरो, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, स्ट्रैमो, सल्फ।

निगलनमें अटक जाता है कड़े पदार्थ—एपिस, व्राइयो, ग्रन्ने, ल्याइको, नाइट्रि-एे, रास-टक्स, जिङ्क।

" " " इसी लिये प्रत्येक ग्रास खानेपर पानी पीता है—बेल, कैक्ट, ब्यूफो, इलैप्स।

" " " और जोरसे बाहर निकल आता है (Reach a certain point and are violently erected)—नेट्रम-म्यूर।

निगल नहीं सकता (Inability to swallow)—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आरम-ट्रि, बेल, कैम्फ, कार्बो-वेज, सिकि, सिना, जेल्स, हाइयो, ल्यैक-कैं, ल्यैके, लाइको, लिसिन, नक्स-वोम, नाइट्रि-एे, ओपि, फास, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, विरे।

" अन्न मार्गके सङ्कोचनकी वजहसे (Constriction of Œsophagus)—बैप्टी, बेरा-कार्ब, कैक्ट, सिकि।

" टाइफस ज्वरमें—बैप्टी, वैम्फर।

" तरल पदार्थके सिवा और कुछ—बैप्टी, बेरा कार्ब।

" पक्षाघातकी वजहसे—ऐल्, एपिस, आर्स, बैप्टी, कास्टि, काफि, जेल्स, ल्यैके, नेट्र-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, प्लम्ब, स्ट्रैमो।

पक्षाघात (Paralysis)—एपिस, आर्स, कास्टि, काफि, कैमो, जेल्स, ल्यैक-कैं, लेसि, लाइको, नेट्र-म्यूर, नक्स-म, ओपि, फास्टो, प्लम्ब, रास-टक्स, साइलि।

अन्न मार्गका—ऐल्, आर्स, बैप्टी, कास्टि, हाइड्रो ऐ, बेनि कार्ब, नक्स-म, ओपि, प्लम्ब, स्ट्रैमो, विरे।

" गलकोषका (Pharynx)—आर्स, कास्टि, काफि, स्ट्रैमो, रास टक्स।

" " डिफ्थीरियाके बाद (Post diphtheritic)—आर्स, कास्टि, काफि, जेल्स, ल्यैक कैं, लैसि, नेट्रम म्यूर, प्लम्ब।

पीब पैदा होना (Suppuration)—हार्माक्सिकी—ऐल्, ऐमा, एकिन, बेरा-कार्ब, बेरा-म्यूर, [illegible] मो, गुर्न्द, [illegible] कैलि म्यू, हेलि सार्व [illegible], माक्स [illegible], [illegible] पा वने, मार्क-ला ट [illegible], [illegible] सिलिका, साइलि, [illegible]।

प्रदाह (Inflammation)—**ऐकोन**, आइलैन्थ, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, एपिस, आर्जे-मेट, **आर्जे-ना**, आर्स, अरम ट्रि, अरम, अरम-म्यू, वैप्टी, **वेरा-कार्ब**, वेल, व्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, **कैप्सि**, कैमो, सिनेबा, सिस्टा, काफि, कोलचि, क्रोटे, कूप्रम, डालका, फेरम-फास, जेल्स, **हिपर**, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-सै, लैक-कै, **लैके**, **लाइको**, लिसिन, **मार्क**, मार्क-स, मार्क-आ-रू, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ दाहिने पार्श्व में—आर्स, वेल, लैक-कै, लाइको, मार्क, मार्क-आ फ्ले, फाइटो।

„ बाएँ पार्श्व में—क्रोटे, इलैप्स, लैक-कै, लैके, मार्क-आ-रू, नैजा, सिपिया।

„ दाने भरा (Granular)—आइलैन्थ, वेल, हिपर, आइयो, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लैक-कै, मार्क, नेट्रम-म्यूर, फाइटो, सिकि।

„ पारेके अपव्यवहारसे—आर्जे-मेट, **हिपर**, नाइट्रि-ऐ।

„ पुराना (Chronic)—ऐलूमि, आर्जे-ना, वैरा-कार्ब, कैल्के, कार्बो-वेज, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, सिपिया, सल्फ, थूजा।

„ विसर्पकी तरह (Erysipelatus)—**एपिस**, वेल, लैके, लाइको, मार्क, रास-टक्स।

„ सर्दी लगकर—वैरा-कार्ब, वेल, कैमो, डालका।

„ अन्न मार्गका (Æsophagitis)—आर्स, कार्बो-वेज, जेल्स, आइयो, नाइट्रि-ऐ, फास, रास-टक्स।

„ उपजिह्वाका (Uvulitis)—ऐलूमि, **एपिस**, आर्स, कार्बो-वेज, जेल्स, लैक-कै, नेट्र-स, नक्स-वोम, पल्स, सेने, सल्फ।

„ गल कोषका, पुराना (Pharyngitis)—फ्लु-ऐ, कैलि-आयोड, लैक-कै, लैके नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, सिपिया, **साइलि**, सल्फ।

„ दाना मिला—हाइड्रो, कैलि-क्लोर, फाइटो, सिकि।

प्रदाह टानसिलका (Tonsilitis)—ऐकोन, गाइलैन्य, ऐल्, एपिस, आर्स, बैप्टी, **बैरा-कार्ब**, बैरा-म्यू, **बेल**, केल्क, कैप्सि, कैमो, कोनचि, क्रोटे, कूप्रम-ऐ, डालका, जेल्स, **हिपर**, कैलि क्लोर, **लेक-कै**, **लैके**, लाइको, मार्क, मार्क-स, मार्क-आ-फ्ले, नेट्र-स, **नाइट्रि-ऐ**, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, सैंगु, **साइलि**, सल्फ।

„ „ बार बार (Recurrent)—**ऐलूमि**, **बेरा-कार्ब**, बैरा-म्य, हिपर, लैके, लाइको, सैंगु, साइलि, सल्फ।

„ „ सामान्य सर्दी लगते ही—डाल्का, हिपर।

फोड़ा—"पीब पैदा होना" देखिये।

बढ़ना, उपजिह्वाका (Uvula elongated)—ऐकोन, ऐल, एपिस, बैरा-म्यू, कैप्सि, काफि, कोक, **क्रोटन-टिग**, हिपर, हाइयो, आइडो केलि-कार्ब, **केलि-बाई**, लैका-कै, **लेकै**, मैन्सि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, **फास**, **सल्फ**।

बढ़ा हुआ टानसिल (Tonsils enlarged)—ऐल्, **बेरा-कार्ब**, **बेरा-म्यू**, कैल्क-फास, फेरम, हिपर, केलि-बाई, **लैके**, **लाइको**, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, सिपिया, साइलि सल्फ, सिकि।

बद्ध भाव (Choking constriction)—ऐकोन, ऐल्, ऐलूमि, एपिस, आर्जे-नाइ, आर्स, बैप्टी, बेरा-कार्ब, बेल, ब्रोमि, कैन्ट, केल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, **कास्टि**, **कैमो**, चेलिडो, काफि, कोना, क्रोटे-हो, फेरम-फस्-ऐ, ग्लोनो, येफा, हिपर, **हाइयो**, **इग्ने**, काइयो, इपि, लैके लोरो, लाइको मैग फास, मेफि नक्स मस्का योस, **प्लम्ब**, पल्स, सिपि, **स्पञ्जिया**, स्ट्रैमो सल्फ, टैब, विर, जिङ्क।

„ कपड़ा रखनेपर, गलेके ऊपर, बढ़ना—एपिस बेल, कैल लैके, सिपिया।

„ खींचन मिला (Convulsive)—आर्स, कार्ब वेज मास्को।

„ निगलनेके समय—ऐकोन, बेल ब्राइयो, कैफर कास्टि, लाइको, मार्क, नेट्रम म्यूर पल्स, रस टक्स।

बद्धभाव निगलनेके समय कड़े पदार्थ (Solids)—**पल्स**, लैके।

" " तरल पदार्थ (Liquids)—लिसिन, मैग-फास, नेट्रम-सल्फ।

" नींदमें—सेनक्रि, **लैके**, नैजा, **नक्स-वोम**, सिपिया।

" बात करते समय—मैन्सि।

" भोजनकी चेष्टा करनेपर—लैके।

" भोजनके समय—नाइट्रि-ऐ।

मछलीका काँटा अड़ा है, मानो (Fish bone sensation)—"गड़ना, फूटना" देखिये।

रङ्ग—काला (Dark)—इस्कि, बैप्टो, फाइटो।

" बैगनी (Purpled)—आइलैन्थ, बैप्टो, कैलि-बाई, **लैके**, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

" " टानसिलका—लैके, फाइटो।

" लाल (Redness)—ऐकोन, आइलैन्थ, एपिस, **आर्ज-नाई**, आर्स, **बेल**, कैल्के-फास, **कैप्सि**, सिस्टा, जेल्स, हाइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-फ्लू, लैके, **लाइको**, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, **फाइटो**, **स्ट्रैमो**, सल्फ।

" " उपजिह्वा (Uvula)—**ऐकोन**, एपिस, **आर्ज-नाइट्रि**, आर्स, बैप्टो, बैरा-म्यू, बेल, कैल्के-फास, क्रोटन-टिग, फ्लू-ऐ, कैलि-बाई, लैके, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

" " " घोर लाल—आर्ज नाइट्रि, **बैप्टो**, कैल्के, लैके।

" " गलकोष (Pharynx)—ऐकोन, **एपिस**, आर्स, बेल, हिपर, कैलि-बाई, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, विरे।

" " " घोर लाल (Dark red)—इस्कु, आइलैन्थ, **आर्ज-नाइट्रि**, बैप्टो, **कैमो**, क्रोटे, कैलि-बाई, कैलि-आयोड, लैके, मार्क-सल्फ, मार्क-आ-रु, मेजे, नैजा, फाइटो, पल्स, रास-टक्स।

रङ्ग—लाल, टानसिलका—ऐकोन, एपिस, वरम, बैप्टी, बेल, फेरम-फास, कैलि-वाइ, लैके, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, फाइटो, पल्स, सल्फ।

खड़ा मालूम होना (Roughness)—इस्कु, ऐलो, ऐलूमि, ऐम्ना, ऐमोन-कार्ब, एपिस, **आर्ज-मेट**, बेल, कार्बो-वेज, कास्टि, कोनोसि, हिपर, ड्रपि, कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फाइटो, सैंबाडि, सिपि, सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा।

रूखापन (Dryness-सूखापन)—ऐकोन, इस्कु, ऐगा, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐनागे, एपिस, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि, ऐट्रो, बैरा-कार्ब, **बेल**, बार्ब, **ब्राइयो**, ब्यूफो, कैलेडि, **कैना-इ**, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, सिकि, काकु, कोलचि, कोना, कोरा-रू, क्रोटे-होर, ड्रोसे, जैल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, आइरि-यास, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, लैके, लैक-कै, लाइको, मैग-म्यू, मैन्सि, **मार्क**, मार्क-कोर, मेजि, म्यू-ऐ, नैजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-मस**, नक्स-वोम, ओपि, **फास**, फाइटो, पोडो, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सैंबाडि, सैंयाइना, सेंड्र, सिनि, सेने, सिपिया, **साइलि**, **स्टिक्टा**, **स्ट्रैमो**, सल्फ, विरे।

„ पश्च मार्गका—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, बेल, लैके, नेट्रम-म्यूर, सिपिया, सल्फ।

„ खाँसनेके समय—ड्रोसे, मेजि, फाइटो, पल्स, रास टक्स, सल्फ।

„ नींद खुलनेपर—ऐलूमि, ऐम्ना, लैके, नाइको मैन्सि, नक्स म फास, सिपिया, साइलि।

„ नींद लगी रहनेपर—नक्स-म।

„ प्यास न रहनेके साथ—एपिस, ऐसाफि, कैलेडि, हालि, नक्स म पैरे फास-ऐ सोरि, सैंग्वि।

श्लेष्मा (Mucus)—ऐलि सि, ऐम्ब्र, ऐम्ना, ऐमा, ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-मेट, **आर्ज-नाइट्रि**, **ऐरम ट्रि**, बाइटा, बेल्स, कार्बो वेज, कार्बो-

वेज, कास्टि, क्रोटे, फ्लू-ए, हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, लेसी, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ए, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि-ए, **नक्स-वोम,** फास, प्लैटि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रैना-बा, रास-टक्स, रूमेक्स, सेने, **सिपि,** साइलि, साइजि, स्टैनम, सल्फ, जिङ्क।

स्लेष्मा, सवेरे—**आर्ज-मेट,** बैरा-कार्ब, कैल्के, ग्रैफा, **कैलि-बा,** नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यूर, **पल्स,** साइलि, सल्फ।

" नाकके पिछले छेदसे (Drawn from post nares)—ऐलू, ऐण्टि-क्रूड, आर्ज-ना, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, हिपर, मार्क, **नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ए, साइजि।

" गाढ़ा (Thick)—ऐना, **आर्ज-नाइट्रि,** बेल, ब्राइयो, **कैलि-बा,** मैग-कार्ब, **नेट्र-कार्ब,** फाइटो, साइलि।

" थक्का थक्का (Lumpy)—ऐगा, सेने।

" पानीकी तरह पतला (Watery)—इस्कि, चेलिडो, लोरो, थुजा।

" लसदार (Tenacious, Tough, Viscid)—ऐलि-सि, ऐमोन-म्यूर, ऐना, एपिस, आर्ज-मेट, **आर्ज-नाइट्रि,** बैरा-कार्ब, बोरेक्स, कार्बो-वेज, सिस्टा, **कैलि-बा,** लैके, लिसिन, मैग-कार्ब, मार्क, फास-ए, **फाइटो,** प्लम्ब, पल्स, सोरि, रास-टक्स, रूमेक्स, **साइलि,** टैबे, थुजा, स्टैनम, जिङ्क।

" " सवेरे—एपिस, कैलि-बा, पल्स।

" " रातमें—पल्स।

" खट्टा (Sore)—क्रोटन-टिग, लोरो, मैग-स, फास, टियु।

" कड़वा (Bitter)—आर्निका, आर्स, सिस्टा, ग्रैटि, मार्क-टेरे।

" नमकीन—कैल्के, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, फास, साइलि, सल्फ।

" मीठा (Sweetish)—इस्कि ऐलि-सि।

" धुमैला (Grayish)—ऐम्ब्रा, **आर्ज-मेट,** आर्स, फास, स्टैनम।

" पीला—ऐण्टि-क्रूड, कैल्के, कैल्के-स, ड्रोसे, कैलि-बा, नक्स-वोम, साइलि, साइजि।

श्लेष्मा सफेद—बेल, बोरेक्स, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।

„ हरा—कोलचि, लाइको, पल्स, साइलि, स्टैनम।

सड़न (Gangrene)—आइलैंथ, ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्रा, आर्स, ऐरम-ट्रि, कार्बो-वेज, चायना, क्रोटे-हो, केलि-फास, क्रियो, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, साइलि, सल्फ।

सङ्कोचन (Contraction)—इग्नि, ऐलूमि, एपिस, आर्ज-ना, ऐरम-ट्रि, बेप्टी, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, कुप्रम, लैके, लाइको, नक्स-वोम, सल्फ, फास-ऐ।

„ अन्न-नलीका—ऐलूमि, आर्ज-मेट, बेल, कैक्ट, केलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर।

„ अकड़न भरा (Spasmodic)—आर्ज-ना, आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो-ऐ, हाइयो, लैके, लोरो, स्ट्रैमो।

सुरसुराना (Tickling)—ऐम्ब्रा, बेल, कैल्के, कार्बो-ऐ, कास्टि, सिना, कोलचि, कोना, ड्रोसे, ग्लोनो, हिपर, लैके, लेकि-ऐ, फास, सैङ्ग्व।

„ कर खांसी आती है—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, ब्राइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैक-कै, लैके, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, रूमेक्स, सिपिया, स्पञ्जिया।

सूजन (Swelling)—आइलैंथ, एपिस, आर्स, बेल, ब्रोमि, कैल्के, कैन्थ, बैप्टा, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-स, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सेने, सिपि, स्पाञ्जि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

„ उपजिह्वा (Uvula)—ऐकोन, ऐम्, एपिस, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कास्टि, फ्लू-ऐ, हिपर, हाइयो, केलि-बा, केलि-आयोड, लैके, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फाइटो, साइलि, सल्फ।

„ „ गोंद मिली ([illegible])—एपिस, कैलि-बाई, लैके, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास, सल्फ।

सूजन, टानसिल (Tonsils)—ऐकोन, एपिस, अरम, **बेप्टी**, **बेरा-कार्व**, **बेल**, कैल्के, कार्बो-वेज, **कैमो**, चेलिडो, कोलचि, क्रोटन-टिग, डालका, ग्रैफा, **हिपर**, कैलि-फ्लू, कैलि-आयोड, **लैक-कै**, **लैकै**, **लाइको**, मैन्सि, मार्क, मार्क-आ-फ्ली, मार्क-आ-रू, मार्क-स, म्यू ऐ, **नाइट्रि-ऐ**, **फास**, **फाइटो**, प्लम्ब, रैना-सि, सैबाडि, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

" " दाहिने—बेल, लैक-कै, लाइको, फाइटो।

" " बाएँ—एपिस, बैरा-कार्व, आइयो, लैक-कै, लैकै, सल्फ।

" " शोथ मिली—आइलैन्थ, एपिस, नाइट्रि-ऐ, फास, रास-टक्स।

गला (बाहर) (EXTERNAL THROAT)

थकावटका भाव (Stiffness) दोनो पार्श्वमें (Sides)—इग्नि, ऐना, ऐसक्लि-टियु, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, लैकै, लिडम, लाइको, मार्कु-आ-फ्ली, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, फाइसो, पल्स, साइलि, स्पञ्जि, थूजा, जिङ्क।

कपड़ा रखनेपर बढ़ना (रोगका)—एपिस, बेल, कैक्ट, क्रोटे-हो, ग्लोन, कैलि-कार्व, **लैकै**, सिपिया।

खींचनका भाव, पार्श्वमें (Sides)—चेलिडो, आइयो, नक्स-वोम, सल्फ।

गलगण्ड (Goitre)—आइलैन्थ, ऐम्ब्रा, अरम, ब्रोमि, **कैल्के**, कैल्के-फ्लू, फ्लू-ऐ, **आइयो**, कैलि-आयोड, लैकै, लाइको, लाइकोपा-वा, मार्क-आ-फ्ली, मार्क-आ-रू, नेट्रम-कार्व, फास, साइलि, **स्पञ्जि**।

" एक्स-आपथैलमिक (Ex-opthalmic)—कैक्ट, फेरम, लाइकोपा-वा, नेट्रम-म्यूर।

ग्रीवास्तम्भ (Torticollis)—आर्स, कैल्के, सिना, कोलचि, डालका, युपे-प, हियुरा, लैक-कै, लाइको, नक्स-वोम, रास टक्स, सल्फ।

चर्मोद्भेद-फुन्सियाँ (Pimples)—सिनेबार, ह्पिर, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ रस भरे दाने (Vesicles)—क्लिमे, फास-ऐ, सिपिया।

„ „ कानसे स्रावकी वजहसे—टेल्।

„ फोड़ा, पार्श्व देशमें—कोलोसि, फाइटो।

टपक, केरोटिड धमनीमें (Carotid artery)—अरम, बेल, केल्क, जेल्स, ग्लोनो, ह्पिर, हाइयो, स्ट्रैमो, विरे-वि।

दर्द (Pain)—बैरा-कार्ब, मार्क, पल्स।

„ सर्वाङ्कल ग्लेण्डमें—बेल, कैल्क, कार्बो-वेज, मार्क।

„ कनकनी (Aching)—इस्कि, केल्के, सिमि, गुवा, सिफि, विरे-वि, जिङ्क।

„ खींच रखना, पार्श्वमें (Drawing)—ब्रायो, नक्स-वोम, सल्फ।

„ जलन पार्श्वमें (Burning sides)—ऐलू, बार्ब, कार्ब, फार्मि, ग्रैटि, इग्ने, सार्स-आ-फ्लो, नेट्र-स।

„ टपक (Soreness)—बेल, लेके।

„ सुई वेधनेकी तरह (Stitching)—ऐना, ऐस्कि म्यू, चायना, राग-वेन, थूजा।

दबा रखनेकी तरह मालूम होना (Grasping sensation)—ऐकोन, चार्ब, लैके, नैजा, स्ट्रैमो।

दुर्बलता—इस्कि, ऐगा, कैल्क, जेल्स, कालि, ग्लोनो फेनि-कार्ब, लैके, पेरि, प्लेटि, साइलि, स्टैनम, विरे, जिङ्क।

पक्षाघात (Paralysis)—जेल्स, प्लाइम्बि।

सूजन (Swelling)—आइल्मेन्थ, बेल, मार्क, रास-टक्स, सल्फ।

„ थाइरायड ग्लेण्डका (Thyroid gland)—कार्बो-ऐनि, फेलि फायोड।

„ पार्श्वमें (Sides)—आइल्मेन्थ, एपिस, बेल, लैके, मार्क, रास-टक्स।

„ सर्वाङ्कल ग्लेण्डका (Cervical gland)—बराइ कि, बैरा-कार्ब, बेल, केल्के, कार्बो-ऐनि कार्बो वेज कैमो सिस्टा ग्रैफ, ह्पिर, फेनि-कार्ब, फेलि फायोड आयडो, मर्क मर्क आयोड, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, साइलि, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ।

सूजन सर्वाङ्गीण ग्लैण्डकी, वाडी—कैल्के, लाइको, मार्क।

„ „ पीव भरी (Suppurative)—कैल्कि, सिष्टा, साइलि।

स्पर्श असहिष्णुता (Sensitive to touch)—लैके, निको।

पाकस्थली (STOMACH)।

अग्नि-मान्द्य, अजीर्ण (Indigestion)—**ऐलूमि**, आर्स, बैरा-कार्ब, **बैरा-म्यूर**, कैल्के, कार्बो-ऐ, **कार्बो-वेज**, चेलि, चायना, काफि, ग्रैफा, **इग्नि**, **लाइको**, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, **नक्स-वोम**, **पल्स**, सिपिया, **सल्फ**।

„ अण्डा खाकर—चिनि-आर्स, कोलचि, फेरम, फेरम-म्यू।

„ आटा, मैदा खानेपर—कास्टि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, सल्फ।

„ आलू खाकर—**ऐलूमि**।

„ काफी पीकर—कैमो, नक्स-वोम।

„ चीनी या गुड खानेपर—आर्ज-ना, लाइको, ऐसिट-क्रूड, एपिस, जिङ्क।

„ ठण्डा खाद्य पदार्थ खानेपर—फास-ऐ, ऐलू-मि।

„ दूध पीने पर—इथू, ऐण्टि-क्रूड, **चायना**, आइरि-वार्स, मैग-म्यू, मैग-कार्ब, नक्स-वोम।

„ पानी पीकर गदला —ऐलि-से।

„ फल खानेपर—ऐकि-स्मा, चायना, सिपि।

„ मछली खानेपर—चायना, चिनि-आर्स।

„ मांस खाकर सूअरका —**साइला**।

अरुचि—अनिच्छा, वितृष्णा।

„ अण्डे से—फेरम।

„ आलूसे—ऐलूमि, थूजा।

„ काफीसे—बेल, ब्रायो, **कैल्के**, कैमो, चायना, काफि, डालका, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास, स्पाइ, सल्फ-ऐ।

अरुचि, खानेके पदार्थसे—ऐकोन, ऐन्ना, ऐसिड-क्रू ड, आर्निका, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-ऐ, चायना, चिनि-स, काकि, कोलचि, कोलोसि, साइक्ला, डिजि, डालका, फेरम, ग्नोनो, ग्रेटि, गुया, हेलि, इग्ने, आइयो, इपि, केलि-कार्ब, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, मैग-स, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, नक्स-वोम, ओपि, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि, स्टेफि, सल्फ।

„ „ कड़ी चीजें (Solid food)—इथु, फेरम, लाइको, मार्क, स्टेफि।

„ „ गर्म—बेल, कैल्के, चायना, ग्रेफा, इग्ने, लेके, लाइको, मार्क-कोर, फास, पल्स, साइलि, विरे।

„ „ गन्धसे—काक्कु, कोलचि, इपि, पोडो।

„ „ गो-मांससे—मार्क, टिलि-ड्रि।

„ „ ठण्डा—ऐसे-ऐ, बेलि, साइक्ला।

„ „ राँधनेसे—ग्रेफा, लाइको, फास, साइलि।

„ „ सामान्य थोड़ासा खानेके बाद—साइक्ला, रियुम, साइलि।

„ खट्टी चीजोंसे—बेल, काफि, फेरम, इग्ने, नक्स-वोम, फास-ऐ, सैबाडि, सल्फ।

„ घीकी बनी या चर्बी मिली गुरुपाक चीजोंसे—आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, चायना, कोलचि, साइक्ला, हिपर, मार्क, नेट्रम-म्यू र, पेट्रो, टिलि-ड्रि, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ चाय पीनेसे—कार्बो-वे फास, थिया।

„ तम्बाकू—कौस्टि, कैम्फ कैन्थ, इग्ने, लेके, लाइको, नेट्रम म्यू र, नक्स वोम, फोसि फास पल्स सल्फ।

„ „ धूम्रपानसे—आर्निका, कौस्टि, कैम्फ, इग्ने, लाइको, पल्स सल्फ।

„ दूधसे—इथु, ऐसिड टार्ट आर्निका ब्राइयो कैल्के, कार्बो वेज [illegible] गुया, इग्ने, नेट्रम कार्ब फास, पल्स सिपिया साइलि, सल्फ।

„ „ नमकसे—ऐसिड [illegible] [illegible] कैल, मार्क, साइलि, [illegible] एसि सी।

अरुचि—नमकीन भोजनके पदार्थसे—कार्बो-वेज, **कोरा-रू, ग्रैफा, नेट्रम-स्यूर,** मिलि, सिपिया।

„ पानीसे—एपिस, वेल, ब्राइयो, कैलेडि, कैन्थ, चायना, हाइयो, लिसिन, नेट्रम-स्यूर, **नक्स-वोम,** फाइसो, पल्स, **स्ट्रैमो।**

„ „ ठण्डा—वेल, ब्राइयो, कैलेडि, नेट्रम-स्यूर, नक्स-वोम, फिला, **स्ट्रैमो।**

„ पानीयसे (Drinks)—एपिस, वेल कैन्थ, चायना, **फेरम, हाइयो,** इग्ने, लैक-कै, लिसिन, नाइट्रि-ए, **नक्स-वोम,** पल्स।

„ „ गर्म—कैमो, फेरम।

„ „ ठण्डा—कैलेडि, फाइसो।

„ प्याजसे और लहसुनसे—सैबाडि।

„ फलसे—वैरा-कार्ब, इग्ने।

„ ब्राण्डीसे—आर्निका, इग्ने, मार्क, रास-टक्स, जिङ्क।

„ मक्खनसे—**चायना,** साइक्ला, मार्क, टिलि-ड्रि, पल्स।

„ मछलीसे—कोलचि, **ग्रैफा,** गुये, नेट्रम-स्यूर, सल्फ, जिङ्क।

„ मांससे—ऐलूमि, आर्निका, आर्स, अरम, ब्राइयो, कैल्क, कैल्क, कार्बो-वेज, **चायना,** साइक्ला, फेरम, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, मेजे, **म्यू-ए,** नेट्रम-स्यूर, नाइट्रि-ए, **नक्स-वोम,** पेट्रो, फास, प्लैटि, टिलिया-ड्रि, **पल्स,** रास-टक्स, सैबाडि, **सिपि, साइलि, सल्फ,** सिफि, सिकि, जिङ्क।

„ „ सूअरके—कोलचि, ड्रोसे, सोरि, पल्स।

„ मिठाई (Sweets)—आर्स, कास्टि, **ग्रैफा,** हिपर, मार्क, फास, सिना-ना, सल्फ।

„ मैदासे—आर्स, फास, फास-ए।

„ रोटीसे (Bread)—**चायना,** कोना, साइक्ला, कैलि-कार्ब, लाइको, **नेट्रम-स्यूर,** नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपिया, सल्फ।

अरुचि—रोटी लालसे (Brown)—कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ शराबसे (Wine)—इग्ने, मार्क, रास-टक्स, सैबाडि, सल्फ, जिङ्क।

„ साग सब्जीसे—हेलि, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर।

„ सब चीजोंसे—ऐलू, इपि, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

इच्छा, अगट सगट चीजोंके खानेकी (Indistinct, knows not what)—
आइयो, इग्ने, लैके, मैग-म्यू, पल्स, थेरि।

„ अण्डे की—कैल्के, क्षाइङ्गी, नेट्रम-फास, ओलि-ए।

„ „ सिझाये हुए—कैल्कि।

„ अस्वाभाविक पदार्थोंकी (Unusual strange things)—आइयो, कैल्के, कैल्के-फास, साइक्ला, चेलिडो, हिपर, मेसो।

„ „ गर्भावस्थामें—चेलिडो, लिसिन, मैग-कार्ब।

„ आइस-क्रीम (Ice-cream)—कैल्के, फास।

„ आलूसे—नेट्रम-कार्ब, ओलियो।

„ „ कच्चे—कैल्के।

„ कच्चे खाद्यसे (Raw food)—आइग्नैन्थ, सल्फ, टेरे।

„ कमला नेबूसे (Oranges)—क्यूबे, इलैप्स, मेडो, थेरि।

„ काफी पीनेसे—ऐलूमि, ऐंगु, आर्नि, आरम, ब्राइयो, कैप्सि, कार्बो-वेज, चायना, कोना, मेज़े, नक्स-म, सिनि, सल्फ।

„ कोयला लकड़ीका—ऐलूमि, सिकि, कोना, नाइट्रि-ए, नक्स वोम।

„ कोयला (Coal)—ऐलूमि, कैल्के, सिकि।

„ खट्टी चीजोंसे—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम टार्ट, एपिस, आर्सेनिक आर्स, बोरैक्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो वेज कैमो कोना, कोरा-रू, फेरम, फेरम-म्यूर हिपर, इग्ने, कैलि कार्ब, मैग्नि, मैग कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फास, पोडो, पल्स रैनाङ्कि शेरा, सिपि सिपिया, सल्फ्युरि एसि, सल्फ थिरि।

„ खड़िया मिट्टी—एलूमि कैल्के, नेट्रम म्यूर नाइट्रि ए, नक्स वोम।

„ गर्म खानेसे—फिरा, चार्स बेलिडा कालि फेरम आइको फास ए।

इच्छा, गर्म पानीय पीनेपर—आर्स, ब्राइयो, हाइयो, लैके-कै, लाइको, सैबाडि, सल्फ।

„ „ ज्वरके समय—सीड्रन, कैम्फर, युपे-पर्फ।

„ „ शीतावस्थामें—आर्स, सीड्र, युपे-पर्फ।

„ गुरुपाक द्रव्यकी (Undigestible things)—ऐल्मि, कैल्के।

„ चर्बीकी (Fat)—आर्स, हिपर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम।

„ चाय पीनेकी—ऐस्टिरि, कैल्के, सल्फ, हिपर, हाइड्रो।

„ „ बुकनी चायसे—ऐलूमि।

„ चूनेकी (Lime)—ऐलूमि, केल्के, सिकि, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम।

„ ठण्डी पानीय चीजोंकी (Cold drink)—ऐकोन, ऐल्, ऐड्र्, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, वेल, बोवि, ब्राइयो, कैल्के, कैप्सि, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, काफि, क्रोकस, कूप्रम, कूप्रम-ऐ, डालका, युपे-पर्फ, ग्लोनो, लिडम, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-सल्फ, ओलि, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, रास टक्स, सैबाडि, सल्फ, थूजा, विरे।

„ तम्बाकूकी—टेबे, स्टैफि।

„ तरल खाद्य पदार्थकी—ऐगा, वेल, ब्राइयो, फेरम, मार्क, स्टैफि, सल्फ।

„ रिक्त खाद्यकी—डिजि, नेट्रम-म्यूर।

„ पानीय पीनेकी—ऐकोन, डिजि, नेट्रम-म्यूर।

„ दूधकी—एपिस, आर्स, अरम, ब्राइयो, कैल्के, चेलिडो, ड्ले, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, फास ऐ, रास-टक्स, सैबाडि, साइलि, स्टैफि, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ नमकीन खाद्यकी—ऐलोज, आर्ज-ना, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कोनायम, कोरा-रू, लिसिन, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, सल्फ, विरे।

„ पूरी, कचौरी वगैरहकी— कैल्के, चायना, प्लम्ब।

१५छा, फलसे—ऐलूमि, ऐण्टि-टार्ट, कैल्के, चायना, इग्ने, मैग कार्ब, फास-ए, पल्स, सल्फ-ए, विरे।

„ बरफकी—इले, विरे।

„ बालूकी (Sand)—टैबे।

„ बियरकी (Beer)—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कास्टि, काफि, कोलोसि, कैलि-बाई, लैके, मार्क, नेट्रम फास, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पेट्रो, फिला, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, स्पाइजि, स्ट्रैन्सि, सल्फ।

” ब्राण्डीकी (Brandy)—हिपर, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, मिलि, सिपि, स्पाइजि, स्ट्रैफि, सल्फ-ए, सल्फ।

” मक्खनकी—फेरम, मैग-कार्ब, मार्क।

” मछलीकी—नेट्रम-म्यूर, फास।

” मसालेदार (बहुत ज्यादा) खाद्यकी (Highly seasoned food)—चायना, हिपर, लैक-कै, फास, सैंगु, सल्फ, टैरे।

” मांसकी—फेरम-म्यू, क्रियो, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, सिनि, सल्फ।

” सूअरका—क्रोटे-टी।

” मिट्टी, चूना, खड़िया इत्यादिकी—"चूना" देखिये।

” मिठाईकी (Sweets)—ऐमोन-कार्ब, आर्ज-ना, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग म्यूर, नेट्रम कार्ब, प्रम्य, रियुम, रास-टक्स, सैबाडि, सिके, सिपिया सल्फ।

” मैदाकी—कैल्के, नैके, सैबाडि।

” रसीले पदार्थकी—फास ए, सैबाडि।

” रोटीकी (Bread)—आर्स, ब्रायो, सिना, कोलोसि, फेरम, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम म्यूर, प्रस्फ, पल्स, रूमि।

” ” मक्खनके साथ—फेरम, मैग कार्ब, मार्क।

” लेमोनेडकी—बेल, फिलीका, आर्टि ए, पोटा।

” शराबकी (Wine)—ऐकोन, बेल, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, लिडि ओपे, ग्लो, फास, सिलो, स्पाइजि, सल्फ।

इच्छा, शराब मिली चीजोंकी (Alcohol drinks)—**आर्स, ऐसार**, अरम, **कैप्सि, क्रोट-होर**, हिपर, आइयो, क्रियो, **लैकि**, लाइको, म्यू-ऐ, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, पल्स, मिलि, सिपि, स्याइजि, स्टैफि, **सल्फ**, सल्फ-ऐ।

" शाक सब्जी की (Vegetables)—ऐलूमि, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर।

उगलना भोजन (Regurgitation of food)—अरम-ट्रि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, **चायना, फेरम**, हिपर, कैलि-बाई, लेकै, लाइको, मैग-फास, मार्क, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **फास, फास-ऐ**, पोडो, **पल्स**, रास-टक्स, सल्फ।

" कड़वा—**लाइको**, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ।

" खट्टा (Sour)—डिजि, फेरम, लाइको, फास, पोडो, सल्फ।

" भोजनके बाद—**फेरम**, नेट्रम-म्यूर, फास।

" " के साथ ही—मैग-फास, फास।

उत्कण्ठा (Anxiety)—ऐकोन, आर्ज-ना, **आर्स**, कैल्के, कैना-इं, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कूप्रम, डिजि, फेरम, जेट्रो, कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सिकि, साइलि, स्ट्रैमो।

उत्ताप (Heat, Flushes)—ऐकोन, ऐलू, एपिस, आर्ज-नाइ, **आर्स, ब्राइयो, कैल्के**, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, सिकि, जेल्स, ग्लोनो, फेरम, आर्स, हाइड्रो, **लैक-ऐ**, लैक-कै, लैके, लोबि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स म, **नक्स-वोम**, फास, फाइटो, पोडो, रोबि, सल्फ-ऐ टेरि, थूजा।

" भोजनके बाद—फेरम, सिपि।

" घटना ढकार आनेपर—ऐलू, हाइपे।

" " भोजनके बाद—आर्ज-नाई, फेरम।

ओकाई (Retching)—ऐकोन, इस्कि, ऐसिट-टार्ट, आर्ज-नाइ, आर्निका, आर्स, ऐसार, बेल, ब्राइयो, कैडमि, *कार्बो-वेज*, कैमो, चायना, कूप्रम, डिजि, ड्रोसेरा, **युपे-प**, ग्रेफा हिपर, इग्ने, **इपि**, क्रियो, लेकै, लोबे, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**,

फास्टो, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रैफे, सिके, सिपि, स्टेनम, सल्फ, टैबे, विरे।

थोकाई सवेरे—ऐल्युमि, डिजि, हिपर, क्रियो, नेट्र-कार्ब, नक्स-वोम, सल्फ।
" रातमें—आर्निका, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ।
" उदरामयके साथ—आर्ज-नाइ, क्रोटन-टिग, कुप्रम।
" उपवासकी वजहसे—बार्ब, कैलि कार्ब।
" खखारकर कफ निकालनेमें (Hawking mucus from fauces)—ऐम्ब्रा, ऐना, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, नक्स-वोम, स्टेनम।
" खाँसीके साथ—एपिस, आर्स, बेल, बोरायक, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिमिसिफ, सिना, डैफिन, ड्रोसेरा।
" ठण्डा पानी पीनेसे—ऐगा, इपि, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स।
" दूध पीनेपर—कैल्के।
" निगलनेके समय—ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क-कोर, टैबे।
" भयानक (Violent)—आर्स, ऐसार, ब्रोमि, डिजि।
" भोजनके बाद—फेरम, सिपा।
" उपयम भोजनके बाद—आर्ज-नाइ, फेरम।

कर्कट रोग (Cancer)—ऐसे-ऐ, आर्स, बिस्मथ, कैल्कि, कार्बो ऐ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कार्मिना, कोना, क्रोटे-हौर, ग्राफि, हाइड्रो, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क-कोर, मेज, फास, सिपि, साइलि, स्टेफि, सल्फ।

कलकल शब्द (Gurgling)—आर्निका, आर्स, कुप्रम, हाइड्रो ऐ, जेलि।

कलेजेमें जलन (Heart burn)—ऐब्सि, ऐम्ब्रा, ऐमोन कार्ब, ऐनिम्स क्रू, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्स, बार्य, ब्रायो, बेलडो, बेल्ल, कैल्कि, कार्बो ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, केमिलो, चायना, सिमिसिफ्यू, सिफि, कोना, क्रोकस, फेरम फास, ग्रे ऐ, ग्रैफा, हिपर, आइयो, काइलि-बाई, कैलि कार्ब, लैके, लोबे, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नक्स-वोम, कार्बो पेट्रो, पल्स,

रोबि, सेबाडि, सेबाइना, सिपि, साइलि, सिना-ना, सल्फ, देलि, विरे-वि, जिङ्क।

कलेजेमें जलन, सवेरे—पेट्रो, फास, सल्फ।

" शामको—नेट्रम-म्यूर, आकजे-ए, पेट्रो, सल्फ।

" रातमें—कैलि-बाई, मार्क, रोबि।

" आहारके बाद—इस्कि, ऐमोन-कार्ब, कैल्के, कैल्के-फास, चायना, ग्रेफा, लाइको, आइयो, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम।

" " अण्डा—सल्फ।

" " चर्बी मिले भोजनसे—नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास।

" " माँस—ऐगा, फेरम-फास।

" गर्भावस्थामें—एपिस, कैप्सि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, आकजे-ए, जिङ्क।

" डकार आनेपर—बैरा-कार्ब, कैल्के।

" तम्बाकू खाने बाद—चेलिडो, स्टेफि, टैरे।

" दूध पीनेपर—ऐम्ब्रा, चायना।

" पानी पीनेपर—ऐलूमि।

" शराबियोंका—नक्स-वोम।

खाली मालूम होना, शून्य-बोध (Empty weak feeling, goneness)—
इस्कि, ऐगा, ऐलि-सि, ऐम्ब्रा, **ऐण्टिम-क्रूड**, ऐरानि, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, ऐसाफि, बेरा-कार्ब, बेल, ब्रोमि, ब्यूफो, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्लस, कास्टि, चायना, सिना, काक्कि, कोलोसि, क्रोकास, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, **डिजि**, इलेप्स, गैम्बो, जेल्स, ग्लोनो, हाइड्रो, हाइड्रो-ए, **इग्ने**, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, लेका-कै, लैके, लोबे, मैग-कार्ब, **मार्क**, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, ओपि, ओलि, पेट्रो, **फास**, **पोडो**, पल्स, रास-टक्स, **सिपिया**, स्टैनम, **सल्फ**, **टैबे**, जिङ्क।

" अनिच्छाके साथ खानेकी चीजोंपर—बैरा-कार्ब, चायना, ग्रैटि, हेलि, नक्स वोम, रास-टक्स, सल्फ।

खींचन मालूम होना (Tension)—आर्ज-नाइट्रि, आस, कैम्फि, कार्बो-वे[illegible] चेलिडो, हिपर, इपि, कोलि-कार्ब, लेकि-ऐ, लोबे लाइ[illegible] नक्स-वोम, प्लम्ब, पल्स, रूटा, साइलि स्टैनम, स्टेफि, टेरि

" घटना—दूधसे—रूटा।

" " हिलने डोलनेसे—कैम्फि।

" बढना, घूमने फिरनेसे —काफि, कोनचि।

" " हिलने डोलनेसे—कैम्फि।

गडगड शब्द—"कलकल" देखिये।

गोलमाल (Disorder)—ऐगिट-क्रू ड, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि ब्राइयो, कैम्फि, कार्बो-वेज, कमो, चायना, काफि, हिपर, इपि कोलि-ब्रा, कोलि-कार्ब, लोबे, लाइको, मार्क, मेजि, नेट्र-कार्ब नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नक्स-वोम, फास, पल्स, सार्सा, सिपि विरे।

" चर्बी मिले भोजन से—पल्स, सिपि।

" बिगडी मछली खाकर—लाइको।

" ठण्ड लगकर—ऐगिट-क्रू ड।

" दूध पीनेपर—सिपि।

" फल खाकर—ऐकि-सा।

" भात खाकर—ऐगिट-क्रू ड, कास्टि, सिपिया।

" रोटी खाकर—लाइको, सिपि।

" सर दर्दके साथ—ऐगिट-क्रू ड, इपि, [illegible] नक्स-वोम, पल्स, सैंगु।

गोलेकी तरह मालूम होना (Sensation of ball)—[illegible] सिपि।

घाव (Ulcers)—आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, [illegible] फिरो, मार्क-कोर, [illegible], फास, [illegible], [illegible], सिपि।

[illegible]—"[illegible] वमन" देखिये।

जीवित वृक्ष है ऐसा मालूम होना (Alive sensation)—चेलिडो, कोलोसि, **क्रोकस,** टैरे।

झूल पडने जैसा मालूम होना (Hanging down, relaxed sensation)—आर्ज-नाइ, कोल्के, कोल्के-फास, कार्वो-वेज, **इपि,** लाइको, स्टैफि, सल्फ-ऐ।

ठण्डक मालूम होना (Coldness)—ऐमोन-कार्व, आर्ज-नाइ, आर्स, कैल्के, **कैम्फ, कैप्सि,** कार्वो-ऐनि, कार्वो-वेज, कैस्टो, **चायना,** कोलचि, इग्ने, क्रियो, लैके, लैक्टि-ऐ, नेट्रम-म्यूर, फास, सल्फ-ऐ, टैरे।

" बरफकी तरह—**कैप्सि,** लैक्टि-ऐ।

" भोजनके बाद—कार्वो-ऐनि, सिस्टा।

डकार (Eructation)—ऐकोन, ऐगा, इस्कि, ऐलि-सि, **ऐम्ब्रा,** ऐण्टि क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, **आर्ज-नाइ, आर्नि,** आर्स, **ऐसाफि, ऐसार,** बेरा-कार्ब, **वेल,** बिस्मथ, **ब्राइयो,** कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कार्वो-ऐ, **कार्वो-वेज,** कास्टि, कैमो, चेलिडो, **चायना,** सिमि, **काकि,** कोलचि, **कोनायम,** क्रोकस, कूप्रम, साइक्ला, डायस्को, डालका, युपि-प, फ्लू-ऐ, जेल्स, ग्रैफा, गुया, हिपो, हिपर, इग्ने, इपि, जुग्ला-रि, **कैलि-कार्ब,** केल्मि, लैक-ऐ, लैकडि, लैके, लोरो, **लाइको, मैग-कार्ब,** मैग-म्यूर, **मार्की,** मेजे, म्यू-ऐ, **नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम,** ओक्जा-ऐ, पेट्रो, **फास,** फास-ऐ, प्लम्ब, **सोरि,** पल्स, रैना-बा, रैना-सि, **रास-टक्स,** रूटा, सार्सा, **सिपिया,** साइलि, स्क्वइ, स्टैफि, सल्फ-ऐ, **सल्फ,** टैरे, थूजा, वैले, **विरे,** वार्वा, जिङ्क।

" सवेरे—कोनायम, कैलि-कार्ब, कैलमि, लाइको, **पेट्रो,** पल्स, सल्फ।

" तीसरे पहर—कार्वो-वेज, कास्टि, सिकि, लाइको, नेट्र-कार्ब।

" शामको—ऐलूमि, कास्टि, पल्स, सल्फ।

डकार, रातमें—कार्बो-वेज, क्रोटे-टी, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ उपवासके कालमें—नाइट्रि-ऐसि, नक्स-वोम।

„ ऊँची आवाजके साथ (Loud)—**आर्ज-नाइ,** कार्बो-वेज, सार्की-आ-रू, फास, प्लैटि, पल्स साइलि, सल्फ।

„ ऋतुके पहले—कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स।

„ „ समय—ऐण्टिम-टार्ट, ग्रेफा, लैकि, लाइको, नाइट्रि-ऐ।

„ कष्टकर—**आर्ज-मेट,** कोनायम, ग्रेफा, नक्स-वोम।

„ खट्टी (Sour)—ऐसि-ऐ, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, बैरा-कार्ब, ब्रायो, कैल्के-आ, कैल्के-कार्ब, कैल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-ऐसि, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, **चायना,** सिमिसि, कोना, साइक्ला, डिजि, डायस्को, फेरम, फेरम-म्यू, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, क्राइग्रो, **इग्ने,** आइयो, कैलि-कार्ब, लैक-डिफ्लो, लैके, **लिथि-कार्ब,** लोबे, **लाइको,** **मैग-कार्ब,** नेट्रम-म्यूर, नेट्रम फास, **नेट्रम-सल्फ,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, **फास,** फास-ऐ, पोडो, सोरि, पल्स, **रोबि,** सिपि, साइलि, सल्फ-ऐ, **सल्फ,** जिङ्क।

„ „ सवेरे—कैल्के, पल्स, साइलि।

„ „ दिनमें—नक्स-वोम, **सल्फ।**

„ „ खानेके बाद—ब्रायो, कार्बो वेज, कैमो, चायना, कोना, फेरम, क्राइग्रो, लाइको, **नेट्रम-म्यूर,** फास साइलि, सल्फ।

„ „ चर्बी मिले भोजनके बाद—नाइट्रि ऐ रोबि।

„ „ दूध पीनेके बाद—कैल्के, कार्बो वेज चायना लाइको मैग कार्ब, नक्स वोम, फास, सल्फ।

„ „ फल खाने बाद—चायना।

„ खाँसीके साथ—**ऐम्ब्रा,** ऐगु, आर्स कार्बोनिक ऐसिड।

„ खाये हुए पदार्थका स्वाद मिले (Tasting food)—ऐण्टि-क्रूड, ऐपिस, आर्स, **ब्रायो,** कैल्के, कार्बो वेज कार्बो

ग्रैफा, ग्रैटि, इग्नि, लाइको, नक्स-वोम, फास, **पल्स,** रैना-स्यू, साइलि, सल्फ, थूजा ।

डकार, खाये हुए पदार्थका स्वाद मिली बढना, जलपानसे—एपिस ।

„ गर्म—आर्स, हिपर, लेके, पेट्रो, फास, पोडो ।

„ गुरुपाक भोजनके बाद (After rich food)—ब्राइयो, कार्बो-वेज, पल्स, सिपि ।

„ से घटना (रोगका)—ऐकोन, **ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-नाइ,** अरम, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-वेज, चेलिडो, डिजि, डाय, **ग्रैफा, इग्ने, कैलि-कार्ब,** लैके, **लाइको,** नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, प्लैटि, सैङ्गु, सिपि, साइलि, सल्फ ।

„ घी, मक्खन, चर्बी आदि खाने के बाद—**कार्बो-वेज,** फेरम, **पल्स,** सिपि ।

„ तीता (Bitter)—ऐलो, ऐलूमि, ऐस्व्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, एपिस, **आर्निका,** बार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कैना-से, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, काफि, डाय, फेरम-म्यू, ग्रैटि, इग्ने, मार्क, मार्क-आ-रु, **नक्स-वोम,** फास ऐ, **पोडो, पल्स,** सार्सा, सिपि, सल्फ ।

„ „ भोजनके बाद—ब्राइयो, चायना, **लाइको,** नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, सार्सा, सिपिया, स्टैनम ।

„ दूध पीने बाद—कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, कूप्रम, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, सल्फ, जिङ्क ।

„ नमकीन (Salty)—कार्बो-ऐनि, कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम ।

„ बढना—**कैमो, चायना,** फास, स्टैनम ।

„ बदबूदार (Foul, rancid)—ऐण्टिम-टार्ट, **आर्निका, ऐसाफि,** कैल्के, कार्बो-वेज, काफि, डिजि, फेरम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बाई, नक्स-वोम, प्लम्ब, सोरि, पल्स, सिपि, सल्फ, सल्फ-ऐ ।

„ „ सवेरे—नक्स-वोम ।

„ „ घी की पकी चीजें या गुरुपाक भोजनके बाद—**ऐसाफि,** कास्टि, नेट्रम-म्यूर, पलस ।

डकार, भोजनके समय—नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, ओलि, फास, सार्सा।

„ „ बाद—इस्कि, आर्ज-नाइ, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैम्फ, **कार्बो-वेज,** कास्टि, चायना, फेरम, हिपर, कोलि-कार्ब, लियो, लैके, लाइको, नेट्रम कार्ब, **नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, आकजा-ऐ, फास, पोडो, **पल्स,** रैना-म्यू, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाङ, स्टेनम, **सल्फ,** विरे।

„ मतवालोंका—रैना-बा, सल्फ-ऐ।

„ मिचलीके साथ—कैल्के, कास्टि, साइक्ला, लाइको, मेग-म्यूर, मेग-सल्फ, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, सल्फ।

„ मिचली पैदा करनेवाला (Nauseous)—कार्बो-वेज, चायना, ग्रैफा, **पल्स,** सिपि।

„ मीठा (Sweetish)—प्लम्ब, सल्फ-ऐ।

„ यन्त्रणादायक (Painful)—ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, **केमो,** नक्स-वोम, पेरि, फास।

„ लगातार आते रहना—कोनायम, क्रूसम, सार्सा, सल्फ।

„ वायु (बहुत) होनेके साथ (Wind large quantities)—**आर्ज-नाइट्रि,** कार्बो-वेज, हिपर, लाइको, फास।

„ सड़ी (Putrid)—ऐमि-ऐ, आर्निका, नक्स-वोम, सोरि, पल्स, सल्फ।

„ „ अण्डेकी गन्ध मिली—ऐगा, **आर्निका,** फास, पोडो, सोरि, सिपिया, सल्फ।

„ „ „ सवेरे—आर्निका, मेग-स, सल्फ।

„ शून्य (खाली डकार—Empty)—एकि, एगु, **ऐगा,** एम्ब्रा, **ऐसिट-क्रूड,** ऐण्टिम टार्ट, **आर्जं-नाई, आर्निका, आर्स,** ऐसाफि, ऐसार, बार्य, **बिस्मथ,** ब्रायो, कैल्केरि, **कैना-कै,** कार्बो-ऐ, कार्बो ऐनि, **कार्बो-वेज,** कैप्सि, कास्टि, कैमो, कैम्फो, चायना, काफि, **कोलोसि,** ऐके, डायस्को, ग्रैफा, गुइ, **आइयो, इपि,** काइलि कार्ब, कैलि, लिथो, लैके, **लाइको,** [illegible] मेजि, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि ऐ, फास, प्लम्ब, **पल्स, सल्फ,** वेरे विरि।

डकार शून्य, भोजनके बाद—ऐकोन, कैम्फ, नेट्रम-म्यूर, आक्जा-ऐ, फास, प्लैटि, रैना सि, सिपि, सल्फ।

ढेलेकी तरह मालूम होना (Sensation of lumps)—ऐगा, ब्राइयो, हिपर, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लोबे, नक्स-मस, नक्स-वोम, सैनि।

दर्द—(Pain in general)—ऐब्रो, ऐसि-ऐ, ऐकोन, इस्कि, इथू, ऐसिल-नाइ, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **आर्जेण्ट-नाइ**, आर्निका, **आर्स**, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, बैरा-म्यू, **बेल**, बेन्जो-ऐ, बिस्मथ, ब्रोमि, **ब्राइयो**, केल्के, कैम्फ, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कार्डु-मे, कास्टि, कैमो, **चेलिडो**, चायना, चिनि-सल्फ, काक्कि, कोलचि, **कोलोसि**, कोना, कर्णा, क्रोटे-होर, कूप्रम, **कूप्रम-ऐ**, कूप्रम-आर्स, डिजि, डाय, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, ग्रैटि, हाइड्रो, हाइयो, इग्ने, आइरि-वा, आइयो, इपि, कैलि-बाइ कैलि-कार्ब, कैलमि, क्रियो, लैके, लोरो, लोबे, **लाइको**, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मैग-फास, मैन्सि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, फास, फाइटो, टिलि-ट्राइ, **पल्स**, सैङ्गु, सिकि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, **स्टैनम**, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, **टैबे**, टेरि, विरे, जिङ्क।

„ सबेरे—कास्टि, चायना, कैलि-कार्ब, लाइको, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, सल्फ।

„ सन्ध्यामें—कार्बो-वेज, पल्स, सल्फ-ऐ।

„ रातमें—ऐब्रो, आर्जेण्ट-नाइ, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, सल्फ।

„ आइसक्रीम खाकर—आर्जेण्ट-नाइ, **आर्स**, केल्के-फास।

„ उपवासकी वजहसे—केल्के, काक्कि, इग्ने, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो।

„ ऋतुके समय—बोरेक्स, कैमो, काक्कि, ग्रैफा, नक्स-वोम, पल्स, सार्सा, सल्फ।

„ घटना इकारसे—ऐम्ब्रा।

दर्द, खाँसीकी वजहसे उत्पन्न—आर्निका, आर्स, ब्राइयो, कैम्फ, चायना, हायस्को, हैलि, इपि, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सेबाडि, सिपि, स्टैनम।

„ घीमें पकी चीजें खाकर—आर्स, पल्स।

„ घूमनेके समय—बेल, ब्राइयो, फास, फाइटो।

„ टीका लगाने बाद—थूजा।

„ ठण्डी पानीय पीकर—ऐकोन, आर्स, कैल्के, कास्टि, ग्रैफा, आइरि-वा, लाइको, नक्स वोम, रास-टक्स।

„ डकारके साथ—कैलि-क्रो, लैके, रास-टक्स।

„ दूध पीनेपर—आर्स, फेरम, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, सल्फ।

„ पीने बाद—(१) एपि, ऐपो, कोलोसि, लैक-ये, नेट्र-म्यू, नक्स वोम, सल्फ। (२) ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, लैके, कैफि, कोकस, क्रोटन-टिग, डिजि, मेग-म्यू, मैग-स, मेडो, मेफा, मार्क, नेट्र-म्यू, पल्स, सिकि, स्टैनम, सल्फ।

„ भयानक—ऐकोन, आर्निका, आर्स, ब्रैन, कूमम, कूमम-ए, कोलोसि, ब्राइयो, इपि, आइरि-वा, लैक-डि, नक्स वोम, प्लम्ब, पोडो, विरे।

„ भोजनके बाद—ऐबिस-ना, ऐगा, ऐमोन कार्ब, ऐना, ऐण्टि क्रू, आर्जे-नाइ, आर्स, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, बेल, बिस्मथ, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-फास, कैपि, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना सिना कोलोसि, सायक्ला, युपे-प हिपर, हाइड्रो, आइरिस, केलि बा, कैलि-कार्ब, लैका-कै, लैके, लिडम, लाइको, मैग म्यू, मार्क, नेट्र-कार्ब, नक्स म, नक्स-वोम, फास फास ए, प्लैटि, प्लम्ब पल्स, टैबि, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ एक घण्टा बाद—कार्बो वेज।

„ „ दो तीन घण्टे बाद—ऐना।

„ मानसिक विकार, हर्ष विषाद आदि कारणोंसे—कैमो, कोलोसि, नक्स वोम स्टैफि।

„ रोटी खानेपर—ऐण्टि क्रू, फास, पल्स।

दर्द, शराबियोंका—कैल्के, कार्बो-वेज, लैकै, नक्स-वोम, सल्फ ।

„ श्वास-प्रश्वास छोड़नेपर—आर्स, लाइको, पल्स ।

„ हिलने डोलनेपर—ब्राइयो, कास्टि ।

„ अकड़न, टनक दबानेसे दर्द (Sorenss, Tenderness, Sensitiveness, Bruised)—ऐकोन, ऐगा, एपि, **आर्निका, आर्स,** बैरा-कार्ब, **बेल, ब्राइयो,** कैल्के, कैल्के फास, कैम्फ, केप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज,** कास्टि, चेलिडो, **चायना,** चिनि-सल्फ, काकि, **कोलचि,** कोलोसि, कोना, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, कूप्रम, डायस्को, युपे-प, फेरम, फेरम-आयोड, गैम्बो, ग्लोनो, गुये, हिपर, हाइयो, आइयो, इपि, कैलि-बाई, **कैलि-कार्ब,** कैलि, **लैकै, लाइको,** मैग-म्यूर, मैन्सि, मार्क, मार्क-कर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नक्स-वोम,** पेट्रो, **फास,** फास-ऐ, फाइटो, पल्स, रैफे, रूटा, सैबाडि, सैङ्ग, सिके, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ, विरे, जिङ्क ।

„ „ खानेके बाद—कैल्के-फास, काकि, क्रोटे-होर, सैङ्ग ।

„ „ खाँसनेके समय—आर्स, बेल, ब्राइयो, **ड्रोसे,** इपि, **नक्स-वोम,** फास, साइलि, स्टैनम ।

„ „ घूमनेपर—ऐलो, बैरा-कार्ब, बेल, कैल्के, फास ।

„ „ **घटना**—हिलने डोलनेपर—फैगो ।

„ „ **बढ़ना**—कपड़े पहननेपर—ब्राइयो, कैल्के, कोलोसि, क्रोटे-होर, हिपर, **लैशे, लाइको,** नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** फास-ऐ ।

दर्द, ऐंठन, मरोड़, खींचन (Cramping, Griping, Constricting)—इथू, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, आर्ज-ना, आर्निका, **आर्स,** अरम-म्यू, बैरा कार्ब, बेल, **बिस्मथ,** ब्राइयो, कोडमि, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कौलोफा, **कास्टि,** कैमो, **चेलिडो,** चायना, काकि, कोलचि, **कोलोसि,** कोना, **कूप्रम,** डायस्को, ड्रोसे, युफ्रे, फेरम, जेलस, **ग्रैफा,** हेलोनि, हाइयो, आइरि-वा,

इग्ने, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, केलमि, लैक-कै, लोबे, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-फास, नेट्र-कार्ब, नेट्र म्यू, नक्स-वोम, ओपि, स्टैफि, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रैटा, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ, विरे।

दर्द, ऐंठन, सवेरे—नक्स-वोम, पल्स, रैटा।
" " मध्यान्हमें—ऐना।
" " तीसरे पहर अपरान्हमें—केल्के, कैल्कि-स, पैरि।
" " सन्ध्यामें—कोलोसि, डालका, मार्क, थूजा।
" " रातमें—कैल्के, कैम्फ, कोलोसि, केलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, सल्फ।
" " ऋतुके पहले—बेल, कूप्रम, लैके, पल्स, सिपि।
" " " समय—कूप्रम, सार्सा।
" " " बाद—बेल, बोरेक्स।
" " पुराना—बेल, चायना, स्टैनम।
" " पेट फूलनेके साथ—कार्बो-वेज।
" " भोजनके पहले—लाइको।
" " " बाद—कैल्के, काफि, कोलोसि, क्रोटे, फेरम, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोमिका, पल्स, सल्फ।
" " मिचलीके साथ—ऐपिका, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, टैबे।
" " घटना खानेके बाद—ब्रोमि, चेलिडो, ऐपिका, इग्ने।
" " " गर्मसे—मैग-फास, नक्स वोम।
" " " गेडुरी मारकर सोनेसे—कोलोसि, लाइको विरे ति।
" " " डकारसे—बैरा-कार्ब, कैम्फ, कालोसि, पैरि, सिपि।
" " " दबानेसे—लाइको, नेट्रम-म्यूर।
" " " सीधे खड़े होनेपर—लाइको, सिपिम।
" " " " बैठनेपर—पल्स।
" " " सोनेपर—ऐपिका, लाइको, साइलि।
" काटता है, मानो (Cutting) छुरीसे—ऐसि फास्फ, ... कैड्रम, कैन्थ, कैमो, कोलोसि, डायोस्को, लाइको ...

कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास, फाइटो, साइलि, सल्फ।

दर्द, काटता है, रह रहकर (Paroxysmal)—ऐगिट्र-क्रूड, ऐसाफि, कैलि-कार्ब, फास।

" " घटना डकारसे—ऐम्ब्रा।

" " " गेडुरी मारकर सोनेपर, पेटपर दबाव पड़नेपर (Doubled)— **कोलोसि।**

" " " वायु छूटनेपर (Emission of flatus)—ऐसार।

" खरोंचनेकी तरह, जकड़ रखने जैसा (Clawing)—कार्बो-ऐनि, **कास्टि,** काफि, ग्रैफा, नेट्र-म्यू, **नक्स वोम,** पल्स, स्टैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ।

" खीचनेकी तरह (Drawing)—ऐना, आर्जेण्ट-नाई, कैन्थ, कैमो, चेलिडो, कूप्रम, डिजि, हिपर, इग्ने, केलि-कार्ब, लैके, लाइको, मार्क, फास, पल्स, स्ट्रैमो।

" चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching)—आर्नि, **कास्टि,** काकि, कोलोसि, नक्स-वोम।

" चिथानेकी तरह (Gnawing)—आर्ज-ना, आर्स, कैल्के, **सिना,** कूप्रम, गैम्बो, ग्लोनो, केलि-बा, क्रियो, लैके, लाइको, मैग-कार्ब मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रूटा, **सिपि,** सल्फ।

" " भोजनके पहले—ग्रैफा, ह्योडो, सेने।

" " " बाद—ग्रेटि, कैलि-बा।

दर्द, जलन (Burning)—ऐकोन, इस्कि, ऐन्थ्रा, एपि, **आर्स,** बेल, बार्ब, बिस्मथ, ब्राइयो, कैडमि, कैलेडि, कैल्के-फास, कैम्फ, **कैप्सि,** कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, **सिकि, कोलचि,** कोलोसि, कोना, कैमो, क्रोटे, कूप्रम, कूप्र-आर्स, डिजि, डायस्को डाल्का, इरिजि, फार्मि, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, आइरि-वार्स, जेट्रो, केलि कार्ब, कैलि-आयोड, कैलि-ना, क्रियो, लोरो, लोबे, मार्क, मार्क-कोर, मेजि, मिलि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ,

नक्स-वोम, आकजा-ऐ, फास, रैना-बा, रैना-स्क्यू, सेनाडि, सेवाड्ना, सैंगु, सिपी, सिपि, साइलि, सल्फ, टेरि, जिङ्क।

दर्द, जलन, सवेरे—डायस्को, कैलि कार्ब, नेट्र-स, सल्फ।

„ „ उपवाससे—ग्रैफा, जिङ्क।

„ „ ज्वरकी अवस्थामें—लैके।

„ „ डकारके बाद—कैल्के-फास, सोले-ना।

„ „ डरकी वजहसे—ऐकोन।

„ „ निर्दिष्ट एक ही स्थानमें (Circumscribed)—जिम्नो।

„ „ भोजनके बाद—आर्स, कैमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, डैफ, कैलि-कार्ब, लैके।

„ „ „ कई घण्टे बाद—ऐगा, नेट्रम-म्यूर।

„ „ शराबियोंका—सल्फ-ऐ।

„ „ सर-दर्दके साथ—सैङ्गु।

„ „ हिलने डोलनेपर—ब्राइयो, थूजा।

„ „ फैलता है, ऊपरकी तरफ—आर्ज-ना, फैल्के, मिकि, सल्फ, विरे।

„ „ „ गलेतक—ऐना, आर्स, हिपर, कैलि-कार्ब, लैक-ऐ, लाइको, नेट्रम-म्यूर, फास।

„ „ घटना—खानेके बाद—पैफा, मेजि, नेट्र-म।

„ „ „ पानी पीनेपर—मार्क-कोर।

„ „ „ नहीं घटता है, पानी पीनेसे—कैनेडि।

„ „ „ वमनसे—पार्स, टैरे।

„ „ बढना दबानेसे—कैलि-फार्च, कैलि-ना, फास, जिंक।

दर्द, दबानेकी तरह (Pressing)—ऐकोन, ऐगा, ऐम्नि मे ऐन्या, ऐमोन-कार्ब, ऐना, ऐण्टिम टार्ट, [illegible], आर्स, ऐसाफि, [illegible], बेरा-कार्ब, बेल, बिस्मो-ए, [illegible], ब्राइयो, कैल्के, कार्बो एनि, कार्बो वेज, काड्ड-मे, [illegible], कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, [illegible], कोलचि, कोलोसि, कोना, कुप्रम, कुप्रम-ए, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], पैफा [illegible], हिपर [illegible], [illegible], कैलि-कार्ब, कैलि ना, [illegible], [illegible], लैक ऐ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]

कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास, पाइटो, साइलि, सल्फ।

दर्द, काटता है, रह रहकर (Paroxysmal)—ऐसिट-क्रूड, ऐसाफि, कैलि-कार्ब, फास।

" " घटना डकारसे—ऐम्ब्रा।

" " " गेंडुरी मारकर सोनेपर, पेटपर दबाव पड़नेपर (Doubled)—**कोलोसि।**

" " " वायु छूटनेपर (Emission of flatus)—ऐसार।

" खरोचनेकी तरह, जकड़ रखने जैसा (Clawing)—कार्बो-ऐनि, **कास्टि,** काफि, ग्रैफा, नेट्र-म्यू, **नक्स वोम,** पल्स, स्टैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ।

" खींचनेकी तरह (Drawing)—ऐना, आर्जेण्ट-नाई, कैन्थ, कैमो, चेलिडो, कूप्रम, डिजि, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मार्क, फास, पल्स, स्ट्रैमो।

" चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching)—आर्नि, **कास्टि,** काकि, कोलोसि, नक्स-वोम।

" चिन्नानेकी तरह (Gnawing)—आर्ज-ना, आर्स, कैल्के, **सिना,** कूप्रम, गैम्बो, ग्लोनो, कैलि-बा, क्रियो, लैके, लाइको, मैग-कार्ब मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रूटा, **सिपि,** सल्फ।

" " भोजनके पहले—ग्रैफा, ह्योडो, सेने।

" " " बाद—ग्रेटि, कैलि-बा।

दर्द, जलन (Burning)—ऐकोन, इस्कि, ऐन्थ्रा, एपि, **आर्स,** बेल, बार्ब, बिस्मथ, ब्राइयो, कैडमि, कैलेडि, कल्के-फास, कैम्फ, **कैप्सि,** कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, **सिक्कि, कोलचि,** कोलोसि, कोना, कैमो, क्रोटे, कूप्रम, कूप्र-आर्स, डिजि, डायस्को डालका, इरिजि, फार्मि, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, आइरिवार्स जैट्रो, कैलि कार्ब, कैलि-आयोड, कैलि-ना, क्रियो, लोरो, लोबे, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, सिलि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ

दर्द, मोच खानेकी तरह (Twisting)—ऐलूमि, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, चायना, कोक्कि, लाइको, नक्स मस, नक्स-वोम, फास, म्रन्, सार्सा, सल्फ, जिङ्क।

„ सुई बेधनेकी तरह, सुई गडा रहा है (Stitching)—ऐकोन, बेल, बार्व, बिस्मथ, ब्राइयो कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, गैम्बो, ड्रम्ने, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, टेरि।

„ घटना-उत्तापसे—ब्राइयो, कास्टि, मैग-फास, नक्स-वोम, साइलि।

„ „ खानेपर—ऐगा, ऐना, ब्रोमि, कैमो, चेलिडो, चायना, ग्रैफा, कैलि, लैके, मेडो, नेट्रम-कार्ब, पेट्रो, विरे।

„ „ गर्म पानीय द्रव्य पीनेपर—ऐलूमि, आर्स, ब्राइयो, नक्स-मस, **नक्स-वोम,** रास-टक्स, सल्फ, विरे।

„ „ „ दूध पीने पर—ग्रैफा।

„ „ गेंडुरी मारकर सोनेपर (Bending double)—कैमो, कोलचि, कोलोसि, लैके, टिलि-ट्रि।

„ „ घसने, रगडनेपर—लाइको।

„ „ घूमने फिरनेपर—वोरैक्स, कोवि, फोपि।

„ „ ठण्डे पानीय पीनेपर (Cold drinks)—ऐलूमि, आर्जेण्ट-नाइ, कैल्के, सल्फ, **फास,** पल्स।

„ „ „ खाद्यसे—फास।

„ „ डकारसे—ऐलो, ब्राइयो, कल्के-फास, चेलिडो, चायना, सिनि-सल्फ, सिमि, डिजि, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, लाइको, ड्रस, सिपि।

„ „ दबानेपर—मैग-फास, मिर्र, स्ट्रैमम।

„ „ वायु निकलनेपर (Passing flatus)—चेलिडो, हिपि मेंगिट-ऐ।

„ „ विश्रामसे—बेल, ब्राइयो कैल्के फास कोलचि, कैमो।

„ „ सोनेपर—ऐमोन कार्ब, बेल काष्टि, चायना, मेर्क, स्ट्रैमम।

मेफा, मेजि, मस्क, माड, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, ओस्मि, पेट्रो, **फास**, प्लाटि, प्लम्ब, **पल्स**, रैना-मि, रोडो, रोबि, सैङ्ग, सेने, सिनि, सिपि, साइलि, स्पिजि, स्कुई, स्टेनम, स्ट्रान्सि, सल्फ-ऐ, सल्फ, वेले, विरे।

दर्द दबानेकी तरह, सवेरे—चायना, नेट्र-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

" " रातमें—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, सल्फ।

" " ऋतुके पहले—नक्स-म।

" " " समय—ऐमोन कार्ब, केप्सि, कास्टि, **सल्फ**, थूजा।

" " घीकी पकी चीजें खाकर—पल्स।

" " दूध पीनेपर—फीरम।

" " भारसे दबा हुआ सा मालूम होना (As from weight)—ऐकोन, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कैमो, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, स्पाई।

" " भोजनके बाद—ऐसाफि, बेल, बिस्मथ, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-वेज, **चायना**, चिनि-स, सिना, फीरम, हिपर, कैलि-बा, **लैकै**, लोबे, **लाइकों**, लिसिन, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " रोटी खानेपर—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कास्टि, कैम्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्कि।

" " खटना खानेपर—ऐना, चायना, हिपर, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, विरे।

" " " डकार आनेपर—ऐलो, ब्राइयो, कार्बो-वेज, ग्रैफा, हिपर, फास।

" " " बैठनेपर-सीधे होकर—कैल्मि।

" " " हिलने डोलनेसे—नेट्र-कार्ब।

" " बढना, दबानेसे—ऐगा, ब्रोमि, कैल्के, चेलि, मेजे, नाइट्रि-ऐ।

" " " हिलने डोलनेपर—**ब्राइयो**, कैल्के, फास-ऐ, रास-टक्स।

दर्द, फाड डालनेकी तरह—आर्स, काकि, कोलचि, कोलोसि, क्यूप्रम, डेफा, लाइको, नक्स-वोम।

प्यास (Thirst)—ऐसि-ऐ, ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, बैप्टी, बेरा-कार्ब, बेरा-म्यू, बार्ब, ब्राइयो, कौल्की, कैल्के-आर्स, कैल्के-स, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कैमो, चेलिडो, चायना, सिनि स, सिकि, सिमि, सिना, कानु, कोलचि, कोलोसि, कोना, क्युप्रम, क्युप्रम-ऐ, डिजि, ड्रोसे, डलैम, युपे-पार्फ, फ्लू-ऐ, हेलि, हाइयो, आइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, लोरो, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, आक्जे-ऐ, फास, प्रम्ब, पोडो, रैना-बा, रैफि-ऐ, रैटा, रास-टक्स, सैंगु, सिकी, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि, थूजा, विरे, जिङ्क।

" सवेरे—ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, स्ट्रैमो, सल्फ।

" दोपहरमें—लाइको, नेट्र-कार्ब, फास।

" तीसरे पहर—कैल्के, नेट्र-कार्ब, रैना-बा, जिङ्क।

" शामको—ऐलि-सि, क्रोक, लाइको, थैम्पो, आइयो, मैग म्यू, नेट्रम-म्यूर, नेट्र स, निक्रो, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

प्यास-रातमें—ऐकोन, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, युपे-पर्फ, हिपर, मैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, फास, रास-टक्स, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, थूजा।

" अत्यन्त (Extreme)—ऐसि-ऐ, ऐकोन, इग्नि, ऐलि सि, ऐमोन-म्यू, ऐनाका, ऐण्टि क्रूड, ऐण्टि टार्ट, एपि आर्ज-नाइ, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन टिग क्युप्रम, क्युप्रम-आर्स, डल्का, डिजि, डल्क ड्रोसे, युपे प युपे-पर्फि, फेरम, हेलि, हिपर आइयो कलि आर्स कार्ब, कैलि-आयोड, क्रियो, मेज ऐ, लौरो मिडम, लाइको लिथियम मैग-कार्ब, मैग म्यू, मार्क-कोर, मार्क, नेट्र कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम ओपि पेट्रो, फास, फास ऐ,

दर्द, घटना, सोनेपर, चित्त होकर—लाइको।
" " " पैर सिकोड़कर—चेलिडो।
" " हवामें खुली—नेजा।
" ग्रठना दबानेसे—ऐगा, आर्निका, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कैष्ट, चेलिडो डिजि, लिडम, मैंग-म्यूर, मेजी, नाइट्रि-ऐ, ओपि, फास।
" " साँस लेने छोड़नेमें—गम्भीर भावसे—आर्जेण्ट-नाइ, ऐसार ब्राइयो, इग्ने, नेट्रम-म्यूर, ओपि, पल्स।
" " पीने बाद—साइलि।

पत्थर मालूम होना (Sensation of stone)—ऐकोन, बैरा-कार्ब, **ब्राइयो** कैल्के, कैमो, कैलि-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स रास-टक्स।
" खाने बाद—**ब्राइयो**, रास-टक्स, साइलि।
" घटना-डकारसे—बैरा-कार्ब।

प्रदाह (Inflammation)—एकोन, इथू, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट** एपिस, आर्जे-ना, **आर्स**, बैरा-म्यू, **बेल**, बिसमथ, ब्राइयो कैम्फ, कैष्ट, काकि, डिजि, ड्रपि, **लाइको**, **नक्स-वोम** प्लम्ब, सैङ्गु, सिके, टेरि, विरे-वि।

पानी भर आना (Water brash)—ऐलू, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्स, **बैरा-कार्ब**, बिसथ, **ब्राइयो** **कैल्के**, कैल्के-फास, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि चायना, सिकि, सिना, काकि, डेफि, ड्रोसे, ग्रैफा, हिपर, इग्ने ड्रपि, कैलि-कार्ब, लिडम, **लाइको**, मैग-म्यू, मार्क, **मेजी**, नेट्र कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, पैरि, पेट्रे फास, **पल्स**, रैना-ब, रोडो, **सैङ्गु**, सिपि, **साइलि**, **सल्फ** **स्टैफि**, **विरे**।
" खानेके बाद—ब्राइयो, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, सल्फ।
" गर्भावस्थामें—लेक-ऐ, नेट्र-म्यू, नक्स म, टैबे।
" पुराना—साइलि।

इग्ने, केलि-कार्ब, लेके, नेट्रम-म्यू र, नक्स-वोम, फोपि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे।

प्यास, शीतावस्थामें, शीतके बाद—आर्स, चायना, सिमेक्स, ड्रोसे, नेट्रम-म्यू र, सैबाडि।

" " " अथच पानी नहीं पी सकता है, माथेका दर्द बढ़ता है—साइमेक्स।

" सर-दर्दके साथ—इथू, लेक-डि, मैग-म्यू, नेट्र-म्यू र, टेरि, विरे।

प्यास न रहना (पिपासा हीनता-Thirstlessness)—इस्कि, ऐग्न, ऐमोन-म्यू, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जेना, आर्स, ऐसाफि, वेल, बोवि, कैम्फ, चायना, कोना, फेरम, जेल्स, हेलि, इपि, केलि-कार्ब, लाइको, मिनि, नक्स-म, नक्स-वोम, फोलि, फोपि, पल्स, सैबाडि, सेम्बु, सिपि।

" उत्तापावस्थामें—ऐलुमि, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, कैल्के, कोफि, कार्बो-वेज, कास्टि, ड्रोसे, फेरम, इग्ने, लिडम, पल्स, रास-टक्स, सिपिया।

फूलना-पेट फूलना (Distention)—आर्ज-नाइ, ऐसाफि, बेल, बोरेक्स, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-आ, कैल्के-म, कैमो, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-स, सिकि, कालि, कोलचि, कोना, क्रोक, डिजि, डल्का, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हिपर, इग्ने, केलि-कार्ब, मेगे, लाइको, मैग्नि, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यू र, नेट्र म, नेट्र-सस, नक्स-वोम, फास, पल्स, रैटा, स्ट्रैमो, सल्फ।

" खानेके बाद—ऐग्न्या, ऐना-कार्ड, ऐपोसा, आर्जे-नाइ, योरा, आरनी, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, कोलचि, कोपि, हिपर, मेके, लाइको, नेट्र-म, नक्स म, नक्स वोम, फास, पल्स, रोनि, स्ट्रैमन।

" " दूध पीनेपर—कार्बो।

" थोड़ा खानेके बाद—सिङ्को रैटा।

" " सकालमें—आर्स ना, कार्बो-वेज, मेग-कार्ब सेपिया।

पोडो, रास-टक्स, **रोबि**, सैंगु, सिपि, **साङ्गलि**, स्पञ्जिया, स्ट्रैमो, सल्फ-एं, **सल्फ**, टेरि, **विरे**, जिङ्क ।

प्यास, अदम्य (Unquenchable)—ऐसि-ए, ऐकोन, एपिस, **आर्स**, वेरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कौल्को, कैम्फ, डालका, फेरम, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, फास, रास-टक्स, सल्फ, विरे ।

" अधिक परिमाणमें पानी पीता है—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, चायना, काकि, युपे-प, फेरम-फास, लैक-डि, लाइको, मार्क-कोर, **नेट्रम-म्यूर, फास, सल्फ, विरे** ।

" " बहुत देर ठहर ठहरकर—**ब्राइयो** ।

" " बार बार—**ब्राइयो**, लैक-कै, नेट्रम-म्यूर ।

" थोडा परिमाणमें (पानी पीता है)—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, चायना, हेलि, लैके, फास, रास-टक्स ।

" " " बार बार—ऐण्टिम-टार्ट, ऐकोन, एपिस, **आर्स**, बेल, चायना, कोलोसि, कोलो, युपे-पर्फ, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, विरे ।

" उत्तापावस्थामें—**ऐकोन, आर्स, बेल, ब्राइयो**, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कैमो, चायना, सिना, काकि, कोलोसि, कोना, क्रोकास, इला-टे, **युपे-प**, जेल्स, हिपर, हाइयो, इपि, कैलि-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम**, फास, पोडो, सोरि, पल्स, रैना-सि, रास-टक्स, सिके, साङ्गलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा ।

" पसीनेवाली अवस्थामें—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, **चायना**, चिनि-स, काकि, युपे-प, आइयो, इपि, **नेट्रम-म्यूर**, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्ट्रैमो, थूजा, विरे ।

" " के बाद—ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, बेल, **लाइको**, नक्स-वोम ।

" वमनके पहले—युपे-प ।

" शीतके पहले—कैप्सि, **युपे-प**, हिपर, नक्स-वोम, पल्स ।

" शीतावस्थामें—ऐकोन, **एपिस**, आर्निका, आर्स, ब्राइयो, **कैप्सि**, कार्बो-वेज, **कैमो**, चिनि-स, **सिना, युपे-प**, युपे-पार्फ, फेरम,

ब्रूने, केलि-कार्ब, लेके, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फोपि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे।

प्यास, शीतावस्थामें, शीतके बाद—आर्स, चायना, सिमेक्स, ड्रोसे, नेट्रम-म्यूर, सैबाडि।

" " " अथच पानी नहीं पी सकता है, माथेका दर्द बढता है—साइमेक्स।

" सर-दर्दके साथ—ब्रयू, लेका-डि, मैग-म्यू, नेट्र-म्यूर, टेरि, विरे।

प्यास न रहना (पिपासा हीनता-Thirstlessness)—इस्कि, ऐग्न, ऐमोन-म्यू, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जेना, आर्स, ऐसाफि, वेल, बोवि, कैम्फ, चायना, कोना, फेरम, जेल्स, हेलि, इपि, केलि-कार्ब, लाइको, मिनि, नक्स-म, नक्स-वोम, फोलि, फोपि, पल्स, सैबाडि, सेम्बु सिपि।

" उत्तापावस्थामें—ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, कैल्के, कोफि, कार्बो-वेज, कास्टि, ड्रोसे, फेरम, इग्ने, लिडम, पल्स, रास-टक्स, सिपिया।

फूलना-पेट फूलना (Distention)—आर्ज-नाइ, ऐसाफि, बेल, बोरेक्स, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-आ, कैल्के-म, कैमो, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-स, सिकि, काकि, कौलचि, कोना, क्रोक, डिजि, डाल्का, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हिपर, इग्ने, केलि-कार्ब, मेजे, लाइको, मैग्नि, मार्क कोर, नेट्रम म्यूर, नेट्र-स, नेट्र-सस, नक्स-वोम, फास, पल्स, रेटा, रूमे, सल्फ।

" खानेके बाद—ऐब्रा, ऐना-कार्ड, ऐपोसा, आर्ज नाइ, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि चायना, कोलचि, कोपे, हिपर, मेके, लाइको, नेट्र-म नक्स म, नक्स वोम, फास, पल्स, कोनि, स्ट्रेनम।

" " दूध पीनेपर—कोना।

" घटना खानेके बाद—मिलि रेटा।

" " डकारसे—आर्ज ना, कार्बो-वेज, लिन कार्ब मेज-म।

फूलना-पेट, नहीं घटता-डकारसे—**चायना,** इग्नि, लाइको।

" " मलत्यागनेके बाद—कार्बो।

फूला (Distended)—"पेट फूलना" देखिये।

बीमारी, पाकस्थलीकी (साधारण)—

" " अण्डेसे—चिनि-आर्स, कोलचि, विरे।

" " आलूसे—ऐलू, सिपिया, विरे।

" " कोबीसे—ब्राइयो, कार्बो-वेज, कैलि-कार्ब, पेट्रो।

" " काफी पीने पर—नक्स-वोम, कार्बो-वेज, लाइको।

" " घी की बनी गुरुपाक चीजें खानेपर—(१) साइक्ला, फेरम, पल्स। (२) ऐण्टिम-क्रूड, कोलचि, मैग-म्यू, नेट्रम-म्यूर, थूजा।

" " दूधसे—(१) **नाइट्रि-ऐ,** ब्राइयो, कैल्के, चायना, आइरि-वार्स, लाइको, नेट्र-कार्ब, सिपि, सल्फ। (२) इथू, आर्स, कैलि-कार्ब, मैग-म्यू।

" " फलसे—आर्स, ब्राइयो, कास्टि, चायना, रूमेक्स, पल्स, विरे।

" " मक्खनसे—**कार्बो-वेज,** कार्बो-ऐनि, कैलि-कार्ब, पेट्रो।

" " मछलीसे—कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चिनि-आर्स।

" " मांससे—(१) ब्राइयो, चायना, पल्स। (२) आर्स, कार्बो-वेज, मैग-म्यू, नेट्रम-म्यूर, सिपि, साइलि, विरे।

" " मिठाईसे—ऐण्टि-क्रूड, लाइको, पल्स।

" " मीठेसे (गुड़, चीनी इत्यादि)—(१) आर्ज-नाई, इग्ने, (२) लाइको, सल्फ, जिङ्क।

" " रोटीसे—(१) **कास्टि,** हाइड्रो, मार्क, सिपि, नेट्रम-म्यूर। (२) ऐण्टि-क्रूड, लाइको, नाइट्रि-ऐसि, पल्स।

बैठ जाना (Sinking)—ऐकोन, बैप्टी, क्रोटन-टिग, **डिजि,** हाइड्रो, नक्स-वोम, फास, सल्फ, **टैबे,** विरे।

भरा मालूम होना ठसमठस मालूम होना (Sensation of fullness)—ऐण्टिम-क्रूड, आर्ज-नाइ, आर्निका, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, बोवि,

ब्रायो, कोल्के, कोस्कों फास, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, कोलोसि, कोना, साइक्ला, फेरम, फ्लु ऐ, ग्रेफा, ग्रैटि, ईग्नि, हाइड्रो, इग्ने, कोलि-कार्ब, क्रियो, लोबे, लाइको, मैन्सि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्रुन-स्पा, पल्स, रियुम।

भरा मालूम होना, खानेके बाद—ऐसिड-फ्लूड, आर्स, कार्बो-वेज, चायना, कोल्चि, इपि, फेरम, हाइड्रो, कोलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

" " थोड़ा भी—कार्बो-ऐनि, चायना, डिजि, फेरम, कोलि-कार्ब, लाइको, मेजो, नेट्रम-म्यूर, टिलि-ट्रि, सल्फ।

" घटना—डकार—कार्बो-वेज, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास।

" " नींदसे—फास।

" " घूमनेपर, खुली हवामें—सल्फ।

भरा मालूम होना (Heaviness)—ऐसिड-टार्ट, एथि, ऐमो, ऐनिका, आर्जेण्ट-नाइ, आर्जेण्ट-मेट, आर्स, ब्रोमि, ब्रायो, कैल्क, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कार्ल, चायना, क्रोटे-टीग, साइक्ला, फ्लु ऐ, जेल्स, हाइड्रो, कैलि-बाइ कैलि-कार्ब, लोबे, लाइको, मैग-म्यू, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स वोम, ओपि, फास, प्रेटि, पल्स, रोबि, सेड्र, साइलि, सल्फ, टैबै।

" सबेरे, नींद खुलनेपर—कार्बो-ऐनि, पल्स।

" तीसरे पहर—लाइको, सेड्र।

" रातमें—इग्नि, चायना।

" खानेके बाद—ऐसि-मार्क, ऐलुमि, ऐमोन कार्ब, आर्जेण्ट नाइ, ब्रायो, कोसो, चायना, सिनि म, इग्ना, सिपि, हाइड्रो, ब्रायो कैलि-कार्ब, मेफि, लाइको, नक्स वोम, फास, पल्स, रास्टिक्स, सेड्र, सल्फ।

" " थोड़ी ही देर बाद—चायना, लाइको।

" ठण्डी पानी पीनेके बाद—सिपि, आर्नि ऐ.टी।

" मीठे के बाद—जैक।

भरा मालूम होना, माँस खाकर—कैलि-बाई ।

„ मिचलीके साथ—लाइको ।

„ **घटना**—डकारसे—ऐलो, चेलिडो, फ`गो, पेरि ।

„ **बढ़ना**—ठण्डे खाद्य और वायुसे—कैलि-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, साइलि ।

„ „ दबानेसे—फास, टिलि-ट्रि ।

भूखको कमी (Wanting-अभाव)—ऐकोन, ऐगा, ऐलूमि, ऐन्थ्रा, ऐण्टि-क्रूड, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका, **आर्स**, बेप्टी, बोरा, ब्राइयो, कैक, **कोल्के**, कैल्के-आ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कार्ड-मे, **कोमो, चेलि, चायना,** सिना, सिकि, काफि, कोलचि, कोलोसि, कोना, **साइक्ला, डिजि,** फेरम, फ्लू-ऐ, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, इपि, आइरि-वा, **कोलि-बाई,** कैलि-आयो, **लाइको,** मिफा, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर, नक्स-मस, नक्स-वोम,** पिक्रो, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, सोरि, **पल्स, रास-टक्स,** सैबा, सेक्, सेने, **सिपि, साइलि,** स्पाई, **सल्फ,** सिफि, टेरि ।

„ खानेको इच्छाके साथ—ऐना, ऐलूमि, बैरा-कार्ब, चायना, डाल, नेट्रम-म्यूर, रास टक्स, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ ।

„ खानेके समय ही केवल भूख लगता है—**चायना ।**

„ खाद्य पदार्थ देखते ही—मार्क-आ-फ्लो, फास, सल्फ ।

„ खाद्य पदार्थकी गन्धसे—कार्बो-ऐनि, कोलचि ।

„ दो एक ग्रास खानेपर भूख लौट आती है—कैल्के, चायना, सैबाडि ।

„ प्यासके साथ—कैल्के, कैलि-नाई, नक्स-वोम, फास, साइलि, स्पाई, **सल्फ ।**

„ „ विषादका वजहसे—प्लेटि ।

„ अधिकता (Increased)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, आर्जेण्ट-नाइ **आर्स**, अरम, बैरा-कार्ब, बैरा-म्यू, बेल, बार्ब, **कोल्के**, कैल्के-फास, **कैना-इ**, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चिनि-सल्फ, **सिना, सिनाबि,** काफि, इलैप्स, फेरम, फ्लू-ऐ, **ग्रेफा,** गुयो, इग्ने, आइयो, लैकै,

लाइको, मैग-म्यू, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओलि, ओपि, फास-ए, पलस, रैटा, सैबाडि, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, टियु, विरे।

भूखकी अधिकता, सवेरे—आर्ज-मेट, कैल्के, चेलि, लिसिन, नेट्रम म्यूर, सोरि, साइलि, टियु।

" " पूर्वाह्णमें (दोपहरके पहले)—ऐलो, आर्ज-मेट, ग्रिफा, नेट्र-कार्ब, नक्स-मस।

" " " १० बजे—लाइको, नेट्रम-म्यूर, थूजा।

" " " ११ बजे—इग्ने, आइयो, सैके, सल्फ।

" " " " मूर्च्छाके साथ—सल्फ।

" " मध्याह्णमें (दोपहरके समय)—लाइको, मैजे, नेट्रम म्यूर, नक्स-मस, सल्फ।

" " अपराह्णमें (तीसरे पहर)—आर्जेण्ट-मेट, चायना, लाइको, नेट्र कार्ब, नक्स वोम, सोरि।

" " सन्ध्याके समय—कैल्के, कैना-सै, कैमो, चायना, गुये, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, पल्स, सोरि, सिपि, साइलि।

" " रातमें—चायना, लाइको, फास, फास-ए, सोरि, साइलि, सल्फ।

" " असमयमें (Unusual time)—चायना, कार, सिना, ग्रैफा।

" " आमाशय रोगमें—नक्स वोम।

" " आहार करना आरम्भ करनेपर—लाइको।

" " आहार करनेके बाद—आर्जेण्ट-मेट, चिनि सल्फ, लाइको, मार्क, फास, सोरि।

" " उदरामयमें—कैल्के, पिट्रो आइयो, चीनि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

" " कृश (दुबला) होते जानेके साथ (With emaciation)—आयो, कैल्के, आइयो, नेट्रम-म्यूर, फास, सेकी, सोरि, सल्फ।

" " गायब हो जाती है, खानेकी चीज, देखने पर—सल्फ।

भूखकी अधिकता, ज्वरके समय—चायना, सिना, **फास** ।

" " दर्दके साथ पाकस्थलीमें—लेके, लाइको, पल्स, साइलि ।

" " दुर्बलताके साथ—लेके, फास, मार्क, सल्फ ।

" " पर्यायक्रमसे भूख न लगनेके साथ—बार्ब, कैल्के, **फेरम**, आइयो, फास ।

" " मूर्च्छा और दुर्बलताके साथ-जल्दी न खानेपर (Faint and weak, if not soon satisfied)—फास ।

" " मृगी रोगके पहले—हाइयो ।

" " शीर्णता (सुखण्डी Marasmus) के साथ—ऐन्नो, आर्स-आयोड, बैरा-कार्ब, **कैल्के**, चायना, सिना, **आइयो**, लाइको, मैग-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ ।

" " शीतावस्थामें—आइलैन्थ, **आर्स**, **सिना**, नक्स-वोम, फास, **साइलि**, स्टैफि ।

" " सर-दर्दके साथ—फास, सोरि, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा ।

" खामखयाली (Hunger, but knows not for what or refuses things when offered)—**ब्राइयो**, **चायना**, **सिना**, हिपर, इग्ने, मैग-म्यूर, फास, पल्स ।

" तृप्ति-हीनताके साथ मुँहमें कुछ अच्छा नहीं लगता, अरुचि (Appetite without relish)—ऐगा, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, डालका, मैग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, **ओलि**, **ओपि**, पल्स, **रियुम**, **रास-टक्स**, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा ।

" परितृप्ति (पेट भर जाना) सहजमें ही—ऐमोन-कार्ब, कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, चायना, सिकि, क्लिमे, कोलचि, साइक्ला, जेल्स, इग्ने, **लाइको**, नक्स-वोम, ओपि, फास, पोडो, प्लोडो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ ।

" " नहीं होती (Appetite, insatiable)—ऐलिट-क्रूड, आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, बैरा-कार्ब, फेरम, सिके, स्पञ्ज, स्टैनम ।

" बढ़ी हुई (Increased)—"अधिकता" देखिये ।

भूख, राक्षसी (Ravenous, Canine excessive)—ऐगा, ऐलि-सि, सिना, आर्जे-मेट, आर्स, अरम, बार्ब, आइयो, कैल्के, कैना-इ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, सिना, काकि, काफि, कोल्चि, कोलोसि, कोना, इलैप्स, फेरम, फ्लु-ऐ, ग्रेफा, इग्ने, आइयो, लेके, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओलि, ओपि, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पोडो, पल्स, रेटा, रास-टक्स, सेबाडि, सिके, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, विरे, जिङ्क ।

" " सवेरे—आर्जेण्ट-मेट, कैल्के ।

" " पूर्वाह्नमें—ऐलो, कैलि-नाई, नेट्रम-कार्ब सल्फ ।

" " " १० बजेके समय—आइयो, कैलि-नाई, नेट्रम-म्यूर ।

" " " ११ बजेनेके समय—इग्ने, सल्फ ।

" " मध्याह्नमें—लाइको, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नक्स मस ।

" " अपराह्नमें—गुयो, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम ।

" " सन्ध्यामें—मेजे ।

" " रातमें—चायना, फास, सोरि, सल्फ ।

" " आमाशय रोगमें—नक्स-वोम ।

" " उदरामयके साथ—ऐलो, कैल्के, आइयो, ओलि, पेट्रो, सेकेलो सल्फ, विरे ।

" " कृश होते जानेके साथ (with emaciation)—ऐब्रो, कैल्के, आइयो, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो फास, सोरि, सल्फ ।

" " खानेसे भूख बढ़ना (Eating increases the hunger)—लाइको ।

" " खानेके बाद—आर्जे मेट, सिनि-स, सिना लाइको, मार्क, फास, सोरि, मेजा ।

" " पर्याय क्रमसे भूख न लगनेके बाद—ऐण्टिम क्रुड, कार्ब ऐनि, फेरम, आइयो फास ।

भूख, राक्षसी, मृगी रोगके पहले—**हाइयो**।

„ „ „ के समय—कैल्के, कास्टि।

„ „ शीर्णता (सुखण्डी Marasmus) के साथ—ऐब्रो, आर्स-आयोड, बैरा-कार्ब, **कैल्के**, कैल्के-फास, कास्टि, चायना, **सिना**, **आइयो**, लाइको, मैंग-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, पेट्रो, साइलि, सल्फ।

„ „ हमेशा खाँउ खाँउ करता है (Constant hunger)—कैलि-बाई, मार्क, नेट्र-कार्ब।

„ ह्रास (Diminished)—आर्जे-नाई, अरम, बैरा-म्यूर, सिना, कोलोसि, कोनायम, साइक्ला, डिजि, जेल्स, लैक-डि, लैके, लाइको, म्यूरेक्स, नक्स-वोम, **पिक्रि-ऐ**, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सेवाडि, सिपि, साइलि, सल्फ, विरे, जिङ्क।

मिचली (Nausea)—ऐकोन, इस्कि हृयू, ऐगा, ऐलि-से, ऐलुमि, ऐना, **ऐण्टिम-क्रूड**, **ऐण्टिम-टार्ट**, ऐरानि, आर्जे-मेट, **आर्जे-नाई**, **आर्स**, ऐसार, बैप्टी, बैरा-कार्ब, **बेल**, बार्बे, बिस्मथ, बोवि, ब्राइयो, कैडमि, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, कास्टि, **कैमो**, चेलिडो, चायना, क्रोमि, सिपि, सिस्टा, **काकु**, काफि, कोलचिकम, कोलोसि, कोनायम, क्रोटे-हो, क्यूबे, क्यूप्रम, कूप्रम-आ, कूप्रम-सा, साइक्ला, **डिजि**, डायस्को, ड्रोसि, **डाल्का**, इलाटे, युपि-पर्प, फेरम, **हेलि**, **हिपर**, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, **इपिकाक**, आइरि-वार्स, आइरि-फि, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, लैके, लैक-ऐ, लोरो, **लोबे**, लाइको, मैग-म्यूर, मैंग-फास, मार्क, मार्क आ-फ्ले, मेजे, मस्क, नेट्र-कार्ब, **नेट्र-म्यूर**, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, आकजा-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, सोरिनम, **पल्स**, रैना-ब, रैना-सि, रैफे, रियूम, **रास-टक्स**, रास-वेन, सेवाडि, सैम्बु, **सैङ्गु**, सिके, **सिपि**, **साइलि**, स्कुइ, स्टैनम, **सल्फ**, **टैबे**, टैरा, टेरि, थेरि, **वेरे**, **विरे**, विरे-वि, **जिङ्क**।

वलो, सवेरे—ऐना, आर्नि, वोवि, कैक्ट, कैल्के, कार्बो-वेज, केमो, सिफि, डिजि, ग्रैफा, हिपर, कैलि, मैजे, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पेट्रोलियम, सोरिनम, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ तीसरे पहर—कार्बो, फास, रैना-ब, साइलि।

„ सन्ध्यामें—ऐलू, कैल्के, हिपर, पैलि, पल्स।

„ रातमें—कार्बो-ऐनि, डालका, लोबे-इन, मार्क।

„ आँख घुमानेपर—कोनायम, सिपि।

„ उठ बैठनेपर—आर्नि, आर्ज-नाइट्रि, ब्राइयो, कालि, विरे।

„ ऋतुके पहले—क्रोटे-हो, हाइयो, इपिकाक, लाइको, नेट्रम-म्यूर, निको, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपि।

„ „ समय—बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैप्सि, कोलचि, कोनायम, ग्रैफा, हाइयो, इपिकाक, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, लाइको, पल्स, साइया।

„ „ बन्द होनेपर (after suppression of)—आर्स, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ एक दृष्टिसे देखनेपर—सार्सा।

„ खड़े होनेपर—ऐगा, ऐलुमि, कोलचिकम, इग्ने, पेट्रोलियम।

„ खाद्यकी गन्धसे—आर्स, कालि, कोलचिकम, डिजि, गुर्पे पर्फ, इपिकाक, साइलि।

„ „ चिन्तासे—आर्स, घायना, कोलचिकम, सार्सा, सिपि, सल्फ।

„ „ चीज देखनेपर—कोलचिकम, कैलि बाई, लाइको, सैबाडि, स्पाइजि।

„ खानेके पहले—कार्बो, नेट्र-म, नक्स वोम, फास पि, सल्फ।

„ „ समय—बेल, बोरा, कार्बो, सिपि, नक्स वोम, पल्स।

„ „ बाद—ऐसोन-कार्ब, आर्स आई, [illegible] बोरा, [illegible] कैल्के, कार्बो-वेज, केमो, चिनि-स सिपि, ग्राफा, कोलचिकम, कोनायम, फेरम, फेरम फास, कैलि बाई, कैलि कार्ब, लैके, लाइको, नेट्र-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, फॉस्फरस, फास-ए, पल्स, रस टक्स, सिपि, साइलि, [illegible]।

सिचली, गर्भावस्थामें—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, **ऐसार**, ब्राइ
कार्बो-ऐनि, कोलचिकम, कोनायम, ह्वेलि, हिपर, आइरि-वार्स, जे
कोलि-कार्ब, **क्रियोजोट**, लेका-कै, लेके, लैक-ऐ, लोबि, लाइ
मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, **नक्स-वोम**, आका
ऐ, पेट्रोलियम, फास, सोरिनम, पल्स, **सिपि**, साइलि, सल्फ-
सिम्फा, **टेबे**।

„ गाड़ी चढ़नेपर—कैल्को, **काक्कि**, साइला, हिपर, आइरि-वा, लाइको
नक्स-म, नक्स-वोम, **पेट्रोलियम**, **सिपि**, **सल्फ**।

„ गर्म रहनेसे—लाइको, मेजे, **नेट्रम-कार्ब**, पल्स।

„ गोलमालसे—काक्कि, थेरि।

„ ज्वरके समय—आर्स, ब्राइयो, साइनेक्स, युपे-प, गुयो, ड्रपि-काक
नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सेङ्गु।

„ ठण्डी चीजें पीनेपर—आर्स, कैल्को, कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम
पल्स, रास-टक्स।

„ दूध पीनेपर—कैल्को, पल्स।

„ धूम्रपान करने पर—कार्बो-ऐनि, क्लिमे, **लाइको**, नक्स-वोम, पल्स,
रास-टक्स।

„ धूपमें रहनेपर—कार्बो-वेज, टैरेण्ट, चेलिडो, डिजि, नेट्रम-म्यूर।

„ पसीनेवाली अवस्थामें—कोनायम, फेरम, ग्रैफा, लोबे, **नक्स-वोम**,
मार्क।

„ पीने बाद—आर्स, ब्राइयो, **काक्कि**, युपे-प, लेके, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम,
पल्स।

„ पेटमें ऐंठनके साथ—ऐण्टि-क्रूड, आर्नि, आर्स, **नक्स-वोम**, क्रम्,
डिजि।

„ प्रसवके दर्दके समय—काक्कि, **ड्रपिकाक**, पल्स।

„ पाखाना फिरनेके पहले—मार्क, पोडो, रास टक्स, सिपि, विरे।

„ „ „ समय—आर्स, ब्लोनो, इपिकाक, कैलि-कार्ब, नाइट्रि ऐ,
पोडो, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, विरे।

वमन, खाँसीकी वजहसे—कार्बो-वेज, काक।

„ रातमें—ऐण्टिम-टार्ट, आर्जे-नाइ, आर्स, कैल्के, चायना, फेरम, इग्ने, लैके, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, प्लम्ब, पोडो, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ अफीम खाकर—कैमो।

„ अविराम्यान्त (Incessant-लगातार)—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रू ड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जे-नाइ, आर्स आइयो, इपिकाक, मार्क-कोर, नाइ-ऐ, फास, प्लम्ब, विरे।

„ आइसक्रीम खाकर—आर्स, कैल्के-फास, इपिकाक, पल्स।

„ आहार करनेके समय—आर्स, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्टैनम, विरे।

„ „ बाद—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रू ड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, सिना, क्रूप्रम, क्रोटेरा, फेरम, फेरम-फास, जैल्सो, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपिकाक, क्रियो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, सैनि, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ उपगम (घटना)—आहारके बाद—फेरम।

„ उत्तापावस्थामें—ऐण्टिम क्रू ड, ऐण्टिम टार्ट, आर्स, आइयो, कैमो, सिना, युपे-पर्फ, युपे-पर्प, इपि, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, स्ट्रैमो।

„ उदरामयके साथ—इथु, ऐण्टि-क्रू ड, एपिस, आर्जे-नाइ, आर्स, चायना, कोलचि, क्रूप्रम, इपि, पोडो, पल्स, सल्फ, विरे।

„ ऋतुके पहले—कैल्के, चायना, क्रियो नक्स-वोम पल्स।

„ ऋतुके समय—ऐमोन कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐपी, कैल्के, कार्बो-वेज, क्रूप्रम, ग्रैफा, इग्ने, कैलि कार्ब, क्रियो नक्स-वोम, फास, पल्स, सल्फ, विरे।

„ रुकनेपर (Suppressed menses)—आर्स, क्रियो इपि, नक्स-वोम, पल्स, विरे।

मिचली, घटना-आँख बन्द करनेपर—कोना ।

„ घटना-खानेके बाद—कैलि-बाई, लैके-ऐ, लोबे, नेट्र-कार्ब, सिपि ।

„ „ गाड़ीमें चढ़नेपर—नाइट्रि-ऐसि ।

„ „ घूमनेसे—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ग्रै टि ।

„ „ ठण्डी चीजें पीनेपर—बिस्मथ, फास ।

„ „ डकारसे—ऐण्टि-टार्ट, कैम्फ, चेलिडो, सिनाबे, लाइको, फास, रोडो, रूमैक्स, सैबाडि, सल्फ-ऐ, विरे-वि ।

„ „ नींदके बाद—रास-टक्स ।

„ „ पीनेके बाद—**ब्राइयो**, लोबे, पियोनि, फार्स, सैम्बु ।

„ „ मल त्यागनेके बाद—कोना, फेरम, रैफि, सेङ्गु ।

„ „ सोनेपर—ऐलू, आर्निका, फास, रास-टक्स, सिपि, साइलि ।

वमन (Vomiting)—**ऐकोन**, इस्कि, इथू, ऐगा, ऐमोन-म्यू, **ऐण्टिम-क्रुड**, **ऐण्टिम-टार्ट**, **एपिस**, ऐपो, **ऐपोसाइ**, **आर्ज-नाई**, आर्निका, **आर्स**, ऐसार, बैरा-कार्ब, बेल, बिस्मथ, बोरा, ब्रोम्, **ब्राइयो**, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, **कैमो**, चेलिडो, चायना, चिनि-स, सिमि, सिना, काक्कि, कक, **कोलचिकम**, कोनायम, क्यूबे, -**कुप्रम**, **कुप्रम-ऐ**, कुप्रम-म, डिजि, डोरि, डालका, युपे-पर्प, युफो, **फेरम**, **गैम्बो**, ग्लोनो, ग्रे फा, ग्रै टि, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, **आइरि-वार्स**, कैलि-बाई, **क्रियो**, लैके, लोरो, **लोबि**, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, **आक्जा-ऐ**, पेट्रो, **फास**, सोरि, **पल्स**, सेङ्गु, सिकि, सिपि, **साइलि**, **सल्फ**, टैबे, टेरि, टियु, थेरि, वैलि, **विरे**, **विरे-वि**, जिङ्क ।

वमन, सवेरे—आर्स, ब्राइयो, कोनायम, साइक्ला, डिजि, ड्रोसेरा, फेरम, फेरम-फास, गुयो, हिपर, इग्ने, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैरे, विरे ।

„ शराबियोंका—आर्स, कैप्सि ।

„ गामको—बेल, ब्राइयो, नेट्रम-स, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ ।

वमन, श्वासकी, खाँसीकी वजहसे—कार्बो-वेज, काक।

" रातमें—ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-नाइ, आर्स, कैल्के, चायना, फेरम, इग्ने, लेके, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, प्लम्ब, पोडो, पल्स, साइलि, सल्फ।

" अफीम खाकर—कैमो।

" अविराम्रान्त (Incessant-लगातार)—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-नाइ, आर्स, ब्राइयो, इपिकाक, मार्क-कोर नाइ-ऐ, फास, प्लम्ब, विरे।

" आइसक्रीम खाकर—आर्स, कैल्के-फास, इपिकाक, पल्स।

" आहार करनेके समय—आर्स, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्ट्रैनम, विरे।

" " बाद—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, सिना, कूप्रम, ड्रोसेरा, फेरम, फेरम-फास, गैम्बो, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, काइयो, इपिकाक, क्रियो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, सैनि, सिपि, साइलि, स्ट्रैनम, सल्फ, विरे, जिङ्क।

" उपशम (घटना)—आहारके बाद—फेरम।

" उत्तापावस्थामें—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम टार्ट, आर्स, काइयो, कैमो, सिना, युपे-पर्फ, युपे-पर्व इपि, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-मोम, पल्स, स्ट्रैमो।

" उदरामयके साथ—ब्रायो, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्स, चायना, कोलचि, कूप्रम, इपि पोडो, पल्स, सल्फ, विरे।

" ऋतुके पहले—कैल्के, चायना क्रियो, नक्स-मोस, पल्स।

" ऋतुके समय—ऐमोन कार्ब, ऐमोन-म्यू, एपिस, कैल्के, कार्बो वेज, कूप्रम, ग्रैफा, इग्ने, केलि कार्ब, लाइको नक्स मोस, फास, सल्फ, विरे।

" " रुकजाना (Suppressed menses)—आर्स, ग्राफा इपि, नक्स मोस पल्स, विरे।

वमन, क्रोधके समय—कैमो, **कोलोसि, नक्स-वोम।**

„ खांसनेके समय—**ऐलूमि**, ऐना, **ऐण्टि-टार्ट**, आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड, **ब्राइयो**, कार्बो-वेज, काक्क, कूप्रम, लैके, डिजि, **ड्रोसे**, फार्मि, हिपर, हाइयो, **इपि**, कैलि-कार्ब, लैके, मिफा, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, सैबाडि, साइलि, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—ऐण्टि-क्रूड, एपिस, आर्स, **ऐसार**, ब्राइयो, **कैल्के**, कैडमि, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, **चेलिडो**, सिकि, कोना, फेरम, फेरम-फास, इपि, आइरि-वा, **जेट्रो**, कैलि-ब्रोम, **क्रियो, लैक-ऐ**, लिलि-टिग, लाइको, मैग-म्यू, नेट्र-म्यू, **नक्स-म, नक्स-वोम**, ओपि, आक्ज-ऐ, पेट्रो, फास, पोडो, सोरि, पल्स, **सिपि**, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ, **टेरे**, विरे, विरे-वि।

„ गाड़ी चढ़नेके समय—आर्स, **कार्बो-ऐ**, काकि, कोलचि, फेरम, हाइयो, पेट्रो, फास, साइलि, **टेरे।**

„ ठण्डा पानी पीनेपर—आर्स, ब्राइयो, डालका, युपे-प, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम, साइलि, **विरे-वि।**

„ दूध पीनेपर—इथू, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, कैल्के, आइयो, आइरि-वा, पोडो, सिपि, **साइलि**, सल्फ।

„ पसीनेवाली अवस्थामें—आर्स, चायना, ड्रोसे, युपे-प, इपि, सल्फ।

„ पीने बाद—ऐकोन, **ऐण्टि-क्रूड**, ऐण्टि-टार्ट, आर्निका, **सार्सा**, बिस्मथ, बोरैक्स, ब्राइयो, सिना, कूप्रम-ऐ, डालका, युपे-प, इपि, क्रियो, लाइको, नक्स-वोम, फास, सिकि, साइलि, **विरे।**

„ पीने बाद, तुरन्त ही (Immediatly after)—आर्स, बिस्मथ, युपे-प, नक्स-वोम, जिङ्क।

„ „ पाकस्थलीमें जाकर गर्म होनेपर—क्लोरो, फास।

„ „ भयानक (Violent)—**आर्स**, सिना, **कोलचि, क्रोटन-टिग**, कूप्रम, फेरम, आइयो, इपि, जैट्रो, लोबे, **फास**, प्लम्ब, टैबे, विरे।

वमन, गर्भावियोंका—ऐलू, आर्स, कोडमि, केप्सि, कार्बो-ए, क्रोटे-टी, **कोलि-कार्ब**, कैलि-ब्रोम, लैके, नक्स-वोम, सैङ्ग, सल्फ-ए, सल्फ।

„ शीतके पहले—आर्स, युपे-प, फेरम, पल्स।

„ „ समय—कैप्सि, सिना, **युपे-प**, इग्ने, इपि, नेट्र-म्यु, पल्स, विरे।

„ „ बाद—ऐरानि, आइयो, कार्बो-वेज, **युपे-पर्फ**, इपिकाक, लाइको, **नेट्रम-म्यूर**, रास-टक्स।

„ सर दर्दके साथ—इथू, एपिस, आर्स, बेल, कैक्ट, कैल्के, कैप्सि, क्लोरा, काकि, क्रोटे-टी, फार्मि, जेल्स, ग्रैफा, ग्रैटि, **इपि**, आइरि-वार्स लैक-डि, लैके, **मिलि**, नेट्र-म्यु, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, प्लम्ब, सैङ्ग, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि।

„ सहजमें ही हो जाता है (Easy)—**कैमो**, फेरम, इग्ने, कैलि-बाई नक्स-वोम, फास, फाइटो, रैना-स्यु, टैरे।

„ काला काला—आर्ज-नाइ, **आर्स**, **कैडमि**, कैल्के-कार्ब, चायना, क्रोटे-टी, हाइयो, इपि, लैके, नेट्र म, **नक्स-वोमिका**, पेट्रो, **फास**, प्लम्ब, पल्स, सिके, सल्फ, **विरे**।

„ काफीके चूरकी तरह—आर्ज नाइ, आर्स, क्युप्रम, मार्क कोर, नेट्र म्यूर, **फास**, सल्फ-ऐ।

„ कीट (Worm)—ऐकोन सिना, फेरम, फाइटो, मैग्नाडि, मैग,, सिकि, साइलि।

„ कृमि (Lumbrici)—ऐकोन सिना, स्पाइजि, सिके।

„ खट्टा (Sour)—एसिड टार्ट, आर्स बेल बोविस्टा, कैल्के, कैम्फ कार्बो-वेज, **कास्टिक**, कैमो, कलिञ्चो, **चायना**, डिजि, कैल्क, फेरम, फेरम-फास, ग्रैफा, ग्रैटि, लिथ, इपि आइरि स, कैलि ब्रो, कैलि कार्ब लाइको, मैग-कार्ब, मर्क, मेज, नेट्रम म्यूर नेट्रम फास, नेट्र म, नक्स-वोम, ओपि, फास फास ए, सोरि, पल्स, रोबि, सैङ्ग सल्फ ए सल्फ, टैरे, विरे।

वमन, खट्टा, ऋतुके पहले—कैल्के, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।
" " " समय—कैल्के, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स।
" " ज्वरके समय—हिपर, लाइको, रोबि।
" " पतला (Fluid)—काष्टि, इपि, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोमिका, फास।
" " सवेरे—कैम्फ, ग्रैफा, कैलि-बा, नक्स-वोम, टेरे।
" " शीतके समय—लाइको, रोबि।
" " भोजनके बाद—नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, सल्फ-ऐ।
" खाया हुआ पदार्थ (Food)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐसिट-क्रूड, ऐसिट-टार्ट, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के-कार्ब, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, सिना, कोलचि, क्रोटे-हो, कप्रम, साइक्ला, ड्रोसे, युपे-प, फेरम, फेरम-फास, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, इपि, आइरि-वार्स, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लोबेलि, लाइको, नेट्र-म्यू, नक्स-वोमिका, ओपि, फास, पल्स, सैंगु, सिके, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, विरे, विरे-वि।
" " सवेरे—प्रम्ब, सिपि, सल्फ।
" " शामको—कार्बो-वेज, फास, पल्स, सल्फ।
" " रातमें—क्रोटन-टिग, फेरम, नेट्रम-म्यूर।
" " खानेके बाद ही—ऐसिटम-क्रूड, एपिस, आर्स, ब्राइयो, कार्बो वेज, फेरम, फास, ग्रैफा, सल्फ, विरे, जिङ्क।
" " " २/३ घण्टे बाद—क्रियो, सल्फ।
" खाया हुआ पदार्थ, खानेके ५/६ घण्टे बाद—ऐङ्गो, पल्स।
" " खाँसीकी वजहसे—ऐसिट-टार्ट, ब्राइयो, काक, फेरम, कैलि-कार्ब, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सल्फ।
" तीता (कड़वा-Bitter)—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, कैमो, काष्टि, कोलोसि, युपे-प, ग्रैटि, कैलि-बा, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, प्रम्ब, पल्स, सैंगु, सार्सा, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

वमन, दहीकी तरह (Like curdled milk)—इथू, ऐसिड-फ्लु, ऐसिड-टार्ट, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, साइलि, सल्फ, वैले।

„ दूधकी तरह—इथू, आर्स, कैल्के, ब्राइयो, आइरि-वार्स, पोडो, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ पानीकी तरह (Watery)—ऐकोन, इथू, आर्नि, आर्स, बेल, बिस्मथ, ब्राइयो, कैम्फ, कैना-ई, कास्टि, चायना, काफ, कोलोसि, कोना, कूप्रम, कूप्र-ऐ, ग्रेटि, इपि, आइरि-वा, जैट्रो, केलि वा, क्रियो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रोबि, सिके, स्टिक्टा, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैब, विरे।

„ „ सवेरे—आर्स, ब्राइयो, सल्फ।

„ „ रातमें—कौल्को।

„ पित्त (Bile)—ऐकोन, ऐसिड-फ्लु, एपि, आर्ज-ना, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, चेलिडो, चायना, कोलचि, कोलोसि, कूप्रम, युपे-प, ग्रैटि, इग्ने, आइयो, इपि, आइरि, केलि-बा, लैके, लैप्टा, लाइको, मार्क-कोर, मार्क, मार्क-स, मार्फि, नेट्र-स, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, प्लम्ब, पोडो, पलस, सैबाइना, सैङ्गु, सिके, सिपि, सल्फ, टेरि, विरे।

„ „ ज्वरावस्थामें—आर्स, ब्राइयो, कैमो, चायना, युपे-प, इग्ने, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स सल्फ।

„ „ पसीनेवाली अवस्थामें—ऐसिड-फ्लु, आर्स, ब्राइयो, कैमो, चायना, इग्ने, इपि, मार्क, नक्स वोम, पल्स।

„ पित्त, सोतावस्थामें—ऐसिड फ्लु, आर्स, कैमो, चायना, ड्रोसे, युपे-प, युपे-पार्फि, इपि लाइको, नक्स वोम, पल्स।

„ „ „ के बाद—युपे-प, नेट्रम-म्यूर।

„ „ सरी दर्दके साथ—आर्ज-नाइट्रि, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, चेलिडो, इपि, आइरि, मोर्फ, नेट्र-स, प्लम्ब, पल्स, सैङ्गु, सल्फ।

वमन, पित्त, सरमें चक्करके साथ—चेलिडो, पेट्रो, सैबाडि ।

„ पोला—आर्स, कोलचि, कोलोसि, कोनायम, डालका, ग्रैटि, आइयो, इपिकाक, मार्क, फास, टेरि, विरे ।

„ फेन फेन (Frothy)—इथू, ऐसिट-टार्ट, एपि, कैन्थ, कोना, इपि, क्रियो, लाइको, मार्क-कोर, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, विरे ।

„ बदबूदार—(Offensive)—ऐसिट-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैन्थ, कालि, क्यूप्रम, इपि, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, सिपि, स्टैनम, सल्फ, विरे ।

„ रक्त (Blood)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, क्रोटे, क्यूप्रम, साइक्ला, इरिजि, फेरम, फेरम-फास, हैमा, हाइयो, इपि, लेके, मार्क-कोर, मिलि, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, पल्स, सेबाइना, सैगु, सिकेलि, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ, विरे ।

„ „ थक्का थक्का (Clotted)—आर्नि, आर्स, कास्टि, लाइको, नक्स-वोमिका ।

„ „ नमकीन (Salty)—आइयो, मैग-कार्ब, पल्स, साइलि, सल्फ ।

„ लसदार (Stringy)—आर्ज-नाइ, चेलिडो, कोरा-रू, ड्रोसेरा, केलि-बाई, क्रियो, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, साइलि ।

„ श्लेष्मा (Mucus)—ऐकोन, ऐसिट-क्रूड, एपि, आर्ज-नाइ, आर्स, बेल, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, चिनि-स, सिना, काकु, कालि, कोना, कोपे, क्यूप्रम, साइक्ला, डिजि, ड्रोसे, डालका, हाइयो, इग्ने, इपि, आइरि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क-कोर, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ नक्स-वाम, ओपि, फास, फाइटो, पोडो, पल्स, सिके, साइलि, सल्फ, टेरि, विरे ।

„ „ सवेरे—आर्स, कैम्फ, डाल्का, कलि-बा, सिके, सल्फ, थूजा ।

„ „ खांसीकी वजहसे—ड्रोसेरा, नाइट्रि-ऐ, पल्स, साइलि ।

वमन, हरा-पदार्थ—ऐकोन, इथ्यू, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-नाइ, कैना-सै, कैन्थ, कार्बु-भे, कोलोसि, क्रोटे-टी, डालका, ईलि, हिपर, इपि, लैके, लाइको, मार्क-कोर, मार्क, नेट्रम-स, ओपियम, पेट्रो, फास, पल्स, स्ट्रैमो, विरे।

वमन, श्लेष्मा, तरल (Fluid)—ऐकोन, कार्बु-भे, कोलोसि, क्यूप्रम, डाइका, हिपर, लाइको, नेट्रम सल्फ, स्ट्रैमो।

„ हिलने डोलनेपर—ऐण्टिम टार्ट, आर्स, ब्राइयो, क्युप्रम, फेरम, लैके, नक्स-वोम, पेट्रो, टैबि, विरे।

वस्त्र पहनना, बुरा मालूम हो (Clothing disturbs)—बोवि, ब्राइयो, कैल्के-का, क्रोटे-टी, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बाइ, लैके, लाइको, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, सल्फ।

शिथिलता, ढीलापन (Laxity)—इस्कि, कैल्के-फास, इग्ने, इपि, मैग कार्ब, पेट्रो, सब्जि, सल्फ, सल्फ-ऐ, टैबे।

संकोचन (Constriction)—ऐलूमि, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, चेलिडो, काकि, कोलोसि, फेरम, ग्रैफा, गुयाये, गुयो, कैलि बाइ, लाइको, मैग-कार्ब, मैग्ली, मेजे नेट्र-कार्ब, ओपि, सल्फ।

स्पन्दन (Pulsating, throbbing, beating)—ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्टम, ऐसाफि, बेल, कैल्के, चायना, सिमि, फेरम, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइड्रो, आइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग म्यूर, मिलि नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पल्स, रस टक्स सिपि, साइलि स्ट्रैनम, सल्फ।

„ खानेके बाद—ऐलू, ऐसाफि, कोपे, नेट्रम म्यूर सिपि।

„ घटना, इधरसे—सिपि।

„ „ घूमने फिरनेपर—बोवि।

„ „ स्नानमें घुसी—ऐगा।

हिचकी (Hiccough)—ऐगा, ऐमोन-म्यूर, आर्जेण्ट नाइ, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

चायना, चिनि-स, क्लोरा, सिक्कि, काकि, काफि, साइक्ला, डाय, ड्रोसे, युफ्रे, जेल्स, हाइयो, इग्ने, आइयो, क्रियोजोट, लैके-सिस, लोरो, लाइको, मैग-म्यूर, मैग-फास, मार्क, मस्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, निको, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेरि, सोरिनम, पल्स, रैना-ब, रैटान, रूटा, सार्सा सिपी, सिपि, स्पञ्जि, स्ट्रेमो, स्टैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ, टियु, विरे, विरे-वि, वार्बा।

हिचकी, सवेरे—ऐलि-सि, ऐपो, कैना-सै, कैलि-स।

„ तीसरे पहर—ऐगा, कैन्थ, इग्ने।

„ „ १ बजे—बोवि, विरे-वि।

„ „ २ बजे—टैवे, विरे-वि।

„ सन्ध्यामें—कैलि-आयोड, लोबे, निको, रास-टक्स, साइलि, जिङ्क।

„ रातमें—ऐपो, आर्स, बेल, हाइयो, मार्क, पल्स, सल्फ-ऐ।

„ „ निद्रावस्थामें—पल्स।

„ „ भोजनके पहले—बोवि, फास, साइलि।

„ „ „ समय—साइक्ला, युजि, मैग-म्यूर, माइ, टियु।

„ „ „ बाद—ऐकोन, ऐलुमि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, साइक्ला, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, लाइको, नक्स-वोम, सिपि, टियु, सल्फ।

„ आक्षेप युक्त (Convulsive)—ड्रय, आर्स, बेल, मैग-फास, नक्स-वोम, रैना-ब, स्ट्रैमो, टैवे।

„ ऊँची आवाजसे (Loud)—सिकि।

„ किनाइनके अपव्यवहारके बाद—नेट्रम-म्यूर।

„ खांसनेके बाद—टैवे।

„ खींचनके साथ—बेल, कूप्रम, सिक्कि, हाइयो, रैना-ब।

„ गर्भावस्थामें—साइक्ला, ओपियम।

„ ज्वरके समय—मैग-फास, क्रोटे-हो।

„ टायफायड ज्वरमें—फास।

„ डकारके बाद—ब्राइयो, साइक्ला, टिलि।

हिचकी, तम्बाकूकी वजहसे—ऐसिड-क्रूड, आर्ज-मेट, इग्ने, लेके, पल्स, रूटा, सिपि।

„ धूम्रपानके समय—ऐम्ब्रा, ऐसिड-क्रूड, सोरिनम, पल्स, रूटा, सिपि, स्टैफि।

„ धूम्रपानके बाद—ऐसिड-क्रूड, कौल्चि, इग्ने।

„ पतली चीजें पीनेपर—इग्ने, नक्स-वोम, पल्स।

„ „ „ गर्म—विरे।

„ भयानक (Voilent)—ऐमोन-म्यूर, सिकि, साइक्ला, लाइको, मैग-फास, मार्का-कोर, नेट्रम-म्यूर, निको, नक्स-वोम, रेटा, स्ट्रैमो, टियु, विरे।

„ यन्त्रणादायक—ऐकोन, साइमेक्स, मैग-म्यू, निको, फास, रेटा, सल्फ-ऐ, टैरे, टियु, विरे-वि।

„ शराबियोंकी—रैना-वा।

„ शराब मिली पतली चीजें पीनेपर—रैना-वा।

उदर (ABDOMEN)।

धकधन, मांस पेशीकी—क्रमम।

उत्ताप (Heat)—ऐकोन, ऐलोज, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्रायो, कैम्फर, केन्थ, कार्बो-ऐ, क्रुप्रम, येफा, लिपर, कोलि-कार्ब, मैग मेटि, मोरोमि, लाइको, मिजि, नेट्रम म्यूर, फास, पोडो [illegible] रूटा, सिके, मार्सनि टैरे।

„ कोखमें (Hypochondria)—ऐसो, [illegible] [illegible], केलि कार्ब [illegible] पोडो, मैग्नाहि, [illegible]।

„ „ दाहिने—[illegible] केलि कार्ब।

„ „ बायें—[illegible]।

„ [illegible]—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

उत्ताप, झलककी तरह (Like flushes of heat)—कौक, सिनावे, टिलि-ह्रि, सम्बल।

" तल-पेटमें (Hypogastrium)—अरम-म्यूर, व्राइयो, फेरम, हाइड्रो, कैलि-आयोड, लिलि-टिग।

" नाभि-प्रदेशमें (Umbilical region)—अरम-म्यूर, कैन्थ, हाइयो, मैङ्ग, प्लम्ब।

" पाखाना फिरते समय जोर देनेपर—पोडो, रैफे।

" प्लीहामें (Spleen)—ऐसाफि।

" पुट्ठेमे (Inguinal region)—ऐरण्ड, अरम, कैल्के-फास, सल्फ।

" फैलता है छाती तक—कौलोसि, ड्रपि, लैक्टि, लाइको, स्ट्रैमो।

" भोजनके बाद—कैलि-कार्ब।

" यकृतमें मालूम हो (Sensation of, in liver)—ऐलो, कैलि-कार्ब, सैबाडि।

उदरामय—"गुह्य देश" देखिये।

उदरी (Dropsy)—ऐग्न, **एपि**, **ऐपो**, आर्ज-नाइ, **आर्स**, अरम, अरम-म्यूर, व्राइयो, कैल्के, कैन्थ, चेलि, चायना, कोलचि, डिजि, डाल्का, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हेलि, हिपर, कैलि कार्ब, कैलि-फलो, लिडम, **लाइको**, मार्क, नक्स-वोम, फास, प्रून-स्पा, पल्स, सल्फ, **टेरि**।

" पुरानी, पतले दस्तके साथ—ऐपो, ऐनान्थि।

" यकृतमें कडापनके साथ—अरम, लैक्टि-ऐ।

एण्टेराइटिस, आँतोंका प्रदाह (Enteritis)—"प्रदाह" देखिये।

ऐंठन— "दर्द" देखिये।

कडा (Hard)—ऐना, आर्स, **बैरा-कार्ब**, **बैरा-म्यू**, वेल, कैल्के, कैमो, चेलि, सिना, ग्रैफा, लैक-कै, लैके, मैग-म्यू, **मार्क**, मार्क-आ-फ्ले, मार्क-आ-रू, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, रैफे, सिपि, साइलि, सल्फ।

" सन्ध्यामें—कास्टि, कैमो, कोना, लैक-कै।

" रातमें—ग्रैफा, मेजे।

" ऋतुके पहले—ऐण्टि-टार्ट, मैङ्ग।

कोलोसि, कूप्रम, गैम्बो, ग्रैफा, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, रयूम, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, टेरि, थूजा।

वन, ऋतुके समय—काकि, ग्रैफा, नक्स-मस।

" कोखमें—ऐकोन, ऐलो ऐण्टिम क्रू, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चिनि सल्फ, साइमेक्स, कोलचि, डिजि, ग्रुपे-प, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ, विरे।

" " दाहिने—ऐलो, ऐण्टिम-टार्ट, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

" " बायें—ग्रुपे-पर्फ, प्लोडो।

" तलपेटमें (Hypogastrium)—ऐगा, आर्स, बेल, चायना, मार्क, ओपियम, फास।

" नाभीमें—क्रोटन-टिग, मैङ्ग, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" ग्रीहामें—नाइट्रि-ऐ, प्लोडो, सल्फ।

" पुट्ठेमें—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, आर्जेण्ट मेट, कैल्के-फा, कार्बो ऐ, क्लिमे, कोलोसि, साइक्ला, डिजि, डाल्का, ग्रैफा, कैलि आयोड, क्रियो, मैग फास, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, स्पाइजि।

" बगलमें (पार्श्वमें Sides)—ऐकोन, कास्टि, क्रोटन टिग, साइक्ला, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-म्यूर रस टक्स, जिङ्क।

" भोजन करनेके बाद—ऐम्ब्रा, ऐनाकि, ब्राइयो इग्ने, नाइक्स।

" घटना-घूमने फिरनेसे—ब्राइयो, फेरम, केलि कार्ब लाइको मैग्नस कार्ब।

" " पाखाना हो जानेपर—ऐण्टि क्रू, नेट्रम म्यूर, सल्फ।

" " हवा छूटनेसे—ऐण्टिम टार्ट मेलि।

" बढ़ना घूमने फिरनेसे—आर्ज मेट, रूब्रि।

खुजली (Itching)—ऐगेरिका, आर्ज मेट, बार्ब, कैलि कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि ऐ, ओलिएण्डर फास पल्स रस टक्स रस वेन सिपि सल्फ, थूजा।

काल काल गड गड शब्द, घूमनेके समय—लाइको ।

„ पाखाना जानेके पहले—ऐकोन, कोलोसि, मार्क, ओपि, पोडो, रैटा ।

„ „ समय—कैल्क स ।

„ पीनेके बाद—फास ।

„ भोजनके समय—नाइट्रि-ऐ ।

„ कोखमें—कैलि-कार्ब, लाइको, पल्स ।

„ पार्श्वमें (Sides)—कैल्के, कोना, क्रोटन-टिग, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लाइको, मिलि, नेट्रम-म्यूर ।

„ घायें—लाइको ।

कम्पन शील (Trembling)—ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-नाइट्रि, चेलिडो, कोलचि, कोना, क्रोकास, नक्स-वोम, फास, सल्फ-ऐ ।

खाली मालूम होना (Emptiness)—ऐगा, कैल्के, कैमो, सिना, काकि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, डाल्का, गैम्बो, जेल्स, हिपर, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र फास, ओपि, पेट्रो, **फास,** सोरि, पल्स, सार्सा, **सिपि,** स्टैनम, सल्फ-ऐ ।

„ ऋतुके समय—फास, सल्फ ।

„ पाखाना जानेके बाद—ऐपो, कार्बो-वेज, कोलोसि, जेबो, म्यू-ऐ, **पेट्रो,** फास, **पोडो,** फ्लोडो, सिपि, सल्फ-ऐ, विरे ।

„ भोजन करनेके बाद—अरम-म्यू, सार्सा, स्टैनम, जिङ्क ।

„ घटना डकारसे—कार्बो-वेज, सिपि ।

„ „ दबानेसे—कास्टि, नैजा, पल्स ।

„ „ पाखाना जानेके बाद—म्यू-ऐ ।

„ „ भोजनके बाद—ऐण्टि-क्रूड ।

„ „ लपेट लेनेसे, कपड़ेसे—पल्स ।

„ „ सोनेसे, पेटके बल—पल्स ।

„ „ हवा छूटनेसे—कैलि-स ।

„ बढ़ना, घूमने फिरनेपर—कार्बो वेज ।

खींचन (Tension)—ऐकोन, ऐगा, आर्ज-नाई, आर्स, **बैरा-कार्ब,** बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, कोलचि,

चायना, कोलोसि, कूप्रम, हिपर, केलि-वा, लैके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ए, फास, प्लम्ब, साइलि, सल्फ, टेरि।

जखम नाभीके पास (About umbilicus)—इग्लि, एपिस, आर्स, कैल्के, लैके, लाइको, नक्स-वोम, पेट्रो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ पुट्ठेमें—पेडि, वेरा-म्यू, हिपर, मार्क।

जीवित कुछ है ऐसा मालूम होना (Sensation of some thing alive)—कैल्के-फास, कैना-से, क्रोक, थ्यरा, साइक्ला, केलि-आयोड, लाइको, मार्क, नक्स वोम, सेबाडि, सेंगु, स्ट्रैमो, थ्यान्सि, सल्फ, थूजा।

„ झूल पड़ने जैसा मालूम हो आँतमें (As if intestines were hanging down)—इग्ने, सोरि।

झूला हुआ पेट (Pendulous abdomen)—बेल, क्रोकस, प्लेटि, पोडो, सिपि, जिङ्क।

„ प्रसवको वजहसे—आइयो, नेट्रम-कार्ब, सिपि।

टिफलाइटिस—"प्रदाह" देखिये।

ठण्डा मालूम होना (Coldness)—ऐकोन, ऐमोन, ऐम्ब्रा, आर्स, कैल्के, कैम्फ, चेलिडो, केमो, चायना, कोलचिकम, कोलोसि, क्रोटन, प्लेटि, केलि-बाई, केलि-कार्ब, लोरोसि, लिनि, मार्क, मेजि, नेट्रम-म्यूर, पेरि फास, पोडो, पल्स, सिकि, सिपि, सल्फ, टैबै, टेरि, थिरि, जिङ्क।

„ एक पार्श्वमें—ऐम्ब्रा।

„ कोखमें (Hypochondria)—कैड-म्यू, नक्स-वोम।

„ तलपेटमें (Hypogastrium)—प्लम्ब।

„ नाभीमें—कोलोसि, क्रियो ओट, रैटा, स्टा, टेरि।

„ निःश्वासके साथ (श्वास छोड़ना)—चायना।

„ पानी, ठण्डा मानो भीतर—कैना से।

„ पुट्ठेमें (Hypogastrium)—प्लम्ब।

„ बाहर (External)—मेडो, मार्क, सिक।

खुजली, सवेरे, पोशाक पहिननेके समय—नक्स-वोम।

„ सन्ध्याम पोशाक उतारनेके समय—कैक्ट, नक्स-वोम।

„ रातमें—ऐगा, क्रोटन-टिग, नक्स-वोम, फास, **सल्फ,** थूजा।

खोलना, भाफ उठना (Fermentation)—ब्राइयो, केल्क, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **चायना,** ग्रैने, हिपर, **लाइको,** मैग म्यूर, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सार्सा, ष्ट्रैमो, सल्फ।

„ ऋतुके समय—**लाइको,** फास।

„ फल खाकर—**चायना।**

चर्मोद्भेद (Eruption)—ऐगा, ऐना, एपि, आर्स, वैरा-म्यू, ब्राइयो, केल्क, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फास, रास-टक्स, सल्फ।

„ दाने ऋतुके-पहले (Rash before menses)—एपिस।

„ पीब भरे दाने (Pustules)—क्रोटन-टिग, कैलि-बाई, मार्क, पल्स, स्क्विड।

„ फुन्सियाँ (Pimples)—ऐगा, आर्नि, आर्स, बेरा-म्यूर, ब्राइयो, डाल्का, मार्क, नेट्र-म्यूर, पेट्रो, रास-टक्स, स्टैफि।

„ फोडा—फास, रास-टक्स, सिके, जिङ्क।

„ „ कोखमें—आर्स, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, रास-टक्स, ष्ट्रैमो।

„ रस भरे दाने—(Vesicles)—आर्नि, कैलि बाई, मार्क, मार्क-कोर, रास-टक्स।

„ हार्पिस (खसडा Herpes)—सिपि।

जकड रखना (सिकोड Contraction)—ऐकोन, बेल, कैमो, कुप्रम-ऐ, हिपर, मार्क, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ।

„ सवेरे—फास-ऐ।

„ ऋतुके पहले—ऐमोन-कार्ब, नेट्रम-म्यूर।

„ नाभीकी जडमें (Umbilicus)—चेलि, काकि, कोलोसि, ग्रैफो, नेट्रम-कार्ब, फास, प्लम्ब।

जखम (Ulcers)—आर्जे नाई, **आर्स,** केल्क, बेरा-म्यू, **कार्बो-वेज,**

दर्द, रातमें, आधीरात—आर्जेण्ट-नाई, चायना, काफि, कोलोसि, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

„ अर्श के कारण—इस्कि, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ, वेर्लें।

„ आक्रमण धीरे धीरे—घटना धीरे धीरे—प्लैटि, स्टैनम।

„ „ तेजीसे—घटना भी जल्दीसे—वेल, वाइवर्नम।

„ ऋतुके पहले—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, कास्टि, कैमो, काकि, कोलोसि, क्रोकस, इग्ने, कैलि कार्ब, लेके, मैग-कार्ब, मैग-फास, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

„ „ समय—ऐमोन-कार्ब, वेल, बोरा, बोमि, कैल्के-फास, कास्टि, कैमो, चायना, सिमि, काकि, कोलोसि, साइक्ला, यें फा, इग्ने, कैलि-कार्ब, कैलि-नाई, लेके, मैग-कार्ब, मिलि, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, निको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, सेवाइना, सार्सा, सिकि, सिपि, साइलि, सल्फ, वाइब।

„ „ बाद—क्रियो, लेके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पल्स।

„ „ स्राव (ऋतु) आरम्भ होगा मानो (As if menses would appear)—ऐलो, एपि, क्रोकस, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, म्यू-ऐसि, नेट्रम-कार्ब, प्लैटि, पल्स, सिपि।

„ कलियतकी वजहसे—चार्म, वेल, कोना, फूमम, कैलि-कार्ब, प्लम्ब, साइलि सल्फ-ऐ, थूजा।

„ क्रोधकी वजहसे—कैमो, कोलोसि, नक्स-वोम, स्टैफि, सल्फ।

„ खांसनेके समय—ऐनिका, ऐसलि-टि, वेल, ब्राइयो, कार्बो ऐनि, कोलचि, ड्रोसि, फेरम, हाइयो, मेके, माइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रैना-ब, रास टक्स, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—चार्म, वेल, ब्राइयो, कैमो, कोना, इपि, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सिरि।

„ गाड़ी चढ़नेपर—कार्बो वेज, नेट्रम-म्यूर, ग्रोरि, सिपि।

„ „ में [illegible] झोंकनेके लिये वाध्य करता है (Compels him to bend

ठण्ढा भोजनके बाद—चेलिडो, चायना, पल्स, सल्फ।

ढब ढवाना (Tympanitis)—"खोखला" देखिये।

ढेला मालूम होना (Sensation of a lump)—ऐण्टि-टार्ट, ब्राइयो, नक्स-म, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ।

" नाभीमें—स्पाई।

दर्द (Pain, aching, dull pain) थोड़ा थोड़ा दर्द—ऐकोन, इस्कि, ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-म्यूर, एपि, **आर्स**, ऐसाफि, ऐसार, बेल, ब्रोमि, **ब्राइयो**, कैल्के, कैल्के-फास, **कैन्थ**, केप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, सिना, सिमि, **काकि**, काफि, **कोलचि**, **कोलोसि**, कोपे, **कूप्रम**, कूप्रम-ऐ, डायो, **डाल**, यूफ्रे, फेरम, ग्रैने, हाइड्रो, **इपि**, आइरि, **केलि-कार्ब**, केलि-नाई, लोरोसि, लिडम, लाइको, मिफा, मार्क-कौर, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-सल्फ**, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, आकजा-ऐ, पेट्रो, **फास**, पोडो, सोरि, **पल्स**, रैना-ब, रैफि, रियुम, रास-टक्स, रूमेक्स, **सिपी**, सेने, सिना, **सिपि**, साइलि, स्टैफि, सल्फ, टेरि, थूजा, **विरे**।

" सवेरे—ऐलो, कैल्के, कास्टि, कैमो, कोलोसि, डायस्को, हिपर, लाइको, मैग-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फास, पोडो, टिलि-ड्रि, पल्स, **सिपि**, सल्फ, विरे।

" " उठनेके बाद—नेट्रम-सल्फ, फास सिपि।

" " नींद खुलनेपर—ब्राइयो, कैल्के, लाइको, पल्स।

" दोपहरमें—कैल्के-सल्फ, चायना, कोलोसि, लाइको नेट्रम-सल्फ, थूजा।

" तीसरे पहर—कोलोसि, लाइको।

" सन्ध्यामें—ऐकोन, बेल, चायना, डाल, आइरि, लाइको, मैग-म्यूर, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, वैले।

" रातमें—ऐकोन, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, आरम, कैल्के, फेरम, मैग-म्यूर, **मार्क**, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-मस, प्लम्ब, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ।

दर्द, बार बार होनेवाला—कैमो, काकि, **कोलोसि**, कूप्रम, डाय, इग्ने, मैग-फास, नक्स-वोम, प्लम्ब।

" भयानक—ऐलो, ऐण्टि-टार्ट, एपि, आर्स, कैमो, कोलचि, कोलोसि, कूप्रम, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास, **प्लम्ब**।

" भोजनके समय—कैल्के-फास, कोलचि, म्यू-ऐ, प्लैण्टे।

" " बाद—आर्स, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, ग्रेने, लाइको, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, **स्टैफि**, सल्फ, **विरे**, जिङ्क।

" भोजनके बाद, आइसक्रीम,—**आर्स**, कैल्के-फास, पल्स।

" " " आलू—ऐल्युमि, कोलोसि, मैग-कार्ब, मार्क-कोर।

" " " फल—चायना, पल्स, विरे।

" " " फूल—रियुम।

" मिचलीके साथ—आर्जेण्ट-नाइ, **कोलोसि**, इपि, कैलि-कार्ब, आक्जे ऐ, फास ऐ, सल्फ।

" विरक्तिके कारण—कोलोसि।

" शूलका दर्द (Colic)—ऐलो, ईथू, ऐनो, ऐल्युमिना, ऐलु, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, ऐसार, बेल, बोवि, केल्के, कार्बो-वेज, **कैमो**, चायना, **काकि**, कोलचि, **कोलोसि**, कोना, कोपे, कूप्रम, डायस्को, **डार्स**, यूफ, फेरम, इग्ने, आइरि, कैलि-कार्ब, लोरो, **लाइको**, **मैग-फास**, मेजे, नेट्रम-सल्फ, **नक्स-वोम**, ओलि, पेट्रो, फास-ऐ, **प्लम्ब**, पोडो, **पल्स**, सिके, **सेना**, स्टैनि, सल्फ, **विरे**।

" " सामयिक—आर्स, कैल्के, **कैमो**, चायना, सिमि, कोलोसि, कूप्रम, इपि, आइरि, नक्स-वोम, सल्फ।

" " सीसाके सम्बन्धमें (Lead colic)—**ऐल्युमि**, **ऐलु**, आर्स, **कोलोसि**, **ओपि**, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

double)—आर्स, कास्टि, कैमो, कोलोसि, आइरि, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा।

दर्द, घूमनेकी समय—वेल, ब्राइयो, चायना, कोलोसि, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, रैना-ब, सल्फ।

„ चित्तविकारकी वजहसे (रोग शोकादि Emotion)—एकोन, कैमो, **इग्ने**, स्टैफि।

„ ठण्ड लगकर—ऐल्यूमि, **कैमो**, **चायना**, कोलोसि, **डाल**, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, विरे।

„ पतले दस्त आनेके समय (उदरामय)—आर्जेण्ट-नाई, आर्स, वेल, ब्राइयो, **कैमो**, चायना, कोलचि, **कोलोसि**, कौपि, **चायना**, **गैम्बो**, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फास, **पोडो**, पल्स, रियुम, सल्फ, ट्राम्बि।

„ „ पाखाना जानेके पहिले—ईथू, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, कैमो, कार्ब, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, गैम्बो, ग्रैने, मेडो, मार्क, मार्क-कोर, नक्स-वोम, पोडो, **थूजा**।

पाखाना जानेके पहिले—बैरा-कार्ब, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, लाइको, मैग-कार्ब, मेजि, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, फास, पोडो, **पल्स**, रियुम, सिपि, सल्फ, ट्राम्बि, विरे।

„ „ समय—ऐरानि, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कोना, डाल, कैलि कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, म्यू-ऐ, पोडो, रियुम, रास-वे, **जिङ्क**।

„ „ बाद—चायना, **नाइट्रि-ऐ**, पोडो, पल्स, रियुम, जिङ्क।

„ पीनेके बाद—आर्स, वेल, कास्टि, मैन्सि, नक्स-मस, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, **स्टैफि**, सल्फ।

„ „ बहुत ज्यादा उत्तप्त होनेपर—आर्स, **कोलोसि**, कैलि-कार्ब।

„ „ ठण्डा—केल्के, केल्के-फास, डाल, नक्स-वोम, रास-टक्स।

„ „ दूध—ऐगू, ब्राइयो, ब्यूफो, कार्बो-वेज, कोना, सल्फ-ऐ।

„ माण्डो—**इग्ने**।

दर्द, बार बार होनेवाला—कैमो, काकि, कोलोसि, क्रूप्रम, डाय, इग्ने, मैग-फास, नक्स-वोम, प्लम्ब।

" भयानक—ऐलो, ऐण्टि-टार्ट, एपि, आर्स, कैमो, कोलचि, कोलोसि, क्रूप्रम, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब।

" भोजनके समय—कैल्के-फास, कोलचि, म्यू-ऐ, प्लैटि।

" " बाद—आर्स, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, ग्रैफे, लाइको, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, स्टैफि, सल्फ, विरे, जिङ्क।

" भोजनके बाद, आइसक्रीम,—आर्स, कैल्के-फास, पल्स।

" " " आलू—ऐल्यूमि, कोलोसि, मैग कार्ब, मार्क-कोर।

" " " फल—चायना, पल्स, विरे।

" " " फूल—रियुम।

" मिचलीके साथ—आर्जेण्ट-नाइ, कोलोसि, इपि, कैलि-कार्ब, म्यूरे ऐ, फास ऐ, सल्फ।

" विरक्तिके कारण—कोलोसि।

" शूलका दर्द (Colic)—ऐलो, ईथू, ऐलो, ऐल्यूमिना, ऐन्ट, ऐमोन कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, ऐसार, बेल, बोवि, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, कोना, कोपे, क्रुप्रम, डायस्को, डल्क, यूफ फेरम, इग्ने, आइरि, कैलि कार्ब, लोरो लाइको, मैग फास, मेजे, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, ओपि पेट्रो, फास ऐ, प्लम्ब, पोडो पल्स, सिके, सेना, स्टैनि, सल्फ विरे।

" " सामयिक—आर्स, कैल्के, कैमो, चायना सिमि कोलोसि, क्रुप्रम इपि, आइरि, नक्स वोम, सल्फ।

" " सीसाकी वजहसे (Lead colic)—ऐल्यूमि, ऐलम, आर्स, कोलोसि, ओपि, प्लैटि प्लम्ब पोडो सल्फ ऐ जिङ्क।

(double)—आर्स, कास्टि, कैमो, कोलोसि, आइरि, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा।

दर्द, घूमनेके समय—बेल, ब्राइयो, चायना, कोलोसि, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, रैना-ब, सल्फ।

„ चित्तविकारकी वजहसे (रोग शोकादि Emotion)—एकोन, कैमो, **इग्न**, स्टैफि।

„ ठण्ड लगकर—ऐल्यूमि, **कैमो**, **चायना**, कोलोसि, **डाल**, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, विरे।

„ पतले दस्त आनेके समय (उदरामय)—आर्जेण्ट-नाई, आर्स, बेल, ब्राइयो, **कैमो**, चायना, कोलचि, **कोलोसि**, कोपे, **चायना**, **गेम्बो**, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फास, **पोडो**, पल्स, रियुम, सल्फ, ट्राम्बि।

„ पाखाना जानेके पहिले—ईथू, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, कैमो, कार्ब, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, गैम्बो, ग्रैने, मेडो, मार्क, मार्क-कोर, नक्स-वोम, पोडो, **थूजा**।

पाखाना जानेके पहिले—बैरा-कार्ब, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, लाइको, मैग-कार्ब, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, फास, पोडो, **पल्स**, रियुम, सिपि, सल्फ, ट्राम्बि, विरे।

„ „ समय—ऐरानि, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कोना, डाल, कैलि कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, म्यू-ऐ, पोडो, रियुम, रास-वे, जिङ्क।

„ बाद—चायना, **नाइट्रि-ऐ**, पोडो, पल्स, रियुम, जिङ्क।

पीनेके बाद—आर्स, बेल, कास्टि, मैनृसि, नक्स-मस, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, **स्टैफि**, सल्फ।

„ „ बहुत ज्यादा उत्सर्ग होनेपर—आर्स, **कोलोसि**, कैलि-कार्ब।

„ „ ठण्डा—कैल्के, कैल्के-फास, डाल, नक्स-वोम, रास-टक्स।

„ „ दूध—ईथू, ब्राइयो, ब्यूफो, कार्बो-वेज, कोना, सल्फ-ऐ।

„ मांडी—इग्ने।

दर्द, नाभिके स्थानमें (Umbilical region)—ऐलि-सि, ऐलोज, ऐमोन-म्यूर, बेल, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, सिना, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, **डाइयो**, डाल्का, इपिकाक, आइरि-वार्स, लेप्टा, लाइको, नक्स-वोम, प्लम्ब, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ „ रातमें—इस्कि, कैल्के, कैमो, चायना, कोलोसि, आवाजे, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ पुट्ठे में (Inguinal region)—ऐपि, आर्स, कैल्के, कार्बो वेज, चेलिडो, कोलोसि, डालका, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, नक्स-वोम, सल्फ, थूजा।

„ दाहिने—इस्क्, आर्स, बेरा-का, कैलि-बाई, मार्क, साइलि।

„ बायें—आर्स, कैल्के, चेलिडो, क्रोटन-टिग, सिपि।

„ प्लीहामें—आर्नि, कार्बो-वेज, **सियोनो**, चेलिडो, **चायना**, काक, फ्लू-ऐ, हैलोनि, इग्ने, आइयो, लैके, मेजे, नेट्रम म्यूर, पेट्रोलियम, फास, सैङ्ग, सल्फ।

„ „ खाँसनेके समय—चिनि-स, सल्फ-ऐ।

„ „ घूमनेके समय—आर्नि, हिपर, इग्ने, लैके, प्लोडो, सिपि।

„ „ बाईं तरफ सोनेमें—ऐगा, कोलचि।

„ „ शीतावस्थामें—आइयो, **चिनि-स**, युपे-पर्फ, **पोडो**।

„ यकृतमें—ऐकोन, **इस्कि**, ऐम्ब्रा, आर्ज-नाइ, बेप्टी, **बेल**, आइयो, कैम्फ़े, कार्बो ऐनि, **चेलिडो**, चायना, चिनि स, क्रोटे-टो, कैलि-कार्ब, **लेकि**, निट्रम, **लाइको**, मार्क, मार्क-कोर, मार्क या फ्ले, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-सल्फ**, **नाट्रिफ्र-ऐ**, नक्स वोम, फास, **पोडो**, प्रूण-स्पा, टेलि हि, सिपि, सल्फ, टेरे।

„ „ ऋतुके पहले—कोनायम, मक्स म, पोडो, पल्स।

„ „ „ समय—प्लूफो, मक्स म, फास ऐ।

„ „ घूमने फिरने—कोनायम, हिपर, कैलि-कार्ब मैग म्यूर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम सल्फ, सोरि, सिपि थूजा।

„ „ आरामावस्थामें—आर्स, चायना, इग्नेर, मक्स वोम।

„ फैलता है दाहिनेसे बायें—मार्क-या फ्ले।

दर्द मूलका, फैलता है, अण्डकोषमें (Testicle)—डिजि, प्लम्ब, पल्स, सिके, टियु।

„ „ उरुमें—ऐलो, कैमो, कोलोसि, नक्स-वोम, सिपि, स्ट्रैमो।

„ „ गुह्यद्वारमें—ऐलो, नक्स-म।

„ „ जननेंद्रियमें—लाइको, **पल्स**।

„ „ नीचेके अङ्गमें (Lower limbs)—प्लम्ब, सिपि।

„ „ मलद्वारमें (Anus)—ऐलो, कोलोसि, **क्रोटन-टिग**, हाइड्रो, इपि, लीडम, मैग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रास टक्स, सेङ्गु, सल्फ।

„ „ योनिमें (Vagina)—आर्स, कैल्के-फास, क्रियो।

„ „ इलियोसिकेलमें (Ilio-cæcal region)—ब्राइयो, चायना, काफि, **मार्क-कोर**, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लम्ब, टेरि, विरे।

„ कोखमें (Hypochondriac region)—ऐलो, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, सिनाबे, डिजि, डाय, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, कैलि-कार्ब, **लाइको**, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-सल्फ**, नक्स-वोम, टिलि-ट्रि, पल्स, रैना-ब, सल्फ, जिङ्क।

„ „ दाहिने—इस्कि, **चेलिडो**, चिनि-सल्फ, कैलि-बाई, **लाइको**, नेट्रम-म्यूर, सैंगु, सल्फ।

„ „ फैलता है पीठतक (Back)—इस्कि, **चेलिडो**, कैलि कार्ब, **मैग-म्यूर**, नेट्रम-म्यूर।

„ „ बायें—कैल्के, काक, मैग-कार्ब, रास-टक्स, सैङ्गु, टेरे।

„ तलपेटमें (Hypogastric region)—ऐकोन, आर्नि, **आर्स**, कैल्के-फास, चायना, कोलोसि, कोनायम, डाइयो, लिलि-टिग, मार्क, नक्स-वोम, सिकि, **सिपि**, सल्फ, **विरे**।

„ नाभिमें मूल (Umbilicus)—ऐलोज, कैल्के, चेलिडो, चायना, सिना, कोलोसि, डाइयो, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, आकजे-ऐ, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, सिपि, साइलि।

दर्द काटता है मानो, कोखमें—अरम, कोलोसि, येका, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, पल्स, रैना-ब, स्ट्रैनम।
" " " दाहिने—अरम, टिलि-ड्रि।
" " " बायें—आर्ज-मेट, आर्ज-नाइ, बोरा।
" " खाँसनेसे—केमो, चायना, वेले, विरे।
" " नाभि-मूलमें—ऐण्टिम-टार्ट, चिनि-स, पल्स, साइलि।
" " नाभिकी जगहमें (Umbilical region)—कोलोसि, डाइयो, डाल्का, इपिकाक, कैलि-कार्ब, केलि-आयोड, मैङ्ग, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपियम, पल्स, रियुम।
" " पाखाना जानेके पहले—ऐकोन, ऐलोज, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ऐसार, कोलोसि, डाल्का, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रिक-ऐ, पल्स, रस-टक्स, सल्फ।
" " " समय—ऐलोज, आर्नि, ऐसार, कोल्चि, मार्क कोर, सल्फ।
" " " बाद—ऐमोन-कार्ब, कोल्चि, कोलोसि, मार्क, मार्क कोर, पोडो, सल्फ।
" " पीनेके बाद—आर्स, कोल्कि-फास, नेट्रम-म्यूर, स्टैफि।
" " " दूध—जिङ्क।
" " ग्रीवामें—सियेनो, चायना, क्रोटे-टी, टिलि ड्रि, थार्ब।
" " पुट्ठेमें (Inguinal region)—कोल्चि, कोलोसि, लाइको, मैग-कार्ब।
" " " चलनेके समय—आर्ज ना, नेट्र म्यू, सिनि।
" " फैलता है दाहिनेसे बायें—लाइको।
" " " बायेंसे दाहिने—इपि।
" " भोजनके समय—ऐलोज, गेटि, जिङ्क।
" " " बाद—ऐण्टिम टार्ट, आर्स, बेलिडो, कोलोसि, [illegible], [illegible] लाइ, नेट्रम म्यूर, पेट्रो, स्टैफि जिङ्क।
" " [illegible]—[illegible], [illegible] कार्ब, [illegible] कार्बो [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।
" " [illegible] (Hypogastric region)—[illegible] कोलोसि [illegible] डाइस्को, [illegible]

दर्द यकृतमें फैलता है, पीठ तक—इस्कि, **चेलिडो**, आइयो, नेट्रम-म्यूर।
" " बार बार होनेवाला—फास-ए, जिङ्क।
" " भोजनके बाद—मैग-म्यूर, टिलि-ड्रि।
" " मानसिक परिश्रमके बाद—मार्क, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम।
" " शूलका दर्द, पित्त-शिलाके कारण (Gall stone colic)—आर्स, बेप्टी, बेल, बार्ब, ब्राइयो, कैमो, चेलिडो, चायना, कूप्रम, डिजि, आइरि, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, लौरो, लेप्टा, लाइको, मार्क, **नेट्रम-सल्फ**, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सिपि, विरे।
" " शीतावस्थामें—आर्स, ब्राइयो, चायना, नक्स-वोम, **पोडो**, विरे।
" " सोनेमें, दाहिनी तरफ—बेल, डाइयो, मैग-म्यू, मार्क, सोरि, सिपि।
" " " बाईं तरफ—आनि, मैग-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, टिलि-ड्रि।
" " हिलने डोलने पर—सिपि।
" " घटना, आहारके बाद—चेलिडो।
" " " गर्म पतली चीजोंके पीनेसे—ग्रैफा।
" " " सोनेसे, चित होकर—मैग-म्यूर, नेट्रम-सल्फ।
" " " " दाहिनी तरफ—मैग-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, टिलि-ड्रि।
" " बढ़ना, दबानेसे—बेल, बार्ब, क्लिमे, सोरि, सैबाडि, सिपि, टैबे।

दर्दका प्रकार—

" जकड़कर पकड़नेकी तरह (Clawing)—"खींचना" देखिये।
" काटता है मानो (Cutting)—**एकोन**, ऐगा, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जे-नाई, आर्स, बोराक्स, ब्राइयो, कैल्के, **कैन्थ**, कैम्फि, कार्लस, कैमो, चेलिडो, **चायना**, कोलचि, **कोलोसि**, कूप्रम, डिजि, **डाइयो**, डाल्का, इलाटे, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपिकाक, आइरि, जुग्ला-सि, **कैलि-कार्ब**, लैके, लौरो, लिडम, लाइको, **मैग-कार्ब**, मैन्सि, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-सल्फ**, नाइट्रि-ए, **नक्स-वोम**, ओलि-ऐं, **ओपियम**, आक्जे-ए, पेट्रो, फास, **पल्स**, रियुम, रास-टक्स, सैबाडि, सिकै सिपि, साइलि, **स्पाई**, स्टैफि, सल्फ-ए, सल्फ, **विरे**, वार्बा, वायो-ड्रि।

दर्द काटता है मानो, कोखमें—आरम, कोलोसि, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, पल्स, रैना-ब, स्टैनम।

" " " दाहिने—आरम, टिलि-ड्रि।

" " " बायें—आर्ज-मेट, आर्ज-नाइ, बोरा।

" " खाँसनेसे—कैमो, चायना, वैले, विरे।

" " नाभि-मूलमें—ऐण्टिम-टार्ट, चिनि-स, पल्स, माइलि।

" " नाभिकी जगहमें (Umbilical region)—कोलोसि, डाइयो, डाल्का, इपिकाक, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, मैङ्ग, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपियम, पल्स, रियुम।

" " पाखाना जानेके पहले—ऐकोन, ऐलोज, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ऐमार, कोलोसि, डाल्का, मेग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रिक-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" " " समय—ऐलोज, आर्नि, ऐमार, कैल्क, मार्क कोर, सल्फ।

" " " बाद—ऐमोन-कार्ब, कैल्क, कोलोसि, मार्क, मार्क कोर, पोडो, सल्फ।

" " पीनेके बाद—आर्स, कैल्के-फास, नेट्रम-म्यूर, स्टैफि।

" " " दूध—जिङ्क।

" " ग्रीवामें—मियेनो, चायना, क्रोटे-टी, टिलि ड्रि, थायें।

" " पुट्ठेमें (Inguinal region)—कैल्क, कोलोसि, लाइको, मैग-कार्ब,

" " " चलनेके समय—आर्ज-ना, नेट्र म्यू, मिनि।

" " फैलता है दाहिनेसे बायें—लाइको।

" " " बायें से दाहिने—इपि।

" " भोजनके समय—ऐमोन, पेटि, जिङ्क।

" " " बाद—ऐण्टिम टार्ट, आर्स, बेलिडो [illegible], [illegible], कैलि-कार्ब, नेट्रम म्यूर, पेट्रो, स्टैफि, जिङ्क।

" " यकृतमें—पिड़, आरम आर्स, कैल्क [illegible], [illegible], [illegible] आइरि, सेके।

" " वस्तिमें (Hypogastric region)—[illegible], [illegible] डायस्को, [illegible] कैलि कार्ब [illegible] [illegible], [illegible]

दर्द काटता है, वैद्युतिक कम्पनकी तरह मलद्वारसे निकलता है—कोलोसि।
" " घटना, उत्तापसे—सल्फ।
" " " खुली हवासे—ऐलो, कैलि-आयोड।
" " " ठण्डा पानी पीनेसे—कैना-
" " " डकारसे—रैटा।
" " " पाखाना जानेके बाद—ब्र। ो, कास्टि, नेट्रम-स्यू र, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स सल्फ।
" " " सिकुड कर सोनेसे (Bending double)—कोलोसि, कैलि-कार्ब, स्टैफि।
" " " हवा छूटनेपर—कोनायम, हाइड्रो, प्लम्ब, सल्फ।
" खरोंचनेकी तरह (Clawing)—ऐलूमि, आर्स, बेल, कार्बो-ऐनि, कोलोसि, हिपर, ड्रूपि, मस्क, सिपि, जिङ्क।
" " कोखमें (Hypochondriac region)—बेल, नेट्रम-स्यू र, रोडो।
" " नाभीमें (Umbilical region)—ऐकोन, बेल, हिपर, क्रियो, पेट्रो, स्टैनम।
" " पुट्ठे में (Inguinal region) —कैलि-आयोड।
" खोंचादेना (Shooting)—ऐकोन, बेल, सिनि, कैलि-कार्ब, ओपि, फास, प्लम्ब, सल्फ।
" " कोखमें (Hypochondriac region)—ऐकोन, ब्रायोनी, कैलि, कार्ब, लैके, रैना-ब, सल्फ।
" " " दाहिने—ऐकोन, ऐगा, कैल्के-फास, टिलि-ट्रि, रास-टक्स, टेरे।
" " " बायें—ऐलूमि, फेरम।
" " नाभीमें (Umbilical region)—बेल, प्लम्ब, सल्फ।
" " प्लीहामें—ऐलूमि, आर्नि, लैके, सल्फ।
" " पुट्ठेमे (Inguinal region)—बेल, बोराक्स, कैल्के-स, सल्फ, टेरे, वाइबा।
" " " दाहिने—स्यू रेक्स।
" " " बायें—बेल, कैल्के-स, नेट्रम, टेरे।

दर्द खोंचादेना, यकृतमें—चेलि, चायना, क्रोटे-हो, लेप्टा, नक्स-वोम, आकुलै-ऐ।

„ चबाता है मानो (Gnawing)—ऐमोन कार्ब, कैल्के, कैन्थ, कोलचि, कोलोसि, कूप्रम, डाल, हेलेटे, प्रम्ब, रूटा, सल्फ।

„ दबा रखनेकी तरह मालूम होना (Pressing)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐगिट-टार्ट, आर्जे-ना, वेल, बिस्मथ, कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, कास्टि, चायना, कोना, कूप्रम, युफ्रे, ग्रेफि, लेके, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम म्यूर नक्स-वोम, ओपि, पेरि, पेट्रो, प्लैटि, पल्स सिपि, स्पाइ, सल्फ, टेरि, जिङ्क।

„ „ कोखमें (Hypochondriac region)—ऐकोन, ऐगा, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमोन म्यूर, पोडो, बोरा, ब्राइयो, चायना, कोना, क्रोटन-टिग, लाइको, म्यू-ऐ, सिपि, साइलि।

„ „ „ दाहिने—चेलिडो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, साइलि।

„ „ „ बायें—इग्नू, आर्जेण्ट-नाइ, बोरा, क्रोटन-टिग, नेट्रम कार्ब।

„ „ नाभिमें—ऐना, चायना, कोलोसि, डाय, लैके, नेट्रम म्यूर, रेना-म्यूर, स्पाइ, सल्फ, वार्ये।

„ „ पत्थर दबाया गया है मानो—बेल, कूप्रम, मार्क, ओपि।

„ „ परिश्रमसे—कैल्के, पैले।

„ „ प्लीहामें—आर्स, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-स, फ्लू-ऐ, इग्ने, क्रियो, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, सल्फ।

„ „ पुट्ठेमें—ऐलूमि, कैलि-आयोड, प्लैटि, सल्फ।

„ „ भोजनके बाद—फेरम, लाइको, नक्स वोम।

„ „ यकृतमें—ऐकोन, ऐलो, ऐम्ब्रा, आर्स, ऐगारि, ब्राइयो, कार्बो ऐनि, कार्डु-मे, चेलिडो, चायना, कैलि-कार्ब लाइको, मैग म्यूर, मार्क, नेट्रम म्यूर, नक्स मस, नक्स-वोम, प्लम्बा, रूटा सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ „ जननेन्द्रिय की तरफ (Towards genitals)—ब्रिम, लिलि-टिग, नेट्रम कार्ब नक्स-वोम, प्लैटि पल्स, सिपि, सल्फ।

दर्द, दबा रखनेकी तरह मालूम होना, यकृतमें, बाहरकी तरफ—कार्बो-ऐ, कैलि-कार्ब, लिलि-टिग, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, पल्स, **सिपि**।

„ „ वस्तिमें (Hypogastrium)—एपि, **बेल**, कैल्के, हेलोनि, **लिलि-टिग, लाइको**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, **प्लैटि, पल्स, सिपि**, सिकि, सल्फ।

„ फाड डालनेकी तरह (Tearing)—ऐमोन-कार्ब, आर्स, कौक, कैमो, कोलचि, **कोलोसि**, कौपे, साइक्ला, ग्रैफा, लाइको, मैग-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ प्लीहामें—ऐम्ब्रा, कोना।

„ „ यकृतमें—कास्टि, क्लिमे, कोना, क्रियो।

„ मरोडन, ऐंठन (Griping, Cramping)—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-म्यूर, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्स, ऐसाफि, बेल, बिस्मथ, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, **कार्बो-वेज**, कैमो, चायना, सिना, **काकि**, कोलचि, **कोलोसि**, क्रोटन-टिग, **कूप्रम**, साइक्ला, **डायस्को**, डाल, इलेटे, युफ, युफ्रे, ग्रैने, ग्रैफा, ग्रैटि, हेलि, हाइड्रो, हाइयो, इग्ने, इपि, आइरि, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मैग-फास, मार्क, म्यूरि-ऐ, नेट्र-म्यूर, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओपि, फाइटो, **पोडो, पल्स**, रैफे, रियूम, रास-टक्स, रूमेक्स, सिपि, साइ, **स्पञ्जि**, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, सल्फ, वैले, विरे, जिङ्क।

„ „ उदरामयकी वजहसे, पाखाना जानेके पहले—**ऐलो**, आर्स, ब्राइयो, कोलोसि, मेग-कार्ब, **पोडो**, सल्फ, ड्राम्बि, विरे।

„ „ „ समय—एपिस, बोरैक्स, आइरि, मार्क, सल्फ।

„ „ „ बाद—आर्स, लिलि-टिग।

„ „ कोखमें (Hypochondriac region)—कैल्के, इपि, लैक-ऐ, लाइको, सल्फ, जिङ्क।

„ „ नाभिमें (Umbilical region)—ऐकोन, ऐलो, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, चेलि, चायना, **कोलोसि**, क्रोटन, **डाय**, गैम्बो,

आइयो, लोरी, नक्स-वोम, फाइटो, लिलि-टिग, रफि, सल्फ, जिङ्क।

दर्द मरोड़, पाखाना जानेके पहले—ऐलो, गैम्बो, मेग-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, सल्फ, इग्नि।

" " " समय—ऐगा, ऐलो, लिलि-टिग, मार्क, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, सेना, सल्फ।

" " " बाद—ऐलो, कार्बो-वेज, कोलोसिन्थ, नेट्रम-म्यूर, ओपि, सल्फ।

" " पीनेके बाद, जल—कैमो, कोलोसि, नेट्र म्यूर, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स।

" " पुट्ठेमें (Inguinal region)—ऐलो, कार्बो-वेज, गैम्बो, मेग-कार्ब, सल्फ।

" " मूर्च्छा प्रवण रोगीका—काकि, इपि, मेग म्यूर, मस्क, नक्स मोम, स्टैनम, स्ट्रैमो, वेले।

" " वस्तिमें (Hypogastric region)—ऐकोन, डायस्को, प्लम्बा, सल्फ।

" " घटना गरमसे—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब।

" " " गरम दूध पीनेसे—ओपि।

" " " " घरमें—ऐमोन-कार्ब।

" " " झुकनेसे, सामने (Bending forward)—डायस्को, कोलोसि, मेग फास।

" " " दबानेसे—कार्बो वेज, लिपि।

" " " दबानेसे—कोलोसि, पोडो।

" " पाखाना जानेके बाद—ऐगा, कोलोसि, मेग कार्ब, नक्स वोम।

" " " वायु निकलनेसे—ऐकोन, कार्बो, मेग-कार्ब, मार्क कॉर, नक्स म, पोलिसि, सल्फ।

" " घटना, सोनेसे पेटके बल—ऐमोन कार्ब।

दर्द, मरोडन घटना, हिलने डोलनेसे—रास-टक्स।

„ „ **बढ़ना**, झुकानेसे—सल्फ।

दर्दका प्रकार—

„ अकडन, दवानेपर दर्द होता है (Soreness, sensitiveness, tenderness)—**ऐकोन**, इस्कि, ऐलू, **एपिस**, आर्ज-नाई, **आर्निका**, **आर्स**, **वेप्टो**, **वेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, **कैमो**, सिना, **कोलचि**, कोलोसि, कोना, क्रोटे-होर, **कूप्रम**, साइक्ला, डाय, फेरम, ग्रैफा, हाइड्रा, हाइयो, कैलि-क्लोर, क्रियो, लैक-डिफ्लो, **लेकी**, लिलि-टिग, **लाइको**, मैग-म्यूर, मैन्सि, मार्क, मार्क-कोर, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, ओपि, पैले, **फास**, पोडो, पल्स, फाइटो, रैना-ब, रैफे, **रास-टक्स**, सार्सा, **सिलि**, स्टैनम, **सल्फ**, **टैरि**, आस्टि, विरे।

„ , इलियोसिकेल प्रदेशमें (Ilio-cæcal region)—आर्स, वेप्टी, **वेल**, **ब्राइयो**, कार्बो ऐ, गैम्बो, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, प्लम्ब, टैरि।

„ „ कोखमें (Hypochondriac region)—ऐम्ब्रा, **एपिस**, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, युपे-प, लाइको, नेट्रम-सल्फ, फास, रैना-ब, सल्फ।

„ „ „ दाहिने—ऐकि-स्पा, इस्कि, ऐम्ब्रा, **ब्राइयो**, चेलिडो, चायना, **लाइको**, फास, सल्फ।

„ „ „ बायें—ब्रोमि, कैल्के, आइयो, नेट्रम-म्यूर।

„ „ घूमनेके समय—वेल, कार्बो-ऐ, फेरम, फास, पल्स, सल्फ।

„ „ नाभिमें (Umbilical region)—कार्बो-वेज, कोलोसि, कैलि-कार्ब, मार्क, मार्क-आ-फ्ली, नक्स-वोम, पल्स, प्लम्ब, हाइड्रो।

„ „ पाखाना, जानेके पहले—नेट्रम-म्यूर, सल्फ, टैबे।

„ „ „ समय—आर्निका, सल्फ।

„ „ „ बाद—ऐमोन-म्यूर, क्रोटन-टिग, नेट्रम म्यूर, पल्स, सल्फ।

दर्द, अकाडन, प्लीहामें—कैल्के, कैप्सि, **चायना**, फेरम, फास, **रास-टक्स**।

" " पुट्ठेमे (Inguinal region)—क्लिमे, ग्रेफा, केलि कार्ब, रैना-ब, रास-टक्स, थेरि।

" " " ग्लैण्ड समूहमें—क्लिमे, कैप्सि, जेल्स, हिपर, मार्क, यूजा।

" " यकृतमें—एपिस, आर्जे-ना, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, युपे-प, फेरम, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-स, **नक्स-वोम**, फास, पोडो, टिलि-इ, सिपि, सल्फ।

" खींचकर रखनेकी तरह (Drawing)—ऐकोन, बेल, कैल्के, कैमेडि, **कैप्सि**, कोलोसि, कुप्रम, ग्रेने, हिपर, इग्ने, लैके, ल्योरो, लाइका, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पोडो, **सिपि**, सल्फ।

" " कोखमें (Hypochondriac region)—बार्बे, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, कक्क, कोलोसि, पल्स, सल्फ।

" " नाभिमें (Naval region)—कैल्के-फास, चेलिडो, क्लिमे, इग्ने, लैके, मेजे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स वोम, सिपि, सल्फ।

" " पुट्ठेमें (Inguinal region)—चेलिडो, क्लिमे, लाइको, प्लेटि, स्टैनम, यूजा, वैले, जिड्ड।

" " फैलता है, नाभिसे मलद्वार तक—लैके।

" " योनि तक—कैल्के-फास।

" " वस्तिमें (Hypogastrium)—बेल, कैन्थ, चायना, कोलोसि, प्लम्ब, वैले।

" जलन (Burning)—**ऐकोन**, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्स, बेल, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, **केप्सि**, **कार्बो-वेज**, कोका, ग्रेफा, क्रियो, ग्रोटो, लिलि-टिग, मेग्नि, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नक्स वोम, फाइटो, **फास**, रैना ब, सेबाडि, सिपि, सिलि, सल्फ, **टैरि**, थिरि।

" जलन, कोखमें (Hypochondriac region)—ऐकोन, एपिस, आर्सेनो, चेलिडो, ग्रेफा, लैके, मर्क, रैनि, थेरि।

दर्द जलन कोखमें दाहिने—आर्स, आरम-म्यूर, ब्राइयो, चेलिडो, गैम्बो, लैके, लोरो, म्यू-ऐ, प्लम्ब, स्टैनम, सल्फ, थूजा।

„ „ „ बायें—चेलिडो, ग्रैफा, टैवे, विरे।

„ „ नाभिमें (Umbilical)—**ऐकोन**, आर्स, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, लैके, लाइको, फास-ऐ, फाइटो, प्लम्ब, सैंगु, सल्फ-ऐ।

„ „ प्लीहामें—ऐनान्थि, वेल, कार्बो-ऐनि, कक्क, इग्ने, सिके।

„ „ पुट्ठेमें (Inguinal region)—आर्नि, आर्स, बार्ब, लिलि-टिग, फास, स्ट्रान्सि।

„ „ फैलता है पैर तक (Extending down leg)—**लिलि-टिग**।

„ „ यकृतमें—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ब्राइयो, कार्बो-वेज, गैम्बो, कैलि-कार्ब, प्लम्ब, स्टैनम।

„ „ वस्तिमें (Hypogastric region)—कैम्फ, फास-ऐ, स्टैनम, स्ट्रैमो।

„ प्रसवके दर्दकी तरह, जबरदस्ती बाहर खींच निकालनेकी तरह (Bearing down, Dragging)—ऐलो, आर्ज-नाइट्रि, **बेल**, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कोना, क्रोटन-टिग, फेरम, ग्रैफा, लैक-कै, **लिलि-टिग**, मार्क, म्यूरेक्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पैले, फाइटो, प्लैटि, **पल्स**, सिके, **सिपि**, **सल्फ**।

„ „ कोखमें (Hypochondriac region)—कैल्के, कैमो, कक्क पोडो, टिलि-ड्रि।

„ „ „ रातमें, बाईं तरफ सोनेसे—मैग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, टिलि-ड्रि।

„ „ पाखाना जानेके समय—आर्ज-नाइट्रि, टिलि-ड्रि।

„ „ „ बाद—कार्बो-वेज, ग्रैफा।

„ „ कांखनेके समय—कर्णा, **नक्स-वोम**।

„ „ पुट्ठेमें (Inguinal region)—कैल्के, कैमो, चेलिडो, क्लिमे, कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, फास, प्लैटि, टियु।

दर्द, प्रसवके दर्दकी तरह, घटना—ऊरुके ऊपर ऊरु रखनेसे (Crossing limbs)—लिलि-टिग, स्यूरेक्स, सिपि।

" " " घूमने फिरनेसे—सिपि, ट्रिलि, कैल्के।

" " " बढना हिलनेसे—क्रियो।

" मोच खा जाने जैसा दर्द (Twisting)—ऐण्टि-टार्ट, बार्स, कैल्के, कैम्फि, डिजि, डाय, इग्नेस, लाइको, मार्क, पेलि, प्लम्ब, स्टैफि।

" " नाभिमें—ब्राइयो, कैल्के, सिना, कोलोसि, डाल्का, प्लम्ब, रैना-ब।

" सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—ऐकोन, ऐलूमि, एपिस, आर्जे-नाइट्रि, बार्स, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कैमो, कोलचि, कोलोसि, साइक्ला, ग्रैफि, कैलि-कार्ब, मेग म, मार्क, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, सल्फ, टैरे, थूजा, मार्वा, वायो-ट्रि, जिङ्क।

" " कोखमें—ऐकोन, इथू, बार्स, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चिनि-स, कोना, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मार्क, नैट्रम-कार्ब, नैट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रैना-ब्यू, सिपि, सल्फ।

" " " दाहिने—चेलिडो, कैलि-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नैट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, सल्फ, जिङ्क।

" " " बायें—कैना-से, कोलचि, डिजि, इपि, मेग-कार्ब, पल्स।

" " छातीकी जडमें—क्रोटन-टिग, कैलि-कार्ब।

" " नाभिमें (*Umbilical region*)—ऐना, ब्राइयो, कोलोसि, मार्क-कोर, नक्स-वोम, प्लम्ब, सिपि, जिङ्क।

" " पार्श्वमें—ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, क्रोटन, इग्ने, कैलि कार्ब, नैट्रम कार्ब, नक्स वोम फास, फास्फो, प्लम्ब, सोरि, रैना ब, सैबाडि, सार्सा, सिपि, स्टैनम, सल्फ, टेरे, थूजा।

" " " दाहिने—एगा, बेरा का कार्ब, कैमो कैलि कार्ब, मर्क म, सिट्रि, स्पाइ, स्टैफि, थूमस।

" " " बायें—ऐम, ब्राइयो कास्टि, मैग मार्सा, सिपि, स्टैन, टेरे।

दर्द, सुई वेधनेकी तरह खोहामें—ऐकोन, **आर्स**, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, चायना, कोना, हिपर, मैग स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, सोरि, पल्स, रैना-सि, सल्फ-ऐ, सल्फ, जिङ्क।

„ „ „ गहरे श्वास प्रश्वाससे (On deep bieath)—ब्राइयो, चायना, मस्क, नेट्रम-कार्ब, रैना-सि, सैबाडि, सल्फ।

„ „ पुट्ठे में (Inguinal region)—ऐलूमि, आर्स, बार्ब, बोरा, ब्राइयो, कैन्थ, कैमो, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-सल्फ, सल्फ।

„ „ यकृतमें—ऐकोन, इस्कि, **बार्ब**, **ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, कास्टि, चेलिडो, काकि, कोलोसि, कोना, हिपर, कैलि-कार्ब, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्र-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पोडो, **रैना-ब**, रैनासि, सिपि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैबे।

„ „ „ खांसनेकी वजहसे—**ब्राइयो**, कार्बो-वेज, थुपे-प, कैलि-कार्ब, मार्क, नेट्रम म्यू।

„ „ „ श्वास प्रश्वाससे—ऐकोन, बार्ब, **ब्राइयो**, मार्क, नेट्रम-सल्फ, **रैना-ब**।

„ „ „ घटना, सोनेसे—काडु-मे।

„ **घटना**, गर्मीसे या गर्मीके प्रयोगसे—इथू, आर्स, बेरा-कार्ब, **कैमो**, कोलोसि, **मैग-फास**, नक्स-म, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सैबा, सिपि, **साइलि**।

„ „ घूमनेसे, टहलनेपर—चायना, कोलोसि, साइक्ला, डाय, फैगोपा, फेरम, मैग-कार्ब, पल्स, सल्फ।

„ „ डकारसे—बेरा-कार्ब, कार्बो-वेज, जुग्ना-रि, कैलि-ना, लैके, साइलि।

„ „ दबानेसे—ऐमोन-कार्ब, बेल, सिना, **कोलोसि**, कैलि-कार्ब, मैग-फास, प्लम्ब, पोडो, स्टैनम।

„ „ टेढे होनेपर पीछेकी तरफ—बेल, डाय, नक्स-वोम, थरम।

„ „ „ सामने, दोहराकर—(१) कोलोसि, कैलि-कार्ब, पल्स।

(२) ब्रौवि, कास्टि, चायना, कौलचि, कौपे, आइरि, लैके, मेग-फास, स्ट्रैनम।

दर्द, घटना—पाखाना जानेके बाद—आर्स, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कोलचि, कोलोसि, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोस, रियुम, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ पीनेसे गरम (दूध, जल)—ऐकोन, चेलिडो, मैग-फास, स्पिन्ज।

„ „ वैठनेपर सीधे होकर—जेल्स, सिनापि।

„ „ „ झुककर—वेल, कौलोसि, मार्क, सार्स, सल्फ।

„ „ भोजनके बाद—ब्रौवि, ब्राइयो, मैड़ी, मेजे, नेट्रम-कार्ब, प्लैटि, सोरि।

„ „ विश्रामसे—ब्राइयो, इपि, नक्स-वोम, आकजै-ऐ, पल्स।

„ „ सोनेसे—ऐमोन-कार्व, ब्राइयो, कैल्क, फ्रमम, डाय, ग्रैने, मार्क, नक्स-वोम, फाइसो।

„ „ „ उल्टे होकर, पेटके बल—ऐलो, वेल, ब्राइयो, चिनि-थार्म, चियोनैन, कोलोसि, फास, प्लम्ब, राम टक्स, स्ट्रैनम।

„ „ „ गेंडुरी मारकर—वेल, चायना, कौलोसि, कोलचि, थाइरि, कैलि-कार्व, मेर्ड, मैग फास, नक्स वोम, पोडो, पल्स, सल्फ।

„ „ „ चित्त होकर—कैल्मि, मेजे, थरम।

„ „ „ करवट बदलकर—नेट्रम सल्फ।

„ „ „ „ दाहिने—नक्स-वोम, फास।

„ „ „ „ बायें—पैने।

„ „ „ „ हाथ पैर फैलाकर—डाय।

„ „ हवा छूटनेसे—कैल्के-फास, कार्बो वेज, चैना, सिमिसि क्रोटन-टिग, ग्रान, फेरम, पेट्रि, गुयाई थाइरि, मार्जो, नेट्रम सल्फ, सोरि, कलिक्स, सिपि, सार्स, सल्फ।

„ „ हिलने डोलनेसे—फास टिलि ट्रि, रास टक्स।

„ बढ़ना तम्बाकू पीनेसे—सिमिसैन।

दर्द, बढ़ना, दबानेसे—बेल, काफि, लैक-के, लैके, मेजे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रैना-ब, सल्फ, जिङ्क।

" " दोपहरके बाद ४ या ५ के अन्दर—कोलोसि, कैलि-ब्रोम, लाइको, इलैप्स, फेगो।

" " रातमें—कैल्के, मार्क, नाइट्रि-ऐ, (२) आर्ज-नाइट्रि, अरम, बेल, काक्यु, साइक्ला, फेरम, ग्रैफा, मैग-म्यू, नक्स-म, पेट्रो, प्लम्ब, पल्स, सिलि, सल्फ-ऐ, सल्फ।

" " " आधी—(१) आर्ज-नाइट्रि, काकि, (२) अरम, चायना, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स।

" " " रातके बाद—आर्ज-नाइ, काकि।

" " पीछेकी तरफ झुकनेसे—ऐना, थूजा।

" " पीनेके बाद (जलादि)—आर्स, बेल, मैन्गि, नक्स-म, नक्स-वोम, पोडो, स्टैनम, **स्टैफि**, सल्फ।

" " भोजनके बाद—(१) ग्रैफा, स्टैफि, विरे। (२) ऐलि-सि, ऐलूमि, आर्स, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, फेरम, ग्रैने, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, फ्लोडो, रास-टक्स, सार्सा, स्टैनम, स्ट्रान्सि, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" " " दो घण्टे बाद—आकर्जे-ऐ।

" " " रातमें—ऐलूमि, चाइना, पल्स, ग्रैटि।

" " सामने झुकनेसे—ऐण्टि-टार्ट, सिनापि।

" " सोनेसे चित्त होकर—पोडो, टिलि-ट्रि।

" " हिलने डोलनेसे—बेल, **ब्राइयो**, ड्रुपि, मार्क, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, सल्फ।

पड़ा रहना (पेट Retraction)—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्स, कैम्फ, काकि, क्रुमम, ड्रोसे, हाइड्रो, आइयो, लिडम, लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, फास, **प्लम्ब**, पोडो, पल्स, साइलि, स्ट्रैमो, टैबे, थूजा, विरे, जिङ्क।

पड़ा रहना, नाभिमें—**ऐकोन**, ऐलूमि, बैरा-कार्ब, कोल्क-फास, चेलिडो, थैटि, कैलि-कार्ब, नेट्र-कार्ब, प्लम्ब, पोडो, रैना-ब, टैबे, टैरि, जिङ्क-स।

पत्थर रहने जैसा (Sensation of stone)—ऐलो, ऐसिड-टार्ट, **पल्स**।

" से भरा हुआ मालूम—ऐसिड-टार्ट, **कोल्की**, कालि।

पसीना (Perspiration)—**ऐम्ब्रा, ऐना,** आर्जे-नाइ, **सिफि,** ड्रोसे, मार्क, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सिपि, स्टेफि।

" ठण्डा—ड्रोसे।

" तलपेटमें (Hypogastrium)—सिलि, सिपि, थूजा।

" पुट्ठेमें—ऐम्ब्रा, कैन्थ, आइरि-वा, सिलि, सिपि, थूजा।

पित्त-पथरी (Cholelithiasis)—(१) बार्बे, कोल्के, चियोनेन, सिना, डायस्को, हाइड्रो, नक्स-वोम, बेल, कार्डु-मै, लाइको, नेट्र-स, थिरि। (२) बैप्टी, ब्राइयो, कैमो, चेलिडो, इपि, आइरि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, सिपिया।

पित्त-शूल (Gall stone colic)—"दर्द" यकृतमें देखिये।

पेट गड़गड़ाना (कलकल गड़गड़ शब्द) (Rumbling)—ऐकोन, ऐगा, आइलैन्थ, ऐलो, ऐना, ऐसिड-टार्ट, आर्जे-मेट, आर्जे-नाइट्रि, आर्निका, आर्स, बिस्मथ, ब्राइयो, कोल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, **कास्टिकम,** कैमो, **चायना,** सिकि, कोनचिकम, कोलोसि, क्रोटन-टिग, साइक्ला, **डोय,** डाल्का, **गैम्बो,** ग्लोनो, ग्रेफा, ऐग्नि, हिपर, इग्ने, **लेट्रो,** कैलि-बाइ, **लाइको,** मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-सल्फ,** नाइट्रिक ऐसिड, नक्स-म, **नक्स-वोम,** ओलि ओपियम, **फास, फास-ऐ,** प्लम्ब, सोरि, **पल्स,** रैना-सि, सैंगि, सार्सा, सिपि **साइलि,** स्टार, म्यूर, स्टैफि, **सल्फ,** थूजा, थिर, जिङ्क।

" सवेरे—ऐगा, बार्ब, कलोसि, नक्स वोम, जिङ्क।

" दो पहरके पहले—ऐगा ऐलोन-कार्ब ऐसिड-म्यूर, लाइको कोलोसि, नेट्रम-म्यूर, टैरे।

" तीसरे पहर—ऐगा ऐलोन-कार्ब ऐलोन म्यूर कार्बो वेज इग्ने, लाइको, नेट्रम-सल्फ, नक्स वोम, सल्फ।

पेट गड़गड़ाना, सन्ध्यामें—चायना, फेरम, लाइको, मार्क-कोर, नेट्रम म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **पल्स**, सल्फ, जिक।

„ ऋतुके समय—ऐलो, कैलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, पल्स, सिपि।

„ नींदमें—ऐग्न, कूप्रम।

„ पाखाना जानेके पहले—आर्स, ऐसिलि-टि, कार्डु-मे, कोलचि, डाल, हेलि, जेट्रो, **मैग-कार्ब**, म्यू ऐ, नेट्र-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, ओलि, फास, फ्लोडो, सैबाडि, स्पाइ, स्क्विल, सल्फ।

„ „ समय—आर्निका, चेलिडो, साइक्ला, गैम्बो, हिपर, आइरि-वा, कैलि-वा, मेजे, सेने, सल्फ-ऐ, थूजा।

„ „ बाद—ऐगा, कोलोसि, क्रोटन-टिग, डाल, फेरम-मेट, **जेट्रो**, कैलि-वा, लाइको, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, प्लम्ब, टिलि-ट्रि, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा।

„ पीनेके बाद—कोमो, ग्रैफा, मार्क, फ्लोडो।

„ भोजनके बाद—ऐकोन, ऐलूमि, ऐण्टि-टार्ट, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, साइक्ला, इग्ने, नेट्र-म्यू, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सल्फ।

पेट फूलना (Flatulence)—ऐगा, ऐण्टि-क्रूड, एपि, **आर्ज-ना**, आर्ग, अरम, कैल्के-कार्ब, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, **कैमो**, चेलिडो, **चायना**, चिनि-स, काकि, **कोलचि**, कोलोसि, कोना, कोपे, डायस्को, इलैप्स, फार्मि, ग्रैफ, गुयो, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लैक-ऐ, लैक-डि, लेके, **लाइको**, **मैग-कार्ब**, मैग-फास, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, **नेट्रम-सल्फ**, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म**, नक्स-वोम, **ओपियम**, फास, प्लैटि, पोडो, सोरि, पल्स, सिपि, साइलि, **सल्फ**, सिफि, **विरे**।

„ सवेरे—आर्ज-नाइट्रि, हिपर, लाइको, मार्क, नेट्र-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पोडो, टेरे।

„ दोपहरके पहले—गुयो, हिपर, नेट्रम-म्यूर, पल्स, जिंक।

„ तीसरे पहर—आरम-म्यूर, कैल्के-स, कार्बो-वेज, कैलि-ना, ओपि।

पेट फूलना, सन्ध्यामें—ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, लाइको नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, विरे।

„ रातमें—अरम, कार्बो-वेज, काकि, फेरम, इग्ने, ओपियम, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, पल्स, थूजा, जिंक।

„ ऐंठनके साथ—ऐना, ऐण्टि-टार्ट, ऐसाफि, अरम, ग्रेफा, नेट्र-म, गास-टक्स, टियु।

„ कष्टकर—आर्निका, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, पल्स, फ्लोडो।

„ डकारके साथ—ग्राफि, फ्लोडो।

„ दूध पीनेके बाद—कार्बो-वेज, मार्क, सल्फ-ऐ।

„ पीनेके बाद—नक्स-वोम।

„ बच्चोंका—कैमो।

„ मिचलीके साथ—मैंसि, कैलि-म्यू।

„ मूर्च्छाप्रवण स्त्रियोंका (Hysterical women)—कोलचि, इग्ने, पल्स।

„ भोजनके बाद—आर्ज-नाइट्रि, कैल्के, कार्बो-ऐ, डायस्को, लाइको, मैग-म्यू, **नक्स-वोम**, पल्स, थूजा, जिंक।

„ रुद्ध (रुका हुआ) (Obstructed)—आर्ज नाइट्रि, अरम, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, कैमो, **कोलचि**, कोलोसि, कोना, हिपर, इग्ने, [illegible], कैलि-कार्ब, कैलि [illegible], लाइको, नेट्र-म्यूर, नेट्र-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, फास, [illegible] सल्फ, **विरे**।

„ **घटना**, डकारसे—डकार "पाकस्थली" देखिये।

पेरिटोनाइटिस (पाक स्थली-झिल्लीका प्रदाह) (Peritonitis)—"प्रदाह" देखिये।

प्रदाह (Inflammation)—ऐसि-ऐ **ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, एपिस,** आर्निका, **आर्स,** बेल, ब्रायो, [illegible], कार्बो-वेज, कैमो, **कोलचि,** कोलोसि, क्रोटे-टि, [illegible], **हाइयो,** [illegible]

लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नक्स-वोम, ओपि, आक्जा-ऐ, **फास**, पल्स, **रास-टक्स**, साइलि, सल्फ, टेरि, विरे।

प्रदाह, एपेण्डिसाइटिस (Appendicitis)—(१) ब्राइयो, मार्क-कोर, फास, साइलि। (२) बेल, कैल्के-सल्फ, चायना, काकि, इचिनि, हिपर, लैके, नाइट्रि-ऐ, प्लम्ब। (३) कैड-म्यू-स, चेलिडो, कोना, डाल, ग्रेफा, टेरि।

" क्लोम-ग्रन्थिका (Pancreatitis)—कोना, आइयो, आइरि-वा, **स्पञ्जि**।

" प्लीहेका (Spleenitis)—ऐकोन, एपि, आर्निका, आर्स, ब्राइयो, सियोना, चायना, चिनि-स, कोना, कूप्रम, इग्ने, आइयो, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ।

" पुट्ठेकी गाँठोंका (Inguinal glands)—बेल, कार्बो-ऐ, डाल, ग्रेफा, मार्क, साइलि।

" यकृतका (Hepatitis)—**ऐकोन**, एपि, **आर्स**, **बेल**, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैमो, **चेलिडो**, चायना, हिपर, इग्ने, आइयो, कैलि-कार्ब, **लैकि**, **लाइको**, मैग-म्यू, मार्क, **नेट्रम-म्यूर**, **नेट्रम-सल्फ**, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, फाइटो, पोडो, सोरि, टिलि-क्लि, पल्स, सिकि, स्टैफि, टेबे।

" " पुराना—आर्निका, क्रोटे-हो, लैके, **लाइको**, मैग-म्यू, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, कैना-से, सिलि, सल्फ।

प्रदाह—सिकमका (Caecum, typhlitis)—**एपिस**, **बेल**, **ब्राइयो**, कैलेडि, चायना, कोल्चि, **लैकि**, लाइको, मार्क, नेट्र-सल्फ, **ओपि**, फास, प्लम्ब, **रास-टक्स**, सैम्बु, स्ट्रैमो, सल्फ, **थूजा**।

फूलन (सूजन Swelling)—ग्रन्थियोंकी (Glands)—आर्स, अरम, बैडि, बैरा-म्यूर, **कैल्के**, कार्बो-ऐनि, **क्लिमे**, ग्रेफा, **हिपर**, आइयो, कैलि-आयोड, लेकि, लिसिन, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्क-ऐ-फ्ले, मार्क-प्रा-रू, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ**, फाइटो, रास-टक्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ, सिफि, थूजा, जिङ्क।

फूलन, नाभिकी—आइयो, कास्टि, प्लम्ब, टिलि-क्लि, पल्स, सिपि।
„ प्लीहाकी—ऐग्न, आर्स, ब्रोमि, कैप्सि, चायना, चिनि-स, काफि, इग्ने, आइयो, नक्स-वोम, रूटा।
„ „ कुइनाइनकी अपव्यवहारके बाद—ऐराणि।
„ पुट्ठेमें (Inguinal region)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रू ड, आर्स, क्लिमे, कोना, ग्रैफा, कैलि कार्ब, लाइको, पल्स, रास-टक्स, साइलि, थूजा।
„ मेसेण्टिक ग्लैण्ड समूहका—आर्स, औरम, बेरा म्यू, कैल्के, कोना, आइयो।
„ यकृतका—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, औरम, बेल, आइयो, कैल्के, चेलिडो, चायना, चिनि-सल्फ, कूप्रम, लैके, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, फास, साइलि, सल्फ।
„ „ कुइनाइनकी अपव्यवहारके बाद—नक्स वोम।
फोड़ा (Abscess), पेटके ऊपर (in walls)—हिपर, रास टक्स, साइलि, सल्फ।
„ पुट्ठेमें (Inguinal region)—हिपर, साइलि, सिपि।
„ यकृतमें (Liver abscess)—पल्स-ऐ, हिपर, कैलि-कार्ब मार्क-कोर, नक्स-वोम, साइलि।
बाघी (Bubo)—आर्स आर्स-आयोड औरम, औरम-म्यू, बैडि बैरा म्यूर, बेल, ब्यूफो, कार्बो-ऐनि, हिपर, कैलि आयोड, लैके मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, साइलि, सल्फ।
„ आराम होना नहीं चाहती—कार्बो ऐनि सल्फ।
„ पीब पैदा होना (Suppurating)—औरम कार्बो ऐनि, हिपर, आइयो कैलि आयोड मार्क, लेकि, मार्क-ऐ ड, नाइट्रि ऐ साइलि, सल्फ।
„ सूजाकका स्राव रुककर (Suppressed gonorrhoea)—औरम औरम म्यूर, बैरा म्यूर, ब्यूफो हिपर, मेडो मार्क, सिफ।
विवृद्धि (बढ़ना Enlarged)—बैरा कार्ब कैल्के, ब्रोमि कार्बो ऐनि, डोली आइयो मैनि, सिपि, सल्फ, थूजा।
„ „ चर्बी (Fat)—ऐमोन म्यूर, कैल्के।

विद्धि, बढना, प्लीहा—ऐन्य्रा, एगारि, आर्स, सियानो, **चायना,** चिनि-सल्फ, साइट्रा-वार्स, फेरम, इग्ने, आइयो, लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, रैना-म्यूर, सल्फ-ऐ, सल्फ ।

„ „ मैसेण्टिरिक (Mesenteric)—आर्स, अरम, वेरा-कार्ब, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कोना, हिपर, आइयो, ओलि-जि ।

„ „ यकृत—ऐगा, ऐण्टिम-क्रूड, अरम, अरम-म्यूर, बेरा-म्यूर, ब्यू-फो, कार्डु-मे, चेलिडो, **चायना,** च्यू-वा, कोना, फेरम, हाइड्रो, आइयो, कैलि-कार्ब, लैकि-ऐ, लोरो, लाइको, **मैग-म्यूर,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, फास, प्लम्ब, पोडो, टिलियम-ट्रि, साइलि, सल्फ, टैवे, थूजा, टियु, ङिंक ।

वेचेनी (Uneasiness)—ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-नाइ, आर्स, वेल, आइयो, कैल्के, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, फास, पोडो, पल्स ।

भरापन मालूम होना (Fullness)—**ऐलो,** ऐमोन-कार्ब, ऐना, एपिस, आर्स, बैप्टो, कैल्के, कार्बो ऐनि, **कार्बो-वेज, चायना,** क्रोटन-टिग, साइक्ला, **डिजि,** जेल्स, **ग्रेफा, कैलि-कार्ब,** लैके, **लाइको,** मिनि, नेट्र स, **नक्स-वोम,** फास, पल्स, **सल्फ ।**

„ कब्जियतके साथ—डायस्को, हाइयो, नक्स-वोम ।

„ कोखमें (Hypochondriac region)—कैमो, मार्क, पोडो, **सिपि,** सल्फ ।

„ „ दाहिने—इस्कि, पोडो, थूजा ।

„ „ बायें—स्टिक्टा ।

„ तलपेट (Hypogastrium)—बेरा-कार्ब, वेल, सल्फ ।

„ तम्बाकू पीनेके कारण—**मिनि ।**

„ पुट्ठेमें (Inguinal region)—काकि, नेट्र-स, सिपि ।

„ भोजनके समय—चायना ।

„ „ बाद—कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, कोबाल्ट, **कैलि-कार्ब,** लाइको, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिपि, सल्फ, ङिंक ।

भरापन मालूम होना, भोजनकी तरफ देखनेसे—सल्फ।

" यकृतमें—फेरम, क्रियो, नक्स-वोम, पोडो, सिपि, सल्फ, थूजा।

" सवेरेके भोजनके बाद—कार्बो-वेज, सल्फ।

" घटना-भोजनके बाद—रास टक्स।

" " पाखाना जानेसे—कोलचि।

" , हवा छूटनेसे—ग्रे'टि, हेलि, क्लोडो, सल्फ।

भार मालूम होना (Heaviness as from load)—ऐलो, ऐम्ब्रा, आर्स, ऐसाफि, ब्रायो, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, सिमि, ग्रे'फा, हेलि, कैलि-कार्ब, लेके, लाइको, मैग-कार्ब, म्यू'रेक्स, नेट्रम-म्यू'र, नक्स-वोम, ओपि, पोडो, सिपि, सल्फ।

" सवेरे—ऐम्ब्रा, डाय, सिपि।

" छातीकी जड़में (Epigastrium)—क्रोटन-टिग, नक्स म।

" पत्थरसे दबाया है मानो—ओपियम, पल्स।

" पीनेके बाद—ऐसाफि।

" भोजनके बाद—सल्फ।

" यकृतमें—आर्स, कार्बो-वेज, कैलि-कार्ब, लेके, मैग-म्यू, नक्स वोम, फास-ऐ, प्लम्ब, टिलि-ह्नि।

" वस्तिमें, तलपेटमें (Hypogastric region)—ऐलो, ऐगनि, आर्स क्रोटन-टिग, पैले, पोडो, सिके, सल्फ।

" हिलने डोलनेसे—नेट्रम-म्यू'र, सिपि।

यकृत और यकृत प्रदेशमें (Liver and liver region)—एकोन, ऐगेरि, ऐगा, ऐलो, ऐलुमि, ऐमोन-म्यू'र, ऐपो, आर्स-आइडि, आर्निका, आर्स, बरम, बेप्टि, बेल, ब्रायो, बार्ब, बेर्बे, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, कैमो, चेलिडो, चायना, सिमिसि, कालि, कोक्कि, कोलोसि, कोना, क्रोटे-टि, कुप्रम, डल्क्, ऐ, डोल, हिपर, हाइड्रे, आयोडी, आइरि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, लेप्टा, मारको, मैग म्यूर, मार्क, मर्क कॉ, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि,

ऐ, **नक्स-म**, **नक्स-वोम**, **फास**, फास-ऐ, प्लम्ब, **पोडो**, मूरा-स्था, सोरि, पल्स, रूटा, सैंगु, **सिपि**, साइलि, **सल्फ**, जिंक।

रङ्ग, भूरे रङ्गका बिन्दु बिन्दु चिन्ह (Brown spots)—आर्स, कार्बो-वेज, हाइड्रो-ऐ, कैलि कार्ब, लैके, **लाइको**, नाइट्रि-ऐ, फास, सैबाडि, सिपि, थूजा।

„ लाल—ऐना, प्लम्ब, रास-टक्स।

„ „ बिन्दु बिन्दु चिन्ह—वेल, कैलि-वाई, लैके, लिडम, मार्क, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि।

„ पीला—फास।

वेरिकोसिस (Varicosis)—हैमा, सल्फ।

शिथिल (Relaxed)—ऐमोन म्यूर, कार्बो-वेज, ड्रग्ने, मार्क, ओपि, फास, सोरि, रास-टक्स।

„ पाखाना जानेके बाद—सैग-म्यूर, सिपि, सल्फ।

शीर्ण (Atrophied), यकृत—आर्स, **अरम**, ब्राइयो, **कैल्कि**, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, चेलिडो, चायना, चियो, कूप्रम, लैके, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, **फास**, प्लम्ब, पल्स, सिपि, सल्फ।

शूलका दर्द—"दर्द" देखिये।

स्थान-च्युति या आंतका अंश दूसरे अंशमें घुस जाना (Intussusception) —ऐकोन, आर्नि, **आर्स**, वेल, ब्राइयो, कोलोसि, कूप्रम, लैके, लोबे, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, **ओपि**, **प्लम्ब**, रास-टक्स, सल्फ, **विरे**।

स्पन्दन (Pulsation)—कैल्कि, ड्रग्ने, आइयो, कैलि-कार्ब, लैक-कै, लाइको, नक्स-वोम, सैङ्गु, सिपि।

सूजन (Distension)—ऐब्रो, **ऐकोन**, **ऐगा**, **ऐलो**, ऐरिट-क्रूड, ऐण्टिम टार्ट, एपिस, ऐपो, आर्जेण्ट-मेट, **आर्जेण्ट-नाइ**, आर्नि, **आर्स**, ऐसाफि, बेप्टी, बेरा-कार्ब, बेरा म्यूर, ब्रोमि, ब्राइयो, **कैल्कि**, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कैमो, चेलिडो, **चायना**, चिनि-स, काकि, सिस्टा, **सिकि**, कोलचि,

कोलोसि, कोना, क्रोकस, क्रोटे-हौर, क्रोटन-टिग, साइक्ला, गैम्बो, **ग्रैफा,** हेलि, **हिपर,** आइयो, जैट्रो, कैलि-बाई **कैलि-कार्ब,** क्रियो, लेके, लिलि-टिग, **लाइको, मैग-कार्ब,** मैग-म्यूर, मिलि, **मार्क,** मार्क-कोर, म्यूरैक्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, **फास, फास-ए,** पोडो, सोरि, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, **सल्फ, टैरि,** थूजा, टिलि, वेले, विरे, जिंक।

सुजन, सवेरे—ऐलो, आर्स, ऐसाफि, कैमो, नेट्रम सल्फ, ओनिचि, सल्फ।

„ तीसरे पहर—कैल्के, कार्बो-वेज, कैस्टो, कैमो, नेट्रम-कार्ब, सल्फ।

„ „ ४ बजे—लाइको।

„ सन्ध्यामें—ऐण्टिम-क्रूड, ब्रायो, कार्बो वेज, कैमो, हेलि, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, सिपि, सल्फ।

„ „ ६ बजे—सल्फ।

„ „ ७ बजे—कास्टि।

„ रातमें—ऐलुमि, मैग-कार्ब, सल्फ।

„ कब्जियतमें—मैग-म्यूर, टैरि।

„ कष्टकर—**ऐकोन,** ऐलुमि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बैरा कार्ब, बेल, ब्रायो, कैमो, डाइयो, मार्क, नेट्रम कार्ब, नक्स वोम, रस टक्स सल्फ।

„ कोखमें (Hypochondriac)—ऐमोन म्यूर कैल्के कैमो चेलिडो, ब्रायो, लोरो, नक्स म, नक्स वोम।

„ „ दाहिने—चेलिडो, लोरो, नेट्रम म्यूर, फास, पोडो।

„ „ बायें—चिनि पा मार्क।

„ ज्वरावस्थामें—साइलि।

„ प्रसव होनेके बाद—लाइको **सिपि।**

„ पाखाना जानेके पहले—पार्लि, पल्स, कास्टि।

„ „ समय—स्ट्रैमो।

„ „ बाद—कार्बो वेज [illegible] लाइको, [illegible]।

„ पार्श्वमें—ऐग्रि नेट्रम म्यूर, जिंक।

सूजन, पीनेके बाद—आर्स, कार्बो-वेज, **चायना**, हिपर, पेट्रो, नक्स-वोम।
,, ,, दूध—कोनायम।
,, ,, बियर—नेट्रम-स्यूर।
,, बच्चोंका—कास्टि, सिना, साइलि, स्टैफि।
,, भोजनके बाद—बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, **चायना**, कोलचि, ग्रैफा, **कैलि-कार्ब**, क्रियो, लिलि-टिग, **लाइको**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स्यूर, **नक्स-वोम**, पल्स, रास-टक्स, सिलि, साइलि, **सल्फ**, थूजा, जिङ्क।
,, शीतावस्थामें—आर्स-हो, सिना, कैलि कार्ब।
,, **घटना**-डकारसे—कार्बो-वेज, सिपि, थूजा।
,, ,, पाखाना जानेके बाद—ऐलूमि, ऐसाफि, कैल्के-फास, हाइपि, नेट्रम-स्यूर।
,, ,, हवा छूटनेपर—कार्बो-वेज, कैलि-आयोड, **लाइको**, मैग-कार्ब, नेट्रम-स्यूर, फास-ऐ, सल्फ।
स्राव, नाभिसे (Discharge from umbilicus)—ऐब्रो, कैल्के-फास, नेट्रम-स्यूर, स्टैनम।
हार्निया (Inguinal hernia आँत उतरना)—ऐलि-सि, ऐलूमि, **अरम**, ऐसार, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कैमो, काकि, गुयो, **लाइको**, मैग कार्ब, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, रास-टक्स, साइलि, स्पाइ, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।
,, स्ट्रैङ्गुलेटेड (Strangulated)—ऐलि-सि, **बेल**, कार्बो-वेज, काकि, लेके, मिलि, **नक्स-वोम**, **ओपि**, प्लम्ब, रास टक्स, सल्फ।
,, प्रदाहसे मिला हुआ—ऐकोन, नक्स-वोम, ओपि, सल्फ।
,, ,, वमनके साथ - ऐकोन, आर्स, बेल, लेकि, विरे।
,, बच्चोंका—**अरम**, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम।
,, ,, दाहिनेका—लाइको।
,, ,, बायेंका—नक्स-वोम।
,, स्पर्श-सहिष्णु (Sensitive)—बेल, **लेकि**, नक्स-वोम।

मलत्यागमें पाखाना हो जाना, हँसनेके साथ—सल्फ।

अर्श, बलि (मसा, बवासीर) (Haemorrhoids)—ऐकोन, इस्कि, ऐगो, ऐलोज, ऐमोन-कार्ब, ऐसिड-म्यू, एपिस, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्रोमि, कैक्ट, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, कास्टि, चेलि, सिमिक्स, कोलिन्सो, डायस्को, फेरम, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, केलि-कार्ब, लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पियोनि, फास, पोडो, सोरि, पल्स, रेटा, रूटा, सिपिया, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ भीतरी बवासीर (Internal piles)—इस्कि, ऐलूमि, आर्स, ब्रोमि, कैल्के, कैप्सि, कैमो, कोलोसि, इग्ने, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लैण्टे, पोडो, पल्स, रासटक्स, सिपिया, सल्फ, थिरे।

„ बाहरी (External piles)—इस्कि, ऐलोज, ऐमोन कार्ब, ऐन्टि, आर्नि, बेरा-कार्ब, ब्रोमि, कैल्के, कास्टि, कोलिन, फेरम, ग्रैने, ग्रेफा, हिपर, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, पियोनि, फास, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ बादी बवासीर (Blind piles)—इस्कि, आर्स, कैप्सि, फेरम, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, रास टक्स, सल्फ।

„ कड़ा—ऐलूमि, कास्टि, फाइसो, सिपि।

„ खुजलाहट—आर्स, कार्ब, क्रिमे, चायना, ग्रेफा, केलि कार्ब, सल्फ-ऐ।

„ खूनी (बवासीर)—ऐकोन, इस्कि, ऐमोन कार्ब, ऐसिड म्यू, बेल, बोरा, ब्यूफो, कैल्के, कैप्सि, कार्बो वेज, कैमो, चायना, कोलिन, कोलोसि, क्रूप्रम, इग्नेट, फेरम, हैमा, डायस्को, केलि-कार्ब, मेज, लोबे, मिलि, मिलिफो, म्यू-ऐ, नाइट्रि ऐ, फास, पल्स, रूमि, सिपि, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—इस्कि, ऐमोन-म्यूर, कैप्सि, कैमि, लाइको, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, सिपि, सल्फ।

„ प्रसव बाद—कैमो, हिपर, नाइट्रि ऐ, पियोनि, फास, साइलि, सल्फ,

गुह्यदेश (RECTUM)।

...ा (Incurity)—ऐलूमि ऐगा, ऐानिका वेरा कार्ब, केम्फर, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, केलो, चायना, काकि, हिपर, इग्ने, केलि-ब्रोम, केलि-कार्ब, लेके, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, इ़टि, मुस्क, पोडो, सोरि पल्स, रूटा, सिपिया, साइलि, मुन्ड टेरे, थूजा, वेले, विरे।

...ानसे पाखाना हो जाना (Stool, involuntary)—ऐलोज, आर्निका, आर्स, ब्रेपटी, वेल, ब्राइयो केल्के, केम्फर, ऐनि, कार्बो-वेज, चेलि, कोलचि, कोलोसि, कोपेवा, क्रोट, क्यूवे, डिजि फेरम, हेलि, हाइयो, केलि-कार्ब, लेके, लोरो, नेट्रम-म्यू, ओलि, ओपि, ऐकजे-ऐ, फास-ऐ, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैनि, सिकेलि, सल्फ, विरे।

" रातमें—चायना रास-टक्स।

" बिछावनपर—कार्बो-ऐ, मुस्क, सल्फ।

" " कड़ा पाखाना—ऐलो, वेल।

" खाँसने या छींकने साथ—फास, स्क्वुइ, सल्फ।

" डर कर—ओपियम, फास, विरे।

" —आर्नि, ब्राइयो, चायना, कोनायम, हाइयो, फास, पो... , रास-टक्स, सल्फ।

... वजहसे (लकवा)—ऐलूमि, हाइयो, वेल, नक्स-... ओपियम।

पेशाब करनेके समय—म्युरेन्य, ऐलो, आर्नि, आर्स, वेल हाइयो, ... फास-ऐ, फास, सल्फ, विरे।

हवा छूटनेके समय—(१)—ऐलो, नेट्रम-फास ओलि, फास-म्यू-ऐ, (२) ऐपोसा कार्बो-वेज, काष्टि, नेट्रम-कार्ब, नेट्र... विरे। ... ऐ ... दिय।

नर्म पाखाना हो जाना, इँसनेके साथ—सल्फ।

बलि (मसा, बवासीर) (Haemorrhoids)—ऐकोन, **इस्कि**, **ऐलोज**, ऐमोन-कार्व, ऐसिट-क्रूड, एपिस, **आर्स**, बैरा-कार्व, ब्रोमि, कैक्ट, कैल्कि, कैप्सि, **कार्वो-ऐ**, कार्वो-वेज, कार्ड्-मे, क चेलि, सिमेक्स, **कोलिन्सो**, डायस्को, फेरम, **ग्रेफा**, हिपर, **केलि-कार्व**, **लाइको**, मार्क, **म्यू-ऐ**, नेट्रम-म्यू, नाइ **नक्स-वोम**, **पियोनि**, फास, पोडो, सोरि, **पल्स**, रैटा, **सिपिया**, साइलि, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, थूजा, जिन्क।

„ भीतरी बवासीर (Internal piles)—इस्कि, ऐलूमि, **आर्स**, ब्रो कैल्कि, **कैप्सि**, **कैमो**, **कोलोसि**, **इग्ने**, **नक्स-वोम**, फा फास, प्लैण्टे, **पोडो**, **पल्स**, रासटक्स, सिपिया, **सल्फ**, वि

„ बाहरी (External piles)—**इस्कि**, **ऐलोज**, ऐमोन-कार्व, आर्नि, बेरा-कार्व, ब्रोमि, कैल्के, कास्टि, कोलिन, फेरम, ग्रैफा, हिपर, **म्यू-ऐ**, नाइट्रि-ऐ, पियोनि, फास, प्लैंटि, रास टक्स, सिपि, साइलि, **सल्फ**।

„ बादी बवासीर (Blind piles)—इस्कि, आर्स, कैप्सि, फेरम, न ऐ, नक्स-वोम पोडो, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ कड़ा—ऐलूमि, **कास्टि**, फाइसो, सिपि।

„ खुजलाहट—आर्स, बार्व, क्रिमि, चायना, ग्रेफा, कैलि-कार्व, सल्

„ खूनी (बवासीर)—**ऐकोन**, इस्कि, ऐमोन-कार्व, ऐसिड बोरा, ब्रूफो, कैल्के, कैप्सि, कार्वो-वेज, कैमो, चायना, कोलोसि, क्रूप्रम, इरेट, **फेरम**, ऐमा, आइयो, ... लोबे, मिलि, **मिलिफो**, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—इस्कि, ऐमोन-म्यूर, कैप्सि, कैलि, लाइको, नेट्रम-म्यूर, वोम, सिपि, सल्फ।

„ जलन भरा—कैमो, हिपर, नाइट्रि-ऐ, पियोनि, फास, म्यूरि

गुह्यदेश (RECTUM) ।

अकर्मण्यता (Inactivity)—ऐलूमि, ऐगा, आर्निका, वेरा-कार्ब, ब्राइयो, केम्फर, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, केमो, चायना, काक्कि, **ग्रैफा**, **हिपर**, इग्ने, कैलि-ब्रोम, **कैलि-कार्ब**, लेके, लाइको, मैग म्यू, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, प्लैटि, **प्लम्ब**, पोडो, सोरि पल्स, रूटा, सिपिया, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, **टैरे**, थूजा, वेले, विरे ।

अनजानमें पाखाना हो जाना (Stool, involuntary)—**ऐलोज**, एपिस, **आर्निका**, आर्स, बैपटी, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फर, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चेलि, कोलचि, कोलोसि, कोपेवा, क्रोटे-टोर, क्यूबे, डिजि, फेरम, हेलि, **हाइयो**, कैलि-कार्ब, लेके, लोरो, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यू**, **ओलि**, **ओपि**, आकजे-ऐ, **फास-ऐ**, **फास**, प्लम्ब, सोरि, पल्स, **रास-टक्स**, सैनि, **सिकेलि**, **सल्फ**, **विरे** ।

„ रातमें—चायना रास-टक्स ।

„ बिछावनपर—कार्बो-ऐ, प्लम्ब, सल्फ ।

„ „ कड़ा पाखाना—**ऐलो**, **बेल** ।

„ खाँसने या छोंकके साथ—फास, स्क्वु्इ, सल्फ ।

„ डर कर—**ओपियम**, फास, विरे ।

„ नींदमें—आर्नि, ब्राइयो, चायना, कोनायम, हाइयो, फास, **पोडो**, पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

„ पक्षाघातकी वजहसे (लकवा)—ऐलूमि, हाइयो, बेल, नक्स-वोम, ओपियम ।

„ पेशाब करनेके समय—आइलैन्थ, ऐलो, आर्नि, आर्स, बेल, हाइयो, लोरो **म्यू-ऐ**, फास-ऐ, फास, सल्फ, विरे ।

„ हवा छूटनेके समय—(१)—ऐलो, नेट्रम-फास, ओलि, फास-ऐ, पोडो, विरे । (२) ऐपोसा, कार्बो-वेज, काक्कि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, म्यू-ऐ, टियु ।

अर्श, बढ़ना, सवेरे—ऐलो, डाय, म्यू-ऐ, सल्फ, थूजा।
" " रातमें—इस्कि, ऐलो, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रू ड, आर्स, का
ऐ कार्बो-वेज, ग्रे फा, मार्क, रास-टक्स, सल्फ।
" " ऋतुके समय—ऐलो, ग्रे फा, पल्स।
" " " रुक कर (Suppressed)—फास, सल्फ।
" खड़े होने पर—कास्टि, सल्फ।
" " घूमनेसे—इस्कि, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, म्यू-ऐ, फा
सल्फ, थूजा।
" " छूनेसे—बेल, कास्टि, हिपर, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स वो
सल्फ, थूजा।
" " दूध पीनेसे—सिपि।
" " पाखाना जानेके समय, पाखाना हो जाने बाद—इस्कि, ग्रे फा
म्यूर-ऐ, पियोनि, सल्फ।
" " पेशाब करनेके समय—बेरा-कार्ब, कैन्थ, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ।
" " हिलने डोलनेसे—ऐपिस, कार्बो-ऐ, मार्क, म्यू-ऐ, नैट्रम-म्यूर,
पल्स।
" घटना, सवेरे—ऐल्यु मि, कोनिन।
" " घूमनेपर—इग्ने।

आमाशय (Dysentery)—एकोन, एलु, ऐलो, एपिस, आर्ज नाइ, आर्नि
आर्स, बैप्टी, बेल, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो वेज, कैमो, कायना,
कौलचि, कोलोसि, डल्का, हिपर, इग्ने, आइपी, कैपिकाक,
कालि, कैलि बाइ, कैलि क्लो, लैके, लिलि टि, मैग-कार्ब, मार्क,
मार्क-कौर, नाइट्रि ऐ [illegible], नक्स-वोम, फॉस्फो, पाडो
फि, पेट्रो, फास, पल्सो [illegible], [illegible], रास-टक्स, [illegible]
सल्फ, टेरि, ट्राम्बि [illegible]।

प्रदाह (गुह्यदेशमें)—ऐलो कौलिन्स, इस्कि, मार्क-कौर, रेटा।

अर्श, जलन भरा—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, एपिस, ऐलोज, **आर्स**, बार्ब, केल्के, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, लैके, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सोरि, सल्फ-ऐ।

" झूलता हुआ (Pendulous)—नाइट्रि-ऐ।

" नीली आभा लिये—**इस्कि**, इथू, आर्स, **कार्बो-वेज**, लैके, **म्यू-ऐ**।

" पाराके अपव्यवहारकी वजहसे—हिपर, सल्फ-ऐ।

" पीव भरा (Suppurating)—कार्बो-वेज, हिपर, इग्ने, मार्क, **साइलि**।

" पुराना—**इस्कि**, ऐलोज, लाइको, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, पोडो, **सल्फ**।

" प्रदाह मिला (Inflamed, congested)—ऐकोन, ऐलोज, कैमो, हिपर, **कैलि-कार्ब**, मार्क, म्यू-ऐ, **नक्स-वोम**, पियोनि, पल्स, साइलि, सल्फ।

" बड़ा (Large)—**इस्कि**, **ऐलोज**, कैक्ट, कैल्के, **कार्बो-ऐनि**, कार्बो-वेज, **कास्टि**, कोलोसि, डाय, फेरम, ग्रैफा, **कैलि-कार्ब**, लैके, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, पोडो, पल्स, **सल्फ**, थूजा।

" बाहर निकल आता है पाखाना जानेके समय—बैरा-कार्ब, कैल्के, कैलि-बाइ, फास, प्लैटि, साइलि।

" बिना दर्दका—आर्स।

" मतवालों (शराबियों) का—आर्स, कार्बो-वेज, **नक्स-वोम**।

" यन्त्रणा दायक—ऐलोज, ऐल्यूमि, ऐनाका, आर्स, कैक्ट, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, **ग्रैफा**, **कैलि कार्ब**, **म्यू-ऐ**, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, थूजा।

" रस बहनेवाला—ऐल्यूमि, बेरा-कार्ब, कास्टि, क्लिमे, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, सल्फ, सल्फ-ऐ।

" रुका हुआ (Suppressed)—आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, **सल्फ**।

" सुरसुरीके साथ—ऐण्टिम-क्रूड, चायना।

उदरामय, चर्मोद्भेद बैठ जानेसे—ब्राइयो, डल्क, हिपर, लाइको, मेजे, सोरि, सल्फ, आर्टि।
„ चेचकके समय—ब्राइयो, आइरि, लेके।
„ चोटकी वजहसे—आर्नि।
„ छोटी माता होनेके बाद—कार्बो-वेज, चायना, मार्क, पल्स, रस-ट।
„ जलपान करनेके साथ ही—आर्ज-ना, क्रोटन, पोडो।
„ जुलाब लेनेपर रेडीके तेलका—ब्राइयो।
„ टीका लेनेपर—ऐण्टिम-टार्ट, साइलि, थूजा।
„ डरकर—ऐकोन, आर्ज-ना, जेल्स, इग्ने, ओपि, विरे।
„ दर्द रहित—एपिस, आर्स, बेपटी, बिस्म, बोरैक्स, कैल्के, कैम्फ, कैमो, चेलि, चायना, काकि, काफि, क्रोटन, डल्क, फेरम, गैम्बो, जेल्स, ग्रैफि, हिपर, हाइयो, कैलि-का, लाइको, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, न्यूफो, नक्स म, फास, ऐसि-फा, पोडो, सोरि, पल्स, रस-टक्स, सल्फ, विरे।
„ दवा (बहुत तरहकी) खानेके बाद (After drugging)—नक्स-वोम।
„ दाँत निकलनेके समय—ऐकोन ब्यू, एपिस, आर्ज-ना, आर्स, बेल, बोरा, कैल्के, कैल्के-फास, कैमो, सिना काफि, कोलोसि, डल्क, फेरम, जेल्स, हिपर, इपि, क्रियो, मैग-कार्ब, मार्क, पोडो, सोरि, रियुम, सिपि, साइलि, सल्फ।
„ दुःख शोकके बाद—कोलोसि, जेल्स, इग्ने, फास ऐ।
„ दुःसम्वादसे—जेल्स।
„ पीनेसे, दूध—ब्रयू, कैल्के, कैलि कार्ब, लाइको, नेट्र-कार्ब, नाइट्रो, नक्स म, सिपि, सल्फ।
„ „ „ उबाला दूध—नक्स म।
„ „ „ गरम—चेलिडो, क्रोटन।
„ „ खारा दूध या दही—पोडो।
„ „ पानी—(१) आर्ज-ना आर्स कैल्के कार्ब, नक्स वोम। (२) सिना सपि, सिलाकि सिना क्रोटन, इग्ने, ऐसि-फा, पोडो, रस-ट, इग्न।

ब्राइयो, नक्स-म, श्रोपि, जेष्ट्री, फास, रियुम, सिलि, साइलि, **सिकेलि**, सल्फ, सल्फ-ऐ।

उदरामय, कमजोरी नहीं लाता—फास-ऐ, पल्स, सल्फ।

" कमजोरीके साथ—आर्स, ब्राइयो, चायना, कोना, कैलि-कार्ब, मार्क, फास, रियुम, सिके सिपि, सल्फ।

" किनाइनके अपव्यवहारसे—फेरम, हिपर, लैके, नेट्रम-म्यूर, पैले, **पल्स**।

" क्रोधके बाद—ऐकोन, ऐलो, आर्स, बेरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैमो, **कोलोसि**, इपिकाक, नक्स-वोम, स्टैफि।

" खानेके बाद, गरिष्ट चीज (Rich food)—इपिकाक, **पल्स**।

" " अण्डे—चिनि-आर्स।

" " घी या चर्बी मिली हुई खानेकी चीज—ऐण्टि-क्रूड, कार्बो-वेज, पल्स, कैलि-क्लो, थूजा।

" " चीनी—**आर्ज-ना**, मार्क, सल्फ।

" " पूडी कचौडी आदि—इपि, कैलि-क्लोर, नेट्र-स, **पल्स**।

" " फल—आर्स, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, **चायना**, सिस्टा, कोलोसि, क्रोटन, इपि, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्र-स, पोडो, पल्स, रियुम, फ्रोडो।

" " शाक सब्जी—आर्स, ब्राइयो, कूप्म, चेलि, लेप्टा, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, जेष्ट्री, पोडो, विरे।

" " सीप, घोंघा (After oysters)—ब्रोमि, लाइको, सल्फ-ऐ।

" गण्ड माला धातु वाली प्रकृति वालोंका (Scrofula)—बेरा-कार्ब, **कैल्के, कैल्के-फास**, मार्क, सैंगु, **साइलि**, सल्फ।

" गर्भावस्थामें—ऐण्टिम-क्रूड, चेलि, चायना, लाइको, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, सिपि, सल्फ।

" गर्मीके समय—ऐकोन, इथू, आर्स, ब्राइयो, **कैम्फ**, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, **क्रोटन**, लैके, नेट्रम-म्यूर, फास, पोडो।

" गृहस्थीकी चिन्ताओंके कारण—काफि।

उदराय, शरत ऋतुमें (In Autumn)—आर्स, कोलचि, आइरि, मार्की-कोर, नक्स-म, विरे ।

" शीत सहन न होनेके कारण—आर्स, कैल्के, डाल्का, सोरि, सल्फ ।

" सर्दी लगने पर—ऐकोन, ऐलो, आर्स, वेल, ब्राइयो, कास्टि, कैमो डाल्का, इपिकाक, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ ।

" समुद्रके किनारे रहनेसे—आर्स, ब्राइयो ।

" सामुद्रिक, एकदिनके बाद एक दिन—एल्यूमि, चायना, डिजि, फ्लू-ए, नाइट्रि-ए ।

" " सब-ही समय, रोज—एपिस, सेबाडि, सिपि, थूजा ।

" सेवा, शुश्रूषा करनेपर (After nursing)—नेट्रम-कार्ब, फ्रोटन ।

" हवा लगकर, सर्दी—ऐकोन, डाल ।

उदरामय, घटना—

" " गरम प्रयोग करनेपर—ऐलूमि, नक्स-म, पोडो, रास-टक्स ।

" " " दूध—चेलिडो, क्रोटन-टिग ।

" " " बिछावनपर—कोलोमि, नक्स-वोम, साइलि ।

" " धिमनेसे—डाय, माइको ।

" " डकारसे—आर्ज-नाइ, कार्बो वेज, थेटि, ह्विपर, माइको ।

" " " खट्टा—आर्ज नाइ ।

" " " ठण्डा—फास ।

" " ठण्डो, पतली चीज पीनेसे—फास ।

" " " जगहमें—पल्स ।

" " " तम्बाकू पीनेसे—कोलोमि ।

" " " दिनमें "दिनमें कैघम" देखिये ।

" " " पीनेसे, सिगार—फास ।

" " " " शराब—चेलिडो पाइगम ।

" " भोजनके बाद—ब्रोमि, चेलिडो डिजि लिलि फास आइरुं, पेट्रो ।

" " रातमें—"रातमें" देखिये ।

" " सिगारसे—ब्राइयो, इग्नेशिया, पल्सेटि ।

उदरामय, बच्चोंका (Children)—ऐकोन, इथु, ऐगा, आर्जे-नाई, बेन्जो-ऐ, बोरा, कैल्के, कैल्के-फास, कैमो, सिना, क्रोटन-टिग, डाल्का, इपिकाक, आइरि, **मार्क**, फास, **पोडो**, **सोरि**, पल्स, **रियुम**, साइलि, स्टैफि, **स्ट्रेमो**, सल्फ, वेले ।

„ भयानक (Colliquative)—ऐलू, **आर्स**, **वेपटी**, कैल्के, **कैम्फ**, **कार्बो-वेज**, **चायना**, काफि, डाल्का, इलेटे, फेरम, आइयो, इपिकाक, क्रियो, लेके, पेड्रो, लाइको, मार्क, नक्स-म, **फास**, **सिके**, सिपि, सल्फ-ऐ, टेवे, थूजा, **विरे** ।

„ भींगकर, जलमें—ऐकोन, कैल्के, रास-टक्स ।

„ भोजनके समय—आर्स, चायना, **फेरम**, पोडो, **पल्स** ।

„ „ बाद—**ऐलो**, एपिस, आर्जे-नाई, **आर्स**, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, **चायना**, **कोलोसि**, **क्रोटन**, डाल्का, फेरम, फार्मि, लैके, **लाइको**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, **पोडो**, **पल्स**, स्टैफि, सल्फ, थूजा, **ट्रम्वि** ।

„ मतवालोंका (पुराना)—ऐण्टिम-टार्ट, चायना, **लैके**, नक्स-वोम, फास ।

„ मानसिक परिश्रमके कारण (After mental exertion)—नक्स-वोम, पिक्रि-ऐ, सेवाडि ।

„ „ उद्वेगके कारण—जेल्स ।

„ रक्त खराब होकर (From septic condition)—आर्स, कार्बो-वेज, क्रोटे-हो, लैके, पाइरो ।

„ रज निवृत्तिके समय (Menopause)—**लैके**, सल्फ ।

„ लेमनेड पीकर—फाइटो ।

„ व्यभिचारके बाद (Debauch)—ऐण्टि-क्रूड, नक्स-वोम ।

„ बियर पीनेसे—ऐलो, चायना, गैम्बो, कैलि-बा, लाइको, म्यू-ऐ, **सल्फ** ।

„ विरेचक खानेके बाद (After cathartics)—कार्बो-वेज, चायना, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम** ।

गुह्य-द्वार खुला रहना (Anus open)—फास, सिकि।

कुब्जियत (Constipation)—इस्कि, इथु, ऐगा, ऐग्ना, ऐलोव, ऐलूमि, ऐनू, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐना, ऐन्थ, एपिस, आर्जना, आर्ज-मेट, आर्स, अरम, बैरा-कार्ब, बैरा-म्यू, बार्थ, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कोलोफा, कास्टि, चेलि, चायना, काकि, काफि, कोनियम, कोना, कोपे, क्रोटे-टेर, डैफ, डिजि, डायस्को, डाल, इलैप्स, फेरम, फ्लू-ऐ, फार्मि, गैम्बो, ग्रेफा, गुयो, हेलि, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, आइरि, जैट्रो, कैलि-बा, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, क्रियो, लैके, लैक-डि, लोरो, लेप्टा, लिलि-टिग, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मैन्सि, मिलि, मार्क, मार्क-आ-फले, मेजे, मेस्क, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वो, ओपि, आक्जे-ऐ, फास, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रैफे, सैबाडि, सार्सा, सिके, सिलि, सिपिया, साइलि, स्पिजि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ऐ, टैर, थेरि, टियु, वार्बा, विरे, याइप, जिङ्क।

" स्त्रुके पहले—ग्रेफा, कैलि-कार्ब, नक्स वोम, साइलि, सल्फ।

" " समय—ऐमोन कार्ब, एपिस, आरम, ग्रेफा, कैलि कार्ब, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, नेट्र-स, प्लैटि, सिपिया, साइलि, सल्फ।

" कष्टसे पाखाना होना—इग्नि, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐनू, ऐमोन कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐना, ऐरिट्र-क्रु ड, एपिस, आरम, बैरा-कार्ब बैरा-म्यू, बार्थ, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो वेज, कास्टि, चाइना, कोना, फेरम, ग्रेफा, हेलि, हिपर, इग्ने, कैलि-बा, कैलि कार्ब, लैके, लैक-डि, लाइको, मैग-म्यू, मेजे, म्यू ऐ, नेट्र कार्ब नेट्र-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि, पोडो, सोरि, प्लम्ब, फ्लोडो, सेनि, सार्सा, सिपिया, साइलि, स्टैनम, सल्फ, टैर थुजा, वार्बा, जिङ्क।

उदरामय, घटना सदे प्रयोगसे—साइक्ला, लाइकी, पल्स ।
„ „ सोनेसे—व्राइयो, मार्क, पोडो, सैबाडि ।
„ „ „ पार्श्वमें—पोडो ।
„ „ „ „ दाहिने—फास ।
„ „ हवामें खुली—डाय, आइयो, नेट्र-सल्फ, **पल्स** ।
„ „ हवा छूटनेपर—ऐलो, आर्नि, कोल्को, कौल्को-फास, ग्रैटि, हिपर, आइरि, कैलि-ना, मेजे ।
„ **बढ़ना**, खड़े होनेपर—ऐलो, आर्स, काकि, इग्ने, लिलि-टिग, रियुम, **सल्फ** ।
„ „ घूमनेसे—ऐलो, ऐलूमि, कौल्को, जेल्स, मार्क ।
„ „ गरमसे—पल्स, सिके ।
„ „ गरम भोजनके पदार्थसे—फास ।
„ „ „ घरमें—एपि, आइयो, पल्स ।
„ „ ठण्डा, भोजनके पदार्थसे—"भोजनका पदार्थ, ठण्डा" देखिये ।
„ „ „ पतली चीजें पीनेसे—"पीना" देखिये ।
„ „ तम्बाकू पीनेसे—बोरा, ब्रोमि, कैमो ।
„ „ दबानेसे—ऐण्टिम-टार्ट, वेल, सिकि ।
„ „ पेशाब करनेसे—ऐलो, **ऐलूमि**, कैन्थ, हाइयो, स्कुई ।
„ „ बहुत कम हिलनेसे—फेरम ।
„ „ विश्राम करनेसे—साइक्ला, क्रोडो, रास-टक्स, जिङ्क ।
„ „ सोनेसे—डाय, आकूजे-ऐ, रैफे ।
„ „ „ चित्त होकर—पोडो ।
„ „ „ पार्श्वमें—व्राइयो ।
„ „ „ „ दाहिने—फास-ऐ ।
„ „ „ „ बायें—आर्निका, फास ।
„ „ „ बाई करवटमें, पाखाना जानेकी इच्छा—आर्निका, फास ।
„ „ हिलने पर—वेल, **व्राइयो**, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन, **फेरम**, इपि, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पोडो, पल्स, रियुम, **विरे** ।

गुह्य खुला (Anus open)—फास, सिके।

कुब्जियत (Constipation)—**इस्कि,** इथु, ऐगा, ऐग्ना, ऐनोथ, **ऐलूमि,** ऐलू, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐना, ऐन्थ, **एपिस,** आर्जे-ना, आर्जे-मेट, **आर्स,** आरम, बैरा-कार्ब, बैरा-म्यू, बार्बे, **ब्राइयो,** **कैल्के,** कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कोलोफा,** **कास्टि,** चेलि, चायना, **काक्कि,** **काफि,** **कोनिन्स,** कोना, कोपे, क्रोट-टेर, डेफ़, डिजि, डायस्को, डाल, इलेप्स, फेरम, फ्लू-ऐ, फार्मि, गेम्बो, **ग्रैफा,** गुयो, हेलि, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, आइरि, जैट्रो, केलि-बा, केलि-क्लोर, कैलि-आयोड, क्रियो, लैकि, लैक-डि, लोरो, लेप्टा, लिलि-टिग, **लाइको,** मैग-कार्ब, **मैग-म्यू,** मैग्नि, मिनि, मार्क, मार्क-आ-फले, मेजे, मेस्क, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, **नेट्र-म्यू,** **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-म, **नक्स-वो,** ओपि, आक्जे-ऐ, फास, फाइटो, **प्लैटि,** प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रैफे, रैवाडि, सार्सा, सिके, सिनि, **सिपिया,** **साइलि,** स्पिज, स्टैनम, **स्टैफि,** **स्ट्रैमो,** सल्फ, सल्फ-ऐ, टेरे, थेरि, टियु, वार्बा, **विरे,** वाइथ, जिङ्क।

„ ऋतुके पहले—ग्रैफा, **केलि-कार्ब,** नक्स-वोम, **साइलि,** सल्फ।

„ „ समय—ऐमोन कार्ब, **एपिस,** आरम, **ग्रैफा,** केलि कार्ब, नेट्र-म्यू, नक्स-वोम, नेट्र-स, **प्लैटि,** **सिपिया,** **साइलि,** सल्फ।

„ कष्टसे पाखाना होना—इस्कि, ऐलि-सि, **ऐलूमि,** ऐलू, ऐमोन कार्ब, **ऐमोन-म्यू,** ऐना, **ऐण्टि-क्रूड,** एपिस, आरम, बैरा कार्ब, बैरा म्यू, बार्बे, **ब्राइयो,** केल्के, कैम्फ, कार्बो वेज, **कास्टि,** क्लेमि, कोना, फेरम, **ग्रैफा,** हेलि, **हिपर,** काली, केलि-बा, केलि कार्ब, लेके, **लैक-डि,** लाइको, **मैग-म्यू,** मेजि, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, **नेट्र-म्यू,** **नाइट्रि-ऐ,** **नक्स-म,** **नक्स-वोम,** ओपि, फास, प्लैटि, पोडो, सोरि, पल्स, रैटो, सेनि, सार्सा, **सिपिया,** **साइलि,** स्टैनम, सल्फ, टेरे, थूजा, वार्बा, जिङ्क।

उदरामय, घटना सदं प्रयोगसे—साइक्ला, लाइकी, पल्स।
„ „ सोनेसे—ब्राइयो, मार्क, पोडो, सैबाडि।
„ „ „ पार्श्वमें—पोडो।
„ „ „ „ दाहिने—फास।
„ „ हवामें खुली—डाय, आइयो, नेट्र-सल्फ, **पल्स**।
„ „ हवा छूटनेपर—ऐलो, आर्नि, कोल्कि, कैल्क-फास, ग्रैटि, हिपर, आइरि, कैलि-ना, मेजे।
„ **बढ़ना**, खड़े होनेपर—ऐलो, आर्स, काकि, इग्ने, लिलि-टिग, रियुम, **सल्फ**।
„ „ घूमनेसे—ऐलो, ऐलूमि, कोल्कि, जेल्स, मार्क।
„ „ गरमसे—पल्स, सिके।
„ „ गरम भोजनके पदार्थसे—फास।
„ „ „ घरमें—एपि, आइयो, पल्स।
„ „ ठण्डा, भोजनके पदार्थसे—"भोजनका पदार्थ, ठण्डा" देखिये।
„ „ „ पतली चीज पीनेसे—"पीना" देखिये।
„ „ तम्बाकू पीनेसे—बोरा, ब्रोमि, कैमो।
„ „ दबानेसे—ऐण्टिम-टार्ट, वेल, सिकि।
„ „ पेशाब करनेसे—ऐलो, **ऐलूमि**, कैन्थ, हाइयो, स्कुई।
„ „ बहुत कम हिलनेसे—फेरम।
„ „ विश्राम करनेसे—साइक्ला, ड्रोडो, रास-टक्स, जिङ्क।
„ „ सोनेसे—डाय, आकूजे-ऐ, रैफि।
„ „ „ चित्त होकर—पोडो।
„ „ „ पार्श्वमें—ब्राइयो।
„ „ „ „ दाहिने—फास-ऐ।
„ „ „ „ बायें—आर्निका, फास।
„ „ „ बाईं करवटमें, पाखाना जानेकी इच्छा—आर्निका, फास।
„ „ हिलने पर—वेल, **ब्राइयो**, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन, **फेरम**, इपि, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पोडो, पल्स, रियुम, **विरे**।

गुह्यद्वार (Anus open)—फास, सिके।

कुब्जियत (Constipation)—**इस्कि**, इथु, ऐगा, ऐग्ना, ऐलोज, **ऐलूमि**, ऐलू, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐना, ऐन्य, **एपिस**, आर्जेना, आर्ज-मेट, **आर्स**, आरम, बैरा-कार्ब, बैरा-म्यू, बार्ब, **ब्राइयो**, **केल्के**, केल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कोलोफा**, **कास्टि**, चेलि, चायना, **काकि**, **काफि**, **कोलिन्स**, कोना, कोपे, क्रोटे-टीर, डैफि, डिजि, डायस्को, डाल, इलेप्स, फेरम, फ्ल-ऐ, फार्मि, गैम्बो, **ग्रैफा**, गुयो, हेलि, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, आइरि, जेट्रो, केलि-ब्रा, केलि-क्लोर, केलि-आयोड, क्रियो, **लैकि**, लैक-डि, लोरो, लेप्टा, लिलि-टिग, **लाइको**, मैग-कार्ब, **मैग-म्यू**, मैग्नि, मिलि, मार्क, मार्क-प्रा-फ्ले, मेजे, मेस्क, म्यू-ऐ, नेट्र-कार्ब, **नेट्र-म्यू**, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-म, **नक्स-वो**, ओपि, आक्जे-ऐ, फास, फाइटो, **प्लेटि**, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रैफे, सैबाडि, सार्सा, सिके, सिलि, **सिपिया**, **साइलि**, स्पिजि, स्टैनम, **स्टैफि**, **स्ट्रैमो**, सल्फ, सल्फ-ऐ, टैरे, थेरि, टियु, वार्बा, **विरे**, वाइथ, जिङ्क।

" ऋतुके पहले—ग्रैफा, **केलि-कार्ब**, नक्स-मोम, **साइलि**, सल्फ।

" " समय—ऐमोन कार्ब, **एपिस**, आरम, **ग्रैफा**, केलि कार्ब, नेट्रम-म्यू, नक्स मोम, नेट्र-म, **प्लेटि**, **सिपिया**, **साइलि**, सल्फ।

" कष्टसे पाखाना होना—इस्कि, ऐलि सि, **ऐलूमि**, **ऐलू**, ऐमोन-कार्ब, **ऐमोन-म्यू**, ऐना, **ऐण्टि-क्रूड**, एपिस, आरम, बैरा कार्ब, बैरा-म्यू, बार्बे, **ब्राइयो**, केल्के, कैम्फ कार्बो वेज, **कास्टि**, काफि, कोना, फेरम, **ग्रैफा**, हेलि, **हिपर**, इग्ने, केलि-का, केलि कार्ब, लेडे, **लैक-डि**, लाइको, **मैग-म्यू**, मेजे म्यू ऐ, नेट्र कार्ब, **नेट्र-म्यू**, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-म**, **नक्स-मोम**, ओपि, फास, **प्लेटि**, पोडो, सोरि, पल्स, प्लोडो, सैनि, सार्सा **सिपिया**, **साइलि**, स्टैनम, सल्फ, टैरे, थुजा, वार्बा, जिङ्क।

उदरामय, घटना सदै प्रयोगसे—साइला, लाइकी, पल्स ।
" " सोनेसे—बाइयो, मार्क, पोडो, सैबाडि ।
" " " पार्श्व में—पोडो ।
" " " " दाहिने—फास ।
" " हवामें खुली—डाय, आइयो, नेट्र-सल्फ, पल्स ।
" " हवा छूटनेपर—ऐलो, आर्नि, कोल्कि, कैल्कि-फास, ग्रैटि, हिपर, आइरि, कैलि-ना, मेजि ।
" बढ़ना, खड़े होनेपर—ऐलो, आर्स, कालि, इग्ने, लिलि-टिग, रियुम, सल्फ ।
" " घूमनेसे—ऐलो, ऐलूमि, कैल्कि, जेल्स, मार्क ।
" " गरमसे—पल्स, सिके ।
" " गरम भोजनके पदार्थसे—फास ।
" " " घरमें—एपि, आइयो, पल्स ।
" " ठण्डा, भोजनके पदार्थसे—"भोजनका पदार्थ, ठण्डा" देखिये ।
" " " पतली चीजें पीनेसे—"पीना" देखिये ।
" " तम्बाकू पीनेसे—बोरा, ब्रोमि, कैमो ।
" " दबानेसे—ऐण्टिम-टार्ट, बेल, सिकि ।
" " पेशाब करनेसे—ऐलो, ऐलूमि, कैन्थ, हाइयो, स्कुई ।
" " बहुत कम हिलनेसे—फेरम ।
" " विश्राम करनेसे—साइला, फ्लोडो, रास-टक्स, जिङ्क ।
" " सोनेसे—डाय, आकुर्जे-ऐ, रैफे ।
" " " चित्त होकर—पोडो ।
" " " पार्श्व में—ब्राइयो ।
" " " " दाहिने—फास-ऐ ।
" " " " बायें—आर्निका, फास ।
" " " बाईं करवटमें, पाखाना जानेकी इच्छा—आर्निका, फास ।
" " हिलने पर—बेल, ब्राइयो, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन, फेरम, इपि, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पोडो, पल्स, रियुम, विरे ।

कार्डु-मे कैमो, गेम्बो, इग्ने, आइयो, कोलि-कार्ब, लाइको, मैग-म्यू र, नेट्रम-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

कब्जियत, पर्यायक्रमसे उदरामयके साथ—ऐन्टी, ऐण्टिम-क्रू ड, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, ब्रम, ब्राइयो, कार्डु-मे, केल्का, चेलिडो, सिमि, कोलिन, कोना, कूप्रम, डिजि, हिपर, इग्ने, आइयो, कैलि-कार्ब, लैक-डि, लैक्टि-ऐ, मैन्सि, नेट्रम-म्यू र, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, पोडो, टिलि-ट्रि, पल्स, रूटा, सल्फ, टेबे।

» पुरानी—ब्राइयो, कास्टि, चिनि-स, ग्रैफा, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यू र, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, सल्फ, थूजा, सिपे।

» पाखाना, मलनालीमें बहुत देर तक रहता है लेकिन वेग नहीं आता—"अकर्मण्यता" देखिये।

» बूढ़ोंका—ऐण्टि-क्रू ड, बेरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के-फास, कोना, लैके, ओपि, फास, फाइटो।

» विष्ठा के करनेके साथ—प्लम्ब।

» सीसाके विषकी वजहसे—ऐलूमि, ओपि, प्लेटि।

» सूखापनकी वजहसे मल नालीका—ऐलूमि।

» सोनेके कारण बैठे रहनेकी वजहसे (हमेशा) (Sedentary habit). —ऐलो, ब्राइयो, लाइको, नक्स वोम, ओपि, प्लेटि, पोडो, सल्फ।

कांखना (Urging desire)—ऐकोन, ऐलो, ओपि, आर्जेण्ट नाई, आर्निका, आर्स, ऐसार, बेल, बिस्मथ, ब्राइयो, चेलिडो, सिमिफ्य, कोलचि, कोना, डाल, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, लिलि-टिग, मार्क, मार्क कोर, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, ओपि, फास, पाइरो, प्लम्ब, पोडो पल्स रैना सि, रियुम, शीडो रूटा सिपि साइलि, स्टैफि, सल्फ टेबे।

» » जल्दी जल्दी (Frequent) बारबार—ऐसट। ऐसिड आर्जि, कोलोसि, कोना, हिपर, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम म्यू र, नक्स वोम, फास ऐ, रियुम।

काठियत, कष्टसे पाखाना होना, अपने आप नहीं निकलता है अङ्गुलि या यन्त्रकी सहायतासे निकाला जाता है—(१) ओपि, प्लम्ब, मेलि, साइलि। (२) ऐलो, ऐलू, ब्राइयो, कैल्के, रूटा, सेनि, सिपि, विरे।

" " खड़े होकर केवल पाखाना फिर सकता है—कास्टि।

" " नरम मल, लेकिन कष्टसे निकलता है—**ऐलूमि**, ऐना, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, चायना, **हिपर**, इग्ने, कैलि-का, नेट्र-कार्ब, नेट्र-सल्फ, **नक्स-वोम**, सोरि, **सिपिया**, साइलि, स्टेनम, सल्फ।

" " पाखाना बाहर निकलते निकलते भीतर घुस जाता है (Slips back)—म्यू-ऐ, नेट्र-म्यू, **ओपि**, सेनि, **साइलि**, स्टेनम, सल्फ।

" " पाखाना, पाखानाकी जगह तक आकर टुकड़े टुकडे होकर बाहर निकलता है—ऐमोन-म्यूर, मैग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, सेनि, जिङ्क।

" " पेशाब करनेके समय, केवल पाखाना फिर सकता है—ऐलो, ऐलूमि।

" " स्वाभाविक पाखाना, लेकिन कष्टसे निकलता है—**सोरि**, **साइलि**।

" औषधिके अपव्यवहारसे—ब्राइयो, **कोलोसि**, हाइड्रो, **नक्स-वोम**, ओपि, सल्फ।

" कांखना, पाखाना जानेकी इच्छासे (Urging desire)—"कांखना" देखिये।

" चेष्टा भी न होनाके साथ (पाखाना न लगना)—ऐलूमि, ग्रैफा, लाइको।

" गर्भावस्थामें—ऐगा, ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, एपि, ब्राइयो, कोलि, कोनायम, **डोलि**, हाइड्रो, लाइको, **नेट्रम-सल्फ**, **नक्स-वोम**, ओपियम, **प्लैटि**, पोडो, सल्फ।

" तृप्ति नहीं होती, पाखाना जानेसे साफ नहीं होता (Unsatisfactory, insufficient)—**ऐलो**, ऐलमि, आर्निका, बैरा-कार्ब, ब्राइयो,

कृमि, फीतेकी तरह (Tape worms)—आइलैन्थ, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, फिलिक्स, फार्मि, ग्रैफा, नेट्रम-कार्ब, प्लैटि, पल्स, सैबाडि, सिपि, साइलि, सल्फ।

,, सूतेकी तरह और टुकड़े टुकड़े—(१) बेरा-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, सैबा, (२) कैल्के, फेरम, इग्ने, मैग सल्फ, नेट्रम-फास, रैटा, सिपि, **सिनापि**, स्पाइ, स्पिजि, सल्फ, टियुक्रि, वेले।

कीड़ा चलता फिरता मालूम होना (Crawling sensation)—इस्कि, ऐनि-मि, बैरा-कार्ब, कैल्के, कार्बो-वेज, चेलिडो, क्रोकस, इग्ने, नक्स-वोम, प्लैटि, सैबाडि, सिपि, **सल्फ**, टियु, जिङ्क।

खड़े होकर पाखाना फिर सकता है, सरलतासे—**कास्टि**।

खुजलाना (Itching)—ऐकोन, **इस्कि**, **ऐलो**, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, आर्जे-ना, आर्म, आर्स, कैल्के, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, चेलिडो, सिकि, सिना, कोनिन, क्रोकस, डाल्का, **फ्लू ऐ**, **ग्रैफा**, ग्रैनै, हैमा, इग्ने, आइयो, कैलि कार्ब, **लाइको**, मैग-म्यू, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, पियोनि, पेट्रो, फास, **पल्स**, रैटा, रास-वे, रूमेक्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, थूजा।

,, दिनमें—सल्फ।

,, सवेरे—कार्बो-वेज, सल्फ।

,, रातमें—फेरम, इग्ने।

,, सन्ध्यामें—कैल्के-फास, आइयो, प्लैटि, सल्फ, थूजा।

,, केंचुएकी तरह कृमिकी वजहसे—कैल्के, सैबाडि, टियु।

,, पाखाना आनेके पहले—स्पिजि।

,, ,, समय—मार्क, नेट्रम-म्यूर, फास, साइलि, सल्फ।

,, ,, बाद—ऐलि-कार्ब, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, साइलि, ग्रैफि, सल्फ।

गर्मी मालूम होना (Heat)—इस्कि, ऐलो, आर्स, कोल, म्युरि-ए, मार्क-कोर, सल्फ।

काँखना, निष्फल (Ineffectual)—ऐकोन, इग्नि, ऐम्ब्रा, आर्निका, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैना-से, क्रैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कास्टि**, काकि, कोलोसि, **कोना**, फेरम, ग्रैफा, इग्ने, आइयो, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लैके, **लाइको**, मैग-कार्ब, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, नेट्र-म्यूर, नाइट्रि-ऐ **नक्स-वोम**, ओपि, **प्लेटि**, **पल्स**, रैटा, साइलि, **सिपि**, **सिलि**, **साइलि**, स्टैनम, स्टैफि, **सल्फ**, **थूजा**, जिङ्क।

„ पाखाना जानेके पहले—ऐलो, **सल्फ**।

„ „ समय—इग्नि, इथु, ऐण्टिम-क्रूड, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, डाय, डाल, फेरम, गैम्बो, ग्रैफा, हिपर, आइरि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, आक्जे-ऐ, प्लैण्टे, सिलि, साइलि, सल्फ।

„ „ बाद—इथु, ऐलो, आर्स, ब्राइयो, कैल्के-फास, कोलचि, क्रोटन-डाय, ड्रोसि, फेरम, आइरि, लाइको, **मार्क**, **मार्क-कोर**, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **रियुम**, **सल्फ**।

„ पेशाब करनेके समय—**ऐलो**, कैन्थ।

„ हवा छूटनेपर—**ऐलो**, स्पाइजि, रूटा।

„ हमेशा—बार्ब, **क्रोटन**, लिलि-टिग, **मार्क**, **मार्क-कोर**, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ घटना—पाखाना फिरनेके बाद—ऐकोन, इग्नि, ऐलो, ऐलूमि, आर्स, ब्राइयो, कैमो, कोलोसि, **गैम्बो**, **नक्स-वोम**, **रास-टक्स**, सैनि।

कैन्सर कर्कट रोग (Cancer)—ऐलूमि, नाइट्रि-ऐ, सिपि।

क्रिमीकी वजहसे बीमारी—सिकि, **सिना**, फेरम, नक्स-म, नक्स-वोम, सैबाडि, साइलि, सिना-ना, **ब्राइयो**, स्टैनम, **सल्फ**, टेरि, टियु।

„ केचुएकी तरह (Round worms)—बैरा-कार्ब, कैल्के, चेलिडो, सिना, फेरम-सल्फ, मैग-कार्ब, मार्क, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, **सैबाडि**, साइलि, **स्पाइ**, **सल्फ**, टेरि।

टटै, कुट कुट करना पाखाना फिरते समय—म्यू-ऐ, फास।

" " " बाद,—कैल्म, लिलि-टिग, मार्क-कोर, पल्स, स्टैफि।

" टपक (Soreness)—इस्कि, ऐलो, एपि, आर्स, बेरा-कार्ब, बेल, बार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कैल्क-फास, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, गैस्बो, ग्रैफा, हैमा, हिपर, इग्ने, आइरि, केलि-कार्ब, लेकै, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपियम, पोडो, पल्स, रास-टक्स सिपि, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " घूमने फिरनेसे—आर्ज नैट, सेजि, नाइट्रि-ऐ।

" " पाखाना फिरते समय—कास्टि, कोलोसि, ग्रैटि, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

" " " कड़ा पाखाना—नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

" " " बाद—ऐलूमि, कैमो, ग्रैफा, इग्ने, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पोडो, पल्स सल्फ।

" " बैठनेसे—ऐमोन कार्ब, बार्ब, चेलिडो, सल्फ।

" खोंचा मारने जैसा (Twinging)—कास्टि, केलि कार्ब, मेडि ऐ, लाइको, मैग कार्ब, नेट्रम-कार्ब, जिङ्क।

" चबाता है मानो (Gnawing)—कार्बो-वेज, डल्का, फेरम।

" " पाखाना आनेके पहले—नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम।

" " " समय—ऐलूमि, केलि-बा, लिलि टिग, लाइको, पोडो, सल्फ, जिङ्क।

" " " बाद—कैल्के, इग्ने, ऐलूमि, मार्क, फास ऐ, फास पोडो, पल्स, सल्फ।

" " बैठे रहनेसे—कैना-सै।

" " हवा छूटनेसे—कार्बो वेज।

" जलन (Burning)—इस्कि, ऐग ऐनो, ऐलूमि ऐमोन म्यू, आर्जि

आर्स [illegible] [illegible] [illegible], कैप्सि, [illegible] कार्बो-वेज, चेलिडो [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], ग्रैफा, हिपर, इग्ने, इपिकाक, आइरि, केलि कार्ब केलि [illegible],

दर्द, कोंखना आमाशयकी बीमारीसे—ऐकोन, **एपिस**, कैम्पि, इपि, मार्क, **मार्क-कोर**, सल्फ।

" " कब्जियत होनेपर—ऐसाफि, प्लम्ब, नक्स-वोम।

" " पतले दस्त के समय—ऐलूमि, **आर्स**, कार्बो-वेज, कोलोसि, गैम्बो, मार्क, **मार्क-कोर**, सल्फ।

" " " बाद—डाल, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, फास।

" " पाखाना जानेके पहले—ऐकोन, ऐना, ऐलूमि, कैमो, कोलोसि, मार्क, **मार्क-कोर**, नक्स-वोम, प्लम्ब, **सल्फ**, विरे।

" " " समय—ऐकोन, इथू, **ऐलो**, आर्नि, आर्स, बेल, कैल्के, कैम्पि, कास्टि, सिड्र, कोलचि, कोलि, कोलोसि, कूप्रम, **डूपि**, कैलि-बा, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्फि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, **नक्स-वोम**, **ओपि**, पोडो, रास-टक्स, स्पिञ्ज, सल्फ, ड्राम्बि, विरे, जिङ्क।

" " " बाद—इथू, एपिस, आर्स, बेल, कैम्पि, काकि, कोलचि, इम्ने, इपि, कैलि-बा, मैग-कार्ब, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास-ए, पोडो, रियुम, रास-टक्स, **सल्फ**, ड्राम्बि।

" " घटना, गरमसे—कोलोसि, सल्फ।

" " " पाखाना जानेके बाद—ऐकोन, ऐपो, ऐलूमि, आर्स, ऐसाफि, ब्रायो, कैल्के-फास, कैन्थ, कैमो, कोलोसि, **गैम्बो**, **नक्स-वोम**, **रास-टक्स**।

" काँटा गड़नेकी तरह (Pricking)—ऐगा, ब्रायो, कैक्ट, कोलचि, **नाइट्रि-ऐ**, टेरि।

" कुट कुट करना (Smarting)—बैरा-कार्ब, बार्बे, कैम्पि, युपे-प, ग्रैफा, हेलि, लिलि-टिग, मार्क, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर**, **नक्स-वोम**, पियोनि, फास, **पल्स**, स्पिञ्ज, सल्फ, जिङ्क।

दर्द, कुट कुट करना पाखाना फिरते समय—म्यू-ऐ, फास ।

„ „ „ बाद,—कैल्क, लिलि-टिग, मार्क-कोर, पल्स म्ट्रैफि ।

„ टपक (Soreness)—**इस्कि,** ऐलो, एपि, आर्स, बेरा-कार्ब, बेल्ल, **वार्बे,** ब्राइयो, कैल्के, कैल्क-फास, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कास्टि, गैम्बो, ग्रैफा, हैमा,** हिपर, **इग्ने, आइरि, कोलि-कार्ब, लैची, लाइको, मार्क,** मार्क-कोर, **म्यू-ऐ,** नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, **ओपियम,** पोडो, **पल्स,** रास-टक्स, गिपि, **साइलि, सल्फ,** जिङ्क ।

„ „ घूमने फिरनेसे—आर्ज-मेट, मैजे, नाइट्रि-ऐ ।

„ „ पाखाना फिरते समय—कास्टि, कोलोसि, ग्रैटि, नेट्रम-म्यूर, सल्फ ।

„ „ „ कड़ा पाखाना—नेट्रम-म्यूर, सल्फ ।

„ „ „ बाद—ऐलूमि, कैमो, **ग्रैफा, इग्ने,** मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ,** पोडो पल्स, सल्फ ।

„ „ बैठनेसे—ऐमोन कार्ब, वार्बे, चेलिडो, सल्फ ।

„ खोंचा मारने जैसा (Twinging)—कास्टि, कैलि कार्ब, मेकि ऐ, लाइको, मैग कार्ब, नेट्रम-कार्ब जिङ्क ।

„ चबाता है मानो (Gnawing)—कार्बो-वेज, इग्ना, फेरम ।

„ „ पाखाना जानेके पहले—नेट्रम-म्यूर नाइट्रि ऐ, नक्स वोम ।

„ „ „ समय—ऐलूमि, कैलि-बा, लिलि टिग, **लाइको,** पोडो सल्फ, जिङ्क ।

„ „ „ बाद—कैल्के, इग्ने, कैलूमि, मार्क, फास-ऐ, फास, पोडो, पल्स, सल्फ ।

„ „ बैठे रहनेसे—कैना-से ।

„ „ छूना छूटनेसे—कार्बो वेज ।

„ जलन (Burning)—इस्कि, ऐगा, ऐलो, ऐलूमि ऐमोन म्यू, ऐपिस

आर्स वार्बे ब्राइयो कैल्के, कैप्सि कार्बो ऐनि कार्बो-वेज, चेलिडो, कायना, कोको कोरि क्रोटन [illegible], [illegible] ग्रैफा, हिपर इग्ने, इरिजा, आइरि, कैलि-कार्ब.

दर्द, कोखना आमाशयकी बीमारीसे—ऐकोन, **एपिस**, कैम्फि, ड्रापि, मार्क,
मार्क-कोर, सल्फ।

„ „ कब्जियत होनेपर—ऐसाफि, प्लम्ब, नक्स-वोम।

„ „ पतले दस्त के समय—ऐलूमि, **आर्स**, कार्बो-वेज, कोलोसि, गेम्बो,
मार्क, **मार्क-कोर**, सल्फ।

„ „ „ बाद—डाल, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, फास।

„ „ पाखाना जानेके पहले—ऐकोन, ऐना, ऐलूमि, कैमो, कोलोसि,
मार्क, **मार्क-कोर**, नक्स-वोम, प्लम्ब, **सल्फ**, विरे।

„ „ „ समय—ऐकोन, इथू, **ऐलो**, आर्नि, आर्स, बेल, कैल्के,
कैम्फि, कास्टि, सिड्र, कोलचि, कोलि, कोलोसि, क्रूप्रम,
ड्रापि, कोलि-बा, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्फि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स,
नक्स-वोम, **ओपि**, पोडो, रास-टक्स, स्पञ्जि, सल्फ,
ट्राम्बि, विरे, जिङ्क।

„ „ „ बाद—इथू, एपिस, आर्स, बेल, कैम्फि, काकि, कोलचि, ड्रस,
ड्रापि, कैलि-बा, मैग-कार्ब, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मेजि,
नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, पोडो, रियुम, रास-टक्स, **सल्फ**,
ट्राम्बि।

„ „ घटना, गरमसे—कोलोसि, सल्फ।

„ „ „ पाखाना जानेके बाद—ऐकोन, ऐपो, ऐलूमि, आर्स, ऐसाफि,
ब्राइयो, कैल्के-फास, कैन्थ, कैमो, कोलोसि, **गेम्बो**,
नक्स-वोम, **रास-टक्स**।

„ काँटा गड़नेकी तरह (Pricking)—ऐगा, ब्राइयो, बैर्क, कोलचि,
नाइट्रि-ऐ, टेरि।

„ कुट कुट करना (Smarting)—बैरा-कार्ब, बार्बे, कैम्फि, युपे-प, ग्रैफा,
हेलि, लिलि-टिग, मार्क, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर**, **नक्स-वोम**,
पियोनि, फास, **पल्स**, स्पञ्जि, सल्फ, जिङ्क।

दर्द, जलन लैके, लिलि-टिग, लाइको, मैन्सि, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, म्यू-ऐ, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, ओलि, ओपि, पियोनि, फास, प्रू ण-स्पा, सोरि, सिपि, **साइलि**, **सल्फ**, टेरि, थूजा, जिङ्क।

" " सवेरे—म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

" " सन्ध्यामें—कार्बो-ऐनि, आइयो, म्यू-ऐ, सल्फ।

" " आमाशय रोगमें—आर्स, **कैम्फ़ि**, कार्बो-वे, कोलोसि, लैके, आर्टि।

" " गर्भावस्थामें—कैम्फ़ि।

" " पतले दस्तके समय—**ऐलो**, आर्स, अरम, **कैम्फ़ि**, कार्बो ऐनि, कास्टि, चायना, डाल्का, गैम्बो, ग्रैफा, आइरि, कैलि-कार्ब, मैन्सी, मार्क, न्यूफ, **सल्फ**।

" " पाखाना जानेके पहले—बार्ब, नेट्रम-म्यूर, ओलि, रैटा, सल्फ।

" " " समय—ऐलो, आर्स, बार्ब, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, ग्रैफा, हिपर, **आइरि**, लैके, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-स, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **ओपियम**, फास, पल्स, साइलि, स्टैफि, जिङ्क।

" " " बाद—इग्नि, **ऐलो**, ऐमोन-म्यू, एपिस, **आर्स**, बार्ब, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कार्डस, कास्टि, कोलोसि, **गैम्बो**, आइरि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, ओलि, फास, पिक्रि-ऐ, पल्स, साइलि, सल्फ, थूजा, ड्राम्बि, जिङ्क।

" " " कड़ा पाखाना होनेके बाद—ऐलो, आर्स, लाइको, नेट्रम-म्यूर, फास, **साइलि**, सल्फ।

" " **घटना**, ठण्डे (पानी) प्रयोगसे—ऐलो, एपिस, कैलि-बा, टेरि।

" " **बढना**, पेशाब करनेसे—नाइट्रि-ऐ।

" डङ्क मारनेकी तरह (Stinging)—**इग्नि**, ऐमोन-म्यू, एपिस, कैम्फ़ि, कार्बो-ऐनि, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, स्टैफि, सल्फ।

दर्द, उङ्क मारनेकी तरह पाखाना फिरते समय—बार्बे, कैप्सि, कार्ष्टि, नाइको, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, साइलि, सल्फ।

„ „ „ बाद—ऐलो, बार्बे, केल्च, कॉलि-नाइ, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सल्फ।

„ „ घटना बैठे रहनेसे—आर्स, लेके।

„ „ „ गरमसे—आर्स, स्यू-ऐ।

„ „ „ घुटनेके बल बैठनेसे—इग्नि।

„ „ „ पाखाना होनेपर—ऐकोन, ऐलो, ऐलू मि, आर्नि, आर्स, कैल्के-फास, केल्च, कॉमो, कोलोसि, लेके, नेट्रम स

नक्स-वोम, राम-टक्स।

„ „ बढना, खडे होनेपर—इग्नि।

„ „ „ हिलने डोलनेसे—थूजा।

„ दबानेकी तरह, दबाव मालूम होना (Pressing)—ऐकोन, इग्नि, ऐलो, आर्नि, आर्स, वेल, बार्बे, कैल्के, **कास्टि,** चायना, क्रोटन, साइक्ला, ग्रैफा, **इग्ने**, आइरि, केलि-ना, लेके, **लिलि-टिग,** नाइको, मैग स्यू, मार्क, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम,** सल्फ, वैलि।

„ „ नीचेकी तरफ—ऐलो, कार्बो-वेज, **क्रोटन,** इपि नाइको, नक्स म, नक्स वो, **पोडो,** पल्स **सल्फ,** विरे।

„ पाखाना होनेके बाद—**नक्स-वोम।**

„ फाड डालता है मानो (Tearing)—बार्बे, कार्बो वेज, कोलसि, ग्रैफि-कार्ब, नाइको मेजि, **नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम,** फास ऐ, फास सल्फ।

„ „ पाखाना होनेके समय—कैल्के, मेर, **नेट्रम म्यूर,** मार्क, सिपि सिपि, सल्फ-ऐ।

„ „ „ बाद—कोलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर।

„ धंधता है मानो (Sticking)—इग्नि, कैल्के कार्ब वेज कास्टि, ग्रैफा, केलि-कार्ब, नाइको, नाइट्रि ऐ नक्स वोम [illegible] मलक, साइलि, थूजा।

„ सुई चुभोता है मानो (Stitching)—ऐकोन इग्नि, [illegible] एसिड आर्स, [illegible]

दर्द, सुई चुभोता है मासो केप्सि, कार्बो-ऐनि, **कास्टि**, कैमो, कोना, कोपि, क्रोकस, ग्रैफा, **इग्ने**, **कैलि-कार्ब**, **लैके**, लाइको, मार्क, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, **सिपि**, **साइलि**, **सल्फ**, थूजा।

" " खाँसनेसे—इग्ने, लैके, नाइट्रि ऐ।

" " गर्भावस्थामें—कैलि-कार्ब।

" " घूमनेसे—आर्स, क्रोटन, साइलि, सल्फ।

" " पाखाना होनेके पहले—वार्बे, कोना, कैलि-कार्ब, फास।

" " " समय—कार्बो-वेज, कास्टि, **ग्रैफा**, इग्ने, इपि, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, सिपि, स्टैफि।

" " " बाद—ऐलो, कैमो, नेट्रम-म्यूर, **नाइटि-ऐ**, थूजा।

" " फैलता है, ऊपरकी तरफ—ग्रैफा, **इग्ने**, मेजे, सिपि।

" " " कमर तक—ऐलो।

" " " शिश्नमुण्डपर—पेट्रो, थूजा।

" " " शिश्नकी जडमें—जिङ्क।

" " बैठनेपर—आर्स, कैल्के, कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, रूटा, सल्फ, थूजा।

निष्क्रियता (Inactivity)—**ऐलूमि**, ऐना, आर्निका, बैरा-कार्ब, **ब्रोइयो**, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काकि, **ग्रैफा**, हिपर, इग्ने, कैलि-ब्रोम, **कैलि-कार्ब**, लैके, लाइको, मैग-म्यू, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, फास प्लैटि, **प्लम्ब**, पोडो, सोरि, पल्स, रूटा, सिपि, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, **टेरे**, थूजा, विरे।

पक्षाघात (Paralysis)—ऐकोन, ऐलो, ऐलूमि, आर्निका, आर्स, वेल, कास्टि, जेल्स, हाइयो, लोरोसि, म्यू-ऐ, फास, **सिकि**, सल्फ, टैबे।

पालिपस (Polypus)—कैल्के, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **फास**।

नासूर (भगन्दर Fistula)—ऐलो, ऐलूमि, **आरम-म्यू**, वेल, **वार्बे**, ब्राइयो, कैक्ट, **कैल्के**, कैल्के-फास, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, फ्लू-ऐ, ग्रैफा,

नासूर, हिपर, हाइड्रो, कैलि कार्ब, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क, **नाइट्रि-ऐ,** पेट्रो, फास, सिपि, **साइलि,** स्टेफि, सल्फ, सिपि, थूजा।

पूर्ण मालूम (भरापन Fullness)—ऐकोन, **इस्कि, ऐलो,** बेल, **हैमा,** लैके, **नाइट्रि-ऐ,** फास, सल्फ।

फटना (Fissure)—ऐग्न, ऐलि-सि, कास्टि, कैमो, काए र, फ्लू-ऐ, **ग्रेफा,** हाइड्रो, इग्ने, लैके, नेट्र-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, पियोनि, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लम्ब, रैटा, **सिपि,** साइलि, सल्फ।

फूलन, मलद्वारमें (Swelling of anus)—इस्कि, एपिस, ग्रेफा, हिपर, पियोनि, पोडो, सल्फ।

फोड़ा (Abscess)—कैल्के, कैल्के-स, हिपर, मार्क, साइलि, सिपि, थूजा।

बाहर निकलना (Prolapsus)—इस्कि, आर्स, ऐसार, बेल, **कैल्के,** कोलचि, कोलि, डिजि, डाल, फेरम, ग्रेफा, हिपर, **इग्ने,** आइरि, कैलि बा, लैके, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, **म्यू-ऐ,** नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, **पोडो,** सिपि, सल्फ।

» पाखाना होनेके समय—ऐंगिल-क्रुड, बेल, कैल्के, फ्लू-ऐ, गैम्बो, इग्ने, लाइको, पोडो, रास-टक्स, सल्फ, रूटा, इग्नि।

» » बाद—इस्कि, काफि, इग्ने, मार्क, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पोडो, सल्फ।

» पतले दस्त होनेके समय—कैल्के, **डाल, मार्क, पोडो।**

» प्रसवके बाद—पोडो, रूटा।

» पेशाब करनेके समय—म्यू-ऐ, बेल।

» बच्चोंका—फेरम, पोडो।

» यन्त्रणादायक—आर्स।

बाहरकी कोई चीज भीतर मालूम होना (Sensation of foreign body)—निनि टिग नेट्रम-म्यूर, प्लैटिन, सिपि सल्फ।

भगन्दर (Fistula in ano)—"नासूर" देखिये।

भारी मालूम होना, ठेलता है ऐसा मालूम होना (Heaviness, pressing, dragging)—ऐकोन **इस्कि, ऐलो,** [illegible] कार्बो वेज, [illegible]।

मसा—"अर्श" देखिये।

रक्त-स्राव (Haemorrhage from anus)—**ऐकोन**, इस्कि, ऐलो, ऐमोन-कार्ब, ऐसिट-क्रूड, एपिस, आर्स, बेल, बैरा-कार्ब, **कैक्ट, कैल्के**, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काक्कि, कोलि, ग्रैफा, **हैमा**, हिपर, इपि, **लैके**, **लाइको**, मार्क, मार्क-कोर, मिलि, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम**, फास, फाइटो, पोडो, पल्स, सिपि, **सल्फ**, थूजा, वैले, विरे जिङ्क।

„ ऋतुके समय—ऐमोन-म्यू, लैके।

„ काला—ऐण्टिम-क्रूड, मार्क-कोर।

„ पाखाना होनेके समय—ऐम्ब्रा, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, लाइको, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, प्लैटिं, पल्स, रियुम।

„ „ बाद—ऐगा, ऐलो, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, चेलिडो, साइक्ला, ग्रैफि, कैलि-ना, लैके, मार्क, मेजि, नेट्रम-म्यूर, फास, रास-वेन, मिलि, सिपि, सब्जि, सल्फ।

„ „ „ पाखाना कड़ा रहनेकी वजहसे—**नेट्रम-म्यूर**, प्रूण-स्पा।

लाल आभा लिये हुए, मलद्वारका (Redness of anus)—ऐलो, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, सल्फ, जिङ्कि।

शिथिल, मलद्वार (Relaxed anus)—**ऐलो, एपिस**, कार्बो-वेज, चायना, कैलि-कार्ब, **फास**, फ्लोडो, सिके, जिङ्कि।

सङ्कोचन (Constriction, contraction, closure)—ऐकोन, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, कैना-से, चेलिडो, काक्कि, कोलचि, फ्लु-ऐ, फार्मि, हाइयो, इग्ने, कैलि-बा, **लैके**, **लाइको**, नेट्रम-म्यूर, **नाइ-ऐ**, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, प्लम्ब, सिपि।

„ भकाड़नभरा (Spasmodic)—लैके, **नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम**, ओपि।

„ पाखाना होनेके पहले—लैके, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, सिपि।

„ „ समय—ऐलूमि, आर्स, चेलिडो, क्रियो, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स वोम, फास, सिपि, **साइलि**, थूजा।

सङ्कोचन, पाखाना होनेके बाद—इग्ने, लैकी, नाइट्रि-ऐ, फास, सिपि, सल्फ, थूजा।

» पाखाना होनेमें बाधा देता है—आर्ज, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम।

» यन्त्रणा-दायक—काफि, लैकी, लाइको, मेज़े, नक्स-वोम, प्लम्ब, साइलि।

सर्दी मालूम होना (Coldness)—ऐलि-सि, कैलि-आ, नेट्रम-म्यूर, साइलि, सल्फ।

स्पर्शासहिष्णु (Sensitive)—ऐलो, बेल बार्ब, कोल्के, कास्टि, ग्रैफा, हिपर, लैके, लाइको, म्यूर-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पीओ, सिपि, साइलि, थूजा।

स्राव, तर (Discharges, moisture)—ऐकोन, इस्कि ऐलो, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, बेरा-कार्ब, बेल, बोर, कोल्के, कैल्क, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, डाय, ग्रैफा, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, म्यूर-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पियोनि पेट्रो, फास, फाइटो, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

» रक्त मिला हुआ—ऐलूमि, कार्लस, मेज़ेरि, साइलि थूजा।

सुरसुरी, पाखानेकी जगहमें (Formication in anus)—बेरा-कार्ब आर्स, कोकस, इग्ने, कैलि-कार्ब, म्यूर-ऐ नक्स-वोम, फास, प्लैटि, सल्फ, टियु।

सूखा मालूम होना (Dryness)—इस्कि, इयु, ऐना, ऐलूमि, कैल्के, कार्बो-वेज, ग्रैफा, नेट्रम म्यूर, सल्फ।

हवा छूटना (Passing of flatus)—ऐगा, ऐलो, ऐमोन म्यूर, ऐण्टिम टार्ट, ऐपो, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका, आर्स ऐसाफि बराइ बेरा कार्ब, ब्रिकम, ब्रायो, कार्ब ऐनि कार्बो-वेज, कास्टि कैमो, चायना, काफि, कोलोसि, कोना क्रोटे टिग, क्रोटन डाय, ग्रान, फेरम, ग्रैफा, हिपर इग्ने, कैलि कार्ब, कैलि लिलि टिग, लाइको, मार्क, मैग्न-कार्ब, नेट्रम म्यूर नेट्रम-सल्फ, नक्स योम, ओपि, फास, फास ऐ, प्लम्ब-ऐ

स्या छूटना सोरि, पल्स, यूफ्रे, रोडो, सिके, सिपि, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टियु, थूजा, विरे, जिङ्क।

„ सवेरे—कार्बो-वेज, हिपर, प्लम्ब, पल्स।

„ दिनमें—नेट्रम-म्यूर, भाव्जा-ऐ, प्लेटि, सल्फ।

„ सन्ध्यामें—कार्बो-ऐनि, गैम्बो, सल्फ।

„ रातमें—ब्राइयो, कोलोसि, हिपर, इग्ने, सल्फ, विरे।

„ कष्टकर—ऐलि-सि, कैल्के-फास, काकि, ब्राइयो, नेट्रम-सल्फ, श्रोपि, फास, प्लेटि, सल्फ-ऐ।

„ गन्ध, दुर्गन्धसे भरा हुआ (Offensive)—ब्रुस्त्रि, ऐलि-सि, ऐलो, आर्निका, आर्स, ऐसाफि, अरम, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कोलोसि, डाय, डाल, ग्रैफा, इग्ने, लैके, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, श्रोपि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टियु, वेले।

„ „ सवेरे—ऐलि-सि, लाइको, नेट्रम-सल्फ।

„ „ सन्ध्यामें—ऐलो, कोलचि, लाइको, नेट्रम-सल्फ, फास।

„ „ गन्ध रहित (Odorless)—ऐगा, वेल, लाइको, सल्फ।

„ „ सड़े अण्डेकी तरह (Spoiled eggs)—आर्निका, कैमो, हिपर, सोरि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ बार बार—ऐगा, ऐलो, ब्राइयो, कार्बो-वेज, चिनो, चायना, ग्रैफा, कोलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, श्रोलि, फास-ऐ, प्लम्ब, रोडो, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टियु, जिङ्क।

„ गरम (Hot)—ऐकोन, ऐलो, कार्बो-वेज, कैमो, काकि, डाय, फास, प्लम्ब, पल्स, स्टैफि, सल्फ, टियु, जिङ्क।

„ घटता है-रोग—आर्जेण्ट-नाई, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, इग्ने, लाइको, नक्स-वोम, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रोडो, सैंगु, स्टैफि, सल्फ, विरे।

हवा छूटना, जोरसे आवाज होनेसे—ऐलो, आर्जेण्ट-नाई, कास्टि, नेके, मेजे, नेट्रम-सल्फ, फास, प्लेण्टे, टियु, जिङ्क।

„ „ पाखाना होनेके समय—ऐलो, नेट्रम-सल्फ, फास-ऐ, थूजा।

„ „ „ फड फड आवाजसे (Sputtering)—ऐलो, इग्नुजि, नेट्रम-सल्फ।

„ पतले दस्त होनेके समय—आर्जेण्ट-नाई, कार्बो-वेज, चायना, कोलोसि, डाय, कैलि-कार्ब, लेके, लाइको, मैग्नि, म्य-ऐ, नेट्रम-सल्फ, निक्रो, नक्स-वोम।

„ पाखाना होनेके समय—ऐगा, ऐलो, आर्जेण्ट नाई, चायना, कोलि, कोलोसि, कोना, फेरम, आइरि, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, फास-ऐ, पोडो, सिके, स्टेफि।

„ वेग देनेसे हवा छूटती है—ऐलो, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, नेट्रम-सल्फ।

„ भोजनके बाद—ऐलो, ऐण्टिम-क्रूड, इग्ने, ओपि, प्लेटि, सिपि, टैबे।

हैजा (Cholera)—ऐकोन, आर्स, कैम्फ, कार्बो-वेज, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन, कूप्रम, इलेटे, ग्रैटि, इपिकाक, आइरि, जैट्रो, कैलि-कार्ब, लोरो, फास, फास-ऐ, पोडो, रैफि, सिके, टैबे, थूजा, सल्फ, विरे।

„ बालकोंका—ऐकोन, इथू, ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम टार्ट, आर्स, बेल बिस्मथ कैल्के, कैम्फ, कार्बो वेज, कोलचि, कोलोसि, कास्टि, क्रोटन, इलेटे, ग्रैटि, इपि, आइरि, जैट्रो, पोडो, सिके फास, माइलि मल्फ, थूजा विरे।

मल (STOOL)।

अजीर्ण (Undigested)—इथू, ऐसिड-फ्लूड, आर्जे-नाई, आर्नि, **आर्स**, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैमो, **चायना**, सिना, कोलोसि, कोवा, इलेप्स, **फेरम**, फेरम-फास, गैम्बो, **ग्रैफा**, हिपर, आइरि, लेप्टा, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **ओलि**, पेट्रो, **फास-ऐ**, **फास**, प्लैटि, **पोडो**, रैफे, रोडो, रास-टक्स, सैंगु, सिके, साइलि, सल्फ।

„ सवेरे—चायना, ओलि।

„ रातमें—इथू, ऐमोन म्यूर, ब्राइयो, चायना, कोलोसि, फेरम, विरे।

„ पहले दिनका खाया हुआ पदार्थ—ओलि।

आम; चिकनी, थक्का, थक्का (Mucous, slimy)—इथू, ऐमोन-म्यूर, एपिस, **आर्जे-नाई**, आर्नि, ऐसार, बैप्टि, बेल, बोरा, ब्रोमि, कैल्के-फास, कैन्थ, **कैप्सि**, कास्टि, कैमो, चेलिडो, काकि, **कोलचिकम**, कोलोसि, कार्णा, क्रोटन, डालका, **गैम्बो**, **ग्रैफा**, **हेलि**, हिपर, हाइयो, आइयो, इपिकाक, कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, **मार्क**, **मार्क-कोर**, म्यूर-ऐ, नेट्रम सल्फ, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, फाइटो, प्लम्ब, पोडो, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सिके, साइलि, स्का ई, स्टैनम, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, **विरे**।

„ कालिमा लिये (Blackish)—आर्स, काकि, इलाटे।

„ कुचले अण्डे की तरह (Chopped eggs or spinach)—कैमो।

„ खून मिली (Bloody)—ऐकोन, इथू, ऐलोज, आर्स, बैरा-म्यूर, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, कोलोसि, फेरम, फास, हिपर, आइयो, कैलि-क्लो, लैके, मैग म्यूर, **मार्क**, **मार्क-कोर**, **नेट्रम-कार्ब**, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, **पोडो**, सोरि, पल्स, सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ खूनकी आभा लिये—आर्जे-नाई, कैन्थ, सिना, कोलचिकम, ग्रैफा, **लाइको**, मार्क, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

श्याम, घोर काला—आर्ज नाई, आर्स, इपिकाक, लिलि-टिग, स्यू र-ऐ, टैरे।

" श्लामनीकी तरह (Jelly like)—ऐलोज, एपिस, ऐसार, वेरा-स्यूर, कैडमि, केल्को, कोलचिकम, कोलोसि, ऐलि, केलि-बाई, नेट्रम-फास, पोडो, रास-टक्स, सिपि।

" थक्का थक्का—ऐलोज।

" दानाभरा (Granular)—वेल, फास।

" पीली—एपिस, बोरा, कैमो क्यूबे, मैग कार्ब, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सल्फ-ऐ, सल्फ।

" भूरी (Brown)—आर्स, कार्बो-वेज, डलका, नक्स वोम, रियुम, जिङ्क।

" लसदार (Pasty, papescent)—ऐलोज, एपिस, आर्नि, ऐमाफि, वैप्टी, ब्रायो, कैल्के, कार्डु-मे, चेलिडो, कोलोसि, क्रोटन, हिपर, लैके, लेप्टा, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपियम, फास-ऐ, पोडो, रियुम, सल्फ ऐसिड, सल्फ।

" सड़ी दुर्गन्ध मिली (Fetid)—लैके, मार्क कोर, सल्फ ऐ, सल्फ।

" सफेद—आर्स, वेल, कैल्क, कास्टि, कैमो, सिना, डलका, हेलि, आइयो, इपिकाक, नेट्रम-म्यूर, फास ऐ, पोडो, पल्स रियुम, सल्फ।

" स्वच्छ (Transparent)—ऐलोज, कोलचि, रास टक्स।

" हरे रङ्गकी (Green)—ऐकोन, ऐथू, ऐण्टिम टार्ट, एपिस, आर्जे नाई, आर्स, वेल, बोरा, ब्रायो कैल्के-फास, कैम्फ, कोलो, कैमो, सिना, सिनेबा, कोलोसि, डलका ग्रैटि, हेपर इपिकाक, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम फास, पल्स, रियुम, सल्फ।

खमीर जैसा (Fermented)—(१) आर्नि इपि (२) बोरा [illegible], रियुम, पोडो, [illegible]।

कड़ा (Hard)—ऐगा [illegible], ऐलूमि, ऐलो, [illegible] ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम-क्रूड, एपिस [illegible] [illegible], बोवि, ब्रायो, कैल्के, कार्बो ऐनि [illegible] [illegible], चेलिडो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

गाढ़ा, हैमा, हिपर, इग्ने, कैलि बा, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, कैल्मि, लैका-डि, लैक्सि, लोरो, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रैटा, रूमे, सैबा, सैनि, सिलि, सेने, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्ट्रान्सि, सल्फ, टैरे, थिरि, वार्ब, जिङ्क ।

„ अनजानमें निकल जाना—ऐलो ।

„ नरम, पर्यायक्रमसे—आर्स, बोरे, आइयो, लैके, मैग-स, नाइट्रि-ए, फास ।

„ गाढ़ा, पहले-पीछे पतला—ऐलो, कैल्के, लैक्टि-ए ।

„ „ „ बहुत नरम—(१) कैल्के, लाइको, (२) सल्फ-ए, ऐगा, ऐलो, कैल्के-फ्लू, कार्बो-स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स ।

काष्टकर—"कब्जियत" देखिये ।

काला (Black)—आर्ज-नाई, आर्स, वार्ब, ब्रोमि, कैल्के, कैम्फि, सिना, हिपर, कैलि-स, लैके, लेप्टा, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, ओपियम, फास, प्लम्ब, पोडो, रूमेक्स, स्ट्रैमो, स्टैफि ।

कीचकी तरह (Clay like)—कैल्के, डिजि, पोडो, साइलि ।

कुचले अण्डेकी तरह (Chopped eggs)—कैमो, मार्क, नक्स-म, पल्स, सल्फ ।

कुत्तेकी तरह (Like a dog)—सिमेक्स, फास, स्टैफि ।

खड़ियाकी तरह—"सफेद" देखिये ।

खाया पदार्थ मिला—"अजीर्ण" देखिये ।

खुरचनकी तरह आँतोंकी (Like scrapings of intestines)—कैन्थ, कार्बो-ए, कोलचि, कोलोसि, फेरम, मार्क, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो ।

खुलासा नहीं होता—"कब्जियत" देखिये ।

खून मिला—"रक्त" देखिये ।

गन्ध (Odor)-खट्टी (Sour)—आर्नि, कैल्के, कैम्फ, कोलोसि, डालका,

गन्ध, **हिपर**, जैलापा, मैग-कार्ब, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, **रियुम, सल्फ** ।

" दुर्गन्ध युक्त (Offensive)—ऐगा, एपिस, **आर्स, ऐसाफि**, बरस **बैप्टि, ब्राइयो**, कैल्के, कैल्के-फास, **कार्बो-वेज**, कोल्चिकम, **क्रोटे-होर, ग्रैफा**, इपि, **कैलि-फास**, लैकि, लैप्टा, नाइको, मार्क, **मार्क-कोर, नक्स-वो**, नक्स-म, नक्स-वोम, **ओपियम, फास-ऐ**, फास, पोडो, **सोरि**, पल्स, **साइलि, स्क्वा ई, सल्फ-ऐ, सल्फ** ।

" विकट (Cadaverous)—आर्स, बिस्मथ, **कार्बो-वेज**, चायना, क्रियो, लैके, लिलि-टिग, रास-टक्स, साइलि, स्ट्रैमो ।

" सड़ी (Putrid, fetid)—ऐगा, आर्स, **ऐसाफि, वेप्टी**, बोरा, कै-ि, **कार्बो-वेज**, केमो, चायना, कोलोसि, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पोडो, सिपि, साइलि, सल्फ ।

" " *अण्डे की तरह—आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐ,* **केमो**, *हिपर,* **सोरि**, स्ट्रैफि, सल्फ ।

गन्धहीन (Odorless)—ऐसार, हाइयो, फैन्कि या, रास-टक्स, **थिरे** ।

गर्म (Hot)—ऐलोज, कैल्के-फास, **केमो**, मार्क, **मार्क-कोर**, नक्स वोम, फास, पल्स, सल्फ ।

गुठला (Knotty, nodular-गांठ गांठ)—हल्कि **ऐलुमि, ऐलु**, एन्टि-क्रूड, आर्स, बरस, बैरा कार्ब कैल्के, कार्बो कोनि, कोका, मार्का, क्लोनो, **ग्रैफा**, हाइड्रो काली, कैलि म्या कैलि-कार्ब, मैके, लैप्टा, **लाइको, मैग-म्यू**, मार्क, मैज़ म, नक्स वोम, फास ऐ, **प्लम्ब, साइलि**, स्ट्रैमम सल्फ, थूजा ।

" पाखाना लिपटा मल—ऐलुमि कार्बो **ग्रैफा**, हाइड्रो हैल म्यू, नक्स-वोम, प्लम्ब, सिपि, साइलि ।

" पहले कड़ा फिर पतला—ऐन्टि-क्रूड, बार्ब कैल्के ऐका इग्नि कैलि या मारको नक्स वोम साइलि, सल्फ ऐ सल्फ थूजि ।

गुठला, हरे रङ्गका—चायना, स्ट्रैनम ।

गोलोकी तरह वेगसे निकलता है (Shooting out)—ऐकोन, ऐलोज, कास्टि, बेल, क्रोटन, इयुजि, जेट्रो, लेप्टा, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, सोरि, झोडो, थूजा ।

गोलेकी भाँति (Like a ball)—ऐलूमि, हिपो, मैग-म्यूर, मेडो, मेजे, नक्स-वोम, **ओपियम, प्लम्ब,** सोरि, सल्फ, थूजा ।

„ काला—ऐलू, **ओपियम,** विरे ।

„ बादामी रङ्गका—नक्स-वोम ।

चर्बी या तेल-भरा (Fatty, greasy)—आर्स, कास्टि, आइयो, फास, पिक्रि-ऐ, सल्फ, थूजा ।

चिटचिटी—"आम" देखिये ।

„ —खीचनेपर सूतकी तरह लम्बा हो जाता है (Stringy)—ऐसार, कार्बो-वेज, **ग्रैफि,** सल्फ-ऐ, विरे-वि ।

छाल उधड जाती है (Acrid, excoriating, corrosive) एसिड-क्रूड, आर्नि, **आर्स,** बैप्टी, केमो, चायना, कलोसि, डाल, फेरम, ग्रैफा, हिपर, **आइरि,** लैके, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ,नेट्र म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वो, फास, पोडो, **पल्स,** रियुम, स्टैफि, सल्फ ।

जमे या बिगड़े दूधकी तरह (Curdled)—आर्स, ब्यूफो, कैल्के, कैमो, मैग-कार्ब, मार्क, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रियुम, स्ट्रैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ, **वेले ।**

„ दूधकी तरह वेगसे निकलता है—इथू, गैम्बो ।

झिल्ली मिला (Membranous)—आर्जेण्ट-नाइ, ब्रोमि, **कैन्थ,** कार्बो-ऐ, **कोलचि, कोलोसि,** फेरम, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, फास ।

टूट टूटकर बाहर निकलता है (Crumbling)—ऐलो, **ऐमोन-म्यूर,** ब्राइयो, कोस्का, मैगुये, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-म्यूर, ओपि, पोडो, सल्फ, टेल, जिङ्क ।

थोड़ा (स्वल्प परिमाण Scanty)—ऐलूमि, ऐमोन-म्यूर, ऐपो, बैल, कैलेडि, कार्बो-ऐ, कार्बो-स, कार्बो-वेज, काइ्-मे, कोलचिकम, कोलोसि, डालका, गैम्बो, ग्लोनो, इग्ने, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, लाइको,

थोड़ा— मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपियम, प्लेटि, प्लम्ब, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

नरम (Soft)—ऐकोन, इजू, ऐग्न, ऐलूमि, ऐमोन म्यूर, ऐना, एपिस, आर्ज-मेट, आर्स, बैप्टी, बैग-कार्ब, वार्ज, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कोलोसि, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स मस, नक्स-वोम, ओलि, फास, सोरि, पल्स, रैना-स्यू, रेटा, ह्रोडो, सिपि, सल्फ-ऐ, सल्फ, वायो-ट्रि, जिङ्क।

„ पहले नरम, बादमें कड़ा—ओलि, सेबि।

पतला (Thin)—ऐथू, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, बेञ्जो-ऐ, बोवि, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, केमो चेलिडो, चायना, सिकि, काक्कि, कोलोसि, कोना, क्रोटन टाग, हिपर फेलि-वाई, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, म्यू-ऐ, नेट्रम-सल्फ, नक्स म, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, फाइटो सोरि राम टक्स माइलि, स्वाई, स्पञ्जि, स्क्वुई, सल्फ, विरे।

„ काला—ऐकोन, आर्स, कार्बो-वेज, क्रोटे-होर लेप्टा, स्क्वुई, स्ट्रेमो।

„ गड़गड़ाकर निकल पड़ता है (Pouring out)—एपिस, आर्नि आर्स, कैल्के-फास, लाइको पोडो, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ भूरा (Brown)—ग्रेफा, मैग-कार्ब, नक्स वोम, सोरि, रैफे स्क्वुई।

„ मल मिला—आर्नि आर्स बैप्टी, ब्राइयो, सिड्रो, कोलोसि डोलि गैम्बो हिपर, लेप्टा, लिलि टिग, लाइको, नेट्रम-सल्फ, नक्स मास पिक्रि ऐ, सल्फ, विरे।

„ मैला (Dark)—आर्स, क्रोटे-होर, ओपि।

„ रक्तवर्ण—कैलि कार्ब, रस टक्स।

„ हरे रङ्गका—ऐथू, ऐण्टि क्रूड, क्रोटे होर, [illegible]।

परिवर्तनशील (Changeable)—ऐमोन म्यूर, [illegible] पल्स, सैनि, सल्फ।

पानी जैसा पतला (Watery)—ऐकोन, ऐगा, ऐलो, ऐलूमि ऐण्टि-क्रूड,

एपिस, ऐपो, आर्जे-नाइ, आर्स, एरम-ट्रि, **ऐसाफि**, बैरा-म्यू, विस्मथ, बोरा, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, क्रोमि-ऐ, सिना, काक्कि, काफि, **कोल्चि**, कोलोसि, **कोना**, क्रोटन डिजि, **डाल्का**, **इलेटे**, फेरम, **गैम्बो**, ग्रैफा, **ग्रैटि**, हेलि, हिपर, हाइयो, आइयो, **आइरि**, जैलापा, **जेट्रो**, **कैलि-बाई**, कैलि-आयोड, लेके, लेप्टा, **मैग-कार्ब**, मार्क, मार्क-सल्फ, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, **नेट्रम सल्फ**, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स वोम**, **ओपि**, फास-ऐ, फास, पोडो, सोरि, साइलि, **सिकि**, **पल्स**, रैफे, रास-वेन, रूमेक्स, **सल्फ**, **थूजा**, **विरे**, **विरे-वि**।

पानी जैसा पतला—काला रङ्ग—एपिस, चायना, क्रोटे-होर, कूप्रम, कैलि बाई, नेट्रम-सल्फ, सोरि, रूमेक्स, सिके, स्टैनम, स्ट्रैमो, विरे।

„ खून मिला—ऐलो, ऐमोन-म्यूर, एपिस, कैन्थ, फेरम-फास, लेके, पेट्रो, फास, **रास-टक्स**, सैबाडि।

„ „ मांसके धोअनकी तरह (Like meat washing)—कैन्थ, फास, **रास-टक्स**।

„ चावलके धोअनकी तरह (Rice water stool)—ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्स, कैम्फ, कार्बो-ऐ, कैमो, चेलि, कोलचि, कूप्रम, फेरम, आइरि, कैलि-बा, कैलि-आयोड, कैलि-फास, मार्क-स, नेट्रम-म्यूर, फास, रैना-ब, सिकि, विरे।

„ पीले रङ्गका—एपिस, आर्स, वेप्टो, कैल्के, कैमो, चेलिडो, चायना, काकि, क्रोटन, **डाल**, ग्रैटि, हाइयो, इपि, नेट्रम-सल्फ, फास-ऐ, फास, पोडो, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रान्सि, **थूजा**।

„ फेन भरा (Frothy)—इलेट, ग्रैटि, कैलि-बाई, मैग-कार्ब, रैना-ब।

„ बादामी रङ्गका—ऐण्टिम-टार्ट, **आर्स**, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, डालका, फेरम, गैम्बो, कैलि-बाई, मैग-कार्ब, पेट्रो, रूमेक्स, सल्फ, विरे।

„ मटमैला (Clay coloured)—कैलि-फास।

„ सादा—वेञ्जो-ऐ, कैल्के, कैम्फ, कैस्टो, कास्टि, चेलिडो, सिना, डाल, मार्क, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, फास।

पानी जैसा पतला, सादा, फेनके साथ (With scum)—मैग-कार्ब, मार्क।

» साफ (परिष्कार-Clear)—एपिस, बेञ्जो-ऐ, कोलोसि, मार्क, सिकी।

» हरा—ऐकोन, इथ्यू, आर्स, बेल, ब्रायो, कैमो, कुप्रम, डल्क, युपे-पर्फो, फेरम-फास, गैम्बो, ग्रैटि, हिपर, इपि, आइरि, कैलि-आयोड, मैग-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास पोडो, पल्स, सल्फ, विरे।

पित्त-मिला (Bilious)—ऐकोन, ऐलो, आर्स, ब्रायो, कैमो, चायना, कोलोसि, कर्णा, क्रोटे-टिग, फ्लू-ऐ, इपि, आइरि, लिलि टिग, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-सल्फ, फास, पोडो, सोरि, पल्स, विरे।

प्रचुर (Copious)—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, ऐमाफि, बेञ्जो ऐ, कैल्के, कैनाबि, चायना, क्रोटन-टिग, इलेटे, ग्रैटि, आइरि, जेट्रो, मार्क, म्यूर-ऐ, आक्जै-ऐ, फास-ऐ, फास, पोडो, सोरि, रूमैक्स, सिकी, थूजा, विरे, विरे-वि, वाइथा।

» पर रोगी कमजोर नहीं होता (Without exhaustion)—फास-ऐ।

फेन फेन (Frothy)—आर्नि, बेञ्जो-ऐ, बोरा, कैल्के, कैपि, कोलोसि, ग्रेफा, ग्रैटि, आइयो, कैलि-बाई, लैके, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यूर, ओलि, प्रैफे, पोडो, रैफे, रियुम, रस-टक्स, साइलि, स्क्वि, सल्फ।

बहुत अधिक—"प्रचुर" देखिये।

बार बार (Frequent)—ऐकोन, ऐमोन म्यू, ऐण्टि टार्ट, आर्नि, आर्स, बोरा, ब्रायो, कैल्के कार्ब, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, कॉफि, कोलचि, कोलोसि, कोलम फॉस, कुप्रम, डल्क, इलेटे, फेरम, गैम्बो, ग्रैफा, इपि, कैलि कार्ब, कैलि कार्ब, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पोडो, सोरि, पल्स, सिपि, सल्फ, साइलि, रैफे, थूजा, विरे।

मेंढकी मींगीकी तरह (Like sheep dung)—**ऐलूमि, ऐलो,** बैरा-कार्ब, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चेलि, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैके, **मैग-मूर, मार्क, नेट्रम-मूर,** नेट्र-स, **नाइ-ऐ,** नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, सिपि, स्याइ, सल्फ-ऐ, **सल्फ, थार्वा ।**

„ काला काला—ऐलू, ओपि, विरे ।

„ भूरा—रङ्ग—नक्स-वोम ।

मट-मैला रङ्गका—"रङ्ग" देखिये ।

मैदेकी बुकनीकी तरह गाद जमनेवाला (With meal like sediment)—ब्राइयो, चिनि-आर्स, फास-ऐ, पोडो ।

मोटा लेड (Large)—इस्क्रि, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, आर्जेण्ट-नाइ, ऐसाफि, अरम, **ब्राइयो, कैल्के,** कोबाल्ट, कोलोसि, डाय, **डूलेटे, ग्रैफा,** डूस्ने, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब,** कैल्मि, **लैक-डि, लिपटा, मैग-मूर,** मेजि, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** नक्स-म, पेट्रो, फास, पोडो, पल्स, रैफे, रास-टक्स, रास-वेन, सैनि, सिपि, **साइलि, सल्फ,** थूजा, **विरे,** वाइप, जिङ्क ।

रङ्ग (Colour), अलकातरेकी तरह (Tarry)—कैन्थ, टियु, लेप्टा, नाइट्रि-ऐ ।

„ धुमैला, खाकी (Gray)—अरम, कैल्के, कार्बो-वेज, चेलिडो, डिजि, हाइड्रो, कैलि-कार्ब, लैके, **मार्क,** नेट्रम-म्यूर, **ओपि, फास-ऐ, फास,** सोरि, सल्फ ।

„ परिवर्त्तन शील (Changeable)—(१) पल्स, डालका, इयोनिमि, पोडो, सल्फ । (२) ऐमोन-म्यूर, वार्वे, कैमो, कोलचि, सैनि ।

„ पीला (Yellow)—इयू, ऐलोज, एपिस, आर्ज-नाइ, ऐसार, वार्वे, ब्राइयो, कैल्के, **चेलिडो,** चायना, कोलचि, कोलोसि, क्रोटन-टिग, **डाल, जेल्सो,** जेल्स, **ग्रैटि,** हिपर, आइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, **लाइको, मार्क, मार्क-कोर,** मार्क-स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास-ऐ,** फास, प्लम्ब,

पोडो, पलस, रियुम, रास-टक्स, मैग्नु, सिकि, सल्फ-ए, सल्फ, थूजा।

रङ्ग पीला, मल मिला (Fecal)—ऐलो, चेलिडो, कालचि कोलोसि, गैम्बो, हिपर, आइरि, नेट्रम-स, फास-ए, प्लम्ब, पोडो।

,, ,, हरा हो जाता है, कुछ देरतक रहनेपर (Turns green on standing)—आर्जेण्ट-नाइ, रियुम।

,, पीली आभा लिये हरा—ऐलो, ग्रेटि, सल्फ, टरे, विरे।

,, फीका रङ्ग (Light coloured)—इस्कि, आर्स, बेल-कार्ब, बोरा, कैल्के, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, चियोनि, कालि, डिजि, हाइड्रो, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, फास, पोडो साङ्गलि, सल्फ टेरे।

,, वर्ण-हीन (बिना रङ्गका-colourless)—बोरा, कोलोसि।

,, बादामी रङ्ग, भूरा (Brown)—इस्कि, एपिस, आर्जेण्ट-नाइ, आर्नि, आर्स, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, फिरम, ग्रैफा, आइयो, नैके, लिलि टिग, लाइको, मार्क, मेजि, म्यू-ए, नाज-योम, ओपि, फास, प्लेरुटे, सोरि, रियुम, रोजो, रुमेक्स, सेबाडि, सिके, सल्फ, विरे।

,, मिट्टीका रङ्ग (Clay coloured)—कार्ब, कालु मि नेट्र म नाइट्रि ए, फास-ए, पोडो।

,, रक्त-मिला (Bloody)—ऐकोन, ऐलो ऐलूमि, ऐम् ऐण्टिम-क्रू, एपिस आर्जेण्ट-नाइ, आर्नि, आर्स [illegible] [illegible], [illegible], कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो, कैमो, चायना, कोलोसि, कालि कोल्चि, कोना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], मार्क-कोर, म्यू ए नाइट्रि ए, [illegible] [illegible], फास, [illegible] प्लम्ब, पोडो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सल्फ ए सल्फ [illegible], विरे।

,, ,, ,, [illegible] ([illegible])—[illegible]।

रक्त, रक्त-मिला, रेखाकी तरह—आइयो, कोलोसि, कैलि-बा, **मार्क**, नेट्र-स, **नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पोडो**, पल्स, सल्फ, इाम्बि।

„ सफेद (White)—ऐकोन, ऐसिट-क्रूड, एपिस, बेल, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, **कैन्थ**, कैमो, सिना, कोल्चि, कोपि, क्रोटे-ट्री, डिजि, डाय, फार्मि, ग्रैफा, हिपर, हेलि, आइयो, कैलि-फ्लू, **नक्स-म**, नक्स-वोम, **फास-ऐ**, फास, **पल्स**, रियुम, रास-टक्स, सैनि, सिपि, स्पञ्जि, सल्फ।

„ काडा—बेरा-म्यूर।

„ „ काई भरे तालाबके फेनकी तरह—हेलि, मैग-कार्ब, मार्क, सैनि।

„ „ खडियाकी तरह—ऐसिट-क्रूड, बेल, **कैल्के**, डिजि, हिपर, लेके, **पोडो**, रास-टक्स, **सैनि**, साइनि।

„ „ दाना या चूरके साथ (Grains or particles)—सिना, डाल, फास।

„ „ दूधकी तरह (Like milk, chyle, biles)—इस्कि, आर्ज-नाई, कैल्के, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, चेलिडो, चायना, कोलोसि, **डिजि**, हिपर, मैग-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, **पोडो**, रियुम, **सैनि**, सल्फ।

„ „ मलभरा (Fecal)—**कैल्के**, कैल्के-फास, चेलिडो, डिजि, हिपर, लाइको, पैले, **पोडो**, साइलि।

„ हरा (Green)—ऐकोन, इथू, ऐमोन-म्यू, एपिस, **आर्जेण्ट नाइ**, आर्स, एसाफि, बेल, बोरैक्स, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, **कैमो**, चायना, **कोलोसि**, कोना, क्रोटन, कूप्रम, डाल, इलाटे, **गैम्बो**, **ग्रैटि**, हिपर, हाइड्रो, **इपि**, आइरि, कैलि-ब्रोम, लोरो, लेप्टा, लाइको, मैग-कार्ब, मैग म्यूर, **मार्क**, **मार्क-कोर**, म्यु-ऐ, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, **फास**, **प्लम्ब**, **पोडो**, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सैनि, **सिपी**, सिपि, स्टैनम, सल्फ-ऐ, सल्फ, टेरि, **विरे**।

लगातार निकलते रहना—एपिस, आक्ज़ा-ऐ, फास, सिपि, ट्राम्बि।

लम्बा और पतला—'सकरा और लम्बा" देखिये।

लसदार (Pasty, papescent)—ऐलोज, एपिस, आर्नि, ऐसाफि, बेपूटी, ब्राइयो, कैल्के, कार्डु-मे, **चेलिडो, कोलोसि, क्रोटन,** हिपर, लैके, लेपूटा, लाइको, मैग-म्यूर, **मार्क, मार्क-कोर,** नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपियम, फास-ऐ, **पोडो, रियुम,** सल्फ-ऐ, सल्फ।

वेगसे निकलना (Forcible gushing)—आर्जेण्ट-नाई, **क्रोटन,** कामफ, डाल, फेरम, गैम्बो, **ग्रेटि, जेट्रो,** कैलि-बा, मैग-म्यू, **नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर,** नेट्र-स, आक्ज़ा-ऐ, फास, **पोडो,** रैनाय, रैफि, **सिकि,** सिपि, सल्फ, थूजा, विरे।

„ पेट फूलनेके साथ—क्रोटन, ग्रेटि, गैम्बो, **जेट्रो,** लैक-कै, नेट्रम-कार्ब, नेट्र स **पोडो,** फ्लोडो, सल्फ, टैरे, थूजा।

सकरा और लम्बा (Long narrow)—ऐलूमि कास्टि, ग्रेफा, हाइयो, मार्क, म्यूर-ऐ, नेट्रम-कार्ब, **फास,** पल्स, सिपि स्टैफि।

सड़ा—"गन्ध" देखिये।

सूखा (Dry)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, आर्ज मे, आर्ज नाई, **ब्राइयो,** कैल्के, कुप्रम, ऐमा, हिपर कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, **लैक-डि,** लाइको, **नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपियम, फास,** प्लेटि, प्लम्ब, पोडो, प्रूण स्पा, सेनि, **साइलि,** स्टैनम, सल्फ, जिङ्क।

„ जला हुआ जैसा (As if burnt)—**ब्राइयो,** प्लेटि, प्लम्ब सल्फ।

„ बालूकी तरह—आर्ज नाई।

मूत्र-यन्त्र समूह (URINARY ORGANS) ।

मूत्राशय (BLADDER) ।

अर्बुद (Tumour)—कैल्के ।

आक्षेप, खींचन (Spasm)—ऐण्टिम-टार्ट, वेल, ब्राय, कैल्के, कैन्थ, कैपि, जेल्स, हेलि, इपिकाक, नक्स-वोम, ओपियम, फास-ऐ, प्रूण-स्पा, पल्स, सिपि, टेरे, थ्यूजा, वाइवा ।

„ पेशावके पहले—मैग्नि, युवा ।

„ „ समय—ऐसाफि, कार्बोनि-सल्फ, ओपियम ।

„ „ वाद -ऐसाफि, पल्स ।

„ गल-देशमें (Neck of)—आर्नि, कोलचि, हाइयो, केलि-ब्रोम, मैग-फास, प्रून-स्पा, रूटा ।

„ „ आक्षेपिक सकोचन (Spasmodic stricture)—मैग-फास, रूटा ।

„ बहुत ज्यादा मैथुनके बाद (After sexual excesses)—नक्स-वोम ।

आब, नोकदार (बतौडी Polypus)—ऐण्टि-क्रूड, कैल्के, कोनायम, ग्रैफा, लाइको, मार्क, फास, पल्स, साइलि, टियु, थूजा ।

ऐंठन (Cramps)—कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, प्रून-स्पा, सार्सा, सिपि, जिङ्क ।

„ पाखाना फिरते समय—कार्बोनि-स ।

„ गलेमें (Neck of)—कोनायम, ओपियम, फास ।

कांखना (Tenesmus)—ऐकोन, ऐरूमि, ऐंगु, ऐण्टिम क्रूड, एपिस, आर्नि, आर्स, वेल, कैम्फ, कैन्थ, कैना-सा, कैप्सि, चिमाफि, क्लिमे, कोलोसि, कक्कु, कूप्रम-ऐ, डिजि, जेल्स, लैके, लिलि-टिग, लिथि-कार्ब, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजि, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वाम, पेरे, प्लम्ब, पोडो, टेरि, थूजा, युवा, विरे ।

„ सवेरे—पैरि, सिनि ।

काँखना, शामको—खुली हवामें घूमनेके समय—लिथि-कार्ब ।

" रातमें—ऐसिट-क्र ड, लिथि-कार्ब, मार्क ।

" ऋतुके समय—टैरे ।

" पाखाना फिरनेके समय—ऐलूमि, कोप्सि, लिलि टिग, नक्स-वोम, रास-टक्स, स्टैफि ।

" " बाद—फेरम, स्क्वुई ।

" पैर बरफ जैसे ठण्डेके साथ—इला ।

कीड़ा रेंगता फिरता है, मानो भीतर पेशाब करने बाद (Crawling sensation after urination)—लाइको ।

खाली मालूम होना (Emptiness)—डिजि, स्ट्रैमो ।

खींचनका भाव (Tension)—ऐकोन, ऐसिट-टार्ट, काकु, शुपि पर्फ, नक्स वोम ।

खुजली, मूत्राशय प्रदेशमें, साथ ही पेशाब करनेको इच्छा, रातमें बढ़ना (Itching in region of bladder with urging to urinate, aggravation at night)—सिपि ।

" गल-देशमें (Neck in) शामको—नक्स-वोम ।

गर्म मालूम होना (Heat in)—ऐलि-सि, पल्स, सिपि ।

गोला अनुभव होना, भीतर (Sensation of ball in)—क्रोटे-टोर, मैले, नेजा ।

झूल जाने जैसा मालूम होना, जिस करवट सोता है उसी ओर—पल्स ।

ठण्डा मालूम होना भीतर (Sensation of coldness in)—मिलिस ।

" " पर्यायक्रमसे उत्तापके साथ—कष ।

दर्द (Pain)—ऐकोन, एपिस, आर्ग, आर्नि आर्से, बेल, बेन्जो, बेन्जो-एसि कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, कोना इक्वि, डोल, डल्क ए, लिथि-कार्ब, लाइको, मार्क, फास, पल्स, रास टक्स, स्टा सिपि, सल्फ-ए, सल्फ, टैर, थूजा विर ।

" करवट लेनेपर शय्यामें, ऐसा मालूम होता है कि जिस करवट सोता जायगा उसी ओर मूत्राशय गिरेगा (Turning over in bed as if bladder would fall to side [illegible])—पल्स ।

" खाँसनेके समय—कैप्सि ।

दर्द, चलनेपर—ऐकोन, पल्स ।
„ नश्तर लगवाने बाद (After lethotomy)—स्टैफि ।
„ पेशाब रोक रखनेपर (Retarding urination)—फास ।
„ पेशाब लगते ही न करनेपर (If the desire be not soon attended) —ऐक-कै, ग्रन-स्ला, पल्स, रूटा, सिपि, सल्फ-ऐ ।
„ पेशाब करनेके पहले—लिथि-कार्ब, मेन्सि, फाइटो, ग्रून-स्ला ।
„ „ „ समय—ऐण्टिम-टार्ट, ब्रेकि, कैल्के, इग्निड, लिलि-टिग, मेन्सि, फाइटो, रास-टक्स ।
„ „ „ कई बून्द गिरते ही—कास्टि ।
„ „ „ बाद—ब्रेकि, लिथि-कार्ब, सिपि ।
„ पेशाब करनेमें वेग देनेपर (While urging to urinate)—कैल्के, युपे-पर्प, हेलि, नक्स-वोम, पल्स, ऋोडो, रास-टक्स, रूटा, सल्फ-ऐ ।
„ मैथुनके बाद—ऐलि-सि ।
„ हिलने डोलनेसे—बार्ब ।
„ गल-देशमें—एपिस, आर्नि, बेल, बार्बे, ब्रेकि, कैक्ट, केल्के-फास, कैना-सै, कैन्थ, केमो, कोपे, कोना, फेरम-फास, लिथि-कार्ब, लाइको, ओलि, पल्स, रूटा, स्पञ्जि, टेरि, जिङ्क ।
„ „ पेशाबकी चेष्टा करनेपर—कोपे ।
„ „ „ के आरम्भमें—क्लिमे ।
„ „ „ अन्तमें—कैना से, कोना, मेडो, पल्स, रूटा, सार्सा ।
„ „ „ के पहले—कैन्थ, लिथि-कार्ब, नक्स-वोम ।
„ „ „ बाद—एपिस, कैना-सै, नक्स वोम, पल्स, रूटा, सार्सा ।
„ „ „ मे वेग देनेपर—बेल, कैल्के-फास, कैन्थ, फास, स्पञ्जि ।
„ गुह्य-देशमें दर्दके साथ—ऐस्क्ल ।
„ मूत्राशय प्रदेशमें (Region of bladder)—एपिस, बेल, कैल्के-फास, कैन्थ, चेलिडो, इक्वुई, हैमा, लिलि-टिग, लिथि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-आर्स, फाइटो, प्रुन्य, पल्स, ऋोडो, सार्सा, टेरि, जिङ्क ।
„ „ मूत्रत्यागके बाद—फाइटो ।
„ „ „ समय—फाइटो ।
„ „ फैलता है-मूत्रग्रन्थितक (to kidney)—इस्कि, एपिस, कैन्थ ।

दर्द, फटकन, दबानेसे दर्द (Sore tender)—ऐलि-सि, बेल, बेन्जो-ऐ, कैलेडि, कैन्थ, चिनि, इकुइ, लिथि-कार्ब, मार्क, सार्सा, सिके, टेरि, युरे।

" " प्रदेशमें मूत्राशय (Region of)—आर्स, इकुइ, मार्क, पल्स, सार्सा, सिके, सल्फ, थूजा।

" " गलदेशमें (Neck of)—ऐट्रो, कोल्के-फास, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, पल्स।

" आक्षेपिक (Spasmodic)—बार्बे, कैन्थ, कोलो, प्रून-स्पा।

" " गलदेशमें—जेट्रो, फास।

" " " फैलता है, उरुतक पेशाब करने बाद—पल्स।

" " प्रदेशमें (Region of)—चेलिडो।

" काटता है, मानो (Cutting)—ऐमोन-कार्ब, बार्बे, कैन्थ, कोलोसि, कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम टेरि, थूजा।

" " पेशाब करनेके पहले—ब्राइयो, कोल्के-फास, मेग-फास, मेग्नि, फास-ऐ, फाइटो, सल्फ, थूजा।

" " " समय—कोल्के, कैन्थ, पोलिपो, सिके, थूजा।

" " " बाद—कोल्के-फास, नेट्रम-कार्ब, फास।

" " " अन्तमें—नेट्रम-कार्ब।

" " प्रदेशमें—कार्क, सेंगे थूजा।

" " गलदेशमें (Neck of)—आर्स, कैन्थ, कोना कैलि कार्ब, लाइको, नक्स वोम, पोपि पप्यु।

" " " पेशाब करनेके पहले—कैन्थ, फास ऐ।

" " " " आरम्भमें—मेग्नि, पेट्रो।

" " " " समय—कैन्थ कैलि-कार्ब, पोलिपो।

" " " " शेषमें—पेट्रो।

" " फैलता है, मूत्रनालीके भीतरी—कैन्थ।

" " घटना-टहलने स्थिरता खुली हवामें विश्राममें वृद्धि—टेरि।

" " वृद्धि टहलने पूर्वेपर—थूजा।

दर्द, कुटकुटाना (Aching)—आर्नि, कैल्के-फास, युपे-पार्पि, फ्लू-ऐ, लैके, नक्स-वोम, फास, पल्स।

" " पेशाबके पहले—फ्लू-ऐ।

" " " समय—कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ।

" " " बाद—कान-वे, फ्लू-ऐ।

" " प्रदेशमें (Region of)—वेल, बार्बे, फ्लू-ऐ, हेलि, लाइको, सल्फ।

" " गलदेशमें (Neck of)—कैल्के-फास, कोना।

" " " पेशाबके बाद—ऐपो, फ्लू-ऐ, सिपि, स्टैनम।

" चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching)—बार्बे, लाइको, सिपि।

" जलन (Burning)—ऐकोन, ऐलि-सि, आर्स, वेल, बार्बे, **कैन्थ, कैप्सि,** कार्डु-मे, कैमो, चिमा, फ्लू-ऐ, लैके, लिसिन, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, प्रून-स्पाई, पल्स, सैबा, सिपि, स्टैफि, टेरि, थूजा, युवा।

" " पेशाब करनेके पहले—बार्बे, ब्राइयो, कैना-इ, कैन्थ, चेलिडो, फ्लू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, जिंक।

" " " समय—कैन्थ, कैमो, युपे-पर्पि, नक्स-वोम, फास, रियुम, टेरि।

" " " बाद—एपिस, बार्बे, कैन्थ, लाइको, सिपि, साइलि, थूजा।

" " " प्रदेशमें (Region of)—काकि, फास।

" " गलदेशमें (Neck of)—ऐकोन, कैन्थ, केमो, कोपे, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, प्रून-स्पाई, पल्स, स्टैफि।

" " " पेशाब करनेके समय—ऐलो, कैमो, **नक्स-वोम,** फास-ऐ, रैना-ब, थूजा।

" " " " न करनेपर—ऐकोन, बार्बे, कैन्थ।

" " " फैलता है, मूत्रनालीके भीतरसे—कैन्थ।

" " **घटना**-टहलनेपर खुली हवामें—**टेरि।**

" " **बढना**-टहलते रहनेपर—युपे-पर्पि।

" दबाव मालूम होना, दबा रहने जैसा मालूम होना (Pressing, pressure in)—**ऐकोन, एपिस,** अरम, वेल, **बार्बे,** कैल्के-फास, कैमो,

कैन्थ, कार्बो-वेज, चिना, कोना, डाल, इकुई, कैन्नि कार्ब, लिलि-टिग, लाइको, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, सिपि, स्टेफि, सल्फ।

दर्द, दबाव मालूम होना, सवेरे—पल्स, सिपि।
" " शामको—पल्स, सिपि।
" " रातमें—वेल, कार्बो-ऐ, लाइको, सल्फ।
" " खाँसनेके समय—कैप्सि, कोनचि, इपि, क्रियो।
" " घूमने फिरने पर—ब्राइयो, कोना, इग्ने, फास, पल्स।
" " पाखाना फिरनेके पहले—कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यूर।
" " पीठमें दर्दके साथ—युपि।
" " पेशाबके पहले—कैल्के-फास, कोना, कैन्नि-स, नक्स-वोम, पल्स।
" " " समय—वार्ब, कैल्के-फास, कैम्फ, हिपर, रैफे।
" " " बाद—ऐसार, वार्ब, कैल्के-फास, कैम्फ, कैन्थ, इकुइ, लिथि-कार्ब, सिपि, सल्फ।
" " मूत्रस्तम्भके साथ (With retention)—बरम, हाइया, मार्सा।
" " प्रदेशमें (Region of)—ऐल्यू, वार्ब, कैना-मे, कार्बो ऐनि, काकि, नेट्रम-कार्ब, रैफे।
" " गलदेशमें—ऐल्यू, बैंकि, कार्नैस, काक, ओट्टो, नक्स वोम, सल्फ ऐ, थूजा।
" " " पेशाबका वेग रोकनेपर—सैपा-पि।
" " " पेशाब करनेके पहले—नक्स वोम फाइटो, पल्स।
" " " " समय—इग्ने, स्ट्रैमम, थूजा।
" " घटना बैठनेपर, जाँच करनेके लिये बाध्य होता है और उससे आराम होता है—सिपि, जिंक।
" फाड़ डालनेकी तरह (Tearing)—कैन्नि-कार्ब।
" " गलदेशमें (Neck)—कैन्नि कार्ब, नक्स वोम कैन्थ।
" " पेशाब करनेके समय वेग देनेपर—कैन्नि कार्ब।
" " पेशाब करनेपर—कैन्नि कार्ब, नक्स वोम।
" सुई छेदने, डंक मारनेकी तरह (Stitching stinging)—ईकोल

बार्बे, कैन्थ, चेलिडो, लिमि, कोना, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सल्फ, थूजा।

दर्द, सुई बेधने, डक मारनेकी तरह, खाँसनेके समय—कैप्सि।

„ „ पाखाना फिरनेके समय—गैम्बो।

„ „ पेशाब करना आरम्भ करनेपर—मैन्सि।

„ „ „ „ „ करनेके समय—कार्बो-ऐनि, सल्फ, नेट्रम-म्यूर, सिपि।

„ „ „ करनेके समय, वेग देनेपर—कैन्थ, रास-टक्स।

„ „ „ करनेके पहले—मैन्सि, सिपि।

„ „ फैलता है, मूत्रनाली तक—बार्बे, कार्बोनि-सल्फ, साइलि, फास, थूजा।

„ „ साँस छोड़नेमें—आरम।

„ „ गलदेशमें (Neck of)—कैन्थ, कैमो, गुयेकम, लिथि-कार्ब, लाइको, पलस।

„ „ „ खाँसनेके समय—कैप्सि।

„ „ „ और मलद्वारमें—लाइको।

„ „ पेशाब करनेके पहले—कैन्थ, डिजि।

„ „ „ „ समय—सल्फ।

„ „ „ „ बाद—कोना, डिजि, गुये।

„ „ „ पेशाब करनेकी निष्फल चेष्टाके बाद—गुये।

„ „ „ पेशाब न करनेपर—कैमो।

„ सकोचन (Spasmodic)—"आक्षेपिक" देखिये।

दुर्बलता (Weakness)—ऐलि-सि, एलूमि, ऐलो, आर्स, कैम्फो, कैन्थ, कैमो, हिपर, हाइयो, मैग-म्यूर, **म्यू-ऐ**, फास-ऐ, रास-टक्स, स्टैनम, जिङ्क।

„ सन्ध्यामें—ऐलूमि।

„ पक्षाघात सक्रान्त (Paralytic weakness)—कोडि, मार्फि, **आर्फि**, सल्फ।

„ प्रसवके बाद—आर्स।

„ वृद्ध पुरुषोंका—आर्स।

पक्षाघात (Paralysis)—ऐलूमि, वेल, कोक्ट, कैम्फ, कैन्थ, कास्टि, सिपि, कृप्रम, डाल, जेल्स, हाइयो, लोरो, मार्क, नक्स-वोम, ओपियम, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

" अत्यधिक मात्रामें पूर्ण होने बाद (After over distension)—कैन्थ, कास्टि, रास-टक्स, सल्फ।

" प्रसवके बाद—आर्स, कास्टि, हाइयो।

" पेशाव करनेकी वजहसे (जोरसे) पक्षाघातकी तरह दुर्बलता (Forcible retention seems to paralyse the bladder) —कास्टि, रूटा।

" मूर्च्छाग्रस्त रोगियोंका—जिङ्क।

" वृद्ध मनुष्योंका—आर्स, कैना-मै, कोनायम, जेल्स, कैलि-फास।

पथरी (Calculi)—वेञ्जो-ऐ, बार्बे, कोल्के, कैन्थ, चायना, कास्ट, युपे-पार्पि, लैके, लिथि-कार्ब, लाइको, सिलि नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, पेरे, पेट्रो, फास, पल्स, रैफे, रूटा, सार्सा, सिपि, साइलि।

" नश्तर लगवा लेने बाद—आर्नि, कैलेण्डु, कैमो चायना, कृप्रम, नक्स वोम, स्टैफि, विरे।

पीव होना (Suppuration)—कैन्थ, सार्सा, टेरि।

पूर्णता मालूम होना (Sensation of fullness)—एपिस, आर्ज नाइ, आर्नि, बेल, कैलेडि, चिमा, कोपाया, डुकुइ हेलि, लिपर, म्यारको, ओपियम, पल्स, रूटा, सिपि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" पेशाब करने बाद—कैल्के, कोनायम कोपाया डिजि, म्यारको या मार्क, रूटा, सार्सा, स्टैफि, सल्फ।

" पेशाबकी इच्छा न करनेके बाद—आर्स कैलेडि कालि हेलि ओलिएण्ड, पेट्रो फास, स्ट्रैमम, स्ट्रैमो विरे।

प्रदाह (Inflammation)—एकोन ऐण्टिम टार्ट एपिस, आर्नि आर्स, बेरा क्रू, बेन्ज ऐसि, कैलेडि, कैमा र, कैन्थ, कैप्स कालि क्लिमे, कोना, कोपि क्यूब डिजि, डाय डल्का, इक्वि युपे पर्पु

जील्स, हेलि, हाइड्रो, हाइयो, **लैके, लाइको,** मेडो, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **पल्स,** रास-टक्स, **सार्सा,** सैबा, **सिपि,** सल्फ, **टेरि** ।

प्रदाह, ऋतु या अर्शका स्राव बन्द होकर—नक्स-वोम ।

" गलदेशमें (Neck)—एपिस, कैम्फि, क्लिमे, डिजि, मार्क-कोर, मार्क-आ-रू, नक्स-वोम, पेट्रो-सि, सार्सा, सिपि ।

" भयानक दर्द और साफ रक्तस्रावके साथ (Violent pain and almost clear blood with)—नाइट्रि-ऐ ।

फूला (Swollen)—ऐपो, वेल, डिजि, कैलि-आ, मार्क-कोर, ओलि, पेट्रो, प्लम्ब, टेरे ।

भारी (Heaviness-भारी मालूम होना)—कैन्थ, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सिपि ।

मरोड़ (Twisting sensation)—ऐगा, वेल ।

मूत्र-त्याग—पेशाब करना, आप ही आप (Urination, involuntary)—ऐकोन, **आइलैन्थ,** ऐलूमि, **एपिस, आर्जेण्ट-नाइ,** आर्निका, **आर्स,** बेरा-कार्ब, **वेल,** ब्राइयो, कैल्के-फास, कैम्फो, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, सिड्रो, चायना, सिकि, साइमेक्स, सिना, कोलचि, कोना, डिजि, डाल, इकुई, युपे-पर्पि, जेल्स, गुयारि, हेलि, हिपर, हाइड्रो, हाइड्रो-ऐ, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-फास, क्रियो, लैके, लोरी, **लाइको,** मार्क, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-मस,** ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, **फास,** प्लैण्ट, पोडो, **पल्स, रास-टक्स,** रूटा, सिकेलि, **सिपि,** साइजि, **स्टैफि,** स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि, थूजा, विरे, वार्वा ।

" दिनमें—वेल, फेरम, फेरम-फास, फ्लु-ऐ, थूजा ।

" " और रातमें—आर्ज-नाई, **आर्स, कास्टि,** हाइयो ।

" रातमें, बिछावनमें—इथू, ऐमोन-कार्ब, एपिस, ऐपो, आर्ज-मेट, **आर्ज-नाई, आर्नि,** आर्स, अरम, **वेल, वेन्झो-ऐ,** कैल्के, कार्बो-वेज, **कास्टि,** कैमो, क्लोरो, सिना, इकुई, युपे-पर्पि, फेरम, फ्लु-ऐ, ग्रेफा, हिपर, क्रियो, लैक-कै, मैग-फास, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-

म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपियम, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लैण्टे, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सैनि, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, वार्ब्बा, वायो ट्रि।

मूत्रत्याग, रातमें, अभ्यासकी वजहसे बिना किसी कारणके—इकुई।

„ „ खाँसनेके समय—एपिस, कास्टि, कोलचि।

„ „ गर्भावस्थामें—पोडो।

„ „ टाइफायड रोगमें—आर्स, हाइयो, रास-टक्स।

„ „ नींदमें—ऐमोन-कार्ब, आर्नि, बेल, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, कास्टि, क्रियो, लैक-कै, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ फास, प्लैण्टे, पोडो, सीपि, पल्स, रूटा, सासा, सिपि, साइलि, सल्फ, वार्ब्बा।

„ „ „ पहली नींदमें—कास्टि, क्रियो, फास-ऐ सिपि।

„ „ „ रातके अन्तिम भागमें—ऐमोन-कार्ब, चेल, कोरो, प्लैण्टे, जिङ्क।

„ „ „ पेशाब कर रहा है, ऐसे सपने देखकर—ऐक्वा, कैम्नि ना, क्रियो, लैक-कै, माइको, मार्क-भा ए, सैनि, सिपि, सल्फ।

„ „ कै करनेके समय—आर्स, डिजि।

„ „ खड़े रहनेकी अवस्थामें—बेल, कास्टि फेरम, माइको, नेट्रम-म्यूर, पल्स, रास टक्स, सिपि।

„ „ खाँसनेके समय—ऐन्टिम, ऐन्टि क्रूड एपिस, बेल ब्रायो [illegible] कास्टि, क्रियो, नेट्रम-म्यूर, फास ऐ फास, पल्स, [illegible], सिपि, स्पञ्जि, सल्फ, [illegible], जिङ्क।

„ „ छींकनेके समय—ब्यूफो, कास्टि, [illegible] हाइयो, [illegible] [illegible], [illegible], जिङ्क।

„ „ गर्भावस्थामें—आर्स बेल नेट्रम म्यूर, पोडो पल्स सिपि।

„ „ पुराने पुरानेमें—आइयो, कैल्के, कास्टि फेरम, [illegible] नेट्रम-म्यूर, पल्स, सल्फ।

मूत्र-त्याग, रातमें, छींक आनेपर—**कास्टि,** लैक-की, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास-ऐ, सिपि, जिङ्क।

" " टाइफायड रोगमें—आर्ज-नाइ, आर्स, कोल्चि, हेलि, लैके, मस्क, म्यू-ऐ, फास, रास-टक्स, स्ट्रेमो, सल्फ, विरे, विरे-वि।

" " दौड़नेके समय—आर्नि।

" " पेशाव करनेके वाद—**विलमे,** सिलि, स्टैफि।

" " वैठी अवस्थामें—कास्टि, नेट्रम-म्यूर, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, स्ट्रेमो।

" " वृद्ध मनुष्योंको—सिकि, आइयो, फास, सिके, थूजा।

" " " " प्रोस्ट्रेट ग्लैण्ड वढनेकी वजहसे (With enlarged prostate)—ऐलि-से, ऐलोज, सिके, आइयो, सिकि, थूजा।

" " शीतावस्थाके पहले—**जेल्स।**

" " शीतावस्थामे—कास्टि, डाल्का, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" " हिलने डोलनेपर—ब्राइयो, केल्के, फास-ऐ, फास, रूटा, स्टैफि।

" असन्तोषजनक (Unsatisfactory)—**आर्स,** वेल, वार्व, केल्के, **कास्टि,** सिकि, क्लिमे, क्यूवे, जेल्स, **हिपर,** हाइयो, कैलि-कार्व, लोरो, लाइको, मैग-म्यूर, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सिलि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

" " मूत्रथली खाली नहीं हुई मानो, बून्द बून्द पेशावके साथ—स्टैफि

" " मूत्रथलीमें मानो पेशाव रह गया—आर्ज-नाइ, सिङ्को, इरिञ्जि, केलि-वाइ, रास-वे, सिलि थूजा।

" असम्पूर्ण (Incomplete)—वार्व, कास्टि, जेल्स, हिपर, कैलि-कार्व, **लैकि,** लाइको, **मैग-म्यू, सिलि,** स्टैफि।

" " मूत्रथली खाली होनेके पहले, पाँच छ वार बाध्य होकर पेशाव करना पड़ता है—थूजा।

" कभी कभी (Seldom)—आर्ज-नाइ, आर्नि, अरम, **कैन्थ,** साइक्ला, हिपर, लोरो, लाइको, नक्स-वोम, ओपियम, प्लम्ब, पल्स, रूटा, स्ट्रेमो, सिकि।

मूत्र-त्याग, कभी कभी दिनमें—लाइको।

" कष्टकर (Dysuria)—"मूत्रकृच्छ्र" देखिये।

" क्षीण धारामें (Feable stream)—ऐलूमि, एपिस, आर्ज-नाई, आर्नि, बार्बे, कैम्फ, कास्टि, क्लिमे, डिजि, हिपर, कैलि-ब्राई, कैलि-कार्ब, लोरो-सि, मार्क-कोर, म्यू-ऐ ओपियम, पेट्रो फास ऐ, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

" " सवेरे नींद खुलनेपर—ऐलूमि, हिपर, सिपि।

" " रातमें—कैलि-कार्ब, सल्फ।

" " मूत्रस्खलनोंमें—भयानक दर्दके साथ— कोल्चि-फास।

" देरसे विलम्बसे (Retarded, must wait for urine to flow)—ऐलूमि, एपिस, आर्नि, कैना-इ, कास्टि, डिजि, हिपर, केलि कार्ब, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, ओपि, रैफि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " अकेला रहनेपर पेशाब कर सकता है—नेट्रम म्यूर।

" " केवल खड़ा होकर पेशाब कर सकता है—साइलि, सार्सा।

" " " पैर चौड़ाकर, सामनेकी ओर झुककर पेशाब कर सकता है—चिना।

" " दबानेके लिये बाध्य होता है, बहुत देरतक पेशाब निकलनेके पहले—ऐलूमि, एपिस, आर्निका, बेल, कास्टि, हिपर, केलि कार्ब लोरो मैग-म्यूर, म्यू-ऐ, नाइट्रि ऐ, ओपि, प्लम्बाइ, रास टक्स, सार्सा स्ट्रैमो, थूजा।

" " " सवेरे—ऐलूमि, आर्निका, हिपर, ओपि।

" " " दबानेसे देरतक बूंद बूंद पेशाब होता है—[illegible]।

" " " दबाया जितना जाता है, पेशाब उतना ही कम निकलता है (Pressure the more the less it flow)—केलि कार्ब।

मूत्रत्याग देरसे (विलम्बसे) दवानेके लिये बाध्य होता है—

" " " खडे होकर दवानेके लिये बाध्य होता है, बहुत देरतक पेशाब निकलनेके पहले—नाइट्रि-ए ।

" " " बार बार यन्त्रणादायक मूत्रत्याग, बहुत देरतक बैठा रहता है और जोर देनेपर कई बून्द पेशाब निकलता है—एविना ।

" " बहुत विलम्बसे, थोंडे परिमाणमें—कास्टि ।

" " " खासकर किसीके साथ रहनेपर—नेट्रम म्यूर ।

" " मूत्रत्याग वेग देनेके साथ, पर जबतक काला काला थोडा रक्तका ढेला नहीं निकल जाता, तबतक पेशाब नहीं कर सकता—फास-ए ।

" दो धारामें (Forked stream)—कैना-से, केन्थ, कास्टि, मार्क, **मार्क-कोर**, रास-टक्स, थूजा ।

" बँधी धारमें पेशाब नही हो सकता (Unability to pass in a projecting stream)—आर्ज-नाइ, कास्टि, **हिपर** ।

" बार बार (Frequent)—ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐलो, ऐण्टिम-क्रूड, **एपिस**, **आर्ज-मेट**, **आर्जेण्ट-नाइ**, **बेरा-कार्ब**, बेरा-म्यूर, बेल, विसमथ, बोरा, ब्राइयो, **कैल्के**, कैल्के-आर्स, कैम्फ, कैना-इ, केना-से, **केन्थ**, केप्सि, कार्बो-ए, कार्बो-वेज, **कस्टो**, **कास्टि**, चिमा, सिकि, सिना, क्लिमे, काकि, कोल्चि, कोलोसि, क्रूप्रम, साइक्ला, डैफि, डिजि, इरिञ्जि, **युफ्रे**, युपे-पर्ण, फेरम, जेल्स, **ग्रेफा**, हाइयो, **इग्ने**, आइयो, इपि, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलूमि, लैकडि, **लैक-ए**, **लेके**, लिडम, लिलि-टिग, लिथि-कार्ब, **लाइको**, मैग-कार्ब, मैग-फास, **मार्क**, **मार्क कोर**, मेजे, म्यूरेक्स, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नक्स-वोम**, ओलि, ओपि, पेट्रो, फास-ए, पोडो, सोरि, **पल्स**, रास-रू, रास--टक्स, रेवि, सैंगु, सार्सा, सिलि, सेने, सिपि, स्पाइ, **स्क्वुई**, स्टैनम, **स्टैफि**, **सल्फ**, टेरि, युवा, वैले, वायो-ट्रि ।

मूत्र-त्याग, बार बार, सवेरे—मैजि, फास ।

" " रातमें—ऐलूमि, ऐलू, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यूर, ऐना, एपिस, आर्जेण्ट मेट, बेरा-कार्ब, बेल, बोरा, केल्क, कैम्फो, कैन्थ, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कोना, क्रम्स, माइका, इकुई, ग्लोनो, ग्रे फा, हाइयो, केलि-कार्ब, लैके, लिथि-कार्ब, लाइको, मिफा, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास ऐ, पोडो, पल्स, रास-टक्स, रूमेक्स, सैंगु, सार्सा, सिपि, साइलि, स्क्इ, सल्फ, टेरि ।

" " दिन रात—ऐलूमि, कोल्चि, कैन्थ, कास्टि, कोलचि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, प्लैण्टे, रास-टक्स ।

" " दिनमें—मैग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, सोरि, रास-टक्स, स्टेफि, युरे ।

" " ज्वरके समय—आर्ज मेट, बेल, क्रियो, लाइको, मार्क, फास ऐ, रास-टक्स, स्टेफि, स्ट्रैमो ।

" " धूपके समय—कोल्चि, कास्टि, लाइको, मार्क, फास ऐ, फास, रास-टक्स, सिनि, सल्फ ।

" " पानीकी तरह थोड़ा थोड़ा—डिजि ।

" " वृद्ध मनुष्योंका—बैरा कार्ब ।

" " शीतके समय—आर्स, कैन्थ, मार्क, फास-ऐ, फास सल्फ ।

" " सर दर्दके साथ—येल, जेल्स, मेक डि, सिर, माइको ।

" बून्द बून्द (Dribbling)—ऐगा, एपिस, आर्जेण्ट नाई, आर्निका, आर्स, बेल, केल्क, कैम्फो, कैन्थ, कास्टि, क्लिमे, [illegible] डिजि, [illegible] डाल, गुफे, [illegible], हाइयो, [illegible] लिलि-टिग, लाइको, मैग म्यूर, मार्क, मार्क-कोर, [illegible] नक्स-वोम, पेरे, प्रम्ब, पल्स, रास टक्स, [illegible], सार्सा, [illegible], [illegible], टेरि, थायो ।

" " आप ही आप (Involuntary)—ऐगा, आर्निका, [illegible] बेल, [illegible], कास्टि, क्लिमे, डिजि, [illegible]

म्यू-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, साइजि, स्टैफि, स्ट्रैमो सल्फ, टैवे, वार्वा।

" " ऋतुके समय—कौक्ट, कैम्फ।

" " " खडे होकर पेशाब सहजमें हो जाता है—सार्सा।

" " " बच्चोंको—रास-टक्स।

" " " बैठी अवस्थामें—पल्स, सार्सा।

" " मूत्रत्यागके बाद—**कैना**, **क्लिमे**, कोना, ग्रैफा, हेलोनि, कैलि-कार्ब, लेके, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, पेट्रो-सि, मिलि, स्टैफि, थूजा।

" " वृद्धिके साथ प्रोस्टेट ग्लैण्डको (With enlarge prostate)—ऐलो, डिजि, नक्स-वोम, पैरे, पल्स, मिलि, सिपि, स्टैफि।

" मूत्रकृच्छ्रता (Dysuria)—"कष्टकर" देखिये। **ऐकोन**, ऐगा, ऐलि-सि, ऐपो, **आर्जे-नाई**, आर्निका, एपिस, **आर्स**, बेल, वार्बे, कैम्फ, **कैना-सै**, **कैन्थ**, चिमा, क्लिमे, कोलोसि, **कोपे**, कुमम, **डिजि**, डोरि, डाल, युपे-पर्पे, हेलि, हिपर, हाइड्रो, हाइयो, कैलि-कार्ब, क्रियो, लोरो, **लिलि-टिग**, लिथि-कार्ब, **लाइको**, मार्क, **मार्क-कोर**, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, **ओपि**, पैरे, **पेट्रोसि**, प्लम्ब, पोलिगो, **पल्स**, रियुम, रास-टक्स, सैबि, सिनि, सिपि, **सल्फ**, टैवे, **टैरि**, थूजा, विरे।

" " सवेरे—सिपि।

" " रातमें—सिकि, मार्क।

" " ज्वरके समय—ऐसिट-क्रूड, कैना-सै, कैन्थ, कैमो, कोल्चि, डाल्का, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, स्टैफि, सल्फ।

" " नवविवाहिता स्त्रियोंका—कैना-सै, इग्नि, **स्टैफि**।

" " पतली धारामें (Thin stream)—कैम्फ, कैन्थ, **क्लिमे**, कोपे, ग्रैफा, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, पल्स, सार्सा, स्पिज़ि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

मूत्र-त्याग, मूत्रकृच्छ्रता, पसीनेके समय—कैन्थ, कौमो, हिपर, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, स्टेफि, थूजा।

" " पाखानामें वेग देनेके साथ—कोन्य, डिजि, क्रियो, नक्स-वोम, म्यूर-एसि, स्टेफि।

" " यन्त्रणादायक कमरेमें दौड़ा करता है—ऐना-से, कैन्थ, पेट्रो-लि।

" " " बच्चा रोया करता है, पेशाब निकलनेके पहले—बोरा, लैकि, लाइको, नक्स-वोम, सार्सा।

" " शीतावस्थामें—कैन्थ, कौमो, लाइको, मार्क, नक्स वोम, फास-ऐ, पल्स, सल्फ, थूजा।

" रुक रुककर (Intermittent)—ऐगा, कार्बो-ऐनि, कास्टि, क्लिमे, कोनायम, डल्का, जेल्स, आइयो, कैलि कार्ब, लिडम, नाइट्रो, ओपियम, फास-ऐ, पल्स, सल्फ, थूजा।

" " खड़े होनेपर सरल भावसे पेशाबकर सकता है—कोनायम।

" " मैथुनके बाद—फास-ऐ।

" " यन्त्रणादायक निश्वासोच्छ्वासके समय—ऐग्नि प्रा्ड।

मूत्र-स्तम्भ, मूत्र रोध (Retention)—ऐकोन, एपिस, ऐको आर्निका, आर्स, बेरा-कार्ब, बेल, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ कैना इ कैना सै कोन्य, कैप्सि, कास्टि, सिकि, क्लिमे, डोलीकास, कोनो, कुप्रम डिजि डल्क गुफे, जेल्स, हैलि, हिपर, हाइयो, आइयो, कैलि क्लो ओपि लाइको, मैग फास, मार्क-कोर, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेरे, फास्टो, प्लम्ब, पोलिगो, प्रून स्पा, पल्स रस-टक्स सार्स सिके, स्टेफि, स्ट्रैमो सल्फ, टेरे, टेरि, थूजा विरे, जिङ्क।

" पक्षाघात रोगमें—आर्निका, आर्स।

" परिश्रमसे पैदा हुआ—आर्नि, कैप्सि, रस-टक्स।

" पुराना—कैल्के, आयोडि।

" प्रसवके बाद—आर्निका आर्स इक्वि, कास्टि हायो मक्स वोम ओपि, पल्स, रस टक्स स्ट्रैमो सेके ऐट्रो।

मूत्र-स्तम्भ, प्रोस्टेट ग्लैण्डकी वृद्धिकी वजहसे (From enlarged prostate) —एपिस, बेल, बेञ्जो-ऐ, कैक्ट, कैन्थ, चिमा, कोना, **डिजि**, फेरम, हाइयो, कैलि-आयोड, पल्स, **स्टैफि**।

„ प्रोस्टेट ग्लैण्ड फूलनेकी वजहसे प्रवल इच्छा करनेपर भी—एपिस, कैक्ट, चिमा, कोना, **डिजि**, पैरिरा, पल्स, **स्टैफि**।

„ बच्चोंका—ऐकोन, **एपिस**, आर्स, कैल्के, कास्टि।

„ „ सर्दी लगनेपर—**ऐकोन**, डाल, पल्स, सल्फ।

„ „ नवजात बच्चोंका—ऐकोन, एपिस, बेञ्जो-ऐ, कैम्फ, कैन्थ, इरि-जि, हाइयो, लाइको, पल्स।

„ बियर शराब पीनेसे—नक्स-वोम।

„ भय पाकर—ऐकोन, ओपि।

„ यन्त्रणादायक—ऐकोन, आर्निका, आर्स, अरम, **कैन्थ**, **कास्टि**, डाल, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, ओपि, पैरेरा, पल्स, सार्सा, टेरि।

„ लोकोमोटर एटैक्सियामें (In Locomotor Ataxia)—आर्ज-ना।

„ वृद्ध मनुष्योंका—सोलिडेगा।

„ शूल-वेदनामें—कोलोसि, **प्लम्ब**।

„ हिस्टीरिया रोगमें—ज़िङ्क।

„ सर्दी लगकर—ऐकोन, कास्टि, कोपे, डालका, पल्स, सल्फ।

„ हैजामें—विरे।

मोच खानेकी तरह मालूम होना (Twisting sensation)—ऐगा, बेल।

रक्त-स्राव (Hæmorrhage)—"खून मिला पेशाब" देखिये—क्रोटे-हो, इरि-जि, फेरम-फास, हैमा, लाइको, फास, सिकि।

वेग-इच्छा, पेशाब करनेकी अस्वाभाविक (Urging, morbid desire)—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, **एपिस**, **आर्जेण्ट-नाई**, आर्नि, आर्स, **बैरा-कार्ब**, बेल, बेञ्जा-ऐ, **बार्बे**, **ब्राइयो**, कैक्ट, **कैम्फो**, **कैना-इ**, **कैना-से**, **कैन्थ**, कार्डु-मे, कैप्सि, **कास्टि**, केमो, चिमा, चायना, क्लिमे, **कोलचि**, कोलोसि, कोना, कोपे, क्यूबे, डिजि, ड्रोसे, डाल, युपे-पर्पि, ग्रैफा, गुये, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, केलि-बाई,

कौलि-कार्ब, कौलि-क्लोर, कौलि-नाइ, क्रियो, ल्याइको, लिमिन, मार्क, मार्क-क्लोर, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लम्बे, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सेबाईं, सार्सा, सिकि, सिनि, सेनि, सिपि, स्पाइजि, स्क्वाई, स्टेफि, सल्फ, थूजा, वेसा, वायो-इ, जिङ्क।

वेग-इच्छा, रातमें—आर्नि, आर्स, वेल, वोरा, कौल्कं, डिजि, ग्रेफा, येनि वाइ, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ अभाव (Absent-न होकर)—वेल, कैलेडि, ऐरम, हेलि, लैक-ऐ, ओपि, आकजा-ऐ, फास, विरे।

„ „ मूत्राशय भरे रहनेपर भी—आर्स, कैलेडि, कास्टि, हेलि ओपि पैरी, फास, प्लम्ब, स्ट्रैम, विरे।

„ उद्वेग-पेशाव करना आरम्भ करनेपर भी—ऐकोन।

„ „ के साथ (Anxious)—ऐकोन, आर्स, कार्बो-वेज, कैमो, डिजि, ग्रेफा, फास-ऐ, फाइटो सिलि, ट्रिनिया।

„ एकाएक (हठात्-sudden)—ऐलोज, आर्ज नाइट्रि, बेरा कार्ब, बोरैक्स, ब्रायो, कौल्कं, कार्बो ऐनि, कास्टि, चेलिडो, फेरम, इग्ने, क्रियो, लिथि कार्ब, मार्क, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि ऐ, पेट्रोलि, फास ऐ फास पल्स।

„ „ सवेरे—फास।

„ „ रातमें—कास्टि, सल्फ।

„ „ जल प्रवाह देखने पर—कैन्थ, क्रियो, लिसिन, सल्फ।

„ „ मूत्राशय, बच्चों और यकृतमें दर्द साथ—फेरम।

„ „ रोक नहीं सकता, पेशाब कर देता है—ऐलो, आर्ज ना, आर्नि, ब्रायो, कौष्टि, कैन्थ, क्रिमि कड, कार्बो, क्रियो, मार्क, नक्स-वोम, पेट्रोलि फास, पल्स, सिपिया, स्क्वाई स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

वेग-इच्छा, एकाएक रोक नहीं सकता, रातमें—एपिस, डिजि, इग्निशि, लिलि-टिग, मार्क, थूजा।

„ „ लिङ्गोच्छासके साथ—रास-टक्स।

„ गर्भावस्थामें—ऐकोन, पल्स, सल्फ।

„ नव-विवाहिता स्त्रियोंका—स्टैफि।

„ निष्फल (Ineffectual)—ऐकोन, ऐपो, आर्नि, आर्स, बेल, बोरा, एपि, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, चायना, सिमेक्स, क्लिमे, कोलोसि, कोना, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, युपे-प, हेलि, हाइयो, इग्नि, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेरे, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, पल्स, सैंगु, सार्सा, सिके सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ ज्वरके समय—आर्स, कैन्थ, डिजि, हाइयो, नक्स-वोम, पल्स, रैटा, सार्सा, सल्फ।

„ „ पसीनेके समय—आर्स, कैन्थ, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ „ पाखाना फिरते समय वेग देनेपर—कैन्थ, डिजि, नक्स-वोम।

„ „ बच्चोंका—लाइको।

„ „ सर-दर्दके साथ—कोना।

„ बच्चा रोता है—बोरैक्स, लैके, लाइको, नक्स-वोम, सार्सा।

„ „ तड़फता है, दर्दसे—पेट्रो-सि।

„ „ „ और जननेन्द्रियपर हाथ रखता है—ऐकोन, मार्क।

„ पसीनेके समय—ऐण्टि-टार्ट, ब्राइयो, कास्टि, मार्क, नक्स वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सल्फ, थूजा।

„ बार बार (Frequent)—ऐकोन, इथू, ऐलोज, ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्ज-मेट, आर्नि, वेरा-कार्ब, बेल, बेञ्जो-ऐ, बार्ब, बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैम्फर, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चिमा, चायना, सिना, क्लिमे, काकि, काक, क्यूबे, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, डाय, ड्रोसे, इकुई, गुये, हेलि, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, क्रियो, लैके, लिडम, लिलि-टिग,

लाइको, मैग-म्यू, मैङ्ग, मिनि, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्क-भा-रू, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, पेट्रो, पेट्रोसि, फास-ऐ, **पल्स**, रास-रू, रास-टक्स, सेवा, सेपि, सेम्बु, सार्सा, सिलि, सिपिया, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैनम, **स्टैफि**, **सल्फ**, टेरे, टेरि, **थूजा**, ट्रिलिया, इयुवा।

वेग-इच्छा, पेशाब करनेकी अस्वाभाविक, शामके वक्त—लाइको, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" " ऋतुके पहले—ऐलूमि, **कैलि-आयोड**, नक्स-वोम, फास, पल्स, सार्सा, सल्फ।

" " " समय—कैल्के, नक्स-मस।

" " " बाद—कैमो, पल्स।

" " " रुकाकर—कैन्थ, डिजि, जेल्स, **पल्स**, सल्फ।

" " पर कुछ नहीं निकलता, कुछ देर बैठनेपर आप ही आप पेशाब हो जाता है (Without passing away, then while sitting involuntarily flow)—कास्टि।

" ठण्ड लगनेकी वजहसे—डाल, लाइको, पल्स।

" बड़ा चिल्ला उठता है—पेशाब निकलनेके पहले—बोरेक्स, मेर्क, लाइको, नक्स-वोम, सार्सा।

" भयानक—ऐकोन, आर्नि, कैन्थ, **डिजि**, मार्क, नेट्रम म्यूर, पेट्रोसि फास, फाइटो, सेपि, सिपिया, स्कुई सल्फ।

" मलत्यागके बाद—ऐग्नो, फार्सो-पेनि, सिफि।

" मूत्रत्यागके बाद—बार्बे, बोवि, कैल्के, कैना इ कास्टि, गिस्त, स्कुई, गुये, मेर्क, मार्क, फास, रूटा, सेने, स्टैनम, थूजा।

" यन्त्रणादायक—ऐकोन, ऐगा, एपिस [illegible], **कैन्थ**, डिजि [illegible], मिलि-टिग, लाइको, **नक्स-वोम**, **पेरे**, फाइटो [illegible] पल्स, सल्फ, इयुवा, विरे।

" " पहला ही आता है, ऋतुस्राव जारी होनेपर ([illegible] when menstrual flow starts)—[illegible]।

" " दर्दके साथ, एक [illegible]—[illegible] पेनि [illegible]।

वेग-इच्छा, यन्त्रणादायक दर्दके साथ, कटि-देशमें (Loin)—कार्बो-ऐनि, क्रियो।
" " " गुह्यद्वारके ऊपर (Perineum)—ऐण्टि-टार्ट।
" " " तलपेटमें—लैके, नाइट्रि-ऐ, पल्स।
" " " पुट्ठेमें—बेल, कार्बो ऐनि, क्लोडो।
" " " मूत्र-नालीमें—कालि, कोना।
" " " वस्ति-देशमें—प्रसवकी दर्दकी तरह—सिपिया।
" " " शिश्न-मुण्डमें (Glans penis)—पैरे।
" " " सेक्रममें (Sacrum)—नेट्रम-स।
" " नोच फेंकनेकी तरह दर्दके साथ, मूत्रनालीमें—हाइपि।
" " पाखाना फिरनेके समय वेग देनेके साथ—ऐलूमि, कैन्थ, क्यूबे, डिजि, क्रियो, नक्स-वोम, प्रून-स्पा, रास-टक्स, स्टेफि।
" रोकना असम्भव (Irresistable)—"हठात्" देखिये।
" वृद्ध स्त्रियोंका (Old women)—कोपे।
" शीत अवस्थामें—ऐण्टि-टार्ट, ब्राइयो, चायना, डाल, लाइको, नक्स वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सल्फ।
" हमेशा-सर्वदा (Constant)—ऐकोन, **एपिस**, आर्नि, आर्स, बेल, कैक्ट, **कैन्थ**, कास्टि, चिमा, कोल्चि, **कोना**, कोपे, **डिजि**, डाय, डाल, **इकुई**, फेरम, कैलि-बाइ, लेक-कै, **लिलि-टिग**, लाइको, **मार्क**, **मार्क-कोर**, नक्स-मस, नक्स-वोम, पैरे, फास-ऐ, फास, प्रून-स्पा, पल्स, साइलि, स्का ई, **सल्फ**, थूजा।
सर्दी लगकर श्लेष्मामय (Catarrh mucous)—**बेञ्जो-ऐ**, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, **कोलोसि**, कैलि, **डाल्का**, युपे-पर्प, फेरम, हाइड्रो, कैलि-क्लो, लैके, **लाइको**, **नक्स-वोम**, पल्स, सार्सा, सिलि, साइलि, सल्फ, टेरि, इयुवा।
" गनोरिया रुककर—बेञ्जो-ऐ, क्यूबे, मेडो, पल्स, साइलि, थूजा।
" पुराना—ऐण्टि-क्रूड, कैल्के, कार्बो-वेज, कोपे, **कैलि-क्लोर**, **लाइको**, फास-ऐ, फास, सार्सा, सिलि, **सल्फ**।
" वृद्ध मनुष्योंका—ऐलूमि, कार्बो वेज, सल्फ, टेरि।

स्पन्दन (Pulsation)—कैन्थ, डिजि ।

» पेशाब करनेके पहले—डिजि ।

सुन्न हो जाना (Numbness)—थ जा ।

हिलता हुआ मालूम होना, भीतर (Motion in)—बेन, लैके, रुटा ।

मूत्र-पिण्ड (KIDNEYS) ।

एडिसन्स बीमारी (Addisons disease)—आर्स, बेल, कैल्के, फेरम फेरम आयोड, **आइयो**, कैलि-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि ए, फास, साइलि, स्पाइ, सल्फ ।

गरम मालूम होना (Heat)—कैलि-आयोड, लैके, नक्स वोम, जिङ्क ।

» प्रदेशमें (Region of)—बार्बे, मिलि, हेलोनि, फाइटो, प्रस, टेरि ।

दर्द (Pain)—ऐकोन, इस्कि, ऐग्ना, ऐलि सि, ऐलूमि, एपिस, आर्जि मेन, बेञ्जो-ए, **बार्बे**, कैना-से, कैना-इ, **कैन्थ**, कॉक्कि चेलिडो, चिमा, कोलचि, डल्क, युपे-पर्पि, हेलोनि, हिपर, इपि, क्रियोसि, कैलि-क्लोर, लिथि-कार्ब, लाइको, मिलि नेट्रम म्यूर, नक्स वोम पेरिरा, फास, प्रस, पल्स, टेरे, टेरि ।

» भकड़न, दबानेसे दर्द करता है (Soreness)—बर्बेरि कैन्थ, आर्नि, चेलि, **ग्रेफा**, हेलोनि, हिपर, मेलि रेटा ।

» » दाहिने—हेलोनि, नक्स वोम फाइटो ।

» » बायें—बेञ्जो ए, जिङ्क ।

» » प्रदेशमें—बार्बे, चेलि, हाइड्रो मार्क और नक्स वोम ।

» जलनकी टीसका दर्द (Aching)—कैन्था र, बेल कोर्ट वो युपे पर्पि, हेलोनि, लाइको, टेरि ।

» » पेशाब होनेके समय—इस्कि सिमा एलिय ब्यू र र ।

» » घटना, पेशाब होनेसे—लाइको, टेरे ।

दर्द, कनकनी, प्रदेशमें (Region of)—ऐकोन, ऐगा, ऐनि-सि, **बार्बे**, कार्ब्हि, इलेटे, हाइड्रो, लाइको, पेंले, सिपि।
" काटता है मानो (Cutting)—ऐकोन, आर्ज-नाई, आर्नि, बार्बे, कैन्थ, कोलोसि, **कैलि-बाई**, केलि-आयोड, मार्क, स्टेफि।
" " पेशाव होनेके पहले—ग्रेफा।
" " प्रदेशमें (Region of)—प्रुम्ब, स्टेफि, जिङ्क।
" " " उत्तापसे घटना, सर्दीसे बढना—स्टेफि।
" " मूत्रनालीमें—ऐपिस, आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, **बेल**, **बार्बे**, कैन्थ, **कार्बो-ऐनि**, डाल्का, कैलि-कार्ब, **लाइको**, नक्स-म, ओसि, ओपियम, **पेरिरा**, फास, **सार्सा**, टैबे, **विरे**।
" कुचल जाने जैसा (Bruised)—कैक्ट, क्लिमि, मैन्सि, पेरिरा, फाइसो।
" " " प्रदेशमें (Region of)—**बार्बे**, फाइसो, जिङ्क।
" " " फैलता है, उरु तक—बार्बे।
" खींच रखनेकीतरह (Drawing)—क्लिमि, काक्क, नक्स-म, **टेरि**।
" " " प्रदेशमें (Region of)—बार्बे, केना-से, आइयो, **टेरि**, जिङ्क।
" " " " फैलता है पुट्ठेमें (Inguinal region)—केना-से।
" " " " " दाहिने उरुमें (Hip)—टेरि।
" जलन (Burning)—आर्स-हा, बेल, बेञ्जो-ऐ, बार्बे, **कैन्थ**, हेलोनि, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, नक्स-वोम, **टेरि**।
" " पेशाब होनेके पहले—रियुम, थूजा।
" " " समय—रियुम।
" " प्रदेशमें (Region of)—बार्बे, कोलोसि, लैक-डि, फाइटो, टेरि।
" " फैलता है, मूत्राशय तक—बेल, टेरि।
" दबा रखनेकी तरह—कैल्के, कैन्थ, कोलोसि, कैलि-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, थूजा।
" " प्रदेशमें—ऐगा, बार्बे, सिमि, हैमा, हाइड्रो, पेंले।
" " पेशाव होनेके पहले—ग्रेफा।
" " बैठे रहनेपर—पेंले, सोरि।

दर्द, दबा रखनेकी तरह घटना-हिलने डोलनेसे—टेरि ।

" फाड़ डालता है मानो (Tearing)—इस्कि, बार्बे, कैन्थ, मेजे, रास-टक्स जिङ्क ।

" " प्रदेशमें (Region)—बार्बे, कैलि कार्ब, लाइको, रास टक्स, जिङ्क ।

" " फैलता है चारो तरफ (Radiating)—बार्बे ।

" " मूत्र नालीमें फैलता है, नीचेकी तरफ झुकनेसे, हिलने डोलनेसे और सांस लेनेसे बढ़ना—आर्ज-नाई, बेल ।

" सुई वेधनेकी तरह, डङ्क मारने जैसा (Stitching, stinging)—ऐकोन, आर्नि, बेल, बार्बे, कैन्थ, चेलि, कोलोसि, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, कैलि-नाइ लैके, मेजे, नक्स वोम टेरे ।

" " " फैलता है-मूत्रनली होकर नीचेकी तरफ—कैलि-बाई, ग्रैफा, लाइको ।

" " " " मूत्रनलीमें—बार्बे ।

" " " " मूत्राशय तक—आर्ज-नाई, बेल, बार्बे, कैलि-बाई, लैके ।

" " " सांस लेनेपर जोरसे—आर्नि, लाइको, मेरो ।

" घटना-पेशाब होनेके बाद—ग्रैफा, लाइको मेडो ।

" हिलने डोलनेपर—टेरि ।

" बढना-छींकनेसे—इपु ।

" " हिलने डोलनेपर—कोलचि, ऐसा ।

" ऋतुके आरम्भमें—बार्बे, ऐके पिरे ।

" घूमनेके समय—क्रिमे ।

" झुकनेसे—सल्फ ।

" नाक छिड़कनेपर—कैल्के-फास ।

" नाक छिड़कनेके समय—कैल्के-फास ।

" प्रदेशमें (Region)—ऐण्टि टे, आर्नि [illegible] कैल्के [illegible] कैन्थ [illegible] चेलि, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], रास टक्स [illegible], टेरि ।

दर्द, प्रदेशमें उठानेके समय कुछ—वोल्को-फास।
„ पेशाब करते समय, वेग देनेपर—आर्स-आ, फेरम, ग्रेफा, मार्क-कोर, रूटा।
„ „ पेशाब करते समय—इस्कि, वार्वे, रियुम, मिलि।
„ „ फैलता है, सीनेकी जड़में (Epigastrium)—हाइड्रो-ऐ।
„ „ „ अण्डमें (Testes)—सिफि।
„ „ „ उरुमें (Thigh)—नक्स-वोम।
„ „ „ मूत्राशयमें—आर्स, कैन्थ, चेलि, ओसि, फाइटो, टेवे।
„ „ फैलता है, पेशाब करनेके समय उरुमें—**वार्वे**।
„ „ चारो तरफ (Radiating from renal region)—**वार्वे**।
„ „ नीचेकी तरफ—सार्सा।
„ „ मूत्रनालीमें (Ureters)—कैन्थ, चेलि, ओसि- फाइटो।
„ „ मूत्राशयमें—काक, फाइटो।
„ मूत्रनालीमें, दाहिनी तरफ (Right urater)—ऐल्नि, वार्वे, कैना-से, कैन्थ, डाय, लाइको, नक्स-वोम, ओसि, सार्सा।
„ „ बाईं तरफ—वार्वे, हिपोमि, लाइको, पैरिरा।
„ „ फैलता है उरुमें और दोनो पैरोंमें (Thighs and feet)—पैरिरा।
„ „ दाहिने उरुमें—नक्स-वोम।
„ „ मूत्रस्थलीमें—**वार्वे**।
„ „ लिङ्ग और अण्डमें—कैन्थ, कोना, डाय, नक्स-वोम।
„ हँसनेके समय—कैना-इ।
पथरी (Calculi)—वेल, वार्वे, कैन्थ, फास, कोलोसि, इकुई, **लिथि-कार्व**, लाइको, मिलि, ओसिमा, **पैरेरा**, फास, **सार्सा**।

प्रदाह (Inflammative nephritis)—ऐकोन, ऐलि-सि, एपिस, **आर्निका**, ऐसक्लि-क, **वेल**, **वेञ्जो-ऐ**, व्रायो, वार्वे, कैना-से, कैन्थ, कैम्फि, कार्वो-ऐ, चेलिडो, चिमा, कोलचि, इरिञ्जि, युपे-पार्पि, जेल्स, हेलोनि, कैलि-कार्व, **कैलि-क्लोर**, कैलि-आयोड, लाइको, मार्क,

नक्स-वोम, **ओसिमा,** फास, फाइटो, पोलि-गो, सार्सा, सिलि, **सल्फ, टेरि,** थूजा।

मदाह, खून खराब होनेके कारण (Toxaemic)—क्रोटे-होर।

» पीव पैदा होनेवाला (Sppurative)—आर्स, हिपर, मार्क, साइलि।

» पैरेनकाइमर नया मदाह (Acute Parenchymatous Nephritis)—**एपिस,** कैन्थ, कोलचि, कोनायम, केलि-क्लोर, **नेट्रम सल्फ,** ष्ट्रेमो, युरे।

» हृद्-पिण्ड और यकृत सम्बन्धीय बीमारीके साथ (With cardiac and hepatic affection)—अरम, केल्के-आ।

भारो मालूम होना (Heaviness)—कार्लस, स्कुई।

» प्रदेशमें—सिपि, हेलोनि, फास, टेन, टेरि।

मूत्र-लोप (Suppression of urine)—**ऐकोन, एपिस,** एथ, आइलैन्थ, ऐन्थ्र, **एपिस, आर्नि, आर्स,** आर्स-हो, अरम-ट्रि, बेल, फेर, कैम्फ, **कैन्थ,** कार्बो-ऐ, **कार्बो-वेज,** कास्टि, सिकि, कोलचि, क्रोटे-हो, क्यूप्रम, क्यूप्रम-ऐसि, डिजि, इलेटे, इरिजि, युपे पर्फि, हेमि, हाइड्रो, हाइयो, केलि-बाइ, लैक-कै, लेके, **लोरो, लाइको,** मार्क-कोर, मार्फि, ओपियम, फास, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रोबि, **सिकि,** साइलि, ष्ट्रेमो, थिरे।

» हैजा—**आर्स,** कार्बो-वेज।

» खींचनके साथ (Convulsions)—क्यूप्रम, डिजि, हाइयो, ष्ट्रेमो।

» पसीनेके साथ—ऐकोन, एपि, आर्स, कैम्फ, कैन्थ, डल्का हाइयो लाइको, **ओपियम,** पल्स, ष्ट्रेमो, सल्फ।

» बोखारमें—आर्नि, आर्स, बेल, कैफ, कैन्थ हाइयो, ओपियम प्लम्ब सिके, ष्ट्रेमो।

» मेरुदण्डके स्तम्भनमें चोटके कारण (From concussion of spinal column)—आर्नि, नाम टक्स टेर।

» सुजाक रुककर (Suppressed gonorrhoea)—कैम्फ, कैनाब।

सर्दी मालूम होना (Coldness)—ब्राइट।

सर्दी मालूम होना, प्रदेशमें—कैमो।
सुन्न हो जाना-प्रदेशमे (Numbness in the region of)—वार्बे।

मूत्राशय-मुखशायी ग्रन्थि।
(PROSTATE GLAND)

कड़ापन (Induration)—कोना, कोपे, आइयो, सिलि, साइलि, सल
थूजा।

कड़ा (Hard)—कोना, कोपे, आइयो, मेडो, प्लम्ब, सिनि, साइलि, थूजा।

कसा मालूम होना (Tension)—क्लिमे, लाइकी, थूजा।

गरम (Heat)—टिलि-ड्रि, पल्स।

" पेरिनियमसे—ऐलूमि, अरम।

दर्द (Pain)—ऐलि-सि, एपिस, कैल्को, कोपे, क्यूवे, कूप्रम-आ, ग्रैफ
लाइको, पेरिरा, पोडो, पोलिगो, पल्स, रास-टक्स, स्टैफि, टै
थूजा।

" अकड़न (Soreness)—सल्फ-ऐ।

" काट डालनेकी तरह पेरिनियममे (Perineum)—अरम, लाइके
थूजा, नक्स-वोम।

" जलन (Burning)—ऐलि-सि, [illegible] फास-ऐ।

" " पेरिनियमसे (Perineum [illegible] ड, प्लम्ब, [illegible]

" द[illegible] तरह (Pressin[illegible] एपिस, [illegible]

" [illegible] समय—[illegible]

" [illegible]

" " [illegible]

दर्द, दबा रखनेकी तरह पेरिनियममें, पेशाब होनेके बाद—प्लस।

» दुखना (Aching)—थूजा।

» » पेरिनियममें (Perineum)—ब्रम, बार्बे, कार्ब्स, साइक्ला, नक्स-वोम।

» पाखाना फिरते समय, वेगदेनेसे—साइक्ला, रास-टक्स।

» पेशाब करते समय—एपिस, कोपे, पेरिरा।

» पेशाब करते समय वेग देनेसे—साइक्ला।

» पेरिनियमसे-(गुह्यद्वार और जननेन्द्रियके बीचके स्थानमें)—ऐगिए-आइ, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, चेलि, कुप्रम-ग्रा, लाइको, प्रूम पन्स, सिलि।

» मैथुनके बाद—ऐलि सि, कैम्फि, सिपि।

» सुई बेधनेकी तरह—चोवि, कोना, साइक्ला, कैलि-बाइ, कैलि कार्ब, कैलि-ना, लाइको।

» » पेशाब करते समय—केक्ट, कास्टि, कोपे, साइक्ला, कैलि-ना, मार्क-डि, पेरिरा, सिलि।

» » पेरिनियमसे—ब्रम, बार्बे, बोवि, कार्बो वेज, चेलि, मैग म्यू, मार्क।

» » » फैलता है जरायु तक—बार्बे।

» » » » मलद्वार तक—नाइट्रि-ए।

» » चलना, घूमने फिरनेमे—कैलि-बाई।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, **एपिस** बेल, क्यान्थ, चिमि कोपे, फ्यूबे, डिजि, हिपर, कैलि बाइ, माइको, मार्क, नक्स वोम, पेट्रो, पल्स, लिथि, सिपि, थाइमि, टेरि, सल्फ, थूजा।

» सूजाक रुककर (Gonorrhoea, suppressed)—कोपे, डिजि, [illegible] मार्क, **नाइट्रि-ए**, नक्स-वोम पेट्रो, पल्स, सिपि सल्फ थूजा।

पीब होता है (Suppuration)—हिपर **साइलि**।

फूलना (Swelling)—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कार्बो, थूजा।

भार मालूम होना (Heaviness)—[illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] पल्स, सल्फ।

» पेरिनियममें, ऊपर दबाता है मानो—[illegible] सल्फ।

विवृद्धि (Enlargement)—ऐमोन-म्यू, ऐपिस, अरम-म्यू, **बेरा-कार्ब,** बेञ्जो-ऐ, **कैल्के, चिमा, कोना, डिजि,** फेरम-म्यू, हाइयो, आइयो, कैलि-आयोड, लाइको, मेजि, मार्क, नेट्र-कार्ब, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, पेरिरा, फास, **पल्स,** साइलि, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ बढनेसे (Senile hypertrophy)—**बेरा-कार्ब,** बेञ्जो-ऐ, कोना, **डिजि,** आइयो, नक्स-वोम, स्टैफि, सल्फ।

स्राव, मूत्र-ग्रन्थिका, रस (Prostatic fluid)—ऐग्ना, ऐना, एपिस, अरम, कैल्के, कोना, ऐलैन्थ, इग्निशि, हिपर, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, **फास-ऐ,** फास, सोरि, पल्स, **सिलि, सिपि,** साइलि, स्पाइ, **स्टैफि,** सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ कामोद्दीपक चिन्तासे—कोना, लाइको, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** फास, पिक्रि।

„ घूमनेके समय—ऐगा, **सिलि,** साइलि।

„ ढुलकता रहता है लगातार (Dribbling)—फास, सिलि।

„ पाखाना फिरते समय—कैल्के, कास्टि, **कोना,** हिपर, इग्ने, कैलि-बाई, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, **नक्स वोम, फास-ऐ,** फास, **सिपि, सिलि,** साइलि, सल्फ।

„ पेशाब करनेके पहले—सोरि।

„ पेशाबके साथ—ऐगा, हिपर, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सिपि, सल्फ।

„ „ बाद—डेफि, हिपर, कैलि कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब, साइलि, सल्फ।

„ बातचीत करनेसे, स्त्रियोंके साथ—नेट्रम-म्यूर, फास।

„ लिङ्गोच्छ्वासके समय—**फास ऐ,** सल्फ।

„ „ बिना—लाइको, नेट्रम-म्यूर, फास, **सिलि,** थूजा।

„ हवा छूटनेके समय—**कोना,** मैग-कार्ब।

मूत्रनाली (URETHRA) ।

अनुभव शक्तिहीन (Sensation lost) पेशाब करते समय—एसिड, आर्जे-ना, **कास्टि,** कूप्रम, मैग-म्यू, नक्स-वोम, सार्सा ।

„ रह गया, कुछ पेशाब करनेके बाद, मालूम होना—आर्जे-ना, केलि या, सिपि, थूजा ।

कड़ापन (Induration)—आर्जे ना ।

कसाव (Tension)—लाइको ।

„ लिङ्गोच्छ्रासके समय—**कोना-से, केन्थ** ।

कीड़ा रेंगता है, मालूम होना (Crawling sensation)—ऐगा, चायना, मार्क, पेट्रोसि, फास-ऐ, थूजा ।

„ पेशाब करनेके समय—इग्ने, पेट्रोसि, फास-ऐ ।

„ „ बाद—केन्थ, लाइको ।

„ फोसा नेविक्युलारिसमें—**पेट्रोसि** ।

खुजलाना (Itching)—बार्बे, केन्थ, कास्टि, चिमा, फेरम, लिडम, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पेट्रो, पेट्रोसि, सिपि, सल्फ, थूजा ।

„ कामोद्दीपक (Voluptuous)—थूजा ।

„ ग्लीटके साथ (With gleet)—नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, **पेट्रो** ।

„ पेशाब करनेकी इच्छाके साथ—कोनोमि ।

„ पेशाब करनेके पहले—कोपे, फेरम, नक्स वोम, टेबे ।

„ „ समय—ऐम्ब्रा, कोपे, थेफा, लाइको, मेरि, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, पोथि, पेरिरा, सार्सा, थूजा ।

„ „ बाद—ऐराण्ड, केन्थ, क्लिमे, कोलचि, कोपे, लाइको सिलिस, नक्स-वोम, पोथि, पेरिरा सार्सा थूजा ।

„ फोसा नेविक्युलारिसमें (Fossa navicularis)—क्लिमे, पेट्रोसि थूजा ।

„ „ कामोद्दीपक—पेट्रोसि, थूजा ।

विवृद्धि (Enlargement)—ऐमोन-म्यू, ऐपिस, अरम-म्यू, **बैरा-कार्ब,** बेञ्जो-ऐ, **कैल्के, चिमा, कोना, डिजि,** फेरम-म्यू, हाइयो, आइयो, कैलि-आयोड, लाइको, मेजे, मार्क, नेट्र-कार्ब, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, पेरिरा, फास, **पल्स,** साइलि, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ बढ़नेसे (Senile hypertrophy)—**बैरा-कार्ब,** बेञ्जो-ऐ, कोना, **डिजि,** आइयो, नक्स-वोम, स्टैफि, सल्फ।

स्राव, मूत्र-ग्रन्थिका, रस (Prostatic fluid)—ऐग्नs, ऐना, एपिस, अरम, कैल्के, कोना, ऐलैन्थ, इरिञ्जि, हिपर, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, **फास-ऐ,** फास, सोरि, पल्स, **सिलि, सिपि,** साइलि, साई, **स्टैफि,** सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ कामोद्दीपक चिन्तासे—कोना, लाइको, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** फास, पिक्रि।

„ घूमनेके समय—ऐगा, **सिलि,** साइलि।

„ ढुलकता रहता है लगातार (Dribbling)—फास, सिलि।

„ पाखाना फिरते समय—कैल्के, कास्टि, **कोना,** हिपर, इग्ने, कैलि-बाई, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम, फास-ऐ,** फास, **सिपि, सिलि,** साइलि, सल्फ।

„ पेशाब करनेके पहले—सोरि।

„ पेशाबके साथ—ऐगा, हिपर, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सिपि, सल्फ।

„ „ बाद—डेफ़ि, हिपर, कैलि कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब, साइलि, सल्फ।

„ बातचीत करनेसे, स्त्रियोंके साथ—नेट्रम-म्यूर, फास।

„ लिङ्गोच्छ्वासके समय—**फास ऐ,** सल्फ।

„ „ बिना—लाइको, नेट्रम-म्यूर, फास, **सिलि,** थूजा।

„ हवा छूटनेके समय—**कोना,** मैग-कार्ब।

दर्द, जलन पेशाब करनेके, आरम्भमें—कैना-सै, मार्क ।

„ „ „ समय—ऐकोन, इस्कि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जं-नाई, वैप्टि, वेल, बार्ब, कैम्फ, कैना-इ, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चिमा, क्लिमे, कोना, कैप्सि, कोपे, कूप्रै, इकुई, इरिन्जि, गुपे-वर्वि, फेरम, जेल्स, हिपर, इग्ने, इपि कैलि-कार्ब कैलि ना, लाइको, मैग-फास, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, फास-ए, फास, सोरि, पल्स, सार्सा, स्टैफि, सल्फ-ए, सल्फ, टेरि, थूजा, इयुवा ।

„ „ „ बाद—बार्बे, बोरा, कैना-इ, कैना स, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्डु-मे चेलिडो, क्लिमि, कोना, पल्स ऐ, कैलि-ना, कैलि-कार्ब, मैग-मूर, मार्क, मेजि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पल्स, स्टैफि, थूजा ।

„ „ „ शेष होनेके समय—कैना-सै, कैलि ना, सेञ्जि ।

„ „ „ शेषविन्दुमें बहुत जलन होती है—कार्ब ना कार्बो वेज, क्लिमि, कोलचि, कोमोलि, लाइको, मार्क, मेञ्जि, नक्स म, लिपि ।

„ „ फोसा नेविक्युलरिसमें—पिकोल कार्ब पेट्रोलि ।

„ „ „ पेशाब करते समय—क्लिमि कैलि या मेड्स मूरा, पेट्रोलि, थूजा ।

„ „ मूत्रमार्गके मुखमें (Meatus)—कार्ब मार्क कोर, म्यूर सल्फ, थूजा ।

„ „ „ पेशाब करनेके पहले—[illegible] ।

„ „ „ „ समय—[illegible] ।

„ „ „ „ बाद—[illegible] ।

दर्द, काटना फोसा नेविकूलारिसमें (Fossæ navicularis)—**पेट्रोसि।**

,, कुटकुटाना (Smarting)—एपिस, बेल, बार्ब, कैना-सै, कोपे, युपे-पर्पि, मिन्स, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, फास, सिपि, साइलि, थूजा।

,, ,, पेशाब करते समय—ऐम्ब्रा, एपिस, **कैना-इ,** कैना-सै, **कैन्थ,** केमो, युपे-पार्पि, **लिलि-टिग,** मार्क-कोर, नाइ-ऐ, टिलिक्ति, सिपि, सल्फ, थूजा।

,, ,, ,, बाद—बोरा, कैप्सि, **लिलि-टिग।**

,, जलन (Burning)—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपि, आर्ज-नाइ, **आर्स, बार्ब,** ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ, कैना-सै, कैन्थ,** कार्लस, कास्टि, चायना, कोलचि, कोपे, डिपर, कैलि-आयोड, लिथि-कार्ब, लाइको, **मार्क, मार्क-कोर,** नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फास, **प्रून-स्पा,** पल्स, रास-वेन, सिपि, **सल्फ,** टेरि, थूजा।

,, ,, सवेरे लिङ्गोच्छ्रासके बाद—नेट्रम-म्यूर।

,, ,, रातमें—बार्ब, कैन्थ, कास्टि, मार्क।

,, ,, ,, मैथुनके समय—ऐगा, ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, कैन्थ, क्रियो, मार्क, सल्फ, थूजा।

,, ,, ,, ,, बाद—कैन्थ, सिपि, सल्फ-ऐ।

,, ,, ,, वीर्यपातके बाद—सिपि, सल्फ, थूजा।

,, ,, पाखाना फिरनेके समय—कोलोसि।

,, ,, ,, बाद—नेट्रम-कार्ब।

,, ,, पेशाब जब नहीं करता—बार्ब, मार्क, स्टैफि।

,, ,, पेशाब करते समय—ऐनागे, कोनायम, फ्लू-ऐ, इग्ने, सेने, टियु, थूजा।

,, ,, पेशाब करते समय, वेग देनेसे—**कैन्थ,** नाइट्रि-ऐ, प्रूनस-स्पा, सल्फ।

,, ,, पेशाब करनेके पहले—एपिस, बार्ब, **बोरा,** ब्राइयो, **कैना-इ, कैन्थ,** मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पल्स।

दर्द, जलन पेशाब करनेके, आरम्भमें—कैना-से, मार्क ।

„ „ „ समय—ऐकोन, इस्कि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-नाई, बैप्टि, बेल, बार्बे, कैम्फ, कैना-इ, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चिमा, क्लिमेटि, कोना, कैचि, कोपे, कुप्रे, इक्वि, इरिञ्जि युपे-पर्पि फेरम, जेल्स, हिपर, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, कैलि ना, लाइको, मैग-फास, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, फास-ए, फास, सोरि, पल्स, सार्सा, स्टैफि, सल्फ-ए, सल्फ, टेरि, थूजा, इयुवा ।

„ „ „ बाद—बार्बे, बोरा, कैना-इ, कैना स, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्ड-से, चेलिडो, क्लिमे, कोना, पल्स ए, कैलि-ब्रा, कैलि-कार्ब, मैग मूर, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि ए, पल्स, स्टैफि, थूजा ।

„ „ „ शेष होनेके समय—कैना से, कैलि-सा, मेजे ।

„ „ „ शेषबिन्दुमें बहुत जलन होती है—चार्ज सा, कार्बो वेज, क्लिमे, कोलचि, कोलोसि, माइको, मार्क, मेजे, नक्स म, सिपि ।

„ „ फोता मेचिकानरिमें—ऐकोन, क्राथ, पेट्रोलि ।

„ „ „ पेशाब करते समय—क्लिमे, कैंथि या मेडग मूरर, पेट्रोलि थूजा ।

„ „ मूत्रनालीके मुखमें (Meatus)—बार्बे, मार्क कोर स्वार सल्फ, थूजा ।

„ „ „ पेशाब करनेके पहले—[illegible] ।

„ „ „ „ समय—[illegible]

[illegible] ।

„ „ „ „ बाद—[illegible] ।

५२

दर्द, काटना फोसा नेविकूलारिसमें (Fossæ navicularis)—**पेट्रोसि।**

,, कुटकुटाना (Smarting)—एपिस, वेल, वार्बे, कैना-सै, कोपे, युपे-पर्पि, मिन्से, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, फास, सिपि, साइलि, थूजा।

,, ,, पेशाब करते समय—ऐम्ब्रा, एपिस, **कैना-ट्र,** कैना-सै, **कैन्थ,** केमो, युपे-पार्पि, **लिलि-टिग,** मार्क-कोर, नाइ-ऐ, टिलिङ्गि, सिपि, सल्फ, थूजा।

,, ,, ,, बाद—बोरा, कैप्सि, **लिलि-टिग।**

,, जलन (Burning)—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपि, आर्ज-नाइ, **आर्स, वार्ब,** ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ, कैना-सै, कैन्थ,** कार्लस, कास्टि, चायना, कोलचि, कोपे, हिपर, कैलि-आयोड, लिथि-कार्ब, लाइको, **मार्क, मार्क-कोर,** नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फास, **प्रून-स्पा,** पल्स, रास-वेन, सिपि, **सल्फ,** टेरि, थूजा।

,, ,, सवेरे लिङ्गोच्छ्वासके बाद—नेट्रम-म्यूर।

,, ,, रातमें—वार्बे, कैन्थ, कास्टि, मार्क।

,, ,, ,, मैथुनके समय—ऐगा, ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, कैन्थ, क्रियो, मार्क, सल्फ, थूजा।

,, ,, ,, ,, बाद—कैन्थ, सिपि, सल्फ-ऐ।

,, ,, ,, वीर्यपातके बाद—सिपि, सल्फ, थूजा।

,, ,, पाखाना फिरनेके समय—कोलोसि।

,, ,, ,, बाद—नेट्रम-कार्ब।

,, ,, पेशाब जब नही करता—बार्बे, मार्क, स्टैफि।

,, ,, पेशाब करते समय—ऐनागी, कोनायम, फ्लू-ऐ, इग्ने, सैने, टियु, थूजा।

,, ,, पेशाब करते समय, वेग देनेसे—**कैन्थ,** नाइट्रि-ऐ, मूनस-स्पा, सल्फ।

,, ,, पेशाब करनेके पहले—एपिस, बार्बे, **बोरा,** ब्राइयो, **कैना-ट्र, कैन्थ,** मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पल्स।

दर्द, सुई बेधनेको तरह, लिङ्गोच्छ्वासके समय—केना-से, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

" " सूजाकके साथ—मार्क-कोर, सिमि।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, आर्जे-ना, धरम, बोना-से, कोन्थ, चिमा, कोपे, क्यूबे, हिपर, केलि-बायोड मार्क कोर, नक्स वोम, पेट्रो, पेट्रोसि, मेजा, सल्फ, टेरि थूजा।

" मूत्रनालीके मुखमें—कैल्के, कैना-इ, कोना-से, कैन्थ, कोपे, हिपर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सल्फ।

फड़कना, मांस पेशियोंका (Twitching)—कैन्थ, नेट्रम-कार्ब, नक्स वोम, पेट्रो फास।

फूलन (Swelling)—आर्जे-ना कैन्थ, कोपे, मार्क, मार्क-कोर, सिमि, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ राम-टक्स, सल्फ, थूजा।

रक्त-स्राव (Haemorrhage)—कैक्ट, कैल्के, कैन्थ, कोपि, चेलिडो, चिनि-म, कोना, क्रोटे, युफ्रे, फेरम-म्यू हिपर, इपि, केलि-बायोड, लाइको, मार्क, मिलि, नाइट्रि ऐ नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपि, सल्फ, टेरि, थूजा।

" पाखाना फिरनेके समय—लाइको।

" पेशाब करनेके बाद—हिपर, मेजे, पल्स, मार्क सल्फ, थूजा, सिङ्क।

" पेशाबके पहले व उसके बाद—कोना।

" मैथुनके समय—कालि।

, यन्त्रणा युक्त—सिङ्क।

यन्त्रणा-हीन—आर्जे ना, लाइको।

" सुजाक रुक जानेकी वजहसे—पल्स।

लाल रङ्ग (Redness)—बेलस, हिपर, [illegible], नाइट्रि ऐ पेट्रो सल्फ, [illegible],

मूत्रपथ-संकोचन (Stricture)—ऐकोन [illegible] आर्जे ना [illegible], कैल्के, कैना-इ कैन्थ [illegible] [illegible] कोना [illegible], [illegible], [illegible] केलि-बायोड, मार्क, नेट्रम म्यू, नाइट्रि ऐ पेट्रो पेट्रोसि, पल्स, [illegible] सल्फ थूजा।

" आक्षेपिक (Spasmodic)—बेल [illegible], [illegible] [illegible] नाइट्रि ऐ नक्स वोम, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

दर्द, जलन मूत्रनालीके मुखमें, मैथुनके बाद—कैल्के, नेट्रम-स ।

" " रेतः पातके समय—ऐसिड-फ्लू ड, क्लिमे, सार्सा, **सल्फ**, थूजा ।

" " " बाद—कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कोबाल्ट, मार्क, सल्फ, थूजा ।

" " लिङ्गोच्छासके समय—कैन्थ, नाइट्रि-ऐ ।

" " हमेशा—कैलेडि, कैन्थ ।

" **घटना**, पेशाब करनेके बाद—बार्बे, काफि ।

" दबा रखनेकी तरह (Pressing)—ऐग्नस, ब्राइयो, डाल्का, लैक, नक्स, पेट्रोसि, पल्स, टियु ।

" " पेशाब करनेके बाद—पल्स, स्टैनम ।

" फाड डालनेकी तरह (Tearing)—ब्राइयो, कैना-सै, कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, **नक्स-वोम**, सल्फ ।

" " पेशाब करनेके समय—कार्बो-वेज, नेट्रम-कार्ब, **नक्स-वोम**, सल्फ ।

" " " बाद—आर्स, कार्बो-वेज, टैरे ।

" सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—ऐकोन, एपिस, आर्जे-ना, बार्बे, कैना-इ, कैप्सि, चायना, क्लिमे, डिपर, लैके, लाइको, मैङ्ग, मार्क, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास सिपि, **सल्फ**, थूजा ।

" " पेशाब जब नहीं करता—बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैना-सै, कैप्सि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, थूजा, टिलिया ।

" " पेशाब करनेके पहले—कैना-इ, **कैना-सै**, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, थूजा ।

" " " समय—**कैना-इ, कैना-सै**, ग्रैफा, पल्स, सल्फ ।

" " " बाद—बार्बे, **कैना-इ**, कैप्सि, कोना, कैलि-बा, मार्क, नेट्रम-कार्ब, स्क्रोडो ।

" " फोसा नेविक्यूलारिसमें—ऐकोन, सिकि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, पेट्रोसि, थूजा ।

" " मूत्रनालीके मुखमें—ऐकोन, **कैस्का**, बैरा-म्यू, **नाइट्रि-ऐसि**, फास-ऐ, जिङ्क ।

स्राव, पीला पुराना—ऐलूमि, आर्जे-मे, कैल्के, पल्-ऐ, लिपर, लाइको, मार्क, पल्स ।

„ „ हरी आभा लिये हुए पीला—आर्ज ना, सिनि-वा, कोबाल्ट, पयू थै, हाइड्रो, मार्क, नेट्रम-स, पल्स, सिपिया, थूजा ।

„ पुराना (Cronic)—कैल्के-फास, यल्लोरा, सिनेबा, काकुलि, पयू थै, फेरम, हाइड्रो, कैलि-स, माइगे, माइ, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो पेट्रोसि, प्लम्ब, सिपि, सल्फ, थूजा ।

„ पेशाब करनेके बाद—कोपे, कैलि कार्ब मैके, नेट्रम-म्यूर, पेट्रोसि, सिपि ।

„ बदबूदार—बैज्जो-ऐ, कार्बो-वेज, मोरि पल्स माइलि, सल्फ, थूजा ।

„ यन्त्रणाहीन—ऐगा आर्जेण्ट-नैट, कैना-स, कोपे, फेरम, हाइड्रो, कैलि-आयोड, मैडो मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, मोरि, सेगु, सिपि, सल्फ, थूजा ।

„ „ उपदंश ग्रस्त रोगीका (In syphilitics)—आरम-म्यूर, सिनेबा, मार्क, मार्क-कोर ।

„ स्नान करनेके बाद—नेट्रम म्यूर ।

„ लसलसा, कीचड़को तरह (Slimy)—फेरम मार्क, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सल्फ थूजा ।

„ श्लेष्माकी तरह (Mucous)—ऐग्ना आर्जे ना, बैज्जो ऐ, कैल्के, कैना से [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], कोबाल्ट, कोपे, पयू थै [illegible], फेरम [illegible] लिपर, मार्क, मेजे, नेट्रम म्यू, नाइट्रि ऐ [illegible], [illegible], सिपिया, सल्फ थूजा ।

„ „ लिंगको शिथिल अवस्थामें—फास ।

„ [illegible] ([illegible])—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], फेरम [illegible] [illegible]-फास, [illegible] [illegible]-[illegible], कैलि [illegible] [illegible] [illegible] मार्क, मार्क [illegible], [illegible] नेट्रम-[illegible],

स्राव (Discharge)—सवेरे-अरम-म्यूर, फास ऐ, फास, **सिपि** ।

„ रातमें—फ्लू-ऐ, **सिपि** ।

„ अधिक (Profuse)—कैना-इ, कोपे, क्यूबे, फेरम, हाइड्रो, कैलि-बा, मेडो, पेट्रोसि, सिपिया, **थूजा** ।

„ खाल उधेड़नेवाला (Acid)—आर्ज-ना, अरम म्यू, कैप्सि, कोपे, क्रियो, **मार्क-कोर**, नेट्रम-म्यू, पेट्रोसि ।

„ खून मिला हुआ (Bloody)—आर्ज-ना, कैल्के-स **कैन्थ**, कैप्सि, मिलि, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, पल्स, थूजा ।

„ गाढ़ा (Thick)—कैना-से, क्लिमे, क्यूबे, हाइड्रो, कैलि-आयोड, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, पल्स, साइलि ।

„ चपचपा (Gluey)—ग्रैफा ।

„ दाग लगता है कपड़ेमें —नेट्रम-म्यूर ।

„ दूधकी तरह—कैना-से, कैप्सि, कोपे, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पेट्रोसि, सिपि ।

„ ध्वजभङ्ग—ऐग्ना ।

„ पतला (Thin)—कैप्सि, लाइको, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम ।

„ पानीकी तरह (Watery)—फ्लू-ऐ, हाइड्रो, मेजे म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, **थूजा** ।

„ पीबकी तरह (Purulent)—आर्निका, बैरा-कार्ब, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, चेलि, क्लिमे, कोना, कोपे, क्यूबे, कैलि-आयोड, कैलि-सल्फ, लिडम, लाइको, मेडो, मार्क, मार्क-कोर, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सेबा, साइलि सल्फ, थूजा ।

„ „ सड़ा दुर्गन्ध मिला हुआ (Fœtid)—कार्बो-वेज, सोरि, पल्स, साइलि, सल्फ ।

„ पीला (Yellow)—ऐग्न, ऐलूमि, बैरा-कार्ब, कैल्के, कैल्के-स, कैन्थ, कैप्सि, कोपे, क्यूबे, फ्लू-ऐ, हिपर, **मार्क**, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ**, सोरि, **पल्स**, **सीपिया**, **थूजा** ।

„ „ दाग लगता है कपड़ेमें—ऐलूमि, नेट्रम-म्यू, सोरि ।

मूत्र (Urine)

अण्डे के सफेद अंशकी तरह (Albuminous)—ऐगिट-टार्ट, इपि, आर्ज-ना, आर्स, अरम, अरम-म्यू, ब्रेकि, कैल्क, कोल्चि-आ कैना-से, कैन्थ, कार्बो-ऐ, कार्ब-वेज, चिमा, चायना, कोनोसि, क्रोटे-हो, क्यूप्रम, डिजि, डल्क, फेरम, ग्लोनो, हेलि, हैलोनि, हिपर, आइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि क्लो, कैलि-आयोड, कैल्मि, लेक-डि, लैके, लाइको, मार्क, मार्क कोर, मार्क-म, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि ऐ, पेट्रो, फास-ऐ, फास, फाइटो, प्लम्ब, रास-टक्स, सेवा, सिके, सल्फ, टेरि, थुजे, सैलि ऐ।

„ पुराना—ऐट्रो, मिडो, पेट्रो, प्लम्ब।

„ सुरासारके अपव्यवहारके बाद (After abuse of alcohol)—आर्स, बार्ब, कैल्क-फा, कार्बो-वेज, चायना, क्रोटे हो, मैक, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, सल्फ।

„ हृद्रोगमें (Consecutive to heart disease)—आर्स, अरम म्यू, लेची-ऐ, क्रोटे-होर, क्यूप्रम, मैक, पेट्रो, टेरि।

आपेक्षिक गुरुत्व बढ़ना (Specific gravity)—आनिका, कैन्थ, डिजि फेरम, कैलि-फा, मार्क, अर्गोम, फास ऐ, फास सिपिया, सल्फ ऐ, थुजे, जिङ्क।

„ घटना—ईथो डिजि, स्कुई, मार्क, नेट्रम म्यू, फास, प्लम्ब, सल्फ थुजे, लिरि वि।

कास्ट हुई नली (Containing cast नली मिश्रा)—एपिस, कैलि क्लोर, नेट्रम फा फास प्लम्ब सल्फ थुजे।

„ इपिथेलियम (Epithelial व शिरा पदार्थ मिश्रित ...)—एपिस हिपर टार्ट, मेडि कार्बो ऐ मार्क कोर, फास प्लम्ब सल्फ ऐ।

नाइट्रि-ऐ, पेरिरा, पेट्रो, पेट्रोसि, फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, **पल्स**, **सिपि**, साइलि, सल्फ, टैबे, **टेरे**, थूजा।

स्राव, सूजाककी पुरानी अवस्थामें लारकी तरह (Gleety discharge)—**ऐग्न**, **ऐलूमि**, **ऐलू**, **वेञ्जो-ऐ**, बोवि, कैलेडि, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-वेज, सिनावे, क्लिमे, कोबाल्ट, कोपे, क्यूबे, फेरम, ग्रैफा, ग्लिपर, हाइड्रो, आइरि, कैलि-ग्रा, कैलि-क्लो, कैलि-आयोड, कैलि-स, लाइको, मेडो, मार्क, मेजे, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास-ऐ, फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, **सिपि**, **सिलि**, **सल्फ**, **थूजा**।

„ सफेद (White)—आर्जे-ना, कैना-इ, कैना-से, कैन्थ, चिमा, कोबाल्ट, कोपे, जेल्स, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पेट्रोसि, फास-ऐ, सिपिया, सल्फ, थूजा, जिङ्क। -

„ , पुराना (Chronic)—मेजे, **नेट्रम-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, सिपिया, सल्फ, थूजा।

„ हरी आभा लिये हुए (Greenish)—ब्राइयो, कोबाल्ट, हाइड्रो, कैलि-आयोड, **मार्क**, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

„ „ पुराना (Chronic)—सिने-बा, कोबाल्ट, कैलि-आयोड, **नेट्रम-स**।

सुडसुडाना (Tickling)—ऐनाग़े, ऐगिट-ना, अरम-म्यू, वेल, कैन्थ, कार्बोनि-स, क्लिमे, काक्क, काफि, कोना, फेरम, लाइको, टैबे।

„ पेशाब करते समय—ऐम्ब्रा, आर्जे-ना, कोलचि, रियुम।

„ „ बाद—कोलचि।

„ फोसा नेविक्यूलारिसमें—कोलोसि, पेट्रोसि।

„ मूत्रनालीके मुखमें (Meatus)—ऐगा, ब्रोमि, क्लिमे, काक्क, कोपे, कैलि-ना, ल्डिम, लिसिन।

सुन्न होना (Numbness)—**कास्टि**, सिड्रो, **मैग म्यूर**, नक्स-वोम, सार्सा।

आयी हुई तली खट्टी—ऐम्ब्रा, कैल्के, मार्क, नेट्रम-कार्ब, सिपि।

„ तेज, उग्र (Strong)—ऐसाफि, ऐण्टि-टार्ट, ऐस्पा, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ, क्रियो, लैके, मार्क, नाइट्रि ऐ, फास, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ परिवर्त्तनशील—बेञ्जो-ऐ।

„ बिल्लीके पेशाबकी तरह—ऐम्ब्रा, वाइवा, वायो ट्रि।

„ मीठा—इथु, आर्जेण्ट-मे, फिरम-आई, क्वाइपि, नक्स मस, टेरि।

„ सड़ा (Putrid)—अरम-मूर, बेञ्जो-ऐ, कैलेडि, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, फास-ऐ, सिपि।

„ „ अण्डे की तरह—डैफे।

गदला (Turpid)—ऐको, इस्कि, ऐम्ब्रा, ऐना, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपि, आर्नि, आर्स, अरम, बेल, बार्ब, ब्राई, केक्टस, कैम्फ, कैना-से, कैल्क, कार्बो-वेज, कार्ड मे, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, चिनि स, सिना, कोल्चि, कोलोसि, कोना, कुप्रम, डैफि, डिजि, डल्क, डेल्फ, ग्रेफा, ग्रेटि, हिपर, इपि, कैलि कार्ब, कैलि नाई, लैक ऐ, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, मार्क-कोर, साई, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स मोस, ओपियम, पेट्रो, फास ऐ, फास, प्लम्ब, सोरि, पल्स, सेबाडि, सार्सा, सेने, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ कुछ देर रखनेपर—बेल, बार्ब, ब्रायो, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिनि सल्फ, सिना, कोलोसि, डल्क, ग्रेफा, ग्रेटि, हिपर, मार्को, सिफा, मार्क, सिपि [illegible] पेट्रो, फास ऐ, रस, टक्स, सार्सा, सेने, टेरि, थूजा [illegible] [illegible]।

„ बहुत थोड़ी देर रखनेपर—ग्राफि, थेरि, मार्को, रस-टक्स।

„ कड़ियाली मोटी मैला—ईक्वि, फास ऐ, [illegible]।

„ [illegible] समान—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] टक्स, सेबाडि, सार्सा, सिपि।

आयी हुई तली, ग्रे नुलर (दानादार-granular)—कैल्य, कार्बो-ऐ, मार्क, मार्क कोर, पेट्रो, फास, पिक्रि-ऐ, प्लम्ब, सल्फ-ऐ।

„ टियूब (Tube-नाली)—ऐसिट-क्र ड, एपिस, विस्मथ, कैल्य, सिमि, हिपर, मार्क-कोर, फास, पिक्रि-ऐ, प्लम्ब, सल्फ, टेरि।

„ फाइब्रस (Fibrous-तन्तुमय)—कैना-सै, सिमि, कोल्मि, फास-ऐ, सल्फ-ऐ।

„ हायालीन (Hyalene-विकाशावस्थामें सेलके भीतरका अर्द्ध स्वच्छ पदार्थ)—कार्बो-ऐ, व्रे कि, पेट्रो, फास, प्लम्ब।

„ गर्भावस्थामें—**एपिस**, आर्स, अरम-म्यू, कैल्के-ऐ, चायना, कोलचि, जेल्स, हिलोनि, कैलि-क्लो, लाइको, मार्कु, **मार्क-को**, नेट्र-मूर, फास-ऐ, फास, सल्फ, टेरि।

„ ठण्ड या गीली जगहमें रहकर (From exposure to cold and dampness)—कैल्के, कोलचि, डाल, रास-ट।

„ डिप्थीरियाके बाद—आर्स, एपि, कार्बो-ऐ, मार्कु-को।

„ एल्ब्यूमिन्युरिक ऐमुरोसिस (Alleumenuric amurosis)—एपि, आर्स, जेल्स, हिपर, मार्क-कोर, फास-ऐ, प्लम्ब।

„ दुर्गन्धित (Offensive)—एपिस, आर्ज-नैट, आर्नि, आर्स, ऐसार, ऐम्ब्रा, अरम, **वेप्टी**, बैरा, बेन्जो-ऐ, बोरा, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, चिमा, डाल, ग्रे फा, इरिड, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, क्रियो, लाइको, मैफा, म्यूरेक्स, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, पल्स, रोडो, **सिपि**, सल्फ, टेरि, विरे-वि, वायो-ट्रि।

„ „ ज्वरके समय—आर्ज-नैट, क्रियो, लाइको, मार्क, फास-ऐ, रास-टक्स, स्कुट्टे, स्ट्रै फि, सल्फ।

„ „ घोड़ेके पेशाबकी तरह (Horse urine)—ऐरसि, बेन्जो-ऐ, नेट्र-कार्ब, फास।

„ आंस्ट—ऐस्टो, ओलियो, इयुरे।

„ नौसादरकी तरह (Ammonical)—**ऐफि**, अरम, कार्बो-वेज, डाल, फेरम, **आइयो**, लेके, मार्क, **मस्कस**, **नाइट्रि-ऐ**, पेट्रो, फास।

कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, केलि-ना, लेके, लिलि-टिग, लाइको, **मार्क, मार्क-कोर, मेले, नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ, नक्स-वोम,** पेट्रोलि, फास-ए, पल्स, राम-रू, रास-टक्स, सैवा, सार्सा, स्टैफि, **सल्फ,** टेरे, टेरि, थूजा, यूवा।

तली (Sediment)—आर्स वेञ्जो-ए, वार्ब, कैल्के, कैन्थ, चिमा, सिना, **कोलोसि,** कोपे, **लाइको,** मेले, मार्क, मेजि, नेजा, नाइट्रि-एसिड, पेट्रो, **फास-ए,** फास, **पल्स, सार्सा, सिपि,** साइलि, स्टैफि, सल्फ, टेरे, वेलि।

" आकजालेट आफ लाइम (Oxalate of lime)—कास्टि, लाइको, नाइट्रि-ए, आकजा ऐ, प्लम्ब, रास-टक्स, टेरि, जिङ्क।

" ईंट के चूरकी तरह लाल—ऐमोन-कार्ब, **आर्नि, आर्स, एरगड,** ऐम्पा वार्ब, वेप्टी, कैल्के, कार्बो वे, कास्टि, चिनि स, सिमि कोलोसि, कोले, डिजि, ग्लोनो, हाइयो, इपि, केलि-कार्ब, लेके, लियम, **लोबि, लाइको,** मिफा, **मार्क-कोर,** मेजे, नेट्रम म्यू, नेट्रम स, नक्स-वोम, ओपियम, ओपि, पेरिरा, पेट्रो, फास, प्लेटिना, सोरि, **सिलि, सिनि, सिपि,** साइलि, टेरे।

" काफीके चूरकी तरह—ऐम्ब्रा, **इपि, ऐलि,** मेक टेरे।

" खड़ियाके चूर या मिट्टीकी तरह—बैल्के मार्क, नेट्रम म्यू, फास ऐ फास, सल्फ।

" गदला (Clouds)—**वार्ब,** वाइयो, कार्बो वे, कास्टि कैमो चेलि, कालचि, केलि मा, लेक, मार्क, फास ऐ, फास टेरे थूजा।

" गाढ़ा—ऐन्थ्रि **बार्ब,** कैल्क, कोलोसि कोपे, म्यूरि सल्फ।

" गुलाबी रङ्गका (Pink coloured)—वार्ब, कालचि कालचि, सिलि।

" जालजालोई—लाइको फास।

" दार (दाना)—ऐन्थ्रि, बेन्जो ऐ **बार्ब,** केना वे केल्क, कैमो चेलि क्रियो फिराट मेजे, पेट्रो, फास ऐ, फास पल्स **सार्सा।**

" दाना (Crystals)—आर्स मा, कोलोसि कोप्य फेरम मि, [illegible]।

गदला, पेशाब करनेके समय—आर्स, **कैन्थ**, **चेलि**, हिपर, मार्क, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, सल्फ, **टेरि**।

„ पेशाब और भी ज्यादा गदला होकर अन्तमें बून्द बून्द और थक्का थक्का होता है—रास-टक्स, सार्सा, सिपि।

गर्म—"जलन करनेवाला" देखिये।

गाढा (Thick)—एपि, आर्निका, आर्स, बेञ्जो-ऐ, कार्बो-वेज, चिमा, कोना, कोपे, डेफे, डिजि, हिपर, इपि, आइयो, लैक-डि, मार्क, **मार्क-कोर**, मार्क-आ रू, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, फास, सोरि, सेबाडि, **सिपि**, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, सल्फ, विरे।

„ कुछ देर रहने पर (On standing)—ऐलू, कैमो, सिना, **कोलोसि**, हिपर, मार्क, थूजा, टेरि।

चमडा उधेडनेवाला (Acid)—**आर्नि**, **बेंजो-ऐ**, बोरा, कैल्के, कैना-से, कार्डु-मे, कास्टि, चेलि, कक्क, कूप्रम, साइक्ला, डाल, फ्लू-ऐ, ग्रेफा, **हिपर**, आइयो, कैलि-बा, कैलि कार्ब, क्रियो, **लोरो**, लिथि-कार्ब, **मार्क**, **मार्क-कोर**, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लेरटे, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सेने, सिपि, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा, इयुरे-ना।

„ ऋतुके समय—ऐलूमि, एपिस, नेट्रम-मूर।

चीनी मिला (Containing Sugar)—आर्जेण्ट-मैट, आर्स, बेञ्जो ऐ, **बोवि**, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, कोलचि, क्यूरा, **हेलोनि**, हिपर, कैलि-क्लो, कैलि-फास, क्रियो, लैक-डि, लैकै, लेक-ऐ, **लाइको**, लाइको-पो, नाइट्रि-ऐ, **फास-ऐ**, **फास**, पिक्रि, प्लम्ब, पोडो, रैटा, साइलि, सल्फ-ऐ, **टेरे**, **विरे**, थूजा, **इयुरे-नाई**।

जलन करनेवाला (Burning)—ऐकोन, इस्क्लि, **ऐलो**, ऐम्ब्रा, ऐसिट-क्रूड, ऐसिड-टार्ट, **एपिस**, आर्ज-ना, **आर्स**, **ऐसाफि**, **बेल**, बेञ्जो-ऐ, बार्बे, **बोरा**, ब्राइयो, कैल्के-फास, **कैम्फ**, **केना-इ**, **केना-से**, **कैन्थ**, कैप्सि, **कार्बो-वेज**, कैमो, चेलि, चिमा, क्लिमे, कोलचि, कोना, कोपे, **क्यूबे**, डिजि, इयुपे-पर्प, फेरम, फ्लू-ऐ, **हिपर**, इपि,

तली, लाल बालू भरी (Red sand)—"ईंटका चूर" देखिये।

„ „ धोनेपर दाग नहीं जाता (Hard to wash off)—मिमेकस कूप्रम, डेफे, लैक-कै, फाइटो, सिपि।

„ „ सूता सूता—ऐण्टिम-टार्ट।

„ श्लेष्मा (Mucous)—ऐलो, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रू, आरम, बेंजो-ऐ, बार्बे, कैन्थ, कार्बो-वेज, चेलिडो, चिमा, सिपि, क्लिमे कोलचि, कोलोसि, डल्का, इकुई फिरम, ग्लोनो, हाइड्रो, कैलि आ, कैलि-कार्ब, कैलि-म्यूरि, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेरिरा, पेट्रो, पल्स, सार्सा, सिपि सल्फ, थूजा, टिलिया, टेरि, इयुवा।

„ सफेद (White)—ऐलूमि, बेञ्जो ऐ, बार्बे, बेल्के, कैन्थ, चायना, कोलोसि, ग्रैफा, हिपर, क्रियो, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ फोरि, पिट्रो, फास-ऐ, फास, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, सल्फ, येर्न।

„ „ गदली—ऐम्बा, बेञ्जो ऐ, कोना, फास-ऐ, फास, प्रंटि, रास टक्स।

थोड़ा (Scanty)—एकोन, एग्नि, एगा, आर्जेन्ट, ऐलो ऐलूमि, ऐण्टि टा, एपिस, ऐपो, आर्ज-ना, आर्स, आरम-ट्रि, ऐरम आरम आरम म्यूर, बैप्टी, बेल, बार्ब, बार्यो, कैम्फर, कैन्थ, कार्ब सि, कास्टि, कैमो, चिनि स, सिमि, कोबाल्ट, कोलचि, कोना, कोपवा क्रोट-होर, कूप्रम, डल्का, डिजि, ड्रोसि, डाम डुकुई, इयुप-पर्पि, फिरम, फ्लू ऐ, ग्रैफा, ग्रैटि, हेमा हेलि, हिपर, हाइड्रा [illegible] कैलि बा, कैलि ब्रोम, कैलि कार्ब कैलि क्लो, कैलि-ना, क्रियो, लेक ऐ, लैके, लैक ऐ, ल्यूको लिडम लिलि-टिग, लिथि कार्ब, लाइको, लाइकोप [illegible] मार्क, मार्क-कोर, मार्क सि, [illegible] नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म, नाइट्रि ऐ [illegible] नक्स-वोम, ओपि, [illegible] कार्बो [illegible] प्लम्ब, पोडो, सोरि [illegible] रूटा, सार्सा, सिलि,

तली, दूधकी तरह—ऐसिड-टार्ट, फेरम-आयोड, आक्जै-ऐ।

„ धुमैला रङ्ग (Grey)—कोना, फास-ऐ, फास, पल्स।

„ पीव भरा (Purulent)—**आर्निका**, आर्स, बेञ्जो-ऐ, कैना-ई, **कैन्थ**, **विलसे**, डेफि, डाल, लाइको, मार्क, नेट्रम, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सार्सा, साइलि, सल्फ, **इयुवा**।

„ प्रचुर (Copious)—आर्स, **वार्वे**, चिमा, कोलोसि, कोपि, फास, पल्स, टेरे।

„ पोआलके रङ्गकी तरह (Straw coloured)—चिनि-स।

„ फास्फेट (Phosphate)—आर्चि, कैन्थ, चिनि-स, कोलचि, फेरम-मूर, कैलि-ब्रो, मैग फास, मेडो, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, टिलि-ग्लि, रैफे, सेवा, स्टैनम, टेरि।

„ बालू भरा—ऐसिड-क्रूड, कैल्के, चेलिडो, चिनि-स, लैके, **लाइको**, नेट्रम-मूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, **फास**, पल्स, रूटा, **सार्सा**, सिकि, **सिपि**, **साइलि**, स्यूऐ, **जिङ्क**।

„ भूरा (Brown)—**ऐम्ब्रा**, एपिस, आर्निका, लैके।

„ मैदे जैसा नर्म (Mealy)—ऐगा, **वार्वे**, सल्फ।

„ रक्तमय (Bloody)—ऐकोन, **कैन्थ**, कार्बो-वेज, **चिमा**, डालका, **फास-ऐ**, **पल्स**, **सिपि**, सल्फ, टेरि।

„ लसदार (Gelatinous)—वार्वे, चिमा, कोका, **कोलोसि**, डाल, पेरिरा, पल्स।

„ लसदार मिट्टी जैसे रङ्ग (Clay coloured)—ऐमोन-मूर, ऐना, वार्व, फास, सार्सा।

„ लाल (Red)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐसिड-क्रूड, एपिस, आर्ज-ना, आर्निका, बेल, वार्वे, **कैन्थ**, चेलिडो, चायना, चिनि-स, कोलोसि, कोपि, डैफि, ग्रैफा, लैका-कै, लैके, लोरो, लिथि कार्व, लोबे, लाइको, मेजे, **नेट्रम-मूर**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मोम, पेट्रो, **पल्स**, सिकि, **सिपि**, सल्फ, टेरि, **वैलो**।

हिलोनि, इग्ने, आइयो, आइरि-वा, कैलि-कार्ब, केलि-आयोड, केलि-ना, कोनोसि, क्रियो, लैक-ए, लैके, लिलि-टिग, लिथि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-स, मिथि, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आरू, फास्फो, म्यू-रे, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्र-फास, नक्स-वोम, आक्जा-ए, पेट्रोलि, फास-ए, फास, फाइटो, प्लेरो, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रैफ, होडो, रास-रा, रास-टक्स, सैबा, सार्सा, सिनि, सेने, स्पाइ, स्क्वि ड, स्टैफि, सल्फ, टेरे, टेरि, टियु, थेरि, थूजा, विरे, वार्वा, वायो-हि।

पेशाब करनेके अन्तमें, दिनमें—सिना, पिक्रि-ए, सल्फ।

„ सवेरे—ऐस्ट्रा, ऐमोन-म्यू, लाइको, मार्क, सेपि, सल्फ-ए।

„ रातमें—ऐमोन-म्यू, ऐगिट-क्रू ड, एविस, आर्ज मेट, बैपटो थैज, कैल्क, कोल्को-पल्स, डिजि, जेल्स, लैक-के, लिडम, लिथि कार्ब, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू र, फास-ए, मैगु, सार्सा, स्पाइ, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

„ पिछली रातमें—काफि, थोपि।

„ पिछली रातके बाद—कार्बो-ए, आक्जा ए, प्लम्ब, सल्फ।

„ थकावटके साथ पतला (With exhaustion)—कैम्फ, फास, कार्बो ए, चिनि स, सिनि, फेरम, लाइको, सेपी।

„ ऋतुके समय—कोसो, आयो, फास-ए, फाइटो, सल्फ।

„ ज्वरके समय—ऐगिट क्रू ड, आर्ज नाई, आर्स, एरम म्यू र नाई, कैमो, कोलचि, यूपै-पर्प, लाइको, म्यू-ए फास, स्ट्रैमो।

„ पसीनेके साथ—ऐकोन, डल्का, म्यू ए [illegible], फास, रास-टक्स।

„ [illegible]—[illegible]

„ [illegible]—[illegible]

सेने, **सिपिया**, स्कु टे, स्टैफि, स्ट्रैमो, **सल्फ**, **सिफि**, टेरि, विरे, वार्व्वा।

थोड़ा, ऋतुके पहले—एपिस।

„ ज्वरावस्थामें—एपिस, कैना-सै, कैन्थ, कोलचि, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, स्टैफि।

„ पसीनेकी अवस्थामें—ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्नि, वेल, व्राइयो, **कैल्के**, कैन्थ, चायना, ग्रेफा, **हेलि**, मार्क, नक्स-वोम, **ओपि**, सल्फ।

„ मस्तिष्ककी बीमारीमें—एपिस, वेल, व्राइयो, कूप्रम, स्कु टे।

„ सर दर्दके समय इसके बाद बहुत अधिक—ऐसक्लि-टि, सैंगु।

दूधकी तरह—**एपिस**, अरम, अरम-म्यू, कैल्के, कार्बो-वेज, सिना, कोलोसि, डाल्का, हिपर, आइयो, लिलि-टिग, लाइको, म्यू-ऐ।

„ सवेरे—लिलि-टिग, नेट्रम-म्यू।

„ ऋतुके पहले—फास-ऐ।

„ „ समय—वार्व, नेट्रम-म्यूर।

„ „ बाद—नेट्रम-म्यूर।

„ „ कुछ देर रहनेपर (On standing)—सिना, फास-ऐ।

„ जमे हुए दूधकी तरह (Like curdled milk)—**फास-ऐ**, **फास**।

„ मैंदा मिले रहनेकी तरह—फास-ऐ।

„ माथेके शोथ रोगमें अज्ञानता और प्रलापके साथ परिमाणमें थोड़ा पर बार बार—**एपिस**।

पेशाब करनेके अन्तमें—कार्बो-वेज, काफि, रास-टक्स, सिपि।

„ प्रचुर (Copious)—**ऐसे-ऐ**, ऐकोन, इथू, ऐगा, **ऐलो**, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-म्यू, ऐन्थ्रा, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, ऐपो, **आर्ज-मेट**, **आर्ज-ना**, आर्स, अरम-ट्रि, **ऐस्पा**, अरम, अरम-म्यू, अरम-मिना, बैरा-कार्ब, बेल, बिस्मथ, कोवट, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, **कैना-इ**, कैन्थ, कार्वो-ऐनि, कास्टि, सिड्रो, कैमो, चेलिडो, चिमा, चायना, क्लोरे, सिमि, सिना, क्लिमे, काफि, कोलचि, कोलोसि, कोना, साइक्ला, डैफि, डिजि, इकुई, इयुपे-पर्प, फ्लू-ऐ, **जेल्स**,

रङ्ग, पीले रंगका—ऐम्ब्रा, डिजि ।

„ पीले-रंगका हलकी (Light yellow)—ऐगा, ऐलीज, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-क्रूड, आरम, बेल, कैना-से, कैमो, क्रोटन टिग, डैफि, हाइयो, लैके, नेट्रम-कार्ब, सिपि ।

रङ्ग, पीला घोर (Dark yellow)—इस्कि, आर्ज-नाई, आर्स, ब्रिङ्गो, चेलि, कोनायम, हिपर, कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, मैंगु ।

„ „ भूरापन लिये लाल (Brownish red)—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, चेलि, हिपर, लेक-ऐ, मार्क, पल्स, सल्फ ।

„ „ रक्तकी तरह (Bloody)—एपिस, बेल, आर्स, कार्बो-वेज, कैमो, क्रोटे-हौ, हेलि, हिपर, कैलि-आयोड, मार्क, रस-टक्स, सिपि ।

„ मैला (Dark)—ऐकोन, इस्कि, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्नि आर्स, बेल, बेंजो-ऐ, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, चेलि, चायना, कोलचि, क्रोटे-हौ, डिजि, इलैट, ड्रकुड्र, युपे-पर्प, हेलि, हिपर, हाइड्रो, हाइयो, इपिकाक, जैबो, कैलि-आई, लेपे, लैसा-ऐ, मेक-डि, लिलि टिग, लिथि कार्ब, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, मार्क-आ-रू, म्यू-ऐ, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, पोडो, लिलि-ट्रि, पल्स, रस-टक्स, सिके, सिलि, स्ट्रैफि, सल्फ, टैरि, थिरे, थि-थि ।

„ लाल (Red)—एकोन, इस्कि, ऐलि सि, ऐमुनि, ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्स नाई, आर्निका, बैप्टी, बेल, बार्ब, बोवि, ब्राइयो, केल्क, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज चेलि, कोमफि, कोपि, क्रोटे-हौर, डल्का, फेरम, हिपर, आइयो, कैलि बाई, कैलि कार्ब, मेज, मिज़ुरा, लिथि कार्ब, मार्क, म्यूर ऐ, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, पोडोफिलम, फ्लैण्टे, पल्स, रस टक्स, सार्सा, सिलि, सिपि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरि ।

फेन भरा (Frothy)—**ऐलि-सि**, एपिस, **चेलि**, चायना, **लैकि**, **लाइको**, नेट्रम-म्यूर, लैरि, फास, **सिलि**, **सेने**, **स्पञ्जि**।

रङ्ग—उतरा हुआ पीला (pale)—ऐगा, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐङ्ग, आर्जे-मेट, आर्नि, आर्स, ऐरम-ट्रि, बेल, बार्व, ब्राइयो, कैल्के-फ्लू, कैना-ड, कार्बो-वे, कोलो, कैमो, चेलि, चायना, क्लिमे, कोलचि, कोलोसि, **कोनायम**, हिपर, इग्ने, **कैलि-नाइ**, क्रियो, लैका-डि, लाइको, मैग-कार्ब, **मार्क-कोर**, म्यू-ऐ, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्र-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **फास-ऐ**, फास, प्लैम्बे, पल्स, रोडो, रास-टक्स, सार्सा, सिके, स्टैफि, स्ट्रेमो, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ „ ज्वरके समय—सिङ्को, कैमो।

„ काला—आर्स-हा, कैल्थ, **कार्बो-ऐ**, **कोलचि**, डिजि, हेलि, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लो, **लैके**, नेट्रम-म्यूर, पेरिरा, फास, **टेरि**।

„ „ कालिखकी तरह—कोलचि।

„ भूरा (Brown)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, **आर्नि**, **आर्स**, ऐसाफि, बेञ्जो-ऐ, **ब्राइयो**, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कार्ड-मे, **चेलि**, सिमेक्स, कोलचि, कोलोसि, कोनायम, डिजि, हेलि, हिपर, क्रियो, मैन्सि, **मार्क-कोर**, माइ, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिकि, सल्फ।

„ „ घोर (Deep brown)—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐम्ब्रा, आर्नि, आर्स, बैरा-कार्ब, कैल्के-कार्ब, कार्बो-ऐ, कास्टि, **चेलि**, कोलचि, डिजि, युपि-पर्प, ग्रैफा, लैके, लेपटा, लाइको, मार्क, ओपियम, प्लम्ब, पोडो, सोरि, सिके, **सिपि**, सल्फ।

„ „ ज्वरके समय—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, इपिकाक, लाइको नक्स वोम, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, **विरे**।

„ „ पीली आभा लिये—ऐम्ब्रा, डिजि।

„ „ बियरकी तरह (Like beer)—ऐम्ब्रा, बेञ्जो-ऐ, ब्राइयो, **चेलि**, कोलोसि, हाइपि, फास, पल्स, सल्फ।

„ „ लाल आभा लिये भूरा (Reddish brown)—ऐरिष्ट-मूड, बेल, **बेंजो-ऐ**, **चेलि**, डिजि, लाइको, फास, प्लम्ब, सिपि, विरे।

रक्ताक्त, पेशाबका अन्तिम अंश—ऐसिडम-टार्ट, कैन्थ, फेरम-फास, हिपर, लाइको, मेजे, पल्स, सार्सा, थूजा, जिङ्क।

रक्त, पेशाबके बाद मूत्रनालीसे निकलता है—हिपर मेजे, पल्स, सार्सा, सल्फ।

स्वाद मीठा (Sweetish taste)—आर्जे-मेट, कूप्रम, नेट्रम-म्यूर।

जननेन्द्रिय (GENITALIA)

पुरुष (MALE)

अर्बुद-कानडाइलोमेटा (Condylomata)—आर्जे ना, आरम म्यू, कैल्के, सिनेबा, फ्लू ऐ हिपर, लाइको, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, फास, फास-ऐ, सैबाइ, सार्सा, सिपि, स्टैफि, थूजा।

„ कैंसर कर्कट रोग (Cancer)—आर्स, बेले, कार्बो-ऐ, कोनी, फास, फाइटो, साइलि, स्पञ्जि, थूजा।

„ „ अण्डकोषमें—कार्बो-ऐनि फास-ऐ।

„ „ अण्डमें—स्पञ्जि।

„ „ गुच्छों भरा—लाइको, सोरि, सैबाइ, स्टैफि, थूजा।

„ „ दुर्गन्धभरा सड़े पनीरकी तरह—कैम्फ, हिपर, सैबाइ, थूजा।

„ „ और छूनेपर सहजमें ही खून बहने लगता है—सिनाब, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

„ „ रक्त स्राव होता है, सहजमें ही—कैल्के, सिनाबे हिपर नाइट्रि-ऐ, सल्फ, थूजा।

„ „ स्पर्श-असहिष्णु (छुआ न जाये [illegible])—स्टैफि।

„ „ अण्डकोषमें (Scrotum)—[illegible] थूजा।

„ „ लिङ्गमें (Penis)—अर्जे, कैल्के, सिनेबा, हिपर लाइको मार्क, [illegible], [illegible] नाइट्रि ऐ, [illegible] सिपि, स्टैफि.

रङ्ग, लाल गहरा (Deep red)—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, हिपर, मार्क, गास-रू, सल्फ-ऐ।

" " घोर (Dark red)—आर्ज-नाई, बैप्टी, वेञ्जो-ऐ, कार्बो-वेज, कोपि, क्रोटे-हो, कूप्रम, फेरम, हिपर, लोबे, लाइको, मार्क, पेरिरा, फास, प्लैम्बे, पल्स, रियुम, **सिपि**, स्का ई।

" " " ज्वरके समय—नक्स-वोम।

" सफेद (White)—ऐलि-सि, कास्टि, चेलि, चायना, कोलोसि, डाल्का, रास-टक्स, स्पञ्जि, सल्फ।

" " कुछ देर रहनेपर (On standing)—नाइट्रि-ऐ।

" " खड़िया मिट्टीकी तरह—मार्क, फास-ऐ, **फास**।

" हरा (Greenish)—आर्म, अरम, कैम्फ, कार्बो-ऐ, चेलि, चिमा, चायना, सिना, आइयो, कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, रियुम, फ्लोडो, रूटा, सल्फ, विरे।

" वर्णहीन (Colourless)—ऐगा, ऐल्नो, **कैना-ई**, कास्टि, कैमो, काफि, डिजि, **जेल्स**, क्रियो, म्यूरेक्स, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, फास, प्लैम्बे, सैगु, सार्सा, साइलि, सल्फ।

रक्ताक्त (रक्त मिला-bloody)—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, **एपिस**, **आर्ज-नाई**, **आर्नि**, **आर्स**, अरम, वेल, बार्ब, **कैक्ट**, **कैल्के**, कैम्फ, **कैना-सै**, **कैन्थ**, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, चिमा, कोलचि, कोना, कोपि, क्रोटे-हो, इरिञ्जि, **हैमा**, हिपर, **इपि**, कैलि-क्लो, क्रियो, लैके, लाइको, **मार्क**, मेजे, **मिलि**, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, **फास**, प्लम्ब, **पल्स**, रास-टक्स, सैबाडि, **सार्सा**, **सिकै**, सिलि, सिपि, **स्का ई**, सल्फ-ऐ, सल्फ, **टेरि**, जिङ्क।

" आमाशय रोगमें—कोपि, इपि, मार्क-कोर।

" ऋतु रुककर—लोरोसि, लाइको, मेजे, मिलि, नक्स-वोम।

" " स्राव या अर्श-स्राव एकाएक रुककर—नक्स-वोम।

" थका थका (Clot)—ऐलू, एपिस, आर्स, कैक्ट, कैन्थ, चिमा, इपि, लाइको, फास-ऐ, प्लैटि।

कामेच्छा, दमनसे उत्पन्न रोग (Complaints from suppression of)—
बार्बे, कैम्फ, कार्बोनि-म, कोना, हेलि, लिलि-टिग, फास-ए, पल्स।

" नींदके बाद—ऐगा।

" वृद्धि (Sexual passion increased)—ऐगा, ऐलि-सि, ऐमोन-कार्ब, ऐना, ऐनान्थि, ऐरिट-म्यू्ड, आरम, बेरा-म्यू, ब्यू्फो,-प्रोएको, केल्के-फास, कैम्फ, कैना-इ, कैना-से, कैन्थ, कैस्टो, चायना, सिनाबे, काफि, काक, कोना, क्रोकस, डाय, फेरम, फ्लू-ए, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि बा, लैक-कै, लैके, लोरोसि, लाइको, लिलिन, मार्क, मेजे, मस्क, नेट्रम-स, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नेट्र-सल्फ, नाइट्रि-ए, नक्स, वोम, ओपियम, फास, फास-ए, पिक्रि-ए, प्लेटि, प्लम्ब, पल्स, सेबा, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरे, थूजा, टियु, विरे।

" " काम प्रवृत्ति पूरी करनेकी यथा साध्य चेष्टा करता है, चलतेमें हस्तमैथुन कर डालता है और पागलकी तरह हो जाता है—ऐनान्थि।

" " पक्षाघात सम्बन्धी रोगमें (Paralytic disease)—नाइजि।

" " वृद्ध मनुष्योंमें—फ्लू ए, स्टैफि, सल्फ।

" भयानक—ऐगा, ऐनान्थि, ब्यूफो, कैना-इ, कैन्थ, फ्लू ए, ग्रैफा, कैलि बा, लिलिन, नेट्र मा, फास, पिक्रि-ए, प्लैटि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ टेरे, टियुयर, जिङ्क।

" निवृत्तिमें शून्य—ऐग्न ऐमोन कार्ब ऐनाकार्डि, आर्जे मेट, आर्जे ना, आरम, कैनेबि, कैल्के, कैम्फर, चायना, कोना, हिप्रि, ग्रैफा, लाइको, नेट्रम म्यू, फास सल्फ ए, सल्फ रोस, सल्फ, फास ए, कोरि, सिलि, नाइजि, स्टैफि सल्फ।

" अल्प (Diminished)—ऐग्न, ऐनाकि, बेरा-कार्ब, हिपि, हिपर, इग्ने, कैलि कार्ब कैलि कार्ब, कैलि

अर्बुद-कानडाइलोमिटा, केन्सर लिङ्गमें खुजलाता है—सैबाईं।

" " " जलन भरा—एपिस, सिनाबे, **नाइट्रि-ऐ**, फास-ऐ, थूजा।

" " दर्दके साथ (Soreness)—युफ्रे, **नाइट्रि-ऐ**, फास, सैबाईं, थूजा।

" " " इसके साथ ही खुजली—सोरि, सैबा।

" " " रस निकलता है—सिनाबे, लाइको, **नाइट्रि-ऐ**, सल्फ, थूजा।

" " " सुपारी जैसा कड़ा लिङ्गकी पीठ पर—**सैबा**।

" " लिङ्ग मुण्डमें (Glans)—ऐण्टिम-टार्ट, अरम, अरम-म्यू, सिनेबा, कैलि-क्लो, कैलि, लेक-कै, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सैबा, सिपि, स्टैफि, सल्फ, **थूजा**।

" " लिङ्गाग्रत्वचामें (Prepuce)—अरम, अरम-म्यू, **सिनेबा**, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सोरि, सैबा, **थूजा**।

" " " फ्रिनम (Frœnum)—**सिनेबा**।

उत्तेजना (Excitement)—"कामेच्छा प्रबल" देखिये।

कामेच्छा अत्यन्त प्रबल (Excessive)—ऐगा, ऐलूमि, कैल्के, केना-इ, डाइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फास, प्लैटि, प्लम्ब, साइलि, **स्ट्रैमो**, टैरे, टियुबर, **जिङ्क**।

" की वजहसे उत्पन्न रोग (Complaints from)—**लिलिन**।

" अभाव (Wanting)—**ऐग्नस**, आर्जे-नाइ, **बार्बे**, कैम्फ, कैपि, **कार्बोनि-स**, कार्बो-वेज, ग्रैफा, हेलि, इग्ने, आइयो, **कैलि-बा**, - कैलि-क्लो, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, लियुफ, ओनस, फास-ऐ, प्लम्ब, सोरि, सल्फ, थूजा।

" " थुलथुले मोटे मनुष्योंका—कैलि-बा।

" उत्तेजित होती है थोड़ेमें ही (Excitement easy)—ग्रैफा, लाइको, नक्स, **फास**, पिक्रि-ऐ, प्लम्ब, जिङ्क।

" " मूत्राशय मुखशायी ग्रन्थिके स्रावके साथ—नाइट्रि-ऐ।

खुजली, घूमनेसे—क्रोटन-टिग।

„ लिङ्गमें—ऐण्टिम-क्रूड, **कास्टि**, क्रोटन-टिग, हिपर, इग्ने, मेजे, नेट्रम-स, **प्लैटि**, सल्फ।

„ लिङ्ग-मुण्डमें—ऐम्ब्रा, आर्स, बेञ्जो-ऐ, बेलिडो, सिनेबा, क्रोटन टि, कैलि-बाइ, मेजे, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि ऐ**, नक्स वोम, सोरि, साइलि, **सल्फ**, थूजा।

„ लिङ्गाग्रत्वचामें (Prepuce)—कास्टि, कोमो, **सिनेबा**, **कोना**, हिपर, **इग्ने**, लाइको, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**, **पेट्रो**, पल्स, **रास-टक्स**, सिपि, साइलि, सल्फ थूजा, वायो-ट्रि।

„ „ भीतर (Under side)—**लाइको**, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, पल्स, **रास-टक्स**, थूजा।

गरमी मालूम होना (Heat)—कैन्थ, कार्बोनि-श्व, डाम्ना, सिफा, प्रूनस्पा, स्पञ्जि, सल्फ-ऐ, सम्बल।

„ अण्डकोषमें—बेलिडो, फास-ऐ, पल्स स्पञ्जि, सल्फ-ऐ।

„ अण्डमें—ऐकोन हैमा, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, रोमिसा, पल्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सम्बल।

„ कोष-रज्जुमें (Spermatic cord)—बैर्नि कार्ब स्पञ्जि।

„ लिङ्गमें—आर्स, बेल, कैन्थ, मेजे, फास, प्लैटि, रास ट, सिपि, स्पञ्जि।

„ „ मुण्डमें—**मार्क कोर**।

„ „ लिङ्गाग्रत्वचामें (Prepuce)—कैना से, मार्क, प्लैटि सि।

गुटिका (Tubercles)—आइग्री, थूजा।

„ अण्डमें—आर्ज मे कालि, ग्रैफा, हिपर, **आइयो**, मार्क, नाइट्रि ऐ, पेट्रो फास ऐ, सोरि **पल्स**, **साइलि**, **स्पञ्जि**, स्टेफि, **सल्फ**, **टियुब**, जिङ्क।

„ कोष रज्जुमें—बेरा आइयो हैमि-आर्स मार्क, नाइ ऐ, फास पल्स, **साइलि**, स्पञ्जि, सल्फ थूजा।

„ लिङ्गमें—थूजा।

„ „ मुण्डमें—डिपोडि।

फास, **लाइको**, मैग-फास, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, व्य फो, फास-ऐ, सोरि, ऋोडो, सिपि, **साइलि, स्टैफि,** सल्फ।

कामोन्मत्तता—"मन" देखिये।

केश उड जाना—**नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, जिङ्क।

खिंचाव (Tension) कोषरज्जु में—क्लिमे, फास, फास-ऐ, पल्स, सल्फ।

खुजली (Itching)—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐङ्गा, **कैल्के,** कार्बो-वेज, चेलिडो, युपे-पर्प, ग्रेफा, इग्ने, आइरि-वार्स, कैलि-बाई, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, **प्लैटि,** पोडो, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, सल्फ।

" कामोद्दीपक (Voluptuous)—वार्बे, **प्लैटि।**

" जलनभरी—**कैल्के,** कार्बो-ऐ।

" वीर्यस्खलनके बाद सब स्थानमें, खासकर जननेन्द्रियमें—फास-ऐ।

" घटना-गर्म प्रयोगसे—रास-वेन।

" अण्डकोषमें—ऐम्ब्रा, एपिस, अरम-ट्रि, अरम, कैल्के, कैल्के-फास, **कार्बोनि-स, कास्टि,** चेलिडो, सिस्टे, काकि, **क्रोटन-टिग,** ग्रेफा, कैलि-कार्ब, कैलि-फ्लो, कैलि-स, लाइको, मैग-म्यूर, मैङ्ग, मार्क, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ,** म्यूफ, नक्स वोम, पेट्रो, पल्स, ऋोडो, रास-टक्स, सार्सा, सिलि, साइलि, स्टैफि, **सल्फ,** थूजा, आर्टि, वायो-ट्रि, जिङ्क।

" " कामोद्दीपक (Voluptuous)—ऐम्ब्रा, ऐना, क्रोटन-टिग, स्टैफि।

" " दोनो उरुके बीचमें—कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो।

" " बहुत ज्यादा मात्रामें शुक्रक्षय होने बाद (After sexual excesses)—**स्टैफि।**

" " **घटना**-मलनेसे—मैग-म्यूर, रास-वे, स्टैफि।

" " **बढना**-खरोंचने या खुजलानेपर—रास-वे।

" गर्मीसे—रास-वे।

चर्मोद्भेद, अण्डकोषमें दादकी तरह (Herpectic)—कैल्के, क्रोटन-टिग, डाल्का, ग्रेफा, पेट्रो।

" " " दोनों उरुओंके बीचमें—युपे-पर्प, नेट्रम-म्यूर।

" " फट फटा (Rhagadas)—पेट्रो।

" " फुन्सियाँ (Pimples)—कैल्के-फास, कैलि-ब्रा, सार्सा, थूजा।

" " भींजा (Moist)—ग्रेफा, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, रास-टक्स, थूजा।

" " पपड़ी जमती है (Scaly)—कैलेडि।

" केश भरे स्थानमें (Hairy parts)—मेर्क।

" लिङ्गमें (Penis)—क्रोटन-टिग, ग्रेफा, पेट्रो, फास-ऐ, रास टक्स, सिपि।

" " पपड़ी जमना—कैलि-बाई, नाई-ऐ।

" " पीब भरे दाने (Pustules)—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स-ई।

" " फुन्सियाँ (Pimples)—ऐना, बैल, मेर्क, नाई-ऐ, फास ऐ, सल्फ।

" " रस-भरे दाने (Vesicles)—कैल्के, कान्थि, क्रोटन टिग, ग्रेफा, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, रास-टक्स, रास भे, सिपि।

" " " खुजलानेवाले—हिपर, नाइट्रि-ऐ।

" " " अगम हो जाता है—मार्क, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

" लिङ्गमुण्डमें (Glans)—आर्ज ना, आरम, कार्बो वेज सिनेबा, कैलि-बाई, मेर्क, लाइको, मार्क, नाइट्रि ऐ पेट्रो फास ऐ, रास टक्स।

" लिङ्गाच्छदनमें (Prepuce)—आर्स हो, कैल्के, कान्थि, ग्रेफा, मार्क नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, रास टक्स, थूजा।

" " दादकी तरह (Herpetic)—डाल्का ग्रेफा हिपर, मार्क, नेट्रम म्यूर नाइट्रि ऐ, पेट्रो, फास ऐ, सार्स, सिपि थूजा।

गैंग्रीन (सडन-Gangrene)—आर्स, कैन्थ, क्रोटे-हो, कैलि-आई, लोरो।

„ अण्डकोषमें—फ्लू-ऐ।

„ लिङ्गमें—आर्स, कैन्थ, कैलि-आई, लोरो, क्रियो, **लेके**।

चमडी वढना-अग्रत्वकका वढना (Smegma increased)—कैन्थ, **कास्टि**, सैंगु, सल्फ।

चर्मोद्भेद (Eruption)—डाल्का, ग्रैफा, हिपर, लैके, मार्क, नाइट्रि-ऐ, **पेट्रो, रास-टक्स, रास-वे**, सिपि।

„ उपदंशसे उत्पन्न—आर्स-ऐ, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**।

„ एकज़िमा (Eczema)—क्रोटन, लाइको, थूजा।

„ खुजलाहट भरा—नाइट्रि-ऐ, **पेट्रो, रास-टक्स**, सिपि, साइलि, चिलि।

„ घमौरीकी तरह (Miliary)—**रास-रु**, रास-टक्स, सार्सा, साइलि।

„ दादकी तरह (Herpectic)—क्रोटन, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, **पेट्रो**, सिपि, टेलू।

„ „ दोनो उरूमें—नेट्रम-म्यूर, पेट्रो।

„ पीव भरे दाने (pustules)—ऐण्टिम-टार्ट, पोडो।

„ फुन्सियां (pimples)—ऐब्रु।, कैलेडि, ग्रैफा, लैके, साइलि, टिलि।

„ भीजे (Moist)—कार्बो-वेज, **ग्रैफा, हिपर**, मार्क, पेट्रो, **रास-टक्स**, सार्सा सिपि, साइलि।

„ रस भरे दाने—**क्रोटन-टिग**, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, रास-वे**।

„ अण्डकोषमें—आर्स-आ, कैलेडि, क्रोटन-टिग, **ग्रैफा, हिपर, पेट्रो, रास-टक्स, रास-वे**।

„ „ एकज़िमा (Eczoma)—क्रोटन-टिग।

„ „ खुजली—कैलेडि, क्रोटन-टिग, **ग्रैफा, पेट्रो**, रास-टक्स।

„ „ छाल उठना (Disquamation)—आर्स, क्रोटन-टिग, रास-वे।

चर्मोद्भेद, अण्डकोषमें दादकी तरह (Herpectic)—कैल्के, क्रोटन-टिग, डाल्का, ग्रैफा, पेट्रो।
" " " दोनों उरुओंके बीचमें—सुपे-पर्प, नेट्रम-म्यूर।
" " फट फटा (Rhagadas)—पेट्रो।
" " फुन्सियाँ (Pimples)—कैल्के-फास, कैलि-बा, सार्सा, थूजा।
" " भींजा (Moist)—ग्रैफा, नेट्रम-म्युर, पेट्रो, रास-टक्स, थूजा।
" " पपड़ी जमती है (Scaly)—कैलेडि।
" केश भरे स्थानमें (Hairy parts)—लैके।
" लिङ्गमें (Penis)—क्रोटन-टिग, ग्रैफा, पेट्रो, फास ऐ, रास टक्स, सिपि।
" " पपड़ी जमना—कैलि-बाई, नाई-ऐ।
" " पीब भरे दाने (Pustules)—ऐण्टिम-टार्ट, थार्स-हो।
" " फुन्सियाँ (Pimples)—ऐना, बेल, लैके, नाई-ऐ, फास-ऐ, सल्फ।
" " रस-भरे दाने (Vesicles)—कैल्के, कास्टि, क्रोटन टिग, ग्रैफा, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, रास-टक्स, रास वे, सिपि।
" " " खुजलानेवाले—हिपर, नाइट्रि-ऐ।
" " " जख्म हो जाता है—मार्क, नाइट्रि-ऐ, थूजा।
" लिङ्गमुण्डमें (Glans)—आर्ज ना आरम, कार्बो वेज, सिनेबा, कैलि-बाई, मेर्क, मार्क-को, मार्कु, नाइट्रि ऐ, पेट्रो फास ऐ रास टक्स।
" लिङ्गावरणमें (Prepuce)—आर्ज हो, कैल्के, कालि, ग्रैफा, मार्क नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, रास टक्स थूजा।
" " दादकी तरह (Herpetic)—डाल्का ग्रैफा, हिपर, मार्क, नेट्रम कार्ब मार्क-ऐ, पेट्रो फास ऐ सार्सा सिपि, थूजा।

गैंग्रीन (सड़न-Gangrene)—आर्स, कैन्थ, क्रोटे-हो, कैलि-आई, लौरो।

„ अण्डकोषमें—फ्लू-ऐ।

„ लिङ्गमें—आर्स, कैन्थ, कैलि-आई, लौरो, क्रियो, **लैके**।

चमड़ी बढ़ना-अग्रत्वकका बढ़ना (Smegma increased)—कैन्थ, **कास्टि**, सैंगु, सल्फ।

चर्मोद्भेद (Eruption)—डाल्का, ग्रैफा, हिपर, लके, मार्क, नाइट्रि-ऐ, **पेट्रो, रास-टक्स, रास-वे**, सिपि।

„ उपदंशसे उत्पन्न—आर्स-ऐ, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**।

„ एकज़िमा (Eczema)—क्रोटन, लाइको, थूजा।

„ खुजलाहट भरा—नाइट्रि-ऐ, **पेट्रो, रास-टक्स**, सिपि, साइलि, चिलि।

„ घमौरीकी तरह (Miliary)—**रास-रू**, रास-टक्स, सार्सा, साइलि।

„ दादकी तरह (Herpectic)—क्रोटन, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, **पेट्रो**, सिपि, टेलू।

„ „ दोनों उरूमें—नेट्रम-म्यूर, पेट्रो।

„ पीव भरे दाने (pustules)—ऐण्टिम-टार्ट, पोडो।

„ फुन्सियां (pimples)—ऐग्ब्रा, कैलेडि, ग्रैफा, लैके, साइलि, टिलि।

„ भींजे (Moist)—कार्बो-वेज, **ग्रैफा, हिपर**, मार्क, पेट्रो, **रास-टक्स**, सार्सा सिपि, साइलि।

„ रस भरे दाने—**क्रोटन-टिग**, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, रास-वे**।

„ अण्डकोषमें—आर्स आ, कैलेडि, क्रोटन-टिग, **ग्रैफा, हिपर, पेट्रो, रास-टक्स, रास-वे**।

„ „ एकज़िमा (Eczema)—क्रोटन-टिग।

„ „ खुजली—कैलेडि, क्रोटन-टिग, **ग्रैफा, पेट्रो**, रास-टक्स।

„ „ छाल उठना (Disquamation)—आर्स, क्रोटन-टिग, रास-वे।

जखम, लिङ्गमें कड़ी तलीवाला (Hard base)—अरम, **सिनेबा**, कुल्ले-हि, **मार्क**।

„ „ खुजलानेवाला—मार्क, आर्स, सल्फ।

„ „ दर्द भरा—कोरा-रू, साइलि।

„ „ दुर्गन्ध युक्त (Offensive)—हिपर, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**।

„ „ रक्त निकलनेवाला (Bleeding)—हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, स्टैफि।

„ लिङ्ग-मुण्डमें (Glans)—आर्स-हो, अरम-म्यू-ना, सिनेबा, कैलि-के मार्क, **मार्क-को**, नाइट्रि-ऐ, सोरि, सल्फ, सिफि, थूजा।

„ „ फ्रिम नष्ट होनेका उपक्रम (Frenum destroying)—, नाइट्रि-ऐ।

„ लिङ्गावत्वचामें (Prepuce)—आर्जे ना, आर्स-हो, **अरम-ट्रा**, सिनेबा, कोरा-रू, हिपर, मार्क, **मार्क-कोर**, नाइ-ऐ, फास, सिपि, सल्फ, थूजा।

जल-सञ्चय अण्डकोषमें (Hydrocele)—"हाइड्रोसील" देखिये।

जूँ पड़ना—सैबाडि, स्टैफि।

झूल पड़ना—दोनों अण्ड (Hanging down, testes flaccidity)—**ऐग्नस**, कैलेडि, डाय, जेल्स।

„ „ लिङ्ग—**ऐग्नस**, बेरा कार्ब, कैलेडि, कैना-इ **लाइको**, म्यू-ऐ, नक्स म, नक्स वोम।

टपक जैसा दर्द (Pulsation) अण्डकोषमें—हिपर, नेट्रम कार्ब।

„ कोषरज्जुमें—प्लैटि म्यू र, मस्काम।

„ मैथुनके बाद—नेट्रम कार्ब।

„ लिङ्गमें—बार्ब, कोपे, ईग्ना, नाइट्रि-ऐ, थीडी।

„ लिङ्गमुण्डमें—कष, थीडी।

ठण्डक (Coldness)—**ऐग्नस**, डाय जेल्स, फाइटि बार्ब सल्फ।

„ अण्डकोषमें—कार्ब वेजि, मार्क।

„ अण्ड—**ऐग्नस**, कार्ब, कैम मार्क।

„ लिङ्ग—**ऐग्न**, लाइक

छाल उधड़ना (Excoriation)—कैमो, **हिपर**, पोडो, फ्लोडो, सल्फ।
" " अण्डकोषमें—**आर्स**, कोल्कि-फास, **हिपर**, फास-ऐ, **सल्फ**।
" " " और उन दोनोंके बीचमें—बैरा-कार्ब, कास्टि, ग्रेफा, हिपर, **लाइको**, मार्क, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम-म्यूर, **पेट्रो**, रास-टक्स, सल्फ।
" " लिङ्गमें—कोपे, कैलि-आयोड, **नाइट्रि-ऐ**।
" " " मुण्डमें—**मार्क**, नेट्रम-का, नेट्रम-म्यूर, नाई-ऐ, सल्फ, **थूजा**।
" " " " अग्रत्वचामें—ऐनाग्थि, इग्ने, नाइट्रि-ऐ, सोरि, सिपि, थूजा।
जखम (Ulcer)—आर्स, कूप्र-आ, लैके, मार्क, फाइटो, थूजा।
" गहरा—मार्क।
" जलन भरा—**आर्स**।
" फैलनेवाला (Spreading)—**आर्स**, **मार्क-कोर**।
" बाघीमें नश्तर लगाने बाद पुट्ठेमें—कार्बो-ऐनि, चेलि।
" अण्डकोषमें (Scrotum)—अरम-म्यूर, कैलि-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सिपि।
" लिङ्गमें (penis)—ऐनाग्थि, एपिस, आर्स, सिनेबा, हिपर, कैलि-बा, **मार्क**, **मार्क-को**, मार्क-आ-फ्ले, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फाइटो, सोरि, थूजा।
" " उपदंशसे उत्पन्न (Chancres)—ऐपि, आर्स, **अरम-मूर**, अरम-म्य-नै, **सिनेबा**, हिपर, कैलि-बा, लैक-कै, लैके, **मार्क**, **मार्क को**, मार्क-आ-फ्ले, **नाइट्रि-ऐ**, फाइटो, स्टैफि, सल्फ, थूजा।
" " ऊँचे किनारेवाला (Elevated margin)—आर्स, **लाइको**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।
" " " जलन भरा—आर्स-मे।
" " गहरा (Deep)—कैलि-बा, कैलि-आ, मार्क, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

दर्द, कोषरज्जु में, दाहिने—क्लिमे, सिमि, एकि, मार्फि, आक्ज़ा-ऐ।

" " बाएँ—कौक्लो, नेट्रम-फास, झस्व।

" " खाँसनेके समय—नेट्रम-म्यूर।

" " पेशाब करते समय—एपि, वेल, कैन्थ, क्लिमे, पोलिपो, स्टान्नि।

" " लिङ्गोद्रेकके बाद बिना सङ्गमके—मैग-म्यूर, नक्स म, सार्सा।

" " सङ्गमके बाद—ऐरण्ड, थेरि।

" " स्वप्नदोषके बाद—नेट्रम-फास।

" " **बढ़ना**-हिलने डोलनेपर—आक्ज़ा-ऐ।

" लिङ्गमें—आर्स, कैन्थ, चेलिडो, डिजि, इग्ने, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लिथि-का, मार्क, मेजे, नेट्रम कार्ब, फोस्फि, फास, झस्व, प्रून-स्पा, रास-टक्स, रास-वे, सैबाडि, स्ट्रिक्नि, टैरे, थूजा।

" लिंगमुण्डमें—कैन्थ, चेलि, कोपे, फेरम फास, **पेरिरा**।

" " पेशाब करनेमें वेग देनेपर—ऐरानि, भरस, फेरम-फास, पेरिरा, थूजा।

" " पेशाब करनेके पहले—कैन्थ।

" " " करते समय—ऐको, ऐक्टि-स्पा, ऐना, कैन्थ, आक्ज़ा ऐ, प्रून-स्पा।

" " " करने बाद—ऐना, पल्स।

" लिंगाग्रत्वचामें—कैलेडि, कोरा-रू, गाइको, लाइको फोस्फि, रास टक्स, मेज़ार्ड, थिरि।

" लिंगाग्रभागमें (Tip)—कैम्फ, ड्रिपो, म्यूको, फोस्फि, फास, थोरि।

" ऐंठन (Cramping)—ऐम्ब, ऐमोम कार्ब, कैप्सि, कोका, इग्ने, लाइको, नक्स मोस, पैट्रो, झस्व, स्टैफि।

" " लिंगोत्थानके बाद—कोका।

" " स्वप्नदोषके बाद—कैप्सि।

" " कोषरज्जुमें—आर्ज मे, कैलि कार्ब, **नक्स-मोस**।

" काटता है, मानो (Cutting-दर्दमें)—आर्स, बेल, कार्ब, कोला, लाइको, फास ऐ सिलि, टेरि।

" " कोषरज्जुमें—[illegible] कार्ब।

ठण्डक, लिङ्ग मुण्डमें—अरम, सल्फ।

" " अग्रत्वचामें—वार्बे, सल्फ, जिङ्क।

दर्द-अण्डमें—**आर्ज-मे,** आर्नि, **अरम,** बेल, वार्बे, कैल्के, कास्टि, **क्लिमे,** कोलोसि, कोना, हैमा, आइयो, लिथि-कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यूर, प्लम्ब, **पल्स, फ्रोडो, स्टैफि।**

" " दाहिने—आर्ज-मे, कास्टि, **फ्रोडो।**

" " घटना—पेशाब करनेके बाद—कोब्रा।

" " बाईं ओर—ऐलूमि, कोना, डाय, कैलि-ब्रो, नेट्र-का, स्टैफि, विरे-वि।

" " कामोत्तेजनाकी वजहसे—आइयो, स्टैफि।

" " कामोत्तेजनाके बाद या बहुत ज्यादा कामेच्छा दमनकी वजहसे—आइयो, कैलि-ना, स्टैफि।

" " खाँसनेपर—ऐमो-का, नेट्रम-म्यूर, ओस्मि, जिङ्क।

" " घूमनेपर—**आर्ज-मे,** लाइको, स्टैफि, थूजा।

" " जोरसे पैर फेंकनेपर—कोल्चि, कोलोसि।

" " बैठे रहनेपर—**पल्स,** फ्रोडो।

" " भ्रमणके समय—स्टैफि, सम्बाल, थूजा।

" " सोरा दोषके बाद—मैग-म्यूर, आकजा-ऐ, सल्फि, स्टैफि।

" " स्पर्श करनेपर—ऐलूमि, मैग-म्यूर, सल्फि, स्टैफि।

" " स्वप्न दोषके बाद—फास-ऐ।

" " **घटना**-हिलने डोलनेपर—आर्ज-मे, कार्बोनि-स, फ्रोडो।

" " **बढ़ना**-खड़े होनेपर—फ्रोडो।

" " " हिलने डोलनेपर—ऐसाफि, वार्बे, मैग-म्यूर, आकजा-ऐ।

" " " वस्त्रके दबावसे—**आर्ज-मे।**

" " " शराब पीने पर—थूजा।

" " " सोनेपर—साइलि।

" कोपरज्जुमें—वार्बे, कैल्के, क्लिमे, **हैमा,** मार्क, ओलि-ऐ, आकजा-ऐ, फास, फाइटो, पल्स, सार्सा, सल्फि, थूजा।

दर्द, कुटकुटाना (Aching-अण्डमें)—**अरम**, कैल्के, कास्टि, नेट्रम-म्यू र, पल्स, स्टैफि, थूजा।

" " अण्डमें—**अरम**, कैल्के, कास्टि, नेट्रम मूर, पल्स, स्टैफि।

" " " कामोत्तेजनासे उत्पन्न—आइयो, स्टैफि।

" " " भ्रमणके समय—स्टैफि, सम्बाल, थूजा।

" " " स्वप्नदोषके बाद—फास-ऐ।

" " कोषरज्जु में—ऐलि-सिपा, चेलिडो, क्लिमे, मैंगु, नक्स-वोम, सार्सा।

" " " लिङ्गोद्रेकके बाद, बिना सङ्गमके—मैंग-मूरर, नक्स-म, सार्सा।

" खिंचावकी तरह (Drawing) अण्डमें—ऐको, **अरम**, अरम-मूर, चेलिडो, चायना, क्लिमे, काकि, हैमा, मार्कु, नेट्र-कार्ब, नक्स-वोम, **फ्लोडो**, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" खींचन (Dragging) अण्डमें—कैना-मै, जैल्स, आइयो, कैलि कार्ब, लैके, मैडो।

" " स्वप्नदोषके बाद—फास ऐ।

" " कोषरज्जु में—बार्ब, चिनि-स, आइयो, सार्सा, सिफि, स्पञ्जि।

" " " दाहिने—ऐको, **अरम**, आइयो, **फ्लोडो**।

" " " बाएँ—कैलि कार्ब, फ्लोडो, थूजा।

" " " फैलता है उस देशमें—फ्लोडो, सिपि।

" " " " कोषरज्जु में—बार्ब, आइयो, क्लिमे, जिङ्क।

" " **घटना**-हिलने डोलनेपर—फ्लोडो।

" " " भ्रमणमें—थूजा।

" " **बढना**-पेशाब करनेके समय—कास्टि।

" " कोषरज्जु में—एपि, ऐलि सि, बार्ब, चेलिडो, क्लिमे, हैमा इग्नि, मिङ्के, मार्क, ऑक्जालि ऐ, पाल्सा ऐ स्पाञ्ज, रोडि, सल्फ, जिङ्क।

" " टहलनेके समय—बार्ब, क्लीमैटि।

" " पेशाब करनेके समय—एपि, इग्न, पैल्स, चेलि, क्लि।

" " फैलता है अण्डमें—बार्ब मस्क सार्स पल्स, टिबु।

दर्द, काटता है, लिंगमें—ऐलू, ऐना, कोना, क्रोटे-होर, लाइको, सिपिया, ओलियै, फास-ऐ।
" " लिङ्ग-मुण्डमें—कोना, लाइको।
" " संगमके समय—केलि-आयो।
" काँटा गड़नेकी तरह (Pricking)—नाइट्रि-ऐ।
" कुचलने जैसा दर्द (Sore, bruised)—आर्नि, आर्स, फास, प्लेटि, सल्फ।
" " अण्डकोषमें—ऐमोन-कार्ब, ऐना, बार्ब, कैल्के-फास, कैल्के-कार्ब, फास-ऐ, जिङ्क।
" " " और उरुमें—बेरा-कार्ब, **ग्रेफा, लाइको**, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **पेट्रो**, फ्लोडो, रास-टक्स, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।
" " अण्डमें—ऐको, **आर्जे-मे**, आर्जेण्ट-नाइ, अरम, कास्टि, क्लिमे, कॉकि, डिजि, हैमा, मार्क, नेट्रम-ऐ, **नाइट्रि-ऐ**, पेलि, फास, फास-ऐ, **पल्स, फ्लोडो, स्पञ्जि**।
" " " दाहिने—**आर्जे-मे, अरम**, कास्टि, फ्लोडो।
" " " बाएँ—आर्जेण्ट-मे, कैल्के-कार्ब, नेट्रम-ऐ, नाइट्रि-ऐ, सेबाडि, थूजा।
" " " फैलता है, कोषरज्जुके सहारे ऊपरकी ओर (Extending up spermatic cord)—इकुई, पोलिगो, पल्स, **फ्लोडो**।
" " " बैठे रहनेपर—**पल्स**।
" " " टहलते रहनेपर—**आर्जेण्ट-मे**, क्लिमे, स्टैफि, थूजा।
" " कोषरज्जुमें—**क्लिमे**, इकुई, **फाइटो**, सार्सा।
" " लिङ्गमें—कैना-सै, इग्ने, सल्फ, थूजा।
" " लिङ्ग-मुण्डमें—ऐसार, कैप्सि, चेलिडो, सिकि, साइक्ला, मार्क, नेट्रम-कार्ब, रास-टक्स, थूजा।
" " पेशाब करनेके समय—लाइको, नाइट्रि-ऐ।

दर्द, जलन, लिङ्गमुण्डमें अग्रत्वचामें, सगमके वाद—लाइको ।

" दवानेकी तरह (Pressing)—ऐलूमि, ऐसाफि, बेञ्जो-ऐ, कोनि कार्ब, मैग-मूरर, मार्क, प्लेटि ।

" नीचेकी ओर (Downwards)—वैन, सिनेवा लिनि-टिग, प्लेटि ।

" " अण्डमें—अरम, वार्ब, बिस्म, कैना-सै, कास्टि, कोना, पल्स, फ्रोडो, साइलि, स्टैफि, सल्फ ।

" " " दाहिने—अरम, स्टैफि ।

" " " बायें—सैवाडि, जिङ्क ।

" " " खड़े रहनेपर—कैना-सै, पल्स ।

" " " द्रुत भ्रमणसे—फास-ऐ, स्टैफि ।

" " " " स्पर्शसे—फास-ऐ ।

" " कोपरज्जुमें—वार्ब, क्लिमे, पल्स, सल्फ ।

" " " नीचेकी ओर—आइयो, नक्स-म ।

" पीसनेकी तरह मानो पीसे डालता है (Crushing)—आर्ज-मे, कास्टि, फ्रोडो ।

" फाड़नेकी तरह (Tearing) अण्डमें—अरम-ट्रि, चाय, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, पल्स, फ्रोडो ।

" " कोपरज्जुमें—आर्ज-मेट, वार्ब, बेल्के, कोनचि, आइयो, मार्क्यू-ऐ, नक्स वोम, आक्जा-ऐ, पल्स, स्टैफि ।

" " टहलनेके समय—वार्ब ।

" " लिङ्गमें—अरम, कोम्चि, कोलोसि, कोनायम, कैलि कार्ब मार्क, मेजे, फास ऐ, टैरे ।

" " लिङ्गमुण्डमें—सिनेवा, कोम्चि, कैलि कार्ब, मार्को, थैरि ।

" " " पेशाब करनेके समय—थैरि, मार्का ।

" सङ्कोचनका भाव (Constriction) अण्डमें—आगना, नक्स वोम, प्लम्ब ।

" " कोपरज्जुमें—ऐलूमि वार्ब, बेल्डे, नक्स-वोम ।

" सुई बेधनेकी तरह—अण्डमें—बेरा-म्यूर, ब्रम, वार्ब आइयो, कास्टि, थैरा, मार्क्यो पी मार्क, नक्स वोम, पल्स, फ्रोडो, स्टैफि, सल्फ ।

दर्द, खींचन फैलता है लिङ्गमें—कैन्थ, कैलि-कार्ब, लैकिट-ऐ, ओलि-ऐ, पल्स, कैना-स, फ्लोडो, टियु, जिङ्क।
” ” ” लिंगमुण्डमें—ऐसाफि, सिकि, आइयो, कैलि-कार्ब, लैकि, लाइको।
” चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching) अण्डमें—क्लिमे, कैलि-का, नेट्रम-म्यूर, सिपि, स्पञ्जि।
” जलन (Burning)—ऐना, कैल्के, कैना-से, कैन्थ, कार्बो-ऐ, जैफा, क्रियो, मैग-म्यूर, मून-स्पा, पल्स, रास-टक्स।
” ” पेशाब करनेके समय—आर्ज-ना, कैप्सि, कार्बोनि-स, क्लिमे, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, पेट्रो, सोरि, सल्फ-ऐ, टैरा, टैरे, थूजा।
” ” ” बाद—ऐलूमि, आर्ज-मे, कैलि-कार्ब, कास्टि।
” ” अण्डकोषमें—आर्स, कैल्के, कैना-इ, कोप्रि, लैके, मेजे, रास-बे, साइलि, स्पञ्जि।
” ” ” खुजलानेके बाद—नेट्रम-सल्फ।
” ” अण्डमें—एपि, बेरा-कार्ब, बार्बे, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, प्लेटि, पल्स, स्टैफि, टेरि।
“ ” कोषरज्जुमें—ऐम्ब्रा, बार्बे, कार्बो-नि-स, क्लिमे, मैंगो।
” ” ” टहलनेके समय—बार्बे।
” ” लिंगमें—ऐलि-सि, आर्स, कैना-इ, कैन्थ, कास्टि, चाय, काक्लि, मार्क, रास-बे, सल्फ, वायो-ट्रि।
” ” ” लिंगोच्छ्रासके समय—मैग-मूर।
” ” लिंगमुण्डमें—ऐलि-सि, आर्स, बार्बे, काक्लि, थूजा, वायो-ट्रि।
” ” ” पेशाब करनेके पहले—ऐना, काक्लि, स्टैनम।
” ” ” ” समय—आर्स, काक्लि, लाइको, पेरि।
” ” ” ” बाद—ऐना, कक, काक्लि, सार्सा।
” ” ” अग्रत्वचामें—आर्स, बार्बे, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सल्फ, थूजा।
” ” ” ” पेशाब करने बाद—बार्बे, कैना-से, कैन्थ, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्र-स, थूजा।

पीव सञ्चय अण्डकोषमें (Empyocele)—आर्स-आयोड, कैल्के, कैल्के-स, हिपर, सोरि, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ होता है, लिंगाग्रत्वचाके नीचे (Suppuration under the prepuce)—कोरा-रू, हिपर, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, एपिस, आर्स, कैन्थ, मार्क, रास-टक्स, सल्फि।

„ अण्डकोषमें—आर्स, रासटक्स, रास-वे।

„ „ विसर्पकी तरह (Erysipilation)—एपिस, आर्नि, आर्स, पल्स, रास-टक्स, रास-वे।

„ अण्डोंमें दोनों—ऐकोन, आर्स, अरम, बेप्टी, बेल, बार्य, क्लिमे, कोना, कैलि-आयोड, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, फाइटो, प्रम्न, पल्स, रोडो, रास-टक्स, स्पंजि, स्टेफि।

„ „ दाहिनी—आर्ज-ना, क्लिमे, पल्स, रोडो।

„ „ बाएँ—पल्स, रोडो।

„ „ सुजाक रुककर—ऐग्न, कोना, ऐमा, कैलि-स, मार्क, मेडो, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रोडो, स्पञ्जि।

„ „ सङ्घात (भीतरकी चोट) की वजहसे (From concussion)—आर्नि, कोना, ऐमा, पल्स।

„ बिछावनकी गर्मीसे—क्लिमे।

„ एपिडाइडिमिसमें (उपकोष-Epididymis)—अरम, ग्लायना, मेडो, मार्क, फाइटो, पल्स, रोडो, स्पञ्जि, सल्फ।

„ कोषरज्जुमें (Spermatic cord)—आर्नि, बार्य, पल्स, रोडो, स्पंजि, सिफि।

„ झोलनीमें (Frenum)—कैल्के, नाइट्रि ऐ।

„ „ बढ़ना बिछावनकी गर्मीसे—ऐका।

„ लिङ्गमुण्डमें (Glans)—ऐग्न, एपिस, कैलेडि, कैन्थ, सिनेबा,

दर्द, सुई वेधनेकी तरह, दाहिने—ब्राइयो, कास्टि, क्लोडो, स्पाइ ।
" " " बायें—फ्लू-ऐ, मार्क-कोर, पल्स, स्टै फि, थूजा ।
" " " फैलता है-कोषरज्जु में—फ्लू-ऐ, श्राकजा-ऐ, स्प्जि ।
" " " " पाकस्थलीमें—हैमा ।
" " " घटना-टहलते रहनेपर—क्लोडो ।
" " कोषरज्जु में—आर्निका, बेल, बार्बे, ब्राइयो, कैल्के, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, स्टै फि, सल्फ, थूजा ।
" " " फैलता है, उदर तक—ग्रैफा, स्टै फि ।
" " " ऊपरकी ओर—बेल, थूजा ।
" " " नीचेकी ओर—बार्बेरिस, कैल्के ।
" " लिङ्गमें—ड्रोसे, लिथि-कार्ब, मेजि, सल्फ, वायो-ट्रि ।
" " लिङ्गमुण्डमें—कोलो, युफ्रे, कालि-बा, मू न-स्पा, सल्फ ।
" " " अग्रत्वचामें—ह्रिपर, मैङ्ग, नाइट्रि-ऐ, सिपि, थूजा ।
दुर्बलता-सङ्गमके बाद—बार्ब ।
ध्वजभग—"लिंगोच्छ्रास" देखिये ।
नासूर-अण्डकोषमें (Fistulous opening)—ब्राइयो, रास-टक्स, स्प्जि ।
पतला, सूखा (Atrophy) अण्डमें—अरम, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, बेल, आइयो, **कैलि-कार्ब**, लिसिन, मिफा, प्लम्ब, जिङ्क ।
पसीना (Perspiration)—**अरम**, बेल, कैलेडि, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वे, कोरा-रू, **फ्लू-ऐ**, जेल्स, मार्क, पेट्रो, पल्स, **सिलि**, **सिपि**, साइलि, सल्फ, **थजा** ।
" ठण्डा—कार्बो-वेज ।
" दुर्गन्ध (Offensive)—फ्लु-ऐ, हाइड्रो, आइयो, नेट्रम-म्यू, सार्स, सिपि, **सल्फ** ।
" मीठा—थूजा ।
" अण्डकोषमें—अरम, कैल्के, कैल्के-फास, कोना, डाय, हैमा, हर्म, आइयो, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-सल्फ, पेट्रो, सोरि, क्लोडो, सिपि, साइलि, **सल्फ**, **थूजा** ।
" दोनों उरुके मध्यमें—सिनेबा ।

पीव सञ्चय अण्डकोषमें (Empyocele)—आर्स-आयोड, कौल्के, कैल्के-स, हिपर, सीरि, पल्स, साइलि, सल्फ।

" होता है, लिंगाग्रत्वचाके नीचे (Suppuration under the prepuce)—कोरा-रू, हिपर, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, एपिस, आर्स, कैन्थ, मार्क, रास-टक्स, स्पञ्ज।

" अण्डकोषमें—आर्स, रासटक्स, रास-वे।

" " विसर्पकी तरह (Erysipilation)—एपिस, आर्नि, आर्स, पल्स, रास-टक्स, रास-वे।

" अण्डोंमें दोनों—ऐकोन, आर्स, अरम, बेप्टी, वेल, बार्ज, क्लिमे, कोना, कैलि-आयोड, लाइको, मार्क नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, फाइटो, प्रम्ब, पल्स, रोडो, रास-टक्स, स्पंजि, स्टेफि।

" " दाहिने—आर्ज-ना, क्लिमे, पल्स, रोडो।

" " बायें—पल्स, रोडो।

" " सूजाक रुककर—ऐग्न, कोना, ईमा, कैलि-स, मार्क, मेथे, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रोडो, स्पञ्ज।

" " सङ्घात (भीतरकी चोट) की वजहसे (From concussion) —आर्नि, कोना, ईमा, पल्स।

" बिछावनकी गर्मीसे—क्लिमे।

" एपिडाइडिमिसमें (उपकोष Epididymis)—अरम, बायमा क्लेमे मार्क, फाइटो, पल्स, रोडो, स्पञ्ज, सल्फ।

" कोषरज्जुमें (Spermatic cord)—आर्नि, बार्म, पल्स, रोडो स्पंजि, सिफि।

" फ्रीनमर्मे (Frenum)—कैल्के, नाइट्रि ऐ।

" " बढ़ना बिछावनकी गर्मीसे—मेरा।

" शिश्नमुण्डमें (Glans)—ऐग्न, एपिस, कैलि, कैल्के सिनेबा,

कोरा-रू, डिजि, जेका, **कैलि-फ्लो**, केलि-स, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सोरि, फ्लोडो, सल्फ, थूजा।

प्रदाह, लिङ्गाग्रत्वचामें (Prepuce)—एपिस, आर्स, केल्के, **सिनेबा**, ग्रेफा, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, सल्फ।

" " विसर्पकी तरह (Erisypilation)—एपिस, **लैकी**, पल्स, **रास-टक्स**।

फटा घाव लिंगमुण्ड—आर्स, कैलि-कार्ब, मस्क, रास-टक्स।

" लिंगाग्रत्वचामें—मार्क, सिपि, स्टैफि।

फूलन (Swelling)—आर्नि, आर्स, लैके, लाइको, मार्क, रास-टक्स।

" यन्त्रणादायक—आर्स, कैन्थ, प्लम्ब, रास-टक्स।

" शोथकी तरह (Dropsical)—एपिस, डिजि, **ग्रैफा**, रास-टक्स।

" अण्डकोषमें—आर्नि, ऐङ्गा, कैन्थ, चेलिडो, ग्रैफा, नेट्रम-म्यूर, पल्स, **रास-टक्स**, रास-वे, सिपि, वेस्पा।

" " शोथकी तरह (Ædematous)—**एपिस**, ऐपो, आर्जे-मे, आर्स, कैन्थ, कोलचि, डिजि,, **ग्रैफा**, कैलि-का, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्र-स, फास, **रास-टक्स**।

" अण्डमें—ऐको, आर्नि, आर्स, आर्स-आ, अरम, बैप्टी, बैरा-म्यू, बेल, ब्रोमि, केल्के-फास, कार्ल, चायना, **क्लिमे**, कोना, कोपे, डिजि, ग्रैफा, हैमा, कैलि-का, कैलि-आ, लैके, मेडो, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-रू, मेजे, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, फास-ऐ, प्लम्ब, सोरि, **पल्स**, **फ्लोडो**, साइलि, सल्फ।

" " दाहिने—**अरम**, पल्स।

" " बाएँ—पल्स, फ्लोडो, स्पञ्जि।

" " कामेच्छाको दबानेसे उत्पन्न—आइयो।

" " सूजाक रुकावट—"प्रदाह-देखिये।"

" " कण्ठमालासे (From mumps)—कार्बो-ऐ, जेबो, मार्क, **पल्स**, रास-टक्स।

फूलन, कोषरज्जु में—आर्जे, कैल्के, चायना, केलि-का, कैलि-आयोड, फास, पल्स, सार्सा, स्पंजि।

" " दाहिने—क्लिमे, पल्स।

" " बायें —आर्जे।

" " कामोत्तेजनाके बाद—सार्सा।

" बढ़ना—भ्रमणमें।

फूलन-लिङ्गमें—आर्नि, आर्स, कैना-से, कैन्थ, सिनेबा, कैलि-आयोड, क्रियो, लैक-कै, लिडम, मार्क, मार्क-कोर, मेलो, निक्लि, नेट्र-म, रास-टक्स।

" " शोथकी तरह—ऐपि, ऐलो, कैन्थ, डिजि, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, लाइको, मार्क, नेट्र-स, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, क्रोडो, रास-टक्स, सल्फ, थैम्या।

" लिङ्गमुण्डमें—आर्स, कैन्थ, सिनेबा, कोरा-रू, कैलि-आई, मार्क, नेट्र-का, रास-टक्स, सल्फ।

" लिङ्गाग्रत्वचामें—एपि, कैन्थ, कार्बोनि-स, सिनेबा, कोरा-रू, डिजि, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, जैका, लैक-कै, मार्क, नेट्र-का, नेट्र-स, नाइ-ऐ, रास-टक्स, रास-वे, सल्फ, थूजा, वेस्पा, थायो-डि।

बिन्दु बिन्दु दाग (Spots on) अण्ड-कोषमें—कैल्के, साइलि।

" " सादा—मार्क, थूजा।

" लिंगमें लाल—कार्बो-वे, साइलि, थूजा।

" लिंगमुण्डमें—कार्बो-वे, सिनेबा, लैके, साइलि, थूजा।

गनोरिया-लिंगमुण्डमें—सिनेबा, जैका, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम सिपि, सल्फ, थूजा।

भींगा, तर अण्डकोष (Moist)—क्रोटे-टाग, बेलिडो कोपे, नेट्रम सार्ज, पेट्रो, साइलि, सल्फ।

" " " और दोनों जङ्घाके बीचमें—हिपर-सल्फ, कार्बो वेज, हिपर, लाइको, मार्क, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू, थूजा।

मांस वृद्धि (Sarcocele)—बराइ, मार्क-बा रू, फ्लु।

सूख जाना पीछेकी ओर संकुच (Retraction) अण्डकोष—ऐकि, पेरी।

मोटा अण्डकोष (Thickening)—रास टक्स, सल्फ।

मोटा, कोषरक्तु—क्लिमे, रास-रू, रास-टक्स, सल्फ।

" अण्ड—बैरा-कार्ब, बार्बे, कैल्क, कैन्थ, **क्लिमे**, नक्स-वोम, प्लम्ब, फ्रोडो, स्ट्रैमो, जिङ्क।

" " दाहिने—क्लिमे, पल्स।

" " बाएँ—कैल्क, क्रोटन-टि, पैरिरा, थूजा।

" " घूमनेके समय—फ्रोडो।

" लिंग—बार्बे, **ड्रग्न**, ग्रैफा, प्लम्ब, पल्स।

" " अग्रत्वचा - कैलेडि, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

रक्त-सञ्चय अण्डकोषमें (Hæmaloale)—कोना, हैमा, रूटा।

लाली अण्डकोषमें (Redness)—ऐना, एपिस, चेलिडो, कोपे, **क्रोटन**, मार्क, **पेट्रो**, पल्स, रास-टक्स, रास-वे, सल्फ।

" " दोनों ऊरुके बीचमें—कोपे, **पेट्रो**, थूजा।

" लिंग मुण्डमें—आर्स, कैलेडि, कैना-से, कोरा-रू, क्रोटन, डोरि, मार्क, रास-टक्स, सार्सा।

" लिंग अग्रत्वचामें—**सिनेबा**, कोरा-रू, लेके, मार्क, रास-वे, रूमैक्स, साइलि, सल्फ।

लिंगोच्छ्वास (Erection)-कष्टकर (Troublesome)—ऐमोन-कार्ब, आरम, कैना-इ, **कैन्थ**, इयुफ्रे, फ्लू-ए, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आई, क्रियो, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओपियम, **फास**, फास ऐ, **पिक्रि**, **प्लेटि**, प्लम्ब, पल्स, सिपि, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो।

" दिनमें—चेलि, क्लिमे, फास, पल्स, साइलि।

" सवेरे—ऐग्न, **ऐमोन-कार्ब**, सिमिक्स, लेके, मैग-म्यूर, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, सिलि, साइलि।

" रातमें—**आरम**, **कैन्थ**, कैप्सि, कास्टि, डाय, फ्लू-ए, लेके, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ**, ओपियम, **फास**, **पिक्रि-ऐ**, साइलि।

लिंगोच्छ्रास, अत्यन्त (Excessive)—अरम-म्यू, कौन्थ, ग्रेफा, फास-ऐ, पिक्रि-ऐ।

,, अल्पक्षण स्थायी (Short)—कोना, ग्रेफा, नेट्रम कार्ब, नक्स म, नक्स-वोम, फास-ऐ, सिपि।

,, अश्वारोहणसे—बेरा-का, कैल्के, कैना-ई।

,, अस्वाभाविक प्रचण्ड (Violent)—ऐनूमि, ऐनाल्ट्रि, कैन्थ, कैमो, क्लिमे, फ्लू-ऐ, जेल्स, ग्रेफा, भाइयो, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, ओपियम, फास, पिक्रि-ऐ, सैटि, प्लम्ब, साइलि, स्ट्रैमो।

,, ,, सवेरे—कैलि-फास।

,, असम्पूर्ण (Incomplete)—ऐगा, बेरा कार्ब, कैनेबि, कैल्के, कैम्फ, कोबा, कोनायम, ग्रेफा, हिपर, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नियुफ्रे, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐ, सिनि, सिपि, सल्फ।

,, ,, संगमके समय—कैम्फर, कैमो, फार्मि, ग्रेफा, लाइको, फास, फास-ऐ, सिपिया, सल्फ।

,, कामेच्छा न रहने पर भी (Without sexual desire)—ऐमोन-कार्ब, कैलेडि, कैल्के-फास, कोना-इ, कैन्थ, ग्रेफा, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, फास-ऐ, पिक्रि ऐ, सिलि, स्पाइजि, सल्फ।

,, नींदमें—फ्लू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, थोपि।

,, बार बार (Frequent)—ऐम्ब, अरम-म्यू, चेलि, कल्ड, हिग म्यू, नेट्रम-म्यू, फास, पल्स।

,, ,, रातोंका—कार्टि।

,, पाखाना फिरनेके समय—इग्ने थूजा।

,, पेशाब करनेके समय—ऐमो, फार्मि लिलि टिग, लिलि कार्ब नेट्रम कार्ब, रास ट।

,, बच्चोंको—मेज, मार्क।

,, यन्त्रणादायक (Painful)—ऐगारि-मा, कैम, कैम्फर, कैलो-ई, कैना ने, कैन्थ, कैपि, क्यामि, कोपे, कुप्र क्रिम, कुप्र ऐ,

हिपर, इग्ने, कैलि-फ्लोर, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पेट्रोलि, फास, **पल्स**, साइलि, **टैरि**, थूजा।

लिंगोच्छास, यन्त्रादायक सवेरे—नक्स-वोम।

„ „ रातमें—कैक्ट, कैम्फि, हिपर, मार्क, नाइ-ए, फास।

„ „ „ कामोद्दीपक सपने देखकर (During voluptuous dreams)—चायना।

„ विलम्बसे, धीरे धीरे (Delayed slow)—**बेरा-कार्ब**, कैल्के, कैन्थ, कार्बोनि-स, आइयो, मैग-कार्ब, मार्क-कोर, नाइट्रि-ए, ओलि, पेरिरा, पिक्रि-ए, सिलिनि, साइलि।

„ सहजमें ही अत्यन्त—कोना, फास, पिक्रि-ए, प्लम्ब।

„ स्वप्नदोषके बाद—**फास-ए**।

„ नहीं होता (Wanting, impotence)—**ऐग्न**, ऐलूमि, आर्जेण्ट ना, **बेरा-का**, ब्यूफो, **कैलेडि**, **कैल्के-कार्ब**, **कैल्के-स**, कैम्फ, कास्टि, **चायना**, कोबे, कक्क, **कोना**, फेरम, ग्रैफा, हैमा, हेलि, आइयो, लैके, **लाइको**, मैंगो, **मेडो**, मस्क, नाइ-ए, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओनस, ओपि, फास, फास-ए, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, पल्स, **सिनि**, **सिपि**, स्टैनम, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा।

„ „ उपदंशसे—मार्क।

„ „ „ काम दमनकी वजहसे (From incontinence)—कोना, फास।

„ „ „ कामेच्छा रहनेपर भी—"कामेच्छा" देखिये।

„ „ „ कामोत्तेजनाके समय—कैलेडि।

„ „ सूजाकके बाद—ऐग्न, कयबे, कोबा, ग्लाइको, मेडो, सल्फ, थूजा।

„ „ पुराना—लाइको।

„ „ लिंग ठण्डा और छोटा—ऐग्न, बेरा-का, **लाइको**, सल्फ, थूजा।

सिहदि-भण्ड (Enlarged testes)—आर्ज-ना, आर्स, बेरा-म्यू, आइयो।

„ दाहिने—आर्ज-मा, **अरम**।

विद्रधि-अण्ड, बायें—ऐलूमि, स्पञ्जि।

गिरार्बुद (Vericocele)—आरम, कौल्को, हैमा, लेके, लाइको, मार्क-आ-फ्लो, नक्स-वोम, फास-ऐ, पोडो, पल्स, साइलि, सल्फ।

शुक्रस्खलन (Seminal discharge), अपर्याप्त (unsufficient)—ऐनाग्नि, बेरा-कार्ब, बार्ब, डिजि, फार्मि।

„ देरसे, अत्यन्त (Too late)—ऐगा, कौल्को, पनु-ऐ, लाइको, लिसिन, नेट्रम-म्यूर, जिङ्क।

„ यन्त्रणादायक (Painful)—ऐगा, वर्बे, केल्के, कैन्थ, कोना, कैलि-का, क्रियो, नाइ-ऐ, सिनि, सल्फ।

„ रक्ताक्त (Bloody)—कैना से, कास्टि, मार्क, पेट्रो।

„ शीघ्र अत्यन्त (Too quick)—बार्ब, कलेडि, केल्के, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, कोना, जेल्स, ग्रेफा, लाइको, नेट्रम-का, नेट्रम-म्यू, आरम, फास, फास-ऐ, प्लैटि, सिलि, सिपि, सल्फ, जिङ्क।

„ „ लिंग योनिमें प्रवेश करनेके पहले ही—सल्फ।

„ „ लिंगोच्छ्रासके क्षणभर बाद ही—फास-ऐ, सल्फ।

„ होता नहीं (Failing during coition)-संगम कालमें—ऐगा, बेरा-का, कैलेडि, इग्नि, ग्रेफा, लाइको, लिसिन नेट्र-म्यू, फास ऐ, सेपि, जिङ्क।

स्वप्नदोष (Seminal omissions, nightly)—ऐगारि, ऐल्मे, ऐलूमि, ऐसोन कार्ब, ऐना, आर्जे-ना, आरम, बेरा-कार्ब, बेरा म्यू, बेल कार्ब, बिस्मथ, बियुफो, कोल्को, केल्के फास, कार्बो ऐनि कार्बो वेज, कैष्टो, चाफि, कैमो, चायना, सिकि, सिमिसि कोषि काफि, कोना, गाइका, ग्राफस, डिजि, डायो, इग्नि, फेरम, कालि, जे-म, येका, केलि-ब्रोम, केलि कार्ब, मेरि ईसि लाइको, मैग-म्यूर, मार्क सल्फ, नेट्रम ऐ नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि ऐ नक्स मस, नक्स वोम ओनस्म पेट्रोलि, फास, फास-ऐ, पिक्रि ऐ, प्लेटि पोरि, प्लम्ब सेबाडि, सार्सा सिलि, सिपि, साइलि, स्टैफि, स्टैना सल्फ, थेर, थूजा जाने, जि।

स्वप्नदोष, दिनमें—कैन्थ, इरिग्जि, जेल्स, ग्रैफा, नक्स-वोम, कास्टि।
„ सवेरे—ऐलो, कार्बो-वेज, कैमो, चिनि-सल्फ, सोरि, थूजा।
„ तीसरे पहर-निद्रित अवस्थामें—कास्टि, क्लिमे, फास, सल्फ।
„ रातमें, प्रत्येक—नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम फास,** पिक्रि-ऐ, टैरे।
„ अनजानमें (Unconciously)—डाय, हैमा, नेट्रम-फास, सिपि।
„ आदर प्यार करने समय (During caresses)—**कोना,** जेल्स, नक्स-वोम, फास, सार्सा, सिलि, आस्टि।
„ पास रहने पर-औरतके—नक्स-वोम, कास्टि।
„ पाखाना फिरनेके समय—जेल्स, ब्यूफो, पेट्रो, फास-ऐ, **सिलि,** सल्फ।
„ बार बार (Frequent)—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, आर्जेण्ट-मेट, बैरा-म्यूर, बोरा, कैल्के, कोना, कैलि-कार्ब, नेट्रम-फास, **नक्स वोम, फास-ऐ,** प्लम्ब, पल्स, सिपि, **स्टैफि,** सल्फ।
„ „ बूढ़ोंको—बैरा-का, नेट्रम-म्यूर।
„ लिंगोच्छ्वासके बिना (Without erection)—कोबे, जेल्स, **ग्रैफा,** नेट्रम-कार्ब, ब्यूफो, फास-ऐ, सार्सा, सल्फ।
„ संगमके बाद—ऐग्न, कैल्के, डिजि, ग्रैफा, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-का, फास, फास-ऐ, स्ट्रोडो।
„ स्वप्न देखे बिना ही—ऐरब्रा, कैम्फ, कोना, कैरा-रू, डाय, ग्रैफा, हैमा, पिक्रि-ऐ, स्टैनम, जिङ्क।
„ हस्तमैथुनके बाद—ऐलूमि, **चायना,** डिजि, **नक्स वोम,** फास-ऐ, पल्स, सार्सा, **सिपि, स्टैफि,** टैरे, कास्टि।
„ हँसी दिल्लगीके समय औरतसे (While frolicking with women) —**कोना,** फास, सार्सा।

सङ्गमसे अनिच्छा (Aversion to coition)—ऐग्न, कोना-से, कास्टि, **ग्रैफा, लाइको,** नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास, सोरि, स्ट्रोडो।
„ आराम नहीं मिलता (Enjoyment absent)—ऐग्न, ऐनाका, कैलेडि, फल-ऐ, ग्रैफा, नेट्रम-म्यूर, प्लेटि, सिपि।

सुरसुरी (Formication, tingling, crawling)—ऐकोन, बार्ब, क्लिमे, प्लैटि, टैरे।

" अण्डकोषमें—चेलिडो, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, स्टैफि, थूजा।

" अण्डमें—ऐग्न, बार्बे, कार्बो-वेज, इयुफ्रे, क्लियो, मार्क, रोडो।

" लिंगमें—ऐकोन, ऐलूमि, कार्ल्स, कोलोसि, पल्स, टैरे, वैने।

" " सगमके समय बाहर निकाल लेना पड़ता है (Tickling during coition obliging withdraw)—कौस्टि।

" " मुण्डमें—ऐलूमि, चेलिडो, नेट्रम म्यूर।

" " पेशाब करने बाद—पल्स।

स्पर्श सहन न हो (Sensitiveness)—काफि, फास-ऐ, प्लैटि, वैरे।

" अण्डकोषमें-नेट्रम-म्यूर।

" लिंगमें—काकु, कार्बो, क्रोटन, थूजा, विरे, जिङ्क।

" " मुण्डमें—कोरा-रू, मार्क-कोर, थूजा।

" " अग्रत्वकमें (Prepuce)—कैना-सै, कोरा-रू, मार्क।

हाइड्रोसील (Hydrocele-अण्डवृद्धि)—एपिस, आर्नि, कैल्के, कैल्के फास, कार्बोनि-स, डिजि, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हेलि, हिपर, आइयो, लिसिन, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सोरि, पल्स, रोडो, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

" बाईं ओर—डिजि।

" चोट लगकर—आर्निका।

" चर्मरोग दब जाकर—ऐब्रो, कैल्के, रैनि।

" बच्चोंका—ऐब्रो, आर्नि, ऑरम, कैल्के, कैल्के-फ, ग्रेफा, हेलि, आयो, पल्स, रोडो, साइलि, सल्फ।

" सुजाककी वजहसे एकशिरा होने बाद (After gonorrhœal orchitis)—क्लाम।

सुन्न भाव (Numbness)—ऐम्ब्रा, बैरा कार्ब, डिजि, कालि, प्लेटा।

" अण्डमें (Testis)—कैलि कार्बोनि-स, नेट्रम कार्ब।

" लिंगमें (Penis)—मार्क, प्लैटि।

" " मुण्ड अग्रत्वचामें (Glans prepuce)—मार्क।

स्त्री जननेन्द्रिय (FEMALE GENITALIA)।

अनुभव-शक्ति-हीनता (Insensibility) योनिका—बाइँ, ब्रोमि, फेरम, सिपि।

अन्तर्दाह (Irritation)—ऐगा, ऐमोन-कार्व, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, ग्रेफा, क्रियो, मार्क, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, ओरिगे, सिपि, साइलि।

„ अङ्कुर, लिंगका (Clitoris)—ऐमोन-कार्व।

„ जरायुका—आर्स, वेल, कौलो, सेनि।

„ डिम्बकोषका (Ovaries)—एपिस, आर्स, जेल्स, हैमा, लिलि-टिग, नक्स-वोम, फाइटो, थूजा, **आर्स्ट, वाइवा**।

„ योनिका (Vagina)—कौलो, हेलोनि।

अर्बुद—कैल्के, काक, **लाइको**।

„ कड़ा (Hard)—कार्बोनि-स।

„ एनसिस्टेड (Encysted-कोषावृत्त)—ग्रेफा, सेबाइ, साइलि, सल्फ।

„ इरेक्टाइल (Erectile)—कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, लेके, नाइ-ऐ, सल्फ, थूजा।

„ „ काँटा वेधनेकी तरह यन्त्रणाके साथ—कार्बो-वेज।

„ „ कोंचनेकी तरह यन्त्रणाके साथ—नाइ-ऐ।

„ „ खुजलानेके साथ—नाइ-ऐ।

„ „ जलनेके साथ—कैल्के, कार्बो-ऐनि, थूजा।

„ „ नीलेरंगका—कार्बो-वेज।

„ „ रक्त-स्रावी—आर्नि, क्रियो, लेके, फास, पल्स, थूजा।

„ जरायुमें—कैल्के, क्रोटे, **टैरि**, थूजा।

„ डिम्बकोषका—**एपिस**, आर्स-आयोड, बैरा-म्यू, कैल्के, कोलोसि, आइयो, **लेके**, **लाइको**, प्लेटि, पोडो, स्टेफि।

„ „ दाहिने—एपिस, आइयो, **लाइको**, पोडो।

„ „ बायें—**लेके**, पोडो।

अर्बुद, कोण्डाइलोमैटा (Condylomata)—कैल्के, लाइको, मार्क, मेडार, स्टैफि, थूजा।

„ „ जरायुमें (Uterus)—कैल्के, क्रियो, मार्क, नाइट्रि-ए, थूजा।

„ „ योनिमें (Vagina)—नाइट्रि-ए, फास, स्टैफि, थूजा।

„ „ „ थोड़ा खून गिरता है—फास।

„ कैन्सर (Cancer)-जरायुमें (Uterus)—आर्जेण्ट मेट आर्जेण्ट नाइ आर्स, आर्स-आयोड, ब्यूफो, कैल्के, कार्बो-एनि, कार्बो वेज, कोना, ग्रैफा, हाइड्रे, आइयो, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क-आ-फ्ले, म्यूर-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, फोस, फाइटो, सिके, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ „ डिम्बकोषमें—आर्स, कोना, ग्रेफा, क्रियो, लैके, सोरि।

„ „ योनिमें—क्रियो।

„ „ स्किरस (Scirrus)—ऐलू, आर्जेण्ट-मेट आर्स, आरम, कोना, सिपि, स्टैफि।

„ पोलिपस (बतौड़ो Polypus)-जरायुमें—आर्स, आरम, वेल, ब्यूफो, कैल्के, कैल्के-फास, कोना, लाइको, फास, फास ऐ, प्लैटि, सैंगु, सिपि, साइलि, स्टैफि, टियु, थूजा।

„ „ योनिमें—कैल्के, मार्क पैट्रो, फास ऐ, पल्स स्टैफि टियु।

„ फाइब्रायड (Fibroid)-जरायुमें—एपिस, आरम म्यू-नाट कैल्के, कैल्के-फ्लू, कैल्के-फास, कैल्के-स, कोनायम फेरि कार्ब फेरि आयोड, लैके, लाइको, मार्क कोर, साइलि।

„ „ डिम्बकोषका—एपिस, कैल्के, फ्लू ऐ, आइयो मेड, मार्क, प्लैटि, थूजा।

„ सिष्टिक (Cystic) डिम्बकोषका—एपिस, बोवि कोलोसि, आइयो, लैके, प्लैटि, रास-टक्स।

„ सिष्टिक योनिका—लाइको, पल्स, साइलि।

आक्षेप, योनिका—[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] लाइको, नेट्रम म्यूर, प्लम्ब, सिके, प्लैटि, [illegible] साइलि।

आयतन वृद्धि (Enlarged)-जरायुमें—ऐमोन-म्यूर, अरम, अरम-म्यूर, बेल, कार्बो-ऐ, **कोनायम**, हिपर, लैके, नेट्रम-कार्ब, फाइटो, **सिपि**, ऐस्टि।

„ डिम्बकोषका—**एपि**, **बेल**, कार्बो-ऐनि, **कोनायम**, ग्रैफा, आइयो, ऐरिट।

„ „ दाहिने—**एपिस**, **बेल**, पैले।

„ „ बायें—एपिस, लिलि-टिग।

ऋतु (Menses)-दिनमें सिर्फ—कास्टि, काफि, साइक्ला, हैमा, **पल्स**।

„ सवेरे—बोरा, बोवि, सल्फ।

„ „ और सन्ध्यामें केवल—फिला।

„ „ सिर्फ—बोवि, कार्बो-ऐनि, **सिपि**।

„ रातमें सिर्फ—बोरा, **बोवि**, काफि, साइक्ला, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर।

„ „ अधिक मात्रामें—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, बोवि, कोका, कक, **मैग-कार्ब**, नेट्रम-म्यूर, सल्फ, जिङ्क।

„ „ निद्रितावस्थामें केवल—मैग-कार्ब।

„ अति शीघ्र, निर्दिष्ट समयके पहले, बार बार (Too soon, too early, frequent)—ऐसार, इलेटे, **ऐम्ब्रा**, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐना, ऐपो, एरानि, आर्जे ना, **आर्स**, **बेल**, बोरा, **बोवि**, ब्राइयो, ब्यूफो, कैक्ट, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैन्थ, **कार्बो-ऐनि**, **कार्बो-वेज**, कास्टि, **कैमो**, चायना, चिनि-आ, सिमि, सिना, क्लिमे, **काकि**, काफि, कोलचि, कोना, कोपे।

„ अति शीघ्र, निर्दिष्ट समयके पहले—क्रोकस, साइक्ला, **फेरम-मेट**, फेरम-फास, फ्लू-ऐ, इग्ने, **इपि**, **कैलि-ओ**, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-फास, कैलि-स, कैल्मि, क्रियो, **लैके-कै**, लोरो, लिडम, मैग-कार्ब, **मैग-म्यू**, मैग-स, **मैङ्ग**, मेजे, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म**, **नक्स-वोम**,

पेट्रो, फिला, फास, फास-ऐ, प्लेटि, रैटा, ड्रोडो, रास-टक्स, रूटा, सैबाई, सिकि, सिनि, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, ट्रिलि, टियु, वास्टि, विरि, जिङ्क।

ऋतु, अधिक दिन स्थायी (*Protracted*)—ऐकोन, ऐलोज, चार्ज-नाइ, थार्म, बैरा कार्व, ब्रायो, कैल्के, केन्थ, कार्वो-ऐनि, कार्वो-वेज, चायना, काफि, क्रोकस, क्रोटे-हो, कूप्रम, फेरम, फेरम-फा, फेरम फास, फ्लु-ऐ, इग्ने, कैलि-आइ, कैलि-कार्व, क्रियो, लैक, मार्क, मेजे, सिपि, म्यू-ऐ, नेट्रम भा, नेट्रम कार्व, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नेट्रम-फास, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, प्लेटि, पल्स, रैटा, रास-टक्स, सेबाइ, सिकि, सिनि, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, टियु, ऐस्टि।

„ अनियमित (Irregular)—एपिस, चार्ज-ना, चार्टि-या, बेन्जो ऐ, कैल्के, कार्वो-ऐ, कास्टि, सिमि, कोकि, कोना, डिजि, इग्ने, आइयो, इपि, चाइरि-वा, क्रिओ, लैके, लैक-डि, म्याइको, म्यू-र, नक्स-वोम, नक्स-म, पल्स, सिकि, सिनि, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ, टियु।

„ अल्प परिमाण, कम (Scanty)—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, एपिस, चार्ज ना, चार्टि-या, ऐमाफि, बरम कार्ब, वोवि, ब्रूफो, कैल कैल्के ऐ, कार्वो-ऐनि, कार्वोनि-स, कार्वो वेज, कोनी, कास्टि, सिमि, काफि, कोमो, साइका, डल्क, फेरम, फेरम फा, फेरम फास, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, कैलि फा, कैलि फास, कैलि स, लैके, लिलि टिग, म्याइको, मैग कार्ब, मेजे, मार्क, नेट्रम फा, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, नक्स म, पेट्रो, फास, प्लम्ब, पल्स, सेबाडि, सार्सा, सैने, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थाइरा, जिङ्क।

„ „ टिमर्ष—कैलि सैग-कार्व।

„ „ मवेर, सिर्फ—कार्बो ऐनि, सिपिया।

ऋतु, अल्प दिन स्थायी (Short duration)—ऐलूमि, **ऐमोन-कार्ब**, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, बार्बे, कार्बोनि-स, काकि, कोना, डाल, ग्रैफा, **लैके**, **मैङ्ग**, मार्क, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, **पल्स**, सिपिया, **सल्फ**, थूजा ।

„ „ एक दिन-स्थायी सिर्फ—ऐलूमि, एपिस, आर्जे-नाई, **सिपिया** ।

" उपयुक्त उम्रके पहले (Before the proper age)—ऐग्निट-क्रूड, कैल्के-फास, कास्टि, कैमो, फेरम, इपि, फास, पल्स, सेबाई, साइलि, सल्फ ।

" खाल उधड़ने वाला (Excoriating, acrid)—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-वेज, कास्टि, कैलि-आ, लेक-के, **लेकै**, नेट्रम-सल्फ, रास-टक्स, सार्सा, साइलि, सल्फ ।

" गरम—आर्नि, बेल, ब्राइयो, लेक-के, पल्स ।

" गर्भावस्थामें—काकि, कैलि-कार्ब, क्रियो, नक्स-मस, फास, प्लैटि, रास-टक्स, सिकि ।

" गाढ़ा (Thick)—आर्जे-ना, बेल, कैक्ट, कार्बो-वेज, काकि, फ्लूर-ऐ, ग्रैफा, कैलि-फास, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, नाई-ऐ, नक्स-मस, प्लैटि, **पल्स**, सल्फ ।

" घटता है, सब रोग ऋतुके समय—लेके, **जिङ्क** ।

„ झिल्लीके टुकड़ेके साथ—**बोरा**, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, **कैमो**, साइक्ला, कैलि-बा, लैक-का, फास ।

" थक्का थक्का (Clotted)—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, एपिस, बेल, **कैल्के**, कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो**, चायना, सिमि, काकि, कक, काफि, क्रोकस, **साइक्ला**, फेरम, हाइयो, इग्ने, **इपि**, लैके, लाइको, मैग-ना, मेडो, **म्युरेक्स**, **प्लैटि**, **पल्स**, **रास-टक्स**, **सेबाई**, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, आस्टि, जिङ्क ।

" , घोर लाल—बेल, कैमो, चायना, काकि, **क्रोकस**, साइक्ला, फेरम, लाइको, प्लैटि, पल्स, **सेबाई**, सिकि, आस्टि ।

ऋतु, दाग (Stain) धोनेसे भी नहीं छूटता—मैग-कार्ब, मेडोरि ।

" दुःखसे—इग्ने ।

" दुर्गन्ध-युक्त (Offensive)—बेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, क्रोकस, इग्ने, कैलि-आ, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, क्रियो, लिलि-टिग, प्लैटि, सोरि, पल्स, सेबाइ, सेगु, सिकि, साइलि, सल्फ ।

" " सड़ा (Putrid)—ऐलूमि, सोरि, सल्फ ।

" " सड़ी मछलीकी तरह—मोलि-टि ।

" " लोकियाकी तरह सफेद स्राव (Lochia)—लिलि-टि ।

" निवृत्ति (Menopause)—ऐगा, आर्जेण्ट-नैट, चायना, काफि, कोना, क्रोकस, क्रोटे-होर, जेल्स, ग्रैफा, लैके, मैग्ने, म्यूरे, फास, सोरि, पल्स, सिपि, सल्फ, टैबे, वेरे ।

" पतले रक्तके साथ थक्का खून (Fluid blood containing clots)—ऐलेट्रि, बेल, कैलो, चायना, फेरम, इपि, नक्स-वोम, पल्स, सेबाइ, सिकि ।

" परिवर्तन होनेवाला (Changeable)—पल्स ।

" परिश्रमके कारण—बोवि, कैल्के, रस टक्स, ट्रिलि ।

" पतला (Thin)—ऐलूमि, बेल, कार्बो, बोवि, डल्क, फेरम, फेरम-फास, ग्रैफा, लौरो, नेट्रम-म्यू, फास, पल्स, सेबाइ, सिके, सल्फ, श्यास्टि ।

" पहले निर्दिष्ट दिनमें—"अति शीघ्र' देखिये ।

" प्रचुर (Copious)—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यु, ऐलोन-वार्ब, ऐलोम्ब, एपिस, ऐपो, ऐरानि, आर्नि, आर्स, बेल, बोरो, बोवि, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैन्थे स, कैना र, कैन्थ, कार्बो एनि, कार्बो एनि, कार्बो वेज, कार्बो [illegible], कास्टि, कैमो, सेलि, चायना, सिमि-फ्यू, सिनि, सिना, काफि, काफि, कोना, [illegible], [illegible], क्रोकस, फेरम, फेरम-फास, फेरम-आयोड, [illegible], ऐगा, हेमेमि, [illegible], हाइड्रा, हाइयो, इग्ने, आयोड, इपि, [illegible], कैलि-कार्ब, कैलि-नाइट्र ।

कैलि-ना, कैलि-फास, कैलि-स, क्रियो, लैक-कै, लैके, लिडम, लाइको, मैग-का, मैग-म्यू, मेडो, मार्क, मिलि, म्यूरे, नेट्रम-आ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फाइटो, प्लैटि, प्रू न-स्पा, पल्स, रैटा, रास-टक्स, रूटा, सैबाई, सैम्बु, सिके, सिनि, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, ट्रिलि, आस्टि, वेरे, जिङ्क।

ऋतु, प्रचुर दिनमें—कास्टि, काफि, साइक्ला, हैमा, नेट्रम-म्यूर, पल्स।
" " सवेरे—बोवि।
" " रातमे—ऐमोन-का, ऐमोन-म्यू, कोका, मैग-का, जिङ्क।
" " अल्पकाल स्थायी (Short duration)—लैके, प्लैटि, साइलि, थूजा।
" " उत्तेजनाके कारण—कैल्के।
" " देरसे—"देरमें" देखिये।
" " वात-रोग-ग्रस्त स्त्रियोका—आर्स, चायना, काकि, हेलोनि, इपि, लैके, सल्फ।
" " मूर्च्छाके साथ—ऐकोन, ऐपिस।
" " यक्ष्मा रोग (Phthisical)—कैल्के, कैलि-कार्ब, फास, सिपि, स्टैनम।
" " रजोनिवृत्तिके समय (Menopause)—लैके, लोरो, नक्स-वोम, सैबा, सिपि।
" " रोगिनी स्त्रीका (In sick women)—फास, सिके।
" " हिलने डोलनेकी वजहसे—क्रोकस, फेरम, सैबा, सिके।
" " बढ़ना-खड़े होनेपर—ऐमोन-कार्ब, काकि, मैग-कार्ब।
" " " घूमनेसे—ऐमोन-कार्ब, काकि, क्रोकस, लिलि-टिग, सैबा।
" " " ठण्डी हवा लगनेसे—ऐमोन-कार्ब।
" " " परिश्रम करनेसे—ऐम्ब्रा, बोवि, कैल्के, नाइ-ऐ।
" " " बैठने पर—मैग-म्यू।
" " " सोनेपर—क्रियो।

ऋतु बन्ध (Suppressed)—ऐक्टी, ऐकोन, ऐग्ना, ऐमोन कार्ब, ऐपिस, क्रूड, एपिस, आर्जे-नाई, आर्स, अरम-म्यूर, बैरा-कार्ब, बेल, बोवि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, कास्टि कैमो, काकु, काक, **कोनायम**, च्यूफो, **साइक्ला**, डिजि, फेरम, **फेरम-आयोड**, **फेरम फास**, जेल्स, हेलि, हाइयो केलि आयोड, **केलि-कार्ब**, केलि-नाई, केलि-स, **लाइको**, मैग-म्यूर नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, स्पोडो, रास-टक्स, सेबाडि, स्टेफि, स्ट्रैमो, **सल्फ**, ऐस्टि, वेले, विरे, विरे-वि, जिङ्क ।

" " अति पुष्ट, जिसके बदनमें खून ज्यादा हो ऐसी स्त्रीका (Plethoric women)—ऐकोन, बेल ।

" " क्रोधसे—कैमो, कोलोसि ।

" " चिढ जानेपर—चायना, **कोलोसि**, पल्स, स्टेफि ।

" " ठण्डा लगकर—सिपि, कालि, कोनायम, डाल्का, पल्स, सिपि, सल्फ ।

" " डरकर—ऐकोन, लाइको, ओपियम ।

" " परिश्रमकी वजहसे ज्यादा—आर्निका, नक्स म ।

" " भींजकर जलमें—केल्के, डाल्का, ऐलि, पल्स, रास टक्स, सिलि ।

" " " पैर—ऐकोन, ग्रैफा, ऐलि, पल्स, **रास-टक्स** ।

" बार बार—"अति शीघ्र" देखिये ।

" बाधक, कष्टरज, रज शूल (Dysmenorrhoea, painful menstruation)—ऐमोन कार्ब, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], केल्के, **केल्के-फास**, कोलो, कास्टि [illegible], **सिमि**, [illegible], [illegible] कोलोसि, कोना, क्रोकस, साइक्ला [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], केलि आयोड, **केलि-कार्ब**, केलि फास [illegible], [illegible] [illegible], मिलि, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स वोम, [illegible] [illegible] [illegible], सेबाइ, सिक, सिमि, सिपिया [illegible] [illegible] [illegible] ।

" रङ्ग (Colour)—काला ([illegible])—ऐमोन [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

इलैप्स, फेरम, इग्ने, **कैलि-ना, लैके**, लाइको, मैग कार्ब, मैग-म्यू, नेट्रम-आ, नक्स-वोम, ओलियें, **पल्स**, सैंगु, सिकि, स्ट्रैमो, सल्फ।

ऋतु, रङ्ग अलकतराकी तरह (Pitch like)—कैक्ट, काकि, ग्रैफा, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, नक्स-वोम, प्लैटि, सैंगु।

" " फीका (Pale)—ऐलूमि, बेल, बार्बे, बोवि, कार्बो-वेज, कोनो, डाल, **फेरम**, फेरम-फास, **ग्रैफा**, कैलि-आयोड, मैङ्ग, **नेट्रम-म्यू**, फास, प्रन-सा, पल्स, रास-टक्स, सैबा, सिके, स्ट्रैफि, सल्फ।

" " भूरा (Brown)—**ब्राइयो**, कार्बो-वेज, कोनायम, नाइट्रि-ऐ।

" " लाल (चमकता हुआ-Bright red)—आर्नि, **बेल**, कान्थ, सिनामन, **डाल**, फेरम, **हैमा**, **ब्राइयो**, **इपि**, कैलि-कार्ब, **मिलि**, **फास**, रास-टक्स, **सैबाई**, सैंगु, सिकि, सल्फ, थ्लास्पि।

" " " उसके साथ साथ काला थक्का थक्का खून मिला हुआ (Mingled with dark clots)—बेल्न, लाइको, सैबा, सिके।

" " लाल घोर (Dark red)—**आसिट**, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यू, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, ऐसार, बेल्न, बिस्माथ, बोरैक्स, बोवि, ब्राइयो, कैमो, कैक्ट, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चिनि आर्स, सिमि, चायना, काकु।

" रंग लाल घोर—क्रोकस, ।, फेरम, फ्लु-ऐसि, इग्ने, कैलि-ना, कै[illegible] लैके, मैग्नो, नाइट्रि-ऐ, नक्स [illegible] फास-ऐ, मैङ्ग, **सिके**, ।

" [illegible])—सिके, ।

" [illegible]

ऋतु, लुप्त (Absent amenorrhœa)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐग्नस-क्र्ड, ऐपिस, ऐपो, आर्स, आर्स-आयोड, **अरम**, बैरा-कार्ब, बोरा, ब्रायो, कैल्के, कार्बोनि स, कौलो, कास्टि, कैमो, चायना, काकु, काफि, **कोनायम**, कुप्रम, साइक्ला, ड्रोसि, **डाल**, **फेरम**, फेरम आ, फेरम-फास, **ग्रैफा**, **गुयो**, हैमा, हेलि, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-आइयो, **कैलि-कार्ब**, केलि-नाइ, केलि-फास, केलि-स, **लाइको**, मेग कार्ब, मेग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, नक्स मोस, फास, फास ऐ, प्लेटि, **पल्स**, राम-टक्स, सेवाडि, **सिपि**, **साइलि**, स्टैफि, **सल्फ**, **टियुबर**, वैले, जिङ्क।

„ लुप्त, पैर भीगकर जलने, ऋतुके समय—फास **पल्स**, रास-टक्स।

„ विरक्त होनेके बाद—ऐकोन, कोलोसि, पल्स, स्टैफि।

„ विलम्ब होनेसे, प्रथम ऋतु, बालिकाओंका (First menses delayed in young girls)—"विलम्ब" देखिये।

„ विलम्ब होनेसे, निर्दिष्ट समयके बाद (Late)—ऐकोन ऐग्न, ऐल्यूमि, ऐमोन कार्ब, अरम, बैल, कैल्के-फास, **कार्बोनियम**, **कास्टि**, सेलि सिमि, काकु, **कोना**, साइक्ला, ग्रोसि, डाल, फेरम, फेरम-फास, **ग्रैफा**, हिपर।

„ विलम्ब होनेसे (देर से)—आइयो, **कैलि-कार्ब**, कैलि आयोड, कैलि-फास, मेर्क, लेप्टा, **लाइको**, **मेग-कार्ब**, मार्क **नेट्रम-म्यु**, नेट्रम-फास नेट्रम-स, **नक्स-म**, पेट्रो फास फास ऐ, प्लेटि, **पल्स**, रोबा, सार्सा, सिपि, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, सल्फ ऐ वैलेरि, जिङ्क।

„ „ प्रचुर बहुत—कार्बो ऐ, कास्टि, कैलि आयोड कैलि कार्ब, फास, साइलि।

„ „ प्रथम ऋतु बालिकाओंका—कल्का, बैरा कार्ब, कैल्के, कैल्के फास, **कास्टि**, कोना, फेरम, **ग्रैफा**, कैलि फास, [illegible]।

इलेप्स, फेरम, इग्ने, **कैलि-ना, लैके**, लाइको, मैग कार्ब, मैग-म्यू, नेट्रम-म्या, नक्स-वोम, ओलियै, **पल्स**, सेगु, सिकि, स्ट्रैमो, सल्फ।

ऋतु, रङ्ग अलकतराकी तरह (Pitch like)—कैक्ट, कार्कि, ग्रैफा, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, नक्स-वोम, प्लेटि, सेगु।

" " फीका (Pale)—ऐलूमि, बेल, बार्ब, बोवि, कार्बो-वेज, कौलो, डाल, **फेरम**, फेरम-फास, **ग्रैफा**, कैलि-आयोड, मैङ्ग, **नेट्रम-म्यू**, फास, प्रून-स्पा, पल्स, रास-टक्स, सैबा, सिके, स्टैफि, सल्फ।

" " भूरा (Brown)—**ब्राइयो**, कार्बो-वेज, कोनायम, नाइट्रि-ऐ।

" " लाल (चमकता हुआ-Bright red)—आर्नि, **बेल**, कार्बि, सिनामन, **डाल**, फेरम, हैमा, **हाइयो**, **इपि**, कैलि-कार्ब, **मिलि**, **फास**, रास-टक्स, **सैबाई**, सेगु, सिकि, सल्फ, आस्टि।

" " " उसके साथ साथ काला थक्का थक्का खून मिला हुआ (Mingled with dark clots)—बेल, लाइको, सैबा, सिके।

" " लाल घोर (Dark red)—**आस्टि**, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यू, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, ऐसार, बेल, बिस्मथ, बोरैक्स, बोवि, ब्राइयो, कैमो, कैक्ट, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चिनि आर्स, सिमि, चायना, काकु।

" रंग लाल घोर—क्रोकस, क्रोटै-ह्नोर, साइक्ला, फेरम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, **हैमा**, इग्ने, कैलि-ना, केलि-फास, क्रियो, लैके, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, मेडो, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, **प्लेटि**, **पल्स**, सैबाइ, सेङ्ग, **सिके**, सिपिया, स्ट्रैमो, सल्फ, **आस्टि**।

" " हरा (Green)—लैके, मैन्सि, मेडो, सिपि।

" लसलसी (Tenacious, stringy)—**क्रोकस**, कूमम, मैग-का, प्लैटि, पल्स।

ऋतु, लुप्त (Absent amenorrhœa)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐगिटस-क्र्‌ प, ऐपिस, ऐपो, आर्स, आर्स-आयोड, आरम, बैरा-कार्ब, बोरा, ब्राइयो, कोल्के, कार्बोनि स, कोलो, कास्टि, केमो चायना, काकु, काफि, कोनायम, क्रूप्रम, साइक्ला, ड्रोसे, डाल, फेरम, फेरम घा, फेरम-फास, ग्रैफा, गुयो, हैमा, हेलि, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि-आइयो, कैलि-कार्ब, केलि-नाइ, कैलि-फास, केलि स, लाइको, मेग कार्ब, मेग-म्यूर, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, फास, फास ऐ, प्लेटि, पल्स, राम-टक्स, सेंगाडि, सिपि, साइलि, स्टेफि, सल्फ, टियुवर, वैले, जिङ्क।

„ लुप्त, पैर भीगकर जलसे, ऋतुके समय—फास, पल्स, राम-टक्स।

„ विरत होनेके बाद—ऐकोन, कोलोसि, पल्स, स्टेफि।

„ विलम्ब होनेसे, प्रथम ऋतु, बालिकाओंका (First menses delayed in young girls)—"विलम्ब" देखिये।

„ विलम्ब होनेसे, निर्दिष्ट समयके बाद (Late)—ऐकोन ऐग्न, ऐगनुमि, ऐमोन कार्ब, आरम, बैल, बैल्के-फास, कार्बोनिकम, कास्टि, चेलि सिमि, काकु, कोना, साइक्ला, ड्रासे, डाल, फेरम, फेरम-फास ग्रैफा, हिपर।

„ विलम्ब होनेसे (देर से)—आइयो कैलि-कार्ब, कैलि थायोम, कैलि फास, लैके, लैप्टा, लाइको, मेग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-फास नेट्रम स, नक्स-म, पेट्रो फास, फास ऐ प्लेटि, पल्स, सेवा, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टेफि, सल्फ, [illegible], वैलि, जिङ्क।

„ „ प्रचुर बहुत—कार्बो ऐ, कास्टि, कैलि थायोम कैलि कार्ब, [illegible], साइलि।

„ „ प्रथम बार बालिकाओंका—[illegible], बैरा कार्ब, [illegible], कास्टि, कोना, फेरम ग्रैफा, कैलि [illegible]

कार्ब, मैङ्ग, **नेट्रम-म्यूर**, पेट्रो, **पल्स**, सेबाई सिनि, सिपि, सल्फ, जिङ्क।

ऋतु, विलम्ब सविराम (रुक रुककर) (Intermittent)—बार्ब, कैल्क, कास्टि, केमो, सिमि, साइक्ला, फेरम, **क्रियो**, लैक-कै, हेके, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, सिके, सिपि, सल्फ, वाइवा।

कड़ा, जरायु-मुख (लचीला नहीं-Rigid os)—बेल, **कौलो**, **कैमो**, कोना, जेल्स, विरे-वि।

कड़ा (Hard)—**कोना**, **मार्क**।

„ डिम्बकोष—एपिस, ब्रोमि।

„ „ दाहिने—एपिस।

„ „ बायें—ब्रोमि, ग्रैफा, आस्टि।

कड़ापन (Induration)—कोना, **क्रियो**, मार्क, सिपि।

„ जरायुका—ऐलूमि, ऐलू, **अरम**, अरम-म्यूर, बेल, कार्बो-ऐ, चायना, कोना, आइयो, कैलि-ब्रोम, प्लैटि।

„ „ ग्रीवाका (Cervix)—**अरम**, अरम-म्यूर, अरम-म्यू-नाई, बेल, कार्बो-ऐसि, **कार्बो-ऐनि**, **कोना**, आइयो, क्रियो, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, प्लैटि, सिपि, साइलि।

„ „ मुखका (Os uteri)—अरम, कार्बो-ऐनि, पोडो, आस्टि।

„ डिम्बकोषका (Ovaries)—एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्स-आयोड, अरम, बैरा-आयोड, बैरा-म्यूर, ब्रोमि, कार्बो-ऐनि, **कोना**, **ग्रैफा**, आइयो, **लैके**, पैले, सिपि।

„ „ दाहिने—एपिस, कार्बो-ऐनि, पोडो।

„ „ बायें—ब्रोमि, ग्रैफा, **लैके**, आस्टि।

„ योनिका (Vagina)—चायना, फेरम, लाइको, मैग-म्यूर, पल्स, साइलि।

कामेच्छा (Sexual desire) बढ़ना—ऐग्निस-कूड, एपिस, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, बैरा-म्यूर, बेल, कैलेडि, **कैल्के**, **कैल्के-फास**,

कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-वेज, काफि, कोना, फ्लू-ए, जेल्स, ग्रैटि, हाइयो, इग्ने, कैलि ब्रोम, कैलि-फास, लैक-कै, लैके, लिलि-टिग, मार्क, मस्क, म्यूरे, नेट्रम-ए, नेट्रम-कार्ब, नक्स वोम, ओपि, ओरिगे, फास, पिक्रि-ए, प्लैटि, पल्स, रैफे, सैबाइ, साइलि, स्ट्रैनम, स्ट्रैमो, टैरे, विरे, जिङ्क ।

कामेच्छा, अतृप्त (Insatiable)—कैल्के-फास, कैन्थ, लैके, प्लैटि, सैबाइ, जिङ्क ।

„ ऋतुके पहले—कैल्के-फास, फास, विरे ।

„ „ समय—कैन्थ, हाइयो, लैके, मस्क, ओरिगे, प्लैटि, पल्स ।

„ „ बाद—कैलि-फास ।

„ कुमारियों-अविवाहिताओंका (In virgins)—कोना, प्लैटि ।

„ वृद्धा स्त्रियोंका—एपिस ।

„ भयङ्कर (Violent)—आर्स, कैल्के, कैल्के-फास, जेल्स, हाइयो, लैकि-ए, मस्क, स्यूरे, ओरिगे, फास, प्लैटि, सैबाइ, साइलि, स्ट्रैमो, टैरे, जिङ्क ।

„ „ हस्तमैथुन करनेके लिये बाध्य करता है (Drives to masturbation)—जेल्स, ग्रैफा, नक्स वोम, ओरिगे प्लैटि, जिङ्क ।

„ सूतिका घरमें (Lying in women)—चायना, प्लैटि, हाइयो, मस्क प्लैटि ।

„ ह्रास (Diminished)—एग्नस, बेरा कार्ब, कास्टि, ग्रैफा, हेलोनि, हिपर, नाइट्रो, मेग कार्ब, नेट्रम म्यूर, फास ए, [illegible], सिपि, सल्फ ।

कामोन्माद (Nymphomania)—"मन" देखिये ।

ज्यान छिल [illegible] होता है (Excoriation)—[illegible], [illegible], कोनि [illegible] कार्बो वेज, कास्टि, ग्रैफा, हिपर, मर्क [illegible] [illegible] सिपि, [illegible] ।

„ ऋतुके समय—एमान कार्ब, कास्टि, ग्रैफा, [illegible], सल्फ ।

„ प्रदरके लिये—"प्रदर" देखिये ।

„ पेरिनियम (Perineum—मलद्वार-मूत्रद्वार मध्य स्थान)—कैल्के, कार्बो वेज कास्टि ग्रैफा, लाइको, [illegible], [illegible] सिपि, [illegible]

चर्मोद्भेद, विसर्पके कारण (Erysipelatous)—**रास-टक्स।**

जखम (Ulcers)—ऐसाफि, हिपर, लैके, लाइको, **मार्क**, मार्क-कोर, **म्यूर-ऐ**, **नाइ-ऐ**, सोरि, पल्स, सिपि, **साइलि**, सल्फ, थूजा, **वेस्पा**, जिङ्क।

जखम-नासूर योनिमें (Fistula vaginae)—ऐसार, **कैल्के**, कार्बो-वेज, लेके, लाइको, नाइ-ऐ, पल्स, **साइलि।**

टपक (Pulsating)-जरायुमें—वेल, कैक्ट।

„ डिम्बकोषमें—वेल, कैक्ट, लैके, थ्रोनोस।

„ योनिमें—ऐलूमि, मार्क।

दर्द (pain)—कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कोना, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैक-कै, लाइको, मार्क-कोर, फास, स्टैफि, आस्टि, जिङ्क।

„ जरायुमें—ऐकोन, अरम, वेल, ब्राइयो, कैल्के-कार्ब, कैल्के-फास, कोलो, कास्टि, कैमो, सिपि, काकि, कोना, फेरम, जेलस, कैलि-कार्ब, लैक-कै, **लेकि-ऐ**, लिलि-टिग, लाइको, म्यूरे, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, प्लेटि, **पोडो**, **पल्स**, रास-टक्स, सैबाइ, सिकि, सिपि, सल्फ, टेरि।

„ „ सवेरे—कैल्के-फास, पल्स।

„ „ आधी रातमें—कैलेडि।

„ „ ऋतुके पहले—एरयड़, वेल, **कैल्के**, कास्टि, कैमो, **कैल्के-फास**, कास्टि, कैमो, **कैलि-कार्ब**, लैके, मैग-फास, नक्स-वोम, मस्क, **पल्स**, **सिपिया**, साइलि, वाइवा, जिङ्क।

„ „ „ समय—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-कार्ब, **वेल**, **कैक्ट**, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैमो, सिमि, काकि, जेलस, इग्ने, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैक-कै, लैके, लिलि-टिग, **नक्स-वोम**, **पल्स**, स्टैनम, सल्फ, आस्टि।

„ „ „ चिल्लाता रहता है—ऐकोन, कैक्ट, कैमो, नक्स-वोम, पल्स।

दर्द, जरायुमें, ऋतु रुककर (Suppressed)—काक्कि, कौलि-कार्ब, पल्स।
" " क्रोधके बाद—कैमो।
" " टपकता है (Pulsating)—बेल, कैक्ट सिपि।
" " धीरे धीरे पैदा होता है, धीरे धीरे बन्द होता है—प्लैटि, स्टैनम।
" " पागल कर देता है (Maddening)—बेल, कैक्ट, प्लैटि।
" " फैलता है ऊपरकी तरफ—लैकै, म्यूरे, सिपि।
" " " नीचेकी तरफ—एपिस, कैक्ट, ग्रैफा, क्रियो, सिपिया।
" " " " उरुमें होता हुआ (Down the thighs)—कैल्के-कार्ब, कैलि-कार्ब, लैक कै।
" " " पीठ तक—बेल, जेल्स।
" " " छाती तक—लैके, म्यूरे।
" " " स्तन तक—सिमिसि, म्यूरे।
" " वात रोगसे उत्पन्न—ब्राइयो।
" " रुक रुककर (Paroxysmal)—बेल, कोलो, कैमो, सिमि नक्स-वोम, प्लैटि, पल्स, सेवा, सिके, सल्फ, थाइया।
" " सहवासके समय—फेरम फास, हिपर।
" " " बाद—प्लैटि।
" " स्तन पिलानेके समय, बच्चेको—आर्नि कैमो पल्स, साइलि।
" " हठात आता है, हठात चला जाता है—बेल।
" " घूमता हुआ चलता है (Wandering)—पल्स।
" " घटना-गर्भमें—"उदर" देखिये।
" " " ऋतुके समय—मैङ्ग सिपिया, सल्फ।
" " " गेंडुरी मारकर सोनेसे या बैठनेसे (Bending double)—पिक्रोस सिपि, कोलोसि, नक्स वोम।
" " घटना—दबा रखनेसे—मैग फास, सिपिया।
" " " रक्त स्रावसे—(Flow of blood)—[illegible]।
" " " सोनेसे—हिपर, फेरम फॉस।
" " घटना झोंका मारनेसे—बेल, मैङ्ग लिलि टिग।

दर्द, जरायुमें बढना चलनेसे—बेल, ब्राइयो।

„ „ „ हिलने डोलने से—बेल, ब्राइयो, सिपि, काकि।

„ डिम्बाशयमें—एपिस, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, ऐट्रो, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, केक्ट, कौल्य, सेनक्रि, हैमा, हेलोनि, इग्ने, आइयो, केलि-बा, लैक-कै, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मार्क, नेजा, पैले, फाइटो, प्लैटि, पोडो, पल्स, रैना-ब, फ्रोडो, सिपिया, स्टैफि, सल्फ, आस्टि, जेनक्रि।

„ „ दाहिने—एपिस, आर्ज-ना, बेल, ब्राइयो, लाइको।

„ „ फैलता है दाहिने से बायें—ग्रैफा, लाइको।

„ „ बायें—आर्ज-ना, ब्रोमि, कार्बो-ऐनि, हैमा, केलि-फास, लैक, लैक-कै, लिलि-टिग, मार्क, नेजा, प्लैटि, थेरि, थूजा, आस्टि, जिङ्क।

„ „ „ फैलता है दाहिने—लैके।

„ „ ऋतुके पहिले—एपिस, बेल, कोलोसि, लैके, जिङ्क।

„ „ „ समय—एपिस, बेल, लैके, पैले, फास, प्लैटि, थूजा।

„ „ „ बाद—लैके, पैले।

„ „ घूमने फिरने से—एपिस, ब्राइयो।

„ „ प्रसवके बाद—सैमि।

„ „ सङ्गमके बाद—एपिस, प्लैटि, स्टैफि।

„ „ सूजाकके कारण (पुराना)—प्लैटि।

„ „ फैलता है ऊपरकी तरफ—सिमि, कोना, लैके, लिलि-टिग।

„ „ „ उरु तक—एपिस, आर्ज-ना, आर्स, ब्राइयो, केक्ट, कौल्को, लेक-कै, फास, पोडो, थूजा।

„ „ „ एक उरुसे दूसरे उरुतक—लैक-कै।

„ „ „ नीचेकी तरफ अङ्ग प्रत्यङ्ग होता हुआ—एपिस, पैले।

„ „ „ पीठ तक—सल्फ।

„ „ „ पुट्ठे तक (Groin)—वूफो, क्य बे।

„ घटना-ऋतुके समय—लैके।

दर्द, डिम्बाशयमें घटना, टेढ़े होनेपर, पीछेकी तरफ—लैक-कै।

„ „ „ दबा रखनेसे—पेल्से, पोडो, जिङ्क।

„ „ „ भोजन करनेसे—आइयो।

„ „ „ सोनेपर—पैल्से, थूजा।

„ „ „ „ कड़े बिछावनपर—रास-टक्स।

„ „ „ „ चित होकर—कैलि फास, रास टक्स।

„ „ „ „ दाहिनी करवट—एपिस।

„ „ „ „ बाईं करवट—कैलि-फास, पैल्से।

„ „ „ „ दर्दवाली करवट—आइयो।

„ „ „ „ घुटना उठाकर (Fixing thighs)—कोलोसि, पैल्से।

„ „ „ हिलने डोलनेसे—आइयो।

„ , बढ़ना गरम बिछौनेसे—एपिस, मार्क।

„ „ „ घूमने फिरनेसे—एपिस, आइयो।

„ „ „ झोंका लगनेसे—पैल्स।

„ „ „ हिलने डोलनेसे—कार्ब, बेल, आइयो, मेलफि, लैक-कै, पैल्से।

„ योनिमें—कैल्के-कार्ब, कैल्के-फास, ग्रैफा, कैलि कार्ब, लाइको सिपि, सल्फ।

„ „ ऋतुके पहले—कार्ब, इग्नेस।

„ „ „ समय—कार्ब नि, कैल्के।

„ „ „ रुक रुककर (Paroxysmal)—ग्रैफि।

„ „ ऋतुके समय—कार्बो-नी, कार्ब, कैल्के फास फेरम फेरम म्यु, फेरम फास, हिपर, कैलि कार्ब, क्रियो लिलियम, मैग्नम-म्यूर, प्लैटि, रास टक्स सिपिया, नक्स वम।

„ चकत्ता, दबानेसे दर्द करता है (Soreness, tenderness)—कैल्के-कार्ब कार्बोलिक, कालि, कालि बैका, हिपर, कैलि कार्ब, क्रियो लैक कै, प्लैटि, लिलि टाइग्नि, बेर्टिकि, नक्स वम सिपि।

„ „ खुजली, सुरसुरी—लैक-कै।

दर्द, अकडन जरायुमें—इस्कि, एपिस, **आर्निका**, अरम, बेल, ब्राइयो, बूफो, कैल्के, काकि, कोना, हेलोनि, लैक-कै, **लेकै**, लिलि टिग, **म्यूरे**, ओनोस, पल्स, **विरे-वि**।

" " " ऋतुके समय—ब्राइयो, कास्टि, काकि, कोना।

" " " गर्भावस्थामें—बेल, साइलि।

" " " सङ्गमके समय—**पल्स**, सिपि।

" " " **बढ़ना**-हिलने डोलनेसे—**बेल, ब्राइयो**।

" " " " कपडेके छूनेसे—**लेके**।

" " डिम्बकोषमें—ऐपिष्ट-क्रूड, एपिस, बूफो, कैन्थ, चायना, आइयो, लैक-कै, **लेके, लिलि-टिग,** नक्स-म, पैले, प्लैटि, पल्स, स्टैफि।

" " दाहिने—एपिस, ब्राइयो, आइयो, पैले।

" " " बायें—आर्ज-मे, **लेके**।

" " " ऋतुके पहले—कैलि-कार्ब, लैक-कै।

" " " " समय—एपिस, आइयो, कैलि-कार्ब।

" " " " बाद—आइयो, कैलि-कार्ब।

" " " **बढना**-घूमनेसे—ओपि, आर्निका, ब्राइयो।

" " योनिमें—**बार्बे**, काफि, हैमा, कैलि-बा, **क्रियो**, **लिसिन**, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

" " " सङ्गमके समय—बार्बे, फेरम, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, क्रियो, **लिसिन**, प्लैटि, रास-टक्स, सल्फ।

" ऐंठन (Cramping)-जरायुमें—कैक्ट, कैलेडि, कैल्के-फास, **कैमो**, काकि, कोना, जेल्स, हाइयो, इग्ने, **नक्स-वोम**, प्लैटि, पल्स **सैबाई**, सिपिया, **आस्टि**, वाइबा।

" " " आधी रातके बाद—कैलेडि।

" " " ऋतुके पहले—कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो**।

" " " " समय—बेल, **कैक्ट**, कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो**,

" " काक्कि, काफि, कोलोसि, कोन,-इग

" " " कार्ब, लैके, नक्स-वोम, प्लैटि, पल्स

दर्द, ऐंठन जरायुमें ऋतुके बाद—काक्कि, पल्स ।

" " " कुबड़ा होना पड़ता है—सिमि, नक्स-वोम ।

" " " क्रोध करने बाद—कैमो ।

" " डिम्बकोषमें—वूरको, काक्कि, नैजा ।

" कनकनी, टीसना हमेशा (Aching)-जरायुमें—केल्के-फास, व

" " डिम्बकोषमें—एपिस, क्रियो, सल्फ ।

" " " दाहिने—लैक-कै, पैले ।

" " " बायें—ब्रोमि, मेडो, पिक्रि-ए, पोडो, सिपि ।

" काट डालनेकी तरह (Cutting)—जरायुमें—कैल्के-कार्ब,
लैक-कै, म्यूरे, पल्स ।

" " ऋतुके समय—ऐसाफि, कैल्के, कास्टि, काक्कि,
कैलि-कार्ब ।

" " डिम्बकोषमें—एपिस, आर्जे-ना, बोरैक्स, कोलोसि, को
टिग, लाइको, सेवाडि, थूजा ।

" " " दाहिने—एपिस, आर्जे-ना ।

" " " " से बायें—लाइको ।

" " " बायें—पल्स, थूजा ।

" " " ऋतुके समय—एपिस, बोरैक्स, लाइको, फास ।

" " " फैलता है, उससे चलता हुआ नीचेकी
आर्जे-ना ।

" काटता है मानो, दाँतसे (Biting)—कास्टि, केलि आयो
मार्क, रास-टक्स, साइलि, सल्फ ।

" चबाता है मानो (Gnawing)—लाइको, लिलि-टिग ।

" चिलक मारना (Shooting stinging)—एपिस, आर्स
हैफि ।

दर्द, अकडन जरायुमें—इस्कि, एपिस, **आर्निका**, अरम, बेल, **ब्राइय**
बूफो, कोल्को, काकि, कोना, हेलोनि, लैक-कै, **लैके**, लिलि
टिग, **म्यूरे**, ओनोस, पल्स, **विरे-वि**।
" " " ऋतुके समय—ब्राइयो, कास्टि, काकि, कोना।
" " " गर्भावस्थामें—बेल, साइलि।
" " " सङ्गमके समय—**पल्स**, सिपि।
" " " **बढ़ना**-हिलने डोलनेसे—**बेल**, **ब्राइयो**।
" " " " कपड़ेके छूनेसे—**लैके**।
" " डिम्बकोषमें—ऐसिट-क्रूड, एपिस, बूफो, कैन्थ, चायना, आइयो
लैक-कै, **लैके**, **लिलि-टिग**, नक्स-म, पैले, प्लैटि, पल्स
स्टैफि।
" " दाहिने—एपिस, ब्राइयो, आइयो, पैले।
" " " बायें—आर्जे-मे, **लैके**।
" " " ऋतुके पहले—कौलि-कार्ब, लैक-कै।
" " " " समय—एपिस, आइयो, कौलि-कार्ब।
" " " " बाद—आइयो, कौलि-कार्ब।
" " " **बढ़ना**-घूमनेसे—ओपि, आर्निका, ब्राइयो।
" " योनिमें—**बार्ब**, काफि, हैमा, कैलि-बा, **क्रियो**, **लिसिन**,
प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।
" " " सङ्गमके समय—बार्ब, फेरम, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, क्रियो
लिसिन, प्लैटि, रास-टक्स, सल्फ।
" ऐंठन (Cramping)-जरायुमें—कौक्ट, कौलेडि, कैल्के-फास, **कैमो**,
काकि, कोना, जेल्स, हाइयो, इग्ने, **नक्स-वोम**, प्लैटि, पल्स
सैवाइ, सिपिया, **आस्टि**, वाइवा।
" " " आधी रातके बाद—कौलेडि।
" " " ऋतुके पहले—कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो**।
" " " " समय—बेल, **कौक्ट**, कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो**,

काकि, काफि, कोलोसि, कोन, इग्ने, केलि-
कार्ब, लैके, नक्स-वोम, प्लैटि, पल्स।

दर्द, ऐंठन जरायुमें ऋतुके बाद—कालि, पल्स।

„ „ „ कुबड़ा होना पड़ता है—सिमि, नक्स-वोम।

„ „ „ क्रोध करने बाद—कैमो।

„ „ डिम्बकोषमें—ब्रूफो, कालि, नैजा।

„ कनकनी, टीसना हमेशा (Aching)-जरायुमें—कैल्के-फास, कोना।

„ „ डिम्बकोषमें—एपिस, क्रियो, सल्फ।

„ „ „ दाहिने—लैक-कै, पैले।

„ „ „ बायें—ब्रोमि, मेडो, पिक्रि-ऐ, पोडो, सिफि।

„ काट डालनेकी तरह (Cutting)-जरायुमें—कैल्के-फास, काकि, लैक-कै, म्यूरे, पल्स।

„ „ ऋतुके समय—ऐसाफि, कैल्के, कास्टि, काकि, कोलोसि कैलि-कार्ब।

„ „ डिम्बकोषमें—एपिस, आर्ज-ना, बोविस्टा, कोलोसि, कोना, लिलि-टिग, नाइको, मैगाडि, थूजा।

„ „ „ दाहिने—एपिस, आर्ज ना।

„ „ „ „ से बायें—लाइको।

„ „ „ बायें—पल्स, थूजा।

„ „ „ ऋतुके समय—एपिस, बोविस्ट, लाइको, फास।

„ „ „ फैलता है, उरूमें चलता हुआ नीचेकी तरफ—एपिस, आर्ज ना।

„ काटता है मानो, दांतसे (Biting)—कालि, केलि फास्फो, क्रियो, लाक, लाग टफ्स, माइलि, मल्फ।

„ चबाता है मानो (Gnawing)—लाइको लिलि टिग।

„ चिलक मारना (Shooting stitching)—एपिस, आर्ज, कैलि कार्ब, ग्रेफि।

„ „ जरायुमें—एपिस, कैल्के फास।

„ „ डिम्बकोषमें—एपिस, लिलि-टिग, सिपिया।

दर्द, अकड़न जरायुमें—इस्क्रि, एपिस, **आर्निका,** आरम, वेल, **ब्राइया,** बूफो, कैल्के, काकि, कोना, हेलोनि, लैक-कै, **लैके,** लिलि टिग, **सूरे,** ओनोस, पल्स, **विरे-वि**।

,, ,, ,, ऋतुके समय—ब्राइयो, कास्टि, काकि, कोना।

,, ,, ,, गर्भावस्थामें—वेल, साइलि।

,, ,, ,, सङ्गमके समय—**पल्स,** सिपि।

,, ,, ,, **बढ़ना**-हिलने डोलनेसे—**वेल, ब्राइयो**।

,, ,, ,, ,, कपड़ेके छूनेसे—**लैके**।

,, ,, डिम्बकोषमें—ऐपिट-क्रूड, एपिस, बूफो, कैन्थ, चायना, आइयो, लैक-कै, **लैके, लिलि-टिग,** नक्स-म, पैले, प्लैटि, पल्स, स्टैफि।

,, ,, दाहिने—एपिस, ब्राइयो, आइयो, पैले।

,, ,, ,, बायें—आर्जे-मे, **लैके**।

,, ,, ,, ऋतुके पहले—कैलि-कार्ब, लैक-कै।

,, ,, ,, ,, समय—एपिस, आइयो, कैलि-कार्ब।

,, ,, ,, ,, बाद—आइयो, कैलि-कार्ब।

,, ,, ,, **बढ़ना**-घूमनेसे—ओपि, आर्निका, ब्राइयो।

,, ,, योनिमें—**बार्बे,** काफि, हैमा, कैलि-बा, **क्रियो, लिसिन,** प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

,, ,, ,, सङ्गमके समय—बार्बे, फेरम, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, क्रियो, **लिसिन,** प्लैटि, रास-टक्स, सल्फ।

,, ऐंठन (Cramping)-जरायुमें—कैक्ट, कैलेडि, कैल्के-फास, **कैमो,** काकि, कोना, जेल्स, हाइयो, इग्ने, **नक्स-वोम,** प्लैटि, पल्स, **सैबाई,** सिपिया, **आस्टि,** वाइवा।

, ,, ,, आधी रातके बाद—कैलेडि।

,, ,, ,, ऋतुके पहले—कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो**।

,, ,, ,, ,, समय—वेल, **कैक्ट,** कैल्के-फास, कास्टि, **कैमो,**

दर्द, ठेलने जैसा मालूम होना, नीचेकी तरफ (Bearing down), जरायु, और उसके प्रदेशमें (Uterus and region of)—**ऐगा**, ऐसिट-क्रूड, ऐसिट-टा, एपिस, बेल, केल्के, कार्बो-ऐनि, **कैमो**, चायना, सिमि, कोना, फेरम, फेरम-आइ, ग्रेफा, आइयो, क्रियो, लैक-कै, लिलि-टिग, मैङ्ग, **म्यूरे**, नेट्रम कार्ब, **नेट्रम-हो**, **नेट्रम-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पैने, **प्लेटि**, पोडो, **सेबाई**, **सिके**, साइलि, **स्टैनम**, सल्फ।

„ „ सवेरे—बेल, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम।

„ „ तीसरे पहर—**सिपि**।

„ „ रातमें बिछावनपर—**सल्फ**।

„ „ „ आधी रातके बाद—बोवि।

„ „ उठानेके बाद भारी वस्तु—ऐगा।

„ „ ऋतुके पहले—एपिस, बेल, कैल्के-फास, चायना, सिना, कोना, फास, प्लैटि, सिपि, साइला।

„ „ „ समय—ऐगा, ऐसाफि, बेल, कैल्के-फास, चायना, सिमि फेरम, ग्लूनस, कैलि फास, लैके **लिलि-टिग**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, प्लैटि, पोडो, पल्स, सिके, **सिपि**, सल्फ।

„ „ पाखाना फिरते समय—बेल पोडो स्टैनम।

„ „ „ खाँसनेके साथ—कोना, कर्बो, नक्स वोम।

„ „ पेशाब करते समय वेग देनेसे—पैने **सिपि**।

„ „ बाहर निकल पड़ेंगे, मानो भीतरके सब पदार्थ (As if every thing will come out)—बेल, क्रियो लैके, लिलि-**टिग**, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यू नाइट्रि-ऐ प्लैटि पोडो सिपि।

„ „ „ पाखाना फिरनेके पहले—नेट्रम कार्ब।

„ „ „ „ समय—पोडो।

„ „ खाँसते पेट पकड़ रखना है ([illegible])—बेल, लिलि टिग, म्यूरे, सिपि।

दर्द, चिलक मारना डिम्बकोषमें सङ्गमके बाद—एपिस।
" जलन (Burning)—ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बोनिस, कार्बो-वेज, कास्टि, फेरम, ग्रेफा, हेलोनि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, क्रियो, लिलि-टिग, मार्क, मार्क-कोर, **नाइट्रि-ए**, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, पल्स, सेबाइ, साइलि, सल्फ।
" " ऋतुके पहले—कैल्के, कार्बो-वेज, सिपिया।
" " " समय—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-वेज, कैलि-कार्ब, क्रियो, साइलि।
" " पेशाब करते समय—ऐम्ब्रा, कास्टि, **क्रियो**, सल्फ।
" " **घटना**-सोनेसे—बार्बे।
" " **बढ़ना**—
" " " घूमनेसे—बार्बे, थूजा।
" " " हिलने डोलनेसे—आर्स।
" " जरायुमें—आर्ज-नाइ, बेल, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कोना, क्रियो, लैके, लाइको, नक्स वोम, सिके।
" " डिम्बकोषमें—**एपिस, आर्स**, बेल, ब्रूफो, कैन्थ, इयुपि, कैलि-आइ, लैक-कै, **लैके**, लिलि-टिग, प्लैटि, सिपि, थूजा।
" " " दाहिने—एपिस, बेल।
" " " बायें—लैके।
" " " बार बार (Paroxysmal)—प्लैटि।
" " " सङ्गमके बाद—**एपिस**।
" " योनिमें—बेल, **बार्बे**, कैल्के-फास, कैन्थ, कैमो, चेलिडो, ग्रेफा, कैलि-बा, क्रियो, मार्क, **नाइट्रि-ए**, पेट्रो, पल्स, सल्फ।
" " " ऋतुके पहले—इग्ने, सल्फ।
" " " " समय—बार्बे, ग्रेफा, नक्स-वोम, सल्फ।
" " " " बाद—बार्बे, ग्रेफा, क्रियो, लाइको, सल्फ।
" " " घूमनेके समय—थूजा।
" " " सङ्गमके समय—क्रियो, लाइको, सल्फ।
" " " " बाद—क्रियो, लाइको।

दर्द, ठेलने जैसा मालूम होना, नीचेकी तरफ (Bearing down), जरायु, और उसके प्रदेशमें (Uterus and region of)—**ऐगा,** ऐग्रिट-क्रूड, ऐग्रिट-टा, एपिस, **बेल,** केल्के, कार्बो-ऐनि, **केमो,** चायना, सिमि, कोना, फेरम, फेरम-आई, ग्रेफा, आइयो, क्रियो लैक-कै, लिलि-टिग, मैङ्ग, **मूरे,** नेट्रम कार्ब, **नेट्रम-हो, नेट्रम-म्यू,** नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पैले, **प्लेटि,** पोडो, **सेबाई, सिके,** साइलि, **स्टैनम,** सल्फ।

" " सवेरे—**बेल, नेट्रम-म्यूर,** नक्स-वोम।

" " तीसरे पहर—**सिपि।**

" " रातमें बिछावनपर—**सल्फ।**

" " " आधी रातके बाद—बोवि।

" " उठानेके बाद भारी वस्तु—ऐगा।

" " ऋतुके पहले—एपिस, बेल, केल्के-फास, चायना, सिना, कोना, फास, प्लेटि, सिपि, साइवा।

" " " समय—ऐगा, ऐमाफि, **बेल,** केल्के-फास, चायना, सिमि फेरम, जेल्स, कैलि फास, लैक **लिलि-टिग,** नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ए, प्लेटि, पोडो, पल्स, सिकि, **सिपि,** सल्फ।

" " पाखाना फिरते समय—बेल पोडो, स्टैनम।

" " " खांसनेके साथ—कोना, फर्रा, नक्स वोम।

" " पेशाब करते समय बेग देनेसे—बेल, **सिपि।**

" " बाहर निकल आवेंगे ऐसा भीतरके सब पदार्थ (As if every thing will come out)—बेल, क्रियो लैक-कै, लिलि-**टिग,** नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-ह्रो नाइट्रि-ए, प्लेटि पोडो सिपि।

" " " पाखाना फिरनेके पहले—नेट्रम कार्ब।

" " " " समय—पोडो।

" " बायें पेट पकड़ रखना है ([illegible])—बेल लिलि टिग, म्यूरे, सिपि।

दर्द, ठेलने जैसा मालूम होना, नीचेकी तरफ **घटना**-उरुके ऊपर उरु रखनेसे (Crossing limbs)—**लिलि-टिग, सिपि।**

" " " दबावसे योनिपर (Pressing on vagina)—बेल, **लिलि-टिग, म्यूरे, सिपि।**

" " " भोजन करनेसे—सिपि।

" " " सोनेसे—सिपि।

" " " " बाई करवट—लेके।

" " **बढ़ना**--घूमने फिरनेसे—बेल, चायना, **नेट्रम-हो, फास, सिपि।**

" " " सोनेसे—पल्स।

" दबा रखनेकी तरह (Pressing)-ऋतुके पहले—क्रोकस।

" " " समय—**बेल**, प्लैटि, सिपिया, सल्फ।

" " जरायुमें—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, **बेल**, काकि, लिलि-टिग, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, प्लैटि, पल्स, सिके, सिपिया।

" " डिम्बकोषमें—आर्स, आइयो, **लेकि**, लिल-टिग, सिपिया।

" " " दाहिने—आर्स।

" " " बायें—लेके।

" " योनिमें—बेल, कैल्के, लिलि-टिग, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपिया, आस्टि।

" " " ऋतुके समय—बेल, लैके, लिलि-टिग, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, प्लैटि, सिपिया।

" प्रसव (Labour pain)—कौलो, सिमि, जेल्स, पल्स।

" " अधैर्यकर डालता है—अरम, कैमो।

" " अनियमित (Irregular)—कौलो, काफि, नक्स-म, **पल्स।**

" " आक्षेपिक (Spasmodic)—बेल, ब्राइयो, **कौलो, कास्टि, कैमो,** सिमि, **जेल्स, हाइयो,** इपि, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, **पल्स,** सिके, सिपि।

" " नहीं रहता (Suppressed and wanted)—कौलो, पल्स।

दर्द, प्रसव नर्म, दुर्बल, मृदु (Weak)—बेल, कार्बोनि-स, कार्बो वेज, कोली, कास्टि, कैमो, सिमि, जेल्स, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, रुटा, सिकी, थूजा।

" " निष्फल (In effectual pain)—कास्टि, काफि, कैलि कार्ब, पल्स, थास्टि।

" " पाल्पीट या झूठा दर्द (False)—बेल, कोक्को-कार्ब, कोलोसि, कैमो, सिमि, सिनेशा, कोना, जेल्स, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, ओपि, पल्स।

" " प्रबल, बहुत (Excessive)—बेल, कैमो, काफि, नक्स-वोम, सिपि।

" " पाखाना आनेकी इच्छाके साथ—नक्स-वोम।

" " बहुत देरतक रहने वाला (Prolonged)—सिनेशा, पल्स, सिकि।

" " मूर्च्छाके साथ—सिमि, नक्स-वोम, पल्स।

" " यन्त्रणादायक (Distressing)—कोनो, कैमो, काफि, जेल्स, कैलि-कार्ब, सिपि।

" " रुक जाता है (Ceasing)—बेल, बोरा, कैम्फ, कार्बो वेज, कोलो, कास्टि, कैमो, सिमि, काफि, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, ओपि, पल्स, सिपि थूजा।

" " रुक रुककर (Interrupted)—कोलोसि, नेट्रम म्यूर, प्लैटि।

" " फैलता है जहाँ—कैलि-कार्ब, नाइ मेर-रू।

" " " ऊपरकी तरफ—बोरा, कोक्कू, कैमो।

" प्रसव दर्दकी तरह (Labour like)—[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कैमो, सिमि, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], जेल्स, [illegible], कैलि-कार्ब, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], प्लैटि, पल्स, [illegible], [illegible], [illegible], सिकी, सिपि, [illegible], [illegible], [illegible]।

दर्द, प्रसवके दर्दकी तरह ऋतुके पहले—एपिस, बेल, बोवि, कैल्के-फास, कैमो, डिजि, हाइयो, सिपि।

" " " समय—ऐकोन, ऐलोद्रि, ऐमोन-कार्ब, बेल, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कास्टि, **कैमो**, सिमि, कोना, साइक्ला, जेल्स, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-कार्ब, लिलि-टिग, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, सिके, सिपि, सल्फ।

" " " पाखाना जानेके समय—नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।

" " फैलता है उरुमें—ऐलोज, कैमो।

" " " दाहिनेसे बायें—लाइको।

" " " पीठ और कमरमें—**जेल्स**।

" प्रसवान्तिक दर्द (सन्तान होनेके बादका दर्द-after pains)—**आर्नि**, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कैमो**, सिमि, काफि, कोना, **क्यूप्रम**, फेरम, इग्ने, **कैलि-कार्ब**, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पोडो, **पल्स**, **रास-टक्स**, रूटा, **सेबाइ**, सिपि, सल्फ, वाइबा।

" " स्तन पिलानेके समय (When nurses child)—आर्नि, कैमो, पल्स, **साइलि**।

" फाड डालता है मानो (Tearing)—बैरा-कार्ब, कार्बो-ऐनि, कैलि-कार्ब, फास।

" " चिल्लाता रहता है—बेरा-कार्ब।

" " जरायुमें—आर्जे ना, कैमो।

" " " ऋतुके समय—ऐमोन कार्ब, बेल, कास्टि, पल्स, सिपिया, सल्फ।

" सङ्कोचन (Contraction, Constriction)-जरायुका—**बेल**, लाइको, प्लम्ब, पल्स।

" " ऋतुके समय—ऐगा, बेल, **कैक्ट**, स्टैफि।

" " डिम्बकोषमें—कैक्ट, पल्स।

" " योनिमें—**कैक्ट**, प्लैटि, पल्स।

दर्द, सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—आर्स, बेल, बोरा, कैल्के, कोना, कैलि-कार्ब, फास ।

" " जरायुमें—ऐकोन, एपिस, आर्ज ना, बेल, कोना, फेरम, कैलि-कार्ब, लैक-के, मार्क, म्यूरे, सिपि ।

" " " एक तरफसे दूसरी तरफ तक—सिमि ।

" " " घूमने फिरनेसे—आर्ज-ना, बेल ।

" " " फैलता है पीठ होकर ऊपरकी तरफ (Up back)—जेल्स ।

" " डिम्बकोषमें—ऐम्ब्रा, एपिस, आर्स, बेल, ब्रायो, बूफो, कैन्थ, कोलोसि, लैके, लाइको, मैग-फास, प्लैटि, पोडो, सिपि, स्टैफि, वाइवा ।

" " " दाहिने—आर्स, बेल, लाइको, प्लैटि, पोडो ।

" " " " से बायें तक—लाइको ।

" " " बायें—लैके ।

" " " " घटना-चित होकर सोनेसे—कैलि फास ।

" " " ऋतुके पहले—पोडो ।

" " योनिमें—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, बेल क्रियो, नाइट्रि ए, सेबाइ, सिपि ।

" " " ऋतुके समय—कोना, थेफा ।

" " " खड़े रहनेसे—नाइट्रि ए ।

" " " घूमनेसे—नाइट्रि-ए ।

" " " फैलता है ऊपरकी तरफ—नाइट्रि-ए ।

पसीना (Perspiration)—मास्को, मार्क, पेट्रो, सल्फ, थूजा ।

प्रदर (Leucorrhoea)—एक्न, एलम, एलेट्रि, एलूमि, एलोमिन म्यूर, आर्ज नाइट आर्स, आर्स-आयो, ऑरम म्यूर, बैरा कार्ब बेल म्यू, बोरा, बोवि कैल्के, कैल्के-फास कैल्के-स, कार्बो-एनि, कार्बोलि-स, कार्बो वेज कास्टि, कालो चिमि पा, सिमि, सिमेसि फाइ, ककि, कोना कोपे चिन, लाइको, फाइटो, फेरि-फा, फेरि फा, फेरि कार्ब, फेरि फो, फेरि फास फेरि

फास, कैलि-स, लैक-कै, लैके, लाइको, मैग-म्यूर, **मार्क**, मार्क-कोर, **मूर-ऐ**, नेट्रम-आ, नेट्रम-कार्व, **नेट्रम-मूर**, नेट्रम-फास, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-म, ओरिगे, पैले, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, पोडो, सोरि, **पल्स**, सेवाइ, सार्सा, **सिपि**, माइलि, स्टैनम, **सल्फ**, सल्फ-ऐ, टैरे, थूजा, जिङ्क।

प्रदर, दिनमें बहुत कम—ऐलूमि, प्लैटि, सिपि।

" सवेरे—अरम, अरम-म्यूर, वेल, कैल्के, कार्बो-वेज, ग्रैफा, क्रियो, मैग-म्यूर, **सिपि**, सल्फ।

" रातमें—कार्बो-वेज, कास्टि, कोना, **मार्क**, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

" ऋतुके पहले—ऐलूमि, वैरा-कार्व, **वोवि**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, सिङ्को, काकि, **क्रियो**, लैके, नेट्रम-म्यूर, पैले, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, माइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " समय—काकु, आइयो, मैग-म्यूर।

" " बाद—ऐलूमि, आर्स-आई, वोरा, **वोवि**, **कैल्के**, **कैल्के-फास**, कार्बो-वेज, कैमो, कोना, ड्युपे, ग्रैफा, हाइड्रो, क्रियो, मैग-का, नेट्रम-फास, निको, नाइ-ऐ, फास, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, रूटा, साइलि, सल्फ।

" " बदलेमें—आर्स, सिङ्को, सेनक्रि, चायना, काकि, ग्रैफा, नक्स-म, फास, सिपि, साइलि, जिङ्क।

" " मध्यमें—**कैल्के**, काकु, इपि, क्रियो, सिपि।

" कामोत्तेजनाके कारण (From sexual excitement)—कैन्थ, पल्स।

" खाल उधेड़नेवाला (Excoriating acrid)—ऐगा, **ऐलूमि**, ऐमोन-कार्व, **वोरा**, वोवि, कैल्के, कैल्के-स, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, चेलिडो, कोना, **फेरम**, **फेरम-आ**, फेरम-आइ, फेरम-फास, फ्लू-ऐ, **ग्रैफा**, हिपर, आइयो, कैलि-आ, कैलि-क्लो, कैलि-आइ, कैलि-फास, **क्रियो**, लैके, लिलि-टिग, लोबे, **लाइको**,

मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, पल्स, सेबाइ, सिपि, साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

प्रदर, गर्भावस्थामें—कार्बि, क्रियो, म्यू रे, पल्स, सिपियो।

„ गाढा (Thick)—आर्स, आर्स आयोड, ऐसार, अरम, बोरैक्स, बोवि, कैल्के, कार्बो-वेज, कोना, हाइड्रो, आइयो, कैलि वा, मैग-म्यू, नेट्रम-म्यू, नेट्रम कार्ब, फाइटो, पोडो, पल्स, सेबा, सिपिया, सल्फ, जिङ्क।

„ चिपचिपा (Tenacious, Stringy, Ropy)—ऐसार, बोरा, कार्षि, क्रोकस, ग्रेफा, हाइड्रो, कैलि-बा, नेट्रम-का, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, सेबाइ।

„ जलन भरा—ऐमोन-कार्ब, आर्स, आयोड, बोरेक्स, कैल्के, कैल्के-स, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि स, कार्बो वेज, कोना, फ्लू-ऐ, कैलि फास, क्रियो, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिपिया, सल्फ, सल्फ-ऐ।

„ डिम्ब (अण्डाके) सफेद भागकी तरह (Albuminous)—ऐमोन-म्यू, बोरेक्स, बोवि, कैल्के फास, मेजे, नेट्रम म्यू, पेट्रो, प्लैटि, पोडो, सिपिया, स्टैनम, सल्फ-ऐ।

„ ढेला ढेला (Lumps)—ऐण्टि क्रूड, बोवि, मार्क, सिपिया।

„ दुर्गन्धसे भरा हुआ (Offensive)—आर्ज नाइट, आर्स, कार्बो-ऐनि, कार्ब-ऐ, चायना गुयाकि, कैलि-आ, क्रियो, नाइट्रम आर्स, नेट्रम कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मोस, सोरि, पाइरो सेबाइ, सैंगु, सिके, सिपिया, साइलि, सल्फ, थ्युजा।

„ दुर्गन्धकारी—कैल्के, कार्षि ग्रेफा, ऐमोनि आइयो, क्रियो, मेटम-सृा, पेट्रो, फास ऐ, स्टैनम।

„ प्रचुर (Copious)—ऐलम ऐलुमि, ऐमोन कार्ब [illegible] आर्जेण्ट नाइ, आर्स आर्स आयो, [illegible] [illegible] कार्ब, कैल्के, कार्बो वे, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ग्रेफा, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]

फास, कैलि-स, लैक-कै, लेकै, लाइको, मैग-म्यू र, **मार्क**, मार्क-कोर, **म्यू-ऐ**, नेट्रम-आ, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-फास, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-म, ओरिगै, पैले, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, पोडो, सोरि, **पल्स**, सेबाइ, सार्मा, **सिपि**, साइलि, स्टैनम, **सल्फ**, सल्फ-ऐ, टैरे, थूजा, जिङ्क ।

प्रदर, दिनमें बहुत कम—ऐलूमि, प्लैटि, सिपि ।

" सवेरे—आरम, आरम-म्यू र, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, ग्रैफा, क्रियो, मैग-म्यू र, **सिपि**, सल्फ ।

" रातमें—कार्बो-वेज, कास्टि, कोना, **मार्क**, नेट्रम-म्यूर, सल्फ ।

" ऋतुके पहले—ऐलूमि, बैरा-कार्ब, **बोवि**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, सिङ्को, काकि, **क्रियो**, लेकै, नेट्रम-म्यूर, पैले, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ, जिङ्क ।

" " समय—काकु, आइयो, मैग-म्यू र ।

" " बाद—ऐलूमि, आर्स-आइ, बोरा, **बोवि**, **कैल्के**, **कैल्के-फास**, कार्बो-वेज, कैमो, कोना, इयुपे, ग्रैफा, हाइड्रो, क्रियो, मैग-का, नेट्रम-फास, निको, नाइ-ऐ, फास, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, रूटा, साइलि, सल्फ ।

" " बदलेमें—आर्स, सिङ्को, सैनकि, चायना, काकि, ग्रैफा, नक्स-म, फास, सिपि, साइलि, जिङ्क ।

" " मध्यमें—**कैल्के**, काकु, इपि, क्रियो, सिपि ।

" कामोत्तेजनाके कारण (From sexual excitement)—कैन्थ, पल्स ।

" खाल उधेड़नेवाला (Excoriating acrid)—ऐगा, **ऐलूमि**, ऐमोन-कार्ब, **बोरा**, बोवि, कैल्के, कैल्के-म, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, चेलिडो, कोना, **फेरम**, **फेरम-आ**, फेरम-आइ, फेरम-फास, फ्लु-ऐ, **ग्रैफा**, हिपर, आइयो, कैलि-आ, कैलि-क्लो, कैलि-आइ, कैलि-फास, **क्रियो**, लैके, लिलि-टिग, लोबे, **लाइको**,

प्रदर, रङ्ग सफेद—कैलि-आयोड, क्रियो, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यू, पेट्रो, प्लैटि, पोडो, पल्स, सिपिया, स्टैनम, सल्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

„ „ „ लेकिन कपडेमें पीला दाग लगता है—(Stains linen yellow)—चेलि।

„ „ „ दूध की तरह (Milky)—ऐमोन-कार्ब, बोरैक्स, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कोना, फेरम, कैलि-क्लोर, क्रियो, फास, पल्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, सब्बल।

„ „ साफ (Transparent)—ऐम्ब्र मि, ऐमोन म्यू, बरम, बोरैक्स, बोवि, कैल्के-फास, कास्टि, मेजे, नेट्रम-म्यू, पेट्रो, प्लैटि, पोडो, सिपिया, स्टैनम, सल्फ-ऐ।

„ „ पीला (Yellow)—इस्कि, ऐम्ब्र मि, ऐम्ब्र, आर्ज मेट, आर्ज-ना, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसैर, बरम, बरम म, ब्यूफो, कैल्के, कैल्के म, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कैमफ, चेलि, ग्रेफा, हाइड्रो, आइयो, कैलि-आयोड, कैलि फास, कैलि स, कैम्लि, क्रियो, मेक डि, लिलि टिग, माइयो, मार्क, मार्क-भा-पर्प, म्यू ऐ, नेट्रम भा, नेट्रम कार्ब, नेट्रम फास, मक्स मोस, पेलि, फास ऐ, पल्स, सेबाइ, सिपिया, सल्फ, सिफि, जिङ्क।

„ „ हरी आभा लिये हुए (Greenish)—आर्ज ना, ऐसाफि बोवि कार्बो ऐ, कार्बो-वेज, कैलि आयोड, कैलि फास कैलि स, मेक, मार्क, म्यू ऐ, नेट्रम कार्ब नेट्रम-म्यू, नेट्रम स, नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

„ लसलसा—(आमकी तरह Jelly like)—ग्रेफा हैमा सिलि।

„ ऐंठन साथ (Gushing)—कैल्के, कालि [illegible] ग्रेफा, माइको, सिपिया, साइलि।

कार्बं, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, ओनोस, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, सेबाइ, सिके, **सिपि**, साइलि, **स्टेनम**, सल्फ, सिफि।

प्रदर, पतला, जलकी तरह (Thin watery)—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-मेट, आर्स, ऐसाफि, व्यूफो, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, फेरम, **ग्रैफा**, केलि-आई, क्रियो, लैक-कै, लिलि-टिग, लोवे, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, म्यूरे, नेट्रम-फास, **नाइट्रि-ऐ**, ओलि-ऐ, फास, फास-ऐ, **पल्स**, सिके, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ पीवकी तरह (Purulent)—ऐलूमि, आर्जेण्ट-मे, चायना, इग्ने, केलि-सल्फ, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, सेबाइ, **सिपि**।

„ बालिकाओंका—थोडी उम्रवाली (Little girls)—कैल्के, कैना-सै, क्यूबे, **मार्क**, पल्स, **सिपिया**।

„ मक्खनकी तरह, सड़ा—**ह्विपर**, सैनि।

„ रङ्ग (Colour) कालिमा लिये हुए (Dark)—इग्नि, क्रोकस-सै, क्रियो, सिके।

„ „ भूरा पीला (Brown)—ऐमोन-म्यू, **लिलि-टिग**, **नाइट्रि-ऐ**, सिके, साइलि।

„ „ „ दाग लगता है कपडेमें (Stains linen)—लिलि-टिग, **नाइट्रि-ऐ**।

„ „ मटीला (Gray)—आर्जेण्ट-मेट।

„ „ मासकी तरह (Flesh coloured)—ऐलूमि, नाइट्रि-ऐ।

„ „ लाल (Bloody)—ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, आर्स, आर्स-आयोड, बेरा-कार्ब, **कैल्के**, **चायना**, **काकि**, कोना, आइयो, क्रियो, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, **नाइट्रि-ऐ**, फास, **सिपिया**, साइलि, सल्फ-ऐ, टेरि, ह्निलि।

„ „ सफेद (White)—ऐलूमि, ऐमोन-म्यू, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, अरम, बोरेक्स, बोवि, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कोना, फेरम, जेल्स, **ग्रैफा**, कैलि-क्लोर।

प्रदाह, डिम्बकोषका सूजाक रुककर (Suppressed gonorrhoea)—कैन्थ।

" योनिमें—ऐकोन, वेल, काक्क, क्यूरा, हैगा, मार्क, नाइ-ऐ।

प्रसवके बादका स्राव (Lochia)-ज्यादा दिन रहनेवाला (Protracted)—कैल्के, कार्बोनि-ए, क्रियो, नेट्रम-म्यूर, प्लेटि, रास-टक्स, सिके, सिनि, सिपि, सल्फ।

" कालिमा लिये हुए (Dark)—कैमो, चायना, क्रोकस, क्रियो, प्लेटि, सिकी।

" खाल उधेड़नेवाला—कार्बो-ऐनि, क्रियो, पाइरो, सिपि, साइलि।

" थक्का थक्का (Lumpy)—सिपि, क्रियो।

" थोड़ा परिमाण (Scanty)—वेल, कोलोसि, नक्स-मोस, पल्स, सिके, सल्फ।

" दुर्गन्धसे भरा हुआ, सड़ा (Offensive putrid)—वैप्टी, ब्रायो कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, चायना, कैलि-फास, क्रियो, पाइरो, रास-टक्स, सिके, सिपि, सल्फ।

" दुबारा पैदा होना (Returning) -कैल्के, क्रियो, सोरि पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" दूधकी तरह (Milky)—कैल्के, पल्स, सिपि।

" पतला (Thin)—कार्बो-वेज, पाइरो, रास टक्स, सिके।

" प्रचुर (Copious)—कैमो, कोना, क्रोकस नेट्रम-कार्ब, प्लेटि, रास-टक्स, सिके, सल्फ, थाजि।

" भूरे रङ्गका—कार्बो वेज, क्रियो सिके।

" रक्तकी तरह (Bloody)—ऐकोन, ब्रायो, कैल्के, कोनो कैमो, रास-टक्स, ट्राइलि।

" रुका हुआ (Suppressed)—ब्रायो, कैम्फ कैमो कलका, सिमि, डल्कम, हायो नक्स मोस पल्स, पाइरो, सिके स्ट्रैमो सल्फ।

" " [illegible]—ऐकोन, ब्रायो, सिमि, डल्कम, पाइरो, सल्फ।

प्रदर, श्वेतसार, सिभानेकी तरह (Boiled starch)—**बोरैक्स, नेट्रम-म्यूर, सेबाई।**

„ सोनेकी अवस्थामें—**पल्स।**

„ हस्तमैथुनके लिये—कैल्य, प्लैटि, **पल्स।**

„ **बढ़ना**-घूमने फिरनेसे—इस्कि, अरम, बोवि, कार्बो-ऐनि, ग्रैफा, नेट्रम-म्यूर, सार्सा, सिपि, सल्फ।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, एपिस, **आर्स,** ऐसाफि, बेल, बैल्को, काक, फेरम-फास, कैलि-कार्ब, **ब्रायो,** लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, पेट्रो, **रास-टक्स,** सिपि, थूजा।

„ जरायुका—ऐकोन, ऐग्ना, **एपिस,** आर्नि, **आर्स,** अरम, अरम-म्यूर, **बेल,** ब्रायो, कैक्ट, **कैन्थ,** कार्बो-ऐनि, कैमो, काकि, **कोना,** हैमा, हाइयो, **लैक-कै, लैके, लाइको,** मार्क, फास, **पल्स,** रास-टक्स, सैबाडि, **सैबाइ, सिके,** सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, **टैरि,** विरे, विरे-वि।

„ „ इन्द्रिय सेवाकी वजहसे-ज्यादा (After sexual excesses)—सैबाई, सिके।

„ „ प्रसवके बाद—सैबाई, सिके।

„ „ रक्तस्रावके बाद—चायना।

„ डिम्बकोषका—ऐकोन, ऐरिट-क्रूड, **एपिस, बेल,** ब्रायो, कैक्ट, कैन्थ, चायना, गुयेज, लैके, लैक-कै, लिलि-टिग, **लाइको, मार्क,** पैले, **फास,** फास-ऐ, फाइटो, प्लैटि, **पोडो,** पल्स, **सैबाई,** सिके, थूजा, विरे-वि।

„ „ दाहिने—एपिस, आर्ज-मेट, बेल, ब्रायो, आइयो, **लाइको,** पैले, पोडो।

„ „ बायें—लैके, थूजा।

„ „ ऋतु बन्द होकर एकाएक (Menstrual flow suddenly checked)—**ऐकोन,** पल्स।

फूल न गिरना (Placenta retained) ऐग्ना, आर्स, बेल, कैन्थ, कौलो, पल्स, सैवाइ, सिकि, **सिपि**।

बालोंका झड़ना (Hair falling out)—**नेट्रम म्यूर**, नाइट्रि-ऐ, सिलि, सल्फ, जिङ्क।

बाहर निकल पड़ता है (Prolapsus) जरायु—इस्कि, ऐलेट्रि, ऐलो, ऐलूमि, एपिस, **आर्ज-मेट**, **आर्ज-नाइ**, आर्नि, **ओरम**, बेल, बेञ्जो-ऐ, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-ऐ, चायना, कोना, फेरम, फेरम-आयोड, ग्रैफा, हेलोनि, कैलि-या, कैलि-कार्ब, लैके, **लिलि-टिग**, लिसिन, म्युरे, **नेट्रम-हा**, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, प्लेटि, पोडो, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाइ, सिके, साइलि, सल्फ, **स्टैनम**, यूशा।

„ „ उठानेके कारण भारी वस्तु—ओरम, कैल्के, पोडो, रास-टक्स।

„ „ ऋतुके समय—ओरम, कैल्के-फास, सिमि, लैके, लिलि टिग, **पल्स**, **सिपि**।

„ „ कुबड़ी होकर चलती है—एमोन म्यू, आर्नि।

„ „ प्रसवके बाद (After confinement)—बेल, हेलोनि, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सिपि।

„ „ पाखाना जानेके समय—कैल्के, नक्स वोम, स्टैनम।

„ „ **घटना**, जांघके ऊपर जांघ रखनेसे (Crossing limbs)—लिलि-टिग, म्यूरे, सिपि।

„ „ „ सोनेसे—नेट्रम-म्यूर, सिपि।

„ „ „ मद्दनसे—सार्क।

„ योनिका—फेरम, क्रियो, लैके, मार्क, नक्स म, सिपि, स्टैनम, सल्फ।

„ „ गर्भावस्थामें—फेरम।

भारी मालूम होना जरायुमें—एपिस, बेल, कैल्के, **चायना**, हेलो, म्यूरे, नक्स-वोम, **सिपि**।

„ डिम्बकोषमें—**एपिस**, कार्बो एनि, प्लेटि, सिपि।

भ्रूणके हिलने डोलनेसे शिकायत मालूम होना—आर्नि।

प्रसवके बादका स्राव, रुका हुआ डरकर—ऐकोन, इग्ने, ओपि।

„ लाल (Red)—ऐकोन, ब्राइयो, कैल्के, चायना, सोरि, साइलि, सल्फ।

„ रुक रुककर—कैल्के, क्रियो, प्लैटि, रास-टक्स।

फूलन (Swelling)—ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्स, ऐसाफि, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, फेरम-आयोड, ग्रैफा, हेलोनि, **क्रियो**, **लैके-कै**, लिलि-टिग, मार्क, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ**, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपि, थूजा, आर्टि।

„ गर्भावस्थामें—मार्क, पोडो।

„ जरायुमें—ऐग्ना, आइयो, लिलि-टिग।

„ ग्रीवामें (Cervix)—आइयो, क्रियो, नेट्रम-म्यूर।

„ डिम्बकोषमें—ऐलूमि, एपिस, आर्स, ब्रोमि, ब्यूफो, कार्बो-ऐ, कोलोसि, ग्रैफा, आइयो, कैलि-बा, लैके, **लिलि-टिग**, पैले।

„ „ दाहिने—एपिस, लैके, पैले।

„ „ बायें—ब्रोमि, **लैके**, **लिलि-टिग**, नेट्रम-हा।

„ योनिमें—ऐग्ना, क्यूरा, फेरम-आयोड, आइयो, क्रियो, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम।

„ „ क्षुद्र भगोष्ठमें (Labia minora)—एपिस, चिनि-स, मार्क, नाइट्रि-ऐ।

„ शोथकी तरह (Edematous)—एपिस, ग्रैफा, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, आर्टि।

„ (बतौडी Excresences —"अर्बुद" देखिये—ग्रैफा, क्रियो, मार्क, **नाइट्रि ऐ**, **थूजा**।

„ जरायुके गलेमें—क्रियो, मार्क, **नाइट्रि ऐ**, **थूजा**।

„ फूलगोभीकी तरह (Cauliflower like)—ग्रैफा, क्रियो, फास, **थूजा**।

„ मसाको तरह—थूजा।

रक्तस्राव, उपकार—ऐकोन, बेल, कैल्के, नक्स-वोम।

„ थक्का थक्का (Coagulated)—ऐलोट्रि, ऐपो, आर्जे-नैट, आर्नि, बेल, कैक्ट, कैमो, कार्फि, क्रोकास, फेरम, प्लेटि, पल्स, सैबाइ, सिके।

„ „ कालिमा लिये हुए पतले खूनके साथ—सेबाइ, सिके।

„ „ रुक रुककर, झोंकसे (In paroxysms)—फेरम, पल्स, थ्यास्टि।

„ „ लाल चमकते हुए रङ्गके साथ—(१) बेल, सैबाइ, (२) आर्नि, इपि, थ्यास्टि।

„ दुर्गन्धसे भरा हुआ (Offensive)—बेल, कैमो, क्रियो, जिङ्क।

„ दुर्बल स्त्रीका—फेरम, सोरि, पल्स।

„ परिश्रमके बाद, ज्यादा—ब्रायो, बोवि, कैल्के, नाइट्रि-ऐ, ट्रिलि।

„ पतला (Thin, fluid)—सैबाइ, सिके, सल्फ-ऐ।

„ „ थक्का थक्का, मिला हुआ—चायना, सैबाइ, सिके।

„ प्रचुर (Profuse)—आर्नि, बेल, कैल्के, कैमो, चायना, इपि, नक्स-वोम, सैबाइ, सिके।

„ प्रसवके दर्दके समय और बाद—आर्नि, बेल, कैमो, चायना, सिनेमा, क्रोकस, फेरम, हाइयो, इपि, फास, प्लेटि, सैबाइ, सिके, थ्यास्टि।

„ फीका (Pale)—चायना, फेरम हाइयो, मार्क, सिनि, सैबाइ, सिके, थ्यास्टि।

„ फूल अटक जानेसे (Retained placenta)—पैम, कैन्थ, फार्बो-वेज, पल्स सिपि।

„ बार बार (Recurrent)—थार्ज-नाइ, क्रियो, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

„ बालिकाओंका (छोटी)—सिना।

„ बड़ी स्त्रियोंका—कैल्के, सिकि, मार्क, फास सिपि।

„ मानसिक उत्तेजनाकी वजहसे—कैल्के, कैमो, [illegible] सल्फ।

„ [illegible] (Palul[illegible])—कैल्के, ऐस[illegible], कॉलि-फास, [illegible] सेबाइ, सिके।

न्‌ एवं हिलने डोलनेसे मिचली व कै होना, कष्ट देनेवाला—आर्नि, ओपि, पल्स, **साइलि**।

रक्त-स्राव, जरायुसे (Metiorrhagia)—ऐलोट्रि, ऐसे-ऐ, ऐकोन, ऐम्ना, एपिस, ऐपो, आर्नि, आर्स, बोवि, ब्राइयो, **कैल्के**, कैन्थ, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, कार्डु-मे, कौलो, कैमो, चायना, चिनि-स, सिमि, सिनामेन, कक्क, काफि, कौलचि, इरिजि, **फरम**, फेरम-आ, फेरम-आयोड, फेरम-म्यू, फेरम-फास, **हैमा**, हेलोनि, हिपर, ध्रुने, आइयो, इपि, कैलि-ब्रो, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लो, क्रियो, लेक-कै, लाइको, मेडो, मार्क, **मिलि, नाइट्रि-ऐ,** नक्स-म, **नक्स-वोम, फास, प्लैटि,** सोरि, **पल्स, रैटा, सेबाइ, सिकि,** सिनि, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, **आस्टि**।

" अर्बुदसे (Tumour)—कैल्के, **फास,** सेबाइ।

" एकाएक होता है एकाएक जाता है—वेल।

" एकाएक (Sudden)—आर्स, **वेल,** सिनामोन, इपि।

" " पालिपस (Polypus)—कैल्के, कोना।

" " फाइब्रायेडसे (Fibroid)—कैल्के, **फास,** सेवा, साइलि।

" ऋतुके मध्यमें (Between the menstrual period)—ऐम्ब्रा, आर्नि, वेल, बोवि, कैल्के, **कैमो,** काकि, क्रोकस, **इपि, फास,** पल्स, **रास-टक्स, सेबाइ,** सिके, **साइलि,** सल्फ।

" काला—कार्बो-वेज, कैमो, क्रोकस, इले, फेरम, हेलोनि, **प्लैटि,** पल्स, सिके, सल्फ-ऐ।

" कालिमा लिये हुए (Dark)—वेल, ब्राइयो, कैमो, **चायना,** क्रोकस, फेरम, क्रियो, नक्स-म, प्लैटि, पल्स, सिके।

" " थक्का थक्का, मिला हुआ (Clots)—**वेल,** कैमो, चायना, फेरम, पल्स।

" गरम—**वेल,** लैक-कै।

" गाढ़ा—कार्बो-वेज, नक्स-म, प्लैटि, पल्स, सल्फ।

" चोटकी वजहसे (Injury)—**आर्निका,** रास-टक्स, सिके।

रक्तस्राव, डरकर—ऐकोन, बेल, कैल्के, नक्स-वोम।

„ थक्का थक्का (Coagulated)—ऐलोट्रि, ऐपो, आर्ज-नेट, आर्नि, बेल, कैक्ट, कैमो, काफि, क्रोकस, फेरम, प्लेटि, पल्स, सेबाइ, सिके।

„ „ कालिमा लिये हुए पतले खूनके साथ—सेबाइ, सिके।

„ „ रुक रुककर, झोंकसे (In paroxysms)—फेरम, पल्स, श्याबि।

„ „ लाल चमकते हुए रक्तके साथ—(१) बेल, सेबाइ, (२) आर्नि, इपि, श्याबि।

„ दुर्गन्धसे भरा हुआ (Offensive)—बेल, कैमो, क्रियो, जिङ्क।

„ दुर्बल स्त्रीका—फेरम, सीपि, पल्स।

„ परिश्रमके बाद, ज्यादा—अरम, बोवि, कैल्के, नाइट्रि-ए, ट्रिलि।

„ पतला (Thin, fluid)—सेबाइ, सिके, सल्फ ऐ।

„ „ थक्का थक्का, मिला हुआ—चायना, सेबाइ, सिके।

„ प्रचुर (Profuse)—आर्नि, बेल, कैल्के, कैमो, चायना, इपि, नक्स-वोम, सेबाइ, सिके।

„ प्रसवके दर्दके समय और बाद—आर्नि, बेल, कैमो, चायना, सिमिसि, क्रोकस, फेरम, हाइयो, इपि, फास, प्लेटि, सेबाइ, सिके, श्याबि।

„ फीका (Pale)—चायना, फेरम हाइयो, मार्क, मिलि सेबाइ, सिके, श्याबि।

„ फूल घटक जानेसे (Retained placenta)—बेल, कैन्थ, कार्बो-वेज, पल्स, सिपि।

„ बार बार (Recurrent)—आर्स आइ, क्रियो, नक्स वोम, फास, सल्फ।

„ बालिकाओंका (छोटी)—सिना।

„ दूध पिलानेका—कैल्के, सिलि, मार्क, फास सिपि।

„ मासिक धर्मके बदले—कैल्के, बेलि, मार्क, सल्फ।

„ दर्दहीन (Painless)—कैल्के, बेला, हैमि फास, सेकेल, सिलि, सेबाइ, सिके।

रक्तस्राव, रुक रुककर (Intermittent)—वेल, कैमो, इपि, क्रियो, पल्स, सेबाइ, सिके, सल्फ।
„ रोगिनी, हड्डी निकली हुई स्त्रियोंका—सिके।
„ लगातार (Continuous)—हैमा, हाइयो, इपि, सिके, सल्फ।
„ लम्बी चौडी औरतोंका—फास।
„ लाल चमकीला (Bright red)—आर्नि, वेल, कैल्के, सिनामोन, इरिजि, हैमा, **इपि**, मिलि, **फास**, **सेबाइ**, सेङ्गु, ट्रिलिया।
„ „ थक्का थक्काके साथ—"थक्का थक्का" देखिये।
„ वयःसन्धिके समय (Climacteric)—ऐलो-ट्रि, ऐलो, **कैल्के**, कार्बो-वेज, क्रोकस, **लैके**, मेजे, स्यूरे, नक्स-वोम, प्लम्ब, पल्स, सेबाइ, सिपि, ट्रिलिया, आस्टि।
„ वेगसे (Gushing)—वेल, कैमो, हैमा, **इपि**, मिलि, **फास**, पल्स, **सेबाइ**, सिके, आस्टि।
„ सङ्गमके बाद—**आर्जं-नाइ**, आर्नि, आर्स, हाइड्रो, **क्रियो**, सिपि।
„ स्थानिक कारणसे (प्रदाह आदि) [Active]—ऐकोन, वेल, सिनामोन, काकि, हैमा, हाइयो, **इपि**, **फास**, **सेबाइ**, सिके।
„ स्थानिक कारणके विना (Passive)—ऐलोट्रि, **कार्बो-वेज**, **कोलो**, चिनि-स, हैमा, **केलि-फेर**, सिके, सल्फ-ऐ।
„ **घटना**, घूमने फिरनेसे—सेबाइ।
„ **बढ़ना**, हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, काकि, क्रोकस, हेलोनि, **इपि**, सेबाइ, सिके, सल्फ।
„ „ रातमें—मैग-म्यू।
„ „ सोनेपर चित होकर—कैमो।

रक्ताधिक्य (Congestion)—ऐलोट्रि, चायना, क्रोकस, हिपर, मार्क, फास, सल्फ।
„ जरायुका—**बेल**, चायना, जेल्स, हिपर, लैक-कै, **लैके**, **पल्स**, सिके, सल्फ।
„ „ ऋतुके-पहिले—चायना, **लैके**।

रक्ताधिक्य, जरायुका ऋतुके समय—ऐकोन, वेल, चायना, लैके, पल्स, सिपि।

» डिम्बकोषमें—ऐकोन, ऐलोड्रि, एपिस, वेल, ब्रायो, क्रिपर, आइयो, कोनि-आइ, लिलि-टिग, मार्क, पल्स, सिपि, सल्फ, सिफि, थूजा जिङ्क।

वन्ध्यात्व (Sterility)—ऐलोड्रि, ऐमोन-कार्ब, आरम, बेरा-म्यू, बोवि, कैल्के, काकि, कोना, फेरम, फेरम-फास, ग्रैफा, आइयो आइयो, क्रियो, लैके, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, ओरिगे, फास, प्लेटि, सिनि, सिपि, साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

वय सन्धि (Menopause)—"ऋतु-निवृत्ति" देखिये।

शिथिलता, योनिद्वारकी सङ्कोचक मांसपेशीकी (Relaxation of sphincter vagini)—ऐगा, ऐम्ब्रा, कैलेडि, कैल्के, फेरम, कोनि कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब, सिपि, सल्फ।

शिरा, ऊँचे उठती है और पानीकी तरह दिखाई देती है (Varicose veins)—कैल्के, कार्बो-वेज, ऐमा, लाइको, थूजा, जिङ्क।

सङ्कोचन (Contraction) जरायुका—वेल कैल्के फास, पल्स।

» ऋतुके समय—वेल, पल्स, स्ट्रैफि।

» जरायु मुख, आक्षेपयुक्त, प्रसव दर्दके समय (Spasmodic contraction of os during labour)—वेल, कोलो, सिमि।

» डमरूकी तरह (Hour-glass contraction)—वेल, कमो काकि, कोनि कार्ब, प्लेटि, सिके, सिपि।

» योनिका—क्रियो सिपि।

सहवासमें आनन्द नहीं आता (Enjoyment absent)—आर्ज, ओसि, कास्टि, फेरम, फेरम म्यू, ग्रैफा, ग्रेटो, नेट्रम म्यूर पोटैस फास, सिपि।

» सहवास, अनिच्छा (Aversion to coition)—ऐम्ब्रा, काकि, क्लिमे, ग्रैफा, कोनि ग्रो, लैके, नेट्रम म्यूर, पेट्रो फास, साइलि, स्टैफी, सिपि, सल्फ।

» » बादमें पहले—काकि, फास।

सङ्गममें, इच्छा गल्प—कोल्के-फास, कौन्थ, लेके, प्लेटि, सेबाड़, जिङ्क।
„ „ अविवाहिताओंको—**प्लेटि**, कोना।
„ „ अस्वाभाविक—(१)—कैल्के, म्यूरे, (२) गार्थ, कोल्के फास, जेल्स, हाइयो, लेके, मस्क, ओरिगे, फास, प्लेटि, सेबाड़, साइलि, स्ट्रैमो, टेरेण्ट, जिङ्क।
„ „ कम हो जाना—ऐग्नस, बेरा-का, **कास्टि**, फेरम, ग्रेफा, हेलोनि, हिपर, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फास ए, फ्लोडो, सिपि।
„ „ बढना—(१) कैल्के, कोल्के-फास, कैम्फ, कैन्थ, कोना, फलू-ए, ग्रेटि, हाइयो, लेके, नक्स वोम, फास, प्लेटि, पल्स, विरे।

स्थानच्युति, जरायुका (Displacement of uterus)—ऐमोन-म्यूर, बेल, **कैल्के**, कोल्के-फास, कोलो, सिपि, फेरम-आइ, **लेके**, **लिलि-टिग**, मार्क, म्यूरे, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, नक्स-म, प्लेटि, पोडो, सिपि, सल्फ।

स्पर्श असहिष्णुता (Sensitiveness)—ग्ररम, **बेल**, कैन्थ, काफि, म्यू-ए, **प्लेटि**, सिपि, साइलि, **स्टैफि**, सल्फ, थूजा।

सुन्न होना (Numbness)—क्युपे-पर्पि, मस्क, प्लेटि।
„ डिम्बकोषका (Ovaries)—एपिस, पोडो।

सूखी योनि (Dryness)—ऐकोन, आर्स, बेल, बार्ब, फेरम, ग्रैफा, लाइको, **नेट्रम-म्यूर**, सिपि।

हवा छूटना, योनिसे (Flatus from vagina)—बेल, कोल्के, लेक-के, **लाइको**, मैग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ए, सैङ्गु, सिपि, सल्फ।

हस्तमैथुन, इच्छा प्रवणता (Masturbation disposition)—कैलेडि, ग्रैटि, ऐके, **ओरिगे**, प्लेटि, पल्स।

स्वरयन्त्र और वायुनली।

(LARYNX AND TRACHEA)

अन्तर्दाह स्वरयन्त्रका (Irritation of larynx)—ऐकोन, हिपर, केलि-बाइ, मार्क-कोर, नेजा, फास।

अर्बुद, कैंसर स्वरयन्त्रमें (Cancer in larynx)—आर्स, नाइट्रि-ऐ, फास, सैङ्गु, थूजा।

„ पोलिपस (Polypus)—आर्ज-नाइ, बर्बे, केलि-ब्रोम, सैङ्गु, थूजा।

आक्षेप, स्वरयन्त्रका (Laryngismus stridulus)—आर्स, ऐमाफि, बेल, चेलिडो क्लोरो, काफि, कुप्रम, जेल्स, इग्ने, आइयो, इपि, मैफि, मेफा, मस्क, ओपि, स्पञ्जि, टेबे।

„ „ रातमें—सैम्बु।

„ „ साँस छोड़नेके समय—चेलिडो, क्लोरो।

„ „ बढ़ना-गरम घरमें—आइयो।

„ „ „ निगलनेसे—कुप्रम, मार्क-कोर।

उत्ताप स्वरयन्त्रमें (Heat in larynx)—ऐलि से ऐस्कुलि, आइयो, बेलि-डा, नेजा फासटो।

कर्कश भाव (Roughness) खरखरापन—कार्बो-वेज, कालि-क्लोरो सैङ्गि, फास, सेनि, स्ट्रेमस, मस्क पी, सल्फ।

„ स्वरयन्त्रमें—फिस्फ, हिपर सैङ्गि, मार्क, फास, रास-टक्स, सिलि साइलि।

„ „ सबेरे—मैङ्के।

„ गलेसे भी खरखरी—कार्बो वेजि, सैङ्गि आस० डोस, फास स्पञ्जि।

„ वायुनलीमें—कार्बो वेजि, कुप्रम हिपर, फास, रास टक्स, स्पञ्जि।

भिन्न पदार्थ जैसा मालूम, गोला, बालुकणादि ([illegible])—ऐमा, साइलि।

वायुनली जैसा मालूम पड़ना ([illegible])—इग्नि फैङ्क [illegible]

कास्टि, **कैमो**, **कक्क**, कोना, साइक्ला, डिजि, हिपर, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, **रास-टक्स**, सिपि, स्पञ्जि।

खुजली, स्वरयन्त्रमें—आर्ज-ना, कैल्के।

„ वायुनलीमें—ऐम्ब्रा, सिस्टा, नक्स-वोम, **पल्स**।

गन्धकका धुआँ मालूम होना (As from sulphur vapour)—**आर्स**, कैलि-वाइ।

घड़ घड शब्द (Rattling)-स्वरयन्त्रमें - ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-ना, **ब्रोमि**, कैलि-वा, स्पञ्जि।

„ वायुनलीमें (Trachea)—ऐमोन-कार्ब, **ऐण्टि-टार्ट**, वैरा-कार्ब, **हिपर**, **ड्रसि**, लोरो, सिपि, सल्फ।

घुंडी खाँसी (काली खाँसी Croup)—**ऐकोन**, ऐण्टि-टा, आर्स, वेल, **ब्रोमि**, कैल्के, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कैमो, क्लोरो, **हिपर**, आइयो, कैलि बा, कैलि-क्लोर, लैके, लोबे, नेट्रम-म्यूर, फास, सैंगु, सैङ्गु, **स्पञ्जि**, सिलि।

„ अच्छी हो हो कर फिर पैदा होना (Recurrent)—कार्बो वेज।

„ बादकी बीमारी (Sequelæ)—कैल्के, कार्बो-वेज।

„ मेम्ब्रेनस (झिल्लीमिली Membranous)—एपिस, ऐरम-ट्रि, **ब्रोमि**, कार्बो-वेज, हिपर, आइयो, **कैलि-बा**, कैलि-क्लोर, लैका-कै, लैके, मार्क-स, मार्क-आ पले, नाइट्रि-ऐ, **फास**, सैंगु।

„ सूखी ठण्डी हवा लगकर—**ऐकोन**, **हिपर**।

ठण्ढा मालूम होना, निश्वास प्रश्वाससे—ब्रोमि, कैम्फ, चायना, सिस्टा, रास-टक्स, सल्फ।

ढेला रहने जैसा मालूम होना (Sensation of plug in larynx)-स्वरयन्त्रमें—ऐण्टि-क्रूड, हेलि, ड्रोसे, कैलि-कार्ब, लेके, स्पञ्जि, सल्फ।

„ वायुनलीमें—लैके।

दर्द, स्वरयन्त्रमें (Pain in larynx)—**ऐलि-सि**, ऐरम-ट्रि, कैल्के, चेलिडो, आइयो, कैलि-बा, **लैके**, नक्स-वोम, **फास**, सल्फ।

दर्द, स्वरयन्त्रमें, खाँसनेके समय—ऐलि-सि, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, हिपर, आइयो, लैके, थोस्मि, फास, स्पञ्जि।

„ „ „ दबा रखता है, गला (स्वरयन्त्र)—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐरिट-टा, बेल, ड्रोसे, हिपर, आइयो, लेके।

„ „ गाना गानेके समय—ऐकोन, स्पञ्जि।

„ „ छूनेसे—ऐरिट टा, बेल, कास्टि, स्पञ्जि।

„ „ दबानेसे—आर्स, हिपर, फास।

„ „ निगलनेसे—बेल, फास, स्पञ्जि।

„ „ बोलनेके समय—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, हिपर, केलि बा, नाइट्रि-ऐ, फास, स्पञ्जि, सल्फ।

„ वायुनलीमें—इस्कि, ब्राइयो, लैके, मेजि, थूजा।

„ „ खाँसनेके समय—ब्राइयो, कास्टिक, चायना, केलि-बा, क्रियो, नक्स-वोम, फास, फाइटो, रूमेक्स, सेङ्गु, सल्फ।

„ „ बोलनेके समय—ब्राइयो।

„ भकड़न (Soreness)—आर्ज मेट, आर्स, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कास्टि, नक्स-वोम, फास, स्टैनम, सल्फ।

„ „ स्वरयन्त्रमें—ऐम्ब्रा, आर्ज-मेट, आर्ज-मा, आर्स, ब्रोमि, कार्बो वेज, कास्टि, चायना, ड्रोसे, थेफा, हेपर, आइयो, केलि-बा, केलि-बाई, मेकि, नेट्रम म्यूर, नक्स म, फास, सिपि, स्पञ्जि।

„ „ „ सबेरे—आर्ज मेट।

„ „ „ खाँसनेके समय—आर्ज मेट, ब्रोमि, ड्रोसे, फास।

„ „ „ छूनेके समय—ऐकोन, कास्टि, कोना, [illegible], फास, स्पञ्जि, सल्फ।

„ „ „ निगलनेसे—थेरा, ड्रोसे।

„ „ वायुनलीमें—ऐम्ब्रा, ब्राइयो, कास्टि, चायना, नेट्रम म्यूर, फास, रूमिक्स, साइलि, सल्फ।

दर्द, अकडन वायुनलीमें खाँसनेके समय—आर्ज-नाई, ब्राइयो, **कास्टि**, **स्टैनम**।

" जखम जैसा (Rawness)—आर्ज-मेट, कार्बो-वेज, कास्टि, कक्. फास।

" " स्वरयन्त्रमें—**आर्ज-मेट**, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, क्लोरो, कक, हाइड्रा, कैलि-आई, **लेकि**, मैङ्ग, मार्क, **फास**, रास-टक्स, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ।

" " " सवेरे—कार्बो-ऐनि, रास-टक्स।

" " " सन्ध्यामें—**फास**।

" " " खाँसनेके कारण—**आर्ज-मेट**, आर्ज-नाई, **ब्रोमि**, कास्टि, **पल्स**, रूमेक्स, **सल्फ**।

" " " बोलनेके समय—स्टैफि।

" " वायुनलीमें-(वक्षमें देखिये)—**आर्ज-मेट**, कास्टि, मैङ्ग, **फास**, **रूमेक्स**।

" " " सवेरे—कार्बो-ऐनि।

" " " बोलनेके समय—**आर्ज-मेट**।

दर्द, जलन (Burning)—ऐमोन-म्यू, आर्स, कार्बो-वेज, फास, स्पञ्जि, सल्फ।

" , स्वरयन्त्रमें—**ऐकोन**, ऐमोन-म्यू, आर्ज-ना, आर्स, वेल, कैल्के-फास, कैन्थ, कैमो, जेल्स, हाइड्रो-ऐ, कैलि-बा, कैलि-आयोड, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**, फास, सेने, स्पञ्जि।

" " वायुनलीमें—ऐण्टि-टार्ट, कास्टि, आइयो, कैलि-बा, मार्क-कोर, फास-ऐ, स्पञ्जि।

" डंक मारने जैसा, स्वरयन्त्रमें (Stinging)—कैन्थ, कैमो, **नाइट्रि-ऐ**।

" दबा रखने जैसा स्वरयन्त्रमें (Pressing on larynx)—**चेलिडो**।

" फाड डालता है मानो (Tearing)—वेल, बैरा, इग्ने।

" सुई वेधने जैसा (Stitching)—बेरा-कार्ब, बोरा, **ब्रोमि**, मैङ्ग, नाइट्रि-ऐ, फास।

" " खाँसनेके समय—ड्रोसे, कैलि-कार्ब, फास, सल्फ।

दर्द, सुई बेधने जैसा निगलनेके समय—ब्रोमि, मैङ्गे।

„ „ फैलता है, कानतक, निगलनेके समय—मैङ्गे।

„ „ वायुनलीमें—कैल्य, लैके, स्ट्रैनम, थूजा।

धुँआ रहने जैसा मालूम होना स्वरयंत्रमें (Sensation of smoke in larynx)—बेरा-कार्ब।

धूल है जैसा मालूम होना—आर्स, कैल्के, चायना, ड्रोसे, इग्ने, पल्स।

पक्षाघात (Paralysis) स्वरयंत्रका—ऐल्यूमि, कास्टि, सिना, जेल्स, लैके, प्लम्ब, स्ट्रैमो।

प्रदाह (Inflammation) स्वरयंत्रका—ऐकोन, इस्कि, ऐलि-सि, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्ज-मेट, आर्ज नाइ, आर्स, बेल, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, क्लोरो, कोटे-सी, ड्रोसे, जेल्स, हिपर, आइयो, इपि कैलि बा, लैके, मैङ्गे, मार्क, नक्स वोम, फास, रुमेक्स, सैङ्गु, स्पञ्जि, स्टिलि, सल्फ।

„ उपदंशकी वजहसे (Syphilitic)—हिपर, आइयो, मार्क, नाइट्रि ऐ।

„ गानेवालोंका—ऐण्टि क्रूड, आर्ज-मेट, आर्ज नाई।

„ स्वरयंत्रका, वक्ताओंका (Public speakers)—एरम-ट्रि, कार्बो-वेज, स्टिलि।

„ वायुनलीमें—ऐकोन ऐण्टि-टा बेल ब्रोमि कार्बो वेज हिपर, आइयो, मैङ्गे, नेट्रम म्यूर, रुमेक्स, सैङ्गु सैङ्गु स्पञ्जि।

फूला, स्वरयंत्र (Swollen larynx) एपिस, हिपर, आइयो मर्क।

बाहरकी कोई चीज स्वरयंत्रमें (Foreign substance in larynx)—आर्ज-मेट, बेल, ड्रोसे, फास मार्स्लि।

मखमलकी तरह अनुभव (Velvety sensation)—हिपर, फास।

श्लेष्मा, वायु पथोंमें (Mucus in the air passages)—ऐकोन ऐण्टि, ऐण्टिम टार्ट, आर्ज मेट, आर्स आयडो आयडो कुकस, कैलि बाइ कैलि, स्ट्रैनम।

„ स्वरयंत्रमें—आयडो, ऐलि-थाई।

„ „ कौआ—ऐलि थाई।

श्लेष्मा, स्वरयन्त्रमें लसदार—कैलि-बाइ।
" " साफ—नेट्रम-म्यूर।
" " हरा—हिपर।
" वायुनलीमें—ऐमोन-कार्ब, ऐङ्ग, **ऐरम-ट्रि,** कैम्फ, डाल, पैरि, सेने, **स्कुई, स्टैनम,** सल्फ।

शोथ, ग्लोटिडिसका (Oedema glottidis) **एपिस,** आर्स, क्रोटे-हो, **कैलि-आइ,** लैके, सैङ्गु, स्ट्रैमो।

सड जाती है उपास्थि, स्वरयन्त्रकी (Necrosis of cartilages of larynx) —कैल्के, क्रोटे-हो।

सर्दी (Catarrh)—ऐकोन, कैलि-स, ऐमोन-म्यूर, **ऐण्टिम-टार्ट, आर्स,** बैडि, बैरा-कार्ब, **कैल्के-कार्ब,** कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, काक, काकि, कौल्चि, डाल, फेरम-फास, हिपर, केलि-बाइ, **कैलि-कार्ब,** लाइको, **मैङ्ग, मार्क,** नेट्रम-म्यूर, **नक्स-म, नक्स-वोम,** फास-ऐ, फास, फ्रोडो, रूमेक्स, सैङ्गु, **स्टैनम, सल्फ।**
" एकाएक—**आर्स।**
" छोटी माता निकलनेके बाद—कार्बो-वेज।
" वृद्धोंका—ऐण्टिम-टार्ट।
" स्वरयन्त्रका—आर्ज-नाइ, **कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स,** हिपर, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, **रूमेक्स,** स्पञ्जि।
" वायुनलीका—बैरा-कार्ब, कैलि-बाइ, **रूमेक्स।**

सङ्कोचन (Constriction)—बेल, कैलेडि, काकि, हेलि, इपि, मस्क, नक्स-म, प्लम्ब, पल्स, सार्सा।
" स्वरयन्त्रका—ऐगा, बेल, ब्रोमि, चेलिडो, ड्रोसे, ग्लोनो, इग्ने, आइयो, लैके, मैङ्ग, मस्क, नक्स-वोम, **फास,** स्ट्रैमो।
" " खाँसनेके समय—आर्स, कूप्रम, ड्रोसे, इग्ने, स्ट्रैमो, विरे।
" " निद्रावस्थामें—लैके, स्पञ्जि।
" " निद्राके बाद—लैके, फास।

सङ्कोचन, स्वरयन्त्रका, बोलनेके समय—ड्रोसे।

" " भोजनके बाद—पल्स।

" वायुनलीका—आर्स, ब्रोमि, लैके, फास, स्पञ्जि।

स्पर्श-असहिष्णुता (Sensitiveness) स्वरयन्त्रमें—ऐकोन, केलेडि, कास्टि, ग्रैफा, लैके, फास, सल्फ।

" " खुली हवामें (To cold air)—ऐकोन।

" " छूनेसे (To touch)—ऐकोन, कास्टि, कोना, ग्रैफा, हिपर, लैके, नैजा, फास, स्पञ्जि।

" " ठण्डी हवामें—हिपर।

" " दबानेसे (To pressure)—आर्स, फास।

" वायुनलीमें ठण्डी हवामें—रियुमेक्स।

" " छूनेसे—हिपर।

स्वर (Voice) अस्पष्ट (Indistinct)—ऐमोन-कार्ब, ब्रोमि।

" कर्कश (Husky)—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, बैरा-कार्ब, बायना, ड्रोसे, कॉलि-बाइ, कॉलि-नाइ, लैक-कै, लाइको, फास, स्पञ्जि, स्ट्रैमम, सल्फ।

" काँपता हुआ (Tremulous)—आर्स, फेरम, काफि, इग्ने, मार्क, नक्स-म, फास।

" कुत्तेकी आवाज़की तरह (Barking)—बेल, ब्रोमि, ड्रोसे, आइडि पि, स्पञ्जि, स्ट्रैमम, स्ट्रैमो।

" गहरा (Deep)—ऐरम-ट्रि, ब्रोमि, कार्बो वेज, [illegible], [illegible] ड्रोसे, फास, स्ट्रैमम।

" गम्भीर (Bass)—कार्बोनि स, ड्रोसे, [illegible]।

" मुर्गी वालीकी तरह (कास्ती खाँसी Croupe)—[illegible] स्पञ्जि।

" दुर्बल (Weak)—[illegible]।

हिपर, इग्ने, लाइको, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, फास, पल्स, सिके, स्पञ्जि, **स्टैनम**, स्टैफि, स्ट्रैमो, **वेरे** ।

स्वर, नकियाकर बोलना (Nasal)—कास्टि, फ्लू ऐ, आइयो, **कैलि-बाइ**, कैलि-आई, मेन्सि, फास, स्टैफि, सल्फ ।

„ परिवर्त्तन होनेवाला (Changable)—**ऐरम-ट्रि** ।

„ फुसफुसा (Whispering)—फेरम, मार्क ।

„ बैठी आवाज (Hollow)—ऐकोन, आर्स, ऐरम-ट्रि, **ड्रोसे**, इपि, कैलि-बाइ, लिडम, सैंगु, **स्पंजि**, स्टैनम, **वेरे** ।

„ मुर्गेकी आवाज़की तरह (Crowing)—ऐकोन, आर्स, चायना, सिना, सैंगु ।

„ फटी हुई आवाज (Cracked)—ड्रोसे, स्पञ्जि ।

„ भर्राई आवाज़, स्वरभङ्ग (Hoarseness)—**ऐकोन**, इस्कि, **ऐलि-सि**, ऐग्नस, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **आर्ज-नाइ**, आर्स, **ऐरम-ट्रि**, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, **बेल**, **ब्रोमि**, ब्राइयो, कैक्टस, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैम्फर, कैन्थ, कैप्सि, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, **कैमो**, चेलिडो, चायना, क्लोरो, कक्क, काकि, कोलचि, कोलिन, क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, क्यूप्रम, डिजि, ड्रोसे, डालका, युफ्रे, फेरम, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, **आइयो**, **कैलि-बा**, कैलि-कार्ब, **लैके**, लोरो, लाइको, मैग-म्यू, मैङ्ग, मेडो, **मार्क**, मार्क-कोर, मार्क-आ, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, ओस्मि, पैरि पेट्रो, फास-ऐ, फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, पल्स, ड्रोडो, रास-टक्स, रूमी, सैम्बु, सिली, सिना, सिपि, साइलि, **स्पंजि**, **स्टैनम**, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, सल्फ, टेलु, थूजा, वेरे, जिङ्क ।

„ „ दिनमें—ऐकोन, आर्स ।

„ „ सवेरे—ऐकोन, एपिस, बोवि, **कैल्के**, **कास्टि**, क्यूप्रम, आइयो, मैङ्ग, नेट्रम-म्यूर, फास, साइलि, सल्फ ।

„ „ „ उठनेके समय—कार्बो-ऐनि, पेरि ।

स्वर, भर्राई आवाज़ तीसरे पहर—ऐमोन-म्यू ।

" " सन्ध्यामें—कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ग्रेफा, फास, रियुमेक्स, सल्फ ।

" " रातमें—ऐलूमि, आर्ज-ना, कोल्को, कैल्के-फ्लू, कैल्के-सल्फ, कार्बो-ऐनि, सिपि, लाइको, नेजा, स्पाइजि ।

" " एकाएक—वेल, स्पञ्जि ।

" " खाँसनेके समय—ऐकोन, ऐनिसि, वेल, ब्रोमि, कोल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, हिपर, मैके, रास-टक्स, सान्गि, स्टैनम ।

" " खुली हवामें—मैङ्ग, नक्स म ।

" " गलेके दर्दके साथ—ऐकोन, कार्बो-वेज, नाइट्रि-ऐ ।

" " गाना गानेके समय—ऐगा, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, धार्म, ऐरम ट्रि, ग्राइयो, नेट्रम-म्यूर, सिलि, स्टैनम ।

" " घुँडी खाँसीके बाद (After croup)—कार्बो-वेज, लाइको ।

" " छोटी माता निकलनेके बाद—ग्राइयो, कार्बो-वेज, ड्रोसे, सल्फ ।

" " जलसे भरी तर या भींगी हवामें—कार्बो वेज, डल्का, मैङ्ग, रियुमेक्स, साइलि ।

" " जलमें भींगकर—रास-टक्स ।

" " जोरसे बुलानेके समय—ऐमोन कार्ब ।

" " ठण्डी हवामें—कूप्रम, हिपर, नक्स म ।

" " दर्दके साथ (Painful)—ब्राइयो केलि वा, फास ।

" " दर्द रहित (Painless)—कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, [illegible] पेरि ।

" " पुराना—ब्रोमि, कार्बो-वेज पेत्रा, मार्क, फास ।

" " [illegible]—कैमो ।

" " बोलनेमें बाधा देता है (Preventing speech)—कास्टि, कुप्रम, मेग म्यूर, फास ।

" " बोलनेसे—आर्ज-मेट, ऐरम-ट्रि, कैल्के, कार्बो वेज हिपर नेट्रम-म्यूर नाइट्रि ऐ, फास ऐ, फास, रास-टक्स ।

स्वर, भर्राई आवाज़ बोलनेसे, थोड़ी देरतक बातचीत करनेके बाद आवाज़ लौट आती है—रास-टक्स।

„ „ रोनेके समय—बेल।

„ „ सर्दीके साथ—ऐकोन, आर्स, बेञ्जो-ऐ, ब्राइयो, **कार्बो-वेज, कास्टि,** डिजि, कैलि-बा, कैलमि, मैग-म्यू, **मैङ्ग, मार्क,** मार्क-आ-रू, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, **फास,** रियुमेक्स, सिपि, स्पाइ, स्पञ्जि, सल्फ, टेलु।

„ „ स्वरयन्त्रके ज्यादा व्यवहारकी वजहसे—आर्निका, **ऐरम-ट्रि,** कास्टि, नेट्रम-म्यूर, फास, **रास-टक्स।**

„ „ स्वरयन्त्रमें श्लेष्मा जमकर (Mucus in larynx)—बैरा-कार्ब, कैमो, फास, **सेंगु।**

„ „ मृदु (Slow)—आर्निका, कैक्ट, कैन्थ, इग्ने, स्पञ्जि।

„ „ खुसखुसी खाँसी और स्वरभङ्गके साथ (Short hacking cough and loss of voice)—**स्टैनम।**

„ „ गानेवालोंका और वक्ताओंका—ऐण्टि-क्रूड, आर्ज-मेट।

„ „ वायुनलीका—आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, ड्रोसे, आइयो, नाइट्रि-ऐ, स्टैनम।

„ यक्ष्मा, स्वरयन्त्रका (Laryngial phthisis)—ऐगा, आर्ज-मेट, कार्बो-वेज, कास्टि, ड्रोसे, हिपर, आइयो, कैलि-बा, कैलि-आयोड, लैके, **मैङ्ग,** नाइट्रि-ऐ, फास, सिलि, सेने, **स्पञ्जि, स्टैनम,** सल्फ।

„ रूखा (Rough)—ऐलि-से, ऐल्यूमि, बैरा-कार्ब, **बेल,** ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, **कार्बो-वेज,** कास्टि, कैमो, कक्क, **हाइयो,** आइयो, **केलि-बा,** मिनि, मार्क, नक्स-वोम, **फास, पल्स,** सेने, स्पञ्जि, सल्फ।

„ „ सवेरे—कैल्के, मैङ्ग।

„ लुप्त (Lost)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐलू, **ऐण्टि-क्रूड,** ऐण्टिम-टार्ट, **आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि,** आर्स, एरम-ट्रि, बैप्टी, बैरा-कार्ब,

बेल, ब्रोमि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, सिना, ड्रोसे, फेरम, जेल्स, हिपर, आइयो, इग्ने, कैलि-ना, कैलि-कार्ब, कैलि-बाई, लैके, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास**, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, रूमेक्स, सैङ्ग, सिलि, सेने, स्पञ्जि, स्टेनम, **स्ट्रैमो**, सल्फ, वेरे।

स्वर, लुप्त सवेरे—ब्रोमि, कार्बो-वेज, कास्टि।
" " " जागनेसे—एइलैन्थ।
" " सन्ध्यामें—कार्बो-वेज, फास।
" " रातमें—कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज।
" " ऋतुके समय—जेल्स।
" " एकाएक—ऐलूमि, कास्टि।
" " गरम (ज्यादा) होनेके बाद, ठण्डा पानी पीनेसे—क्रोटन-टिग।
" " गानेवालोंका—**आर्ज-मेट**।
" " ठण्ड लगकर—कास्टि, रूमेक्स।
" " डरकर—ऐकोन, जेल्स, ओपि।
" " पक्षाघातकी वजहसे—**कास्टि**, जेल्स, लैके, मार्क, प्लम्ब।
" " बोलनेकी वजहसे ज्यादा—फास।
" " स्वरयन्त्रके ज्यादा व्यवहारके कारण—कास्टि मार्क।
" " स्वर यन्त्रमें ठेस लगकर—ऐन कार्ब।
" " हिस्टिरियामें—आइयो, इग्ने, नक्स-म, प्लेटि, सिपि।

सुप्त होना, स्वर यन्त्रका—कैलि ब्रोम।

सुरसुरी (Tickling)—स्वरयन्त्रमें—ऐलि सि, ऐलूमि, आर्स्यो, कैल्कि, कार्बो-वेज, चेलिडो, ड्रास, हिपर, कैलि बाइ, फास, पल्स, सिपिया, सल्फ।
" " सवेरे—बोवि।
" " सन्ध्याको—कैल्कि कार्बो वेज।
" " रातमें—आर्स्यो।
" " बोलनेके समय—फास।

सुरसुरी वायुनालीमें—कैल्क, कैप्सि, कैनमि, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रूमेक्स, सञ्जि, **स्टैनम** ।

सूखापन मालूम होना, स्वरयन्त्र (Dryness of larynx)—ऐकोन, आर्स, **बेल**, कैल्क, कास्टि, कक्क, **कोना**, ड्रोसे, **लैके**, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास, फाइटो, सिपि, सञ्जि, सल्फ ।

" " पीनेसे अनिच्छाके साथ—बेल ।

" वायुनालीका—ऐकोन, कार्बो-वेज, आइयो, लाइकी, फास, रास-टक्स, सञ्जि ।

" " सवेरे—पैरि ।

" " बन्द कमरेमें—पल्स ।

श्वास-प्रश्वास (RESPIRATION) ।

अनियमित (Irregular)—**एइलैन्थ**, **ऐङ्ग**, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, **बेल**, कैम्फ, कैमो, सिना, कोलचि, क्रोटे-हो, **कूप्रम**, **डिजि**, ड्रस्रो, आइयो, **मार्फि**, नक्स-वोम, **ओपि**, पल्स, स्टिक्टा ।

आरेके शब्दकी तरह (Sawing)—ऐण्टिम-टार्ट, ब्रोमि, कोना, आइयो, कैयोलि, सैंगु, सञ्जि ।

उत्कण्ठित (Anxious)—**ऐकोन**, ऐमोन कार्ब, ऐनाका, एपिस, आर्निका, **आर्स**, **बेरा-म्यू**, बेल, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कैमो, **चेलिडो**, क्लोर, काकि, काफि, कोलोसि, क्रोटे-हो, डिजि, हिपर, हाइयो, ड्रस्रो, **इपि**, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, **नेट्रम-म्यूर**, ओपि, **फास**, प्लैटि, **प्रून-स्पा**, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सैम्बु, **सिके**, सञ्जि, स्कुइ, **स्टैनम**, स्ट्रैमो ।

" सवेरे—फास ।

" दृष्टि सोनेपर—एपिस, पल्स ।

उदरसे (Abdominal Respiration)—**ऐण्टिम-टार्ट,** अरम-म्यू, फेरम, म्यू-ऐ, फास, स्पन्जि, स्ट्रैमो ।

कर्कश (Rough)—ऐण्टिम-टार्ट, **ब्राइयो,** हिपर, केलि-कार्ब ।

कष्टकर (Difficult)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, **एपिस,** ऐरालि, **आर्स,** ऐसाफि, ऐस्क्लि-टि, अरम, बेल, बेन्जो-ऐ, ब्लैटा, ब्रोमि, ब्राइयो, कैक्ट, केल्के, केल्के-फास, कैम्फ, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, कैस्टो, सिड्रो, केमो, चेलिडो, चायना, चिनि-स, क्लोरा, काक, कोका, कोलचि, कोना, कोलोसि, **क्रोटन-टिग,** क्रोटे-हो, क्युप्रम, साइक्ला, डिजि, डाल्, ड्रोसे, **फेरम,** फ्लू ऐ, जेल्स, ग्लोनो, ग्रिण्डे, हेलि, हिपर, इग्ने, आइयो, **इपि,** केलि-बा, **केलि-कार्ब,** केलि-क्लो, केलि-आई, केल्मि, **लैके,** लैक्टि-ऐ, लिलि-टिग, लिथि, **लोबे,** **लाइको,** लाइसि, मार्क-कोर, मेजे, म्यूर, **नेजा,** नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-स,** नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म,** नक्स वोम, **ओपि,** फास-ऐ, **फास,** फाइसो, फाइटो, प्लम, सोरि, **पल्स,** रेना-बा, रास-टक्स, सैम्बु, सेङ्गु, सिके, सेने, सिपि, साइलि, **स्पंजि, स्क्लु,** **स्टैनम,** स्ट्रैमो, **सल्फ,** टेरे, टेरि, वेरे, जिङ्क ।

„ सबेरे—ब्रोमि, कास्टि, कोना, डिजि, केलि-बा, कैलि-का, लैके, नक्स-वोम, फास, सैंगु, सिपि ।

„ तीसरे पहर—फ्लू ऐ, लैके, मार्क-स, सैंगु, सल्फ ।

„ सन्ध्याके समय—आर्स, ऐन्टि-टि, कार्बो-वेज, चायना, फेरम, फ्लू ऐ, हेलि, केलि-कार्ब, लैके, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रेना-ब, रास-टक्स, स्ट्रैमम, सल्फ, जिङ्क ।

„ बिछावनपर—आर्स, कार्बो-वेज, फेरम, ग्रेफा, नेट्र-स, फास, सिपि, सल्फ ।

„ रातमें—ऐन्टिम टार्ट, **आर्स,** बराइ, कैल्के, चायना, कोका, कोलचि, क्रोटन टिग, डिजि, फेरम, ग्रेफा, ग्रिण्डे, हाइयो, इपि, कैलि-बा, लैके, लाइको, नक्स वोम, ओपि, **फास,** सोरि, पल्स, रास टक्स, सैंगु, सिलिसि, स्पंजि, स्ट्रैमम, सल्फ ऐ, सल्फ, टेरि ।

खाष्टकार, रातमें बिछावनपर—**आर्स**, ग्रेफा।

„ „ सोनेपर चित होकर—सल्फ।

„ बिचली रातमें—आर्स, कैल्के।

„ मध्यरात्रिके बाद—**आर्स**, ड्रोसे, **सैम्बु**, स्पञ्जि।

„ „ २ बजे—**आर्स**।

„ „ ३ बजे—**सैम्बु**।

„ उत्तापके साथ—**एपिस**, **कैलि-कार्ब**, सिपिया।

„ ऋतुके पहले—सल्फ, जिङ्क।

„ ऋतुके समय—कैल्के, कोलोसि, क्रूप्रम, आइयो, लैके, **स्पंजि**, सल्फ।

„ „ बाद—नेट्रम-म्यूर, पल्स।

„ „ रुकने बाद—**पल्स**, स्पञ्जि।

„ कलेजा धड़कनेके साथ (During palpitation)—कैक्ट, कैल्के, कोलचि, कैलि-कार्ब, सोरि, स्पञ्जि, स्पाइजि, वेरे।

„ खानेके बाद—ऐसाफि, **लैकै**, नक्स म, **फास**, **पल्स**, सल्फ, जिङ्क।

„ खाँसनेके समय—**ऐलू**, आर्स, साइलि।

„ खोलनेको कहता है, दरवाजे, खिड़कियाँ—एपिस, आर्ज-नाई, कैना-सै, कार्बो-वेज, चेलिडो, डिजि, इपि, **लैके**, **पल्स**, सल्फ।

„ „ खिड़कीके पास बाध्य होकर बैठता है—चेलिडो, कैना-सै।

„ गर्म कमरेमें—**एपिस**, पल्स, सल्फ।

„ घूमनेके समय (While walking)—एपि, आर्स, ब्रोमि, कैक्ट, कैल्के, कैम्फि, कार्बो-वेज, कोना, डिजि, इग्ने, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, प्रूण-स्पा, पल्स, सोरि, सिपि, सल्फ।

„ „ खुली हवामें—आर्स, अरम, लाइको, मार्क, सल्फ।

„ „ जल्दी जल्दी—कास्टि, कूप्रम, कैलि-कार्ब, लोबे, नेट्र-म्यूर, **फास**, **पल्स**, साइलि।

„ चढ़नेमें ऊपर—ऐमोन-कार्ब, आर्ज-ना, **आर्स**, ब्रोमि, कैक्ट, **कैल्के**,

कैप्सि, इलैप्स, आइयो, लोबे, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, रूटा, स्पञ्जि, स्टैनम, सल्फ।

कष्टकर, डरकर—सैम्बु।

" डर जानेके साथ—चायना, कार्बो-वेज, स्पञ्जि।

" दबो रखेगा, मानो गला—ऐकोन, केलिडि।

" " धूलसे मानो—आर्स, केल्क हिपर, साइलि, सल्फ।

" " धूएँसे मानो—ब्रोमि।

" " " गन्धकके—ब्रोमि, लाइको, मस्क, पल्स, सल्फ।

" नाकके पास रूमाल आनेपर—आर्ज नाइ, लैके।

" निगलनेके समय—बेल, कैल्क, कुप्रम।

" नींदके समय—कार्बो-वेज, केलि-कार्ब, लैके, ओपि, सल्फ।

" " बाध्य होकर जागना पड़ता है—सांस रुकनेके भयसे—ओपि, सल्फ।

" " के आरम्भमें—आरम-ट्रि, ग्रिण्डे, लैके, नक्स म, ओपि, स्पञ्जि, सल्फ।

" " दाहिनी करवट सोनेपर—स्पैङ्ग?।

" नींदसे जागनेपर—ऐसिड-टार्ट, एपिस, आर्ज ना, आर्नि, आरम ट्रि, ब्रोमि, कार्बो-वेज, चेलि ग्रैफा, ग्रिण्डे, हिपर, केलि आ, केलि-कार्ब, लैके, नक्स-म, ओपि, स्पञ्जि, सल्फ।

" " रातमें—सैम्बु, कैलि कार्ब।

" पसीनेके साथ—आर्स, सिपि, सल्फ।

" पक्षाघातसे उसपर किसीका—ऐसिड टार्ट बेरा कार्ब चायना, मॉस्क फास।

" " हृद् सकुचाता—बेरा कार्ब, कार्बो वेज, चायना।

" परिश्रमके बाद—आर्से-आयडि, आर्स, कैल्क आर्स [illegible] आइओ इपि, कैलि कार्ब, [illegible] लोबि, नाक्स, [illegible] लाइकि, नाइ स्पञ्जि, स्टैनम स्ट्रैमो, सल्फ।

" " मानसिक—इग्ने [illegible]।

काष्टकर, परिश्रमके बाद, हाथ और बाहुसे—लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, साइलि।

„ पाकस्थलीमें दर्दके कारण—आर्स, नक्स-वोम, रास-टक्स।

„ पीनेके समय पानी वगैरह—आर्जेण्ट-नाइट्रि, सिमेक्स, कैलि-कार्ब।

„ पेट फूलनेके साथ—कार्बो-वेज, कैमो, लाइको, जिङ्क।

„ बैठनेपर—फेरम, लैके, लोरो, लाइको, फास, सोरि।

„ बोलनेके समय—आर्स, कास्टि, ड्रोसे, लैके, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

„ भ्रम हो जानेके साथ—चायना, कार्बो-वेज, स्पञ्जि।

„ मलत्यागनेके समय—ऐलू।

„ व्यायाम करनेके समय—आर्स, ड्रूपि, लोरो, फास, साइलि, स्टैनम।

„ शीतावस्थामें (During chill)—एपि, नेट्रम-म्यूर।

„ श्लेष्मा इकट्ठा होकर श्वासनलीमें—आर्स, ड्रूपि, हिपोजि।

„ सङ्कोचनकी वजहसे स्वरयन्त्र या गलेके—एपि, क्रोटे-हो, लैके।

„ सङ्गमके समय—ऐम्ब्रा, स्टैफि।

„ „ बाद—सीड्रन, डिजि।

„ सामयिक (Periodical)—कैक्ट, कोलचि, प्रम्ब।

„ स्पर्श करनेपर गला—एपिस, बेल, लैके।

„ स्वप्नदोषके बाद—फास, स्टैफि।

„ सांस लेने (Inspiration)—ऐकोन, आर्जे-मेट, आर्स, ब्रोमि, कैल्के, फेरम, इग्ने, आइयो, फास, सैम्बु।

„ छोड़ने (Expiration)—आर्जे-मेट, फेरम, ड्रपि।

„ सोने (लेटने) को अवस्थामें—ऐण्टि-टार्ट, एपि, आर्स, आर्स-आ, बैप्टी, कैना-सै, कार्बो-वेज, चायना, डिजि, फेरम, फ्लू-ऐ, हैमा, हिपर, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लैक-कै, लैके, मार्क, नैजा, फास, प्रम्ब, पल्स, सैम्ब, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

„ „ चित्त होकर—आर्स, आरम, हाइपे, लाइको, फास, पल्स, साइलि।

कष्टकर, सोनेकी अवस्थामें करवट बदलनेपर—आर्स, कार्बो वेज, सल्फ।

" " सर झुकानेपर—एपि, कौक, कार्बो-वेज, चायना, हिपर, कैलि-कार्ब, स्पञ्जि, सल्फ।

" सोना असम्भव—ऐण्टि-टा, एपिस, ऐपो, आर्स, आरम, कौक, क्रोटन-टिग, लैककै, लेके, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ, टेरि।

" हिलने डोलनेपर—आर्ज-नाइ, आर्स, आइयो, कैलि-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, स्पंजि, स्टैनम।

" हवामें ठण्डी—आर्स, लोबे, लाइको, मार्क, स्पंजि।

" " खुली जानेपर बाहर—ऐना।

" हवा भारी मालूम होती है—राम-वे।

" पंखा झलने कहता है—एपि, कार्बो-वेज, फेरम।

" हिस्टीरिया सम्बन्धी (Hysterical)—थार्म, इग्ने, जेल्स, मस्क।

" हृत्पिण्डमें दर्दके साथ—आर्ज-नाइट्रि, कैक, सोरि, स्पंजि।

" बुद्धि-उत्तेजनासे—थार्म, पल्स, सिपि।

" " खुली हवामें—बोरा, सोरि, सल्फ।

" " टेढ़ा करनेपर माथा पीछेकी ओर—पैन, केमो।

" " " " " सामनेकी ओर—स्पाई।

" " नींदके बाद—एपि पैन, लैके, सिपि फास।

" " सोनेसे बाई करवट—एपिस, कैलि कार्ब, स्पाई।

" घटना, भोजनके बाद—ऐंफा स्पंजि।

" " टहलने पर—ड्रोस, फेरम।

" " " तेज—सिपि।

" " " धीरे धीरे इधर उधर—फेरम।

" " टेढ़े होनेपर सामनेकी ओर—चाय, कैलि बा, कैलि कार्ब, लैके स्पंजि।

" " पेटपर—फेरम पेटे भीतरी सारनी क्राम सोरि।

" " विश्राममें—ग्वाई।

" " चौथा निश्वसेरा—एण्टि टार्ट, फिल्के, सिपि।

काष्टकर, घटना, सोनेपर—कैल्के-फास, चेलिडो, डिजि, हेलि, लोरो, नक्स-वोम, सोरि।

„ „ „ चित होकर—कैक्ट, कैल्मि, नक्स-वोम।

„ „ „ दाहिनी करवट—स्पाई।

„ „ हवामें, ठण्डी—ब्राइयो, कार्बो-वेज, ओपि, पल्स।

„ „ „ खुली—ऐमोन-कार्ब, एपि, चिनि-श्रा, जेल्स, इपि, **नेट्रम-मूर, पल्स, सल्फ।**

„ „ हिलने डोलनेपर—फेरम, अरम।

गर्म (Hot)—**ऐकोन**, ऐसिट-क्रूड, आर्स, बेल, **कार्बोनि-स**, कैमो, फेरम, मैङ्ग, नेट्रम-म्यूर, फास, रास-वे, सैबा, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ तीसरे पहर—वैडि, रास-टक्स।

„ शीतावस्थामें—**रास-टक्स।**

„ गोंगियानेकी तरह—(Moaning)—एण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, सिना, कोल्चि, हाइड्रो-ऐ, लैके, लिसिन, म्यू-ऐ, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स।

गहरो (Deep)—ऐकोन, आइलैन्थ, ब्रोमि, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, **कैप्सि**, कैस्टो, कास्टि, डिजि, युफ्रे, हिपर, हाइड्रो-ऐ, **इग्ने**, इपि, **लैके**, लाइको, म्यू-ऐ, **ओपि**, **फास**, प्लैटि, रैना-ब, रास-टक्स, सिके, **सिलि**, **साइलि**, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

„ असम्भव—आर्स, सल्फ।

„ घटती है—कैना-इ, कोलचि, कूप्रम, इग्ने, लैके, सेनै, स्पाई, **स्टैनम।**

„ „ दौड़ने बाद—हिपर।

„ „ निद्रित अवस्थामें—इग्ने।

„ , बार बार—कैल्के, ग्लोनो, **इग्ने**, **लैके**, **सल्फ।**

• लेनेकी इच्छा (Desire to breathe)—**ब्राइयो**, **कैक्ट**, बोरा, कैल्के, केप्सि, कास्टि, ग्लोनो, **इग्ने**, क्रियो, लैकि-ऐ, लाइको, मार्क, पेरि, फास, सेने।

छोटी (स्वाभाविकसे) छोटी छोटी (Short)—ऐगा, ऐग्न, ऐम्त्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐना, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्जे नाई, आर्नि, आर्स, ऐशार, बेल, बोवि, ब्रोमि, ब्राइयो, केल्के, केल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-वेज, कारिट, केमो, चेलिडो, सिमिफ्यु, सिना, काफ, काकि, कोना, आइयो, इपि, आइरि वा, कैल्मि, क्रियो, लिम्नि टिग, लोबे, मार्क, म्यू-ऐ, नेजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म, नाइट्रि ऐ, नक्स म, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि, प्रू न-स्पा, मोरि, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, रूटा, सैबाडि, सैङ्ग, सेनि, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ ।

" सन्ध्यामें—रैना-ब, रास-टक्स, सल्फ ।

" रात्रिमें—रासटक्स, सिपि ।

" मध्य रात्रिमें—ऐकोन, रासटक्स ।

" उठके बैठकर—एपिस ।

" कलेजेमें धड़कनके साथ—ऐमोन-कार्ब ।

" खांसनेके समय—आई ब्रोमि, कैम्फ, कोपे, इपि, लाइको, स्टैनम, रासटक्स ।

" " के बाद—फास, इपि ।

" चढनेपर, ऊँचे—एपिस, केल्के ।

" " सीढ़ोसे—बोरा, कार्बो-वे मार्क, अम्न मार्गो, सेनि ।

" ज्वरके समय—एपिस, सिपि, आर्नि ।

" टहलनेपर—आर्स, केल्के, कार्बो वेज कोना नेट्रम म, प्रून स्पा सिपि, सल्फ ।

" " धुली हवामें—सल्फ, मोरि ।

" " जल्दी जल्दी—ग्रफा, नेट्रम-म्यूर, पल्स, नाइट्रि एसिड ।

" निद्रित अवस्थामें—ऐकोन, लैके, लाइको ।

" परिश्रमसे—आर्स, लाइको, नेट्रम-म्यू ।

" बकनेसे—लाइको ।

दमाकी तरह, सवेरे—आरम, कैल्के, कार्बो-वेज, काकि, कोना, **कैलि-कार्ब**, ग्रैफा, विरे।

„ „ १० से ११ बजेके बीचमें—फेरम।

„ मध्यान्हमें—लोबे।

„ सध्यामें—सिस्टा, फास, **पल्स**, सल्फ, जिङ्क।

„ रातमें—ऐण्टि-टार्ट, **आर्स**, ब्रोमि, कार्बो-वेज, चेलि, डिजि, फेरम, ड्रुपि, केलि-कार्ब, ओपि, **पल्स**, सिपिया, सल्फ, सिफि, थूजा।

„ „ मध्य रात्रिके बाद—**आर्स**, कार्बो-वेज, फेरम, **सैम्बु**।

„ „ खाटसे उठ बैठना पडता है—**आर्स, सैम्बु**।

„ „ २ बजेके समय—**आर्स**, रूमेक्स।

„ „ ३ „ समय—कूप्रम, **कैलि-कार्ब**।

„ „ ४ „ ५ बजे—नेट्रम-म, स्टैनम।

„ आक्षेपिक खीचनवाला (Spasmodic)—ऐण्टिम-टार्ट, ऐसाफि, बेल, कैक्ट, काफि, कूप्रम, जेल्स, ग्रैफा, हाइड्रो-ऐ, हाइयो, **ड्रुपि**, केलि-बा, लैके, लोबि, मैग-फास, मेजे, मस्क, नक्स-वोम, ओपि, प्लम्ब, पल्स, सार्सा, सिके, सिपि, **स्पंजि**, स्ट्रैमो, सैम्बल, टैबे।

„ उत्तेजनाके बाद हर्ष, शोक वगैरह कारणसे—ऐकोन, जेल्स, इग्ने, नक्स-वोम।

दमा उद्भेद बैठकर (From suppression of eruptions)—एपिस, आर्स, कार्बो-वेज, डाल, फेरम, ड्रपि, **पल्स**।

„ ऋतु बन्द होकर (Suppression)—पल्स, सल्फि।

„ चिढ जानेकी वजहसे—**कैमो**।

„ छोटी माताके बाद—ब्रोमि, कार्बो-वेज।

„ टीका देने बाद—थूजा।

„ ठण्ड लगकर—ऐकोन, डाल, पोडो, पल्स, **स्पंजि**, स्टैनम।

„ निद्रित अवस्थामें—ऐकोन, कार्बो-वेज, केलि-कार्ब, सल्फ।

„ पेट फूलनेके साथ—कार्बो-वेज, कैमो, चायना, लाइको, सल्फ।

„ बच्चोंका—ऐकोन, **कैमो**, ड्रपि, मस्क, नेट्र-स, पल्स, सैम्बु, सल्फ।

दमा, मूर्च्छावायुग्रस्त मनुष्योंका (Hysterical)—मस्क, नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

" वृद्ध मनुष्योंका—ऐम्ब्रा, आर्स, वेरा-कार्ब, कार्बो-वेज—सल्फ।

" शीत ऋतुमें—कार्बो-वेज।

" सामयिक (Periodical)—ऐलूमि, ऐसाफि, कार्बो-वेज, चेनि, हाइड्रो-ऐ, इग्ने, सल्फ।

" " प्रत्येक आठ दिनके अन्तरसे—सल्फ।

" हवामें तर—आरम, डाल्, नेट्र स।

" घटना-वायुमें, ठण्डी—कार्बो-वेज, कैमो, मार्क।

" " माथा पीछे झुकानेपर—स्पञ्जि, वेरे।

" बढ़ना-गर्म खाद्यसे—कैमो।

" " गर्म कमरेमें—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-वेज।

" " ठण्डे पानीसे—सिफा।

" " पूर्णिमाको—स्पञ्जि।

" " हवामें ठण्डी—नक्स-वोम, पेट्रो।

दीर्घश्वास (Sighing)—ऐकोन, आर्ज-मे, आर्स, ऐम्पा, बोरा, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्क, कैल्क फास, कैम्फ, कार्बो-वेज, कैमो, डिजि, फेरम-म्यू, जेल्स, ग्लोनो, हेलि इग्ने, इपि, लाइको, मिलिन, मार्क-कोर, ओपि, फास, फाइटो, पल्स, सिके, स्पञ्जि, स्ट्रेमो, सल्फ।

" निद्रित अवस्थामें—इग्ना, कैम्फ, सल्फ।

धीरे धीरे (Slow)—ऐकोन, एपिस, ऐसाफि, बैल, ब्रोमि, कैम्फ कैलि, कैन्टो, काकि, कोनिय कोमोसि डिजि, [illegible], ग्लोनो, हेलि, हिपर, हाइड्रो ए, हायसो, इग्ने, इपि, लैके, लौरो मार्क-कोर, नक्स मास, ओलि, ओपि, फाइटो, स्पञ्जि।

" निद्रित अवस्थामें—ऐकोन, लाकेसा, ओपि।

" श्वास छोड़नेमें (Expiration)—ऐण्टिम टार्ट, आर्नि [illegible] सिपि।

" " लेनेमें (Inspiration)—[illegible] पाइला, इग्ने, [illegible]।

नाक बोलना (Snoring)—ब्रोमि, कैम्फ, कार्ल, कैमो, चायना, कूप्रम, हिपर, इग्ने, लैके, लोरो, नक्स-वोम, **ओपि**, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ ।

” चित सोनेपर—ड्रोसि, डाल, कैलि-कार्ब, मैग-का, सल्फ ।

नाक बोलनेकी तरह आवाज (Stertorous)—**ऐमोन-कार्ब**, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्स, कैम्फ, चायना, जेल्स, ग्लोनो, लैके, लोरो, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **ओपि**, पल्स, स्पञ्जि स्ट्रैमो ।

” निद्रित अवस्थामें—ब्रोमि, **ओपि**, **पल्स** ।

फूंकनेकी तरह साँस (Puffing respiration)—ब्यूफो, चायना, लैके, ओपि, टेरे ।

बन्द (Arrested)—**आइथो**, कैक्ट, केल्को, कैम्फ, कास्टि, सिकि, **कूप्रम**, लीडम, लाइको, मस्क, नक्स-म, ओपि, फास, पल्स, रूटा, **सैम्बु**, साइलि, सल्फ, विरे ।

” खाँसीके समय—ऐकोन, ऐलूमि, **ऐलू**, **ऐण्टि-टार्ट**, **आर्स**, **सिना**, कोरा-रू, **कूप्रम**, ड्रोसि, **इपि**, क्रियो, लाइको, नक्स-म, **नक्स-वोम**, सैम्बु, सिपिया, साइलि, सल्फ ।

” टहलनेके समय—कैल्के, चायना, नाइट्रि-ऐ ।

” निद्रित अवस्थामें—कार्बो-वेज, **ग्रिण्डे**, **लैके**, ओपि ।

” पीठमें दर्दके साथ—कैना-से, पल्स ।

” बच्चोंकी, एकाएक—कैमो ।

” बोलनेके समय—सल्फ ।

” सुई बेधनेकी तरह दर्दके साथ हृत्पिण्डमें—कैल्के, मैग-म्यू ।

” ” ” मलनालीमें—सल्फ ।

” ” ” पृष्ठ फलकास्थिमें (Scapulæ)—सल्फ ।

” सोनेके समय—बोरैक्स, पल्स ।

” हृत्पिण्डका कार्य रुका मालूम होनेकी वजहसे, रातमें—गुये ।

” हिलने डोलनेपर—सिपिया ।

बद (Asphyxia)—कार्बोनि-स, कैम्फ, क्लोरा, ओपि, सिना-ना ।

” कोयलेके धुएँसे (Coal gas)कार्बोनि-स, कार्बो-वेज ।

घट, बच्चोंको, नवजात—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, आर्नि, बेल, कैम्फ, लोरो, ओपि।

बाधायुक्त (Impeded, obstructed)—ऐन्नो, आर्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैम्फ, सिना, काकि, क्रोकस, क्युप्रम, डल्के, आइयो लेके, लिडम, मार्क, मार्क-कोर, नाइ-ऐ, नक्स-म, ओलि-ऐ, ओपि, पोडो, सोरि, रूटा, सेम्बु, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, सल्फ, वेरे।

" रातमें—कैलि-कार्ब, सल्फ।

" " निद्रित अवस्थामें—सुये।

" ऊपर चढ़नेमें—क्लिमे।

" खाँसनेके समय—क्युप्रम, इपि, नक्स-म।

" छातीमें दर्दके साथ—ब्राइयो, सल्फ।

" छातीमें सङ्कोचनके साथ—कैक्ट, कैम्पि, चेलिडो, क्युप्रम ऐ।

" ढक रखता है नाक और मुंह—आर्जे नाइ, लेके।

" दर्दके कारण—आर्ब, ब्राइयो।

" पाकस्थलीमें दर्दकी वजहसे—आर्स।

" टहलनेपर—फास।

" यकृतमें दर्दकी वजहसे—मिपि।

" हृत्पिण्डमें धड़कनकी वजहसे (Palpitation)—नाइट्रि-ऐ सल्फ।

" " घबड़ाहटके साथ—डिजि।

" " दर्द, सुई चुभनेकी तरह—क्रोक कैल्के, स्ट्रैफि, नेजा।

मुंह फाड़कर सांस लेता है (Breathe with mouth open)—ऐमो, लाइको, फास, सेम्बु।

यन्त्रणादायक (Painful)—एपिस रैना-ब।

शब्द ज़ोरसे (Loud)—आर्नि, [illegible], कैल्के, आर्स [illegible] ऐमो, [illegible], कोरो, सिना, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कैलि-[illegible], कैलि-कार्ब, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] फास, सम्बु, [illegible], [illegible], सेम्बु, [illegible], स्पञ्जि, [illegible], सल्फ, [illegible]।

" निद्रित अवस्थामें—सम्बु।

" सांस छोड़नेके समय—[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]।

शब्द जोरसे, साँस छोडनेके समय—नक्स-वोम ।

साँय साँय शब्द (Wheezing)—ऐलूमि, ऐपी, **आर्स, आर्स-आयोड,** ब्रोमि, कैना-से, कैफि, **कार्बो-वेज,** चायना, सिना, कूप्रम, ड्रोसे, फ्लू-ऐ, आइयो, **इपि,** कैलि-आई, **कैलि-कार्ब,** कैलि-स, लैके, लाइको-पो, लाइको, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, नक्स-वोम, नाइट्रि-ऐ, सैम्बु, सिफि ।

सीटी देने जैसा शब्द (Whistling)—ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, कैमो, **चायना,** हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, मैन्गि, सैम्बु, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ ।

„ साँस लेनेके समय (During inspiration)—कैलि-कार्ब, सल्फ ।

„ क्रुप खाँसीमें—ब्रोमि, कार्बो-वेज, कूप्रम, हिपर ।

हाँफनेकी तरह (जैसा दौडनेके बाद होता है) (Panting)—ऐण्टि-टार्ट, ऐपी, आर्नि, ब्राइयो, कार्बो-ऐ, सिना, काकि, इपि, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वो, **फास,** फाइटो, साइलि, स्पञ्जि, विरे-वि ।

„ सीढी चढनेमें—**कैल्के** ।

हाँफना (Gasping)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि-टार्ट, **एपिस,** ऐपी, आर्स, ब्रोमि, क्लोरस, सिकि, काकि, कोलचि, कोलोसि, डिजि, हेलि, हाइड्रो-ऐ, हाइपे, इपि, लोरो, **लाइको,** मेडो, मस्क, नैजा, फास, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, टेबे ।

खांसी (COUGH) ।

दिनमें (Day time)—**ऐमोन-कार्ब,** आर्ज-मेट, आर्नि, बेल, ब्राइयो, **युफ्रे,** कैलि-कार्ब, **लैके, नेट्रम-स, फास,** सल्फ ।

„ केवल (सिर्फ)—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, **युफ्रे,** लैके, फास ।

„ दिन रात—बेल, इग्ने, नेट्रम-म्यूर, फास, **स्पंजि,** स्क्विड, सल्फ ।

सवेरे—ऐगा, **ऐलूमि**, **आर्स**, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैल्के-स, चेलि, **चायना**, सिना, कक्क, युफ्रे, फेरम, हाइयो, **कैलि-बा**, **कैलि-आर्स**, लीडम, लाइको, मैग-स, मिफा, **मस्क**, नेट्रम-म्यू, **नक्स-वोम**, फास, सोरि, **पल्स**, **रूमेक्स**, सल्फ।

„ नींद खुलनेपर—कक्क, इग्ने, **कैलि-बाइ**, **नक्स-वोम**, **रूमेक्स**, **साइलि**, सल्फ।

„ बिछावनसे उठनेके पहले—कास्टि, नक्स-वोम, फास।

„ „ „ बाद—आर्स, चेलि, **सिना**, युफ्रे, फेरम, फास।

पहले पहरमें—ऐमोन-म्यू, बेल।

तीसरे पहरमें—बेल, चेलिडो, सैङ्ग, सल्फ।

सन्ध्यामें—ऐग्ना, **आर्स**, बेल, ब्रोमि, **कैल्के**, कैप्सि कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, ड्रोसे, युपे-प, फलु-ऐ, हिपर, **इग्ने**, **लाइको**, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ**, पेट्रो, फास, **पल्स**, रास-टक्स सैङ्ग, सेने, सिपि, मिने-या, स्टैनम, थार्म।

„ सोनेसे—बेल, **कैलि-कार्ब**, **पल्स**, **सिपि**।

„ „ उठकर बैठनेके लिये बाध्य होता है—आर्स, **पल्स**।

रातमें—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यू, **आर्स**, बैरा कार्ब, बेल, कैल्के, कैप्सि, कार्बो ऐनि, कास्टि, **कैमो**, चेलिडो, चायना, कौक्युलि, कोना, साइक्ला, ड्रोसे, **यूफा**, पैटि, हाइयो, इग्ने, इपि, **कैलि-बा**, लिको, लैके, मारफो, मैग कार्ब, मैग म्यू, **मार्क**, मेजे, नेट्रम-म्यू, **पल्स**, रास-टक्स, रूमेक्स सैंगु, **सिपि**, **साइलि**, **सल्फ**, सिलि, थेरि, वार्बा।

„ आधी रातके पहले—(१) कार्बो वेज, स्टैनम (२) आर्स मार्क, माइलि ऐ।

„ आधी रातके बाद—(१) ड्रोसे, (२) आर्स, बेल कैल्के, कैलि कार्ब, नक्स वोम, रास टक्स।

„ जाग उठता है खांसीकी गड़बड़ी—कालि, **हाइयो**, **सिपि**, **सल्फ**।

रातमें, ३ बजे—एमोन-कार्ब, कैलि-कार्ब।

अक्षम, खाँसनेमें (शक्तिका न रहना-Inability)—एण्टिम-टार्ट, ड्रोसे, नेट्रम-स, सल्फ।

„ खाँसनेमें जोरसे, श्लेष्मा निकलनेके लिये—कास्टि।

अनवरत (Constant) लगातार—एलूमि, आर्नि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कोना, कूप्रम, फेरम, हाइयो, इपि, लेके, लाइको, मेजे, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, स्पंजि, स्क्रुइ।

„ सन्ध्यामें—पल्स।

„ रातमें—स्क्रुइ, सिपि।

„ „ पहले पहरमें—कास्टि, पल्स।

„ सोनेसे बढ़ना, बैठनेसे घटना—हाइयो, पल्स, रास टक्स, सैम्बु।

अवसादजनक (Fatiguing, exhausting)—आर्स, बेल, कास्टि, सिपिया, स्टैनम, ब्रोमि, कैम्फ, कार्बो-वेज, काकु, क्रोकस, कूप्रम, ड्रोसे, हाइयो, इपि, कैलि-कार्ब, लेके, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, रूमेक्स, साइलि, स्टिलि।

„ सन्ध्यामें—कैलि बा, साइलि, स्टिलि।

„ रातमें—कास्टि, पल्स।

„ „ नींदमें बाधा पड़ती है—पल्स।

„ „ घटना, बैठनेसे—नेट्रम-कार्ब।

आक्षेपिक (Spasmodic)—"खींचन मिली आक्षेपिक"-देखिये।

उछल उठता है, बच्चा जिसे नजदीक पाता है उससे लपट जाता है—एण्टिम-टार्ट।

उठाकर बैठानेके लिये बाध्य करता है, बच्चोंका चेहरा नीला हो जाता है, साँस छोड़ने नहीं पाता—मिफा।

उत्तेजना, अन्तर्दाहकी वजहसे (वायुके रास्तेमें कुटकुटाकर) (From irritation in air passages)—ऐकोन, ऐगा, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, जेल्स, हाइयो, नक्स-वोम, पल्स-ना, सिपि, सल्फ-ऐ।

„ जितना खाँसता है उतनी ही खाँसी बढ़ती है—इग्ने।

उत्तेजना, गलेमें—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐना, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, चिमा, कोलोसि, कोना, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लोबेलि, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मेङ्ग, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि-ऐ, पेट्रो, पल्स, पोडो, सैबाडि, साइलि, स्कुइ, सल्फ ।

„ गलेके पेंदेमें—बेल, कैमो, कोकस, इग्ने, आइयो, लेकेसि, फास-ऐ, रास-टा, रुमेक्स, सेङ्गु, साइलि ।

„ छातीमें—ऐना, आर्स, बोवि, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, ड्रोसे, कुप्रं, ग्रैटि, कैलि-नाइ, फास, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सेङ्गु, सिपि, स्पञ्जि, स्टेनम, विरे ।

„ छातीकी जड़में—बैरा-कार्ब, बोरा, ब्राइयो, कैमो, गुयेक, हिपर, लेके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, पल्स ।

„ वायुनलीमें (Trachea)—आर्जेण्ट-मेट, आर्निका, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कष्ट कोना, ड्रोसे, आइयो, कैलि-बाइ, लाइको, मेङ्ग, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, कैलि-कार्ब, रास-टक्स, पेट्रो, फास, पल्स, रुमेक्स, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्पञ्जि, सल्फ, थूजा ।

„ श्वासनलीमें—(१) बेल, ऐन्टि-टि, कैमो, कष्ट कोना, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, लेके, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, फास, पल्स, स्पञ्जि, (२) ऐलूमि, ऐरम आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट नाइ, ब्रोमि, ब्राइयो कैमोमि कैल्के, कार्बो-ऐनि कार्बो-वेज कास्टि कष्ट, कोलोसि, कुप्रं, ड्रोसे, हिपर कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब लाइको, मार्क, मेजे पेट्रो, फास-ऐ फाइटो रास-टक्स, रुमेक्स हिपर, सिपि साइलि स्पञ्जि, स्ट्रेमो ।

कण्ठके पर्देमें—फॉस्फ ... [illegible] ।

„ ... —... [illegible] ।

... ([illegible])—... कुप्रं, सिपि [illegible] ।

एकाएक प्रबल खाँसी, रुक रुककर प्रबल खाँसी (Paroxysmal)—ऐगा ऐम्ब्रा, आर्निका, **बेल**, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, **सिना**, काक, कोना, कोरा-रू, कूप्रम, **ड्रोसे**, **हिपर**, **हाइयो**, केलि-कार्ब, क्रियो, लैके, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, सोरि, पल्स, **रुमेक्स**, सिपि, **स्टैनम**, सल्फ, वेरे।

„ सवेरे—ऐगा, ऐण्टि-क्रू, नक्स-वोम।

„ तीसरे पहर—चेलिडो, कूप्रम।

„ सन्ध्यामें—हिपर, फास।

„ रातमें—बेल, कैम्फ, हिपर, लैके, मार्क, **रुमेक्स**, स्क्वि।

„ „ प्रथम प्रहरमें—ऐण्टि-टार्ट, बेल, लैके, **रुमेक्स**, स्क्वि।

„ „ मध्यमें (आधी रातमें)—कैमो।

„ „ अन्तमें—ड्रोसे।

„ **घटना**, उठकर बैठनेसे—सिनेबा।

„ „ पेटके ऊपर हाथ रखनेसे—क्रोक।

„ „ मुंह धोनेसे ठण्डे पानीसे—काक।

„ **बढ़ना**, गरम घरमें—ऐन्थि।

„ „ घरके अन्दर रहनेसे—चेलिडो।

कड़ापनके साथ शरीरमें (With regidity of the body)—बेल, कास्टि, सिना, कूप्रम, **इपि**, नीडम, मस्क।

कुत्तेकी आवाज़की तरह भों भों आवाज़ (Barking)—**ऐकोन**, **बेल**, ड्रोसे, **हिपर**, नाइट्रि-ऐ, फास, रुमेक्स, **स्पंजि**, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ दिन रात—स्क्वि।

„ सन्ध्यामें—नाइट्रि-ऐ।

„ **घटना**-ठण्डा पानी पीनेसे—काक।

केश मालूम होना, वायुनालीमें (Trachea)—साइलि।

खींचन मिली, आक्षेपिक (Spasmodic)—ऐम्ब्रा, बेल, **ब्राइयो**, कैम्फ, कार्बो-वेज, चायना, **सिना**, **कूप्रम**, **ड्रोसे**, फेरम, हिपर, **हाइयो**, इग्ने, आइयो **इपि**, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लो, क्रियो, लैक्टि-ऐ, मैग-

का, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, प्लम्ब, पल्स, सल्फ, वेरे ।

खरोंचकी भावके कारण, (Scraping) गलेमें—ऐलु, ऐमोन-कार्ब, वेल, हिपर, सेबाडि ।

„ स्वरयन्त्रमें—बेल, ब्रोमि, कक, कोना, हिपर, नक्स-वोम, पल्स ।

खुसखुसी (Hacking)—ऐलो, ऐलि-मि, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, आर्स-आ, बोरा, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-फास, कोन्च, कैप्सि, कार्बो-ऐ, चायना, सिना, कोना, क्रूप्रम-म, ड्रोसे, जेल्स, हाइयो, हाइपि, कैलि-बा, कैलि-आइ, लैके, नेट्रम-म्यूर, ओपि, फास, सोरि राम टक्स, रूमेक्स, सेने, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्ट्रेमि, सल्फ, थूजा, टियु ।

„ सबेरे उठनेके बाद—ऐानिका, फेरम, लैके, स्टैफि, थूजा ।

„ तीसरे पहर—सैंगु ।

„ सन्ध्यासे—बोरा, इग्ने, राम टक्स, सैगु, सल्फ ।

„ सोनेके बाद—इग्ने, सैंगु, सिपि ।

„ तम्बाकू पीनेकी वजहसे—क्लिमे, यूफ्रे, कोलोसि, हैमि, इग्ने, मेजे, मक्स-वोम, पेट्रो ।

„ भोजनके समय—हिपर, नाइट्रि-ऐ, मेज्र ।

„ पुलिपनकी वजहसे गलेमें—ऐण्टिम टार्ट, मेज्रे, प्लेमो, मेज्र ।

खोखला (Hollow)—बेल, कास्टि, फास वेरे ।

„ सबेरे जागनेसे ही—इग्ने ।

„ „ बिछावनमें ही—फास ।

गरम होनेसे शरीर (On becoming warm)—ऐण्टि, कोलि नाइट्रि ऐ नक्स मस ।

„ खानेकी चीजोंसे—ऐण्ट क्रूड, कैलि कार्ब, मेजि, पल्स ।

„ घरमें जानेसे—ऐण्टि टि, ब्रायो नक्स, कोच कार्बो वेज, कैलि सल्फ आयोडि नेट्रम कार्ब, पल्स, पेट्रो ।

एकाएक प्रबल खाँसी, रुक रुककर प्रबल खाँसी (Paroxysmal)—ऐगा, ऐम्ब्रा, आर्निका, **बेल**, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, **सिना**, काक, कोना, कोरा-रू, कूप्रम, **ड्रोसे**, **हिपर**, **हाइयो**, केलि-कार्ब, क्रियो, लैके, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, सोरि, पल्स, **रूमेक्स**, सिपि, **स्टैनम**, सल्फ, वेरे।

„ सवेरे—ऐगा, ऐण्टि-क्रू, नक्स-वोम।

„ तीसरे पहर—चेलिडो, कूप्रम।

„ सन्ध्यामें—हिपर, फास।

„ रातमें—बेल, केम्फ, हिपर, लैके, मार्क, **रूमेक्स**, स्क्वि।

„ „ प्रथम प्रहरमें—ऐण्टि-टार्ट, बेल, लैके, **रूमेक्स**, स्क्वि।

„ „ मध्यमें (आधी रातमें)—कैमो।

„ „ अन्तमें—ड्रोसे।

„ **घटना**, उठकर बैठनेसे—सिनेबा।

„ „ पेटके ऊपर हाथ रखनेसे—क्रोक।

„ „ मुंह धोनेसे ठण्डे पानीसे—काक।

„ **बढ़ना**, गरम घरमें—ऐन्टि।

„ „ घरके अन्दर रहनेसे—चेलिडो।

कड़ापनके साथ शरीरमें (With regidity of the body)—बेल, कास्टि, सिना, कूप्रम, **इपि**, म्नोडम, मस्क।

कुत्ते की आवाज़की तरह भों भो आवाज़ (Barking)—**ऐकोन**, **बेल**, ड्रोसे, **हिपर**, नाइट्रि-ऐ, फास, रूमेक्स, **स्पंजि**, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ दिन रात—स्क्वि।

„ सन्ध्यामें—नाइट्रि-ऐ।

„ **घटना**-ठण्डा पानी पीनेसे—काक।

केश मालूम होना, वायुनालीमें (Trachea)—साइलि।

खींचन मिली, आक्षेपिक (Spasmodic)—ऐम्ब्रा, बेल, **ब्राइयो**, कोक्क, कार्बो-वेज, चायना, **सिना**, **कूप्रम**, **ड्रोसे**, फेरम, हिपर, **हाइयो**, इग्ने, आइयो, **इपि**, केलि-कार्ब, केलि-क्लो, क्रियो, लैक्टि-ऐ, मैग-

कैा, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, प्रम्ब, पल्स, सल्फ, वेरे।

खरोंचके भावके कारण, (Scraping) गलेमें—ऐलु, ऐमोन-कार्ब, बेल, हिपर, सेवाडि।

„ स्वरयन्त्रमें—बेल, ब्रोमि, कक, कोना, हिपर, नक्स-वोम, पलस।

खुसखुसी (Hacking)—ऐलो, ऐलि-सि, ऐलुमि, ऐण्टि-क्रुड, आर्स, आर्स-आ, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, केल्के-फास, केम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐ, चायना, सिना, कोना, कूमम-म, क्रोमे, जेल्स हाइयो, हाइपि, कैलि-बा, केलि-आइ, लैके, नेट्रम-म्यूर, पेरि, फास, सोरि राम-टक्स, रूमेक्स, सेनी, सिपि, साइलि, स्ट्रैमम, स्ट्रिनि, सल्फ, थूजा, टियु।

„ सबेरे उठनेके बाद—आर्निका, फेरम, लैके, स्टेफि, थूजा।

„ तीसरे पहर—सैंगु।

„ सन्ध्यामें—ब्रोम, डूग्रे, राम टक्स, सगु, मन्फ।

„ सोनेके बाद—डग्ने, सैंगु, सिपि।

„ तम्बाकू पीनेकी वजहसे—क्लिमे, कक, कोनोमि, ईग्नि डूग्रे, नेट्र, नक्स वोम, पेट्रो।

„ भोजनके समय—हिपर, नाइट्रि-ए, मेडू।

„ छूतिपनकी वजहसे गलेमें—एण्टिम टार्ट मेडू, प्रैफ्ले, मेडू।

खोखला (Hollow)—बेल, कास्टि फास, वेरे।

„ सबेर आगमें भी—ड्रग्ने।

„ „ बिछौनेमें भी—फास।

गरम होनेसे शरीर (On becoming warm)—कास्टि ब्रोमि, नाइट्रि ए, नक्स मस।

„ पानीकी भीजनेसे—हिप आर्स कक्कु कैलि कार्ब, मिरे, वेरा।

„ गरमें रहनेसे—ऐलि सि, ब्राइयो कक, कैलि कल्क कार्बो वेजि केलि-आयड नाइट्रो नेट्रम आर्स पल्स, सैबि सल्फ।

गरम घरमें प्रवेश करनेसे—ऐकोन, **ऐण्टिम-क्रूड,** ब्रोमि, **कक,** कोमोले,
नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ, पल्स।

„ जलीय पदार्थ पीने—काकु, स्टैनम।

गर्भावस्थामें—केल्के, कोना, ड्रूपि, नक्स मस, फास, पल्स, सेबा, सिपि, वाइवा।

गभीर (Deep)—ऐम्ब्रा, हिपर, लेके, मैङ्ग, सेबाडि, **स्टैनम,** विरे, वार्ब।

गुस्सेकी वजहसे (क्रोध)—ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-नैट, ब्राइयो, कैमो, ड्रग्ने,
नक्स-वोम, स्टैफि।

घड़घड़ आवाज मिली (Rattling)—ऐण्टिम-टा, आर्जेण्ट-नैट, आइयो,
वैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कास्टि, केल्के, केमो, सिना, कक, हिपर,
हाइयो, **ड्रूपि,** कैलि-बाई, कैलि सल्फ, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-
सल्फ, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, सैङ्गु, सेनि, स्कुइ, सिपि, स्टैनम,
सल्फ, हिपर।

घुंड़ो (काली खांसी Croupy)—ऐसे-ऐ, **ऐलो,** आर्स, आर्स-आयोड, बेल,
ब्रोमि, केल्के-सल्फ, कार्बो-ऐ, चायना, सिना, जेल्स, **हिपर,**
आइयो, कैलि-बाइ, केलि-म्यूर, **लेकि, फास,** फाइटो, रूमेक्स,
सैम्बु, सैङ्गु, **स्पंजि,** स्ट्रैमो।

छोटी माताके साथ—काफि, स्क्रि, स्कुइ।

„ बाद—ऐण्टि-क्रू, ब्राइयो, केल्के, कैम्फ, कैमो, चेलि, चायना, कोना,
कोपि, कूप्रम, ड्रोसे, डाल, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, कैलि-कार्ब,
नक्स वोम, पल्स, स्टिक्टा।

ज्वरावस्थामें (During fever)—**ऐकोन,** एपिस, आर्निका, **आर्स,** ब्राइयो,
केल्के, चायना, युपे-पर्फो, हिपर, हाइयो, **इपि,** कैलि-कार्ब,
नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, फास, पल्स, **सैबाडि,** सल्फ।

„ टाइफायेड ज्वरमें (सान्निपातिक ज्वरमें)—ऐण्टिम-टार्ट, बैप्टी, बेल,
ब्राइयो, केल्के, लाइको, नाइट्रि-फास, रास-टक्स, सैङ्गु।

जलन, छातीमें—ऐमोन-कार्ब, कास्टि, कक, युफ्रे, लिडम, मैग-म्यू, फास-ऐ।

„ फैरिङ्क्समें (श्वासनाली)—आर्स, कास्टि, मैग-स, फास-ऐ, सल्फ।

„ स्वरयन्त्रमें—ऐकोन, बेल, ब्यूफो, मैग-स, फास, फाइटो, सेनि।

जल चेचक (पनसाहा माता)—ऐण्टिम-टा।

डरता है, बच्चा, खाँसनेसे और जबतक बन पड़ता है, खाँसी दबा रखता है—फास।

„ „ सूखी आक्षेप अकड़न मिली हुई खाँसीमें, जाग उठता है और चिल्लाकर रो उठता है—कैलि ब्रोम।

ढीली खाँसी (Loose)—आर्ज-मेट, आर्स, आर्स आइ, कैल्के, चेलिडो, काक, कोना, कार्बो-वेज, डाल्का, फास, सिपि, साइलि, सल्फ।

तर पतली खाँसी (Loose)—आर्ज-मेट, आर्स, आर्स-आइ, कैल्के, कार्बो वेज, चेलिडो, काकु, कोना, डालका, फास, सिपि साइलि, सल्फ।

„ लेकिन कुछ नहीं निकलता—कास्टि, कैलि स, फास, स्टेनम, सल्फ।

दबा रखनेके लिये बाध्य होता है, छाती दोनों हाथोंसे, खाँसनेके समय—आर्निका, ब्रायो, नेट्रम सल्फ, सिपि।

दमा (Asthmatic)—ऐकोन, ऐन्टिम, ऐन्टि-टा, आर्स, बेल, ब्रोमि, सिना, कूप्रम, ड्रोसि, हिपर, इपि, क्रियो, मेफ, लिडम, नक्स-म, नक्स-वोम, सिपि, साइलि।

दाँत उठनेके समय (During dentition)—कैल्के, कैल्के-फास, कैमो, हाइयो, क्रियो, पोडो, रास-टक्स।

दिक होनेपर (From vexation)—ऐकोन, ब्रायो, कैमो, इग्ने, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, स्टैफि।

धूल अन्दर जाकर मानो (As from dust)—ऐकोन कार्ब, आर्स, बेल ब्रोमि, इग्ने, लाइको, पल्स, सल्फ।

धुएँ लगनेसे, गन्धकके—आर्स, चायना, इग्ने, मेफ, मास्की, टेरि, पल्स।

निद्राके समय (During sleep)—ऐकोन, आर्निका बेल, कैमो, लैके, रास टक्स, सल्फ।

„ बाद—एड्रमि, मेफ, कैलि-बा, सल्फ।

निद्रा लेनेके लिये बेचैनी (सोनेसे पहले पहल)—हिपर, आर्स सिपि, सल्फ।

नींद नहीं लेने देती—नाइट्रो, पल्स, रास टक्स, सिपि।

नींद खुल जाती है—आर्स, कालि, कष्ट, ब्रायो बेल, हायस, रास टक्स ड्रस, सिपि सल्फ।

पाकस्थलीसे (Gastric)—कार्डु-मे, फेरम, इपि, कैलि-आ, नक्स-वोम।

„ आ रही है मानो (Seems to come from the stomach)—
ऐलि-से, ऐरिट-टा, वेल, ब्राइयो, लैके, मार्क, पल्स, **सिपि**।

प्लुरिसिमें (फुसफुस वेष्ट प्रदाहमें-In pleurisy)—आर्स, ब्राइयो, इपि, लाइको, सल्फ।

फट जानेकी तरह (Splitting)—अरम।

वुड्ढोंका—ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐरिट-टा, वेरा-कार्ब, सीरि, सेने।

बैठनेके लिये बाध्य होता है—ऐरिट-टा, आर्स, ब्राइयो, कक, कोनो, फेरम, हाइयो, कैलि-बा, **फास, पल्स,** सेङ्गु, सेने, सिपि।

„ कफ निकालनेके लिये बाध्य होता है—**कोना**।

„ खासी शुरू होते ही—आर्स, ब्राइयो, कास्टि, कक, हिपर, लेके, प्लेटे।

भयानक (Violent)—वेल, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, काकु, कोना, कूप्रम, ड्रोसे, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, लैके, लोवे, मेफा, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्कुइ, सल्फ, जिङ्क।

„ सवेरे—ब्राइयो, सिना, नक्स-वोम, **स्कुइ**।

„ तीसरे पहर—नेट्रम-कार्ब।

„ सन्ध्यामें—कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब।

„ रातमें ३ बजे—**कैलि-कार्ब**।

„ पसीना निकलता है इसीलिये ज्यादा—आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, ड्रोसे, हिपर, कैलि-कार्ब, मार्क, फास, सिपिया, साइलि, सल्फ।

मास, थोड़ासा फट जायगा मानो, खासते खासते—फास।

मुर्गेकी आवाज़की तरह (Crowing)—ऐकोन, चायना, सिना, **सैम्बु**, स्पञ्जि।

यन्त्रणादायक (Painful, tormenting, racking)—ऐगा, आइलेन्थ, ऐलि-सि, **ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-वेज, **कास्टि**, काकि, कोकस, डाल्का, हाइयो, इग्ने, इपि, **मार्क**, मेजे, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, साइलि, स्कुइ, **सल्फ**, वेरे।

शराब पीनेवालोंका (Drunkards)—आर्स, कक्क, लैके, स्ट्रैमो।

शब्द हीन (Soundless)—सिना, ड्रोसे।

सुरसुरी (Tingling)—**ऐकोन**, ऐलन्था, आर्नि, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, कोका, कोना, ड्रोसे, गुफ़े, **हाइयो**, आइयो, **इपि**, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, **लैकि**, लाइको, **नेट्रम-म्यू**, फास, रास-टक्स, सैंग्वाइना, सेने, **सिपि**, स्पञ्जि, स्क्विड, स्टैनम, **स्टैफि**, सल्फ, टेवे।

„ गलेमें (From tingling in throat)—ऐकोन, ऐलुमि, ऐम्ब्रा, आर्नि, ब्राइयो, कैमो, कोना, ड्रोसे, गुफ़े, **आइयो**, नेट्रम म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्रूण, रूमेक्स, सार्सा, साइलि सल्फ।

„ ट्रैकियामें (कण्ठनाली Trachea)—ऐकोन, आर्नि, कैलि बा, सोरि, पल्स, सेने, सिपि, सल्फ।

„ छातीकी जड़में (Epigastrium)—बेल, ब्राइयो, हिपा, कैके, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ।

„ वायुनालीमें (Air passages)—**ऐकोन**, आर्नि ब्रोमि कार्बो ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, कोना, हाइयो, **आइयो**, **इपि**, कैलि-बा, **लैकि**, **नेट्रम-म्यू**, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पञ्जि, स्टैनम, **स्टैफि**, सल्फ।

„ स्वरयन्त्रमें (Larynx)—ऐकोन, आर्स, आर्नि, ब्रोमि, कोना, गुफ़े, मार्क, नेट्रम-म्यू, पल्स, सैंग्वाइना, सिपि, साइलि सल्फ, जिङ्क।

सूखी (Dry)—**ऐकोन**, **ऐलुमि**, ऐलु, ऐम्ब्रा, ऐमोन कार्ब, ऐमोन म्यू, **आर्स**, बेल, ब्रोमि, **ब्राइयो**, कैल्के, कैलि कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, काक्, कोनि, क्रोटन, **हाइयो**, इग्नि ड्रसे, **लैकि**, मार्क नेट्रम म्यूर, नाइट्रि ऐ, नक्स म **नक्स वोम**, ओपि, **पेट्रो**, **फास**, प्लम्बो, ड्रास, सोरि, पल्स, रास टक्स रूमेक्स, सैंगु, सेनि स्पञ्जि, स्क्विड, स्टैनम स्टैफि सल्फ।

„ सवेरे—ऐलुमि, आर्नि ब्राइयो, कार्बो वे आर्स, कोनि, रास टक्स।

सूखी तीसरे पहर—ऐमोन-म्यू, चेलि, नेट्रम-म्यूर, सेङ्ग, सल्फ।

सन्ध्यामें—ऐलू, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैप्सि, ग्रेटि, हिपर, इग्ने, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सेने, सिपि, स्कुइ, सल्फ।

„ बढ़ना-सोनेसे- वेल, कार्बो-वे, नक्स-वोम, पल्स, सेङ्ग।

„ रातमें—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, वेल, कैल्के, कार्बो-वे, युफ्रे, कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, मैग-म्य, मेडो-मार्क, मेजे, नक्स वोम, फास, पल्स, सैबाडि, स्पंजि, सल्फ, वेरे, जिङ्कि।

„ „ नींद टूटनेसे—सल्फ, पल्स।

„ आधी रातके समय—नक्स-वोम, फास।

„ „ पहले—आर्ज-ना, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स।

„ „ „ निद्रित अवस्थामें—नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स।

„ „ बाद—आर्स, कैल्के, वेल, नक्स-वोम।

„ „ २ बजे—ओपि।

„ „ ३ बजे—ऐमोन-कार्ब, कैलि-कार्ब।

„ घटना-सोनेसे, पार्श्वमें—नक्स-वोम।

„ बढ़ना-सोनेसे—कैलि-ब्रोम, लोरो, फाइटो, जिङ्क।

„ „ „ चित होकर—नक्स-वोम।

„ „ „ गरम घरमें प्रवेश करनेपर—कैलि-कार्ब।

„ छोटी माता निकलनेके बाद—कैमो, ड्रोसे, हाइयो, इग्ने।

„ ज्वरावस्थामें—ऐकोन, एपि, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कोना, हाइयो, ड्रूपि, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सल्फ।

„ दबावके साथ, गलेमें—वेल, ब्रोमि, ब्राइयो, काक, कोना, हिपर, नक्स-वोम, पल्स।

„ निद्रित अवस्थामें—कैमो, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स।

„ पडनेपर चिल्लाकर—सैङ्ग, फास।

„ भोजनके बाद—वैरा-कार्ब।

„ बालक अकड जाता है और मुंह लाल हो जाता है

सन्ध्यामें, सोनेकी अवस्थामें—हाइयो, कैलि-ब्रोम, फास, जिङ्क, रास टक्स, सैंगु, सल्फ।

„ श्लेष्मा (कफ) निकलना, सवेरे सिर्फ—ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, आइयो, कैल्के, कार्बो वेज, फेरम, हिपर, मैग-कार्ब, मैङ्ग, नेट्रम म्यू, फास, पल्स, सिपि, स्पाङ्ग, सल्फ-ऐ।

„ सुरसुरी गलेमें—बेल, ब्रोमि, लैके, पल्स।

„ घटना-खुली हवामें—आइयो।

„ „ बैठनेसे—आर्ज-ना, पल्स, सिनेगा, सेङ्ग।

„ „ सोनेसे—ऐमोन-कार्ब, जिङ्क।

„ „ „ चित होकर—मैङ्ग।

„ „ „ करवटमें—नक्स-वोम।

„ बढना-घरकी गरमीसे—काक्क, नेट्रम-ऐ।

„ „ सोनेसे चित होकर—ऐमोन म्यू, आइयो, नक्स वोम, फास, रास टक्स, साइलि।

„ „ „ दाहिनी करवट—ऐकोन, कार्बो-ऐनि, इपि, मार्क, फास।

„ „ „ बाईं „ —ऐकोन, आइयो, कैलि बा, पेरि, फास, पल्स, रुमेक्स।

„ शीतावस्थामें (During chill)—ऐकोन, आर्स, बेल, आइयो, कैमो, चायना, नक्स वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सल्फ।

„ सांस लेनेमें तकलीफके साथ (With dyspnoea)—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, सिना, कूप्रम, ड्रोसे, हिपर, इपि, क्रियो, मेर, मकुर स, नक्स-वोम, फोस, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ सांस रोध करनेवाला (Suffocative)—ऐण्टि टार्ट, ब्रायो, कार्बो-वेजि, कार्बो ए, कैमो, चायना, सिना, कोना, कूप्रम, ड्रोसि, हिपर, आइयो, इपि, लैके, सिडम, मकुर स, नक्स वोम, फॉस, पल्स, सिपि, सम्बक, टैबे।

„ मद्यपानमें—कार्बो-वेजि, इपि, लैके, नेट्रम म्यू।

„ निद्राके उपक्रममें—लैके।

बढ़ना, गरम होनेसे—ब्राइयो, कार्बो-वेज, कास्टि, नक्स-वोम, **पल्स**, रास-टक्स, साइलि।

„ गरम खानेकी चीजोंसे—बैरा-कार्ब, कक, कैलि-कार्ब, मेजे, पल्स, स्पिञ्जि।

„ „ घरमें—ऐलि-सि, ब्राइयो, **कक**, ड्रोसे, डालका, आइयो, इपि, लाइको, नेट्रम-कार्ब, पल्स, सेनि, स्पिञ्जि, सल्फ।

„ „ „ प्रवेश करनेसे-खुली हवासे—ऐकोन, ऐण्टि-क्रूड, ब्रोमि, ब्राइयो, कक, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ।

„ „ „ से ठण्डी हवामें जानेसे—ऐलि-स, कार्बो-वेज, **फास**, रूमेक्स।

„ „ पानीसे उत्पन्न चीजें पीनेसे—कक, स्टैनम।

„ गाना गानेसे—आर्ज-नाइ, ड्रोसे, फास, रास-टक्स, स्पिञ्जि, स्टैनम।

„ घरके अन्दर—आर्ज-मेट, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, नेट्रम-म्यूर।

„ घूमनेसे—कैल्के, डिजि, फेरम, आइयो, लेके, नेट्रम-म्यूर, रूमे, थूजा।

„ जम्हाई आनेपर—आर्नि, ऐसाफि, सिना, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, स्टेफि।

„ डकारसे—बैरा-कार्ब, स्टेफि।

„ तम्बाकू पीनेसे—ऐकोन, कोलोसि, ड्रोसे, युफ्रे।

„ दबानेसे छातीपर—आइयो, ओपि।

„ „ स्वरयन्त्रके ऊपर—चायना, लेके।

„ निगलनेसे—इस्कि, ब्रोमि, क्रूप्रम, नेट्रम-म्यूर, फास, पल्स।

„ परिश्रमसे—ब्राइयो, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, **पल्स**, सल्फ।

„ „ मानसिक—इग्ने, नक्स-वोम।

„ पढनेसे-चिल्लाकर—मेङ्ग, नक्स-वोम, फास, स्टैनम।

„ पीनेसे,, पानीसे उत्पन्न चीजें (Drinking)—आर्स, ब्राइयो, चायना, साइनी, ड्रोसे, हिपर, हाइयो, लेके, लाइको, मेफा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, **फास**, रास-टक्स।

„ „ दूध—ऐम्ब्रा, ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, ब्रोमि, कैलि-कार्ब, स्पञ्जिया, जिङ्क।

बढ़ना, पीनेसे पानी—साइलि, नेट्रम-फास, स्ट्रैमो।

„ „ शराब (Wine)—ऐण्टिम क्रूड, आर्निका, बोरैक्स, फेरम, इग्ने, लैके, लिडम, स्टैनम, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ „ „ बियर—मेजे, नक्स वोम, रास-टक्स, स्पञ्जिया।

„ पूर्णमासीको—कैलि बाई, सैबाडि।

„ बैठनेसे—ऐलूमि, युफ्रे, फेरम, गुयाये, कैलि-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, फास, फास-ऐ, पल्स, **रास-टक्स,** सैबाडि, **सेने,** सिपि, जिङ्क।

„ „ एक ही तरह, ज्यादा देर तक—काक, फास-ऐ।

„ बोलनेसे—ऐकोन, आर्ज-नाइ, बेल, कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, घायना, सिमि, कूप्रम, युफ्रे, हिपर, लैके, मार्क, स्टैनम, सल्फ।

„ भोजन करनेसे—ऐनाका, आर्स, ब्रायो, केल्के, कार्बो-वेज, घायना, काक, कूप्रम, फ्यूरे, फेरम, हिपर, **कैलि-बा,** नक्स-वोम, पल्स, ऐण्टि-टा, रूमे, सिपि, थूजा।

„ मानसिक उत्तेजना और हृदयके आवेगमें (Fmotion and excitement)—ऐकोन, कैमो, सिस्टा, डिजि, ड्रोसे, लैके, नक्स वोम, फोसि, रास-टक्स, स्पञ्जि।

„ रोनेसे—आर्नि, बेल, कैमो, सिना, हिपर, वेरे।

„ सोनेमें—एपिस, आर्स, ब्रायो, कार्बो-वेज, कास्टि, ड्रोसे, डाल्का, **हाइयो,** इपि, लैके, मेफि, फास, पल्स, रास टक्स, **सैङ्ग्वि,** सल्फ।

„ „ सन्ध्यामें—बेल, **कैलि-कार्ब, पल्स, सिपि,** सल्फ।

„ „ रातमें—ऐकोन म्यूर, ड्रोसे, डाल्का, लाइको, रास टक्स, सल्फ, थूजा।

„ „ करवट लेकर (Side)—ऐकोन, बेरा कार्ब, ब्रायो, कार्बो ऐनि, इग्नेशि, मैग्नि कार्ब, फिर्गो, लाइको मार्क, फास पल्स, सेपि, सिलि स्टैनम सल्फ।

„ „ „ दाहिने—कार्बो ऐनि, फिरम, **मार्क, स्टैनम।**

„ „ „ बायें—फास, सल्फ।

बढ़ना, सोनेसे, बिछावनमें—कैप्सि, हाइयो, **फास,** पल्स, रास टक्स, स्टिफि, **सल्फ** ।

„ „ सिर नीचा करके—ऐमोन-म्यूर, **चायना,** हाइयो, पल्स, सैबु, सेङ्ग, स्पञ्जि ।

„ साँस लेनेके समय (During inspiration)—हिपर, पल्स ।

„ „ छोड़नेके समय—ऐकोन, कैना-से, कार्बो-वेज, कास्टि, ड्रोसे, आइयो, क्रियो, लैके, नक्स-वोम, फास-ऐ, स्टैफि ।

„ „ साँस लेनेके समय (Breathing) गहरे भावसे—हिपर, लाइको, रूमे, स्क्वुइ, सल्फ ।

„ स्नान करनेके बाद—ऐण्टिम-क्रूड, केल्के, केल्के-सल्फ, कास्टि, डाल, लैके, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, सोरि, रास-टक्स, सिपि, सल्फ ।

„ सिर झुकानेसे (Stooping)—आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका, बेरा-कार्ब, कास्टि, चेलिडो, डिजि, हिपर, कैलि-कार्ब, लोरो, लाइको, फास, सेने, साइलि, स्पञ्जिया, स्टैफि, विरे ।

„ सूरजकी गरमीसे—ऐण्टिम-क्रूड, क्रोक ।

„ हँसनेसे—आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाइ, चायना, फास, सेनि, स्टैनम ।

„ हवासे खुली—ऐकोन, **आर्स,** ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, हिपर, **कैलि-नाइ,** लैके, नक्स-म, फास, रास-टक्स, सल्फ-ऐ, सल्फ ।

„ गरम—ऐण्टिम-क्रूड, कक्क, क्यूरे, आइयो ।

„ ठण्डी—ऐलि-सि, आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, ब्रूगम, हिपर, लैके, मेजे, नक्स-वोम, फास, रूमे, सल्फ ।

„ „ भ्रमण करनेसे—आर्स, इपि, फास ।

„ हिलाने डोलानेसे—आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, फेरम, नक्स-वोम, फास, साइलि, स्टैफि, स्टैनम ।

„ „ जल्दी जल्दी—नैट्रम म्यूर, पल्स ।

„ „ छाती—**चायना,** लैके, नक्स-वोम, फास, **स्टैनम** ।

„ „ भुजा—आर्स, फेरम, लाइको, नैट्रम-म्यूर ।

हल्की खाँसी (Short)—**ऐकोन,** इस्कि, ऐल्यूमि, ऐलो, बेल, ब्राइयो, कास्टि, चायना, बेडि, **काफि,** ग्रैफा, इग्ने, लैके, लाइको, मार्क, नैट्रम-

म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, प्लेटि, प्लम्ब, **सिपि,** स्कुइ, **स्टैनम,** स्ट्रिलि, सल्फ-ऐ, टेलु, सल्फ, थुजा।

हल्की खांसी, सन्ध्यामें—बेल, कार्बो-वेज, **इग्ने,** सिपि, सल्फ, थजा।

„ रातमें—आर्जेण्ट नाइ, आर्स, बेल, रास टक्स।

„ भोजनके बाद—ऐनाकार्ड, कास्टि, टेरि।

„ सुडसुडाना, स्वरयन्त्रमें (Larynx)—ऐट्टा, थेफा, कोन्नि थाइ, लोरो, सेजे।

„ **घटना,** बैठनेसे—आर्जेण्ट-नाइ, सिनेबा, नेट्रम-कार्ब।

„ **बढना,** खुली हवामें—ऐट्टा, सेने, सिपि।

„ „ सोनेसे भोजनके बाद—कास्टि, टेरि।

श्लेष्मा। (बलगम EXPECTORATION)

दिनमें केवल—ऐकोन, **आर्स,** बेल, केल्के, **केमो,** कोना, थेफा, हिपर, काइयो, लाइको, मेङ्क, **मार्क,** नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, फस्म, सेबाडि, **साइलि,** स्टैनम, स्टाफि, सल्फ।

सवेरे—ऐमोन कार्ब, ऐट्टा, ऐण्टिम क्रुड, ऐण्टिम टार्ट, **ब्रायो,** केल्के, **कार्बो-वेज,** डिजि, युफ्रे, फेरम, **हिपर,** काइयो, मैग कार्ब मेङ्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ **पेरि,** फास ऐ, **फास,** पल्स, रास टक्स **सिपि, स्कुइ, सल्फ-ऐ,** सल्फ।

तीसरे पहर—आर्स, बेडि कास्टि, चायना, युफ्रे, नक्स वोम, थोजि फास।

सन्ध्या समय—आर्निका, बैल, बोवि काइयो कास्टि सिना, ग्रेफा मर्के सोल म्यू, लाइको नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, रास टक्स रूटा सेनगा, सल्फ।

रातमें—ऐमोन म्यूर, आर्स केल्के, कार्बो वेज, कास्टि ग्रेफा हिपर, कैलि कार्ब, युफ्रे, लाइको फास पल्स, रास टक्स **सिपि,** स्टैनि सल्फ।

काड श्रा, तीक्ष्ण स्वादयुक्त (Acid)—ऐलूमि, ऐमोन-म्यूर, आर्स, कास्टि, मार्क, पल्स, साइलि, सल्फ।

कष्टकर, निकलना (Difficult)—ऐलि-से, ऐमोनिया, आर्नि, आर्स, बैरा-कार्ब, बोवि, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, चेलिडो, काक, कास्टि, कूप्रम, डालका, इपि, आइयो, लैके, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, रूमे, सेने, स्क्विल।

„ सट जाता है, गलेमें, दांतमें, ओंठमें—कैलि-बाई।

कड़ा (Tough)—ब्राइयो, कोनायम, आइयो, कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, फास, सिपि, साइलि, स्पंजि, स्टैनम, सल्फ, थूजा।

खखारनेसे कफ निकलता है (Hawked up mucus)—कार्बो-वेज, कास्टि, कैरो, युफ्रे, नेट्रम-म्यूर, पेरि, फास, प्लैटि, सिलि, साइलि, सेने, सिपि, स्टैनम।

खींचनेसे बढ़ता है, सूत या रस्सीकी तरह (Ropy and stringy)—आर्ज-मे, कास्टि, काक, **कैलि-बाई**, लैके, मार्क, नेट्रम-सल्फ, फास, सेने।

गन्ध-दुर्गन्ध भरा—आर्नि, आर्स, बोराक्स, कैल्के, कैम्फ़ि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कोनायम, कोपे, कूप्रम, गुयायो, हिपर, इग्ने, कैलि-फास, लिडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, फेरम, फास-ऐ, सोरि, रास-टक्स, सैङ्गु, स्क्विल, सेने, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ।

„ पुरानी सर्दीकी तरह—बेल, इग्ने, पल्स, सल्फ।

„ लहसुनकी तरह—आर्स।

„ सड़ा—कैल्के, कोनायम, कूप्रम, गुयेज, सैङ्गु।

गाढ़ा (Thick)—आर्ज-मेट, आर्स, कैक्ट, कैल्के, सिस्टा, काक, साइक्ला, डालका, हिपर, हाइड्रो, कैलि-बाइ, स्टैनम, लाइको, फाइटो, पल्स, सिपि, टियुबा।

गोलेकी तरह आकार वाला (In shape of ball)—आर्ज-नाई, काक, फास-ऐ, साइलि, **स्टैनम**, सल्फ।

झिल्ली खण्ड मिला हुआ (Membranous)—ब्रोमि, हिपर, कैलि-बाई, शार्क-कोर, **स्पंजि**।

ढेलेकी तरह (Lumpy)—आर्नि, आर्स, कैल्के-स, हिपर, कैलि-कार्ब, पल्स, सल्फ।

थोड़ा निकलता है (Scanty)—फेरम, **फास**, पल्स, **स्टेनम**।

दाना मिला हुआ (Granular)—बोवि, कैल्के, चायना, कैलि बाइ फास।

निगलनेके लिये बाध्य होता है, जो कुछ निकलता है (What has been loosened, must swallow)—आर्स, कोनायम, कास्टि, कैलि-कार्ब, नक्स-म, सिपि, स्पञ्जि, स्टैफि।

पतला—"पानीकी तरह" देखिये।

पानीकी तरह (Watery)—आर्जे-मे, आर्स, कार्बो-वेज, कैमो, युफ्रे, ग्रैफा, लैके, मैग-कार्ब, मार्क, म्यु-ऐ, नक्स मौस, फास, स्टैनम, सल्फ।

पीवकी तरह (Purulent)—ऐना, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, **कैल्के**, कार्ब-ऐनि, **चायना**, कोडि, **कोनायम**, ड्रोसे, फेरम, **कैलि-कार्ब**, कैलि-नाई, क्रियो, **लाइको**, मार्क, नेट्रम-कार्ब, फास ऐ **फास**, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, **साइलि**, **स्टैनम**, **स्टैफि**, सल्फ।

प्रचुर (Copious, profuse)—ऐमोन कार्ब, **आर्स**, **कैक्ट**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, चायना, ड्रोसेरा, डाल्का, **युफ्रे**, फेरम, आयडो, मोरो, **लाइको**, फास, **पल्स**, सेम्बु, **सिपि**, साइलि, **स्टैनम**, सल्फ, थूजा।

" सवेरे—कैल्के, कार्बो-वेज युफ्रे, मेलि।

" बुड्ढोंका—ऐमोनि, ऐण्टि-टार्ट, बार्म ऐरा कार्ब।

" मुँहभरकर, एकदम बार (Mouthful at a time)—कुप्रो, फास, [illegible]।

" हिलने डोलनेसे—(While moving)—हिपर।

फेनकी तरह (Frothy)—ऐमोन कार्ब **आर्स**, [illegible] कैलि [illegible] फास, पल्स, सल्फ।

बाहर निकलता है जोरसे मुँहसे (Is forcibly [illegible])—बैरि [illegible], कैलि कार्ब।

बिछावनमें (In bed)—ऐमोन कार्ब, कैल्क [illegible], फास [illegible]।

बैठनेके लिये बाध्य होता है, रातमें, बलगम निकालनेके लिये—फैरम।

रंग—कालिमा लिये (Blackish)—चायना, इलैप्स, कैलि-बाइ, नक्स-वोम, आक्जे-ऐ, पल्स, रास-टक्स।

„ गुलाबी (Pinkish)—कार्बो-नि-हा।

„ नेबूके रंगकी तरह (Lemon coloured)—कैलि-कार्ब, लाइको, फास, पल्स।

„ नीली आभा लिये हुए (Bluish)—ऐरण्ड, कैलि-बाइ, नेट्रम-आ, सल्फ।

„ पीला—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, ऐट्रा, आर्जे नाइ, आर्स, आर्स-आ, ब्राइयो, कैक्ट, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो-वेज, काक्क, ड्रोसे, फेरम-फास, हिपर, हाइड्रा, इग्ने, कैलि-आ, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, कैलि-सल्फ, क्रियो, लाइको, मार्क, मार्क-विन, नेट्रम-स, नेट्रम, कार्ब, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, पेट्रोलि, फास-ऐ, **फास**, सोरि, **पल्स**, रूटा, सैनिकि, सिपि, **साइलि**, स्पञ्जि, **स्टैनम**, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ मटीला (Grayish)—**ऐम्ब्रा**, आर्जे-नाइ, आर्स, कैल्के, सिना, कैलि-बाइ, क्रियो, **लाइको**, नक्स-वोम, फास, सेनि, सिपि, स्टैनम, थूजा।

„ मुरचा लगनेकी तरह (Rusty)—ऐकोन, ऐट्रो, **ब्राइयो**, लाइको, फास, रास-टक्स, सैड्ग्वु, स्क्विल।

„ लाल आभा लिये हुए (Redish)—ब्राइयो, काक्क, ड्रोसे, जेल्स, कैलि-बा, कैलि-आ, मैङ्ग, फास, स्क्विल, थूजा।

„ सफेद, (थोड़ा थोड़ा) (Whitish)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, आर्जे मेट, आर्स, बोरा, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, काक्क, आइयो, कैलि बा, कैलि, क्लो, क्रियो, **लाइको**, नेट्रम-म्यूर, फास, प्लम्ब, पल्स, **सिपि**, स्क्विल, सल्फ।

„ „ अण्डेकी कुछ कुछ सफेदीकी तरह—एपिस, आर्स, आर्जे-मेट, बैरा-कार्ब, काक्क, फेरम, लोरो, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, सेनि, साइलि, स्टैनम।

„ मुरचेके चूरकी तरह—"मुरचा लगनेकी तरह" देखिये।

रंग, हरी आभा लिये हुए—आर्जे-मे, आर्नि, आस, कैना-से, कार्बोनि-स, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कोलोसि, डाल्का, फेरम, फेरम-ऐ, फेरम-फास, कैलि-बा, कैलि-स, लाइको, मैङ्ग, मार्क, मार्क-आ-रु, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, पेरि, फास, **पल्स**, सिपि, स्टैनम, सल्फ, टियुब।

रक्तात्त (खूनमिला), खाँसनेके साथ खून निकलता है (Bloody, spitting of blood)—ऐकालि, **ऐकोन**, ऐमोन-कार्ब, ऐराण्डि, **आर्निका**, आर्स, बेल, बोरैक्स, ब्राइयो, कैक्ट, कैन्थ, कार्बोनि सल्फ, कार्बो भेज, कार्डु-मैं, कैमो, चायना, कोना, क्रोक, कुप्रम, डिजि, ड्रोसे, डाल्का, **फेरम**, फेरम-फास, हैमा, हाइयो, **इपि**, लोरोसि, **लिडम**, लाइको, मैग-कार्ब, मैङ्ग, मार्क, मेजे, मिलि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, ओपि, **फास**, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सैबा, सिकै, सिपि, साइलि, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, जिङ्क।

" ऋतुके पहले—जिङ्क।

" " समय—ब्राइयो, नेट्रम-म्यूर, फास, सिपि, जिङ्क।

" " लोप होकर (Suppression)—पल्स।

" कड़वा, तीखा स्वादसे भरा हुआ (Acrid)—ऐमोन कार्ब, आर्स, कैन्थ, **कैलि-कार्ब**, कैलि-नाइ, **साइलि**, सल्फ, जिङ्क।

" कालिमा लिये (Dark)—ऐकोन, ऐमोन कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, आर्निका, ऐसार, बिस्मथ, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो भेज, **कैमो**, चायना, **क्रोकस**, कुप्रम, डिजि, ग्राफाइटिस, फेरम, हैमा, क्रियो, लाइको, मैग कार्ब, म्यू-ऐ, नाइट्रि ऐ, नक्स म, **नक्स-वोम**, फास ऐ, फास, पल्स, सेलि, सल्फ।

" काला (Black)—आर्नि, सिड्रन, चायना, क्रोक, ग्राफाइटिस, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास ऐ, पल्स, जिङ्क।

" थक्कोंमें—ऐम कौस्टिकम कोटैलो डिजि, ड्रोसे ग्राफाइटिस नाइट्रि ऐ नक्स वोम फास ऐ पल्स, जिङ्क।

" गाढ़ा चमकदार—हैमो, फेरम, नाइट्रि कैलि म्यूर।

" गिरकर (After a fall)—फेरम ऐसी मिलि।

रक्ताक्त, घोर लाल (Dark red)—"कालिमा लिये" देखिये।

„ छींटाके साथ रक्तका (Streaked)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्नि, आर्स, बोरा, **ब्राइयो**, कैल्के, कास्टि, चायना, **फेरम**, इपिकाक, लोरो, लायको, नेट्रम-म्यूर, ओपियम, फास, सेबा, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

„ पुराना—सल्फ-ऐ।

„ पूर्णमासीके समय—कैलि-ना।

„ फीकापन लिये हुए पीला (Pale)—ब्राइयो, हाइयो, मैंङ्ग।

„ भूरा रङ्गका (Brown)—**ब्राइयो**, कैल्के, **कार्बो-वेज**, रास-टक्स।

„ लसदार (Viscid)—**क्रोकस**, कूप्रम, मैग-कार्ब, सिके।

„ लाल चमकीला (Bright red)—ऐकालि, ऐकोन, आर्नि, आस बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, डालका, फेरम, **हाइयो**, इपिकाक, लिडम, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, **सेबाइ**, सिके, जिङ्क।

लसदार (Viscid)—ऐलि-सि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बोवि, कैल्के, केना-सै, कार्बो-विज, कास्टि, कैमो, कक, डालका, हिपर, कैलि-बाइ, स्टैनम, सिपि, आइयो, कैलि-कार्ब, कोबाल्ट, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मेजे, पेरि, फास, फास-ऐ, रूटा, सेंगु, सेने, साइलि, स्क्लि, स्टैफि, सल्फ, विरि, जिङ्क।

लेईकी तरह गाढ़ा, जल्दी नहीं छूटता (Tenacious)—ऐण्टिम-क्रूड, कार्बो-वेज, कक, केलि-बाइ, लैक्टि-ऐ, फास।

सरलतासे ही निकलता है (Easy)—आर्ज-मेट, कक, **स्टैनम**।

साफ (Transparent)—एपिस, आर्ज-मेट, आर्स, बैरा-कार्ब, फेरम, कैलि बाइ, लोरो, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास, फास-ऐ, सिलि, सेने, साइलि, स्टैनम।

स्वाद-खट्टा—आर्स, बेल, कैल्के, कैलि-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, सल्फ।

„ चर्बीकी तरह—ऐसाफि, कैष्ट, मैग-म्यूर, **पल्स**, साइलि।

„ झाल—ऐकोन, आर्स, मेजे, सेबाडि, सल्फ।

स्वाद, तीता—आर्स, कैमो, मिस्टा, ड्रोसे, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ, विरे।

„ धातुकी तरह—ब्राइयो, नक्स वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि।

„ धुएँकी तरह (Smoky)—ऐम्ना, कैल्के, काकु, कृमस, इपिकाक, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, क्रियो, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, रास-टक्स जिङ्क।

„ नमकीन (Saltish)—ऐम्ब्रा, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, ग्रेफा, लाइको, मार्क, नक्स-म, फास, पल्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ।

„ पुरानी सर्दीकी तरह—बेल, इग्ने, पल्स, सल्फ।

„ मीठा (Sweetish)—कैल्के, डिजि, केलि-कार्ब, फास, प्लम्ब, पल्स, सैबाडि, सैनि, स्कु इ, स्टैनम, सल्फ।

„ वमन करानेवाला, मिचली लाने वाला (Nauseous)—आर्स, ड्रोसेरा इपि, मार्क, पल्स, स्टैनम, सल्फ।

„ सड़ा (Putrid)—आर्नि, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, कैलि आर्स, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, पल्स, स्टैनम, सल्फ।

„ हीन (बेस्वाद)—ऐण्टिम-क्रु ड, ब्राइयो, कैल्के, चायना, इग्ने, लाइको, पेरि, स्टैफि।

सो नहीं सकता—सम्बि।

हमेशा (Frequent)—युफ्रे, हिपर, ब्राइयो, लाइको, पल्स सेन्ग, सिने सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ।



वक्षस्थल (CHEST)।

अर्बुद (Tumour)—बेरा कार्ब थेडी।

„ स्तनमें (चोरगाँठ)—कार्बो ऐनि, कोनायम, कल्कु कैलि पा ऐड्र फास फाइटो, सिके, साइलि।

„ सुपारीकी तरह, स्तनमें (धुरधुरे)—कैल्के-फास।

अर्बुद कीमा, कर्कट रोग (Cancer) बरमाई (lxiii)—सिना।

रक्ताक्त, घोर लाल (Dark red)—"कालिमा लिये" देखिये।

„ छींटाके साथ रक्तका (Streaked)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्नि, आर्स, बोरा, **ब्राइयो,** कैल्के, कास्टि, चायना, **फेरम,** इपिकाक, लोरो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, ओपियम, फास, सेबा, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

„ पुराना—सल्फ-ऐ।

„ पूर्णमासीके समय—कैलि-ना।

„ फीकापन लिये हुए पीला (Pale)—ब्राइयो, हाइयो, मैंङ्ग।

„ भूरा रङ्गका (Brown)—**ब्राइयो,** कैल्के, **कार्बो-वेज,** रास-टक्स।

„ लसदार (Viscid)—**क्रोकस,** कूप्रम, मैग-कार्ब, सिके।

„ लाल चमकीला (Bright red)—ऐकालि, ऐकोन, आर्नि, आस **बेल,** कैल्के, कार्बो-वेज, डालका, फेरम, **हाइयो,** इपिकाक, लिडम, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, **सेबाइ,** सिके, जिङ्क।

लसदार (Viscid)—ऐलि-सि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बोवि, कैल्के, केना-से, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कक, डालका, हिपर, कैलि-ब्राइ, स्टैनम, सिपि, आइयो, कैलि-कार्ब, कोबाल्ट, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मेजे, पैरि, फास, फास-ऐ, रूटा, सेम्बु, सेने, साइलि, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, विरि, जिङ्क।

लेईकी तरह गाढ़ा, जल्दी नहीं छूटता (Tenacious)—ऐण्टिम-क्रूड, कार्बो-वेज, कक, कैलि-बाइ, लैकि-ऐ, फास।

सरलतासे ही निकलता है (Easy)—आर्ज-मेट, कक, **स्टैनम।**

साफ (Transparent)—एपिस, आर्ज-मेट, आर्स, बैरा-कार्ब, फेरम, कैलि, बाइ, लोरो, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास, फास-ऐ, सिलि, सेने, साइलि, स्टैनम।

स्वाद-खट्टा—आर्स, बेल, कैल्के, कैलि-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, सल्फ।

„ चर्बीकी तरह—ऐसाफि, कैक्ट, मैग-म्यूर, **पल्स,** साइलि।

„ झाल—ऐकोन, आर्स, मेजे, सेबाडि, सल्फ।

स्वाद, तीता—आर्स, कैमो, सिक्टा, ड्रोसे, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ, विरे।

„ धातुकी तरह—ब्राइयो, नक्स-वोम, पल्स, रास टक्स, सिपि।

„ धुएँकी तरह (Smoky)—ऐस्ना, कैल्के, कालु, कृमम, इपिकाक, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, क्रियो, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, रास-टक्स जिङ्क।

„ नमकीन (Saltish)—ऐम्ब्रा, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, ग्रेफा, लाइको, मार्क, नक्स-म, फास, पल्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ।

„ पुरानी सर्दीकी तरह—बेल, इग्ने, पल्स, सल्फ।

„ मीठा (Sweetish)—कैल्के, डिजि, कैलि-कार्ब, फास, प्लम, पल्स, सैबाडि, सैनि, स्क्वु इ, स्टैनम, सल्फ।

„ वमन करानेवाला, मिचली लाने वाला (Nauseous)—आर्स, ड्रोसेरा, इपि, मार्क, पल्स, स्टैनम, सल्फ।

„ सड़ा (Putrid)—आर्नि, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कैमो, कैलि आर्स, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, पल्स, स्टैनम, सल्फ।

„ हीन (बेस्वाद)—ऐण्टिम-क्रुड, ब्राइयो, कैल्के, चायना, इग्ने, लाइको, पेरि, स्टैफि।

सो नहीं सकता—म्युरि।

हमेशा (Frequent)—युफ्रे, हिपर, ब्राइयो, लाइको, पल्स सेन्ग, सेने सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ।



वक्षस्थल (CHEST)।

अर्बुद (Tumour)—बैरा कार्ब पेट्रो।

„ स्तनमें (कोरलॉइड)—कार्बो एनि, कोनायम, क्रियो, कैलि का, ले४ फास, फाइटो सिके, साइलि।

„ चुचियोंकी तरह, मांसमें (पृष्ठ ६)—कैल्के-कार्ब।

अर्बुद-फेलार, कर्कट रोग (Cancer) बगलमें (Axilla)—ऐस्टे।

अर्बुद, स्तनमें (स्त्रियोंके)—एपिस, आर्स, आर्स-ऐ, ऐस्टा, बेडि, बेल, ब्यू फो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, चिमा, क्लिमे, **कोनायम,** कण्ड, **ग्रैफा,** हिपर, हाइड्रा, लैके, लाइको, **मार्क,** मार्क-आ-फ्ले, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा, टियु।

अस्थिरता, भीतरी (Restlessness)—बेल, पेट्रो, सेने, थूजा।

अकड़नका भाव (दबानेपर दर्द करता है-Tenderness) स्तनमें—आर्नि, एपिस, बेल, कैल्के-फास, **कैमो,** कोनायम, हेलो, आइयो, लैक-कै, फाइटो, रेना-ब्यू, साइलि।

„ ऋतुके समय—हेलो, थूजा।

„ घुंडीमें स्तनके—कैमो, कोलचि, हेलो, **लैके,** फाइटो, साइलि।

„ „ ऋतुके समय—हेलो।

„ „ कपड़ेका स्पर्श सहन नहीं होता—**कैस्टो,** कोनायम, **क्रोटन-टिग।**

आक्षेप (Spasm)—आर्ज-नाई, आर्स, **ऐसाफि,** बेल, कैल्के, कैना-सै, कैमो, सिकि, काक्यु, कोलचि, कूप्रम, इलेटे, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, हाइयो, इपिकाक, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, लाइको, मार्क, मेजे, मस्क, नक्स-वोम, ओपियम, फास-ऐ, फास, पल्स, सैम्बु, सैङ्गु, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे, जिङ्क।

„ उत्ताप और खूनकी अधिकताके साथ—पल्स।

„ ऋतुके पहले—बोवि, लैके।

„ खाँसनेके समय—आर्स, कूप्रम, लैके, मार्क, सल्फ।

„ मासपेशीका, वक्षकी—सिकि, स्ट्रैमो।

„ वक्षोदरमध्यस्थ पेशीका (Diaphragm)—बेल, चेलिडो, सिकि, कूप्रम, जेल्स, मस्क, स्टैफि, स्ट्रैमो।

„ हिस्टीरिया सम्बन्धी—आर्स, **ऐसाफि,** बेल, काफि, मस्क, स्ट्रैमो।

„ हृत्पिण्डका—ऐगा, आर्ज-मे, कूप्रम, लैके।

„ बढ़ना, चित सोनेपर—आर्ज-मेट।

„ „ टहलते रहनेपर—फेरम।

„ „ परिश्रममें—फेरम।

उत्ताप (Heat)—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, वेल, ब्रायो, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, सिकि, फेरम, लैके, लाइको, नक्स, वोम, ओपियम, फास, सोरि, स्पन्जि, सार्सा, सल्फ।

„ आहारके बाद—लिमे, सेन्नि।

„ जलन मिला—रैफे, सल्फ।

„ झल्का आगका मानो (Flushes)—ग्लोनो, नक्स वोम, इग्ने, फ्रोडो, सेने, सिपि, थूजा।

„ हृत्पिण्ड-प्रदेशमें—ऐण्टिम-टार्ट, कैना-से, क्रोकस, ग्लोनो, मेडो, ओपियम, प्लेटि, सैबाडि।

„ **घटना**, खुली हवामें—ऐनाका।

उद्वेग (Anxiety)—**ऐकोन**, ऐण्टिम-टार्ट, **आर्स**, ऑरम-म्यूर, ब्रायो, कैक, कैल्के, कार्बो-वेज, बेलिडो, कौलचि, कूप्रम ऐ डिजि, ग्रैफा, गुयारि, इपिकाक, कैलि-कार्ब, क्रियो, लोबे, लाइको, नेट्रम कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **फास**, **पल्स**, सोरि, रैना-ब, स्पाई, सल्फ वेले, जिङ्क।

„ सवेरे—ग्राइपे, पल्स।

„ सन्ध्यामें—फास, **पल्स**।

„ रात्रिमें—आर्स, इग्ने, पल्स, रैना-ब, सल्फ।

„ सोनेपर—ग्रैफा।

„ „ चित—सल्फ।

„ „ बाईं करवट—**पल्स**।

„ घटना, सन्ध्यामें—जिङ्क।

„ „ झुकनेपर सामने—कौलचिकम।

„ बढ़ना हृदयावेगसे (Emotion)—**फास**।

„ „ हिलने डोलनेपर—ब्रायो।

„ हृत्पिण्ड प्रदेशमें (Heart region)—**ऐकोन**, ऐगार, ऐण्टिम-क्रू, **ऐण्टिम टार्ट**, आर्जे नाइ, आर्स, ऑरम, ऑरम म्यूर, ब्रोमि, कैल्के, कैम्फ, **कार्बो-वेज**, कास्टि, [illegible], [illegible], कूप्रम, डिजि, ग्लोनि, [illegible], [illegible], [illegible], **इग्ने**, [illegible]

इपिकाक, केल्मि, क्रियो, लैके, लैकि-ए, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेजा, नक्स-वोम, **फास,** प्लम्ब, प्लेटि, प्रून-स्पा, पल्स, रास-टक्स, स्पाइ, स्पञ्जि, टेबे, टेरे, विरे ।

उद्वेग, हृत्पिण्ड प्रदेशमें सन्ध्याके समय—पल्स ।

" " रातमें—**आर्स,** लाइको, रास-टक्स ।

" " बढना, हिलने डोलनेपर—डिजि ।

" " " बाईं करवट सोनेपर—बेल ।

" " " दाहिनी करवट—ग्लोनो ।

उलट गया है, मानो कुछ (As if something were turning over)—कैक्ट, कैम्फ, क्रोटे-हो, स्टैनम ।

ऐंठन (Cramps)—मेजे, प्लेटि, सल्फ ।

" खाँसनेपर—कैलि-कार्ब ।

" हृत्पिण्डमें—आर्स, कैलि-कार्ब, **लैके** ।

कडापन (Hardness) स्तनका—बेल, ब्राइयो, कैमो, क्लिमे, **कोना, साइलि,** मार्क, फास, सल्फ, वाइपे ।

" दाहिने—**कोना,** वाइपे ।

" बायें—**साइलि** ।

" ऋतुके पहले—कोना, लैक-कै, सैगु ।

" स्तनकी घुंडीमें—ऐगा, सल्फ ।

कम्पन (Trembling)—ऐम्ब्रा, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, डिजि, निको, **स्पाइजि** ।

" हृत्पिण्डका—आर्जे-मेट, आर्जे-नाइ, आर्स, आर्स-ऐ, अरम, चिनि-सल्फ, सिक्कि, काक्कि, कूप्रम, ग्लोनो, आइयो, कैल्मि, कैल्के, कैम्फ, नेट्रम-म्यूर, लिलि-टिग, मार्क, मस्क, नेट्रम-फास, प्लेटि, रास-टक्स, सिपि, नक्स-मस, स्पाइजि, स्टैफि, टैबे, थेरि ।

कठोरता (Induration)-बगलकी गाँठ—कैल्के, **कार्बो-ऐनि,** आइयो, केलि कार्ब, **साइलि** ।

" स्तनकी—ऐस्टि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कार्बो-ऐनि, कैमो,** सिस्टा, क्लिमे, **कोना,** क्रोटे-हो, क्रोटेन, कूप्रम, ग्रैफा, आइयो, क्रियो,

लैक-के, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ ।

कठोरता स्तनकी दाहिने—आर्निका, कोना, फाइटो ।

„ „ जखम होनेबाद—ग्रे फा ।

„ „ फोड़ेके बाद—कोना, ग्रे फा ।

„ „ मले जानेको वजहसे (Contusion)—कोना ।

„ „ स्तनकी घुण्डीका—आइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, मार्श ।

क्षत चिन्ह (Cicatrices) स्तनमें—कार्बो-ऐनि, ग्रे फा, फाइटो ।

क्षय कास (Phthisis)—ऐसे-ऐसि, ऐगा, आर्स, आर्स-आयोड, कैम्मि, ब्यूफो, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-सल्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-वेज, ड्रोसे, डाल्का, इलैप्स, फेरम-फास, हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि नाई, कैलि-फास, क्रियो, लैक-डि, लैके, लाइको, मार्क, मार्टि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रिक-ऐसिड, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, सोरि, पल्स, सैंगु, सिनि, सेने, सिपि, साइलि, स्पंजि, स्टैनम, सल्फ, थेरि, टियुबर, जिङ्क ।

„ तेजीसे बढ़नेवाला—फेरम, मेडो, नेट्रम फास, पल्स, थेरि ।

„ नया (Incipient)—आर्स, आइयो, बायटा, सिमि, ड्रोसे, डल्क, फेरम, फेरम-फास, हिपर, कैलि क्रो, क्रियो, मेडि, मोरो, नेट्रम-म्यूर, फास, पल्स, सिनि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, थेरि ।

„ „ अरसु बन्द होनेपर—सिनि ।

„ पीब और जख्म मिला (Purulent and ulcerative)—कैल्के, कार्बो-ऐनि कार्बो वेज ड्रोसे, हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि नाई, मेडि, लाइको, मार्क, नाइट्रि ऐ, फास, प्लम्ब सोरि, पल्स, साइलि सल्फ ।

„ शेष अवस्था—आर्स आयो कैल्के, कार्बो वेज, डाल्का, ड्रोसे, लैके, लिडम आयो लाइको, फास, सोरि, पल्स, पाइरो, सैंगु, थेरि टेरे ।

चर्मोद्भेद, बगलमें, फोड़ा (Boils)—**हिपर,** लाइको, मार्क, नेट्रम-स, फास, साइलि, थूजा।

„ „ „ दाहिने—थूजा।

„ „ „ बाएँ—लाइको, फास, सिपि।

„ „ भीजा भींजा—ब्रोमि, सिपि।

„ „ सूखा—हिपर।

„ „ हारपिज (खसड़ा Herpes)—कार्बो-ऐनि, लेक-कै, लाइको, मेजी।

„ स्तनमें—ऐगि, ग्रेफा, ग्रेटि, हिपर, लिडम, लाइको, स्टेफि, टेबे, वेले।

„ „ ऐकजिमा (Eczema)—ऐनाका।

„ „ „ स्तन-वृन्तमें—ग्रेफा।

„ „ खुजलाहट भरा—कैलि-कार्ब, स्टेफि, टेबे।

„ „ छाला, स्तनवृन्तमें—ग्रेफा।

„ „ जलनभरा—आर्स, ग्रेटि, फास, रास-टक्स।

„ „ स्तन-वृन्तमें (Nipple)—कास्टि, ग्रेफा, सोरि, रास-टक्स।

„ „ „ खाल उधड़ना—लाइको।

„ „ हार्पिज (Herpes)—**कास्टि।**

छीलता है, ऐसा मालूम होना (Scraping)—कैलि-कार्ब, पल्स, थूजा।

जकड़ जाना (Tightness, Constriction)—"सकोचन" देखिये।

जल-सचय, पेरिकार्डियमका (Pericardial effusion)—एपिस, ऐपोसा, **आर्स, कोलचि, डिजि, लाइको,** सल्फ, जिङ्क।

जीवित कुछ छातीके भीतर है, ऐसा मालूम होना—कोलचि, क्रोकस, लिडम।

„ हृत्पिण्डमें—साइक्ला।

झटका लगना—(Jerks)—ऐगा, सिना, स्कुई, वेले।

टपक (Pulsation)—ऐगा, कैक्ट, केल्के-फास, कोफि, हाइड्रो, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, फास, पल्स, साइलि, स्पाई, सल्फ।

„ रातमें—**पल्स।**

„ जागनेपर—**सल्फ।**

„ सोने नहीं देता—**पल्स।**

टपक, वृद्धि, हिलने डोलनेपर—स्तोनो, फास।

ठण्डा मालूम होना (Coldness)—ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्निका, आर्स, बार्ब, कैम्फ, कार्बो ऐनि, कोरैलि-रू, ग्रेफा, लैकि-ऐ, ओलियि, पैरि, पेट्रो, फास-ऐ, रास-टक्स, रूटा, स्पञ्जि, सल्फ, वृजा, जिङ्क।

„ कपड़ा लपेट लेना पडता है—फास-ऐ।

„ शीतावस्थामें—कैम्फ।

„ साँस लेनेमें ठण्डी हवा—कोरा-रू।

„ साँस लेने छोडनेमें—आर्निका, ब्रोमि, कैम्फ, चायना, सिस्टा, रास-टक्स, सल्फ।

„ हृत्पिण्ड प्रदेशमें—कार्बो-ऐनि, केलि-ब्राइ, केलि-क्लो, नेट्रम-म्यू र, पेट्रो।

„ „ मानसिक परिश्रमसे—नेट्रम-म्यू।

„ „ बरफकी तरह ठण्डा, शीतावस्थामें—आर्नि, कैम्फ, केलि ग्रा, नेट्रम-म्यू, ओलियि, पेट्रो।

ढेला, छुआ न जाना (Sensitive)—कार्बो-ऐनि।

„ बगलमें—मेग-कार्ब।

„ स्तनके मध्यमें—ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, सिमा, क्लीमेटि, कोना, कप्र, ग्रेफा, लाइको, नाइ ऐ फास, फाइटो, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ „ टाँकने—सल्फ।

„ „ बाँये—फास-हि, लाइको।

„ „ गर्भावस्थामें—पल्स ऐ।

थुलथुला (Flabby)—बेल, बेरो कोना, फाइटो।

दबाव या भार मालूम होना (Oppression)—ऐकुलि ऐकोन, ऐग्न, आइयेज, ऐलि सि ऐलु ऐलम्ना, ऐमोना, ऐट्रा, ऐलि कू, ऐलि टा, एपिस, ऐपोसा, आर्जे मा, आर्नि, आर्स, ऐमाटि आरम, बैप्टी, ब्राइयो, कैफ्ट, कैल्टि, कैल्के, कैल्के या कैल्क कैस्टो कार्बो-वेज, कार्मेन, कास्टि, सिम्नी, कैस्टो, चेलि, [illegible]

चिनि-स, साइमे, सिना, क्लिमे, काकि, काफि, कोलचि, कोलोसि, कोना, क्रोटे-ह्वो, क्रोटन-टिग, **कूप्रम,** कूप्रम-आर्स, कूप्रम-स, साइक्ला, डिजि, ड्रोसे, डालका, इलेप, **फेरम,** फ्लू-ए, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हैमा, हिपर, **इग्ने, इपि,** कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-आ, केलि-ना, केल्मि, क्रियो, लेके, लैकि, लोबे, लाइको, मैग-का, मैग-म्यू, मैन्ति, मार्क, मेजे, माइगी, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, **नक्स-म, नक्स-वोम,** पेट्रो, **फास,** फाइटो, प्रून-स्पा, सोरि, **पल्स,** रैना-ब, रास-टक्स, सैंबु, **सिपि,** साइलि, स्पाई, स्पञ्जि, स्टेनम, **सल्फ,** टैबे, थूजा, **वेरे,** जिङ्क।

दबाव, या भार मालूम होना, सवेरे—ऐलूमि, आर्स, ब्राइयो, इपि, नेट्रम-स, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, **सिपि,** सल्फ।

„ जागनेपर—ऐलूमि, कोना, कैलि-आ, लेके, नेट्रम-स।

„ शय्यापर—ऐलि-सि, फास।

„ शामको—ऐलूमि, आर्स, कोलोसि, इलेप, नक्स-वोम, **जेल्स, सिपि,** स्टेनम, सल्फ, जिङ्क।

„ „ बिछावनपर—एपिस।

„ रातमें—ऐलूमि, एपिस, आरम, कैल्के, कोका, कोलोसि, ओपि, फास-ए, फास, रास-टक्स।

„ „ जागनेपर—आर्स, लेकि।

„ „ टहलनेपर, खुली हवामें—फास।

„ ऊपर चढ़नेपर (Ascending)—**ऐकोन, आर्स,** कैल्के, इलेप, सेनि, सल्फ।

„ ऋतुके पहले—लेके।

„ खानेके बाद—आर्स, कास्टि, कोलोसि, लाइको, मैग-म्यू, नक्स-वोम, सल्फ।

„ खाँसनेके समय (When coughing)—आर्स, **ड्रोसे,** नाइट्रि-ए, **फास,** साइलि, स्टेनम, सल्फ, वेरे।

„ गर्म कमरेमें—**एपिस**।

दबाव या भार मालूम होना, ज्वरावस्थामें—एपिस, आर्स, बोवि, कार्बो-वेज, इपि, कैलि-कार्ब, लैके, नेट्रम म्यु, पल्स ।

" झटकेको (आँधी) हवासे—आर्स ।

" टहलते रहनेपर—आर्स, कैलि कार्ब, पल्स, सिपि ।

" " तेज—आर्स, पल्स ।

" " बाद—कैल्के, फास ।

" " ठण्डी हवामें—लाइको, नक्स-वोम ।

" " खुली हवामें—अर्स, फास ।

" निद्रावस्थामें—लैकि, नक्स-म ।

" " से जागनेपर—ऐन्टिम, आर्स, सिनेबा, कोका, कैलि-स, लैकि, नेट्रम-स, नक्स-म ।

" बोलनेके समय—ड्रोसे, हैके, स्ट्रैमो ।

" शीतावस्थामें (During chill)—एपिस, ब्रायो गुये पर्फा, इपि, कैलि-का, मेजे, पल्स ।

" श्वास-प्रश्वासमें—लाइको, साइलि ।

" सर्दीके साथ—कार्बो वेज ।

" साँस लेनेमें—फास, स्पाई ।

" सोनेके समय—कोनचि, सेफा स्पञ्जि, स्ट्रैमस ।

" हवामें खुली—लाइको, सोरि ।

" हिलने डोलनेपर—रैप्टी, नेट्रम-म्यु, स्ट्रैमस ।

" " " तेज—एकोन, आर्स, पल्स ।

" हृत्पिण्डमें—एकोन इग्ना, ऐसिड ना, अर्जेण्ट, आर्ज नाइट्रि, ओरम, कालि वायगा, डिजि, ग्रैफ स, इग्नेशि, ब्रायो, ह्यि कैलि कार्ब, मैक, मार्क, मैग्नि, नक्स म, नक्स वोम, प्लाटि, टेबे ।

" " रातमें—आर्स, कॉल्चि ।

" " " सोनेपर, बाईं करवट—कॉल्चि ।

" " परिश्रमसे सामान्य—डिजिट मा ।

" " सोनेपर, माथा झुका कर—स्पंजि ।

दबाव या भार मालूम होना घटना, डकारसे—ऐमोन-म्यू, कार्बो-वेज, लेके, लाइको, फास।

" " टेढ़ी करनेपर देह पीछेकी ओर—पलू-ऐ।

" " " देह, सामनेकी ओर झुकाने पर—कोलचि।

" " " कन्धा, पीछेकी ओर—कोल्को।

" " " बाँह (Arm) पीछेकी ओर—सल्फ।

" " दवा रखनेपर—सिपि।

" " सांस लेनेपर—चेलि।

" " हवामें खुली—ऐनाका, चेलि, नेट्रम-म्यू, सिपि।

" बढ़ना, कपड़ा पहननेपर—आर्स, चेलि, लैके, मार्क-कोर, सिपि।

" " टेढ़ा होनेपर, माथा पीछेकी ओर—ऐलूमि।

" " करवट बदलनेपर, बिछावनमें—कैल्के।

दर्द (Pain in general)—ऐसे-ऐ, ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐमिल-ना, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जे-नाइ, आर्नि, आर्स, अरम, अरम-म्यूर, बैरा-कार्ब, बैरा-म्यूर, बेल, बिसथ, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के-फास, कैम्फो, कैन्थ, कार्डुमे, कैमो, चेलि, सिमि, सिस्टा, कूप्रम, डिजि, डाल्का, फेरम, ग्रेफा, हेकूला, हिपर, हाइड्रो, आइयो, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलि-आइ, केलूमि, लैके, लैक्टि-ऐ, लोरो, लोबे, लाइको, मैग फास, मार्क, मेजी, नैजा, नक्स-म, नक्स-वोम, आक्जा-ऐ, फास-ऐ, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, रैना-ब, रैना-सि, रास-टक्स, रूमेक्स, सैंगु, सार्सा, साइलि, स्पाइजि, स्प जि, स्कुइ, स्टैनम, स्ट्रेमो, सल्फ, टेबे, टैरे, विरे, जिङ्क।

" सवेरे—ऐकोन, ब्राइयो, फेरम-फास, हिपर, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, स्कुइ, सल्फ।

" " सांस लेनेके समय—स्कुइ।

" " शय्यामें—रूमे, साइलि।

दर्द, संध्यामें—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, कैलि- वेरेट्रम
ग्रैफि, मर्क।
" गलमें—आर्स, कार्बो, लाइको, नक्स-वोम
" उत्तापके समय (During heat)—ऐ
कार्बो-वेज, गुयाइ कैलि-कार्ब, कैलि
" उपवासकी वजहसे—फाइयो।
" करवट बदलनेपर—इग्ने रैना-ब।
" " शय्यापर—कार्बो, ड्रस।
" खानेके समय—कैलि-बाई, लिडम कोनि-डेलि
" बाद—ऐनाकॉ, काबे-नाई, चायना कैलि
सल्फ, सृंग, विरे।
" खांसनेके समय—ऐकोन, ऐलु, ऐमोन-म्यूर,
टार्ट बेल, बोरे, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ
वेज, कास्टि, कैलो, चायना कोनायम,
लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम-म्यूर,
फास, फाइटो, पल्स, रस-टक्स, सैंग,
स्कुई, स्टैनम, सल्फ, विरे, जिङ्क।
" घूमता-फिरता है—ऐलि-सि, ब्रैको, प्लम, वेरे।
" पढ़नेसे, ऊपर—ऐकोन, बोरा, ब्रैको, ब्रोटे-हे, ग्रेफा,
रूटा, हैफि, ट्रैसो।
" छींकनेपर—बोरा, लाइको, कार्बो, वैलेडो, ब्रोटे, मार्क,
" छूनेपर—ब्रोटे, फाव, रैना-ब।
" जम्हाई लेनेपर—कैल्क, बोरैक्स, हिपर, ...
" बहलते रहनेपर—ऐमोन-कार्ब ...
" परिश्रमसे ...

दबाव या भार मालूम होना घटना, डकारसे—ऐमोन-म्यू, कार्बो-वेज, लेकै, लाइको, फास।

„ „ टेढो करनेपर देह पीछेकी ओर—फ्लू-ऐ।

„ „ „ देह, सामनेकी ओर झुकाने पर—कोलचि।

„ „ „ कन्धा, पीछेकी ओर—कैल्के।

„ „ „ बाँह (Arm) पीछेको ओर—सल्फ।

„ „ दबा रखनेपर—सिपि।

„ „ सास लेनेपर—चेलि।

„ „ हवामें खुली—ऐनाका, चेलि, नेट्रम-म्यू, सिपि।

„ बढना, कपडा पहननेपर—आर्स, चेलि, लेके, मार्क-कोर, सिपि।

„ „ टेढा होनेपर, माथा पीछेकी ओर—ऐलूमि।

„ „ करवट बदलनेपर, बिछावनमें—कैल्के।

दर्द (Pain in general)—ऐसे-ऐ, ऐकोन, ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐमिल-ना, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्ज-नाई, आर्नि, आस, अरम, अरम-म्यूर, वैरा-कार्ब, वैरा-म्यूर, वैल, बिस्मथ, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के-फास, कैम्फो, कैन्थ, कार्डुमे, कैमो, चेलि, सिमि, सिस्टा, क्रूप्रम, डिजि, डाल्का, फेरम, ग्रैफा, हेकूला, हिपर, हाइड्रो, आइयो, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, केलि-आइ, कैलमि, लेके, लैक्टि-ऐ, लोरो, लीवे, लाइको, मैग फास, मार्क, मेजे, नेजा, नक्स-म, नक्स-वोम, आक्जा-ऐ, फास-ऐ, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, रैना-व, रैना-सि, रास-टक्स, रूमेक्स, सैंगु, सार्सा, साइलि, स्पाइजि, स्पंजि, स्कुइ, स्टेनम, स्ट्रैमो, सल्फ, टेवे, टेरे, विरे, जिङ्क।

„ सवेरे—ऐकोन, ब्राइयो, फेरम-फास, हिपर, पल्स, रैना-व, रास-टक्स, स्कुइ, सल्फ।

„ „ सास लेनेके समय—स्कुइ।

„ „ शय्यामें—रूमे, साइलि।

दर्द, मध्यमें—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, कैलि-कार्ब, केलि-फा, फास, रैना
सेनि, सल्फ।
„ रातमें—आर्स, कास्टि, लाइको, नक्स-वोम, रास-टक्स।
„ उत्तापके समय (During heat)—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, कैल्क, कैलि
कार्बो-वेज, गुयाइ, केलि-कार्ब, कैमि, नक्स-वोम।
„ उपवासकी वजहसे—ब्रायो।
„ करवट बदलनेपर—ब्रम, रैना-ब।
„ „ शय्यापर—कास्टि, थूजा।
„ खानेके समय—केलि-बाई, लिडम फोलि-ऐनि।
„ „ बाद—ऐलूमि, आर्ज-नाई, चायना, कैलि-कार्ब, नाक्स-वाम, फा
सल्फ, थूजा, विरे।
„ खांसनेके समय—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐमोन म्यूर ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम
टार्ट, बेल, बोरे, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ कार्बो-ऐनि कार्बो
वेज, कास्टि, कैमो, चायना, कोनायम, डिजि, ड्रोसे, कैलि न
लाइको, मैग म्यूर, मार्क, नैट्रम-म्यूर, नैट्रम सल्फ, नाइट्रि
फास, फाइटो, पल्स, रास टक्स सैंगु, सिपि साइलि स्पंजि
स्क्रुई, स्टेनम, सल्फ, विरे, जिङ्क।
„ घूमता फिरता है—ऐलि-सि, कैक्ट, फेरम, सेनि।
„ चढ़नेमें, ऊपर—ऐकोन, बोरा, कैक्ट कोटे सो पेका केलि बाई, रैना ब
स्टा, ग्रैफि, ग्रैमो।
„ छींकनेपर—बोरा, ब्रायो, कास्टि, मेलिडो ग्रीले, मार्क, रास टक्स, थूजा।
„ छूनेपर—ड्रोसे, फास, रैना ब।
„ जम्हाई लेनेपर—धम बोरेक्स लिपर, नैट्रम सल्फ, सैंगु।
„ टहलते रहनेपर—ऐमोन-राई ब्रायो रैना-ब, मार्टी हि।
„ परिश्रमसे शारीरिक—ऐलूमि, कास्टि, फेरम, ड्रस।
„ „ मानसिक—कैमो सिपि।
„ पीनेके बाद ठण्डा पानी—कार्बो वेज मेलि थूजा।
„ पेटभरा—ब्रायो कोनायम थाम सेपि।

दर्द, बोलनेके समय—**बोरा**, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स।

„ भारी चीज़ उठानेपर—ऐलूमि, बेरा-कार्ब, फास, **सोरि, सल्फ।**

„ वातके कारण—ब्रायो, कैल्मि, लैके, रैना-ब, रास-टक्स, स्पाइजि (२) एब्रोट, आर्ज-नाई, कैक्ट, सिमि, चायना, कोलचि, कार्ब, कैलि-आयोड, नक्स-वोम, फास, फ्लोडो।

„ शीतावस्थामें (During chill)—आर्स, बेल, चिनि-स, लैके, रास-टक्स, सैबाडि, सेनि।

„ श्वास-प्रश्वासके समय—(Respiration)—ऐनाका, **बोरा, ब्राइयो,** कैल्के, कैमो, डिजि, **कैलि-कार्ब,** केल्मि, क्रियो, लाइको मैन्सी, फाइटो, **सोरि,** सिपि, स्पाइजि, स्टैनम, सल्फ।

„ „ गभीर—बार्ब, बोरा, **ब्राइयो,** कैल्के, कास्टि, गुये, **केलि-कार्ब,** कैलि-नाइ, **नेट्रम-म्यूर,** फास, पल्स, रासटक्स, सैंगु।

„ सास लेनेके समय (During inspiration)—**ऐकोन,** आर्स **बोरा, ब्राइयो,** कैल्के, कैमो, कैलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, मार्क, नक्स-म, फास, रैना-ब, साइलि, स्पाइजि, **स्क्विल,** सल्फ।

„ सास छोडनेके समय (During expiration)—चायना, क्रोटन-टिग, स्पाइजि, स्टैफि, टैरे, जिङ्क।

„ सोनेपर—ऐलूमि, ऐसाफि, ब्रायो, कैल्के, कैप्सि, कास्टि, कोनायम, कैलि-नाई, सोरि, पल्स, सेनि।

„ „ करवट होकर—कैन्या, हाइड्रो।

„ „ „ रोगवाली करवट—कैल्के, सैबाडि।

„ „ „ दर्दवाली करवट—ब्रायो।

„ „ „ निरोग करवट—**पल्स,** स्टैनम।

„ „ „ दाहिनी करवट—बोरा, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क,** फाइटो।

„ „ „ बाईं करवट—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, नेजा, **फास, स्पाइजि।**

„ „ चित्त होकर—सल्फ।

दर्द, सोनेपर, सो भर सकता है—ऐकोन, ब्रायो, फास।
" " कण्ठास्थिमें (Clavicles)—ऐलू, कैल्के-फास, चिनि-स, गेम्बो, हाइड्रो, केलि-नाइ, रूमेक्स।
" " निचले भ ग में—ऐम्ब्रा, केल्के, ड्रोसे, टेवे।
" " निम्न-भागमें (Lower parts)—केलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-सल्फ, पल्स, रास-टक्स, स्टैनम।
" " " दाहिने—चेलि, मार्क-कौर नेजा।
" " , बाये —केल्क, केलि-फास, लिथि।
" पार्श्वमें (Sides)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, आर्ज-नाइ, कार्बो-वेज, ब्रायो, केल्के, चेलि, कालि, कोनायम, क्रूप्रम, केलि कार्ब, लाइको, मिनि, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पल्स, रैना-ब, रूमेक्स, रास टक्स, स्पञ्जि, सल्फ।
" " दाहिने—इस्कि, ऐगारि, बेल, ब्रायो, कैल्के, कार्बि, चेलिडो, चिनि-आ, आइयो, सेगु, स्टैनम, सल्फ।
" " बाएँ—एविस, आर्ज-नाइ केल्क, सिमि, कप्रम, मेर्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम सल्फ, फास, रैना-ब, रूमेक्स, स्पाइ, सल्फ।
" " " अपराह्नमें ४ बजे—लाइको।
" " खाँसनेके समय—चानि, बेल, ब्रायो, मार्क, फास, पल्स, लिथि स्क्वि, सल्फ।
" " टहलनेके समय—एमोन-कार्ब, ब्रोमि केल्क, केमो रैना-ब, स्पाइजि, स्टैनम, सल्फ।
" " सोनेके समय—बोरा, केलि कार्ब।
" " श्वास प्रश्वासमें—इग्नि, पल्स।
" " " गहरी—ऐकोन ऐसिड-फ्लू ऐलिया ब्रायो केल्के, केलि-कार्ब, केलि नाई, मि[illegible] फास ए, फास रास टक्स स्पञ्जि, स्टैनम सल्फ।
" " सांस लेनेके समय—ब्रायो, केलिडो, केलि कार्ब स्क्वि।
" " सोनेपर—पल्स, मर्क, मिनि।
" " " चित लेटकर—फास।

दर्द पार्श्वमें, सोनेपर करवट, दाहिनी—लाइको, फाइटो।

" " " " बायीं—फास।

" " हँसनेपर—ब्राइयो।

" " घटना, दबानेपर—बोरा, ब्राइयो, सिपि, फास।

" " " हिलने डोलने पर—ब्राइयो, रैना ब।

" " बढ़ना, साँस लेने छोड़नेमें, गहरी—आर्जेण्ट-मेट, कैल्के, कैल्क-फास, कार्बो-वेज, चायना, कैलि बाई, लाइको, मिनि, साइलि।

" फेफड़ेमें—लाइको, रूमे, सल्फ, टियु।

" " दाहिने—ब्राइयो, इलेप, रूमे, सल्फ।

" " बाएँ—सल्फ।

" " ऐपेक्स (शिखर Apex), दाहिने—आर्स, सिनि।

" " " बाएँ—कैल्के, सल्फ, थेरि।

" बगलमें (Axilla)—ऐग्न, क्लिमे, डाय, ग्रेफा, ब्राइयो, विरे, वाइपे।

" " की ग्रन्थिमें—ऐमोन-कार्ब, बैरा-कार्ब, कैलि-कार्ब, प्रून-स्पा, रास-टक्स, सल्फ-ऐ।

" वक्षोस्थिमें (Sternum)—बेल, ब्राइयो, क्रियो, फेरम-ऐ, मैन्सि, पल्स, सल्फ, टेरि।

" " खाँसनेके समय—बेल, ब्राइयो, चायना, कैलि-बाई, क्रियो, फास, सैंगु, सल्फ।

" " पीछे—ऐगा, आर्जेण्ट-नाई, चेलिडो, साइमि, लोबे, सैंगु, साइलि, सिफि।

" " साँस लेनेमें—चेलिडो, कैलि-कार्ब, मैंगे।

" " साँस लेने छोड़नेमें गहरी—कास्टि, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सोरि।

" स्तनमें—बेल, बोरे, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कैमो कोना, डानका, लेक-कै, मार्क, फिला, फास-ऐ, फाइटो, रास-टक्स, साइलि, सल्फर।

" " दाहिने—प्रूने, फिला, सैंगु, जिङ्क।

" " बाएँ—लेके, लिलि-टिग, साइलि।

" " सवेरे—लिलि-टिग।

दर्द, स्तनमें—सन्ध्यामें—कोनायम, लेक कै।

„ „ ऋतुके पहले—कैल्के, कोना, कैलि-कार्ब, मैक-फो।

„ „ „ समय—कैल्के, कोना, मार्क, फास, फाइटो, सैंगु।

„ „ गर्भावस्थामें—सिपि।

„ „ घूमता फिरता है—पल्स।

„ „ दूसरा स्तन पिलाते समय—बोरै।

„ „ निम्नाङ्गमें—लैके, पल्स, रैना-ब।

„ „ स्तन पिलानेके समय बच्चेको—क्रोटन-टिग, पल्स, माइलि।

„ „ स्तन-वृन्तमें—कैल्के-फास, ऐलो, मैक-फो, लैके, मार्क-कोर, मैड्र, सल्फ, जिङ्क।

„ „ „ दूध पिलानेके समय बच्चेको—क्रोटन-टिग, मार्क कोर, पल्स, नक्स वोम, फाइटो।

„ „ फैलता है, पृष्ठ फलकास्थितक (Scapulæ)—क्रोटन टिग, रास-टक्स।

„ „ „ सारे शरीरमें—फाइटो।

„ हृत्पिण्डमें—ऐको, ऐकोन, ऐमिल ना, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका आर्स, ऐसाफि, बेल्डो ऐ ब्रोमि, ब्रायो कैक्ट, कैल्के, कैल्के-फा, कैम्फ, कैना-इ, सिमि, सिमि, सिना कोमिचि, क्रोटे हो, डैफ, डिजि, ग्लोनो, काइयो कैलि कार्ब, कैलि क्लोर, केल्मि, लैके ल्यारो, लिलि टिग, लिथि, मोश्च नैजा नैट्रम म्यूर, फास, पल्स, रास-टक्स, सैङ्गु सैङ्ग स्पाई, स्पञ्जि, सल्फि टैर, थूजा, विर, विरे वि।

„ „ ऋतुके पहले—कैक्ट, लैके, लिलि टाइग्रि।

„ „ „ समय—कैक्ट कोना।

„ „ „ बाद—लैके।

„ „ घूमता फिरता है—कलमा, पल्स।

„ „ हिलानेडुलाने और मारत—सिपि।

„ „ प्रसवके बाद—सिपि।

दर्द, हृत्पिण्डमें वातज—(१) लिथि-कार्ब, नैजा, स्पाइजि (२) एब्रोट, आर्जे-नाइ, अरम, बेन्जो-ऐ, कैक्ट, सिमि, कैलि-श्रा, केल्मि, लैके, लिडम, लाइकोपो, पल्स, रास-टक्स, सैंगु, सिपि, स्फ्जि।

„ „ मृगी रोगके पहले—कैल्के-श्रा।

„ „ शयन कर सकता है, केवल दाहिनी करवट—नैजा, **स्पाई**।

„ „ „ केवल बाई करवट—आर्ज-मेट, रूमे।

„ „ शीतावस्थामें—कैल्के।

„ „ फैलता है, बाई पृष्ठ फलकास्थिमें (Scapulæ)—लिलि-टिग, सल्फ।

„ „ „ बाई बांहमें—ऐकोन, सिमि, कैक्ट, क्रोटे-होर, डिजि, **कैल्मि**, रास-टक्स, स्पाई, टैबे।

„ „ „ दाहिने हाथमें—फाइटो।

„ „ „ पीठमें—आर्स-श्रा, क्रोटन-टिग, ग्लोनो, कैलि-कार्ब, लिलि-टिग, स्पाई, **सल्फ**।

„ „ घटता है-हिलने डोलनेपर—मैग-म्यूर।

„ „ „ पेशाब करनेके पहले और समय—लिथि।

„ „ बढ़ता है-हिलने डोलनेपर—लैक्टि-ऐ।

„ „ „ सोनेपर दाहिनी करवट—कैलि-का।

„ „ „ „ बाई करवट—कैक्ट, क्रोटे-होर, कैलि-श्रा, लैके, नैजा, नेट्रम-म्यूर, **स्पाइ**, टियुक्रि।

„ „ „ सर झुकानेपर—**स्पजि**।

„ „ „ सामने झुकने पर—लिथि, लिलि-टिग।

„ हृत्पिण्ड प्रदेशमें (Region of)—**ऐरम-ट्रि**, बेन्जो ऐ, सिमि, ग्रैफा, स्पाइजि, नैजा, सल्फ।

„ „ घटना (साधारण)-खड़े होनेपर—चायना, ग्रैफा।

„ „ खानेके बाद—क्रोडो।

„ „ „ गर्म प्रयोगसे—**फास**, आर्स।

„ „ „ घसनेपर—कैल्के, फास।

„ „ „ झुकनेपर सामने—ऐसक्लि-हि, पल्स।

,दर्द, खानेके बाद, टहलते रहनेपर—चायना, नेट्रम-म्यू र, सेने।

" " " डकारसे—लाइको।

" " " दबा रखनेपर—आर्निका, बोरा, ब्राइयो, ड्रोसे, युपे-पर्फो, क्रियो, नेट्रम-फास, सिपि।

" " " विश्रामसे—चायना, लाइको, फास, सोरि।

" " घटना, सोनेपर—ऐलूमि, आकजा-ऐ।

" " " " पट होकर—ब्राइयो।

" " " " करवट हो कर—ब्राइयो, येलेडि, नक्स-वोम, स्टैनम।

" " " " चित होकर—ऐम्ब्रा।

" " " " दर्दवाली करवट—ऐम्ब्रा, ब्राइयो, नक्स-वोम।

" " " हवामें खुली—नेट्रम-म्यू र।

" " बढना-गर्म घरमें—साइलि।

" " " गाना गानेपर—ऐमोन कार्ब।

" " " दबानेपर—ऐगिरस क्ल्ड, सिम्सि, मार्क-पा फ्ले, रेना ब, सेने, सल्फ-ऐ, टेरे।

" " " विश्राम लेनेपर—डल्कि, आर्निका, ब्राइयो, मार्क, मेजा, फास, रूटा।

" " " विश्राममें—रास टक्स मेने।

" " " हाथ पैर सिकोड़कर सोनेपर—ऐकोन ऐसो, सिपी।

" पकड़न, कुचलनेकी तरह दबानेसे दर्द होता है (Soreness, bruised) —ऐमोन म्यू र, एपिस, आर्नि, आर्स, बेलि ब्राइयो, [illegible], कार्बो वेज कास्टि, चेलिडो, सिकि [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] युपि प [illegible], [illegible] [illegible], हिपर, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू र [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], रास-टक्स [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]।

" " [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible]—[illegible]।

दर्द, अकड़न, खाँसीकी वजहसे—एपिस, **आर्नि**, बेल, ब्राइयो, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कोपे, क्रियो, ड्रोसे, युपे प, फेरम, जेल्स, कैलि-बाई, क्रियो, मैग-म्यू र, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू र, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **फास**, **स्पंजि**, स्टैनम, स्टेफि, सल्फ।

„ „ खाँसनेके समय—**आर्नि**, आर्स, ब्राइयो, केल्के, कास्टि, युपे-प, फेरम, जेल्स, हिपर, कैलि-बाई, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, सेने, सल्फ।

„ „ छींकनेपर—सेने।

„ „ छूनेपर—आर्नि, **कैल्के**, **चायना**, सिस्टा, कैलि-कार्ब, लेडम, **रैना-ब**, सेने।

„ „ दबानेपर—बैरा-कार्ब, क्रोटन-टिग।

„ „ दबा रखता है, छाती, हाथसे, खासनेके समय—आर्नि, ब्राइयो, ड्रोसे, नेट्रम-स, फास, सिपि।

„ „ बोलनेमें—कैलि-कार्ब लाइको।

„ „ श्वास-प्रश्वासमें—केल्के, कैलि-कार्ब, लोबे, नाइट्रि-ऐ।

„ „ सांस लेनेमें (During inspiration)—**ब्राइयो**, केल्के, कैम्फ, युपे-प, नेट्रम-म्यू र, सेगु।

„ „ घटना-जागनेपर—ब्राइयो, ड्रोसे, युपे-प, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स।

„ „ „ दबा रखनेपर, छाती हाथसे—**ब्राइयो**, नेट्रम-स।

„ „ बढना-सोनेपर—**चायना**।

„ „ कण्ठास्थिमें—कैल्के-फास, लाइको, नेट्रम-म्यू, फास, फाइसो, स्टिलि।

„ „ „ ऊपर—**एपिस**।

„ „ „ नीचे—फेरम, **पल्स**।

„ „ पार्श्वमें (Sides)—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, आर्नि, कार्बो-वेज, चायना, **कोना**, ब्राइयो, फास, पल्स, रास-टक्स, रूमे, सेने, स्क्वेमी।

„ „ „ दाहिने—कोना, कास्टि, चेलि, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ „ „ करवट सोनेपर—पल्स।

„ „ „ बाएँ—ऐमोन-म्य, आर्जे-ना, कैल्के-फास, रैना-ब, स्क्वेमी।

दर्द, अकड़न, पार्श्वमें दाहिने, करवट सोनेपर—पल्स।

" " " घूमनेपर—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, कोना, आइयो, रासटक्स।

" " बगलमें (Axilla)—कार्बो-वेज मेजे।

" " वक्षोस्थिमें—कैल्के-फास, ओसिम, सल्फ।

" " " भीतरकी ओर—युपे-प, रूमे।

" " " " श्वांसनेके समय—ऐमोन कार्ब, ब्राइयो आइयो, रूमे।

" " स्तनमें—एपिस, आर्नि, बेल, ब्राइयो, केल्के, कैल्के फास, केमो, कोना, हेलो, आइयो, लैक-के, लाइको, नाइट्रि-ऐ, ओनोस, फास, फाइटो, रैना-सि, पल्स, साङ्गुनि, जिङ्क।

" " " ऋतुके पहले—कैल्क, कोना, लैक-के, पल्स, सैंगु, स्पञ्ज।

" " " " समय—कैल्के, कोना, ऐलो, लैक के, जिङ्क।

" " " को घुण्डीमें—ऐम्ब्रु सि, आर्नि, वेण्टी, कैल्के फास, कास्टि, केमो, पल्न ऐ, ग्रैफा, ऐमा, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फिला, फास, राम टक्स, सिपि, साङ्गुनि, सल्फ।

" " छातिपिण्डमें—कैक्ट कोटे-हॉर, पल्न ऐ, जिल्स शीग-कार्ब।

" " " दुग्धके बाद—जिल्स, इग्ने।

" " " प्रदेशमें (Region of)—परम म्यू, कोनि गुपे प, छाइयो, सेगु, सिरे, टेबे मूजा।

" " " " बढ़ना हिलने डोलनेसे—ब्राइयो गुपे प।

" काटता है मानो तेज (Cutting pain, sharp pain)—एपिस, ऐम्ब्रि टि, बेल, कैल्के कैल्के-फास, कैमफि, [illegible] ब्राइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आई, कैलि नाइ, मार्क्यो, मार्क [illegible] म्यूर, सोरि [illegible], रैना ब, [illegible], [illegible], सल्फ।

" " [illegible]—कैलि-कार्ब।

" " [illegible]—ब्राइयो, [illegible]।

" " [illegible] ([illegible])—[illegible]।

" " [illegible]—[illegible]।

" [illegible]—[illegible], कैल्के [illegible]।

" [illegible]—[illegible], [illegible]।

दर्द, काटता है, मानो तेज़, हिलाने डोलानेपर बाद—ऐसक्लि-टि ।

,, ,, घटना, हिलने डोलनेपर—फास ।

,, ,, बढना, सोनेपर—अरम, लिलि-टिग, रूमे, सल्फि ।

,, ,, ,, ,, बायें—फास ।

,, ,, ,, हिलने डोलनेपर—कैक्ट, केलि-आ ।

,, ,, निम्नांशमें—केलि-कार्ब ।

,, ,, पार्श्वमें—ऐङ्गा, सीड्र, कोना, डालका, केलि-का, कैलि-ना, लोरो ।

,, ,, ,, दाहिने—वेल, कोना, आइयो, सैङ्गु, स्टैनम, सिपि, ड्रासिव ।

,, ,, ,, बाएँ—ऐगा, ऐसक्लि-टि, ब्रोमि, कोलचि, डाल, लिलि-टिग, लाइको, **नेट्र-म्यु**, रूमे, झोडो, सल्फि, टैरे ।

,, ,, स्तनमें—वेल, आइयो, लैके, लिलि-टिग ।

,, ,, ,, बाएँ—लैके, लिलि-टिग ।

,, ,, ,, स्तन पिलानेके समय—साइलि ।

,, ,, हृत्पिण्डमें—इस्कि, ऐब्रो, **आर्स**, ब्राइयो, कैक्ट, कोलचि, कोना, क्रोक, ग्लोनो, आइयो, लैक-डि, **सल्फ** ।

,, ,, ,, प्रदेशमें (Region of heart)—ब्रोमि, डाय, फास ।

,, ,, ,, सांस छोड़नेमें तकलीफ होती है—कैल्के, वैल्के-फास, डाय ।

,, ,, कुटकुटाना, लगातार दर्द (Aching)—ऐकोन, आइलैन्थ, आर्निका, ऐसाफि, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, क्रिमे, लैकि-ऐ, लाइको, फास, फाइटो, रैना-ब, सल्फ ।

,, ,, घटना-डकारसे—लाइको ।

,, ,, ,, सांस लेनेपर—मार्क ।

,, ,, बढना कण्ठास्थिके निम्नांशमें—आइलैन्थ, कार्बो-ऐनि, ड्रोसे, सल्फ ।

,, ,, ,, हिलने डोलनेपर—बैपटी, ब्राइयो, स्ट्राम्नि ।

,, ,, निम्नांशमें (Lower part)—क्रोक, चायना, सेने ।

दद, काटता है, मानो तेज, पार्श्वमें (Sides)—ऐमोन-कार्ब, आर्जेण्ट-नाई, व्रायोनी, कैलि-कार्ब, फास्फो, रास-टक्स, सल्फ।

" " " " दाहिने—बिस्मथ, कार्बो-वेज, कास्टि, डिजि, मार्क-ऐ-फ्लो।

" " " " बाएँ—एपिस, कार्बो, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ब्रायोनी, मार्क, इग्ना, रास-टक्स, सेने, टेरे, जिङ्क।

" " " निश्वास लेनेमे गहरी गहरी—चिनि-आ, मेजे, इग्ना, फास्फो।

" " " बगलमें—ऐसाफि, व्रायोनी, चेलिडो, डाय, फास्फो, स्टैफि, थूजा।

" " मध्यस्थलमें (Middle of)—क्रोटे-होर, लिथि, सार्सा।

" " " फैलता है पीठमें—क्रोटे-होर।

" " " वक्षोस्थिमें—एपि।

" " स्तनमें—एपिस, कोना, इयुपे, लिलि-टिग, सल्फ, स्ट्रैमो, जिङ्क।

" " हृत्पिण्डमें—कैक्ट, क्रोटे-होर, ग्लोनो, मेके, मार्क, मेट्रम-म्युर, नक्स-वोम, फास, विरे-वि।

" खींचन (Drawing)—ऐगा, कैड्मि, कैफि, कैमो, चायना, फेरम, नक्स-वोम।

" " सांस लेनेमें—कैम्फर, स्ट्रैनम।

" " पार्श्वमें (Sides)—ऐगा, नेट्रम-म्युर, कार्ब, व्रायोनी, कैफि, कैलि कार्ब, लिडम।

" " " दाहिने—बेल, स्टाफि।

" " " बाएँ—कैल्के, डाल, मेजो, फास।

" " फैलता है, बांहमें—ट्रिलि।

" " " सामने और पीछे—पिट्रो फस।

" " बगलमें—केल, कोनोलि, कोना, लिलि टिग, मेट्स म मार्टल।

" " हृत्पिण्डमें—पल्स-डि केन्ज, कार्डु मे फिरम, स्पाइजि।

" सीधा मारनेकी तरह—ऐकोन, ऐपिस टा मार्ग, पिटि केम, मार्क, कैक्ट, कैल्के, कोनिनि गाय मे लिथि।

" " बातमें—लिथि।

दर्द, काटता है, मानो तेज, हिलाने डोलानेपर बांइ—ऐस्क्लि-टि ।

,, ,, घटना, हिलने डोलनेपर—फास ।

,, ,, बढना, सोनेपर—अरम, लिलि-टिग, रूमे, स्क्वि ।

,, ,, ,, ,, बायें—फास ।

,, ,, ,, हिलने डोलनेपर—कैक्ट, कैलि-आ ।

,, ,, निम्नाशमें—कैलि-कार्ब ।

,, ,, पार्श्वमें—ऐग्ना, ब्रोइ, कोना, डालका, कैलि-का, कैलि-ना, लोरो ।

,, ,, ,, दाहिने—बेल, कोना, आइयो, सैङ्ग, स्टैनम, सिपि, ट्राम्बि ।

,, ,, ,, बाएं—ऐगा, ऐस्क्लि-टि, ब्रोमि, कोलचि, डाल, लिलि-टिग, लाइको, **नेट्र-म्य**, रूमे, फ्रोडो, स्क्वि, टैरे ।

,, ,, स्तनमें—बेल, आइयो, लैके, लिलि-टिग ।

,, ,, ,, बाएं—लैके, लिलि-टिग ।

,, ,, ,, स्तन पिलानेके समय—साइलि ।

,, ,, हृत्पिण्डमें—इस्क्वि, ऐब्रो, **आर्स**, ब्राइयो, कैक्ट, कोलचि, कोना, क्रोक, ग्लोनो, आइयो, लैक-डि, **सल्फ** ।

,, ,, ,, प्रदेशमें (Region of heart)—ब्रोमि, डाय, फास ।

,, ,, ,, सांस छोडनेमें तकलीफ होती है,—कैल्के, कैल्के-फास, डाय ।

,, ,, कुटकुटाना, लगातार दर्द (Aching)—ऐकोन, आइलैन्थ, आर्निका, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, क्लिमे, लैकि-ऐ, लाइको, फास, फाइटो, रेना-ब, सल्फ ।

,, ,, घटना-डकारसे—लाइको ।

,, ,, ,, सांस लेनेपर—मार्क ।

,, ,, बढ़ना कण्ठास्थिके निम्नाशमें—आइलैन्थ, कार्बो-ऐनि, ड्रोसे, सल्फ ।

,, ,, ,, हिलने डोलनेपर—बैपटी, ब्राइयो, स्ट्रान्सि ।

,, ,, ,, निम्नांशमें (Lower part)—क्रोक, चायना, सेने ।

दद, काटता है, मानो तेज, पार्श्वमें (Sides)—ऐमोन-कार्ब, आर्जेण्ट-नाई, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, फास्फो, रास-टक्स, सल्फ।

" " " " दाहिने—बिस्मथ, कार्बो-वेज, कास्टि, डिजि, मार्क-ऐ-फलो।

" " " " बाएँ—एपिस, बार्ब, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ब्राइयो, मार्क, इग्ना, रास-टक्स, सेने, टेरे, जिङ्क।

" " " निश्वास लेनेमें गहरी गहरी—चिनि-आ, नैजे, इग्ना, फास्फो।

" " " बगलमें—ऐसाफि, ब्राइयो, चेलिडो, डाय, फाइसो, स्टैफि, थूजा।

" " मध्यस्थलमें (Middle of)—कोटे-छोर, लिथि, सासी।

" " " फैलता है पीठमें—कोटे-छोर।

" " " वक्षोस्थिमें—एपि।

" " स्तनमें—एपिस, कोना, इयुपे लिलि-टिग, मस्क, स्टैमो, जिङ्क।

" " हृत्पिण्डमें—केक्ट, कोटे-छोर, ग्लोनो, मेके, मार्क, नैट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, विरे-वि।

" खींचन (Drawing)—ऐगा, कैड्मि, कैम्फि, कैसी, चायना, फेरम, नक्स-वोम।

" " साँस लेनेमें—कैम्फर, स्टैनम।

" " पार्श्वमें (Sides)—ऐगा, आरम-म्यूर, बार्ब, ब्राइयो, कैम्फि, कैलि-कार्ब, लिडम।

" " " दाहिने—चेन, स्ट्रामि।

" " " बाएँ—कैल्क, डाल, मेडो, फास।

" " फैलता है, बांहमें—पिक्रि।

" " " सामने और पीछे—पिट्रोल।

" " बगलमें—केल्क, कार्बोनि, कोना, लिलि टिग, मेड्स स साइलि।

" " हृत्पिण्डमें—फास-हि, केल्क कार्ब, मे केल्क, स्पाइजि।

" खोंचा मारनेकी तरह—ऐकोन लिलि-टा चार्म बैडि, ब्रा, मार्क, केल्क कैल्के, कोलचि, राम वे लिथि।

" " सामने—लिथि।

दर्द, काटता है, मानो तेज़, हिलाने डोलानेपर बांह—ऐस्क्लि-टि ।

" " घटना, हिलने डोलनेपर—फास ।

" " बढना, सोनेपर—अरम, लिलि-टिग, रूमे, सज्जि ।

" " " " बायें—फास ।

" " " हिलने डोलनेपर—कैक्ट, केलि-आ ।

" " निम्नांशमें—केलि-कार्ब ।

" " पार्श्वमें—ऐङ्ग, सीड्र, कोना, डालका, केलि-का, केलि-ना, लोरो ।

" " " दाहिने—बेल, कोना, आइयो, सैङ्ग, स्टेनम, सिपि, ड्राबि ।

" " " बाएँ—ऐगा, ऐस्क्लि-टि, ब्रोमि, कोलचि, डाल, लिलि-टिग, लाइको, नेट्र-म्य, रूमे, फ्लोडो, सज्जि, टेरे ।

" " स्तनमें—बेल, आइयो, लैके, लिलि-टिग ।

" " " बाएँ—लैके, लिलि-टिग ।

" " " स्तन पिलानेके समय—साइलि ।

" " हृत्पिण्डमें—इस्क्लि, ऐग्रो, आर्स, ब्राइयो, कैक्ट, कोलचि, कोना, क्रोक, ग्लोनो, आइयो, लैक-डि, सल्फ ।

" " " प्रदेशमें (*Region of heart*)—ब्रोमि, डाय, फास ।

" " " सास छोडनेमें तकलीफ होती है—कैल्के, बौर्ल्के-फास, डाय ।

" " कुटकुटाना, लगातार दर्द (Aching)—ऐकोन, आइलैन्थ, आर्निका, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, लिमे, लैक्टि-ऐ, लाइको, फास, फाइटो, रैना-ब, सल्फ ।

" " घटना-डकारसे—लाइको ।

" " " सांस लेनेपर—मार्क ।

" " बढना कण्ठास्थिके निम्नांशमे—आइलैन्थ, कार्बो-ऐनि, ड्रोसे, सल्फ ।

" " " हिलने डोलनेपर—ब्रैपटी, ब्राइयो, स्ट्रान्नि ।

" " " निम्नांशमें (Lower part)—क्रोक्र, चायना, सेने ।

दद, काटता है, मानो तेज, पार्श्वमें (Sides)—ऐमोन-कार्ब, आर्जेण्ट-नाइ,
ब्राइयो, केलि-बाई, फाइटो, रास-टक्स, सल्फ ।
" " " " दाहिने—बिस्मथ, कार्बो-वेज, काल्मि, डिजि, मार्क-ऐ-फ्लो ।
" " " " बाएँ—एपिस, बार्बे, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ब्राइयो, मार्क, इग्ना, रास-टक्स, सेने, टेरे, जिङ्क ।
" " " निश्वास लेनेमें गहरी गहरी—चिनि-आ, मेजे, इग्ना, फाइटो ।
" " " बगलमें—ऐसाफि, ब्राइयो, चेलिडो, डाय, फाइटो, स्टैफि, थूजा ।
" " मध्यस्थलमें (Middle of)—क्रोटे-हौर, लिथि, नासो ।
" " " फैलता है पीठमें—क्रोटे-हौर ।
" " " वक्षोस्थिमें—एपि ।
" " स्तनमें—एपिस, कोना, प्रयुपि, लिलि-टिग, मम्स, प्रूमो, पिङ्क ।
" " हृत्पिण्डमें—कैक्ट, क्रोटे-हौर, ग्लोनो, मेके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, फास, विरे-वि ।
" खींचन (Drawing)—ऐगा, कैड्मि, केलि, कैमो, चायना, फेरम, नक्स-वोम ।
" " सांस लेनेमें—कैम्फर, स्टैनम ।
" " पार्श्वमें (Sides)—ऐगा, ब्रम-म्युर, बार्बे, ब्राइयो, केलि कैलि-बाई, मिडम ।
" " " दाहिने—बेल, स्टाफि ।
" " " बाएँ—फॉस्फो, डाल्क मेडो, काम ।
" " फैलता है, बाहमें—पेट्रोल ।
" " " सामने और पीछे—पेट्रोलम ।
" " बगलमें—ब्रोम, कोलोसि कोना, लिलि टिग, मेर्क स मार्शल ।
" " हृत्पिण्डमें—ब्रम फ्रि, बेल्ल कार्बो वे डरम, स्पाइजि ।
" खोंचा मारनेकी तरह—एकोन ऐसिड टार्ट, मार्क, बिडि, ह्योस्सा, मार्क, केल्ट, फेल्फो, कोलचि कार्बो-वे, सिपि ।
" " सानमें—सिफि ।

दर्द, काटता है, मानो तेज़, हिलाने डोलानेपर बाद—ऐस्क्लि-टि।
„ „ घटना, हिलने डोलनेपर—फास।
„ „ बढ़ना, सोनेपर—अरम, लिलि-टिग, रूमे, स्पिञ्जि।
„ „ „ „ बायें—फास।
„ „ „ हिलने डोलनेपर—कैक्ट, केलि-आ।
„ „ निम्नांशमें—केलि-कार्ब।
„ „ पार्श्वमें—ऐङ्गा, सोड्र, कोना, डालका, केलि-का, कैलि-ना, लोरो।
„ „ „ दाहिने—बेल, कोना, आइयो, सेङ्गु, स्ट्रैनम, सिपि, ड्राविब।
„ „ „ बाएँ—ऐगा, ऐस्क्लि-टि, ब्रोमि, कोलचि, डाल, लिलि-टिग, लाइको, **नेट्र-म्यू**, रूमे, फ्लोडो, स्पिञ्जि, टेरे।
„ „ स्तनमें—बेल, आइयो, लैके, लिलि-टिग।
„ „ „ बाएँ—लैके, लिलि-टिग।
„ „ „ स्तन पिलानेके समय—साइलि।
„ „ हृत्पिण्डमें—इस्कि, ऐब्रो, **आर्स**, ब्राइयो, कैक्ट, कोलचि, कोना, क्रोक, ग्लोनो, आइयो, लेक-डि, **सल्फ**।
„ „ „ प्रदेशमें (Region of heart)—ब्रोमि, डाय, फास।
„ „ „ सास छोडनेमें तकलीफ होती है—कैल्के, वैल्के-फास, डाय।
„ „ कुटकुटाना, लगातार दर्द (Aching)—ऐकोन, आइलैन्थ, आर्निका, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, क्लिमे, लैकि-ऐ, लाइको, फास, फाइटो, रैना-ब, सल्फ।
„ „ घटना-डकारसे—लाइको।
„ „ „ सास लेनेपर—मार्क।
„ „ बढ़ना कण्ठास्थिके निम्नांशमें—आइलैन्थ, कार्बो-ऐनि, ड्रोसे, सल्फ।
„ „ „ हिलने डोलनेपर—ब्रैपटी, ब्राइयो, स्ट्रान्सि।
„ „ „ निम्नांशमें (Lower part)—क्रोक, चायना, सेने।

दर्द, चिलक मारनेकी तरह, हृत्पिण्डमें—एपिस, कैक्ट, कैल्के-फास, केमो, हाइड्रो, कैल्मि, लाइको, फास।

„ „ „ फैलता है, पृष्ठफलकास्थिमें (Scapulæ)—कैल्मि, सल्फ।

„ छुरा लगनेकी तरह (Stabbing)—कोना, आइयो, रेना-व, सल्फ।

„ जकड़ने, मरोड़ने, अकड़नेकी तरह (Griping, spasmodic)—कैक्ट, कोलो, डिजि, ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

„ „ ऋतुके समय—काक।

„ „ खाँसनेके समय—सल्फ।

„ „ घटना, गर्म-भोजनसे—सल्फ।

„ „ „ खड़े होनेपर—ग्रैफा।

„ „ बढ़ना, सांस लेनेपर—सिना, म्यू-ऐ।

„ जखमकी तरह, दबानेसे दर्द करता है (Rawness)—इस्कि, ऐगा, ऐल्यू, ऐनाका, आर्नि, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, सिस्टा, काकु, कोपे, जेल्स, ग्रैफा, हाइड्रो, लाइको, मेजे, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, पल्स, इपि, रूमे, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ।

„ „ खाँसनेके समय—आर्जे-मेट, आर्स, कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, काकु, ग्रैफा, इपि, कैलि-कार्ब, क्रियो, मेजे, मार्क, फास, रूमे, सिपि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ।

„ जलन (Burning)—ऐकोन, ऐण्टिम टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, बिस्मथ, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-एनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, सिकि, कोपे, क्रोटे-टी, ड्रोसे, कैलि-बा, क्रियो, मेजे, मोश्कस, मेडो, मार्क, मार्क-सल्फ, म्यू-ऐ, नेट्रम-म, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, सेबा, सेंगु, सेने, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, टेरि, जिङ्क।

„ „ रातमें—मेजे।

„ „ „ आधी रातके बाद—आर्स।

„ „ कोयलेकी आग जैसी जल रही है—कार्बो-वेज, मेजे।

„ „ खाँसीके बाद—ऐण्टि-टार्ट, आइयो, ब्रायो, कार्बो-वेज, कास्टि, आइयो, मेजे, मेन-म्यू, मेजे-भ, स्पंजि, सल्फ।

दर्द, खोंचा मारनेकी तरह, शीतके बाद (After chill)—**ऐकोन।**

" " श्वास-प्रश्वाससे, गहरे—ब्राई, गुयारि।

" " ठिलने-डोलनेपर—वेडि, **ब्राई।**

" " पार्श्वमें, दाहिनो—ऐगा, चिनि-स, कोलचि, गुयारि।

" " " बाएँ—कैल्के, लैक-के, आकजे-ऐ।

" " स्तनमें—ऐमोन-का, कैल्के, कैल्के-फास, कोलचि, लैके, लिलि-टिग, फाइटो, सैवा।

" " हृत्पिण्डमें—ऐकोन, इस्कि, इपि, आर्ज-नाई, केक्ट।

" " चिबाता है, मानो (Gnawing)—कैल्के, कैल्के-फास, कोलचि, मस्क, रेनानक्यू, रूटा।

" चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching)—वेल, कार्बो-वेज, डाल, केलि-कार्ब, फास।

" चिलक मारनेकी तरह तेज़ (Shooting)—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, ऐसाफि, अरम, वेल, कैम्फि, कोलचि, कार्णा, फेरम, आइयो, इपि, केलि-कार्ब, कैलि-बा, **मार्कों-कोर,** रैना-ब, सेने, सल्फ।

" " सवेरे—कैलि-बा।

" " अपराह्नमें, खासनेके समय—सल्फ।

" " रातमें—इपि।

" " खांसनेके समय—कैम्फि, कैलि-बा, सल्फ।

" " टहलनेके समय—ऐसाफि।

" " सोनेके लिये बाध्य होता है, चित होकर—ऐकोन।

" " पार्श्वमें (Side)—आर्स, सिङ्क, कूप्रम, कैलि-बा, फास।

" " " दाहिने—ऐकोन, कोलचि, फार्मि रूमे, **सल्फ।**

" " " बाएँ—कोना, आकजे-ऐ, रूमे, **सल्फ।**

" " फैलता है, पीठमें—ऐसाफि, केन्थ, कोना, कैलि-बा, सिपि।

" " वक्षोस्थिमें (Sternum)—ऐकोन, इस्कु, कैल्के-फास, रास-बैन।

" " " फैलता है, पीठमें—कोना, **कैलि-बाइ,** कैलि-आ।

" " स्तनमें (Mammæ)—कार्बो-ऐनि, ओलि-ऐनि, ग्रैटि।

दर्द, चिलक मारनेकी तरह, हृत्पिण्डमें—**एपिस,** कोक्क, कैल्के-फास, केमो, हाइड्रो, कैलि, लाइको, फास ।

" " " फैलता है, पृष्ठफलकास्थिमें (Scapulæ)—कैल्मि, सल्फ ।

" छुरा लगनेकी तरह (Stabbing)—क्रोना, आइयो, रेना-व, सल्फ ।

" जकड़ने, मरोड़ने, अकड़नेकी तरह (Griping, spasmodic)—कैक्ट, कोलो, डिजि, ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, सल्फ ।

" " ऋतुके समय—काक्क ।

" " खाँसनेके समय—सल्फ ।

" " घटना, गर्म-भोजनसे—सल्फ ।

" " " खड़े होनेपर—ग्रैफा ।

" " बढ़ना, सांस लेनेपर—सिना, म्यू-ऐ ।

" जखमकी तरह, दवानेसे दर्द करता है (Rawness)—इस्कि, ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐनाका, आर्नि, कैल्के, कार्बो-वेज, **कास्टि,** सिष्टा, काकु, कोपि, जेल्स, ग्रैफा, हाइड्रो, लाइको, मेजि, नेट्रम-म्यू, **नक्स-वोम,** पेट्रो, **फास,** फाइटो, पल्स, इपि, रुमे, सम्बि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ ।

" " खाँसनेके समय—आर्जे-नैट, आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, काकु, ग्रैफा, इपि, कैलि-कार्ब, क्रियो, मैंके, मार्क, फास, रुमि, सिपि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ ।

" जलन (Burning)—ऐकोन, ऐण्टिम टार्ट, **एपिस,** आर्नि, **आर्स,** ऐसाफि, विस्मथ, कैल्के, **कैन्थ,** कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, सिकि, कोपि, क्रोटे-टी, ड्रोसे, कैलि-फा, क्रियो, मैक मेडम, मेडो, मार्क, मार्क-सल्फ, म्यू-ऐ, नेट्रम म, नाइट्रि ऐ, नक्स-मास, नक्स-वोम, फास ऐ, फास, गैवा, सैंगु, सैंगे, सिपि, साइलि, स्पंजि सल्फ टेरि, जिङ्क ।

" " रातमें—मैंके ।

" " " आधी रातके बाद—आर्स ।

" " कोयलेकी आग मानो जल रही है—कार्बो वेज मेजि ।

" " खाँसीके साथ—ऐण्टि-क्रूड आइयो, ब्रायो, कार्बो वेज, कास्टि आइयो, मेङ, मिन म्यू र मिन ए, स्पंजि, सल्फ ।

दर्द, जलन खाँसीके बाद—कार्बो-वेज, मैग-स, सेनि ।
" " " सूखी—ब्राई, कास्टि, आइयो, कैलि-कार्ब, मैग-म्यूर, सल्फि ।
" " श्वास-प्रश्वासमें—कैलि-कार्ब ।
" " सांस लेनेके समय—लोरो, सिपि ।
" " पार्श्वमें (Side)—दाहिने—वेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, सल्फ ।
" " " बाएं—आर्स, कार्बो वेज, नेट्रम-कार्ब, फास, रैना-ब, रूमे ।
" " फैलता है, चेहरेमें—सल्फ ।
" " " गलगह्वरमें—ऐण्टि-टा, कैलि-ना, मार्क, सेबाडि ।
" " बगलमें—बार्ब, केल्के-फास, कार्बो वेज, कास्टि, कोलोसि, जुग्ला, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, साइ, थूजा, जिङ्क ।
" " मध्यस्थलमें (Middle)—ड्रोसे, ग्रैफा, आइयो, कैलि-ना, लोरो, मैग-स, मेजि, फास-ए, सल्फ-ए, वेरे ।
" " वक्षोस्थिमें (Sternum)—कैन्थ, कैलि-बाइ, मार्क, सल्फ ।
" " भीतरकी ओर—ऐकोन, ऐण्टि-टा, ऐसाफि, कैलि-बाइ, कार्बो-वेज, कैमो, क्लिमे, कक, लेके, मैग-स, फास, सेङ्गु, सेनि ।
" " सामनेके भागमें (Anterior parts)—एपिस, कैलि-ना, सल्फ ।
" " स्तनमें—एपिस, आर्स, वेल, ब्राइयो, केल्के, केल्के-फास, कार्बो-ऐनि, सिमि, लाइको, मेजि, फास, सैगु ।
" " स्तनकी घुण्डीमें—ऐगा, कोना, ग्रैफा, लाइको, फास, सोरि, साइलि, सल्फ ।
" " " दूध पिलाने बाद बच्चेको—सल्फ ।
" " हृत्पिण्डमें—आर्नि, अरम-म्यू, कक, हाइड्रो, कैलि-आ, लाइसि, ओपि, पल्स, रूमे ।
" " " प्रदेशमें (Region of)—ऐकोन, इग्नि, ऐगा, आर्ज-नाई, आर्स, वेल, कार्बो-वेज, कास्टि, सिक्कि, कैलि कार्ब, पल्स, वेरे-वि ।
" " " बढ़ना खाँसनेपर—ऐगा ।
" " " " छींकनेपर— "
" " " " हिचकीमें— "

दर्द, टपक (Pulsating)—कैक्टि, कैमो, जिङ्क।

" " हृत्पिण्डमें—ग्लोनो, कैलि कार्ब, नक्स-वोम।

" फट जानेकी तरह (Bursting)—आरम-म्यू, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि कैमो, लैके, मार्क, म्यू-ऐ, रास-टक्स, सेनी, सल्फ।

" " खाँसनेपर—ब्राइयो, लैक्टि-ऐ, मार्क, सल्फ।

" " हृत्पिण्डमें—ऐमोन-कार्ब, ऐमाफि, लाइमि, मेडो।

" फाड डालता है, मानो (Tearing)—बेल, ब्राइयो, कौलचि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, फास पल्स, स्पाइ, ऐरम, कैम्फ, नेट्रम-म्यूर, लाइक्रि-ऐ, सोरि, रास-टक्स।

" " पार्श्वमें (Sides)—ऐकोन, ब्राइयो, काकि, ग्रेफा, कैलि-कार्ब।

" " " दाहिने—ब्राइयो, कास्टि काकि, लाइको, मेगु, जिङ्क।

" " " बायें—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-वेज, डिजि।

" " " बढना-श्वास प्रश्वाससे—ब्राइयो, पल्स।

" " " " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो।

" " वक्षोस्थिमें (Sternum) —कैल्के, डिजि, फास।

" " स्तनमें—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, लाइयो, कार्बो-वेज कैलि कार्ब।

" " " दाहिने—कौलचि।

" " " बाएँ—फिला।

" " " दूध उतरनेपर—कैलि कार्ब।

" " हृत्पिण्डमें—ऐमोन म्यूर, क्रिमि, ब्राइयो लाइको।

दबा रखनेकी तरह (Pressing)—पाइलेन्स ऐलूमि ऐरम, ऐगारि आर्जे-नाइ, ऐसाफि, बेल, बोवि, ब्राइ, कैल्के, कार्बो-वे, कास्टि, चेलि डाइक्रो-पे, चायना, सिमिसि, सिना, [illegible], लाइको, कैलि-का, [illegible], मेलि, [illegible], मार्क, मिलि, नेट्रम-का, नेट्रम म्यू, नेट्रम स, [illegible], नक्स-वोम, फास, [illegible], प्लैटि, रैना, रैना-स, रोडो, रूटा, सिपि, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " [illegible]—रैना स, [illegible]।

" " [illegible]—रैना-ब [illegible]

" " [illegible]—ऐलूमि, बेल।

दर्द, दबा रखनेकी तरह खड़े होनेपर—अरम-म्यू, रेना-व।
" " खाँसनेसे—ऐमोन-का, ऐनाका, कोक्के, कोना, केलि-ना, फास-ऐ, सल्फ।
" " झुक जानेपर—रेना-व।
" " बैठे रहने पर—कॉक्ट, चायना।
" " " झुकाकर—डिजि।
" " " शीतके समय (Chill, during)—आइयो।
" " सदा सर्वदा—लाइको।
" " सांस लेनेपर—बोरा, कॉक्के।
" " " गहरी—कैलि-का, स्पिञ्जि।
" " घटना खड़े होनेपर—चाय।
" " " टहलते रहनेपर—चायना।
" " " सांस लेनेमें, गहरे भावसे—ब्रूम्ने।
" " पार्श्वमें (Sides)—ऐम्ब्रा, कॉक्के-फास, कोरा-रू, केलि-का, सिसि, नेट्रम-म्यू, पेरि, सिपि, सल्फ-ऐ।
" " " दाहिने—ऐम्ब्रा, ऐसाफि, बेल, कार्बो-वे, लाइको, स्कुई, टैरे, वायो-ड्रि।
" " " बाएँ—ऐम्ब्रा, कार्बो-वे, हिपर, ब्रूम्ने, लाइको, मार्क, नेट्रम-स, रेना-व, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ।
" " " पत्थरकी तरह—कोरा-रू।
" " " श्लेष्मा निकलनेके समय—सेंगु।
" " " श्वास प्रश्वाससे गहरे भावसे—कैलि-का, फास-ऐ, थूजा।
" " " सास छोड़नेके समय—ऐड्र।
" " मध्यदेशमें (Middle)—ऐलूमि, गेम्बो, केलि-का, फास, पल्स, रेना-व, स्पाई, थूजा।
" " वक्षोस्थिमें (Sternum)—ऐण्टि-टा, **आर्स**, आइयो, कॉक्के-फास, साइला, फेरम, क्रियो, **फास**, रूटा, सल्फ।
" " " पीछे (Behind the sternum)—फास, रूमे, सिपि।
" " स्तनमें—ऐम्ब्रा, कार्बो-वेज, युफ्रे, फास-ऐ, सल्फ, जिङ्क।

दर्द, दबा रखनेकी तरह, स्तनमें, दाहिने—जिङ्क।
" " " बाएं—फास-ऐ।
" " हृत्पिण्डमें—ऐकोन, आर्ज-ना, आर्नि, ऐसाफि, आर्स, कोक्ट, कैल्के, युपे-प, ग्लोनो, ग्रैफा, कैलि, मैक डि, लैकैसी, निमि-टि, फाइटो, पल्स, रास-ट, सार्स।
" " " सवेरे—लिथि।
" " " सन्ध्यामें—पल्स, सल्फ, यूजा।
" " " रात्रिमें—आर्ज-ना, कैना-इ, यूजा।
" " " आहारके बाद—कैलि-या, लिलि-टिग, नाइयो।
" " " ऋतुके समय—आर्ज-ना।
" " " प्रदेशमें (Region of)—कैक्ट, केल्के, कार्बन, डाइको ए, कैलि-कार्ब, लेकै, नेट्रम-म्यू, नाक्स वोम फाइ।
" " घटना, टहलते रहनेपर—कोलचि, पल्स।
" " " दबा रखनेपर हाथमें—नेट्रम-म्यूर।
" मरोड़, ऐंठन (Cramps)—कैक्ट, काकि, पल्स, मेंथु।
" " स्तनमें—लिलि-टिग।
" " हृत्पिण्डमें—आर्स, आर्ड, लैकै, लोरो।
" मोच खानेकी तरह (Squeezing)—ऐमोनि, 'मिना, ब्रोमे, ग्रफा, नाक, फास-ऐ, प्लैटि, सेपि, यूजा, वेरे।
" " हृत्पिण्डमें—आर्स, आइयो, स्पाइजि।
" सुई बेधनेकी तरह (Stitching)—ऐगा, आर्जेन्ट, बेल, बेलि ब्रा ह, एपिस, आर्ज-ना, आर्नि आर्स, ऐसाफि, बराइ-का, बाइयो, कैक्ट, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-एनि कार्बो वेज, कार्डु म कालि, कैमो, चेलि, चायना, कोलचि, कोनाइनि, कोना, क्रोमि, डिजि, युफ्रा, गुये, हस्ने, केलि-ना, कैलि-कार्ब, केलि ना, लिडो, मेजे, मेलि ए, माइको, मैग कार्ब, मार्क, मार्क-कौर, म्यू ए, निको, नेट्रम-कार्ब नेट्रम-म्यू, नाइट्रि ए, नाइट्रि ए, नक्स व, पियो, फास, पल्स, रैना ब रैना सि रास टक्स, सेङ्ग, सार्स सिनि

सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्क्‌ुइ, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैवे, वेले, वार्वा, जिङ्क।

दर्द, शुई वेधनेकी तरह, सवेरे—चायना, हिपर, मार्क, रास-टक्स, स्क्‌ुइ।

" " सन्ध्याके समय—कैलि-ग्रा, रैना-सि, वार्वा।

" " रातमें—ऐमोन कार्व, एपिस, इपि, लाइको, मार्क-कोर, फास, रैना-सि, रास-टक्स।

" " उठानेपर बाहु—सल्फ, थूजा।

" " ऋतुके समय—क्रोकस, पल्स।

" " खानेके बाद—ऐसाफि।

" " खाँसनेपर—ऐकोन, आर्नि, ऐसाफि, **वेल, वोरे, ब्राइयो,** कैल्के-फास, चायना, काकि, कार्या, **ड्रोसि,** फेरम, **ब्राइयो,** कैलि-बा, लेके, लाइको, मार्क, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्क्‌ुइ, स्टैनम, सल्फ।

" " घूमता फिरता है—फेरम, पल्स, सल्फ।

" " " बाहुमें—कैम्फ।

" " छूनेपर—रैना-ब।

" " ज्वरके समय—ब्राइयो।

" " जलन भरा—ऐलि-सि, आर्स, कार्वो-ऐनि, सिना, क्रोटन-टिग।

" " झुकनेपर—ऐमोन-कार्व, मार्क, रैना-बा।

" " टहलनेपर—कोना, कैलि-ग्रा।

" " " खुली हवामें—मार्क, रैना ब।

" " बोलनेके समय—बोरा, कैना-सै, रास-टक्स।

" " शीतावस्थामें—**ब्राइयो**; इयुपे-प, कैलि-का, रास-टक्स, रूमे।

" " श्वास-प्रश्वासमें—ऐनाका, **वोरा, ब्राइयो,** कैल्के, कोलोसि, ड्रोसे, कैलि-कार्व, कैलि-नाई, क्रियो, लाइको, सोरि, सिपि, स्पाइजि, स्क्वि, स्क्‌ुइ, स्टैनम।

" " " गहरी—ऐकोन, ऐलि-सि, वार्वि, बोरा, **ब्राइयो,** कैल्के, कैमो, गुये, **कैलि-कार्व,** कैलि-नाई, म्य-ऐ,

नेट्रम-म्यूर, फास, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, साइलि, सल्फ ।

दर्द, सुई बेधनेकी तरह, साँस लेनेपर—आर्ज-मेट, आरम, बोरा, ब्राइयो, कोना, हाइयो, कोलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, मार्क, रास, रैना-ब, साइलि, स्क्इ ।

" " साँस छोड़नेपर—ऐसिड-फ्लु, कोलचि, म्यज्ञि ।

" " सोनेपर—ऐसाफि, ब्राइयो, कोलि-ना, सोरि ।

" " सो सकता है केवल चित—ऐकोन, ब्राइयो, फास, प्लेटि ।

" " " रोगवाली करवट—कोल्कि, सेनाडि ।

" " " पार्श्वमें दाहिने—बोरा, रूमे, सेने ।

" " " " बाएं—फास, स्पाइजि, स्टेनम ।

" " हिलने डोलनेपर—ब्राइयो, कोल्कि, मार्क, फास, पल्स, रैना-ब, स्पाइजि, सल्फ ।

" " फैलता है, पीठमें—ऐनाका, एपिस, ब्राइयो, कैल्व, चेलिडो, कोना, कोलि-कार्ब, मार्क, फाइटो, सिपिया, साइलि, सल्फ ।

" " " पृष्ठ फलकास्थिमें (Scapulæ)—ब्राइयो, फेरम, हिपर, सल्फ ।

" " " स्कन्ध प्रदेशमें—बैरा का, मेड्र, थेरि ।

" " घटना-घिसनेपर—केम्के-फास ।

" " " दबा रखनेपर हाथसे—ब्राइयो, ड्रोसे ।

" " " विश्राममें—ब्राइयो, चायना ।

" " " सोनेपर दाहिनी ओर—स्पाइजि ।

" " " हवामें घुमी—पेमे ।

" " चलना दौड़नेपर—बोरा, नाक्स ।

" " " बैठनेपर—फास ।

" " " विश्राममें—रास-टक्स ।

" " " सोनेपर—चित होकर—रूटि, सल्फ ।

" " निम्न देशमें (Lower part)—ऐलू, ब्राइयो, कैम्फि, केमो मेड्र ।

दर्द, सुई वेधनेकी तरह, दाहिने—चेलिडो, क्रोटन-टिग।

„ „ मध्यदेशमें (Middle part)—ऐमोन-म्यूर, कैलि-आ, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि, रूमे।

„ „ „ साँस लेनेके समय —ऐनूमि, क्रियो।

„ „ पञ्जरास्थिमें (नीचे) (Lower ribs)—चायना, कैलि-आ, कैल्के, मार्क, रैना-ब, सेङ्गु।

„ „ पार्श्व देशमें (Sides)—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्निका, **ब्राइयो**, कैल्के, कैन्थ, कैमो, चेलिडो, चायना, कोना, डाल्का, गुयेज, हाइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, कैल्मि, मिलि, मस्क, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-सल्फ, फास, प्लम्ब, पल्स, रैना-ब, स्क्वि, **स्कुइ**, सल्फ, टेबे, टेरे।

„ „ „ दाहिने—आर्जेण्ट-मेट, **बोरा**, **ब्राइयो**, कैन्थ, **चेलिडो**, चायना, कैलि-कार्ब, कैलि-आ, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, रैना-ब, साइलि, सल्फ।

„ „ „ „ श्वास प्रश्वासमें—बोरा, **ब्राइयो**, **मेजे**।

„ „ „ „ सोनेपर चित होकर—सल्फ।

„ „ „ बाएँ—ऐकोन, एपिस, आर्निका, आर्स, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो वेज, कार्लस, चायना, सिना, चिनि-सल्फ, कोना, क्रोकस, क्रोटन-टिग, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, लेके, लाइको, मेजे, नेट्रम-सल्फ, निको, **फास**, रैना-ब, रैना-सि, **रूमे**, सिपि, **स्टैनम**, **सल्फ**, आस्टि।

„ „ „ खाँसनेके समय—ऐगा, क्रोटे-होर, ब्राइयो, कैलि-कार्ब।

„ „ „ सोनेपर, बाई करवट, बढ़ना—फास, स्टैनम।

„ „ „ „ दाहिनी करवट, घटना—**फास**।

„ „ „ फैलता है दाहिने—कास्टि, क्रियो, नेट्रम-कार्ब, रूमे।

„ „ „ रातमें—ऐमोम-कार्ब, **कोना**, ग्रैफा, लाइको, सल्फ, पल्स।

„ „ „ ऋतुके समय—बोरा, क्रोकस, फास।

दर्द, सुई वेधनेकी तरह, पार्श्व देशमें, खड़े रहनेपर—नेट्रम-सल्फ।

" " " खाँसनेपर—आर्निका, आर्स, बोरा, **ब्रायो**, केलि, फौना, केलि-कार्ब, लाइको, **मार्क**, फास, पल्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ।

" " " झुकनेपर—ऐमोन-कार्ब, लाइको।

" " " टहलनेपर—ब्रोमि, कैम्फ, कैमो, मार्क, नेट्रम-म्यूर, **रैना-ब**, वायो-ड्रि।

" " " दमाके समय—आर्निका।

" " " बोलनेके बाद—**बोरा**।

" " " शयनावस्थामें—पल्स, रूमे, सेने।

" " " श्वास प्रश्वासमें गम्भीर—ऐकोन, आर्निका, ब्रायो, इग्नेस, गुये, कैलि-कार्ब, केलि नाई, मेजे, नक्सो, फास ऐ, सल्फ।

" " " साँस लेनेपर—ऐकोन, आर्स, बोरा, **ब्रायो**, केल्के, चेलिडो **केलि-कार्ब**, लाइको, **नेट्रम-म्यूर**, रनाइजि, स्क्रुइ, सल्फ।

" " " घटना, उत्तापसे—फास।

" " " " विश्राममें—लाइको, फास।

" " " वेदना-सोनेपर दाहिनी करवट—लाइको।

" " " " " बाईं करवट—स्टैनम।

" " " " श्वास प्रश्वासमें—सिनि मार्गनि।

" " " फैलता है, पृष्ठ फलकास्थिमें (Scapula)—मर्क।

" " " " पीठमें—बरस ड्रि केलि का, लाइको पैरि, मार्क।

" " " निम्न अंशमें (Lower part) दाहिने—[illegible] केलि-कार्ब, कार्बो [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], केलि-का [illegible], मार्क, फास [illegible]।

" " " " बाएं—बार्ब, कोलि केली, [illegible] [illegible], [illegible]।

" " " " [illegible] [illegible] [illegible]—ब्रायो, [illegible]।

दर्द, सुई बेधनेकी तरह, बगलमें (Axilla)—ऐगा, ऐगिट-टा, अरम, बार्बे, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, केलि-बा, केलि-कार्ब, लाइको, मैङ्ग, नेट्रम-स, फास, साइलि, सल्फ ।

" " वक्षोस्थिमें (Sternum)—आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, फास, कैम्फ, कास्टि, कोना, केलि-आ, नेट्रम-म्यू, ओलियै, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा ।

" " " खाँसनेपर—आर्स, बेल, ब्राइयो, सोरि, साइलि ।

" " " श्वास-प्रश्वासमें—आर्नि, ब्राइयो, कास्टि, नेट्रम-म्यू ।

" " " फैलता है, पीठतक—कोना, केलि-का, केलि-आ ।

" " " " कन्धेमें—केलि-आ ।

" " स्तनमें—एपिस, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कोना, केलि-कार्ब, लाइको, फास, फाइटो, पल्स, सिके, सिनि, साइलि ।

" " " दाहिने—सैंगु ।

" " " बाएं—बोरा, केलि-नाई, लैके, लिलि-टिग ।

" " " " दाहिना स्तन पिलानेके समय बच्चेको—सोरि ।

" " " रातमें—कोना, ग्रैफा ।

" " " दुग्ध-स्राव होनेपर—केलि-कार्ब ।

" " " दूध पिलाते समय बच्चेको—कैल्के, साइलि ।

" " " स्तनवृन्तमें—बार्बे, बोरा, कैम्फ, कोना, केलि-कार्ब लाइको, साइलि, सल्फ ।

" " " " दाहिने—बोरा, चेलिडो, कोना, ग्रैटि, सैङ्गु, जिङ्क ।

" " " " बाए—वैप्टो, बार्बे, फार्मि, रैना-ब, रास-टक्स, साइलि ।

" " हृत्पिण्डमें—ऐब्रो, ऐकोन, ऐनाका, एपिस, आर्निका, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैम्फ, कास्टि, कोलचि, कूप्रम, ग्लोनो, हैमा, हिपर, केलि-कार्ब, कैल्मि, क्रियो, लैके, लोरो, लाइको, म्यू-ऐ, नेजा, पल्स, रास-टक्स, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, जिङ्क ।

दर्द, सुई वेधनेकी तरह, हृत्पिण्ड, प्रदेश (Region of)—ऐकोन, ऐना-क्राड,
आर्निका, वेल, व्राइयो, कार्बि, कोल्चि, चेलिडो, क्रिमि,
कोलोसि, जेल्स, केलि-कार्ब, रैना-सि, साइलि,
सल्फ।

" " " जलनभरा—म्यू-ऐ।
" " " टहलते रहनेपर—केलि-आ, साइलि।
" " " श्वास प्रश्वासमें—स्टेफि।
" " " घटना दबा रखनेपर हाथसे—पल्स।
" " " बढ़ना-साँस लेनेपर, गहरी—ऐको, केल्के, म्यू-ऐ, सल्फ।
" " " " हिलने डोलनेपर—आरम-म्यू, कैमो, स्पाइजि।
" " " फैलता है पीठतक—ऐनाक्रा, ग्लोनो, केलि-कार्ब।
" " " " पृष्ठ-फलकास्थिमें (Scapulæ)—केलि-कार्ब,
सल्फ।

दाग, चकत्ते (Spots)—आर्स, बेल, सिनेबा, क्रोटे-हो, लैके, लिडम,
मैग-का, फास, सिपि, सल्फ।

" बादामी रङ्गका (Brown)—कार्बो वे, लाइको, फास।
" रक्त जमना—लैके, फास, सल्फ-ऐ।
" तिल (Frickles)—नाइ-ऐ।
" विचित्र—क्रोटे-हो, लैके।
" पीला—आर्स, कार्बो-वेज, फास, सिपि, सल्फ।

दुर्बलता (Weakness)—आर्स, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, कार्बो-वेज, डिजि,
डिपर, केलि कार्ब, काम ऐ, फास, प्लेटि, सोरि, रैना-सि,
सेनै, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ ऐ, सल्फ, थूजा।

" सवेरे जागनेपर—डिजि, कार्बो-वेज।
" नाड़ीकी कमजोरी—नाइ ऐ फास ऐ, सोरि, स्टैनम।
" साँस नहीं चलता—स्टैनम।
" खुली हवामें—रास टक्स।
" जागनेपर—कार्बो-वेज।

दुर्बलता, टहलते रहनेपर—लाइसि।

„ परिश्रमके बाद—ऐलो, स्पंजि।

„ बोलनेके बाद—कैल्क, फास-ऐ, रास-टक्स, **स्टैनम**, सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ „ चिल्लाकर—कैल्क, पल्स, लोरो, सल्फ।

„ बोलनेमें बाधा देता है—कैल्क, डिजि, हिपर, फास-ऐ, रास-टक्स, सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ श्लेष्मा निकालने बाद—**स्टैनम**।

„ श्वास-प्रश्वाससे, गभीर—कार्बो-वेज, प्लेटि।

„ सोनेपर, करवट बदलकर—सल्फ।

„ हृत्पिण्डके पास—आरस, मार्क, **नेजा**, रास-टक्स, सैंगु।

दूध, अभाव (Absent)—ऐग्न, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैल्क, काफि, फार्मि, इग्ने, लैक-के, लैक-डि, मिलि, नक्स-वोम, फास, पल्स, साइलि, स्पाइ, सल्फ।

„ „ गर्भ न रहनेके समय (During non-pregnancy)—आर्स, ऐसाफि, बेल, साइक्ला, लाइको, मार्क, फास, **पल्स**, रास-टक्स।

„ खराब (बिगड़ा) बोरे, **कैमो**, मार्क।

„ गाढ़ा और बेस्वाद—बोरै, कैलि-बा, फाइटो।

„ गिरा करता है—बेल, बोरे, ब्राइयो, **कैल्क**, कोना, आइयो, कैलि-आ, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि।

„ तीता—रियुम।

„ पतला—कैल्क-फास, कार्बो-ऐनि, कैमो, लेके, मार्क, नक्स-वोम, साइलि।

„ „ पानीकी तरह—कैल्क, आइयो, प्लम्ब, पल्स।

„ „ „ और नीला—ऐमे-ऐ, कैल्क, लेके।

„ „ „ और नमकीन—कार्बो-ऐनि।

„ बन्द हो जाना (Suppressed)—ऐग्न, **ब्राइयो**, कैल्क, कार्बो-वेज, **चायना**, कैमो, हाइयो, लैके, मार्क, **पल्स**, रास-टक्स, सिके, साइलि, सल्फ।

दूध-बढना—ऐकोन, बेल, बोरे, ब्राइयो, कैल्के, चायना, कोना, आइयो, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स ।

» रक्तके साथ—कैमो, लाइको, मार्क, सिपि, सल्फ ।

» सडे मक्खनकी तरह—ओरे, कैमो, फाइटो ।

» सूख जाना (Disappearing)—ऐग्न, आर्नि, ऐसाफि, आइयो, कैल्के, कैम्फ, कास्टि, डाल्का, लैक-कै, प्लेण्टे, प्लम्ब फास, रास-टक्स, सिके, सल्फ, आस्टि, विरे-वि, जिङ्क ।

» » मस्तिष्ककी बीमारीकी वजहसे—ऐगा ।

» » सर्दी लगकर—डाल्का, पल्स ।

धक्का (Shocks)—ऐलूमि, ऐग्रु, ऐण्टिम-टार्ट, आर्नि, कैल्के, कैना भे क्लिमे, कोना, क्रोका, डाल्का, ग्रैफा, हिपर लाइको, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, ओलि-ऐनि, प्लेटि, रास-टक्स, रूटा, सिके, सिपि, सल्फ, जिङ्क ।

» खाँसीके साथ—लाइको ।

» हृत्पिण्ड प्रदेशमें (Cardiac region)—ऐगा, ऐलूमि, कैल्के, कोना ग्रैफा, लैके, लिथि, मैगे, फाइटो, जिङ्क ।

धडकना अधिक हृत्पिण्डका (Palpitation)—ऐकोन, ऐलूमि, ऐम्ब्रा ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐमिल-नाइ, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका, आर्स, ऐसाफि, औरम, औरम म्यूर, बेडि, बैरा-कार्ब, बैरा म्यूर, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैम्फे-ब्रा कैल्के-फास, कैम्फ कैन्थार, कैप्सि कार्बो-ऐनि कार्बो वेज, कास्टि, सीड्र कैमो, चेलिडो, चायना, चिनि-सा, कौलचि, कानिम्रो कोना क्रोटे टीग, कुप्रम, डाल्का डिजि, डाय, इलैप्स, इयुपे प, फेरम [illegible], ग्लोनो, [illegible] गुयाके, हिपर, हाइड्रो [illegible], इग्ने, आइयो, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] लाइको, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], मैग्ना, मेड्का-कार्ब, मेड्का-

स्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओकजा-ऐ, ओलि-ऐ, फास-ऐ, फास, प्लेटि, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिके, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पंजि, स्ट्रेमो, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैबे, थूजा, विरे, विरे-वि, वायो-ट्रि।

धड़कना, अधिक हृत्पिण्डका, सवेरे—कार्बो-ऐनि, कैलमि, लाइकोपो, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सैबा, स्पाइजि, सल्फ, थुजा।

„ „ बिछावनपर—इग्ने, कैलि-कार्ब, रास-टक्स।

„ तीसरे पहर—लाइको।

„ सन्ध्यामें—ऐगा, कैक्ट, कार्बो-ऐनि, कास्टि, डिजि, हिपर, कैलमि, लाइको, मैग्नि, नेट्रम-म्यूर, फास, सल्फ।

„ „ सोनेपर—कार्बो-वेज, कैल्के।

„ „ शय्यामें—आर्जेण्ट-नाई, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, सिपि, सल्फ।

„ „ सोनेपर, बाईं करवट—ब्रोमि।

„ रात्रिमें—आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, अरम, बेञ्जो ऐ, कैक्ट, कैल्कि, डालका, लाइको, मार्क, ओकजा-ऐ, फास, पल्स, साइलि, टैबे, विरे।

„ „ जागनेपर—बेञ्जो ऐ, कैलि-बाई, फास, स्पञ्जि, जिङ्क।

„ „ बिचली रातमें—बैडि, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, स्पंजि।

„ „ नीदमें बाधा देता है—सल्फ।

„ „ पार्श्व (करवट) बदलनेपर बिछावनमें—लाइको, सल्फ।

„ „ बिछावनपर—कैक्ट, ओकजा-ऐ, पल्स, सल्फ।

„ „ सोनेपर चित होकर—ऐसाफि।

„ „ „ करवट होकर— नेट्रम-कार्ब, फास।

„ „ „ „ बायें—कैक्ट, डिजि, नेट्रम-कार्ब, फास, पल्स।

„ आनन्द बहुत अधिकके बाद—बैडि, काफि, पल्स।

„ उत्तेजनाके बाद (After emotional excitement)—आर्जेण्ट-

नाई, ऐसाफि, अरम, कैक्ट, चिमा, काकि, [illegible]
छोर, डिजि, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पोडो, [illegible]
धड़कना, उत्तेजनाके बाद, एकाएक—कैक्ट लैके, नक्स-वोम।

„ उद्वेगके साथ (With anxiety)—ऐकोन, ऐमोन-[illegible]
आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, अरम, [illegible]
व्राइयो, कैक्ट, कोल्चि, कोल्चि-फास, [illegible]
चायना, काकि, कोलचि, क्रोक, डिजि, [illegible]
हिपर, हाइयो, कैलि-कार्ब, कैल्मि, [illegible]
लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, [illegible]
ओपि, फास-ऐ, फास, प्लैटि, [illegible]
रास-टक्स, सैंगु, सिपि, स्पाइजि, [illegible]
विरे, वायो, जिङ्क।

„ उछल बैठकर—आर्स, कोल्चि, मलफर।

„ ऋतुके पहले—कैक्ट, कूप्रम, इग्ने, पाइयो, [illegible]
स्पंजि।

„ „ समय—कैक्ट, क्रोक, इग्ने, नेट्रम [illegible]
माइनि, म्याड, मल्फ, टैबे।

„ „ बाद—नेट्रम-म्यूर।

„ „ रुककर (Suppression)—[illegible]
लाइको, पल्स।

„ कम्पनके साथ—[illegible], कैल्के, सिपि, [illegible]

„ करवट बदलनेपर, [illegible]—फेरम, [illegible]

„ क्रोधकी अवस्था—[illegible], सिपि [illegible]।

„ [illegible] (हृत्पिण्ड रोग) [illegible]

„ [illegible]—[illegible]

„ [illegible] समय—[illegible], कैल्के, [illegible]

„ [illegible]—[illegible], सिपि [illegible]

„ [illegible]—[illegible]

धड़कना, चढ़नेमें सीढ़ी—**आर्स**, अरम-म्यू र, कैक्ट, **कैल्के**, कोकस, लाइको, लाइकोपो, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, पल्स, **सल्फ**, थूजा ।

„ चिन्तामें रोगकी—आर्ज-ना, अरम-म्यू, बैरा-कार्ब, जेल्स ।

„ ज्वरावस्थामें—ऐकोन, बैरा-कार्ब, कैल्के, काफि, क्रोटे-ही, मार्क, पल्स, सिपि, सार्सा, सल्फ ।

„ डरकर—नेट्रम-म्यू, ओपि, पल्स, स्ट्रैमो ।

„ दवा रखनेपर मानसिक उद्वेग—**स्पाइजि** ।

„ दिखाई देता है (Visible)—आर्स, कार्बो-वेज, केलि्म, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ, वेरे ।

„ दुःख शोककी वजहसे—डिजि, ओपि ।

„ धूम्रपानसे—नक्स-वोम, थूजा ।

„ नींद खुलनेपर—ऐलूमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, लैके, नेजा, नेट्रम-म्यू र, **फास**, सिपि, स्पञ्जि ।

„ „ स्वप्न देखकर चौंक उठता है—डिजि, रास-टक्स, सल्फ ।

„ „ एकाएक—कैलि-बा, मार्क ।

„ नींद लगनेके समय—कैल्के, कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यू र, सल्फ ।

„ नींदवाली अवस्थामें—कैल्के, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, सल्फ ।

„ नींदमें बाधा देता है—कैल्के, डिजि, नेट्रम-म्यू ।

„ परिश्रमसे—आर्ज-ना, कैक्ट, आइयो, पोडो, पल्स, रास-टक्स ।

„ प्रचण्ड (Violent, tumultuous)—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐमिल-ना, ऐङ्ग, एपिस, **आर्ज-ना**, अरम, चायना, **डिजि**, आइयो, कैलमि, लैके, लाइको, **नेट्रम-म्यू**, नक्स-म, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स **सिपि**, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, टेरे, वेरे ।

„ पाखाना फिरनेके समय—ऐण्टिम-टार्ट, सल्फ ।

„ „ „ बाद—**आर्स**, **काना** ।

„ बैठे रहनेपर—ऐङ्ग, ऐस्रा, कार्बो-वेज, कोलचि, फेरम, लैके, मैग-म्य, रास-टक्स, साइलि, स्पाइजि ।

„ बोलनेपर—नेजा, पर्ल्स, प्लैटि ।

धड़कना, बोल नहीं सकता—नैजा।

„ भोजनके बाद—ऐकोन, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, इग्ने, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, साइलि, थूजा।

„ भ्रमणके समय—ऐपो, आरम-म्यू, बैक्ट, कैलि-ना, नैजा, सिपि, स्टैफि।

„ „ खुली हवामें—चेलि, लाइको, नक्स-वोम, सिपि, सल्फ।

„ „ तेज—आरम-म्यू, नेट्रम-म्यू, फास, फास-ए, पल्स, सिपि।

„ „ धीरे—नाइट्रि-ए।

„ मृगी रोगके पहले—आर्स, कैल्के, लाइसम, लैके।

„ रक्तस्रावके साथ, नाकसे—ग्रैफा।

„ वय:सन्धिके समय—(Climacteric Period)—लैके, टैबे, क्रोटे-ह्री।

„ शराब पीनेकी वजहसे—नक्स-वोम।

„ शयनावस्थामें—बेल्लो-ए, कैक्ट, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास्फा-ए, पल्स, सल्फ।

„ „ चित होकर—आर्जे-नाइट, आर्स, कैक्ट, लैके, कैलि ना।

„ „ करवट होकर—लिलि-टिग, नेट्रम कार्ब, फास, पल्स।

„ „ „ बाएं—कैक्ट, फेरम्मि, लैके, लिलि टिग, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फास, सोरि, पल्स, टैब।

„ सुन पड़ता है (Audible)—आर्स, चैन, कैल्के, ग्रैफ, डिजि, स्पाइजी, स्पाइजि, थूजा।

„ सुन होनेके साथ, बाएं हाथका—ग्रैफ।

„ स्वप्न देखकर—सार्स, सल्फ।

„ स्त्री-मैथुनके बाद—डिजि, फेरम, फास ए।

„ हिस्टीरिया वाले रोगीका (Hysterical subjects)—मिग्नो, नैजा, मस्क, नेट्रम म्यूर, मस्क स।

„ हिचकी होनेपर—एसिड कार्ब, ..., ऐमोन-कै, कार्बो वेज [illegible]

काकि, कोना, डिजि, ग्रैफा, हाइयो, नेट्रम-म्यूर, फास, सोरि, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ।

धड़कना, हिलने डोलनेपर, सामान्य-जरा भी—कार्बो-वेज, मार्क, फास।

" घटना, सवेरे—कैलि-कार्ब।

" " रातमें, उठ बैठनेपर—ऐसाफि।

" " " भ्रमणसे, खुली हवामें—आर्ज-ना।

" " डकार आनेपर—नेट्रम-म्यू, कार्बो-वेज।

" " दबा रखनेपर हाथसे—आर्ज-ना।

" " दीर्घ-श्वास लेनेपर—आर्जेण्ट-मेट।

" घटना-नहानेपर-ठण्डे पानीसे—आइयो।

" " भ्रमणसे—आर्ज-ना, मैग-म्यू, नक्स-म।

" " " जल्दी जल्दी—सिपि, आर्ज-ना।

" " " धीरे धीरे—फेरम, पल्स।

" " सोनेपर—आर्ज-ना, लैके।

" " " करवट होकर दाहिनी—लैके, फास, सोरि, टैबे।

" " " " बाएँ—आर्जेना, चिनि-स।

" " " चित होकर—कैल्मि, लिलि-टिग।

" " हिलने डोलनेपर—आर्ज-ना, मैग म्यू, ग्लोनो।

" बढ़ना-हिलाने डोलानेपर, बाह—ऐकोन, डिजि, नैजा, पल्स, रास-टक्स, स्पाइजि, सल्फ।

" " सोनेपर, करवट, दाहिनी—ऐलूमि, आर्ज-ना, लिलि-टिग।

नासूर (Fistulous opening)-स्तनमें—कार्स्टि, हिपर, मार्क, फास, फाइटो, साइलि।

" बगलमें—कैल्के।

पक्षाघात (Paralysis)-वक्षोदर मध्यस्थ पेशीका—बेल, कैक्ट, सिमि, क्यूप्रम, मस्क, रास-टक्स, मेजि, साइलि।

" फेफड़ेका (Lungs)—ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, बेरा-कार्ब, कैल्के, कार्बो-वेज, क्यूप्रम, जेल्स, लैके, लोरो, लाइको, मस्क, फास, स्ट्रैनम।

पीव सञ्चय, नया—चायना, डालका, फेरम, क्रियो, लोरो, सोरि, सल्फ।

„ बगलकी ग्रन्थियोंमें (Axillary glands)—"फोड़ा" देखिये।

„ स्तनमें (Mammæ)—**हिपर**, लैके, मार्क, फास, **फाइटो, साइलि**, सल्फ, टेरे।

„ „ घुण्डीमें—कैक, कैमो, मार्क, साइलि।

पूर्णता मालूम होना (Fullness)—**ऐकोन**, आइलैन्थ, **एपिस**, आर्स, ऐसाफि, ऐग्न, कैक, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, सिस्टा, काफि, क्रोटन-टिग, क्यूबे, फेरम, फेरम-फास, जेल्स, ग्लोनो, हाइड्रो, केलि-वाई, **लैकी**, लोबे, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ सवेरे—लाइको, सल्फ।

„ सन्ध्यामें—कार्बो-वेज, **पल्स**, सल्फ।

„ „ ऋतुके पहले—ब्रोमि, सल्फ।

„ खानेके बाद—ऐण्टिम-क्रूड, कैप्सि, लाइको।

„ घटना, श्लेष्मा निकलनेपर—आइलैन्थ।

„ स्तनमें—बेल, ब्राइयो, केल्के-फास, डाल, कैलि-कार्ब, लेक-कै, मार्क, नक्स-वोम, फाइटो, सिपि।

„ „ ऋतुके समय—कोना।

„ हृत्पिण्डमें—ऐकोन, ऐसाफि, सेक्रि, ग्लोनो, **लैकी**, लिलि-टिग, सल्फ।

„ „ सन्ध्यामें—**पल्स**।

प्रदाह (Inflammation)-वायुनालीमें (Bronchial tubes, Bronchitis) —ऐसे-ऐ, ऐकोन, **इस्कि**, ऐलि-सि, ऐल्यूमि, ऐल्यू, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टि-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट**, एपिस, आर्निका, **आर्स**, ऐस्लि-टिग, अरम-म्यूर, **बैरा-म्यूर**, बेल, बेञ्जो-ऐ, **ब्राइयो**, कैक, कैल्के, कैम्फ, केना-सै, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **ड्रोसे**, डाल, **फेरम-फास**, जेल्स, गुये, **हिपर**, आइयो, **इपि**, कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, क्रियो, लैके, **लाइको**, मार्क, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स,

प्रदाह, प्रसूताका, दाहिने—ब्रोरा।

„ „ बाएं—कैलि-भा।

„ „ उपेक्षित (Neglected cases)—श्रार्स, आर्स-आइ, कैल्के, कैम्फ, चायना, हिपर, आइयो, लेके, लाइको, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ क्षयकास-ग्रस्त रोगियोंका (Pthisical patients)—आर्जेण्ट-नाइ, कैल्के।

„ „ वातसे उत्पन्न—ऐण्टि-टार्ट, आर्निका, ब्राइयो, डल्का, सल्फ।

„ „ वृद्ध मनुष्योंका—नाइट्रि-ऐ।

„ स्तनका—ऐकोन, एपिस, बेल, ब्राइयो, कैक्ट कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, सिस्टा, कोना, हिपर, लेके, लाइको, मार्क, फास, फाइटो, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ „ घुण्डीका—आर्निका, कैल्मि, कैमो, फास, साइलि, सल्फ।

„ „ चोट लगकर—आर्निका।

प्रसारण (फैलना Dilation) -हृत्पिण्डका—ऐलूमि, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, कैक्ट, हाइड्रो-ऐ, आइयो, केलि-का, लैके, लोबी, लाइको, नेजा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास पल्स।

„ फेफड़ेका (Emphysema)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, ब्रोमि कैम्फ कार्बो-वेज, क्लोर, ड्रिमि ड्रोसे हिपर, इपि, लैके, लोबि, मार्क, नेट्रम म्यूर, फिस्मा, फास, सल्फ।

फट जाना, स्तनकी घुण्डी (Crack nipples)—आर्निका, कैष्ट, कास्टि, फ्लू ऐ, ग्रैफा, हाइड्रो लाइको मार्क-कोर, सिपि, फाइटो, रैटा, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ दर्द भरा—ग्रैफा, फाइटो।

„ (Swelling)-स्तनमें पथरीली सूजन (Swelling [illegible])—[illegible] बेरा-कार्ब, [illegible], कार्बो-ऐनि [illegible] [illegible], हिपर, आइयो [illegible] लैकि, लाइको, मार्क, मार्क-कार, [illegible]

प्रदाह, फेफड़ेमें, दाहिने—ब्राइयो, ब्रोमि, कार्बो-ऐनि, चेलिडो, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क।

„ „ „ निम्नाशमें—कैलि-कार्ब, मार्क।

„ „ बाएं—कैल्के, लैके, नेट्रम-स, आक्जा-ऐ, फास, सल्फ, सैङ्गु।

„ „ „ निम्नाशमें—चेलि, सल्फ, नेट्रम-स।

„ „ उपेक्षित (Neglected)—लाइको, फास, सिपि, **सल्फ**, **साइलि**।

„ „ टाइफायड ज्वरमें—**ऐण्टिम-टार्ट**, बैडि, बेञ्जो-ऐ, **ब्राइयो**, ह्याइयो, लोरो, **लाइको**, **फास**, रास-टक्स, सैङ्गु, **सल्फ**, टैरि।

„ „ प्लुरो न्यूमोनिया (Pleuro-pneumonia)—**ऐण्टिम-टार्ट**, ऐसाफि, **ब्राइयो**, कैल्के, कैम्फ, कैप्सि, चायना, डालका, फेरम, हिपर, आइयो, कैलि-आ, लैके, **फास**, रास-टक्स।

„ „ बच्चोंका—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, ब्राइयो, फेरम-फास, **इपि**, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नक्स वोम, फास।

„ „ वृद्ध मनुष्योंका—ब्राइयो, डिजि, फेरम, ह्याइयो, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, सेने।

„ „ शराबियोंका—हाइयो, कैलि-ब्रोम, नक्स-वोम, ओपि।

„ „ साइकोटिक न्यूमोनियासे (साइकोटिक न्यूमोनिया)—नेट्रम-सल्फ।

„ „ स्नायविक रोगियोंका (Nervous patients)—ऐण्टिम-टार्ट, ब्राइयो, चायना, लाइको, फास, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

„ „ खसरा (छोटी माता) के बाद—कैलि-कार्ब।

„ „ „ दहिने सोनेपर—कैलि-कार्ब।

„ प्लुराका (Pleura) (Pleurisy)—**ऐकोन**, एपिस, आर्निका, आर्स, आर्जेण्ट-नाई, बोरा, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैल्के, कैना-से, कैन्थ, कार्बो-वेज, कोल्चि, डिजि, डाल, फेरम-फास, हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आइ, लोरो, मार्क, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास, रैना-ब, सैङ्गु, सेने, स्कुइ, स्टैनम, **सल्फ**।

डिजि, फेरम, गैम्बो, इग्ने, आइयो, कोलि-वा, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लिलि-टिग, मैग-म्यू, नेट्रम-कार्ब, निको, नक्स-म, नक्स-वीम, ओपि, फास, प्रूण-स्पा, सोरि, रास-टक्स, सँगु, स्पिञ्जि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ।

भार मालूम होना, खांसनेके समय—ऐमोन कार्ब, कैलि-का, सोरि, स्टैनम, सल्फ।

» सोनेपर—बेरा कार्ब।

» स्तनमें—बैल, ब्राइयो, आइयो।

» हृत्पिण्ड प्रदेशमें (Region of heart)—कैक्ट, आइयो, लिलि-टिग, फास, पल्स, स्पाइजि।

मखमलकी तरह अनुभव, वक्षमें—ऐगिरम-टार्ट।

मेदापजनन (Fatty degeneration) हृत्पिण्डका—आर्नि, आर्स, औरम, औरम-म्यू, कैक्ट, कैल्के, क्रोटे हो, फेरम, कैलि कार्ब, कैल्मि, नेजा, फास, फाइटो।

रक्त-स्राव (Hemorrhage) [रोगा देखिये]—ऐकानि, ऐमो ऐ, ऐकोन, ऐलूमि, ऐण्टि टार्ट, ऐपो, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, बेथ, कैल्के, कार्ड-मे, चायना, कक्कु, कोनचि, क्रोटे, क्रोकस, फेरम, फेरम ऐ, हैमा, हाइयो, इपि, कैलि कार्ब, कैलि क्रो, लेडम पा, क्रियो, लैके, लेडम, मिलि, नेट्रम ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स म, नक्स वो, फास-ऐ, पल्स, रास टक्स सेकालि, थार्टि गु।

» ऋतुका रक्त स्राव बन्द होकर—कार्बो वेज, लेडम नाइट्रो नक्स मास, फास, सल्फ।

» प्रसव स्राव बन्द हो जाने बाद—(After suppr[illegible])—[illegible], आर्स, बेल ब्राइयो फेरम, हैमा मिलि, फास पल्स, सल्फ।

» घाव फास-यक्ष्मा रोगीका (P[illegible])—[illegible] आर्नि, आर्स, फेरो, चायना, ड्रोसि फेरम, लैके लिडि फास लिडि, [illegible], सल्फ-ऐ सल्फ।

» जमा हुआ (Coagulated)—आर्नि बेल फेरो, हाइड्रा कोकस

कार्ब, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ,** फास, फाइटो, रास-टक्स, सिपि, **साइलि,** स्टैफि, सल्फ।

प्रदाह, स्तनमें (Mammæ)—(Mastitis)—ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कैमो, क्रोटन-टिग, क्लिमे, कोना, कूप्रम, डाल, हेलो, हिपर, लेके, मार्क, वेल, फाइटो, **पल्स,** रास-टक्स, **साइलि,** सल्फ, जिङ्क।

„ „ घुण्डीमें—कैमो, लेके, लाइको, मार्क-कोर।

„ „ गर्म, उसके साथ ही—वेल, ब्राइयो, कैल्के, मार्क, फास।

„ „ ऋतुके पहले—कैल्के, कोनायम, केलि-कार्ब, लेक-कै।

„ „ „ समय—कोना, डालका, हेलो, लैक-कै, थूजा।

„ „ जखमके चिन्हकी जगहपर (Cicatrix)—ग्रैफा, फाइटो, साइलि।

„ „ दुग्ध-स्रावके साथ—ऐसाफि, साइक्ला।

फोड़ा (Abscess)—"पीव सञ्चय" देखिये।

„ बगलमें—एपिस, आर्स, वेल, कैल्के, क्रोटे-होर, **हिपर, मार्क,** मार्क-आ-रू, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ,** रास-टक्स, सिपि, **साइलि,** सल्फ, थूजा।

„ फेफड़ेमें—**कैल्के,** क्रोटे-होर, **हिपर,** केलि-कार्ब, मैङ्ग, सिपि, **साइलि,** सल्फ।

„ „ बाएँ—कैल्के।

„ स्तनमें—एपिस, वेल, ब्राइयो, कैम्फ, क्रोटे-होर, ग्रैफा, हिपर, लैके, मार्क, फास, **फाइटो, साइलि, सल्फ।**

बन्द हो गया है, मानो, हृत्पिण्ड—आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाइ, अरम, कैक्ट, सिफि, लिलि-टिग, रूमे, सिपि।

बन्द हो जायगा, हृत्पिण्ड मानो ऐसा मालूम होना (Sensation as if heart would cease)—अरम, **लोवि,** ओनस।

„ हृत्पिण्ड, ऐसा भय, लगातार हिलते डोलते न रहनेपर—जेलस।

„ „ हिलने डोलनेपर—डिजि, कोकै।

भार मालूम होना (Heaviness)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐण्टि-टा, आर्नि, आर्स, **अरम,** कार्लस, कैमो, चिनि-स, क्लिमे, काफि,

आइरि, ब्रायो, कोलि-कार्ब, कोलिन्स, लैके, लिथि, लाइको, नैजा, नेट्रम-म्यूर, फास, पल्स, राम-टक्स, स्पाइजि, स्पंजि ।

विवृद्धि, स्तनकी—कोना, फाइटो ।

विसर्प (Erysipelas) स्तनमें—एपिस, कार्बो एनि, कार्बो वेज, वेलो, ग्रैफा, फ्लैगले, सल्फ ।

शीत मालूम होना, भीतर (Chilliness)—ब्रायो, नेट्रम कार्ब, ऐलुमि, आर्स, पैरि, रैना-ब ।

„ सन्ध्यामें—आर्स ।

शुष्क हो जाता है (Atrophied) स्तन—कोना, आइयो, कोलि आयो, क्रियो, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, प्लम्ब, सार्सा ।

„ स्तनकी घुण्डी—सार्सा ।

शोथ (Dropsy)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, ऐपो, आर्स, ऐसाफि, ऐस्पा, ऑरम-म्यू, ब्रायो, कार्बो वेज, क्रोट-हो, डिजि, डाल, पल्-ऐ, हेलि, कोलि-कार्ब, कोलि-आइ, लैके, लाइको, मार्क, मार्क-सोल, नेट्रम म्यूर, मोरि, रैना ब, मेगु, सेनि, साइलि, स्पाइ, स्कुई, सल्फ, टेरि ।

„ हो सकता है, रोगवाली करवट लेटन—आर्स ।

„ फेफड़ेका (Oedema of lungs)—ऐमोन कार्ब, ऐण्टिम टार्ट, एपिस, आर्स, कार्बो-वेज डिजि, इपि, ब्रायो कोलि आइ, कोलि [illegible], फास, लैके, लाइको, मार्क सोल, नेट्र म्यूर, फास, सल्फ ।

सड़ना (Gangrene) फेफड़ेका—आर्स, कार्बो वि, कार्बो एनि कार्बो वेज, चायना, क्रोट होर, क्रियो लैके मास्कि, फॉस्फो, फास, प्लम्ब सल्फ ऐ, सिके, टेरे ।

संकुचन, सिकुड़ जाना, सटक जाना स्तनकी चूचुकी ([illegible])—कार्बो एनि [illegible], सार्सा, साइलि ।

कड़ोपन-पीलन मालूम होना, सट आना, [illegible] (Constriction, tension [illegible])—[illegible] [illegible] ऐण्टि टा, ऐलुमि [illegible], [illegible] आर्स, [illegible]

फेरम, हाइयो, इपि, मार्क, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, फास-ए, पल्स, रास-टक्स, सैबा।

रक्त-स्राव, परिश्रमके बाद, बहुत अधिक—ऐकोन, आर्नि, फेरम, पल्स, रास-टक्स।

„ फेन फेन—आर्निका, फेरम, इपि, लेडम, मिलि, फास-ए, फास, साइलि।

„ सूतिकागृहवाली औरतोंका (Lying in women)—ऐकोन, आर्नि, चायना, इपि, पल्स, सल्फ।

रक्ताधिक्य (Congestion)—**ऐकोन**, ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्नि, अरम, बेल, **ब्राइयो**, **कैक्ट**, कैल्के, **कैम्फ**, कार्बो-वेज, चायना, क्रूप्रम, **डिजि**, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइयो, **इपि**, केलि-कार्ब, **लैके**, लाइकी, मार्क, मिलि, नाइट्रि-ए, **नक्स-वोम**, ओपि, **फास**, पल्स, **रास-टक्स**, सेने, **सिपि**, साइलि, स्पजि, **सल्फ**, **टैरि**, थूजा, विरे-वि।

„ रातमें—फेरम, पल्स।

„ गर्भावस्थामें—ग्लोनो, नेट्रम-म्यू, सिपि।

„ जरायुसे रक्तस्रावके बाद—**अरम-म्यू**, चायना।

„ जागनेपर—**लैके**।

रक्ताधिक्य—दुर्बलता और मिचलीके साथ—स्पञ्जि।

„ परिश्रमके बाद—स्पञ्जि।

„ वय सन्धिके समय—आर्ज-नाई, लैके।

„ सो नहीं सकता—कैक्ट।

„ क्षय कास ग्रस्त रोगीका—फेरम-फास।

„ हृत्पिण्डमें—ऐकोन, ऐसाफि, नक्स म, पल्स, सल्फ।

„ „ रातमें—पल्स।

„ „ ऋतुके बाद—इग्ने।

विवृद्धि (Hypertrophy)-हृत्पिण्डका—**ऐकोन**, एपिस, आर्निका, आर्स, अरम, अरम-म्यूर, ब्रोमि, **कैक्ट**, डिजि, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर,

सङ्कोचन, परिश्रमकी वजहसे—आर्स, फेरम, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम।
" " शारीरिक—कैल्के।
" बन्धनीसे मानो (As from a band)—ऐकोन, ऐमिन-नाइ आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, ब्रायो, कैक्ट, लोबे, लाइको फास, माइलि।
" बोलनेके बाद—हिपर।
" शीतावस्थामें—आर्स, साई, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम।
" श्वास प्रश्वासमें, गहरी—कार्बो, मिकि, कैलि-नाइ, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम पल्स, स्टिक्टा सल्फ।
" सोनेके समय—लैके, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।
" हस्तमैथुनके बाद—ओना।
" घटना-गरमीसे बिछावनकी—फास।
" " टहलते रहनेपर—फेरम।
" " " खुली हवामें—ऐलूमि, चेलिडो, क्रोमि, पल्स।
" " पसीनेसे—सल्फ।
" " सोनेपर—कैल्के, फास।
" बढ़ना-हिलने डोलनेपर—ऐगा, ऐंगु, आर्स, लाइको, नक्स वोम।
" " सोनेपर-दाहिनी करवट—लाइकोप।
" " " स्थिर होकर—कैपि।
" " स्पर्शमे—आर्निका, फासस।
" निम्न प्रदेशमें—कोबट, क्रोमे जेल्स, ऐमा, नक्स मोस, पल्स रैना व स्पाई।
" पार्श्व प्रदेशमें—एकोन, बेल, कोलचि, कैलि नाई, सिलि टिन माइरि, नाइट्रि ए, प्रैटि, पल्स।
" पसलियोंमें—एकोन, रैना बे, मोर्ज, म्यू-ए, नक्स मस, फास, रास टक्स सल्फ।
" " साँस लेनेपर—फास।
" " हिलने डोलनेपर—फैपर।
" स्तनों—सिलि टिन स्पैंजी फिर।
" " धाएँ, ब्रके[illegible]मा धाम

ऐसाफि, अरम, अरम-म्यू, बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, बोरे, ब्रोमि, **ब्राइयो, कोक्क,** कैड्मि, कैल्को, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, **कार्बो-वेज, कास्टि,** कैमो, **चेलिडो,** क्लोरा, सिकि, साइ, काकि, कक्क, कोलचि, कोलोसि, कोना, क्रोटन-टिग, कूप्रम, डिजि, ड्रोसे, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, **ग्रैफा,** हेलि, हिपर, हाइयो, हाइपे, **इग्ने,** आइयो, इपि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लो, **लैके,** लैक्टि ऐ, लोरो, लेडम, **लोवे, लाइको,** लाइकोप, मैग-म्यूर, मैग-फास, मैन्ग्नि, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास,** पल्स, रोडो, रास-टक्स, सेने, सिलि, स्पाइजि, स्पन्जि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे, **वेरे** ।

सङ्कोचन, सबेरे—आर्ज-नाइ, कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यूर, पल्स ।

„ सन्ध्यामें—आर्स, पल्स, रास-टक्स, स्टैनम, सल्फ ।

„ रातमें—फेरम, मेजे, पल्स, स्ट्रैमो ।

„ आक्षेपिक—ऐसाफि, अरम, कूप्रम, इग्ने, कैलि-कार्ब, ओपि, फास, स्पाइजि ।

„ खानेके बाद—आर्नि, कार्बो-ऐनि, कूप्रम, हिपर, पल्स ।

„ खींचनके साथ—**ऐसाफि, बेल** ।

„ खाँसनेके समय—कोना, फार्मि, हेलि, मैग-फास, आइरि, **फास,** पल्स, सल्फ ।

„ चढ़नेमें ऊँचे—**आर्स** ।

„ जल सञ्चयके साथ वक्षमें (In hydrothorax)—एपिस, ऐपो, कोलचि, लैक्टि-ऐ, मार्क, सोरि, स्पाइजि, स्टैनम ।

„ जागनेपर—**लैके,** लैक्टि-ऐ ।

„ टहलते रहनेपर—ऐना-का, **आर्स,** डिजि, जुग्ला, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ ।

„ „ तेज—पल्स ।

„ निद्रावस्थामें—ग्रैफा, लैके ।

हाइड्रो, हाइयो, केल्मि, लैथी, लोरो, लिलि-टिग, लिथि, लोबे, लाइको-प, मस्क, **नैजा**, नेट्रम-म्यूर, ओपि, फास, **पल्स**, सेने, **स्पाइजि**, स्पञ्जि ।

हृत्पिण्डके रोगमें विविध, यान्त्रिक—**कौवट**, कैल्के, कास्टि, क्रोटे-हो, केल्मि, लैके, लाइको, **नैजा**, पल्स, रास-टक्स, सिपि, **स्पाइजि**, स्पञ्जि ।

हृत्शूल (Angina pectoris)—ऐकोन, **ऐमोन-कार्ब**, ऐमिल ना, **एपिस**, **आर्ज-नाइट्रि**, **आर्निका**, **आर्स**, **अरम**, **अरम-सूर**, **कौवट**, चेलिडो, **चिनि-आ**, **चिनि-स**, सिमि, डिजि, डाय, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि, लैके, लोरो, लाइको, मैग फास, मल्फ, **नैजा**, नक्स वोम, **आक्जा-ऐ**, **फास**, **रासटक्स**, **स्पाई**, **स्पंञ्जि**, स्ट्रैमो, वेरे ।

पृष्ठ-देश (BACK) ।

अन्तर्दाह, मेरुदण्डका (Spinal irritation)—**ऐगा**, आर्निका, ऐट्रो, बेल, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, कार्बा-ऐ, चेलिडो, घायना, **चिनि-स**, सिमि काफि, फ्रायस, डाय, ग्लोनो, **यू पा**, हिपर, कैलि कार्ब, लैके, नैजा, नेट्रम कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-मन्क नेट्रम फास, **नक्स-वोम**, ओलि ऐ, फास-ऐ, **फास**, फ्राइटो, रास टक्स, सेगु सिलि **जिङ्क**, थेरि, थूजा, **साइलि** ।

„ गर्दनमें—इग्नि ऐ गु, आर्निका, कार्बु से, **चिनि-स**, सिमि कोर्मोसि, जेल्स, ऐमा, लाइपि, मेग नेट्रम मन्क, **पेरि**, सल्फ ।

„ मध्य प्रदेशमें—ऐगा बेल, आर्नि, **चिनि-स**, सिमि कोर्मोसि फ्रायस, पेका, **फास**, मार्क्स टैरे, जिङ्क ।

„ कमरमें—चार्ज मार्ड, चेलिडो, ऐप लिलि टिग, आर्ज ऐ, पिक्रि ऐ, थूजा ।

संकोचन—हृत्पिण्डमें—माइग्नेन्य, ऐन्था, आर्निका, **आर्स, कैक्ट,** कैल्के- डिजि, इग्न, आइयो, लैके, लाइको, नैजा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म प्लम्ब, स्पाइजि, स्पञ्जि।

" " जकड़ रखनेकी तरह—**कैक्ट,** आइयो, लिलि-टिग, नक्स-म स्पाइजि।

" " " लौह-बन्धनी द्वारा—(Iron band)—**कैक्ट।**

" " " हाथसे मानो—**कैक्ट, आइयो,** नोरो।

" " " सड़सीसे मानो—लिलि-टिग, स्पाई, टैरे।

" " दुःखकी वजहसे—इग्ने।

" " मृगी-रोगके पहले—कैल्के-आ, लैके।

" " फैलता है, पीठमें—लिलि-टिग।

" " घटना, पानी पीनेपर—फास।

सर्दी (Catarrah)—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट,** ए **आर्स,** अरम-म्यूर, **वैरा-म्यूर, ब्राइयो,** कैक **डाल्का,** फिरम-फास, गुये, **हिपर,** आइयो, कै कार्ब, कैलि-क्लोर, कैलि-सल्फ, क्रियो, लैके, **मार्क,** नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नक्स-वोम** रास-टक्स, रूमे, **सेंगु,** सिनि, सेने, स्पञ्जि, र

सुड़सुड़ाना (Tingling)—ऐकोन, आर्स, पल्स स्ट्रैनम।

सुरसुरी (Tickling)—कैल्के, आइयो, लैके, रासटक्स।

सुर सुरी मालूम होना, शरीरपर चीटी चलनेकी त ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, कार्ब, चायना, रैन

" स्तनमें—कैल्के, रैना-सि।

सूजन, असम्यक, फेफड़ेकी (Atelectasis)—ऐण्टि

हृत्पिण्डके रोगमें विविध (Affections of the heart ऐकोन, ऐमोन-म्यू, आर्स, **अरम, अरम-म्यू** **कैक्ट,** कैल्के, कास्टि, सेनक्रि, क्रोटे-हो, क्यूप्रम, र

उद्भेद, फुन्सियाँ, गर्दनमें (Cervical region)—ऐगा, बार्बे, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, क्लिमे, जेल्स, कैलि-कार्ब, लाइको, पल्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ „ „ खुजलीसे भरी हुई—साइलि, स्टैफि।

„ „ „ भीगा भीगा—क्लिमे।

„ फोड़ा, छोटा छोटा (Boils)—कास्टि, कोल्चि, कोटे-पीर, ग्रैफा, कैलि-आ, लैके, फाइटो, सेनि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैरे, थूजा, जिङ्क।

„ „ गर्दनमें (Cervical region)—केल्के, ग्रैफा, हिपर, कैलि-आ, लैके, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, मोरि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ कमरमें (Lumber region)—हिपर, मोरि, रास-टक्स, थूजा।

„ हर्पिज (खसड़ा-Herpes)—ऐलि-सै, आर्स, लैके, जिङ्क।

„ गर्दनमें—आर्स, कार्बो-ऐनि, ग्रैफा, लाइको, पेट्रो, मोरि, सिपि, सल्फ।

„ हर्पिज जोस्टर (Herpes zoster)—सिस्टा, लैके, मार्क, रास टक्स।

कड़ापन (अकड़नका भाव-Stiffness)—ऐमोन-म्यूर, ऐङ्गा, एपिस, आर्स, बैरा-कार्ब, बैप्टी, बेल, बैञ्जो ऐ, बार्वे, नाइयो कैल्के-सल्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कार्ल, कास्टि, चेलिडो, सिक्कि, गुवे, हेलो, इग्ने, कैलि-कार्ब, लैके, लीडम, लाइको, मैग्नि, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो फास, प्लम्बाई पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ सवेरे—कार्बो-वेज, फाइटो, जिङ्क।

„ „ नींद टूटनेपर—लैके, लीडम।

„ रातमें—लाइको।

„ उठनेमें—ऐगा लाइको, पेट्रो।

„ „ बैठे रहनेपर—ऐगा कार्बे, बैल, कास्टि, लाइको [illegible], रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ करवट बदलनेमें बिछावनपर—सल्फ।

„ घुटनोंमें—आर्स, सिपि, [illegible]।

अन्तर्दाह, त्रिकास्थि प्रदेशमें—वार्बे, कोलचि, लोबे, रास-टक्स, सिपि, साइलि।
„ पिका चञ्चु अस्थि (Coccyx) प्रदेशमें—कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, युफ्रे, कैलि-आ, पेट्री।
अस्थिरता (Restlessness)-कमरमें—बेरा-कार्ब, सिङ्को, चिनि-सल्फ।
आक्षेप (Spasm)—केल्के फास, लैके, माइगे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फाइसो, स्ट्रैमो, सिफि।
„ स्तन पिलानेके समय—कैमो, पल्स।
उद्भेद (Eruption)—ऐल्यूमि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्नि, आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, मेजे, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ।
„ गर्दनके पिछले भागमें (Cervical region)—ऐगा, ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, बेल, कैमो, क्लिमे, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बाइ, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, सोरि, रास-टक्स, सिके, साइलि, सल्फ, थूजा।
„ एकजिमा-(अकौता-Eczema)—आर्नि, मार्क, साइलि।
„ कार्बङ्कल (दुष्ट व्रण-Carbuncle)—**ऐन्थ्राक्स**, आर्स, क्रोटे-होर, लैके, साइलि।
„ „ गर्दनमें (Cervical region)—**ऐन्थ्राक्स**, कास्टि, हिपर, **लैके**, **साइलि**, सल्फ।
„ „ पीठमें (Dorsal region)—हिपर, लैके।
„ खुजली (Itching)—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कार्बो-वेज, कैमो, लाइको, मेजे, पल्स, रास-टक्स।
„ चोइंटेकी तरह, मछलीका—आर्स-आ, मेजे।
„ जलन भरा—ऐमोन-म्यूर, सिस्टा, रास-टक्स।
„ फुन्सियां (Pimples)—ऐगा, ऐल्यूमि, आर्निका, बेल, बार्ब, कैल्के, केना-से, कैमो, चेलिडो, कोना, क्रोटे-होर, जुग्ला-रि, कैलि-कार्ब, लैके, लीडम, लाइको, मिफा, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रास-वे, सेलि, साइलि, जिङ्क।
„ „ खुजलीसे भरी फुंई—आर्जेण्ट-नाइ, कैल्के, कार्बो-ऐनि, क्रोटन-टिग, लीडम, मिलि, रास-टक्स, सेलि।

कड़ापन, भोजनके बाद—नक्स-वोम।

„ लचक आनेकी वजहसे—कोल्वि, लाइको, राम-टक्स।

„ सर्दी लगकर—आर्स, बेल, डाल्का, लैके, लाइको, नक्स-वोम, राम-टक्स, सल्फ।

„ सरमें दर्द होनेके समय—बेल, कोक्कि, ग्लोनो, ग्रेफा, इग्ने, कैल्कि-कार्ब, लैके, मैग-कार्ब, माइरि, नेट्रम कार्ब, सिपि, साइलि।

कटकटाना (एकाएक तेज आवाज निकलना—Cracking) गर्दनमें (Cervical region)—ऐगा, चेलिडो, नेट्रम-कार्ब, निको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, सल्फ।

„ कमरमें (Lumbor region)-झुकनेपर—ऐगा, राम-टक्स।

„ मेरुदण्डमें, हिलनेसे—ऐगा, कैल्कि-फाइ।

कमजोरी (Weakness)—इस्कि, आर्स, आका, कोक्कि, येल्स, युपे-पार्पि, जेल्स, ग्रेफा, लैके, म्यूरे, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, पल्स, राम टक्स, सिपि, साइलि, जिङ्क।

„ परिश्रमके बाद, मानसिक—कोक्कि।

„ „ शरीरका—लैके नेट्रम-म्यूर, साइलि।

„ घटना-घूमने फिरनेमें—आइरो।

„ „ सोनेमें—थीम्फ, नेट्रम-म्यूर।

„ बदना भोजनमें—नेट्रम-म्यूर।

„ गर्दनमें (Cervical region)—इस्कि ऐगा, [illegible] काफि, ग्लोनो, कैल्कि कार्ब, लैके पेट्रि, ग्रैफि, साइलि [illegible] [illegible], जिङ्क।

„ „ लिखनेके समय—जिङ्क।

„ „ परिश्रममें शरीर सम्बन्धी—ऐगा कैल्कि कार्ब लैके [illegible] साइलि [illegible]।

„ कमरमें (Lumbor region)—इस्कि ऐगा, [illegible] [illegible] फोस्फि, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

कड़ापन, दर्द करने वाला—**कास्टि,** हेलो, मैग्नि, नाइट्रि-ऐ, पल्स, **रास-टक्स।**

„ बैठनेके बाद—बैरा-कार्ब, बेल, फास, **रास-टक्स,** साइलि, सल्फ।

„ हिलने डोलनेसे—इस्कि, कैल्के, कूप्रम-आ, गुये।

„ „ „ आरम्भमें—इस्कि, कूप्रम, सल्फ, इग्नि, रास-टक्स।

„ घटना-घूमने फिरनेसे—आइयो, कैल्के-सल्फ, कोपे, सिपि, सल्फ।

„ „ हिलने डोलनेसे—**रास-टक्स,** सल्फ-ऐ।

„ गर्दनके पिछले भागमें (Cervical region)—इस्कि, **ऐगा,** ऐमोन-म्यूर, **ऐनाका,** ऐङ्गा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **आर्जेण्ट-मेट,** आर्स, **बैरा-कार्ब, बेल,** ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कार्बो-वेज, **कास्टि,** सिड्रो, **चेलिडो,** चायना, सिमि, डाल्का, **युफ्रे,** फेरम, फ्लू-ऐ, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, गुये, हिपर, **इग्ने, इग्नि,** कैलि-कार्ब, कैलि क्लोर, कैलि-आ, लैक-कै, **लैके, लैक-ऐ,** लीडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग्नि, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम,** पेट्रो, **फाइसो,** फास, फाइटो, प्लेटि, पोडो, सोरि, रैटा, रोडो, **रास-टक्स,** रास वे, सिपि, **साइलि,** स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, सिफि, टेवे, थूजा, जिङ्क।

„ „ सवेरे—ब्रोमि, कैल्के, चेलिडो, कैलि-कार्ब, सल्फ, जिङ्क।

„ „ „ नींद टूटनेपर—कैल्के, कैलि-कार्ब, फाइटो।

„ रातमें—कैलि-कार्ब, **फाइटो।**

„ ऋतुके समय—कैल्के।

„ घूमनेपर, खुली हवामें—कैम्फ, लाइको।

„ झटकेकी हवा (आँधीकी हवा)—कैल्के-फास, सिमि, **रास-टक्स।**

„ ठण्डा लगकर—डालका, नाइट्रि-ऐ।

„ नींद टूटनेपर—कैलि-कार्ब, लैके।

„ त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कास्टि, लीडम, लाइको, पल्स, रास टक्स, साइलि, सल्फ, थूजा।

खुजली, कमरमें (Lumber region)—हेरा-कार्ब, कार्ब, हिपर, मैग-म्यू, सोरि, पल्स, सल्फ।

„ घटना, खुजलानेसे—मैग-कार्ब, मैग-म्य, मेजे, नेट्रम-कार्ब, पेले, रेटा, रास-वे।

गरम मालूम होना (Heat)—एपिस, कार्ब, केल्के, कैम्फ, डाल्का, ग्लोनो, मार्क, फास, पिक्रि ऐ, रास-वे, सल्फ।

„ ऋतुके समय—फास।

„ फैलता है, ऊपरकी तरफ—लाइको, फास, पोडो।

„ गर्दनमें—कैल्के, नक्स-वोम, पेरि, फास, रास-टक्स।

„ कमरमें (Lumber region)—कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पिक्रि-ऐ, सल्फ।

„ मध्य देशमें (Dorsal region)—फास, पिक्रि-ऐ।

„ मेरुदण्डमें (In spine)—आर्स, कार्बो-वेज, लाइको, मेडो, फास, पिक्रि ऐ।

„ „ फैलता है, ऊपरकी तरफ—लाइको, फास, सेपा।

„ झलककी तरह (Flashes)—ऐकोन, बैप्टी, सैङ्गु, सम्बल।

„ „ सन्ध्याके समय ऊपर उठता है—पोडो।

„ „ पाखाना जानेके समय—पोडो।

„ „ पाखाना जानेके बाद—पोडो।

„ „ गर्दनमें—इस्कि, फ्लू-ऐ, हाइड्रो, मेके, मेडो, फास, पोडो, सेपा।

„ „ मेरुदण्डमें—वेरा।

„ „ „ तरङ्गकी तरह ऊपर उठता है—लाइको।

चोट, मेरुदण्डमें (Injuries of the spine)—एपिस, आर्निका, कैल्के, हाइपि, रास-टक्स, साइलि, रूटा।

„ त्रिकवंश अस्थि (Coccyx)—हाइपि, साइलि।

जख्म (Ulcers)—सिफा, मार्क-कोर।

„ गर्दनमें—साइलि।

„ त्रिकास्थिमें—आर्सेन-आई, कार्ब, नाइट-एसिड, सिलिसि, सिफ।

टेढ़ापन आक्षेपिक, गर्दनमें (Spasmodic drawing cervical re...)

हिपर, केलि-ब्राइ, केलि-कार्ब, लेकी, लाइकोप, म्यूरेक्स, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-मस, आकजे-ऐ, पेले, फास, **पिक्रि-ऐ**, मोरि, **पल्स**, **रास-टक्स**, रूटा, सिके, सेलि, **सिपि**, साइलि, **सल्फ**, जिङ्क।

कमजोरी, कमरमें, प्रदर स्रावके समय—कोना, **ग्रैफा**।

„ त्रिकास्थिमें (Sacrum)—फास, सिपि, जिङ्क।

खींचन (Tension)—ऐगा, बैरा-कार्ब, बार्बे, ब्राइयो, हिपर, इग्ने, लिलि-टिग, लाइकी, पल्स, सल्फ।

„ गर्दनमें (Cervical region)—बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कास्टि, बेलिडो, **सिकि**, लाइकी, मैग-स, ओलि-ऐनि, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, जिङ्क।

„ ऋतुके पहले—नेट्रम-कार्ब।

„ घूमने फिरनेसे-खुली हवामें—लाइकी।

„ झुकनेसे—ऐमोन-कार्ब, अरम, कैन्थ।

„ घटना, गरमसे—मस्क।

„ मध्य देशमें (Dorsal region)—लाइकी, मैग-स, रास-टक्स, जिङ्क।

„ कमरमें (Lumber region)—ऐगा, बैरा-कार्ब, **बार्बे**, कार्लस, चायना, लाइकी, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ, जिंक।

„ त्रिकास्थिमें (Sacrum)—बैरा-कार्ब, बार्बे, कास्टि, पल्स, सार्सा, सल्फ, टेरे, जिंक।

„ पृष्ठ फलकास्थिमें (Scapulæ)—बैरा-कार्ब, मेजे, नक्स-वोम, रास-टक्स।

खुजली (Itching)—ऐल्यूमि, ऐण्टिम-क्रूड, कास्टि, ग्रैफा, हिपर, लाइकी, नेट्र-स, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ जलनसे भरी हुई—ऐगा, ऐल्यूमि, बार्बे, कैल्के, मेजे, नक्स-वोम।

„ सरसुरी कीड़ा चलनेकी तरह—ऐग्नस, बेल, कोना, मैग-स, नेट्रम-कार्ब, ओल्नि।

„ गर्दनमें (Cervical region)—ऐल्यूमि, ऐण्टि-क्रूड, बार्बे, जेल्स, **नेट्रम-म्यूर**, पल्स, रास-टक्स, **सल्फ**।

ठण्डा मालूम होना, फैलता है, नीचेकी तरफ—ऐलि-सि, काक्कि, कौनचि, युपे-पर्फो, युपे-पर्पि, हाइयो, लोबे, पल्स, सैबु, साइलि।

" " मानो ठण्डा पानी पीठपर छोड देता है—लाइको, पल्स, ष्ट्रैमो, जिङ्क।

" " पेटमें—फास, सिके, स्पाइजि।

" " शरीरमें सब—ऐसिल, वेल, लाइको।

" गर्दनमें (Cervical region)—कौल्कि, डालका, साइलि, स्पञ्जि।

" कन्धेके बीचमें, दोनों—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, आर्जेण्ट-मेट, बोलि, लैक-डि।

" पृष्ठ फलकास्थि, बीचमें दो—ऐमोन-म्यूर, बोलि, कैप्सि, पल्स, रास-टक्स, सिपि।

" कमरमें—कैम्फ, डालका, युपे-पर्पि, लेके, पल्स, सल्फ।

" त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacrum region)—डालका पल्स, सल्फ।

" मेरुदण्डमें (Spine)—इस्कि, क्रोटन-टिग, जेल्स, हाइयो, मेजे, रुटा, स्ट्रिक्टा।

दर्द (Pain)—ऐल्यूमि, ऐन्थ्रू, ऐमोन-म्यूर, ऐड्रा, एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, आर्निका, ऐट्रो, आरम, बैरा-कार्ब, बेल, बार्ब, बिस्मथ, ब्राइयो, कैक्टे, कैल्के-फास, कैम्फ, कैपि, कार्बो ऐनि, कोन्नो, कास्टि, कैमो, चेलिडो, काक्कि, कोमलि, कोलोसि, कोना, क्रोटे-होर, क्यूप्र, डोरि, युपे-पर्फो, फेरम, फार्मि, जेल्स, ग्नैफा, गुये, हेलो, हिपर, हाइड्रो, हाइपि, इग्ने, कैलि बाई, कैलि-कार्ब, कैलि-नाई, कैल्मि, क्रिके, लेडम, लोब, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, म्यूरेक्स, नैजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स मस, नक्स-वोम, पेरि, फास, इग्न, सोरि, पल्स, रैना ब, रोडो, रास-टक्स, रुटा, सैन्गु, सिके, सिपि, सोडि नाई, स्पेजि, सल्फ, जिङ्क।

" सवेरे—पिका, हिपर, लाइको, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, रैना ब।

" दो पखड़ेके बीचमें—कैमो नेट्रम म्यूर।

सिर पीछेकी तरफ टेढा हो जाता है—एपिस, वेल, **सिकि, सिमि,** हेलि, मेजे, नेट्रम-सल्फ ।

टेढापन, आक्षेपिक, गर्दनमें, पीछेकी तरफ (Opisthotonos)—ऐब्सि, आर्स, केम्फ, कैन्थ, केमो, **सिकि,** सिना, कूप्रम, कूप्रम-आ, **हाइयो,** इग्ने, इपि, लैके, मार्फि, **नक्स-वोम, ओपि,** प्लेटि, फाइटो, रास-टक्स, सिके, स्टेनम, **स्ट्रैमो, स्टिक्टा,** टैबे, विरे-वि, जिङ्क ।

„ „ सामने (Emprosthotonos)—कैन्थ, इपि, लैके ।

„ मेरुदण्डका (Curvature of spine)—**कैल्के,** कैल्के-फास, कार्बो-वेज, लाइको, मार्क, **फास-ऐ,** फास, पल्स, **साइलि, सल्फ,** थूजा ।

„ „ दर्दके साथ—इस्कि, **लाइको, साइलि ।**

„ „ गर्दनमें—कैल्के, फास, सिपि ।

„ „ मध्य प्रदेशमें (Dorsal region)—बैरा-कार्ब, ब्यूफो, कैल्के, लाइको, प्लम्ब, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, सिपि, थूजा ।

ठण्डा मालूम होना (Coldness, including chill)—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, आर्जे-मेट, आर्स, ऐसाफि, **बोवि,** कैक्ट, कैल्के, कैन्थ, कैम्फ, कैमो, क्रोटन-टिग, डिजि, डालका, **युपे-पर्फो,** युपे पार्पि, जेल्स, हेमा, हाइयो, लैक-डि, लैके, लेडम, लिलि-टिग, लोबे, मिनि, मेजे, **नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, **पल्स,** रैफे, रास टक्स, सिके, **साइलि,** स्पञ्जि, स्ट्रैमो, **सल्फ, वेरे ।**

„ सवेरे—**नक्स-वोम ।**

„ सन्ध्यामें—काफि, डालका, लाइको, म्य-ऐ, रास-टक्स, पल्स, **सल्फ ।**

„ „ सोनेके बाद—काफि, लाइको, नक्स-वोम ।

„ रातमें—आर्स, पल्स ।

„ फैलता है, ऊपरकी तरफ—कोलचि, युपे-पर्फो, जेल्स, लैके, नेट्रम-स, फास, पल्स, **सल्फ ।**

ठण्डा मालूम होना, फैलता है, नीचेकी तरफ—ऐलि-सि, काकि, कोलचि, युपे-पर्फो, युपे-पर्पि, हाइयो, लोबे, पल्स, मेजु, साइलि।

" " मानो ठण्डा पानी पीठपर छोड देता है—लाइको, पल्स, स्ट्रैमो, जिङ्क।

" " पेटमें—फास, सिके, स्पाइजि।

" " शरीरमें सब—ऐमिल, वेल, लाइको।

" गर्दनमें (Cervical region)—कैल्के, डालका, साइलि, स्पञ्जि।

" कन्धेके बीचमें, दोनो—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, आर्जेण्ट-मेट, बोलि, लैक-डि।

" पृष्ठ फलकास्थि, बीचमें दो—ऐमोन-म्यूर, बोलि, कोसि, पल्स, रास-टक्स, सिपि।

" कमरमें—कैम्फ, डालका, युपे-पर्पि, लेके, पल्स, सल्फ।

" त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacrum region)—डालका पल्स, सल्फ।

" मेरुदण्डमें (Spine)—इस्कि, क्रोटन-टिग, जेल्स, फाइयो मेजे, रूटा, स्टिक्टा।

दर्द (Pain)—ऐल्यूमि, ऐल्यु, ऐमोन-म्यूर, ऐङ्गा, एपिस, आर्जेण्ट मेट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका, ऐट्री, बरम, बैरा कार्ब, बेल, बार्ब, बिसमथ, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के फास, कैम्फ, कैपि कार्बो वेजि, कोलो, कास्टि, कैमो, चेलिडो, काकि, कोलचि, कोनोमि, कोका, क्रोटे-टीग, यजूम, डोरि, युपे पर्फो, फेरम, फार्मि, जेल्स, ग्रैफा, गुये, हेलो, हिपर, हाइड्रो, हाइपेरि इग्ने, कैलि बाई, कैलि-कार्ब, कैलि-नाइ, केल्मि, लैके, लेडम, लोबे लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, म्यूरेक्स, नेजा नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, नक्स मस, नक्स-वोम, पेट्रि, फास फाइटो सोरि, पल्स, रैना ब, रोडो रस ट, रास-टक्स, रूटा सैबा सिके, सिपि, मोबि नाई स्टेफि, सल्फ, जिङ्क।

" ऊपरसे—ऐगा, हिपर, लाइको नेट्रम म्यूर नक्स मास्के जिङ्क।

" दो पांजरके पहले—कैमो, नेट्रम म्यूर।

दर्द, तीसरे पहर, घूमनेके समय—**सिपि**।

" सन्ध्याके समय—आर्स, केलि-कार्ब, केलि-म्यू, नेजा, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

" " गरम घरमें प्रवेश करनेसे—जेल्स, केलि-सल्फ।

" " सूर्यास्तके समय आरम्भ होना और सूर्य उदय होनेके समय बन्द होना—**सिपि**।

" रातमें—ऐमोन-म्यूर, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, केमो, डालका, हेलो, फेरम, केलि, क्रियो, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-को, नेजा, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, साइलि, **सल्फ**, सिपि।

" " ३ बजे—**केलि-कार्ब**, केलि-ना।

" " " बिछौनेमें सोने नही देता—**केलि-कार्ब**।

" " ४ बजे—नक्स-वोम, रूटा।

" " " बिछावनपर सोने नही देता—नक्स-वोम।

" इन्द्रिय सेवाकी वजहसे ज्यादा—केल्कि, चायना, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **फास-ऐ**, फास, पल्स, सिपि, **स्टैफि**, सल्फ।

" उठानेके कारण (भारी चीज)—रास-टक्स।

" उठनेमें, बैठे रहनेके बाद—ऐगा, आर्स, बार्ब, केल्क, केन्थ, कास्टि, केलि-बा, लेडम, मार्क, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ, जिङ्क।

" " झुकनेसे—बार्ब, लाइको, फास, पल्स, रास टक्स, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " सीधे भावसे असम्भव प्राय:—बेल, बार्ब, केल्क, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**।

" ऋतुके पहले—बार्ब, केल्क, कास्टि जेल्स, हाइड्रो, **केलि-कार्ब**, क्रियो, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, पोडो, **पल्स**, स्पञ्जि, थ्रास्टि, वाइवा।

" " समय—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, बेल, बार्ब, **ब्राइयो**, केल्क, केल्क-फास, कास्टि, चेलिडो, सिमि, ग्रेफा, हेलि, हाइड्रो,

डल्के, आइयो, कोलि, लैका-कै, लेके,
नाइट्रि-ऐ, फास, जैल्स, सेबाइ, सार्सा
दर्द, ऋतुके बाद—बार्बे, बोरा, कैल्के-फास, केलि-कार्ब,
" ऋतु रुक जानेकी वजहसे—डल्कि, बेल, कालि
पल्स, साइलि, सिपि।
" करवट बदलने पर बिछौनेमें—हिपर, डल्के, नक्स,
" " होताहै, बैठनेसे—नक्स-वोम।
" खड़ाहोना असम्भव, सीधेहोकर बैठे रहनेके बाद—
" खड़े रहनेसे—आइयो, केल्के, कोना, हिपर, कैलि
वेले।
" खानेपर—डैफ, कैलि-कार्ब।
" खाँसनेके समय—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आइयो, केल्
नाइट्रि ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्
" गाड़ीमें चढ़कर घूमनेसे—नक्स-म, पेट्रो।
" घुमाने फिरानेमें, शरीर—ऐगा, आइयो, नक्स-वोम,
" घूमता फिरता है—मैग-फास।
" घूमनेके समय—डल्कि, ऐसाफि, आइयो, चे
मैग-म्यू, रूटा, सार्सा, सल्फ, थूजा।
" " टेढ़ा होना पड़ता है—फास, सिपि, सल्फ।
" छींकनेके समय—प्लानिका, ऐरण्ड, सल्फ।
" जागनेसे—लैके।
" ज्वरावस्थामें—आर्निका, बेल, केमि, यूपे प
नक्स-वोम, पल्स, रास टक्स, सल्फ।
" ज्वर छूटनेके समय—आर्स, केल्के, डल्के, नैट्रम म्यू,
साइलि।

दर्द, प्रसवके समय—कास्टि, कैल्कि-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स ।

„ पेशाब करनेके पहिले—ग्रैफा, लाइको ।

„ „ समय—ऐसिट-क्रू, कैल्कि-का, फास, सल्फ ।

„ पैर फिसलने (False steps)—सिपि, सल्फ, थूजा ।

„ पाखाना जानेके पहिले—नक्स-वोम, पल्स ।

„ „ समय—आर्स, डाल्का, लाइको, पोडो, पल्स, सल्फ ।

„ „ बाद—फेरम, पल्स ।

„ फैलता है, उरुदेशमें (Thighs)—सिमि, कैल्कि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम ।

„ „ ऊपरको तरफ (Ascends)—ऐल्यूमि, कोलोसिन्थ, **जेल्स,** लैके, पेट्रो ।

„ „ एँड़ीमें—**कोल्चि, सिपि,** चायना, कैल्कि, लाइको ।

„ „ कधेमें—चायना, कैल्कि, लैके ।

„ „ नीचेकी तरफ (Descends)—ब्रायो, ग्लोनो, कैल्कि-कार्ब, कैल्कि, नक्स-मस ।

„ „ पाकस्थलीमें—**कूप्रम,** लाइको, नाइ-ऐ, **पल्स,** क्रोडो, थूजा ।

„ „ पैरमें—कैल्के, फास, **रास-टक्स** ।

„ „ भुजामें—आर्स, कैल्के ।

„ „ सिरमें—कैल्के, हेलि, नेट्रम-म्यूर, सिपि, साइलि ।

„ „ „ कदम रखनेसे, हरएक—सिपि ।

„ „ „ पीछेकी तरफ—जेल्स, पल्स ।

„ „ „ और ब्रह्म तालुमें, शीतावस्थामें—**पल्स** ।

„ बैठे रहने पर—**ऐगा,** ऐसिट-टा, **आर्जे-मे,** वार्बे, कास्टि, कैल्कि-बाई, लैके, लेडम, लाइको, नेट्रम-सल्फ, पैरि, पल्स, क्रोडो, **रास-टक्स,** रूटा, थूजा, **वैले, जिङ्क** ।

„ विश्रामके समय—डाल्का, कैल्कि-कार्ब, **रास-टक्स,** सेम्बु, स्पाइ ।

„ शीतावस्थाके, पहिले (Before chill)—**ब्रस्का,** आर्स, युपे-प, ब्रायो, **पोडो** ।

दर्द, शीतावस्थाके समय—आर्निका, आर्स, बेल, बोले, कैफि, कैमो, चिनि-
स, युपि-प, नेट्रम-म्यू र, नक्स-वोम, पलस, सल्फ ।

" " " फैलताहै, अल्प तालु और सिरके पीछेकी तरफ—पल्स ।

" स्तन पिलानेसे—क्रोटन-टिग, साइलि ।

" सांस लेने और छोड़नेमें—ऐमोन-म्यू, आरम, कैलि-कार्ब, सिपि, सलफ ।

" सीधी करनेपर पीठ—कैलि-का, नेट्रम-म्यू र, सोरि, सिपि, सल्फ, थूजा ।

" सोनेसे, चित होकर—चायना, कोलोसि, नाइट्रि-ऐ, पल्स ।

" सोनेके समय—आर्निका, बार्बे, चायना, क्यू रे, फेरम, क्रियो, नक्स-वोम, रास-टक्स ।

" सो नहीं सकता, पेटके बल—ऐसे-ऐ, नाइट्रि-ऐ ।

" हथौड़ीसे मारता है मानो—सिपि ।

" हिलना, आरम्भ करनेसे—कोनि, कार्बो वेज, कोना, फेरम, लाइको, फास, पलस, रास-टक्स ।

" हिलनेके लिये, बाध्य होता है, लगातार, बिछावनपर—फास, पल्स, राम-टक्स ।

" " " लेकिन रोग नहीं घटता—मैके, पलस ।

" घटना, खड़े होनेपर—आर्जे-नाइ, बेल, म्यू-ऐ ।

" " घिसनेसे मलनेसे—ड्रयि, कैलि ना, मेके, लिलि टिग, नेट्रम म, फास, प्रम्ब, पल्स, थूजा ।

" " घूमने फिरनेसे—आर्जे मे, आर्जे नाइ, बेल फास ए, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, रुटा, सिपि ।

" " झुकनेसे पीछेकी तरफ—बेल, मैड़, पेट्रो, पल्स, रास टक्स, साइलि ।

" " " सामने—नेट्रम-फा, फास ए, पल्स सिपि थूजा ।

" " डकारसे—सिपि ।

" " दबानेसे—डामरा, कैलि कार्ब, नेट्रम म्यू र, सिपि ।

" " " पड़ी चीजसे—डामरा, सिपि ।

" " पाखाना जानेके बाद—आर्जे, सिपि ।

" " पेशाब करनेके बाद—आर्जे ए, नक्स वोम, पल्स ।

दर्द, घटना, बैठे रहनेसे—इथि, बोरा, कास्टि, म्यू-ऐ, फास-ऐ, ष्लम्ब, स्टैफि।
„ „ विश्रामसे—इस्कि, आर्नि, कौलचि, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, पल्स।
„ „ सीधी करनेसे पीठ—लोगो।
„ „ सोनेसे—ऐगा, आर्स, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रूटा, सार्सा।
„ „ „ पेटके बल—ऐसी-ऐ, मैग-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सिलि।
„ „ „ कड़ी चीज़के ऊपर भार देकर—कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, पल्स, रास-टक्स, सिपि।
„ „ „ चित होकर—चायना, कौलचि, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि।
„ „ „ करवट होकर—कैलि-नाई, पल्स, जिंक।
„ „ „ „ दाहिने—कैलि-नाई, नेट्रम-सल्फ, आस्टि।
„ „ हिलने डोलनेसे—ऐमोन-म्यूर, **डाल्का, लाइको,** पल्स, फ्लोडो, **रास-टक्स,** सिपि।
„ „ „ धीरे—वेल, फेरम, **पल्स**।
„ बढ़ना, गोलमालसे—आर्स, थेरि।
„ „ झटका लगनेसे—**वेल,** कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, **ग्रेफा,** सिपि, सल्फ, थूजा।
„ „ झुकनेसे, पीछेकी तरफ—आर्जेण्ट-मेट, कैल्के, चेलिडो, कैलि-कार्ब, पल्स, सेलि, स्टैनम।
„ „ पेशाब करनेके बाद—कास्टि सिफि।
„ „ फिराने घूमानेपर सिर—कास्टि, लैक-कै, सैनि।
„ „ सोनेके समय, पेटके बल—आस्टि।
„ „ „ करवट बदलकर—सिना, इग्ने, नेट्रम-सल्फ, पल्स, स्टैफि।
„ „ „ „ बायें—फास-ऐ।
„ „ हँसनेपर—फास, प्लम्ब, टेल्यू।
„ गर्दनमें (Cervical region)—ऐकोन, इस्कि, इथि, ऐगारि, ऐल्यूमि, एपिस, **आर्स,** आर्स-आ, ऐसार, ऐट्रो, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, **कास्टिट,** चेलिडो, चायना, **सिक्कि,** काकि, कोलोसि,

डैफ, ड्रोसे, डालका, फ्लू-ए, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, गुयो, हेलि, हिपर, इग्ने, इपि, कैलि-बाई, कैल्मि, लैके, लाइको, मैग-फास, मेडो, मार्क, मेजे, नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस, पेट्रि, फास-ए, फास, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सैंगु, साइलि, टैरे, थूजा, जिंक ।

दर्द, गर्दनमें, सवेरे—नक्स-वोम, जिंक ।

" " रातमें—कैल्मि, ओलियै, पल्स ।

" " ऋतुके समय—कैल्के ।

" " उठानेके बाद, भारी चीज—कैल्के ।

" " चबानेके बाद—नक्स-वोम ।

" " खाँसनेसे—ऐन्थ्यूमि, बेल, सल्फ ।

" " गरम घरमें—कैलि-सल्फ ।

" " घुमानेसे सिर—बेल, कैल्के ।

" " छींकनेसे—ऐमोन-म्यूर, आर्निका ।

" " जम्हाई लेनेसे—नेट्रम-म्यूर ।

" " झुकनेसे—ऐगा, ऐण्टिम-क्रूड, थार्म, कैन्थ, ग्रैफा, कैलि-बाई, पेरि, रास-टक्स ।

" " देखनेसे ऊपर—ग्रैफा ।

" " नाक छिड़कनेसे—कैलि-बाई ।

" " वातज—ऐण्टि-क्रूड, ब्रायो, कैल्के फास, पन्ग, सिमिसि, कोलचि, डाल्का, मार्क, नक्स वोम, रस्टि, रैना ब, रोडो, रास-टक्स, सैंगु, स्पाइजि, सल्फ ।

" " श्वास प्रश्वासमें गहरी—चेलिडो ।

" " हिलानेपर माथा—ऐगा, ब्रायो, चेलिडो, कालमा, इग्ने, ग्लोनो, हाइपि, इपि, नक्स वोम, रोडो, रास टक्स, सल्फ ।

" " फैलता है, ऊपरकी तरफ, पीठ होकर—नेट्रम सल्फ, साइलि ।

" " " नीचेकी तरफ पीठ होकर—[illegible], चेलिडो, ग्लोनो, गुये, कैल्मि, नेट्रम म्यूर, फाइटो पोडो, [illegible], रैटा, सिपि, थूजा ।

" " " [illegible] साइलि, सल्फ ।

दर्द, गर्दनसे, फैलता है, कण्ठास्थिमें (Clavicle)—जेल्स।
" " " ब्रह्म तालुमें—वेल, सिमि, जेल्स, ग्लोनो, कैल्मि, मेगु, साइलि।
" " " भुजा और हाथोंकी अङ्गुलीमें—कैल्मि, नक्स-वोम।
" " " सिरके पिछले भागमें—फेरम, फाइटो।
" मध्यप्रदेशमें (Dorsal region)—ऐल्यू, वेल, ब्राइयो, सिमि, हाइपि, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नेजा, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, फास-ऐ, फास, सिपि, सल्फ।
" " खाँसनेके समय—कैल्के, कैलि-बाई, साइलि।
" " घूमनेके समय—वेल, नेट्रम-कार्ब, सल्फ।
" " फैलता है, भुजामें और पैरमें—कैल्के।
" " " बाएँ स्तनकी घुण्डीमें—ऐसाफि।
" " " सिरकी पीछेकी तरफ—कालि, पेट्रो।
" पृष्ठफलकास्थिमें—ऐग्ना, कैल्के, कार्बो-वेज, **चेलिडो**, चायना, सिमि, डिजि, हिपर, हाइड्री, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, लाइको, नक्स-वोम, फाइटो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, वैले।
" " दाहिने—इस्कि, आइलैन्थ, ऐलि-सि, **चेलिडो**, कैलि-कार्ब, सिपि, सल्फ।
" " " भीतरकी ओर—ऐलि-सि, **चेलिडो**, लाइको, फास, पोडो, रूटा, सेने।
" " बायें—कैक्ट, जेल्स, सल्फ।
" " " भीतरके कोनेमें—रैना-ब।
" " कोनेमें निचले—ऐल्यू, एपिस, आर्निका, कैल्के, चेलिडो, कैलि-बाई, लेडम, रास-टक्स।
" " " नीचे—ब्राइयो, कैक्ट, सेनक्रि, सिमि, क्रोटे-होर, इग्नि, लैके, नेजा, श्याकजा-ऐ, सिपि।
" " " " खाँसनेके समय—स्टिक्टा।
" " सवेरे—**चेलिडो**, मेजे।
" " बीचमें (Under)—कैल्के, कैल्के-फास, इलेप्स, पल्स, सल्फ।

दर्द, पृष्ठफलकास्थिमें, बीचवाले स्थानमें दोनों पृष्ठफलकास्थिके—ऐमोन-कार्ब,
आर्स, बेल, ब्राइयो, कौल्को, चायना, कोना, ड्रोसे, युपि-पर्फो,
ग्रेफा, गुये, कैलि-बाई, कैलि, लाइको, नेजा, नेट्रम-आर्स,
नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, नाइट्रि-ऐ, फास, पोडो, रास-टक्स,
सिपि, सल्फ, थूजा, विरे, जिङ्क।
" " " सवेरे—पोडो, रेना-व।
" " " ठण्डी हवासे—रास-टक्स।
" " " फैलता है, ब्रह्मतालुमें—कैलि।
" " " कन्धेमें—कैलि।
" " " मेरुदण्डमें—ऐल्यूमि, कौल्को, चेलिडो, कैलि, नेजा,
नेट्र-स, नक्स-वोम, फास-ऐ, सिपि, साइलि, जिंक।
" " " घटना, गरमसे—रास-टक्स।
" " " हिलने डोलनेसे—फास-ऐ।
" " वातसे उत्पन्न—ब्रुस्कि, ऐमाकि, कौल्को, कोल्चि, ग्रेफा, लाइको,
स्रोडो, वेले।
" " साँस लेने और छोड़नेसे—ब्रुस्कि, कौल्को, सेगु।
" " " बाधा देता है—कौल्को, पल्स, सल्फ।
" " बढ़ना, हिलने डोलनेसे—कौल्को, कैलि-ग्रा, नक्स वोम, पोडो, पल्स,
साइलि, स्टैनम, सल्फ।
" कन्धेके मध्य देशमें, दोनों (Between shoulders)—ऐकोन, ऐगा,
ऐङ्ग, आर्स, कौल्को, कैल्के-आर्स सिपि, कोना फेरम, कैलि-कार्ब,
कैलि, मेर्क, लाइको, नेजा, नेट्रम-आर्स, नेट्रम म्यूर, नेट्रम स
नक्स-म, नक्स वो, फास ऐ, फास, सोरि, पल्स, रास टक्स साइलि
टेरे, थूजा, जिंक।
" " मेरुदण्डमें—ऐग्यूमि, चेलिडो, कैल्मि, नेजा, नेट्रम म्यूर नेट्र स
नक्स म, नक्स वोम फास, रूटा, थूजा।
" " भोजनके बाद—आर्ज-नाई।
" कमरमें (Lumber region)—ऐकोन ऐस्कि ऐगा, ऐल्यूमि ऐमोन
म्यूर, एपिस, आर्जे-मेट, आर्नि, बैरा कार्ब, बेल्ला कार्ब, ब्राइ,
कोक्के, बेर्बे ब्रा, कैल्के-फास, कैल्प, कार्बो ऐनि कार्बो ऐनि

कार्बो वेज, कार्ड-मे, कोलो, कास्टि, कैमो, **चायना**, सिमि, साइमि, कोलोसि, कोना, क्यूप्र, **डाल्का**, **युपे-पर्फो**, फेरम, फरम-फास, जेल्स, ग्रेफा, गुये, हेलो, हिपर, हाइड्रो, इपि, केलि-बाई, केलि-कार्ब, केलि-आई, केलि-फास, केल्मि, लेका-कै, लैका-डि, लेके, लिलि-टिग, लाइको, मैग-फास, मिनि, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओपि, फास-ए, **फास**, फाइटो, प्लेटि, पोडो, सोरि, पल्स, रेना-सि, ड्रोडो, **रास-टक्स**, सिके, सिपि, साइलि, **सल्फ**, वेले, जिंक।

दर्द, कमरमें, सवेरे—कोलचि, युपे-पर्फ, हिपर, केलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम, पेट्रो, साइलि।

" " " बिछावन छोड़नेके बाद—कैल्के, केलि-कार्ब, लाइको, साइलि।

" " तीसरे पहर—सिपि।

" " सन्ध्यामें—कोलोसि, नेट्रम-स, सिपि, **सल्फ**।

" " रातमें—आर्स, कैमो, फेरम, लिलि-टिग, लाइको, नेजा, नेट्रम-स, पोडो, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

" " " प्रथम रातमें—लोरो, रास-टक्स।

" " " ११ बजेसे १२ बजेके अन्दर—एमोन-म्यूर।

" " " ३ बजे, बाहर निकलनेके लिये बाध्य करता है—**केलि-कार्ब**, केलि-ना।

" " उठनेपर, बैठे रहनेके बाद—आर्जे-नाइ, बार्ब, **कैल्के**, कैल्के-स, कैमो, कास्टि, लैके, लेडम, पेट्रो, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्टेफि, **सल्फ**, थूजा, जिंक।

" " " झुकनेपर—एमोन-म्यू, बार्ब, चेलिडो, लाइको, नेट्रम-म्यू, फास-ए, फास।

" " ऋतुके पहले—ऐसार, कैल्के-फास, कोलोफा, हैमा, मैग-कार्ब, नाइट्रि-ए, **सिपि**, स्प्रिञ्जि, सल्फ, वाइवा।

" " " प्रारम्भमें—ऐसार, कास्टि, **लेकी**, नाइट्रि-ए, वाइवा।

दर्द, कमरमें ऋतुके समय—**ऐमोन-कार्ब**, ऐमोन-म्यूर, आर्ज नाइट्रि, बेल, बार्ब, ब्रोमि, ब्राई, कैल्के, कास्टि, कैमो, **सिमि**, काकि, फेरम-फास, ग्रेफा, ऐलो, इग्ने, कैलि-कार्ब, कैल्मि, **लैके**, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, निको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **पल्स**, फास, **सल्फ**, थूजा, जेन्थक्स।

" " " बाद—सिपि।

" " " रुककर—कैलि-कार्ब, नक्स-म।

" " " मानो ऋतु आरम्भ होगा ऐसा दर्द—एपिस, कैल्के-फास।

" " करवट बदलना, बिछावनपर, असम्भव प्राय—डाय, कैलि-ना, नक्स-वोम।

" " खड़े रहनेपर—ब्राई, कोना, कैलि कार्ब, लाइको, रूटा, सल्फ, **वेलो**।

" " खाँसनेके समय—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, कैल्के-स, कैलि ना, पल्स, सल्फ।

" " घूमनेके समय—इस्कि, ब्राई, कार्बो-ऐनि, कैलि कार्ब, **सिपि**, सल्फ, थूजा, जिंक।

" " झुकनेपर—इस्कि, ऐगा, ब्राई, फेमो, चेलिडो, डामका, ऐक्रिने, साइलि, **सलफ**, थूजा।

" " ठण्डा लगकर—**डाल्का**, नाइट्रि ऐ, **रास-टक्स**।

" " परिश्रमसे—ऐगा, कैल्के-फास।

" " पाखाना जानेके पहले—बार्ब, मेड्रम-कार्ब, पल्स।

" " " समय—ऐगा, पैटि, आफूसा ऐ, रियुम, स्पाइ।

" " " बाद—कार्बो-वेज, पोडो।

" " पेशाब करनेके पहले—ग्रैफा, मेड्रम म।

" " " समय—क्राम, सल्फ लिकि।

" " बैठे रहनेसे—**ऐगा**, आर्ज नाई **आर्ज**, ब्राई, कैल्के, कार्बो वेज, माइगिल कोबाल्ट आरर्ग, मेड्रम म्यूर फास, फोनो **रास-टक्स**, रुटा, सल्फ थूजा जिङ्क, सिपि।

दर्द, कमरमें, भारी चीज उठानेसे—कैल्के, कैल्के-फास, नक्स-वोम, सेगु।
" " वर्षाके समय—कैल्के, **डाल्का**, **फ्रोडो**, रास-टक्स।
" " वातसे उत्पन्न—ऐसिट-क्रड, वार्बे, **ब्राई**, कोलचि, कार्बो-ऐनि, कोलोसि, डाल्का, फेरम, नक्स-वोम, फाइटो, **रास-टक्स**, सल्फ।
" " शीतावस्थाके पहले (Before chill)—**इस्कि**, **युपे-पर्पि**, **पोडो**।
" " " समय—नक्स-वोम।
" " सोनेसे—आर्नि, **वार्बे**, कैल्के, पल्स, **रास-टक्स**।
" " " चित होकर—चायना, कोलोसि, लाइको, सिपि।
" " हँसनेसे—कैना-इ, कोना, फास।
" " हिलने डोलनेसे—इस्कि, आर्नि, **ब्राई**, कैल्के, कास्टि, **चायना**, लाइको, नेट्रम-स, **नक्स-वोम**, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, **सल्फ**।
" " " करनेको बाध्य होता है लेकिन घटता नहीं है—पल्स।
" " फैलता है-पुट्ठेमें—वेल, सल्फ।
" " " कुल्हेकी सन्धिमें (Hip)—इस्कि, लैके, नक्स-वोम, सिपि, साइलि।
" " " पैर होकर नीचेकी तरफ—वार्बे, **कैलि-कार्ब**, साइलि।
" " " चूतड़में—**कैलि-कार्ब**।
" " " ऊरुके पीछेकी तरफ—वार्बे।
" " " मेरुदण्डमें—कैल्के, कैल्के-फास, चेलिडो, कैल्मि।
" " घटना, खड़े होनेसे—आर्ज-नाइट्रि, सिपि।
" " " गरमसे—कैल्के-फ्लू।
" " " बसनेसे—कैलि-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, **फास**।
" " " घूमनेसे—आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि, फास-ऐ, रूटा, **सिपि**, स्टैफि, जिङ्क।
" " " झुकनेसे—मिनि, फास-ऐ, सेंगु।

दर्द, कमरमें घटना, दबा रखनेसे—इस्कि, सिपि, वाइवा।

" " " सोनेपर—ब्रायो, कौलचि, कोबाल्ट, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम

" " " " चित होकर—कोबाल्ट, कैलि कार्ब, नेट्रम म्यूर।

" " " " करवट लेकर, दाहिने—जिङ्क।

" " " हवा छूटनेपर—लाइको, पिक्रि-ऐ।

" " " हिलने डोलनेसे—फ्ल-ऐ, क्रियो, फ्लोडो, रास-टक्स, स्टैफि।

" " बढ़ना, सोनेसे, बाईं करवट—सल्फ।

" लम्बो सेक्रल प्रदेशमें (Lumbo-sacral region)—हैलो, पल्स, सल्फ।

" त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—इस्कि, ऐगा, ऐन्थ्रसि, ऐसिट-टा, एपिस, आर्जे-मे, आर्स, देष्टी, बेग कार्ब, बेल, बार्बे, ब्रायो, कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, कार्बो वेज, चायना, साइक्ले, सिपि, डाय, डल्का, जेल्स, ग्रैफा, हैलो, हिपर, हाइपि इग्ने, कैलि-कार्ब, क्रियो, टैके, लोरो, लेप्टा, लिलि टिग, मोबि लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, फाइटो, पोडो, पल्स, रास-रू, रूटा, सिके, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

" " सबेरे उठनेके समय—पल्स, स्टैफि।

" " आमाशय रोगमें (खूनी)—कैप्सि, नक्स वोम।

" " उठानेपर भारी चीज—कैल्के, पल्स, रास टक्स, सेपि।

" " उठनेसे, बैठे रहनेके बाद—कैल्के, कास्टि, कैलि का, लाइको, फास, पल्स, स्टैफि सल्फ।

" " " झुकनेसे—लाइको फास।

" " ऋतुके पहले—वाइवा।

" " " समय—ऐमोन कार्ब, ऐमोन म्यू, बर्बे, कास्टि, कैलि कार्ब, कोबि, लाइको, नेट्रम कार्ब पल्स सेबा सिपि सल्फ।

" " करवट बदलनेसे बिछावनपर—नक्स वोम, स्टैफि।

" " खड़े रहनेसे—एगा, कार्ब ऐनि, कोना सिमि टिर, सिपि।

" " खांसनेसे—ब्रायो बेलिडो, टैरा।

दर्द, त्रिकास्थि प्रदेशमें, घूमनेके समय—**डल्कि**, ऐगा, आर्जे-नाइट्रि, केलि-कार्ब, स्टेफि।

" " पाखाना जानेके पहले—बार्ब, कार्बो-वेज, डाय।

" " " समय—आर्जे-नाइट्रि, कार्बो-ऐनि, मार्क-कोर, नक्स-वोम, पोडो, टेल्यू।

" " " बाद—टेबे, पोडो।

" " " " वेग देनेसे—ऐगा, कार्बो ऐनि, टेल्यू।

" " पेशाब करनेके समय—ग्रे फा।

" " फैलता है, उरुमें—सिके, सिपि।

" " " कुल्हेकी सन्धिमें (Hip)—**डल्कि**, कोलोसि, पल्स, सिपि।

" " " और उरुमें—सिमि, सिपि।

" " " प्यूबिसमें—आर्जे-मेट, लोरो, सेबा, सल्फ।

" " " सामने—आर्जे-मेट।

" " विश्रामके समय—नक्स-म, रास-टक्स।

" " वीर्यपातके समय—ग्रे फा।

" " शीतावस्थामें—आर्स, गेम्बो, हाइयो, **नक्स-वोम**, वेरे।

" " सङ्गमके बाद—ऐगा, कैल्के-फास, केलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, पेट्रो, फास, **सिसि**, **साइलि**।

" " सांस लेने और छोड़नेसे—**मार्क**।

" " सीधा नहीं हो सकता—केलि-बा।

" " सोनेसे उठ नहीं सकता—साइलि।

" " " चित होकर—डल्के, पल्स, टेल्यू।

" " " करवट लेकर—ऐकि-स्पा, नेट्रम-सल्फ, पल्स।

" " हिलने डोलनेसे—डल्कि, ऐगा, चायना, **पल्स**।

" " घटना, घूमने फिरनेसे—ऐड्र, मार्क, थूजा।

" " " " खुली हवामें—ऐगा, रूटा, टेल्यू।

" " " " धीरे धीरे—**पल्स**।

" " " दबानेसे—लेडम, मैग-म्यू, सिपि।

" " " सोनेसे—ऐगा।

दर्द, त्रिकास्थि प्रदेशमें, सोनेपर, चित होकर—पल्स ।

" " " " करवट लेकर—पल्स ।

" " " हिलने डोलनेसे—**पल्स**, रास-टक्स ।

" सेक्रो-इलियक सन्धिस्थलमें (Sacro-iliac junction)—**ड्रस्कि**, ऐगिल-टा, ब्राइयो, कैल्के-फास, सिमि, कोनोसि, रास-टक्स, थूजा ।

" कक्किक्स प्रदेशमें (पिकचञ्चु अस्थि-Coccyx)—ऐमोन-म्यू, **एपिस**, कैल्के फास, केना-से, कैन्थ, कास्टि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, सिस्टा, कोना, फ्लू ऐ, गैम्बो, हाइपि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, **क्रियो**, लैके, मैग-कार्ब, मार्क, पेरि, पेट्रो, रास-टक्स, रूटा, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा, **जिङ्क** ।

" " सन्ध्यामें—एपिस, ग्रैफा, कैलि-बा ।

" " उठनेपर, बैठे रहनेके बाद—कास्टि, युफ्रे, कैलि बा, लैके, **साइलि**, सल्फ ।

" " ऋतुके समय—कास्टि, सिकि ।

" " गाड़ीपर चढ़कर घूमनेके बाद, इसी तरह बहुत देर तक—**साइलि** ।

" " घूमनेके समय—ग्रैफ़ि, कैलि बा ।

" पिकचञ्चु प्रदेशमें, छूनेसे—कार्बो-ऐनि कैल्के फास, युफ्रे साइलि ।

" " दबानेसे—ऐरम ट्रि, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज युफ्रे कैलि-बा, **साइलि** ।

" " विश्राम करनेके समय—ग्रैफा ।

" " बैठे रहनेसे—ऐमोन म्यूर, एपिस, कार्बो ऐनि **कैलि-बा**, पेरि, पेट्रो ।

" " सोनेके समय—कार्बो ऐनि ।

" " हिलने डोलनेसे—कास्टि, कैलि बा फास ।

" मेरुदण्डमें (Spine)—ऐसि, **ऐगा**, ऐग्न, कार्बो [illegible] [illegible] कैलि कास्टि, **सिमिसि**, कालि, [illegible] [illegible] [illegible], मार्क, मेजा, मेडा

म्यू र, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास, रूटा, साइलि**, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

दर्द, मेरुदण्डमें, खाँसनेसे— बेल।

„ „ घूमने फिरनेसे—म्यू-ऐ, रूटा।

„ „ भुकनेसे—जिङ्क।

„ „ टेढे होनेपर, पीछेको तरफ—कैल्के, चेलिडो, पेट्रो।

„ „ फैलता है, नीचेकी तरफ—**बार्ब**, ग्लोनो, नेट्रम-म्यूर, आस्टि।

„ „ „ ऊपरकी तरफ—ऐगा, कास्टि, मैग-म्यूर, नक्स वोम, पेट्रो, फास, सल्फ।

„ „ बैठे-रहनेसे—फास-ऐ, रूटा, जिङ्क।

„ „ सङ्गमके बाद—नाइ-ऐ।

„ „ साँस लेने और छोड़नेमें, गहरी—चेलिडो, लेडम, रूटा।

„ „ हिलने डोलनेसे—ऐगा, मार्क।

„ कुटकुटाना, कनकनी (Aching)—इस्कि, ऐलो, आर्स, ऐसाफि, कैक्टि, **बेल**, बार्ब, बिस्मथ, **ब्राइयो**, कैल्के, कैना-इ, कैम्फ, कोबाल्ट, कोना, क्यूप्रा-आ, **युपे-पार्पि**, जेल्स, **ग्रैफा, इपि**, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लैके, लिलि-टिग, लाइसि, मार्फि, **म्यू-ऐ**, नेट्रम कार्ब, **नक्स-वोम**, फास, पिक्रि-ऐ, सोरि, **पल्स, रैना-ब**, रास-टक्स, रूटा, सिके, **सिपि**, साइलि, सल्फ, टेरि।

„ „ गर्दन (Cervical region)—इस्कि, कैल्के, कैल्के-फास, सिमि, गुये, मार्क, सिफि, वेरे-वि।

„ „ मध्य प्रदेशमें (Dorsal region)—कैल्के-आ, पिक्रि-ऐ, रास-टक्स।

„ „ कन्धेके बीचमें, दोनों—इस्कि बेल, सिपि।

„ „ कमरमें (Lumber region)—**इस्कि**, एपिस, आर्स, बेरा-ऐसे, **बार्ब**, ब्रोमि, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैल्के-आर्स, कैन्थ, कार्बो-ऐसि, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, सिमि, क्लिमे, कोलोसि, डोरि, **डाल्का**, **जेलस**, ग्रैफा, हेलो, हाइड्रा, हाइपि, इग्नि, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, कैल्मि, क्रियो, लैके-ऐ, लिलि टिग, म्यू-ऐ, **नक्स-वोम**, आकजे-ऐ,

फासे, फाइटो, पोडो, सोरि, पल्स, सिके, सिलि, **सिपि**, साइलि, स्टैफि, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, जिङ्क।

दर्द, कुटकुटाना कमरमें, सवेरे—डाय, कोलि-वा, **नक्स-वोम**, पल्स, सिनि।

" " " रातमें—इस्कि, नक्स-वोम, **सिपि**, साइलि, सल्फ।

" " " ऋतुके समय—ऐमोन-म्यू, कालि, लेके, मैग-कार्ब, सल्फ।

" " " उठनेपर, बैठे रहनेके बाद—इस्कि, ऐगा, कोल्के, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास, पल्स, साइलि, सल्फ।

" " " उठकर बैठनेके लिये बाध्य होता है, करवट लेनेके लिये—**नक्स-वोम**।

" " " छींकनेसे—सल्फ।

" " " झटका लगनेसे—कार्बो-ऐसि, पोडो।

" " " झुकनेसे—इस्कि, ऐमोन-कार्ब, डाल्का, कोलि-वा, लाइको, नेट्रम-म्यूर, पल्स, साइलि, सल्फ।

" " " पक्षाघातकी वजहसे (*Paralytic*)—काकि, कैम्फि, नेट्रम-म्यूर, रैना-सि, सेवाड, सेलि, जिङ्क।

" " " प्रसवके दर्दकी तरह—क्रियो, नक्स वोम, **पल्स**।

" " " बैठे रहने से—ऐगा, कास्टि, चिनि म, कोबाल्ट, फास, प्रूण स्पा, पल्स, फ्रोडो, **रास-टक्स**, सल्फ।

" " " सङ्गमके बाद—कैना-इ।

" " " सोनेके समय—ऐगा, ऐमिल ना मैग म्यू, टेरे।

" " " हँसनेसे—कैना-इ, टेम्यू।

" " " चलना, खड़े होने से—आर्ज नाइट्रि।

" " " " घूमने फिरनेसे—ऐलि क्र, आर्ज नाइ कोबाल्ट क्रियो, फास, रूटा, स्टैफि।

" " " झुकनेसे—चेलिडो, पल्स मैग।

" " " दबानेसे—कार्बो ऐ, फ्लू ऐ।

" " " पेशाब करनेके बाद—लाइको।

" " " पैरनेसे—सिर दार्क, सिलि।

" " " हिलने डोलनेसे—ब्रायो, कालि [illegible]।

दर्द, कुटकुटाना, बढना-दबानेसे—जेन्थ।

„ „ तिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—**इस्कि, ऐगा,** बेप्टी, कैल्के, कैल्के-फास, सिमि, **जेल्स,** हेलो, इग्ने, कैलि-बा, लैकै, मार्क, **म्यू-ए,** नक्स वोम, फाइटो, **पल्स,** रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ „ „ ऋतुके पहले—आइयो।

„ „ „ घूमने फिरनेसे—**इस्कि।**

„ „ „ झुकनेसे—**इस्कि।**

„ „ „ फैलनेसे पैरमें (Leg)—सिमि, लिलि-टिग, सिपि।

„ „ „ पिकचक्षु अस्थिमें—कैल्के-फास, कास्टि, फ्लू-ए, कैलि-बा, सल्फ, जेन्थ, जिङ्क।

„ „ „ मेरुदण्डमें (Spine)—**ऐगा,** कार्बो-वेज, चेलिडो, लैकै, नक्स-म, साइलि, जिङ्क।

„ „ „ बिछावनपर झटका लगनेसे—बेल, **ग्रैफा।**

„ „ „ बैठनेसे—**ऐगा।**

„ „ „ हिलने डोलनेसे—**इस्कि।**

„ अकड़न, कुचलने जैसा दबानेसे दर्द होता है (Sore, bruised, tenderness)—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, एपिस, **आर्निका,** कैल्के, कैमो, सिना, कोना, ड्रोसे, **युपे-पर्फो,** कैलि-कार्ब, कैलि-नाई, मार्क, **नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम-सल्फ, नक्स-म, **नक्स-वोम, फास,** फाइटो, प्लेटि, सोरि, पल्स, रैना-ब, रोडो, रास-टक्स, **रूटा,** साई, **सल्फ,** जिङ्क।

„ „ सवेरे—ड्रोसे, आकाजा-ऐ।

„ „ रातमें—ऐमोन-म्यूर, कैमो, नेट्रम-कार्ब।

„ „ ऋतुके समय—मैग-म्यूर, फास, थूजा।

„ „ कम्पावस्थामें—**आर्निका।**

„ „ खड़े होनेसे—कैल्के, हिपर, थूजा।

„ „ घूमनेके समय—आइयो, रूटा।

दर्द, अकड़न, झुकानेसे—कैमो, स्टान्नि ।
„ „ विश्रामके समय—कैलि-कार्ब ।
„ „ सोनेके समय—हिपर, नेट्रम-म्यूर, पल्स ।
„ „ सीधा नहीं हो सकता—सोरि ।
„ „ हवासे खुलनेसे—मार्क ।
„ „ **घटना**, हिलने डोलनेसे—ऐमोन-म्यूर, सैंग-कार्ब, रेटा ।
„ „ „ घूमने फिरनेसे—पल्स, थूजा ।
„ „ **बढ़ना**-रातमें ३ से ४ बजे—**नक्स-वोम** ।
„ „ „ ऋतुके पहले—कार्बे ।
„ „ गर्दनमें—एन्थ्रि, ऐगा, आर्निका, आर्स, बेल, सिकि, डेल्स, नक्स-वोम, फास-ऐ, सल्फ, थूजा, जिंक ।
„ „ „ घटना-हिलने डोलनेसे—सल्फ ।
„ „ मध्य प्रदेशमें (Dorsal region) —एपिस, कॉल्के फास, नेट्रम-म्यूर, फास ऐ ।
„ „ पृष्ठफलकास्थि प्रदेशमें—आर्निका, क्रियो, मार्क, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, फास, साइलि, थूजा, येरे, जिंक ।
„ „ „ मध्य देशमें दोनों—ऐमोन कैलि, नेट्रम म्यूर ।
„ „ कन्धेके बीचमें, दोनों—ऐकोन, ऐमोन म्यूर, चेलि, कैलि कार्ब नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, रस टक्स, थूजा ।
„ „ कमरमें (Lumber region)—ऐकोन, **आर्निका**, आर्स, **बार्बे**, **ब्राइयो**, कैलो, **चायना**, सिमि सिना कोलचि, कोलोसि, डल्क, युपि पर्फो, फेरम, फॉस्फो, हिपर, कैलि कार्ब लीम म्यूर, सिलि मार्क, नेट्रम म्यूर, नेट्रम-सल्फ नक्स म., नक्स वोम, **फॉस्फो**, **रस-टक्स**, साइलि सल्फ ऐ सल्फ, थूजा ।
„ „ „ सवेरे—नक्स वोम नेट्रम म्यूर ।
„ „ „ सञ्चालमें—कोलोसि, सल्फ ।
„ „ „ रातमें—साइलि, सल्फ ।
„ „ „ „ २ बजे—[illegible] ।

दर्द, अकडन कमरमें, ऋतुके समय—सिमि, मेग-कार्ब ।
" " " घूमने फिरनेसे—सिनि, थूजा ।
" " " झुकानेसे—ग्रेफा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ ।
" " " सोनेके समय—ब्राइयो, पल्स, **रास-टक्स** ।
" " " हिलने डोलनेसे—कैल्के, **चायना**, नक्स वोम ।
" " " घटना, घूमनेसे—ऐपो, मैग-सल्फ, जिन्का, पल्स, थजा ।
" " " " धीरे धीरे—पल्स ।
" " " " हिलने डोलनेसे—रास-टक्स ।
" " " बढना दबानेसे—प्लेटि ।
" " " " विश्रामसे—**ड्रोसे, रास-टक्स** ।
" " त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यूर, आर्नि, ब्राइयो, कैलेडि, फ्ल-ऐ, ग्रेफा, हिपर, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, प्लेटि, **रास-टक्स**, रूटा, सेबाडि, सल्फ, वेरे ।
" " " बैठे रहनेसे—मार्क, **रास-टक्स** ।
" " " सोनेसे, चित होकर,स्थिरसे—**रास-टक्स** ।
" " " घटना-हिलने डोलनेसे—**रास-टक्स** ।
" पिकाचक्षु प्रदेशमें (Coccyx)—ऐमोन म्यूर, कार्बो-ऐनि, **कास्टि**, कैलि-आ, रूटा, सल्फ ।
" " मेरुदण्डमें (Spine)—डाय, हिपर, रास-टक्स, रूटा, सल्फ, वाइवा ।
" ऐंठनकी तरह (Cramp like)—वेल, ब्राइयो, युप्रो, नक्स-म, सिपि ।
" " गर्दनमें (Cervical region)—ऐसार, कैल्के-फास, सिकि, स्पञ्जि ।
" " कमरमें (Lumber region)—बेल, कैल्के, **कास्टि, चायना**, चिनि-स, आइरि, लाइको, साइलि ।
" " ऋतुके समय—बेल, कैल्के, नक्स-वोम ।
" " दूध पिलानेके समय—कैमो, पल्स ।
" " हिलने डोलनेसे—**चायना**, स्क्विला ।

दर्द, चिलक मारना, मेरुदण्डमें (Spine)—**ऐगा**, बेल, नाइ-ऐ, पेट्रो।

" जलन (Burning)—ऐकोन, ऐगा, **आर्स**, बेरा-कार्ब, विसमथ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ग्लोनो, कैलि-कार्ब, कैलिम, क्रियो, लेके, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, फास-ऐ, **फास**, पिक्रि-ऐ, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " कन्धेके बीचके स्थानमें, दोनो—बार्ब, ग्लोनो, ग्रेफा, हेलोनि, **लाइको**, फास-ऐ, **फास**, सल्फ।

" " गर्दनमें (Cervical region)—एपिस, आर्स, कोल्के, कार्बो-वेज, फास, रास-टक्स।

" " मध्य प्रदेशमें (Dorsal region)—कैलि, जिङ्क।

" " पृष्ठफलकास्थिमें (Scapulæ)—कार्बो-वेज, साइलि, जिङ्क।

" " " मध्यस्थानमें, दोनो—ऐकोन, ग्लोनो, कैलि-बाइ, **लाइको**, नक्स-वोम, फास-ऐ, **फास**, सल्फ, थूजा।

" " कमरमें (Lumber region)—ऐकोन, बार्ब, कौलोसिन्थ, हेलो, कैलि-कार्ब, कैलि, क्रियो, लेके, मैग-म्यूर, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, रेना-ब, रास-टक्स, साइलि, **टेरि**, थूजा, जिङ्क।

" " त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—कार्बो-वेज, फेरम, फास-ऐ, फास, पोडो, सल्फ।

" " पिकचञ्चु अस्थिमें—एपिस।

" " मेरुदण्डमें (Spine)—ऐकोन, ऐगा, आर्स, ऐसाफि, बेल, जेल्स, ग्लोनो, कैलि, लाइको, नेट्रम-कार्ब, **फास**, पिक्रि-ऐ, सिपि, वेरे, जिङ्क।

" " " मानो लोहेकी गरम छड़ निचनी कशेरुकासे हो कर मेरुदण्डके भीतर घुस रही है—ऐन्यूमि।

" " " जगह जगह—ऐगा, फास।

" " " सोनेके समय—लाइको।

" " " घटना, बैठनेसे—जिङ्क।

" टाननेकी तरह (Drawing)—ऐगा, ऐज्ञ, आर्स, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, चेनिडो, चायना, **सिमि**, कोलचि, गुयो, ह्निपर,

हाइपि, कैलि-कार्ब, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्य, **नक्स-वोम**, फास, पिक्रि-ए, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा ।

दर्द, टाननेकी तरह, सवेरे—कैल्के-फास, सिमि, हिपर ।

" " सन्ध्यामें—केल्के-फास, लेके, लाइको ।

" " ऋतुके समय—साइलि, जिङ्क ।

" " पाखाना जानेके समय—पल्स ।

" " बैठनेसे—ब्रायो, कार्बो-वेज, थूजा ।

" " सहनसे-ज्यादा—आर्स ।

" " बढ़ना, हिलने डोलनेसे—ब्रायो, हिपर ।

" " घटना, घूमने फिरनेसे—**रास-टक्स** ।

" " गर्दनमें (Cervical region)—इग्नि, ऐमोन कार्ब, ऐक्टि, बेल ब्रायो, केल्के फास, चेलिडो, चायना, कोनोमि, फेरम, लिलि-टिग, लाइको, मेडो, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-मस नक्स-वोम, पेट्रो, सोरि, पल्स, स्पोंडो, स्टैफि, सल्फ ।

" " " ऋतुके पहले—नेट्रम-कार्ब, नक्स वोम ।

" " " फैलता है, नीचेकी तरफ—चेलिडो, नेट्रम कार्ब, नक्स वोम, सोरि ।

" " " " मस्तकमें—कार्बो-वेज, फेरम ।

" " " " " पीठके हिस्सेमें—नेट्रम-म्यूर पेट्रो, सेपि ।

" " " हिलने डोलनेसे—ऐकोन, बेल कोनोमि, रास टक्स ।

" " पृष्ठफलकास्थिमें (Scapulæ)—ब्रायो, केल्के, कार्बो कालि चेलिडो, चायना, कोनोमि, नक्स वोम, रूटा, सल्फ ।

" " " मध्य देशमें दोनों—बार्ब केल्के, कोपे गुयेकम, हिपर, मार्क्यु, पल्स, रास टक्स जिङ्क ।

" " मध्य प्रदेशमें—नेट्रम म्यूर बेल कोनोमि गुयेकम, फास ए ।

" " कन्धेके बीचके भागमें दोनों—बार्ब, कैल्के, [illegible], फास ए फास, साइलि ।

" " कमरमें (Lumbar region)—[illegible], ब्रायो, [illegible]

बार्बे, बेल, ब्राइयो, केल्कि, कार्बो-ऐनि, कैमो, काकि, कोलोसि, डालका, केलि-कार्ब, लैकि, लेडम, लाइको, मेजि, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, पल्स, ह्रोडो, **सेबा**, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

दर्द, टालनेकी तरह कमरमें, ऋतुके पहले—ह्राइयो।

" " " " समय—ऐमोन-म्यूर, कैल्कि कार्लस, कैमो, मैग-कार्ब, सिपि।

" " " घूमने फिरनेसे—कार्बो-ऐनि।

" " " झुकनेसे—क्लिमे, सिना।

" " " फैलता है, ऊपर पृष्ठमें—आर्स, नक्स-वोम।

" " " " उरुमें—ऐगा, बार्ब, डालका।

" " " " पैरमें—लैकि, सिपि।

" " " " विटप अस्थिमें—**सैवाइ**।

" " " पाखाना जानेके बाद—चायना, मैग-म्यूर।

" " " हिलनेसे—ऐकोन, कैप्सि, कोलचि, केलि-नाई।

" " त्रिकास्थिमें (Sacral region)—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड चेलिडो, चायना, डाय, हेलो, **नक्स-वोम**, साइलि, सल्फ, थूजा।

" " " बैठनेसे—बेल, थूजा।

" " पिक चञ्चु प्रदेशमें (Coccyx)—कैल्कि, **कास्टि**, रास-टक्स, थूजा।

" " मेरुदण्डमे (Spine)—बेल, बार्ब, कैप्सि, **सिमि**, सिना, कोना, नेट्रम-म्यूर, रूटा, थूजा, जिङ्क।

" टूट जायगा, ऐसा (As though the back would break)—ऐलू, **बेल**, केलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।

" " ऋतुके समय—**बेल**, नक्स-वोम, वाइबा।

" " " रुककर—**बेल**, नक्स-वोम।

" " गर्दनमें (Cervical region)—**बेल**, चेलिडो।

" " कमरमें (Lumber region)—**बेल**, क्रियो, लाइको, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, ष्टैफि।

दर्द, टूट गया है, मालूम होना—आर्निका, युपे-पर्फो, कैलि कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, प्लैटि।

" " कमरमें (Lumber region)—आर्स, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, कौमो, ग्रेफा, हैमा, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, फास, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

" " त्रिकास्थिमें (Sacral region)—ऐकोन, इस्कि, आर्स, कैल्के-फास, फास, स्टैफि।

" दबा रखने, जैसा (Pressing)—ऐगा, कार्बो वेज, कास्टि, चेलिडो, कैलि-कार्ब, म्यू-ऐ, फास, पल्स, सैङ्गु, सिपि, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " गर्दनमें (Cervical region)—आर्स वेल, ब्राइयो, केम्फि, कार्बो-वेज, कास्टि, इग्नेप, नैकै, लोरो, लाइको, नेट्रम—सल्फ, नाइट्रि-ऐ, फास, फाइटो, पल्स, स्टैफि।

" " कमरमें—ऐकोन, वेल, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, कैलि-कार्ब, कैलि-था, लेडम, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, प्रम्न, पल्स, रास-टक्स, सैबाइ, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, जिङ्क।

" " " ऋतुके समय—फिरम-फास, कैलि-कार्ब, लेके, पल्स।

" " " " फैलता है पुट्ठेमें—सल्फ।

" " त्रिकास्थिमें (Sacral region)—ऐकोन, ऐलि मि, बार्ब, कार्बो-वेज, कास्टि, फिरम, इग्ने, नक्स-वोम, पल्स, गिर्इ सिपि।

" " ठेल देता है, नीचेकी तरफ—बेल बार्ब, मार्क नक्स-वोम, सिपि।

" " पिकचंचु अस्थिमें (Coccyx)—एपिस, कैना मे, कार्बो-वेज।

" दुर्बलता (Lameness)—इग्नि बार्ब, काग, इग्नि, कैलि कार्ब, नेट्रम-म्यूर, प्रम्न।

" " कमरमें (Lumber region)—इग्नि कैल्के था, हामशा कास्टि, कैलि कार्ब, लेके, नेट्रम फास।

दर्द, दुर्बलता कमरमें ठण्ढा लगकर—डाल्का।

„ प्रसवके दर्दकी तरह (Labor like)—ऐलो, कार्बो-वेज, काकि, **कैलि-कार्ब**, क्रियो, लाइको, **पल्स**, **सेबाइ**, सिपि।

„ „ कटि-सन्धि स्थानमें (Small of back)—ऐकोन, क्रियो, लिलि-टिग, नक्स-वोम, **पल्स**, सेबाइ।

„ „ „ ऋतुके समय—कैल्कि, कैमो, सिकि, साइक्ला, लाइको, नाइट्रि-ऐ, **पल्स**, सल्फ।

„ „ „ पाखाना जानेकी इच्छाके साथ—क्रियो, **नक्स-वोम**।

„ „ त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—कैमो, सिमि, कैलि-कार्ब, **पल्स**, सल्फ।

„ फाड़ डालनेकी तरह मालूम होना (Tearing)—इस्कि, ऐगा, आर्नि, आर्स, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फि, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, लाइको, मैङ्ग, **नाइ-ऐ**, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ „ सवेरे—कैल्क, कैलि-कार्ब, पल्स।

„ „ ऋतुके समय—ऐगा, कास्टि, फास, सिपि।

„ „ खड़े रहनेसे—बार्ब, ब्राइयो।

„ „ बैठे रहनेसे—ऐल्यु, बार्ब, फास, स्पञ्जि।

„ „ फैलता है नीचेकी तरफ—बार्ब, मैङ्ग, नेट्रम-स।

„ „ „ भुजामें और पैरमें (Limbs)—**फास**।

„ „ गर्दनमें—**ऐकोन**, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, ग्लोनो, लैके, लाइको, नेट्र-स, नक्स-वोम, फ्रोडो, साइ, सल्फ।

„ „ „ सवेरे—कैलि-कार्ब, स्ट्रैमो।

„ „ „ झुकनेसे—ब्राइ, चेलिडो।

„ „ „ मेरुदण्डमें—लैके।

„ „ „ सोनेसे—लाइको।

„ „ पृष्ठ फलकास्थिमें (Scapulæ)—ऐकोन, कास्टि, कैलि-कार्ब, सल्फ, थूजा।

„ „ मध्य प्रदेशमें (Dorsal region)—बार्ब, ब्रोमि, कैलि-कार्ब।

दर्द, फाड डालनेकी तरह मालूम होना, मध्यमे दोनों पृष्ठ फलकास्थिके—वार्ब, कास्टि, पल्स, रास-टक्स, साइलि।
" " " मेरुदण्डमें—वार्ब, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, साइलि।
" " कन्धेके बीचके भागमें दोनों—कोल्को, लैके, नेट्रम-स, साइलि।
" " कमरमें (Lumber region)—ऐकोन, इग्नि, वार्ब, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, कोलचि, ऐमा, कोलि-कार्ब, लाइको, मैग म्यू, नेट्रम-स, नक्स-वोम, फास ऐ, फ्लोडी, रास-टक्स, थूजा।
" " " ऋतुके समय—कास्टि।
" " " घूमने फिरनेसे—इग्नि।
" " " झुकनेसे—ब्राइयो, चेलिडो।
" " " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, कास्टि, सल्फ।
" " " बढना, साँस लेने और छोडनेसे—केलि-कार्ब।
" " त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—इग्नि, ब्राइयो, कोलोसि, लाइको।
" " " त्रिकास्थिमे और घुटनेकी सन्धिमें, घूमनेके समय—इग्नि।
" " " फैलता है, सायेटिक स्नायुमें (Sciatic nerve)—कोलोसि।
" " पिक चंचु अस्थिमें (Coccyx)—कैल्के, कोष्ठ, कैल्के-फास, सिपि, सल्फ, नेट्रम-स, साइलि।
" " " ऋतुके समय—कैल्क, सिपि, सल्फ।
" " " घटना, पेट दबानेसे—सल्फ।
" " मेरुदण्डमें (Spine)—कार्ब, सिना, फाइपि, मेर्क, नेट्रम म, नक्स-वोम।
" " " घूमनेके समय पुट्ठो स्पर्श—साइलि।
" " " फैलता है, ओरोंकी तरफ—सिना, मेर्क, नेट्रम म्यूर।
" " " बैठे रहनेसे—वार्ब, फिनार, जिंक।
" " " सहवासके बाद—मैग म्यूर।
" " " स्वप्न दोष होनेके बाद—सल्फ, फास।

दर्द, फाड डालनेकी तरह मालूम होना, मेरुदण्डमें सोनेके समय—लाइको।

» मरोड (Twisting)—आर्निका, कैल्के, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

» » गर्दनमें (Cervical region)—ऐगा, आर्स, कैल्के, रूटा, सल्फ।

» » कमरमें (Lumber region)—कैल्के, कोना, लैके, **पल्स**, क्रोडो, **रास-टक्स**, सिपि, स्टैफि, सल्फ, **वैले**।

» » » खड़े रहनेसे—**वैले**।

» » » बैठे रहनेसे—**वैले**।

» » » हिलने डोलनेसे—कास्टि, कैलि-बा, **पल्स**।

» सुई गडनेकी तरह (Stitching)—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, एपिस, बेल, बार्बे, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, कोलचि, डाल्का, गुयेज, हिपर, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-स, क्रियो, लैके, लाइको, मैग-फास, मार्क, मेजे, नाइट्रि-ऐ, पैरि, पल्स, रास-टक्स, सैनि, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ, जिङ्क।

» » रातमें-३ बजे उठकर घूमनेके लिये बाध्य होता है—**कैलि-कार्ब**।

» » खांसीके साथ—ऐकोन, **ब्राइयो**, कैम्फि, चायना, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सिपि।

» » सांस लेने और छोडनेसे—बार्बे, कैल्के, मार्क, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

» » गर्दनमें (Cervical region)—ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, रास-टक्स, सार्सा, सल्फ।

» » मध्य प्रदेशमें (Dorsal region)—ऐगा, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, जिङ्क।

» » » खांसनेके साथ—**मार्क**।

» » पृष्ठफलकास्थि प्रदेशमें (Scapulæ)—ऐमोन-म्यू, ऐनाका, ब्राइयो, कैम्फ, कार्कि, गुयेज, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, म्यू-ऐ, **नाइट्रि-ऐ**, पैरि, फास, प्रम्ब, सल्फ, जिङ्क।

» » दाहिने—ऐसाफि, कैलि-कार्ब, मार्क, सिपि, साइलि।

दर्द, सुई गड़नेकी तरह, पृष्ठफलकास्थि प्रदेशमें दाहिने, नीचे—अरम, चेलिडो।
" " " मध्य देशमें दोनों—ब्राइयो, कोल्के, कैम्फ, काक, कोनायि, गुयो, नाइट्रि-ऐ, वैरि, पल्स, वेना-व।
" " " " नीचे—ब्राइयो, चेलिडो, क्रियो, फास, सल्फ।
" " कमरमें (Lumber region)—ऐकोन, ऐगा, ऐनि मि, आर्ज-मेट, ऐसाफि, अरम, बेल, बार्बे, ब्राइयो, कोल्के, कास्टि, काक, कोलोसि, कोना, डाइफि, केलि मा, केलि-कार्ब, केलि-आई, लाइको, मैग-म्यू, नेट्रम कार्ब, निको, फास, प्रून, प्रून-स्पा, पल्स, सिमि, साइलि, स्ट्रिकनि, सल्फ।
" " " रातमें ३ बजे—केलि-कार्ब।
" " " ऋतुके समय—नेट्रम-म्यूर।
" " " खड़े होनेसे—कोना।
" " " खाँसनेके समय—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, मार्क, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।
" " " छींकनेसे—एरण्ड।
" " " साँस लेनेसे—कोलोसि।
" " " " छोड़नेसे—सल्फ।
" " " हिलने डोलनेसे—कोलोसि।
" " " घटना, घूमनेमे—डल्का, स्टेफि।
" " " " सोनेसे—रस्टा।
" " " " " चित—कोलोसि, प्रून स्पा।
" " " " हिलने डोलनेसे—फास-ऐ।
" " त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—ऐकोन ऐगा, ब्राइयो, केल्के-फास, कार्बो ऐनि मिरि, मार्क, पल्स, रस्ट।
" " पिकचंचुमें (Coccyx)—कास्टि, ऐग कार्ब, टेरि, रास टक्स साइलि।
" " मेरुदण्डमें (Spine)—ऐम, मार्क, फास्फि कास केलि-सा।
" वातसे उत्पन्न (Rheumatic)—[illegible] ब्राइयो, सिमि, कॉल्चि

कार्ब्बा, हिपर, लाइकोप, **नक्स-वोम**, फाइटो, **फ्लोडो**, **रास-टक्स**, सैंगु, सल्फ।

दर्द, वातसे उत्पन्न गर्दनमें (Cervical region)—ऐण्टि-क्रूड, ब्राइयो, सिमि, कौलचि, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, फ्लोडो, **रास-टक्स**, सैंगु, स्पाइजि, स्टेफि, सल्फ।

,, ,, कमरमें (Lumber region)—ऐण्टि-क्रूड, **ब्रार्ब**, **ब्राइयो**, कार्बो-ऐनि, कौलचि, कोलोसि, डालका, फाइटो, **रास-टक्स**, सल्फ।

धमकन (टपक-Pulsating)—बैरा-कार्ब, युपे-पर्पि, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, थूजा।

,, बढना-खाँसनेसे—नाइट्रि-ऐ।

,, ,, मानसिक उत्तेजनासे—बैरा-कार्ब।

,, ,, विश्रामसे—बैरा-कार्ब।

,, गर्दनमें (Cervical region)—**एपिस**, युपे-पर्फ, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, फास, **वेरे-वि**।

,, ,, ऋतुके पहले—नाइट्रि-ऐ।

,, ,, ,, समय—नाइट्रि-ऐ, **वेरे-वि**।

,, ,, फैलता है, कन्धेमें—**एपिस**।

,, बढना-हिलने डोलनेसे—फेरम।

,, कन्धेके बीचके स्थानमें दोनो—बेरा-कार्ब, फास।

,, मेरुदण्डमें—डाल्का, लैके, **फास**।

,, कमरमें (Lumber region)—कास्टि, कोलोसि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, **सिपि**, **साइलि**, **सल्फ**।

,, ,, ऋतुके पहले—नाइट्रि-ऐ।

,, त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—कास्टि, इग्ने, केलि-कार्ब, लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपि, साइलि।

,, मेरुदण्डमें (Spine)—ऐगा, कार्बोनि-सल्फ, कूप्र, थूजा।

धनुष्टङ्कार (Opisthotonos)—"टेढापन" देखिये।

धक्का (Concussion)-मेरुदण्डमें—हाइपि।

पसीना (Perspiration)—**ऐनाका**, कैल्के, **चायना**, **चिनि-स**, डल्का, हिपर, लेडम, म्यू-ऐ, **नक्स-वोम**, पेट्रो, फास ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, साइलि, स्ट्रेमो, सल्फ।

» आधी रातके बाद—**हिपर**।

» ऋतुके समय—क्रियो।

» हिलने डोलनेसे—**चायना**।

» गर्दनमें (Cervical region)—**ऐनाका**, **कैल्के**, **चायना**, **फास-ऐ**, सिपि, साइलि, **सल्फ**।

» » रातमें—कैल्के, सल्फ।

» » निद्रावस्थामें—**कैल्के**, लैके, फास-ऐ।

» » हिलने डोलनेसे कुछ—**चायना**।

» कमरमें—ऐसाफि, क्लिमे, **साइलि**।

फोड़ा (Abscess)—हिपर, मेजे, फास-ऐ, साइलि, सल्फ, टेरे-वि।

» गर्दनमें—लैके, पेट्रो, फास-ऐ, सोरि, साइलि, टेरे-वि।

» कमरमें—कैल्के-फास।

» सोयस फोड़ा (Psoas abscess)—कुप्रम, फास ऐ, साइलि, स्ट्रेफि, सिम्फा, सिफि।

» छोटा (Boils)—"उद्भेद" देखिये।

विसर्प (Erysipelas)—एपिस, ग्रेफा, कैलि फा, मार्क, फास ऐ, रास टक्स।

भारी मालूम होना (Heaviness, weight)—बेरा-कार्ब, कोनि, सिपि, हाइड्रो, नेट्रम-म्यूर, पेरि, फास, रास टक्स, पिक्रि ऐ, सिमि।

» गर्दनमें—ऐगा, कैल्के-फास, केलिडो, नक्स वोम, **पेरि**, पेट्रो, फास, **रास-टक्स**।

» कमरमें (Lumber region)—**सिमि**, कोना, हाइड्रो, केलि कार्ब, सिनि टिग, मार्क, फास ऐ, **पिक्रि-ऐ**, कास्टो, **रास-टक्स**।

» » पाखानेके समय—सिमि, केलि कार्ब।

» » घटना, मोड़ने, खड़े करनेसे—ओनासि।

» » बढ़ना, हिलने डोलनेमें—फास, पिक्रि ऐ।

भारी मालूम होना, कमरमें बढना, करवट बदलनेसे बिछावनपर—कर्णा।

„ त्रिकास्थि प्रदेशमें (Sacral region)—आर्ज-नाइट्रि, **चायना,** फेरम, फाइटो, रास-टक्स, सिकी, सिपि।

„ „ बैठे रहनेसे—**रास-टक्स।**

मोच खा जाना, मेरुदण्डमें (Bruises of spine)—आर्निका, केल्के, कोना, हाइपि, लेडम, रास-टक्स, रूटा।

शीर्णता (Emaciation)-गर्दनमें—केल्के, लाइको, **नेट्रम-म्यूर,** सेनि, सार्सा।

शीर्णता सुखण्डी (Marasmus)-गर्दनमें—केल्के, लाइको, **नेट्रम-म्यूर,** सार्सा।

सङ्कोचन भाव (Constriction, band)—कैमो, डाल्का।

„ गर्दनमें (Cervical region)—बेल, ग्लोनो, लैके, नक्स-वोम।

„ कमरमें—**पल्स।**

स्पाइना बाइफिडा (मेरुदण्डकी केशेरुकाओंकी वक्रता ठीक न रहनेके कारण रोग Spina bifida)—आर्स, बैरा-कार्ब, केल्के, केल्के-फास, सोरि, साइलि, सल्फ।

सुर सुरी (चीटी चल रही है मानो-Formication)—**ऐकोन,** ऐगा, ऐलिसि, आर्स, बैमो, क्रोटे-हो, लैके, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, ओल्मि, फास-ऐ, सल्फ।

„ गर्दनमें—कार्लस, सिके।

„ कमरमें—ऐकोन, आर्स, कैन्थ, क्रोटन-टिग, मिनि, मार्क-कोर, फास-ऐ, स्टैनम।

„ मेरुदण्डमें—**ऐकोन,** ऐगा, आर्स, एरण्ड, लैके, नेट्रम-कार्ब, सल्फ-ऐ।

सुन्न होना (Numbness)—ऐगा, केल्के-फास, काकि, नक्स-वोम, आक्जा-ऐ, फाइसो, साइलि।

„ कमरमें (Lumber region)—ऐकोन, आर्स, बार्ब, कार्बो-वेज, साइलि, सल्फि।

„ गर्दनमें (Cervical region)—बार्ब, चेलिडो, मार्क-आ-फ्ले, पैरिप्रैटि, रास-टक्स।

सुन्न होना, त्रिकास्थिमें (Sacrum)—बार्ब, कैल्के-फास, ग्रेफा, प्लैटि, सल्फि।

„ पिकचंचु अस्थिमें (Coccyx)—बार्ब, प्लैटि।

„ „ बैठनेसे—प्लैटि।

निद्रा (SLEEP)।

अनिद्रा (Sleeplessness)—एकोन, एलोज, एमोन ब्रोम, एपिस, आर्जेण्ट-नाई, आर्निका, आर्स, आर्स ए, ऐरम-ट्राइ, ऐट्रो, अरम, बैप्टी, बेल, बेन्जो-ए, बोरा, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैन्थ, कार्लस, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, चिनि-सल्फ, सिकि, सिना, साइक्ला-वा, काकि, काफि, कोलोसि, कोना, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, ड्रोसे, डाल, फेरम, फ्लू ए, जेल्स, ग्लोनो, गुये, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, जैलापा, कैलि-बाइ, कैलि-ब्रोम, कैलि-कार्ब, कैलि फास, क्रियो, लैक-कै, लैकि, लैक-नै, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग म्यूर, मैग-सल्फ, मेडो, मार्क, मोर्फ-फोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ए, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, फास ए, फास, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, रूमेक्स, सिके, सिलि, सिनिसि, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्टैफि, सल्फ, सिफि टैब, टेर, थूजा, थेरि।

„ सवेरे—नेट्रम-म्यूर।

„ मध्यरातमें—आर्निका काफि, हेपि, मैग-कार्ब फास, पल्स, सल्फ, थेर।

„ आधी रात के पहले—आर्स ब्रम, बोरा, ब्राइयो, कैल्कि फेल्के, कार्बो-एनि, कार्बो-वेज, कैमो चायना, काफि, काली कार्बो-एनि, फेरम, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, कैलि कार्ब, मर्क, मैग्ना, म्यूरेक्स

मेडो, **मार्क**, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **फास**, **पल्स**, रैना-ब, **रास-टक्स**, सिलिनि, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, **सल्फ**, वैले।

„ आधी रातके बाद—ऐकोन, **आर्स**, ऐसाफि, अरम, रैना-सै, **कैप्सि**, **काफि**, डाल्का, हिपर, आइयो, **कैलि-कार्ब**, मैग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, **नक्स-वोम**, सोरि, रैना-ब, रैना-सि, ओडो सिपि, **साइलि**, सल्फ-ऐ, सिफि।

„ „ २ बजेके बाद—मैग-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, साइलि।

„ „ ३ बजेके बाद—कैल्के, नक्स-वोम, सिपि, सल्फ।

„ „ १ बजेसे २ बजे तक—सल्फ।

„ „ २ बजेसे ५ बजे तक—**वोरा**।

„ „ ३ बजेसे ५ बजे तक—**वोरा**।

„ „ ४ बजेके बाद—म्य-ऐ, सल्फ।

„ „ ५ बजेके बाद—सल्फ।

„ „ अन्धेरेमें—**स्ट्रैमो**।

„ उत्तापावस्थामें—**वोरा**, व्राइयो, कास्टि, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, थूजा।

„ उत्तेजनाके कारण, मानसिक—काफि, कोल्चि, लैके, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ औंघाईके साथ—ऐकोन, ऐगा, **वेल**, व्राइयो, कैल्के, कास्टि, **कैमो**, चेलिडो, काफि, कोना, क्रोटे-टीर, क्यूप्रम, फेरम, हिपर, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, **ओपि**, फास-ऐ, **फास**, **पल्स**, रास-टक्स, सैम्बु, **सिपि**, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ नींद एकबार खुलनेपर—आर्स, अरम, वेल, डाल्का, फेरम, **लैके**, मार्क, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, फास, रैना-ब, सार्सा, सिपि, **साइलि**, सल्फ।

अनिद्रा, काफीके अपथ्यव्यहारके कारण—नक्स-वोम।

„ खुजलीकी वजहसे—जेल्स, लैके, मार्क, मेजे, सोरि, **पल्स**।

„ घर लौटनेकी इच्छाकी बीमारीसे (Home sickness)—**कैप्सि**।

„ चिन्ताके कारण—इग्नि, ब्रायो, कोल्कि, चायना, काक्कि, काफि, फ्लूर-ए, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, हायो, लैके, नेट्रम-म्यूर, लाइको, **नक्स-वोम**, **पल्स**, सिपि, स्टैफि, सल्फ, टियुब, जिङ्क।

„ „ एकही तरहकी चिन्ता बार बार—कोल्कि, काफि, ग्रेफा, **पल्स**।

„ छाती धड़कनेके कारण—ऐरम-म्यूर, बेल्डो-ऐ, कोल्कि, नेट्रम-म्यूर।

„ जलनकी वजहसे शरीरके अन्दर—आर्स।

„ ठण्डककी वजहसे पैरके नीचे—ऐमोन-म्यूर, कार्बो-वेज, फास, साइलि, जिङ्क।

„ दुःखकी वजहसे—इग्ने, नेट्रम-म्यूर।

„ परिश्रमके बाद-ज्यादा मानसिक—काफि, **हाइयो**, इग्ने, कैलि ब्रोम, नक्स-वोम।

„ बुड्ढोंका—बैरा-कार्ब।

„ रक्तकी उत्तेजनाके कारण (Orgasm of blood)—इग्ने, मार्क, फास, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ लिङ्गोच्छ्वासके कारण—सिपि।

„ शराबके अपथ्यव्यहारसे—**नक्स-वोम**।

„ सिर घूमनेकी वजहसे—ऐमोन कार्ब कोल्कि, मार्क कोर, नेट्रम म्यूर, फास, सल्फ।

„ सेवा करके, रोगीकी—काक्कि, काफि।

अशान्ति पूर्ण (Disturbed)—एपिस, आर्स बेल्डो काम ग्रैफा, हायस, कोरी, मार्क, नेट्रम-म्यूर, ओपि, पल्स, सिपि, सल्फर।

„ काल्पनिक दृश्य, देखनेकी वजहसे—आर्जेन्ट नाइ, आर्निका बेल्डो-नाइ, कार्बो वेज कार्बो वेज चायना काफि, इग्ने, काल ब्रोम, नाइ, थूजा साइलि सल्फ।

अशान्ति पूर्ण, काल्पनिक दृश्य, आंख मूंदनेसे—एपिस, कैल्के, लैके, लाइको थूजा।

" " डरावना—बेल, कार्बो-ऐनि, नक्स-वोम, साइलि, सल्फ।

" स्वप्नकी वजहसे—आर्स, साइक्ला, फेरम, ग्रैफा, लोरो, लाइको, नाइट्रि-ऐ नक्स-वोम, सोरि, स्पिजि, सल्फ, वैले।

आच्छन्नता, गहरी (Comatose)—ऐगा, ऐग्न, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट** एपिस, **आर्जेण्ट-नाई**, आर्निका, आर्स, ऐसाफि, **बैप्टि,** बैरा कार्ब, **बेल,** बोरा, ब्राइयो ब्यूफो, कैम्फ, कास्टि, चायना, क्लो सिकि, सिमि, कोल्चि, कोना, **क्रोक,** क्रोटे-होर, क्यूप्रम, डिजि हेलि, लैके, लोरो, लेडम, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **ओपि** फास-ऐ, फास, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिके, स्ट्रैमो, सल्फ, **वेरे** जिङ्क।

" उत्तापावस्थामें, अविराम ज्वरमें—**ऐण्टिम-टार्ट,** एपिस, बैपि सीड्रन, चायना, युपे-पर्फो, जेल्स, इग्ने, **लैकी, मेजे, नेट्रम म्यूर,** नक्स-वोम, **ओपि, पोडो, रोबि,** रास-टक्स, **सैम्बु** स्ट्रैमो।

ओंघाई (Sleepiness)—ऐकोन, इथि, ऐलो, **ऐल्युमि,** ऐमोन-कार्ब ऐनाका, **ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस,** ऐपो, आर्नि **आर्स,** ऐसाफि, **बैप्टि,** बेरा-कार्ब, **बेल,** बोवि, ब्रोमि, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, **कैना-इ,** कैन्थ, कार्बो-वेज, कार्लस **कास्टि,** कैमो, **चेलिडो, चायना,** साइक्ल, क्लिमे, काकि कोल्चि, कोल्लो, कोना, कोपे, कोरा-रू, **क्रोकस,** साइक्ला, डालूका युफ्र, युपे-प, फेरम, फ्लू-ऐ, गैम्बो, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, ग्रैटि ग्लो, हिपर, हाइयो, इग्नि, केलि-बाई, कैलि-ब्रोम, केलि-कार्ब केलि-ना, क्रियो, **लैकी,** लोरो, लेडम, लाइको, **मैग-कार्ब** मैग-म्यूर, मेन्थि, मार्क, **मार्क-कोर,** मस्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, **नक्स-म, नक्स-वोम,** ओलि-ऐनि,

ओपि, पैरि, फिला, फास-ऐ, फाग, प्रम्ब, पोडो, पलस, फ्लोडो, रास-टक्स, रूटा, सैम्बु, सिके, सिमि, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा, वेरे।

औंघाई, सवेरे—ऐगा, ऐलि-सि, ऐरिस्ल-टि, कौल्को, कैल्को-फास, कार्लस, कास्टि, लिमि, कोना, युफ्रे, ग्रैफा, मैग-म्यूर, मैफा, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पोडो, पलस, सिपि, स्पाइजि, साइलि, सल्फ।

„ दोपहरके पहले—ऐण्टिम-टार्ट, विस्मथ, कौल्को, कैल्को-फास, कैना-सै, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, मस्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, नक्स-वोम, फास, पोडो, सैबाडि।

„ दोपहरके समय—चायना, ग्रैफा।

„ तीसरे पहर—ऐकोन, ऐगा, ऐनाका, आर्ज-नाई, आर्स, चायना, कोकस, ग्रैटि, लैके, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सल्फि, स्टैफि, सल्फ।

„ सन्ध्याको—ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, बोवि, कौल्को, कैल्को-आ, कैल्के-फास, सिकि, कोना, क्रोकस, फ्लू-ऐ, हिपर, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पलस, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ भोजनके बाद—ऐमोन कार्ब, कैल्के, क्रोकस, लैके।

„ „ बैठनेसे—हिपर, नक्स-वोम।

„ अदम्य—आरम, कोरा-रू, लैके मेजे, नक्स-म, नक्स वोम बोवि सल्फ।

„ अनिद्राके सहित पर्यायक्रमसे—आइयो, लैके, सिपि।

„ अकेले रहनेसे—आइयो, ऐनि।

„ उत्तापावस्थामें—ऐण्टिम-क्रूड एपिस कैल्म, ऐनि, कार्बो अक्ट-म, ओपि, फास-ऐ फास, पल्स रास टक्स पोडो पैर, पैर-नि।

औंघाई, ऋतुके समय—केलि-कार्ब, **नक्स-म**, फास, सल्फ।

„ खाँसनेसे—**ऐण्टि-टा**, इपि, क्रियो।

„ गर्भावस्थामें—जेल्स, हेलो, नक्स-म।

„ पढ़नेके समय—कार्बो-वेज, कोल्चि, जेल्स, लाइको, नेट्रम-मूर, सल्फ।

„ मैथुनके समय—बेरा-कार्ब, लाइको।

„ शीतावस्थामें—ऐण्टि-टा, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, **ओपि**, फास, टेरे।

गहरी (Deep)—ऐलूमि, ऐण्टि टार्ट, एपिस, **आर्ज-नाई**, आर्नि, **बेप्टी**, बेरा-कार्ब, **बेल**, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कार्लस, चेलिडो, चायना, सिकि, सिना, **कोना**, **क्रोकस**, क्यूप्रम, साइक्ला, फ्लू-ऐ, जेल्स, **ग्रेफा**, हेलि, हिपर, हाइयो, कैलि-बाई, लेके, लैक्टि-ऐ, लोरो, **लेडम**, लाइको, मार्क-कोर, नेजा, नेट्रम-मूर, नक्स म, **नक्स-वोम**, ओपि, फास-ऐ, फास, फाइसो, पोडो, **पल्स**, फ्रोडो, रास-टक्स, सिके, सेने, सल्फ, वेले।

„ सवेरे—ग्रेफा, नक्स-वोम।

„ अकड़नके बाद (After convulsion)—हाइयो, **नक्स-वोम**।

„ उत्तापावस्थामें—ऐलि-सि, **एपिस**, आर्नि, आर्स, मेजे, नक्स-वोम, **ओपि**, फास, **रोबि**।

„ शीतावस्थामें—बेल, हिपर, नेट्रम-मूर, **ओपि**।

जम्हाई लेना (Yawning)—ऐकोन, इस्कि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, ऐपिस, आर्जेण्ट-नाई, आर्निका, **आर्स**, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्ब, **कास्टि**, केम्फ, **चेलिडो**, **सिना**, सेड्रा-वा, क्लिमे, काकि, **क्रोकस**, क्यूप्रम, **ग्रेफा**, **इग्ने**, कैलि-कार्ब, **क्रियो**, लोरो, लिलि-टिग, लाइको, मैग-कार्ब, मैङ्ग, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओलि-ऐनि, ओलियेे, **ओपि**, पेरि, फास, पल्स, **रास-टक्स**, सेबाडि, सिपि, साइलि, स्कुई, स्टेनम, स्टेफि, सल्फ, वेरे, वायोओ, जिङ्क।

जम्हाई लेना, दिनमें—नेट्रम-कार्ब, **नक्स-वोम**, सल्फ।

„ ऋतुके पहले—**पल्स**।

„ „ समय—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-ऐनि, मैग-म्यूर, नेट्रम म्यूर।

„ अङ्गडाईके साथ (With stretching)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, **आर्स**, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, चायना, काकि, युपे-पर्फो, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, इपि, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, **नक्स वोम**, फास ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि, साइलि, सल्फ, वेले, जिङ्क।

„ आँखसे पानी निकलनेके साथ—इग्ने, क्रियो, मिफा, स्टैफि, वायो-भो।

„ औंघाईके बिनाही (Without sleepiness)—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, ब्राइयो, कैमो, चायना, इग्ने, लेके, साइलि, नेट्रम-म्यूर, **प्लैटि, रास-टक्स**, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

„ खाँसीके साथ—बेल।

„ ज्वरके समय—रूटा, थूजा।

„ दोपहरके भोजनके पहले (Before dinner)—ऐन्यूमि, ब्राइयो, लाइको, मार्क।

„ „ बाद—आर्स, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फिला, प्रम्ब, सल्फ-ऐ, टैबे, जिङ्क।

„ पढ़नेके समय—युफ्रे, नेट्रम-कार्ब, थूजा।

„ बार बार (Frequent)—ऐकोन, ब्रोमि, कैप्सि, **चेलिडो**, सिना, काफि, कुमम, **ग्रेफा**, इग्ने, इपि लाइको, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, ओलियै, फास-ऐ रास टक्स, सल्फ।

„ भयानक—ऐगा, कास्टि, सिना, फोरा-रू, हिपर, इग्ने, मैग कार्ब, प्लैटि, रास-टक्स।

„ शीतावस्थाके पहले—ऐण्टिम टार्ट, आर्निका, आर्स, इलेटि, युपे पर्फो, चायना, इग्ने, इपि, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम रास टक्स।

„ „ समय—आर्स, ब्राइयो, कैप्सि, **इलेटि, युपे-पर्फो**, लाइको मिनि, मार्क, म्यू ऐ, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम स्यल, ओलियै, फास, मिलि साइलि थूजा।

अँगाई, ऋतुके समय—केलि-कार्ब, **नक्स-म**, फास, सल्फ।

„ खाँसनेसे—**ऐण्टि-टा**, इपि, क्रियो।

„ गर्भावस्थामें—जेल्स, हेलो, नक्स-म।

„ पढ़नेके समय—कार्बो-वेज, कोल्चि, जेल्स, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

„ मैथुनके समय—बेरा-कार्ब, लाइको।

„ शीतावस्थामें—ऐण्टि-टा, केलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, **ओपि**, फास, टेरे।

गहरी (Deep)—ऐलूमि, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, **आर्ज-नाई**, आर्नि, **बैप्टी**, बेरा-कार्ब, **बेल**, ब्राइयो, केल्के, कार्बो-वेज, कार्लस, चेलिडो, चायना, सिकि, सिना, **कोना**, **क्रोकस**, कूप्रम, साइक्ला, फ्लू-ऐ, जेल्स, **ग्रेफा**, हेलि, हिपर, हाइयो, केलि-बाई, लेके, लैकि-ऐ, लोरो, **लेडम**, लाइको, मार्क-कोर, नेजा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओपि, फास-ऐ, फास, फाइसो, पोडो, **पल्स**, फ्लोडो, रास-टक्स, सिके, सेने, सल्फ, वेले।

„ सवेरे—ग्रेफा, नक्स-वोम।

„ अकड़नके बाद (After convulsion)—हाइयो, **नक्स-वोम**।

„ उत्तापावस्थामें—ऐलि-सि, **एपिस**, आर्नि, आर्स, मेजे, नक्स-वोम, **ओपि**, फास, **रोबि**।

„ शीतावस्थामें—बेल, हिपर, नेट्रम-म्यूर, **ओपि**।

जम्हाई लेना (Yawning)—ऐकोन, इस्कि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, ऐपिस, आर्जेण्ट-नाई, आर्निका, **आर्स**, ब्रोमि, ब्राइयो, केल्के, कार्ल, **कास्टि**, कैम्फ, **चेलिडो**, **सिना**, सेड्रा-वा, क्लिमे, काकि, **क्रोकस**, कूप्रम, **ग्रेफा**, **ड्रगे**, केलि-कार्ब, **क्रियो**, लोरो, लिलि-टिग, लाइको, मैग-कार्ब, मैङ्ग, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओलि-ऐनि, ओलिये, **ओपि**, पेरि, फास, पल्स, **रास-टक्स**, सैबाडि, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टेनम, स्टेफि, सल्फ, वेरे, वायोओ, जिङ्क।

जम्हाई लेना, दिनमें—नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, सल्फ।
» ऋतुके पहले—पल्स।
» » समय—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-ऐनि, मेग-म्यूर, नेट्रम म्यूर।
» अङ्गडाईके साथ (With stretching)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, काकि, युपे-पर्फो, ग्रे फा, हिपर, इग्ने, इपि, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, फास ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि, साइलि, सल्फ, वेले, जिङ्क।
» आँखसे पानी निकलनेके साथ—इग्ने, क्रियो, सिफा, स्टैफि, वायो-ओ।
» औंघाईके विनाही (Without sleepiness)—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, ब्राइयो, कैमो, चायना, इग्ने, लेके, साइलि, नेट्रम-म्यूर, प्लेटि, रास-टक्स, सिपि, स्टैफि, सल्फ।
» खाँसीके साथ—बेल।
» ज्वरके समय—रूटा, थूजा।
» दोपहरके भोजनके पहले (Before dinner)—ऐन्यूमि, ब्राइयो, लाइको, मार्क।
» » बाद—आर्स, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फिला, प्लम्ब, सल्फ-ऐ, टैबे, जिङ्क।
» पढ़नेके समय—युफ्रे, नेट्रम-कार्ब, थूजा।
» बार बार (Frequent)—ऐकोन, ब्रोमि, कैम्फ, चेलिडो, सिना-वा, काफि, कूप्रम, ग्रे फा, इग्ने, इपि, लाइको, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, ओलियेे, फास-ऐ, रास टक्स, सल्फ।
» भयानक—ऐगा, कास्टि, सिना, कोरा रू, हिपर, इग्ने, मैग-कार्ब, प्लेटि, रास-टक्स।
» शीतावस्थाके पहले—ऐण्टिम-टार्ट, आर्निका, आर्स, इलेटे, युपे पर्फो, चायना, इग्ने, इपि, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम रास टक्स।
» » समय—आर्स, ब्राइयो, कैम्फ, इलेटे, युपे-पर्फो, लाइको, सिनि, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम सल्फ, ओलियेे, फास, सिपि, साइलि, थूजा।

थोड़ी देर रहने वाली (Short)—ऐकोन, ऐनाग्नि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, फास।

नींद खुलना (Waking)-रात २ बजे—बैप्टो, कास्टि।

„ „ ३ बजे—काफि, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ ३ बजेसे ४ बजे तक—नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ ४ बजे—लाइको, नक्स-वोम, सल्फ।

„ सवेरे ५ बजे—सल्फ।

„ „ पाखाना जानेके वेगके साथ—ऐलो, सल्फ।

नींद खुलना असम्भव—क्रोट-हो।

„ „ सुन्न होनेके साथ (With numbness)—इग्निशि।

„ आवाजसे, थोड़ी—कैलेडि।

„ कष्टदायक (Difficult)—कोम्फ, कैलि, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, सिकि, ग्लोनो, कैलि-ब्रोम, नक्स-वोम, सिपि।

„ „ सवेरे—ऐल्यूमि, कैल्के, कैल्के-फास, कास्टि, नक्स-वोम, फास-ऐ, थूजा।

„ कलेजा धड़कनेके कारण—कैल्के, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, सिपि।

„ खांसनेकी वजहसे—आर्स, हाइयो, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ छाती धड़कनेकी वजहसे—कैल्के, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, सिपि।

„ डरकर मानो—ऐग्नस, ऐण्टि-क्रूड, बिस्मथ, बोरा, कैफि, चायना, काकि, डिजि, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ देरीसे (Late)—ऐनाका, एपिस, कैल्के, कास्टि, कोका, कोना, साइक्ला, ग्रुफ्रे, ग्रैफा, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, सिपि, सल्फ।

„ पसीनेकी वजहसे—कोना।

नींद खुलना, प्रत्यूषमें (तड़के)—आर्स, ब्ारम, बोरा, कैल्के, कान्थि, चायना, काकि, काफि, डाल्का, फार्मि, कैलि-कार्ब, लैके, नाइको, मैग-कार्ब, सिफा, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रैना-ब, सेलि, सिपि, साइलि सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ बार बार—ऐकोन, ऐल्युमि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-क्रूड, आर्ज-नाई आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो ऐनि, कार्बो-सै, कार्लस, कान्थि, चायना, सिकि, साइमि, काफि, डिजि, ड्रोसे, युफ्रे, हिपर, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग कार्ब, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, नक्स वोम, फास, पल्स, रैना-ब, राम-टक्स, सिपि, साइलि, स्टाइनि, स्टैफि, स्ट्रामो, सल्फ, जिङ्क।

„ रोगके उपसर्गोंके बढ़नेकी वजहसे—आर्स, बेल, लैकि, नक्स वोम।

„ स्वप्नकी वजहसे—आर्नि, बेल, कैमो, हिपर, मार्क, नक्स वोम, फास-ऐ, सल्फ।

झपकी लेना (Dozing)—आर्स, बेल, ब्राइयो, कैमो, काकि, हिपर, मेक, ओपि, पैरि, पेट्रो, राम-टक्स, साइलि।

„ के होनेके बाद—इथि।

नींदकी अवस्थामें (निद्रित अवस्था) आंखे आधी खुली हुई—ऐण्टिम टार्ट बेल, कोलोसि, ब्राइयो, कोपि, फेरम, फेरम म्यूर हेलि, ओपि, इथि फास ऐ, पोडो, सैम्बु, स्ट्रैमो, सल्फ बेरे।

„ उतर जाता है, नीचेकी तरफ बिछावनके—आर्स म्यू ऐ।

„ उद्वेग—आर्स, कैलि-कार्ब, बेल, माइलि ऐ।

„ कम्पन, हाथ और पैरका—ऐण्टिम-टार्ट।

„ खांसी—आर्निका बेल केल्के कैमो, मार्क, लैपि, आर्ग।

„ गाना गाता है—बेल क्रोकस, फास ऐ।

„ गोंगों, कातर आवाज करना—आर्स बेल, आइग्ने ब्रम, कैली इग्ने, ओपि, माइको म्यू-ऐ, नक्स वोम आर्नि, टेरे दूल सल्फ।

नींदकी अवस्थामें, घिन घिनाता है, रें रें करता है—ऐल्यूमि, आर्निका, बैरा-कार्ब, आर्स, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैलेडि, कार्बो-ऐनि, कैमो, चायना, इपि, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, रियुम, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे।

„ घूमता रहता है, बिछावनके इधर उधर—ऐकोन, पल्स, रियुम।

„ चौंक उठता है—ऐग्न, ऐण्टिम-टार्ट, आर्निका, **आर्स**, ब्राइयो, बेल, बिस्मथ, बोरा, कैलेडि, कास्टि, सिना, **कैमो**, कोरा-रू, क्रोकस, डिजि, ग्रुफा, ड्रोसे, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, इपि, आइरि, केलि कार्ब, लैके, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, फास, प्लम्ब, **पल्स**, **रियुम**, रास-टक्स, सैबाडि, सैम्बु, सिकेलि, सिलि, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, स्ट्रान्सि, सल्फ, टैवे, थूजा, वेरे।

„ „ छूनेसे—स्ट्रैमो।

„ चिल्ला उठता है—ऐना-का, ऐण्टिम-टार्ट, बेल, कैल्क, बोरा, कैमो, सिना, काफि, क्रोकस, जैलापा, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, **पल्स**, रियुम, रूटा, सेने, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

„ चिल्ला उठता है, बालक— बेल, **बोरा**, **कैमो**, इपि, **सिना**, काफि, **जैलापा, रियुम, सेन्ना**।

„ „ सोनेसे, चित होकर—ग्ुयेज।

„ छटपटाता है—ऐल्यूमि, बेल, **आर्स**, ब्राइयो, कैल्क, **कैक्ट**, **कैमो**, सिकि, सिना, सिस्टा, क्लिमे, काफि, कोरा-रू, क्रियो, फेरम, फेरम-म्यूर, गुये, हेलि, इग्ने, लैके, लेडम, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, ओपि, पेरि, **रैना-सि**, फास, पल्स, रास-टक्स, सेना, सिपि, स्टैफि, सल्फ, बेले, वेरे।

„ छाती दबाता है (Night mare)—"स्वप्न" देखिये।

„ जीभ काटता है—इग्नि, मेजे, फास-ऐ, थेरि, जिङ्क।

नींदकी अवस्थामें, झटकेसे कांप उठता है—ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, ब्रायो, डाल्का, वोवट, कैमो, कोना, क्युप्रम, हिपर, केलि-कार्ब, इग्ने, कोबाल्ट, लाइको, मार्क कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, ओपि, पल्स, रियुम, रैना सि, सिलि, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्टेफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, जिङ्क, वायो-ट्रि।

" " पेर—फास।

" " सारा शरीर—ऐण्टिम-टार्ट, क्युप्रम, इपि, मेजे, नेट्रम-कार्ब, ओपि, सल्फ, जिङ्क।

" दाँत कटकटाना—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रा ड, बेल, आर्स, काम्फि, सिना, काफि, कोना, हाइयो, केलि-कार्ब, इग्ने, पोडो, सिपि, स्ट्रैमो, वेरे।

" दीर्घ निश्वास—आरम, हाइयो, कैलेडि।

" नाकसे आवाज होना—बेल, कैम्फ, चायना, हाइयो, इग्नेसि, इग्ने, लौरो, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, रियुम, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " फुफकारकी तरह—चायना।

" " साँस रुकनेकी तरह—बेल।

" पकड़ता है, हाथसे—आर्निका, बेल, बोरा, काफि, हाइयो, ओपि, फास-ऐ, रास-टक्स।

" पसीना—कार्बो-ऐनि, सिकि, चायना, इग्नेसि, गुफे, फेरम, ऊेड्री, मार्क, नक्स वोम, फास, पल्स, थूजा, सिपि।

" प्यास—ब्रायो कार्बो-वेज, काम्फि, कैमो, मर्क, माइका, नाइट्रि ऐ, साइलि, सल्फ-ऐ।

" प्रलाप—ऐकोन, आर्निका, आरम बेल हेप कैम्फ काकि, कोलोसि, डिजि, डल्का जेल्स हाइयो केलि म्यू-ऐ, नक्स मास्क ओपि, पल्स, रियुम, सिके, सिपि, स्पञ्जि स्ट्रैमो सल्फ ऐ।

" बिछावन नोचता है—आर्निका, आर्स, बेल चायना हाइयो, काकि ओपि, फास, फास ऐ, रास टक्स, स्ट्रैमो।

नींदकी अवस्थामे, बोलता है—ऐरिटम-टार्ट, आर्निका, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, सिनेबा, ग्रैफा, इग्ने, कैलि, कैलि-कार्ब, मेग-कार्ब, मेग-म्यूर, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रैफे, रास-टक्स, सेबाड, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, जिंक।

„ भ्रमण—ऐकोन, ऐगा, ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, ब्राइयो, साइक्ला, लैके, लाइको, ओपि, फास, स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिंक।

„ मुँह हिलाता है, मानो कुछ चबा रहा है—कैल्के, सिपि।

„ मुखमण्डल, लाल—आर्निका, ऐरम-ट्रि, ओपि, वायो-ट्रि।

„ „ ठण्डा और फीका—वेल।

„ मुँह फाड़े रहता है—मार्क, ओपि, रास टक्स, सैम्बु।

„ रोना—ऐल्यूमि, अरम, कास्टि, कार्बो-ऐनि, सिना, कैमो, कोना, हाइयो, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रियुम, रास टक्स, सेबु, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्ट्रैमो।

„ सिर उठाकर चारो तरफ देखता है, तकियेसे—स्ट्रैमो।

„ हँसना—हाइयो, इग्ने, लाइको, फास-ऐ।

„ „ ऊँची आवाजसे—कास्टि, क्रोकस, हाइयो, साइलि, लाइको, सल्फ।

„ हिलाता है हाथ पैर—कास्टि।

बार बार नींद टूटती है (Interrupted)—ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, वेञ्जो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कैल्के, कास्टि, चायना, डिजि, युफ्रे, हिपर, कैलि-कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रैनो-ब, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिंक।

श्रान्ति, क्लान्ति दूर करने वाला नहीं (Unrefreshing)—ऐलूमि, ऐमोन-का, आर्ज-नाइ, आर्स, ऐरा-कार्ब, वेल, कार्लस, चायना, कोबाल्ट, साइक्ला, डिजि, गुये, लैके, मैग-का, मेग-म्यू, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, पोडो, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, सल्फ, जिंक।

शीतावस्थामें (During chill)—**एपिस**, जेल्स, केलि आ, नेजे, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-म**, नक्स वोम, पोडो, सीरि, साइलि।

स्वप्न (Dream)—ऐकोन, ऐल्यू मि, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस **आर्जेण्ट-नाइ**, आर्निका, आर्स, बेरा-कार्ब, **ब्राइयो**, केल्के, कैना इ, केपि, कैमो, **चायना**, चिनि-सल्फ, सिपि, कीना साइक्ला, फ्लू-ऐ ग्रेना, ग्रेफा, हैलि, इग्ने, केलि-कार्ब, लेके, लाइको, **मैग-कार्ब**, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास ऐ, **फास**, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाडि, सिपि, **साइलि**, स्पञ्जि, स्टेनम, स्टेफि, स्ट्रैमो, **सल्फ**, थूजा।

„ अग्निके सम्बन्धमें—ऐनाका, आर्स, बेल, केल्के-फास, कार्बो ऐनि कोकस, क्यूरे, **हिपर**, क्रियो, लोरो, **मैग-कार्ब**, **मैग-म्यूर**, मैग सल्फ, मिफा, नेट्रम-म्यूर, फास, राम टक्स, सल्फ।

„ „ पृथ्वी अग्निमय मानो—रास-टक्स।

„ „ स्वर्गसे उतरी आ रही है मानो—सल्फ।

„ अपमानका (Insulting)—ऐसार, नेट्रम-सल्फ, टेरे।

„ अप्रीतिकर (Unpleasant)—केल्के, कैना मे, सिमि, काफि, जेल्स, **सल्फ**।

„ अवास्तविक (Fantastic)—केल्कि, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज कैमो, कोना, ग्रेफा, केलि-कार्ब, लेके, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-सल्फ, नक्स वोम, फोपि, साइलि सल्फ, जिङ्क।

„ असङ्गत (Absurd)—चायना, मिना स्टैनो सल्फ।

„ आत्महत्याके सम्बन्धमें—नेजा।

„ आनन्द-दायक—ऐलि फ्लू, आर्नि, आरम, केल्के, कार्बो ऐनि, कार्बो [illegible], कोना, कौकस, ग्रेफा, ऐमि कार्ब, [illegible], [illegible] कार्ब, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, **फोपि**, [illegible], [illegible], [illegible], **सिपि**, साइलि, [illegible], **स्टेफि**, [illegible] **थायो-टि**।

नींदकी अवस्थामें, बोलता है—ऐण्टिम-टार्ट, आर्निका, बेल, ब्राइयो, केल्के, कैम्फ, कार्बो ऐनि, कार्बो-वेज, केमो, सिनेबा, ग्रेफा, इग्ने, कैलि, कैलि-कार्ब, मेग-कार्ब, मैग-म्यूर, मार्क, म्यूरिऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रैफे, रास-टक्स, सैबाड, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, जिंक।

„ भ्रमण—ऐकोन, ऐगा, ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, ब्राइयो, साइक्ला, लैके, लाइको, ओपि, फास, स्पाइजि, स्ट्रि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिंक।

„ मुँह हिलाता है, मानो कुछ चबा रहा है—केल्के, सिपि।

„ मुखमण्डल, लाल—आर्निका, ऐरम-ट्रि, ओपि, वायो-ट्रि।

„ „ ठण्ढा और फीका—वेल।

„ मुंह फाडे रहता है—मार्क, ओपि, रास-टक्स, सेम्बु।

„ रोना—ऐल्यूमि, अरम, कास्टि, कार्बो-ऐनि, सिना, कैमो, कोना, हाइयो, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रियुम, रास-टक्स, सैबु, साइलि, स्ट्रि, स्टैनम, स्ट्रैमो।

„ सिर उठाकर चारों तरफ देखता है, तकियेसे—स्ट्रैमो।

„ हँसना—हाइयो, इग्ने, लाइको, फास-ऐ।

„ „ ऊँची आवाजसे—कास्टि, क्रोकस, हाइयो, साइलि, लाइको, सल्फ।

„ हिलाता है हाथ पैर—कास्टि।

वार बार नींद टूटती है (Interrupted)—ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, बेञ्जो-ऐ, कार्बो-ऐनि, केल्के, कास्टि, चायना, डिजि, युफ्रे, हिपर, कैलि-कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिंक।

श्रान्ति, क्लान्ति दूर करने वाला नहीं (Unrefreshing)—ऐलूमि, ऐमोन-का, आर्ज-नाई, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, कार्लस, चायना, कोबाल्ट, साइक्ला, डिजि, गुये, लैके, मैग-का, मेग-म्यू, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, पोडो, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाई, सल्फ, जिंक।

शीतावस्थामें (During chill)—**एपिस,** जेल्स, कैल्कि आ, मेजे, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-म,** नक्स वोम, पोडो, सोरि, साइलि।

स्वप्न (Dream)—ऐकोन, ऐल्यू मि, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **आर्जेण्ट-नाइ,** आर्निका, आर्स, बेरा-कार्ब, **ब्राइयो,** केल्के, कैना इ, कैप्सि, कैमो, **चायना,** चिनि-सल्फ, सिपि, कोना, साइक्ला, फ्लू-ऐ, ग्रेना, ग्रेफा, हेलि, इग्ने, कैलि-कार्ब, ल्केि, लाइको, **मैग-कार्ब,** मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** फास-ऐ, **फास, पल्स, रास-टक्स,** सेबाडि, सिपि, **साइलि,** स्पञ्जि, स्टैनम, स्टेफि, **स्ट्रैमो, सल्फ,** थूजा।

» अग्निके सम्बन्धमें—ऐनाका, आर्स, बेल, कैल्के-फास, कार्बो ऐनि, कोकास, क्यूरे, **हिपर,** क्रियो, लोरो, **मैग-कार्ब, मैग-म्यूर,** मैग-सल्फ, मिफा, नेट्रम-म्यूर, फास, रास-टक्स, सल्फ।

» „ पृथ्वी अग्निमय मानो—रास-टक्स।

» „ स्वर्गसे उतरी आ रही है मानो—सल्फ।

» अपमानका (Insulting)—ऐमार, नेट्रम-सल्फ, टैर।

» अप्रीतिकर (Unpleasant)—कैल्के, कैना-ग्रे, सिमि, फासि, ओल्स, **सल्फ।**

» अवास्तविक (Fantastic)—**कैल्के,** कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, कोना, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, **लैके,** नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम सल्फ, नक्स-वोम, ओपि, साइलि, सल्फ जिङ्क।

» असङ्गत (Absurd)—चायना, सिना कोनो, सल्फ।

» आत्महत्याके सम्बन्धमें—नेजा।

» आनन्द-दायक—ऐन्टि-क्रूड आर्नि, आर्स, कैल्के, कार्बो ऐनि कोना, कोकस, ग्रेफा कैलि कार्ब, लैके, मैग कार्ब, नेट्र नेट्रम म्यूर नक्स माम ओपि, फास ऐ, फास, प्लेटि, सिपि, साइलि, स्टाइ, स्टेफि, सल्फ, थायो-टि

स्वप्न, उद्विग्न (Anxious)—**ऐकोन**, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-का, ऐमोन-म्यू, ऐनाका, आर्ज-मे, आर्ज-नाइ, **आर्नि**, **आर्स**, अरम, बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइ, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, सिस्टा, **काक्कि**, कोना, क्रोकस, ड्रोसे, फेरम, गैम्बो, **ग्रेफा**, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, केलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लीरो, लेडम, लाइको, **मैग-कार्ब**, मैग-म्यूर, मैग-स, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-स, नाइ-ऐ, **नक्स वोम**, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, **फास**, प्लैटि, सोरि, **पल्स**, रैना-ब, रैना-स्क्व, रियूम, **रास-टक्स**, सार्सा, सिपि, **साइलि**, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, वेरे।

" " सोनेपर, बाईं करवटमें—लाइको, फास, पल्स, सिपि, थूजा।

" ऐतिहासिक—कैमो, मैग-कार्ब, फास, साइलि।

" कङ्काल समूह—ओपि।

" कलहका—आर्नि, बेप्टि, बेल, ब्राइयो, कास्टि, क्रोटे-हो, कैलि-ना, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिलिन, स्ट्रैम।

" कलेजा दबानेका, स्वप्न (Night mare)—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, बैप्टि, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैमो, सिना-वे, कोना, साइक्ला, फेरम, गुये, आइयो, लिडम, नेट्रम-कार्ब, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, **पियोनि**, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, **सल्फ**।

" कष्टदायक (Distressing)—ब्राइयो, सिमि, हाइपि, नक्स-वोम, रैफे, रास-टक्स, सल्फ।

" काम सम्बन्धी (Amorous)—ऐल्यूमि, ऐण्टिम-क्रूड, अरम, कैम्फ, कैना-इ, कैन्थ, सिकि, कोबाल्ट, कोना, साइक्ला, डिजि, डाय, जेल्स, ग्रेफा, इग्ने, आइरि, कैलि, कैलि-ब्रोम, कैलि-कार्ब, लैकि, लिलि-टिग, लाइको, **नेट्रम-का**, नेट्रम म्यूर, **नक्स-वोम**, **ओपि**, पेट्रो, **फास-ऐ**, फास, प्लैटि, पल्स, सैबाडि, सार्सा, सिपि, **स्टैफि**, सल्फ, टेरे, थूजा, **वायो-ट्रि**।

स्वप्न, काल्पनिक, अवास्तविक, (Visionary)—कैल्के, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

„ क्रोधका—आर्नि, ब्राइयो, मैग-कार्ब, **नक्स-वोम**, फास, स्ट्रैफि।

„ ख्याल नहीं रहता—आर्निका, आरम, बेल, ब्राइयो, कार्ब, चेलिडो, सिकि, हेलि, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सैबाडि, सिलि, स्पाइ, सल्फ, टैरे, वेरे।

„ गड़बड़, इधर उधरका (Confused)—ऐकोन, ऐल्यूमि, ब्राइयो, कैल्के, कैना-सै, चेलिडो, चायना, सिकि, काकि, क्रोकस, डाल्का, फेरम, ग्लोनो, हेलि, इग्ने, कैलि-ब्रोम, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **पल्स,** सैबाडि, सिपि, स्टैनम, सल्फ, वैले।

„ गर्भ सञ्चारका—पिक्रि-ऐ।

„ गिरजानेका—ऐमोन-म्यूर, **बेल,** डिजि, गुये हिपर, क्रियो, मार्क, पल्स, सार्सा, सल्फ, थूजा।

„ „ ऊँचे स्थानसे—डिजि, क्रियो, मेजे, सल्फ, **थूजा।**

„ घटना-समूह, पहिलेकी—ऐकोन, ऐग्रिम-टार्ट, ब्राइयो, कैल्के-फास, सिकि, क्रोकस, लैके, रास-टक्स, **साइलि,** सल्फ।

„ „ पिछले दिनका—ऐकोन, **ब्राइयो,** सिकि, नक्स वोम, पल्स।

„ „ बहुत दिन पहिलेका—**साइलि।**

„ „ भविष्यमें जो होगा—मैङ्ग, सल्फ।

„ चलता रहता है, जागनेके बाद भी—चायना, लाइको, नेट्रम म्यूर।

„ चोरका—ऐल्यूमि, आर्नि, आरम, कैलि कार्ब, **मैग-कार्ब,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, सैनि, साइलि।

„ „ घरके चारों तरफ जबतक अच्छी तरह नहीं देख लेता तबतक सो नहीं सकता—**नेट्रम-म्यूर।**

„ „ पीछेसे भगाता है—नेट्र म्यूर।

„ जानवर (Animals)—ऐमोन म्यूर, **आर्नि,** मार्क, नक्स वोम, फास पल्स, सल्फ।

„ „ कीट, पतङ्ग आदि (Vermin)—ऐमोन कार्ब, बेलिडो, कैल्के, [illegible] लैक-कै, [illegible], म्यू-रि नक्स वोम, फास, [illegible]।

स्वप्न, जानवर, कीट, पतङ्ग आदि, कलेजेके ऊपर घूमते फिरते हैं —ऐमोन-कार्ब, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, फास।
„ „ कुत्ते (Dogs)—आर्नि, लाइसि, मार्क सल्फ, वेरे।
„ „ „ काले—आर्नि।
„ „ „ काटता है—कैल्का, लाइसि, मार्क, सल्फ, वेरे।
„ „ चूहेका (Mouse)—कोल्चि, मैग-स, सिफि।
„ „ „ छोटे चूहे (Rats)—सिपि।
„ „ बिल्ली—आर्नि, आर्स, कैल्के-फास, डाय, ग्रेफा, हाइयो, लेक-कै, मेजे, नक्स-वोम, पल्स।
„ „ सर्पका—आर्जे-नाइ, लैक-को, रैना-सि।
„ जागने की अवस्थामें—ऐकोन, इग्ने, नक्स-वोम, ओपि, फास, साइलि, सल्फ।
„ झगड़ेका (Fight)—ऐलि-सि, फेरम, नेट्रम म्यूर, रेना-सि, स्टैफि।
„ तूफान—आर्स, साइलि।
„ „ बज्रपात—आर्नि, आर्स।
„ दुःखका—आर्स, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, रियूम।
„ दुर्घटनाका (Accident)—**आर्स, ग्रैफा,** नक्स-वोम।
„ दुर्भाग्यका (Misfortune)—ऐमोन-म्यूर, आर्नि, आर्स, वेल, कैमो, चायना, **ग्रैफा,** कैलि-कार्ब, **लाइको,** मैग-कार्ब, मार्क, नक्स-वोम, फास, **पल्स,** सल्फ-ऐ, सल्फ, **थूजा।**
„ दूसरे आदमीके साथ एक ही बिछावनमें सो रहा है मानो—पेट्रो।
„ देश घूमनेका (Journey)—एपिस, कैल्के-फास, कार्बो-ऐ, क्रोटे-हो, **कैलि नाइ,** मैग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, ओपि, रास-टक्स।
„ पानीका—ऐलि-सि, ऐलि-से, **ऐमोन-म्यूर,** आर्स, डिजि, फेरम, ग्रेफा, कैलि कार्ब, लाइको, मिफा, मार्क, साइलि, सल्फ, वेरे-वि।
„ „ गिरता है, जलके अन्दर—ऐमोन-म्यूर, डिजि, फेरम।
„ „ दुर्घटना—ग्रैफा, मैग का।
„ पीछे पीछे आता है, मानो कोई—मार्ज-मे, पेट्रो, वेन, क्रियो, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ऐ, सिपि, साइलि, सल्फ, वेरे।

…कार्लि, सैंग-कार्ब, मार्फि, फास ऐ।

…गद, थोड़ा—नक्स-म।

…र्नं, लाइको।

…ी वल—बेल, ब्राइयो, कौल्चि, सिना, कोलोसि,

…र्, कोल्चि, सल्फ।

…रम, फेरम-मेट, मार्क, मस्क, फास, रेना-मा,

…डि, सल्फ।

…ै, फास।

ब्राइयो, सोरि।

…ा, सैनाइ।

…कोल्चि, लैके, लाइको, फास।

—कार्बो वेज, मार्क-कार, प्लेटि, पल्स,

…नक्रियामें सुँह घुमेड़ कर—मेडो।

…सिड-फ्लु ड, ऐगिए-टार्ट, चायना, बाइयो,

…चि, फेरम, ग्रने, ऐक-मो, माइको,

…, फास, प्लेटि, पलस, रास-टक्स,

…नक्स मोम।

…-टार्ट, बेप्टि, बेल, चायना,

…ो, रास टक्स,

पल्स, …

…।

।

…, मक

स्वप्न, मृतदेह सब आदमियोंका—ऐनाका, आर्जेण्ट-नाई, आर्निका, आर्स, आरम, कैल्के, कैल्के-सल्फ, कोना, क्रोटे-टीर, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मैग म्यूर, मेडो, फास-ऐ, फास, प्लैटि, सल्फ-ऐ, सल्फ, थूजा, वार्वा।

" मृत्यु सम्बन्धी—कैल्के, कैल्के-फ्लू, लेके, सल्फ, चेलिडो, थूजा।

" युद्धका (Battle)—ऐलि-सि, ब्राइयो, थूजा, वार्वा।

" रुपयोंका—ऐल्यूमि, साइक्ला, मैग-कार्ब, मैग म्यूर, फास, पल्स।

" रोगका—ऐमोन म्यूर, बोरा, कैल्के, क्रियो, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, नक्स-वोम, फास, साइलि, सल्फ।

" विपदका—आर्स, कैना-ई, हिपर, लेके।

" विरक्ति जनक—ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐसार, आर्स, ब्राई, कैना-इ, कास्टि, कोना, गैम्बो, जेल्स, ग्रैफा, इग्ने, मस्क, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, रास-टक्स, स्टैफि, सल्फ।

" विष पीनेका—क्रियो।

" विष प्रयोगका,—कैलिना, नेट्रम-म्यूर।

स्वप्न, शव यात्राका—ब्रोमि, चेलिडो, मैग-कार्ब, टैरा।

" सुख दायक (Happy)—काफि, क्रोकस, लेके, ओपि, सल्फ।

" हत्याका (Murder)—ऐमोन-म्यूर, आर्निका, बेल, लेकि-ऐ, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" हास्यजनक (Comical)—ग्लोनो, सल्फ।

सो जाता है (Falling asleep)—उत्तापावस्थामें—ऐण्टिम-टार्ट, ऐपिस, थूपे-प, जेल्स, लेचि, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, ओपि, पोडो, रोवि, रास-टक्स, सैम्बु, स्ट्रैमो।

" उत्तर देते देते, बातका—आर्निका, वैप्टि, हाइयो।

" खड़े खडे—ऐकोन, कोरा-रू, मैग-का, मार्फि।

" पढनेके समय—कोल्चि, नेट्रम-म्यूर.।

" बैठे बैठे—सिना, नेट्रम-म्यूर, पल्स, सिपि।

सो जाता है, बोलते बोलते—कार्लि, बैंग-कार्ब, मार्फि, फास ए।

» मानसिक परिश्रमके बाद, थोड़ा—नक्स-म।

» सङ्गमके बाद—बैरा-कार्ब, लाइको।

सोनेका प्रकार, निद्रावस्थामें, पेटके बल—बेल, ब्राइयो, कैल्के, सिना, कोलोसि, पोडो, पल्स, स्ट्रैमो।

» करवट बदलकर—बैरा-कार्ब, कोल्चि, सल्फ।

» » असम्भव—ऐकोन, फेरम, फेरम-मेट, मार्क, मस्क, फास, रेना-बा, रास-टक्स, सेबाडि, सल्फ।

» » दाहिने—आइलैन्थ, लैके, फास।

» » » असम्भव—बोरा, ब्राइयो, सोरि।

» » बायें—बैरा-कार्ब, बोरा, सेबाड।

» » » असम्भव—कार्कि, कोल्चि, लैके, लाइको, फास।

» गेण्डुरी मारकर, गुटसुटाकर—कार्बो वेज, मार्क-कार, प्लैटि, पल्स, स्ट्रैमो।

» घुटनेके ऊपर जोर देकर, और तकियामें मुँह घुसेड़ कर—मेडो।

सोनेका प्रकार, चित होकर—ऐकोन, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, सिकि, कोका, कोल्चि, फेरम, इग्ने, मैंक मे, लाइको, मार्क-कार, मेजे, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पलस, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे, जिङ्क।

» » असम्भव—ऐसे-ऐसि।

» » सिर नीचे करके—डिजि, नक्स-वोम।

» पैरकी तरफ उतर आता है—पार्स, ऐण्टि टार्ट, कैल्टि, हेल, चायना, हेलि, लाइको, म्यू-ए, जिङ्क।

» बैठे बैठे—फार्स, सिना, केलि कार्ब, लाइको, रास टक्स सल्फ।

» भुजा सिर पर रखकर—[illegible] नक्स वोम, पल्स, सल्फ।

» » सिरके नीचे रखकर—नक्स वोम, पल्स।

» » पेटके ऊपर रखकर—काक्कि, पल्स।

» सिर पीठकी तरफ टेढ़ा करके—हेप सिका, नक्स वोम, [illegible]

सोनेका प्रकार, सिर सामनेकी तरफ टेढ़ा करके—ऐकोन, सिकि, कूप्रम, स्टैफि, वायो-ट्रि।

„ सोना, असम्भव—कैमो, लाइको, सल्फ।

„ हाथ पैर फैलाकर—ऐगा, बेल, कैमो, चायना, डाल्का, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स।

„ „ सिकोड़ कर—"गेण्डुरी मार" देखिये।

शीत (CHILL)।

शीत-साधारण (Cold in general)—ऐकोन, इस्कि, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐन्था, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टा**, **एपिस**, **ऐरानि**, **आर्नि**, **आर्स**, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, **कैन्थ**, कैप्सि, **कार्बो-वेज**, **सिड्रो**, कैमो, **चेलिडो**, चायना, चिनि-सल्फ, सिफि, सिमिक्स, कोल्चि, साइक्ला, डिजि, इलैप्स, **युपे-पर्फो**, युपे-पार्पि, फेरम, **जेल्स**, हिपर, हाइयो, **इग्ने**, आइयो, **इपि**, कैलि-कार्ब, कैलि-आइ, ईका-ना, **लेडम**, **लाइको**, **मेजे**, म्यू-ऐ, नेट्रम-आ, **नेट्रम-म्यूर**, **नाइ-ऐ**, **नक्स-मस**, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पोडो, गुयारि, **पल्स**, **रास-टक्स**, रूटा, रोबि, **सैबाडि**, सैबु, **सिके**, **सिपि**, साइलि, **स्टैफि**, स्ट्रेमो, सल्फ, टैरे, थूजा, **वेरे**, **वेरे-वि**।

„ दिनमें (Day time)—ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, बैप्टी, कैम्फ, **चायना**, नेट्रम-म्यूर, साइलि।

„ सवेरे—ऐकोन, **ऐङ्ग्रा**, एपिस, आर्नि, आर्स, **बोवि**, **ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-वेज, सिड्रा, चायना, चिनि-आ, **कोना**, साइक्ला, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, हिपर, लेडम, लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर**, **नाइ-ऐ**, **नक्स वोम**, फास, **पोडो**, रस-बे, **सिपि**, स्पाइ, स्टैफि, सल्फ, **वेरे**।

शीत, सवेरे बिछावनपर—आर्निका, बोवि, चिनि-स, ग्रैफा, लेडम, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सल्फ, वेरे।

„ „ उठनेके साथ—कैल्के, हिपर, मार्क, नक्स-वोम, स्पाइ, वेरे।

„ दोपहरके पहले—ऐम्ब्रा, ऐङ्गा, ऐण्टि-क्रू, आर्निका, आर्स, ऐसार, कैक्ट, कैल्के, चिनि-आ, चायना, साइक्ला, ड्रोसे, लेडम, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास-ऐ, स्टानि, सल्फ, थायो-ड्रि।

„ दोपहरमें—आर्नि, आर्स, बोरा, इलेटे, इलेप, युपे-पर्फो, लोबे, लाइको, नेट्रम-म्यूर, पल्स, सल्फ।

„ तीसरे पहरमें—ऐकोन, ऐङ्गा, आर्जे मे, एपिस, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, बोरा, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चेलिडो, चायना, चिनि-स, सिना, काकि, कोना, ड्रोसे, फेरम, जेलस, ग्रैफा, मेके, लाइको, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रैना-ब, रास टक्स, सैबाडि, साइलि, स्पाइ, स्टेफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा।

„ सन्ध्यामें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यूर, एपिस, आर्निका, आर्स, बोरा, बोवि, बेल, ब्राइयो, कैनेडि कैल्के, केप्स, कैष्टि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चेलिडो, चायना, सिना, साइक्ला, गैम्बो, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, केलि कार्ब, मेजे, मैग-म्यू, मार्क, नाइ-ऐ, नक्स वोम, पेट्रो, फास ऐ, फास, पल्स, रास टक्स, सिपि, स्टेफि, सल्फ।

„ रातमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमोन म्यूर, आर्स, बेल, बार्ड, कास्टि, युपे-पर्फि, फेरम, हिपर, ब्राइयो, मेजे मार्क, नाइ ऐ नक्स-वोम, पेट्रो, फास, रास-टक्स सल्फ।

„ „ आधी रातके पहले—फास, पल्स।

„ „ आधी रातमें—आर्स, कैनेडि, हिपर, सोरि साइलि थूजा।

अग्रगामी (Anticipating)—आर्स, ब्रू, ब्राइयो, कैमो चायना, चिनि-स, युपे पर्फो, इग्ने, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।

आधे अङ्गमें (One sided)—आर्नि, बैरा-कार्ब, **ब्राइयो**, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कैमो, चेलिडो, लेके, **लाइको**, **नक्स-वोम**, पेरि, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपि, **साइलि**, सल्फ, थूजा, वार्वा।

„ दाहिने—**ब्राइयो**, **चेलिडो**, लाइको, नक्स-वोम, पेरि, फास, पल्स, **रास-टक्स**।

„ बायें—बैरा-कार्ब, **कार्बो वेज**, **कास्टिक**, **ड्रोसे**, लेके, **लाइको**, रास-टक्स, स्टेनम, सल्फ, **थूजा**।

आरम्भ (Beginning) ओठमें—ब्राइयो।

„ चेहरेपर—कास्टि, कैमो, मार्क, पल्स, रोडो।

„ छातीपर—**एपिस**, कार्बो-ऐनि, मार्क, नक्स-वोम, रास-टक्स, सिपि।

„ नाभी प्रदेशमें—पल्स।

„ पीठपर—वैप्टी, वेल, **कैप्सि**, युपे-पर्फो, युपे-पर्पि, गैम्बो, हाइयो, **लेके**, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स।

„ „ ऊपरी पीठमें (Dorsal region)—युपे-पर्फो, जेल्स, लेके, नेट्रम-म्यूर।

„ „ कमरमें—युपे-पार्पि, नेट्रम-म्यूर।

„ „ पृष्ठफलकास्थिके बीचमें, दोनो—**कैपसि**, रास-टक्स, सिपि।

„ पैरमें (Legs)—सिङ्को, चायना, केलि-बाई, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, थुजा।

„ पैरके तलवेमें (Feet)—चेलिडो, जेल्स, हाइयो, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

„ पैरकी अंगुलियोंमें—ब्राइयो, **नेट्रम-म्यूर**, सिपि, सल्फ।

„ „ पीटलीमें (Calves)—लेके, लाइको।

„ हाथमें—चेलिडो, युपे-पर्फो, **जेल्स**, इपि, पल्स, नक्स-वोम, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

„ „ दाहिने—मार्क।

„ „ बायें—कार्बो-वेज, नक्स-वोम।

आरम्भ, पीठपर और पैरके तलुवामें—एपिस, ब्राइयो, कार्बो-वेज, जेल्स, नेट्रम सूर।

» हाथकी अगुलियोंमें—ब्राइयो, नेट्रम-सूर, नक्स-वोम, सिपि, सल्फ।

उठकर बैठनेसे या खडे होनेसे (On rising up)—बेल, ब्राइयो, मार्क-कोर, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

उत्तप्त होनेसे (Heated) ज्यादा (Over heated)—ऐकोन, ब्राइयो, कार्बो-वेज, केलि-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, साइलि, थूजा।

उद्वेगके साथ, मानसिक (With anxiety)—ऐकोन, आर्स, जेल्स।

ऋतुके पहले—कैल्के, केलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

» समय—ऐमोन-कार्ब, बेल, कैल्के, कैमो, साइक्ला, युपि, ग्रेफा, क्रियो, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिके, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

» बाद—ग्रेफा, नक्स-वोम, पल्स।

एक दिनका अन्तर देकर (Tertian) (४८ घण्टेके बाद)—इग्नि, ऐण्टिम-क्रू, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, ऐरानि, आर्स, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, सिड्रो, कैमो चायना, चिनि-स, साइमि, युपे-पर्फो, युपे-पार्पि, जेल्स, हाइयो, इपि लैके, लाइको, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, रास टक्स सल्फ, थूजा, वेरे।

» ४८ घण्टेके अन्दर दो मर्तबे (Double tertian)—इग्नि, एपिस आर्स, चायना, इलेप युपे पार्पि, गेम्बो, लाइको नक्स वोम, पल्स रास-टक्स, थूजा, वेरे।

कांपना (Shivering, regors)—ऐकोन ऐगा ऐमोन कार्ब ऐनाका, ऐण्टिम टा, एपिस, ऐरानि आर्स, बेल ब्रोमि ब्राइयो कैम्फ, कैन्थ, कैना बि कैप्सि, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, सिमिसि,

चायना, **चिनि सल्फ**, सिना, क्लिमे, काकि, काफि, **कोलचि**, कोलोसि, क्रोकस, ड्रोसे, इग्नेप, लोरो, युफ्रे, युपे-पर्फो, युपे-पपि, **फेरम**, गेम्बो, जेल्स, **हिपर**, **इग्ने**, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-ए, लेके, लोरो, **लेडम**, लोबि, मैंग-कार्ब, मिनि, मार्क, मेजे, मस्क, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-सल्फ, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, फास-ए, **फास**, प्लैटि, पोडो, **सोरि**, **पल्स**, रास-टक्स, **रूटा**, सेबाडि, सैंबु, सिके, साइलि, **सल्फ**, स्टैफि, टैरे, **थूजा**, वार्बा।

कॉपना, सवेरे—आर्स, चायना, हेलि, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पोडो, वेरे।

" दोपहरके पहले—**नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, **फास**, पल्स।

" तीसरे पहर—ऐङ्ग, **आर्स**, केन्थ, चायना, **फास**, रास-टक्स, स्टैफि, सल्फ।

" सन्ध्यामें—ऐकोन, **आर्स**, कैप्सि, चेलिडो, चायना, इग्नेप, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, लेके, **लाइको**, मार्क, पेट्रो, फास, स्टैफि, साइलि, सल्फ।

" " घूमने फिरनेसे खुली हवामें—**आर्स**, चायना।

" रातमें—ऐकोन, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, फास, रास-टक्स, सल्फ।

" " दर्दके साथ हड्डियोंमें—आर्नि, आर्स, चायना, नेट्रम-म्यूर, पल्स, युपे-पर्फो, रास-टक्स, पाइरो।

" खोलनेसे, शरीर—कैमो, **नक्स-वोम**।

" गरमीके साथ—**आर्नि**, आर्स, बेल, ब्राइयो, केमो, चेलिडो, हेलि, हिपर, इग्ने, लैके, मार्क, पल्स, रास-टक्स।

" " सिरमें—**आर्नि**, **बेल**, ब्राइयो, कैक्ट।

" ज्यादा देरतक ठहरने वाला—आर्स, गेम्बो, लेडम, मेजे, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सिपि, वेरे।

" " किसी तरह घटता नहीं है—**ऐरानि**, नक्स-वोम।

काँपना, दाँत कटकटानेके साथ—आर्स, कैल्के, कैम्फ, युपे-पर्फो, हिपर, इग्ने, लैके, **नेट्रम-म्यूर**, नेट्रम-स, नक्स-वोम, प्लेटि, फास, **रास-टक्स**, थूजा।

» नीले रङ्गकी और ठण्डकके साथ त्वचा—कैम्फ, कार्बो-वेज, चायना, नक्स-म, नक्स-वोम, सिकि, रास-टक्स।

» » चेहरा—रास-टक्स।

» पसीनेके साथ—सिड्रो, युपे-पर्फो, **नक्स-वोम**, रास-रू, रास-टक्स वैरे।

» पानी पीनेसे—आर्स, बेल, कैल्के, सल्फ, **कैप्सि**, चायना, इग्नि, युपे-पर्फो, लाइको, **नक्स-वोम**।

» साँस लेनेसे—**ब्रोमि**।

» हिलने डोलनेसे—ऐल्यूमि, ऐण्टिम-टार्ट, कैप्सि, सिड्रो, युपे पर्फो, मेंगु, साइलि, सल्फ, थूजा।

क्रोधके कारण—ब्राइयो, नक्स वोम, कैमो।

खुले रहनेपर (Exposure to)—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, **कैल्के**, **सिड्रो**, चायना, चिनि-स, हिपर, रास-टक्स।

» गरमीमें—कैक्ट, बेल, ग्लोनो, नेट्रम-कार्ब।

» जल, भूमिमें—ऐन्ट्र, ब्राइयो, सिड्रो, चायना, चिनि स, नेट्रम म्यूर, नेट्रम-स।

» झुरझुर बहनेवाली हवामें—ऐकोन, कैल्के, हिपर, मार्क।

» ठण्डे पानीसे स्नान करनेके कारण—कैल्के, रास-टक्स।

» पानीके ऊपर—नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम।

» पानी बरसने पर—ऐरानि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **रास टक्स**।

» मलेरिया युक्त स्थानमें—**सिड्रो**, **आर्नि**, चायना, चिनि स, युफ्रे, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, सल्फ।

गरमानेकी इच्छा होती है, लेकिन उससे घटता नहीं है (Desire for warmth which does not relieve)—ऐकोन इथ ग्राइमा हिपर, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर **नक्स-वोम**, फास फारिक, हैर।

गरमानेकी इच्छा होती है, बाहरी गर्मी सही नहीं जाती—**एपिस**, कैम्फ, इपि, **पल्स**, **सिके**, **सिपि**।

गति (चाल) ऊपरकी तरफ चढ़ती है (Ascending)—ऐकोन, आर्स, डिजि, युपे-पर्फो, जेल्स, हाइयो, लैके, मार्क, फास, पल्स, **सेवाडि**, सार्सा, सिपि, **सल्फ**।

„ „ पीठमें—युपे-पार्पि, जेल्स, **लैके**, पल्स, सेबाडि, सल्फ।

„ और पीठ होकर नीचेकी तरफ उतर आती है—**युपे-पार्पि**, **जेल्स**, सल्फ।

„ नीचेकी तरफ उतरती है (Descending)—ऐकोन, **ऐगा**, आर्स, बेल, सिकि, काफि, युपे-पर्फो, मेजे, **मस्क**, फास, सोरि, पल्स, सेबाडि, स्टेफि, **स्ट्रैमो**, सल्फ-ऐ, सल्फ, वैले, **वेरे**।

गात्रावरण खोलनेपर (ओढ़ना उतारनेपर-Uncovering, undressing)—ऐकोन, **ऐगा**, ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि, **आर्निका**, आर्स, बेल, बोरा, कैलि-म्यू, कैमो, **चायना**, **काफि**, **साइक्ला**, युपि पर्फो, हिपर, मार्क, मस्क, नक्स-वोम, **नक्स-वोम**, फास, पल्स, **रास-टक्स**, **साइलि**, स्क्वुइ, **स्ट्रैमो**, **थूजा**।

ठण्ढा, बरफकी तरह-शरीर (Icy, coldness of the body)—ऐण्टिम-टा, **आर्स**, ब्राइयो, **कैम्फ**, **कार्बो-वेज**, **कूप्रम**, **सिके**, सिपि, **साइलि**, स्ट्रैमो, वेरे।

„ ठण्ढी साँसके साथ—**कार्बो-वेज**, वेरे।

„ पसीनासे ढका हुआ, हाथ पैर नीलेरङ्गके—स्ट्रैमो, वेरे।

„ शरीर खोलनेकी इच्छाके साथ—कैम्फ, **सिके**।

ठण्ढा शरीर, सिरमें गर्मी (Coldness of the body with heat of head)—**आर्ज-नाइ**, बेल, कैक्टस, स्ट्रैमो।

डरकी वजहसे (From fright)—ऐकोन, जेल्स, इग्ने, मार्क, नक्स-वोम, ओपि, प्लैटि, पल्स, साइलि, वेरे।

दबा रखनेको कहता है (Desire to be held down)—जेल्स, लैके।

दुःखसे (From grief)—जेल्स, इग्ने।

दो दिनके अन्तरसे (७२ घण्टेके बाद) (Quartan)—ऐकोन, ऐण्टिम क्रू ड, एपिस, आर्निका, आर्स, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-स, **साइमे**, क्लिमे, कोरा-रू, इले, **हाइयो**, इग्ने, **आइयो**, यूपि, लैके, लाइको, मिनि, नेट्रम-म्यू र, नक्स-वोम, **पल्स**, रास-टक्स, **सैबाडि**, सल्फ, थूजा, **वेरे** ।

» दो बार ७२ घण्टेके अन्दर (Double quartan)—आर्स, चायना, **डाल्का**, युपे-पार्फि, लाइको, नक्स-म, पल्स, रास टक्स ।

नींदके समय (During sleep)—ऐमोन-कार्ब, आर्स, बेल, **बोरैक्स**, ब्राइयो, कैल्कि, इग्ने, नेट्रम-म्यू, ओपि, फास-ऐ, फास, पल्स, सल्फ ।

» बाद—ऐगा, **ऐलूमि**, **ऐमोन-कार्ब**, ऐम्ब्रा, आर्स, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

पसीनेके साथ (With perspiration)—आर्स, कैल्के, युपे, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, सैबाडि, सैगु, सल्फ, थूजा ।

परिवर्तनशील (Changing type)—इग्ने, युपे पर्फो, **इग्ने**, पल्स, **सिपिया** ।

पानी ढाल दिया है मानो—ऐगा, ऐण्टिम टार्ट, ऐनाका, एपिस, **आर्निका**, आर्स, बैरा-कार्ब, चाय, चेलि, चिनि म, लिडम, मेग काय, **मार्क**, नेट्रम म्यू र, नक्स-वोम, पल्स, फास, **रास-टक्स**, सैबाडि, वेरे ।

पानीसे भींगकर—ऐकोन, ब्राइयो, कैल्के, डाल्का, **रास-टक्स**, सिपि, साइलि ।

» गरम होनेके बाद, बहुत—ऐकोन, कैल्के, क्लिमे, रास टक्स ।

पाक्षिक—आर्स, कैल्के, चायना, पल्स ।

पीनेसे पीनेकी चीजें, खांसी पैदा होती है—सोरि ।

» शीत का बढ़ना और शिथर्मी—युपे-पर्फो ।

» » और उल्टी—**आर्स**, नक्स वोम ।

» सिरका दर्द और दूसरे दूसरे लक्षणोंका बढ़ना—**साइमे** ।

» गर्म चीजें सहन होती है—आर्स, क्रियट, युपे पर्फो, लाइको नक्स वोम, रास टक्स, सल्फ ।

पीछे हटता रहता है (Postponing)—ब्राइयो, चायना, **गेल्सो**, इपि, इग्ने,

पेशाव करनेके पहले—ब्राइयो, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा।

„ समय—जेल्स, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, **प्लेटि**, पल्स, स्ट्रेमो, सल्फ, थूजा।

„ बाद—आर्निका, **प्लेटि**, पल्स, सल्फ, थूजा।

प्रतिदिन (Quotidian)—ऐकोन, ऐङ्गा, आर्निका, **आर्स**, **कैक**, कैम्पि, सिड्रा, चायना, चिनि-सल्फ, सिना, कय्बे, ड्रोसे, युपे-पर्फो, जेल्स, **इपि**, लाइको, **नेट्रम-म्यूर**, **नक्स-वोम**, पोडो, **पल्स**, रास-टक्स, सैबु, स्पाइ, सल्फ।

„ दो मर्तबे (Double quotidian)—आर्स, बेल, चायना, इलाटे, **ग्रेफा**, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रेमो, सल्फ।

प्रधान लक्षण (Predominating)—**ऐसिड-क्रूड**, **ऐसिड-टार्ट**, एपिस, **ऐरानि**, **आर्नि**, आर्स, बोवि, **ब्राइयो**, **कैम्फ**, **कैन्थ**, **कैप्सि**, कास्टि, सिड्रो, **चायना**, **चिनि-सल्फ**, काकि, युपे-पर्फो, गैम्बो, लाइको, **मिनि**, मार्क, **मेने**, **नेट्रम-म्यू**, **नक्स-वोम**, पेट्रो, पल्स, रास-टक्स, रोबि, सेबाडि, **सिपी**, **स्टैफि**, सल्फ, **वेरे**।

„ सवेरे—ब्राइयो, **युपे-पर्फो**, **नेट्रम-म्यू**, **नक्स-वोम**, पोडो, **वेरे**।

„ दो पहरमें—ऐसिड-क्रू, **सल्फ**।

„ तीसरे पहर—**आर्स**, **लाइको**, **पल्स**, रास-टक्स।

„ संध्यामें—सिना, हिपर, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सल्फ।

„ रातमें—एपिस, मार्क, फास।

„ देर तक ठहरनेवाला, पसीना या प्यास न लगने के साथ—**ऐरानि**।

„ „ थोड़ा गरम, प्यास न लगना—**पल्स**।

बाहरका (External)—**ऐकोन**, इपि, ऐल्यूमि, **ऐमोन-म्यू**, ऐसिड-टार्ट, एपिस, **आर्स**, बेल, डिजि, यूफ्रे, इपि, **इग्ने**, मार्क, मेजे,

नाइट्रि-ए, ओलिये, फास, सैवाडि, सिलि, सल्फ, वेरे, वेरे-वि, वार्बा, जिङ्क ।

बाहरका, बिन्दु बिन्दु स्थानमें (Spots)—ऐम्ब्रा, कास्टि, कैमो, ड्रूसे, लेडम, मेजे, पैरि, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाइ।

" हैजाकी तरह—कैम्फ, सिके, वेरे ।

बिछावनपर (In bed)—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐन्ट, आर्स, अरम, वेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, चेलिडो, ड्रोसे, फेरम, हिपर, हाइयो, कैलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मार्क, मार्क कोर, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पैरि, फास-ऐ, फास, पल्स, रोडो, सेलि, साइलि, सल्फ ।

" करवट बदलनेसे—ऐकोन, ब्राइयो, हिपर, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, पल्स, साइलि, सल्फ।

" हाथ बाहर करने पर बिछावनसे—वेरा-कार्ब, कैम्फ, हिपर, फास, रास-टक्स, साइलि।

भयानक, विकार सहित (Violent, with delirium)—आर्निका आर्स, बेल, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ वेरे।

" अचैतन्यता सहित—बेल, हिपर, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, ओपि, पल्स।

" उत्ताप अवस्था, बादमें विकार नहीं होता—ऐरानि, लेडम, मेजे।

" चेहरा, लाल रंगका प्यासके साथ—फेरम, ड्रूसे।

भीतरी (Internal)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्नि, आर्स ब्रेन, आर्स, ब्राइयो, कैम्फ, कैप्सि, कास्टि, कैमो चायना, सिमि स, काक, काफि, कोना, डिजि, हायो, गुर्फ, हिपर, इग्नि, मार्क, नेट्रम म्यूर, नेट्रम स, नक्स-वोम, फास, ओपि, पल्स, रास टक्स, सिपि, सल्फ, थूजा, वेरे।

" अस्थि समूहके अन्दर भागों—आर्नि, इग्नेप, मार्क, वेरे।

भीतरी, गिरा समूहके अन्दर मानो—ऐकोन, आर्स, रास-टक्स, वेरे।

भोजनके समय—युफ्रे, लाइको, रैना-सि, रास-टक्स, साइलि।

„ बाद—आर्जे-नाइ, आर्स, ऐसार, ब्राइयो, कैल्के, कार्वो-ऐनि, कार्वो-वेज, कास्टि, ग्रैफा, इपि, कैलि-कार्व, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पेट्रो, पल्स, रैना-ब, रास-टकस, सल्फ, टेरे।

मासिक—नक्स-मस, नक्स-वोम, पल्स, सिपि।

वार्षिक (Annual)—आर्स, कार्वो-वेज, लेकि, नेट्रम-म्यू, रास-टक्स, रास-वे, सल्फ, थूजा।

यंत्रणाके साथ (With pains)—वोवि, कोलोसि, युफ्रे, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-नाइ, मेजे, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्क्वुइ, सल्फ।

शीत शीत (Chilliness)—ऐकोन, ऐगा, ऐनाका, एपिस, ऐरानि, आर्जेण्ट-नाइ, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, वैपटि, वेरा-कार्व, वेल, ब्राइयो, केल्के, कैम्फ, कार्वो-वेज, कास्टि, चेलिडो, सिकि, चायना, चिनि-सा, युफ्रे, फेरम, जेलस, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, इपि, लोरो, लिडम, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओलिए, पेट्रो, फास, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सैवाडि, सैवा, सिपि, सल्फ, टेरे, टियुक्रि।

„ तीसरे प्रहर—ऐकोन, वैरा-कार्व, कार्वो-ऐनि, क्रोकस, लाइको।

„ सन्ध्यामें—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्व, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, पल्स, रास टक्स, सल्फ।

„ ऋतुके पहिले—ब्राइयो, कोलो, काफि, फास, पल्स, सिके, सिपि, सल्फ, टेवे।

„ पसीनेमे साथ—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, चायना, कैल्यूमि, युपे-पर्फो, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम फास, पल्स, सल्फ, थूजा।

शीत शीत, बिछावनका कपड़ा थोड़ा हिलनेसे—ऐकोन, आर्निका, नक्स-
वोम, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ भोजनके समय, कार्बो-ऐनि, युफ्रे, रेना-सि।

„ „ बाद—कैल्के, कार्बो-ऐनि, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

समय (Time)-सवेरे ५ बजे—ऐण्टि-टार्ट, एपिस, बोवि, चायना।

„ „ ६ बजे—आर्निका, बोवि, युपे-पर्फो, हिपर, लाइको, नक्स वोम,
वेरे।

„ „ ८ बजे—युपे-पर्फो, पल्स।

„ „ ९ बजे—युपे-पर्फो, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ „ से १० बजे तक—युपे पर्फो रास-टक्स।

„ „ „ ११ बजे तक—ऐले-ड्रि, नेट्रम-म्यूर, स्टैनम।

„ दोपहरके पहले १० बजे—आर्स, बैपटी, जेल्स, नेट्रम-म्यूर, पल्स,
रास-टक्स, स्टैनम, सल्फ।

„ „ १० बजेसे ११ बजे—आर्स, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ „ ५ बजे—सल्फ।

„ „ ११ बजे—बैपटी, कैक्ट, चिनि स, इपि, नेट्रम-म्यूर, नक्स-
वोम, सिपि।

„ १२ बजे—ऐण्टिम-क्रू ड, इलेप्स, कैलि कार्ब, लैके, साइलि, सल्फ।

„ दोपहर १२ से—२ बजे—आर्स, लैकि, सल्फ।

„ तीसरे पहर १ बजे—आर्स, कैक्ट, लैके, पल्स, सल्फ।

„ „ „ से २ बजे—आर्स, युपे-पर्फो साके, नेट्रम म्यूर।

„ „ २ बजे—आर्स, कैल्के, युपे पर्फो, फेरम मेर्क आर्स पि.
पल्स।

„ „ ३ बजे—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्स, कैल सिड्रो,
चिनि, सल्फ, केप स्टैफि, थूजा।

„ „ „ से ४ बजे—एपिस, लैके।

„ „ „ „ ५ बजे—एपिस, कोना।

समय तीसरे पहर ३ बजे से ६ बजे—आर्स, युपे पर्फा।

" " ४ बजे—एपिस, सिङ्गो, हिपर, लाइकी, नक्स-वोम, पल्स।

" " " से ५ बजे एपिस।

" " " ८ बजे (रात)—लाइकी, नेट्रम-सल्फ।

" " ५ बजे—सिङ्गो, हिपर, केलि-कार्ब, लाइकी, रास-टक्स थूजा।

" " " से सन्ध्या ६ बजे—सिङ्गो, केलि-कार्ब, थूजा।

" " " से " ७ " —हिपर।

" " " " ८ बजे—कार्बो-ऐनि, हिपर।

" सन्ध्या ६ बजे—सिङ्गो, हिपर, केलि-कार्ब, नक्स-वोम, पेट्रो, साङ्गलि।

" " ८ बजे—हिपर।

" " ७ बजे—बोवि, सिङ्गो, गेम्बो, हिपर, लेकि, पल्स, रास-टक्स सल्फ, टेरे।

" रात ८ बजे—बोवि, काफि, इग्ने, हिपर, रास-टक्स।

" " ९ बजे—बोवि, जेल्स, मार्क, नक्स-वोम, फास-ऐ, सल्फ।

" " " से १० बजे—मैग-स।

" " १० बजे—आर्स, बोवि, चिनि-स, केलि-आ, पेट्रो।

" " ११ बजे—आर्स, कोक्ट, कार्बो-ऐनि।

" " १२ बजे—आर्स, नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

" " १ बजे—आर्स, पल्स।

" " २ बजे—आर्स, पल्स, रास-टक्स।

" " ३ बजे—सिङ्गो, थुपे-पर्फा, रास-टक्स, थूजा।

" " ४ बजे—ऐल्यूमि, आर्निका, सिङ्गो।

" " " से ५ बजे—नक्स-वोम, सल्फ।

समय नियमित एवं स्पष्ट (Periodicity regular and distinct)—
ऐरानि, बोवि, कोक्ट, कैम्फि, सिड्रो, चिनि-सल्फ, सेबाडि, साइ।

" अनियमित—आर्स, युपे पर्फो, ड्रपि, नक्स-वोम, पल्स, सिपि।
" घड़ीके काँटेके साथ मिलाकर—ऐरानि, सिड्रो।

सिहरावन (Creeping chill)—ऐकोन, ऐग्रा, ब्रायो, नेट्रम म्यूर, सोरि, साइ, सल्फ, थूजा।
" गरम घरमें—पल्स।
" पाखाना जानेके पहले—मेजे।
" " " समय—नेट्रम-म्यूर।
" पेशाब करनेके बाद—युजि, प्लेटि, सार्सा, सिपि।
" घटना-उठकर बैठनेसे—रास-टक्स।
" " खोलनेसे, वातावरण—एपिस, कोम्फ, ड्रवि, पल्स, सिपी, सिपि।
" " गरम घरमें—आर्स, बैरा-कार्ब, कास्टि, चेलिडो सिफि, चायना, सिपर, ड्रग्ने, केलि बाई, कोलि कार्ब, मेक, सिनि, नक्स मस, नक्स-वोम, प्लेटि, राम-टक्स, सेबाडि, सिपि, सल्फ-ऐ, थेरि।
" " " धूलुईकी गरमीसे फिर नहीं होती—ऐकोन, ऐग्न्स ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, एपिस, ऐकूो, बोवि, ब्राइयो, चायना, सिना कालि, डाल्का सिरम-पा, सिपर, ड्रपि, जियो, मोरो मैग म्यूर, मार्क मेली, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, फास पोडो पल्स, रूटा, सिपि, साइलि स्पंजि रोडि, सम्ब ऐ थेरे।
" गरमगी, शारदी—आर्स, बेरा आर्ब ब्रिग, फेरिस, काल्मा, युपे-पर्फो, ड्रपि लिपर, रासे सल्फि-अर्ध, नेक,

मिनि, मेज़े, **नक्स-मस, नक्स-वोम,** प्लेटि, पोडो,
रास-टक्स, सेबाडि, स्क्वुइ, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि।

सिहरावन घटना, नींदके बाद—आर्स, ब्राइयो, चायना, नक्स-वोम, **फास,** रास-टक्स।

" " पेय पदार्थ पीनेसे—**कास्टि, कूप्रम,** ग्रैफा, इपि, नक्स-वोम, **फास,** रास-टक्स।

" " " गरम—ब्राइयो, युपि।

" " बिछावनपर—**कास्टि, कैलि-कार्ब,** कैलि-आ, **मैग-म्यूर,** स्क्वुई।

" " बैठनेसे—इग्ने, नक्स-वोम।

" " भोजनके बाद—**ऐम्ब्रा,** आर्स, क्यूबे, **आइयो,** नेट्रम-कार्ब, फास, रास-टक्स।

" " हवामें खुली—ऐड्ग, **ऐसेर, एपिस, ब्राइयो, कोपि,** ग्रैफा, **ड्रूपि,** मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मेजि, **पल्स,** सेबाड, स्टैफि, **सल्फ-ए।**

" " हिलने डोलनेसे—ऐकोन, क्रियो, **पल्स,** रास-टक्स।

" बढना, गरम घरमें—एपिस, आर्जेण्ट-नाइ, ब्राइयो, **ड्रूपि,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, पल्स, **सिपि,** सिपि।

" " " गर्म चीजें खानेसे—ऐल्यूमि, बेल, पल्स।

" " छूनेसे—**ऐकोन,** एपिस, बेल, कैमो, **चायना,** हिपर, लाइको, **नक्स-वोम,** फास, पल्स, सल्फ।

" " पीनेसे पेय पदार्थ—आर्स, ब्राइयो, **कैप्सि,** चेलिडो, चायना, कोना, इलैप्स, **युपे-पर्फो,** लोबे, **नक्स-वोम,** पल्स, रास-टक्स, सल्फ, टैरे, **वेरे।**

" " " गरम—ऐल्यूमि, कैमो।

" " बिछावनपर बैठनेसे—कैन्थ, **नक्स-वोम,** साइलि।

हवामें, खुली—**ऐगा**, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, **ऐनका**, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, **ऐसेर**, **वैप्टी**, वैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैम्फ, **कैप्सि**, कैमो, चेलि, **चायना**, **काफि**, कोना, युफ्रे, **हिपर**, **इग्ने**, केलि-क्लो, लोरो, **मार्क**, मार्क-कोर, मस्क, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म**, **नक्स-वोम**, पेट्रो, **प्लेटि**, **प्लम्ब**, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सेनि, **सिपि**, साइलि, मस्क, टैवे।

" घूमनेसे—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, **आर्स**, **चेलि**, **चायना**, **युफ्रे**, हिपर, मार्क, **नक्स-वो**, साइलि, स्पाइ, सल्फ।

हिलने डोलनेसे (During motion)—ऐकोन, ऐगा, ऐण्टिम-टार्ट, **एपिस**, आर्स, वेल, **ब्राइयो**, कैम्फ, **कैप्सि**, कोन्य, कैमो, चायना, **काफि**, क्युबे, युपे-पर्फो, जेल्स, हिपर, केलि-कार्ब, मार्क, **मार्क-कोर**, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, **नक्स-वोम**, प्लम्ब, **रास-टक्स**, **सिपिया**, **साइलि**, **स्क्युई**, सल्फ, थूजा।

" के बाद—**आर्स**, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**।

ज्वर (FEVER) उत्ताप।

अनियमित (Irregular paroxysm)—**आर्स**, कार्बो वेज युपे पर्फो, इग्ने, इपि, सिनि, **नक्स-वोम**, **पल्स**, सिपिया।

आगे बढ़कर आता है (Anticipating)—ऐण्टिम टार्ट, **आर्स**, बेल, ब्राइयो, सिनि-स, चायना, युपे पर्फो, **गैम्बो**, इग्ने, नेट्रम म्यू, **नक्स वोम**।

आधे अङ्गमें (One sided) —"उत्ताप" देखिये।—ऐम्-म्यूरि बेल, **ब्राइयो**, **कास्टि** **कैमो**, **डिजि**, **कैमा** कैलि कार्ब, **लाइको**, **मार्क**, **नक्स-वोम**, **पेरि**, फास लेडम, रास टक्स सल्फ थेरि।

" दाहिने—बेल, ब्राइयो, कैमो नक्स वोम, **फास**, पल्स रैना व।

" बायें—**लाइको**, मस्क, प्लेटि, रैना ब **रास टक्स**, सल्फ, स्टैनम।

आधे अङ्गमें एक तरफका गाल गरम और दूसरा गाल ठण्डा, और उजला—
ऐकोन।

उत्ताप-साधारण (Heat in general)—**ऐकोन,** ऐम्ब्रा, ऐन्ना, **ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्निका, आर्स,** ऐरम-ट्रि, बैप्टि, बैरा-कार्ब, **बेल, ब्राइयो, कैक्ट,** कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, **चिनि-स,** सिना, काकि, काफि, कोलचि, **कोनो,** क्यूरे, साइक्ला, डिजि, डाल्का, डूले, युपे-पर्फो, फेरम, **फेरम-फास,** फ्लू-ऐ, ग्रेफा़ो, **जेलस,** हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, **कैलि-आ,** लैक-के, लैके, लोरो, लेडम, **लाइको,** मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-स, **मेजे,** म्यू-ऐ, **नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम,** ओपि, **फास,** पोडो, **पल्स,** रास-टक्स, रास-वे, सैबाड्डि, सैम्बु, सैगु, **सिके,** सिपि, **साइलि, स्पञ्जि, स्कुइ,** स्टैनम, स्टैफि, **स्ट्रैमो,** सल्फ-ऐ, सल्फ, टैरे, **टैरैक्स,** वैले, **वेरे,** वेरे-वि, वायो-ट्रि।

„ सवेरे—ऐन्ना, **एपिस,** आर्निका, आर्स, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, युपे-पर्फो, हिपर, कैलि-आ, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ सिहरावनके साथ—**एपिस, आर्स,** कैमो, सल्फ।

„ दोपहरके पहले—ऐमोन-कार्ब, बैप्टि, ब्राइयो, **कैमो,** युपे-पर्फो, जेल्स, मैग-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर,** नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ सिहरावनके साथ—आर्स, बैप्टि, **कैमो,** सल्फ।

„ „ ८ बजे—ऐमोन-कार्ब, **कैमो।**

„ „ „ से ५ तक—कैलि-कार्ब।

„ „ १० बजे, शरीरमें गरम पानी ढाला जा रहा है या शिराओंमें गरम पानी बह रहा है मानो—**रास-टक्स।**

„ दोपहरमें—आर्स, मार्क, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ १ बजे—आर्स, लाइको।

उत्ताप दोपहरमें, २ बजे—**पल्स**, रास-टक्स।

" तीसरे पहरमें—ऐकोन, ऐनाका, ऐङ्गा, **एपिस**, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, चेलिडो, चायना, कोलचि, **जेल्स**, **ड्रस**, कैलि कार्ब, **लैकी**, लाइको, नेट्रम-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, **फास**, **पल्स**, रास-टक्स, रूटा, सिपि, साइलि, स्टै्र, स्टेफि, सल्फ।

" " सिहरावनके साथ—**एपिस**, आर्स, कोलचि, पोडो, सल्फ।

" " ४ बजे—हिपर, इपि, लाइको।

" सन्ध्यामें—**ऐकोन**, इस्कि, आर्स, बेप्टि, **बेल**, बार्ब, कोल्चि, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, **चायना**, सिना, हिपर, हाइयो, **लैकी**, **लाइको**, मार्क, मेजे, फास-ऐ, **फास**, सोरि, **पल्स**, **रास-टक्स**, सार्सा, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

" " सिहरावनके साथ—ऐकोन, आर्स, कैमो, ड्रसे, हिपर, साइलि, सल्फ।

" " ५ बजे—फास, रास-टक्स, सल्फ।

" " ६ बजे—ऐण्टिम-टार्ट, चायना, हिपर, नक्स-वोम, रास टक्स।

" " " से रात ८ बजे—कोल्चि, **लाइको**।

" " ७ बजे—लाइको, पल्स, रास-टक्स।

" " ८ बजे—ऐण्टिम-टार्ट, हिपर, फास, सल्फ।

" रातमें (Night)—ऐकोन, ऐन्थ मि, एपिस, आर्स, बेरा कार्ब, **बेप्टि**, **बेल**, **ब्राइयो**, कोल्चि, कैन्थ, कार्बो-वेज, कैमो, सिमि, **सिना**, **कोलचि**, क्रोसि, हिपर, कैलि बा, लैकी, लाइको **मार्क**, मार्क-स, मार्कि म्यू-ऐ, नेट्रम-फा, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फा-ऐ, **फास**, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाडि, सिपि, **साइलि**, स्ट्रैमो, **सल्फ**।

" " उद्भेदके साथ (Nettle rash)—**एपिस**, **ड्रस**, रास टक्स।

" " पसीनाके साथ—ऐण्टिम क्रू, बेल, कोल्चि, **मार्क**, **फास**, सोरि, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपि सल्फ।

उत्ताप रातमें, शीत मालूम होनेके साथ—ऐकोन, आर्स, कोलचि, डूले, कोलि-बा, साइलि, **सल्फ।**

" " सूखी जलन करने वाली गरमी—**ऐकोन,** आर्स, बेरा कार्ब, **बेल, ब्राइयो,** सिना, कोलचि, लैके, नाइट्रि ऐ, नक्स-वो, **फास,** पल्स, **रास-टक्स।**

" " " अनिद्राके साथ—बैरा-कार्ब, कैमो, ग्रैफा, हाइयो।

" " " उद्वेगके साथ—ऐकोन, एपिस, **आर्स,** ब्राइयो, रास-टक्स।

" " " प्यास न लगनेके साथ—एपिस, आर्स।

" " ८ बजे—**ब्राइयो,** लाइको।

" " ११ बजे—मैग-म्यू।

" " २ बजे—आर्स।

" आधी रातमें—**आर्स,** नक्स-वोम, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " और दोपहरमें—आर्स, डूलै, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " पहले—ऐकोन, ऐण्टिम क्रू, आर्स, **ब्राइयो,** केलेडि, कार्बो-वेज, चिनि-स, लोरो, मैग-म्यू, फास, पल्स।

" " बाद—**आर्स,** कैलि-कार्ब, लाइको, रैना-सि, सल्फ।

" ऊपरके भागमें—"आधे अङ्ग" देखिये—**ऐगा,** ऐनाका, आर्नि, ब्राइयो, सिना, नक्स-वोम, पेरि, पल्स, रास-टक्स।

" नीचेके भागमें—ओपि।

" पीछले भागमें—**कैमो।**

" सामने—कैमो, **इग्ने, रास-टक्स।**

" ज्यादा (Intense heat)—**ऐकोन,** ऐण्टि-टार्ट, एपिस, **आर्नि, आर्स, बेल,** अरम-ट्रि, अरम, **बेल,** ब्राइयो, चिनि-स, कोलचि, **जेलस,** हाइयो, लैके, लाइको, **मेजे, नेट्रम-म्यू,** नेट्रम-स, नक्स-वोम, ओपि, फास, **पल्स, रास-टक्स, सिकि, साइलि,** **स्ट्रैमो।**

उत्ताप आच्छन्न भाव, होश न रहनेके साथ—वेल, **नेट्रम-म्यूर**, ओपि।

" निद्रावस्थामें—ऐण्टिम-टार्ट, लेके, जेल्स, **मेजे**, नेट्रम-म्यूर, नक्स-मस, **ओपि**, रास-टक्स।

" विकारके सहित (With delirium)—एपिस, **आर्स**, वेल, ब्राइयो, चिनि-सल्फ, **नेट्रम-म्यूर, ओपि, पल्स, स्ट्रैमो।**

" सिर और चेहरा गर्म, शरीर ठण्डा—आर्निका, वेल, ओपि, स्ट्रैमो।

उत्ताप अवस्था हीन (Heat absent)—**ऐरानि**, बोवि, कैप्सि, कास्टि, हिपर, लाइको, मेजे, सेवाडि, **स्टैफि, सल्फ**, थूजा, वेरे।

" ज्यादा देर तक ठहरने वाली (Long lasting)—ऐण्टि-टार्ट, आर्नि, आर्स, वेल, कोक्ट, कैप्सि, **जेल्स**, हिपर, नक्स-वोम, सिके।

" बाहरी (External heat)—ऐकोन, ऐनाका, ऐण्टि टार्ट, आर्नि, **आर्स, वेल**, ब्राइयो, केल्के, केम्फ, **कैमो**, चायना चिनि स, **ड्रग्न**, मार्क-कोर, नक्स-वोम, ओपि, **पल्स, रास-टक्स**, साइलि, **स्ट्रैमो**, टेरे।

उत्ताप भीतरी (Internal heat)—"भीतरी" देखिये।

उत्ताप वायु गर्मकी तरह—ऐकोन, आर्नि, बेल, कोक्ट, केल्के, कार्बो-वे, चायना, कोलचि, ड्ले, ग्लोनो, येफा, ड्रग्ने, ब्राइयो, फेरि फास, फोलि-**कार्ब**, कैलि-ए, लैके, लाइको, मेर्क, मिलि **नाइट्रि-ए**, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास**, रास टक्स, सेङ्गु, **सिपि**, साइलि, **सल्फ ए**, **सल्फ**, थूजा, केम्फ।

" " गरम पानी माथे पर डाले देता है मानो—आर्स अिमा, रास टक्स मार्क, पल्स, सल्फ।

" " पसीनेके साथ—हिपर, सिपि, सल्फ ए, सल्फ थूजा, केम्फ।

" " सिहरायन मालूम होनेके साथ—आर्नि, कार्बो वेज, कोलचि, **सिपि**।

चर्म रोग सम्बन्धी (Exanthematic)—ऐकोन, ऐपिस, आर्न, डल्के, हिपा, **पल्स**, रास टक्स, सल्फ।

ऋतुके समय—ऐकोन, वेल, कैल्कं, ग्रेफा, फास, **सिपि**, सल्फ।

कापकपीके साथ (With shivering)—एपिस, **आर्निका**, वेल, **कास्टि**, कैमो, क्यु रे, ड्रोसे, डले, युपे-पर्फो, **जेल्स**, **हेलि**, हिपर, लैके, **नक्स-वोम**, पोडो, पल्स, रास टक्स, **सल्फ**।

„ उत्तापके साथ पर्यायक्रमसे—ऐकोन, आर्स, वेल, ब्राइयो, काकि, ड्रोसे, इपि, नक्स-वोम, प्लेटि।

„ ओढना उतारनेके कारण—**आर्निका**, चायना, लैके, **नक्स-वोम**, रास-टक्स।

„ हिलने डोलनेकी वजहसे—पोडो, स्ट्रेमो, एपिस, आर्निका, **नक्स-वोम**।

क्रमिको वजहसे—ऐकोन, काकि, कोलोसि, **कैमो**, इग्ने, नक्स-वोम, पेट्रो, **सिपि, स्टेफि**।

क्रोधकी वजहसे—ऐकोन, काकि, कोलो, **कैमो**, इग्ने, नक्स-वोम, पेट्रो, सिपि, **स्टेफि**।

खोलनेसे, गात्रावरण (Uncovering)-अनिच्छा—**आर्स**, **वेल**, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कोलचि, ग्रेफा, हिपर, **मैग-कार्ब**, मैग-म्यूर, मार्क, **नक्स-वोम**, पल्स, **रास-टक्स**, **सैंबु**, साइलि, **स्कुइ**, **स्ट्रेमो**, स्ट्रान्सि।

„ „ शीतके कारण—ऐकोन, **आर्निका**, वेल, **चायना**, **नक्स-वोम**।

„ इच्छा—**ऐकोन**, **एपिस**, आर्निका, आर्स, बोवि, **चायना**, काकि, **युफ्रे**, **फेरम**, हिपर, **इग्ने**, लैके, मैग-कार्ब, **मस्क**, **म्यू-ऐ**, नाइट्रि-ऐ, **ओपि**, **पेट्रो**, फास, प्लैटि, **पल्स**, **सिके**, स्टैफि, सल्फ।

गर्मी ऋतुमें—आर्स, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कैप्सि, इपि, जेल्स, लेकै, नेट्रम-म्यूर, पल्स, सल्फ, थूजा, वेरे।

छोटी माताकी वजहसे ज्वर—"उद्भेद ज्वर" देखिये।

जलन करने वाला उत्ताप (Burning heat)—ऐकोन, ऐपिस, आर्स, बेल ब्राइयो, कार्बो-वेज, कैमो, सिना, डाल्का, फ्ले, लैकस, हिपर, लाइको, मार्क-कोर, नक्स वोम, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सैम्बु, सिके, स्पञ्जि, सल्फ।

उत्ताप भीतरी, बाहिरी गर्मीका मालूम होना, गर्मी न रहने परभी—कैमो, इग्ने।

" " शीत मालूम होनेके साथ—ऐकोन, ऐनाका, आर्नि, आर्स, बेल, कैल्के, कालि, काफि, हीले, इग्ने, लैके, मोरो, नक्स-वोम, सिपिया, सल्फ, थूजा।

" सूखी (Dry heat)—ऐकोन, एपिस, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, सिड्रो, कैमो, चायना, कोल्चि, डाल्का, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सैम्बु, सिके, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" सूखा, सवेरे—आर्नि, ब्राइयो, सल्फ।

" " सन्ध्यामें—ऐम्ब्र, पल्स।

" " " शिरायें फैली हुई, हाथमें जलन, ठण्ढा स्थान खोजना है —पल्स।

" " रातमें—ऐकोन, आर्स, ब्रिश-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कालि-कोल्चि, लैके, नाइ ऐ, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, रास-वी।

" " " बिछावनके गर्मीसे—आर्स, बेल, ब्राइयो, सिलि ग, काकि, लैके, मार्को, फास, रास-टक्स।

" जलन करनेवाला—"जलन" देखिये।

" जलन करनेवाला, सवेरे—ब्राइयो क्रियो।

" दोपहरके पहले—नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, फास।

उत्ताप, जलन करनेवाला ८ बजेसे १२ बजे—कैमो।

" तीसरे पहर—आर्स, बेल, ब्राइयो, हिपर, फास, पल्स।

" " ४ बजेसे आरम्भ होकर, रात भर रहने वाला—हिपर।

" " " थोड़ी देर तक रुकने वाला—लाइको।

" सन्ध्यामें—ऐकोन, आर्स, बेल ब्राइयो, कार्बो-वेज, कैमो, हाइयो, लाइको, मार्क-कोर, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" रातमें—ऐकोन, आर्स, बैप्टी, बार्ब, बेल, ब्राइयो, कौक्ट, कार्बो-वेज, कैमो, हिपर, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

" " आधी रातमें—आर्स, रास-टक्स।

" " " पहले—ब्राइयो, कैमो।

" " " बाद—आर्स, फास, थूजा।

" भीतरी ज़ियादा, मानो शिराओंके बीचमें जलन हो रही हो—आर्स, ब्राइयो, रास-टक्स।

" विकारके सहित ज़ियादा—बेल, स्ट्रैमो, वेरे।

" शिराओंमें होकर फैलता है—बेल, चायना, हाइयो, लेडम, मार्क, पल्स।

" सूखा जलन भरा, पर्यायक्रमसे शीत मालूम होनेके बाद—बेल।

डेङ्गू-ज्वर—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, युपे-पर्फो, जेल्स, पल्स, रास टक्स, रास-वे।

दूधका ज्वर (Milk fever)—ऐकोन, आर्निका, बेल, ब्राइयो, कैमो, काफि, इग्ने, मार्क, ओपि, रास-टक्स।

धीमा ज्वर (Slow fever)—आइलैन्थ, आर्निका, आर्स, बैप्टी, कैम्फर, लैके, म्यूर-ऐ, फास-ऐ, फास, रास-टक्स।

पसीना नहीं होता (Perspiration absent)—"पसीना" देखिये।

पर्यायक्रमसे शीतके साथ (Alternating with chill)—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो,

कोल्चि, कैमो, **चायना**, काकि, डिजि, **ड्रसे**, हैलि, **हिपर**, हाइयो, इग्ने, क्रियो, लीरो, लाइको, मैग-म्यू र, **मार्क** नक्स-वोम, फास-ए, फास, **रास-टक्स**, सैंगु, सिके, सिमि, सिपि, सल्फ, वेरे, जिङ्क।

परिवर्तन होनेवाला (Changing paroxysm)—इलेटे, **इग्ने**, **पल्स**, सिपि।

„ किनाइनके अपव्यवहारकी वजहसे—आर्स, इलेटे, युपे-पर्फो, इग्ने, इपि, नक्स-वोम, **पल्स**।

प्रदाहके कारण (Inflammatory)—ऐकोन, **बेल**, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैमो, कोलचि, लैके, **मार्क**, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सल्फ।

पाकाशय सम्बन्धी (Gastric)—ऐकोन, **ऐण्टिम-क्रू ड**, **ऐण्टिम-टार्ट**, **आर्नि**, बेल, ब्राइयो, कार्बो-वेज, कैमो, चेलि, चायना, कोलोसि, जेल्स, **इपि**, मार्क, नक्स-वोम, फास, पोडो, **पल्स**, रास-टक्स, सिकेलि, सल्फ, वेरे।

„ शीतज्वर—"शीत" देखिये।

भीतरी उत्ताप (Internal heat)—**ऐकोन**, **आर्नि**, **आर्स**, बेल, **ब्राइयो**, कान्थि, कैमो, मैग म्यू र, फास-ए, फास, पल्स, रास टक्स, सैबाडि।

„ जलनसे भरा हुआ—आर्स, कैप्सि, बेल, सल्फ, **सिकि**।

„ „ शिराओंके बीचमें—**आर्स**, आर्स, ब्राइयो, [illegible], **रास-टक्स**।

„ „ शरीर छूनेसे ठण्डा—कार्बो-वेज, फेरम।

„ बाहरी शीतके साथ—**ऐकोन**, **आर्स**, बेल कैल्के, कैमो, इग्ने, इपि, [illegible] सल्फ, पल्स, रास टक्स, सिके, सल्फ **वेरे**।

मैलेरिया (Malaria)—आर्नि, कैक्टस, कार्बो वेज **चिनि-स**, **चायना**, चेलिडो, युपे, युपे पर्फो, जेल्स, इपि **मेनि-था**, [illegible] नक्स वोम पोडो [illegible], सल्फ [illegible]।

लगातार—"टाइफायेड," "टाइफास" (Continued fever [illegible] Typhus)—आर्स, **ऐरम-ट्रि**, बैप्टी **ब्राइयो**, [illegible]

ऐनि, **चायना**, चिनि-आ, चिनि-स, **क्रोरा**, काकि, **कोलचि**, **क्रोटे-होर**, इचिने, **जेल्स**, हेलि, **हाइयो**, **लेके**, लाइको, मस्क, **मूर ऐ**, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि, फास-ऐ, **फास**, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रास-वेन, सिके, साइलि, **स्ट्रैमो**, सल्फ, सल्फ-ऐ, टेरि, जिङ्क।

लगातार, तीसरे पहर—आर्स, ब्राइयो, केन्थ, जेल्स, हाइयो, **लैकी**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

" " ४ बजेसे रात ८ बजे तक—लाइको।

" " " आधी रात—स्ट्रैमो।

" सन्ध्यामें—आर्स, **ब्राइयो**, कार्बो-वेज, कैमो, लेके, **लाइको**, म्यू-ऐ, **फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स**, सल्फ।

" " ७ बजे—लाइको, रास-टक्स।

" " ८ बजेसे १२ बजे तक—ब्राइयो।

" " १०—लेके।

" रातमें—**आर्स, बेप्टी, ब्राइयो, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-आ**, कोलचि, **लैके**, कैलि-बा, **मार्क**, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, फास, पल्स, **रास-टक्स**, स्ट्रैमो, **सल्फ**।

" " उत्ताप ज्यादा—**वेल**, ब्राइयो, हाइयो, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

" आच्छन्न भावके साथ—आर्नि, आर्स, **बेप्टी**, ब्राइयो, **कार्बो-वेज**, डाय, क्रोटे-होर, जेल्स, **हेलि**, **हाइयो**, लेके, **मूर-ऐ**, **ओपि, फास-ऐ**, फास, रास-टक्स, स्ट्रैमो, **जिङ्क**।

आधी रातमें—आर्स, रास-टक्स, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे।

" पहले—आर्स, **ब्राइयो**, बेप्टी, **कार्बो वेज**, नक्स-वोम, स्ट्रैमो।

" बाद—**आर्स**, ब्राइयो, **फास, रास-टक्स**, सल्फ।

उदर सम्बन्धी (Abdominal)—आर्स, बेप्टी, **ब्राइयो, कोलचि**, लाइको, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, **फास, रास-टक्स**, सिके, सल्फ, टेरि।

लगातार, उद्भेद सम्बन्धी (Exanthematic)—आइलेन्थ, **एपिस**, **बेल**, ब्राइयो, युफ्रे, लैके, मार्क, फास, **रास-टक्स**, सल्फ।

" पक्षाघातके साथ फुसफुसमें—ऐण्टि-टार्ट, आर्स, कार्बो-वेज, लाइको, फास, सल्फ।

" " पक्षाघातकी सम्भावना सहित मस्तिष्कका—हेलि, लैके, लाइको, **ओपि**, फास-ए, फास, जिङ्क।

" मस्तक सम्बन्धी—एपिस, बैप्टी, ब्राइयो, जेल्स, **हाइयो**, लैके, लाइको, ओपि, फास, रास-टक्स, **स्ट्रैमो**।

" रक्त अधिक होनेकी वजहसे (Congestive)—ब्राइयो, जेल्स, ग्लोनो, लैके।

" वक्ष-रोग सम्बन्धी—ऐण्टिम-टार्ट, **ब्राइयो**, कार्बो वेज, हाइयो, लाइको, **फास**, रास-टक्स, सल्फ।

" संज्ञाहीनताके साथ (वेहोशी)—बेल, **हेलि**, **हाइयो**, ओपि फास ए, **स्ट्रैमो**।

शीतावस्था नहीं रहती (Chill absent)—ऐनाका, ऐण्टि, **एपिस**, **आर्स**, बैप्टी, **बेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, **कैमो**, चायना, सिना, फेरम फास **जेल्स**, इपि, लाइको, नक्स वोम **रास-टक्स**, स्ट्रैमो सल्फ, थूजा।

" सवेरे—आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कालि, युपे पर्फो, हिपर, नेट्रम-म्यूर, रास टक्स, सल्फ, थूजा।

" दोपहरके पहले—कैमो, जेल्स, नक्स वोम, रास टक्स सल्फ।

" " ८ बजेसे १२ बजे तक—कैमो।

" " १० बजे—जेल्स, नेट्रम-म्यूर, रास टक्स।

" " " ११ बजे तक—नेट्रम म्यूर, इपि।

" " ११ बजे—बैप्टी, कैल्के, नेट्रम-म्यूर।

" तीसरे पहर—आर्स, बेल, ब्राइयो [illegible], रास टक्स [illegible]।

शीतावस्था नहीं रहती १ से २ बजे तक—आर्स।

" " २ बजे—**पल्स।**

" " ३ बजे से ४ बजे तक—**एपिस,** लाइको।

" " ४ बजे—**ऐनाका,** एपिस, इपि, **लाइको।**

" सन्ध्यामें—बैप्टी, **बेल, व्राइयो,** कैमो, सिना, पेट्रो, **पल्स, रास टक्स,** सल्फ।

" " ६ बजे—**नक्स-वोम।**

" " " से सारी रात—नक्स-वोम, रास-टक्स।

" " " " ७ बजे तक—कैल्के, नक्स-वोम।

" " ७ बजे—कैल्के, नक्स-वोम।

" रातमें—आर्स, **बैप्टी, बेल, व्राइयो,** कैल्के, कार्बो-वेज, सिना, कैलि-बा, फास, पल्स, **रास-टक्स,** सल्फ।

" " १० बजे—आर्स, हाइड्रा।

" , १२ बजे से २ बजे तक—**आर्स।**

" " " से ३ बजे तक—**आर्स, कैलि-कार्ब।**

" " १ बजे से २ बजे तक—**आर्स।**

" " २ बजे—**आर्स,** बेल्लो-ऐ।

शीतके साथ (With chill)—**ऐकोन, आर्स, बेल,** व्राइयो, कैल्के, कैमो, चेलिडो, डिजि, फेरम, **हेलि, इग्ने,** मार्क, मेजे, **नाइ-ऐ, नक्स-वोम,** ओलियै, प्लम्ब, पोडो, पल्स, **रास-टक्स,** सैंगु, सिपि, स्ट्रैमो, **सल्फ, थूजा,** वेरे, जिङ्क।

शीत मालूम होना (सिहरावनके साथ) (With chillness)—**एपिस,** आर्नि, कास्टि, **काफि,** इग्ने, **कैलि-बा,** कैलि-कार्ब, मार्क, पोडो, **पल्स,** सिपि, साइलि, स्कु, सल्फ, **थूजा, वेरे,** जिङ्क।

" ज्यादा देरतक ठहरनेके बाद उत्तापके साथ—पोडो।

शीत मालूम होना, बिछावनसे हाथ निकालनेसे—बेरा-कार्ब, बोरा, हिपर, नक्स-वोम, स्ट्रैमो।

सर्दीकी वजहसे (Catarrhal)—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, कार्बो वेज, कोना, फेरम-फास, हिपर, केलि-आइ, लेके मार्क, फास-ऐ, रास-टक्स सेबाडि, सिपि।

सविराम पुराना (Intermittent, chronic)—आर्स, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, हिपर, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ नया—आर्स, बेप्टी, ब्राइयो, चिनि स, चायना, जेल्स, इग्ने, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।

„ यकृतके बढ़नेके साथ—लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ।

सम्बन्ध – शीत, उत्ताप और पसीनेकी अवस्थाका, एक दूसरेका (Succession of stages)—

„ शीतके बाद गर्मी—ऐकोन, ऐलूमि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्नि, बेल, कार्बो-वेज, चायना, सिना, कोलूचि, ड्रोसे, गुवे यर्का, ग्रेफा, हिपर, हाइयो, आइयो, इग्ने, इपि, लाइको, मैग कार्ब, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फोफि, पेट्रो, फास, पल्स, रास-टक्स, सिके, स्पाञ्जि, स्टाफि, स्ट्रैमो, सल्फ, लैके।

„ „ पसीनेके साथ—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैप्सि कोसो, चायना फेरम, नक्स वोम फोफि, पल्स, रास-टक्स, सेबाडि, सल्फ।

„ „ बाद पसीना—आर्स, बेल, ब्राइयो चायना, गुवे यर्का, इपि, पाफि, ग्रेफा, इग्ने लैके, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, पल्स, रास टक्स सेबाडि इत्यादि सल्फ है।

„ शीतके बाद ही पसीना (बीचकी गर्मी नहीं रहती)—आर्स, कैप्सि,

कार्बो-ऐनि, **कास्टि,** क्रिमे, डिजि, **लाइको, मेजे,** ओपि, **पेट्रो,** रास-टक्स, **थूजा,** वेरे।

सम्बन्ध, गर्मीके बाद शीत—वेल, ब्राइयो, **कोक्कि,** कास्टि, हेलि, नाइ-ऐ, **नक्स-वोम, पल्स, सिपि, स्टैनम,** स्टेफि।

„ „ बाद पसीना—ऐमोन-म्यूर, **आर्स, कैमो,** चायना, काफि, इग्ने, इपि, मैङ्ग, नक्स-वोम, रेना-सि, **रास-टक्स,** साइलि, **वेरे।**

„ „ „ ठण्डा—वेरे।

सूर्यकी गर्मीको वजहसे (Heat of the sun)—ऐण्टिम-क्रूड, वेल, कैक्ट, ग्लोनो।

सूतिका ज्वर (Puerpural fever)—बैप्टि, ब्राइयो, फेरम, **लैकै,** लाइको, नक्स-वोम, फास, **पल्स, रास-रु, रास-टक्स, सल्फ।**

„ प्रसवान्तिक स्राव रुककर—लाइको, पल्स, **सल्फ।**

सेप्टिक ज्वर (Septic fever)—ऐसे-ऐ, **ऐन्थ्रा,** एपिस, आर्नि, **आर्स,** वेल, **वेप्टि, ब्राइयो,** कैडमि, कार्बो-वेज, क्यूरे, **कार्बो-ऐ, क्रोटे-हो, एकिने, कैलि-फास, लैकै, लाइको,** मार्क, **मूरि-ऐ,** ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, **पाइरो,** रास-टक्स, रास वे, सल्फ, टेवे, सल्फ-ऐ, टेरि।

सेरिब्रो स्पाइनल ज्वर (Cerebro-spinal fever)—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, **एपिस,** आर्जे-नाइ, आर्नि, आर्स, बैप्टी, **वेल,** ब्राइयो, सिकि, सिमि, क्रोटे-हो, कूप्रम, **जेल्स,** ग्लोनो, हाइगो, इग्ने, नेट्रम म्यूर, **नेट्रम-स,** नक्स-वोम, **ओपि,** फास, रास-टक्स, **वेरे-वि,** जिङ्क।

स्वल्प विराम ज्वर (Remittent fever)—**ऐकोन,** ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बैप्टि, **वेल, ब्राइयो, कैमो,** चायना, जेल्स, इपि, लेकै, लाइको, **मार्क,** नेट्रम-स, नक्स-वोम, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ सवेरे—आर्नि, ब्राइयो, रास-टक्स, सल्फ।

स्वल्प विराम ज्वर, तीसरे पहर—आर्स, बेल, ब्राइयो, जेल्स, लैके, लाइको, नक्स-वोम।

» सन्ध्यामें—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

» रातमें—ऐकोन, आर्स, बेप्टि, कैमो, मर्क, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

» एक तरफका गाल लाल और दूसरी तरफका सफेदीके साथ—ऐकोन, कैमो।

» टाइफायेडमें बदल जानेकी सम्भावनामें—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेप्टि, ब्राइयो, म्यू-ऐ, फास-ऐ, फास, रास-टक्स, सिके।

» » किनाइनके अपव्यवहारसे—आर्स, इपि पल्स, रास-टक्स।

» बच्चोंका—ऐकोन, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैमो, जेल्स, इपि, नक्स-वोम, सल्फ।

हेक्टिक ज्वर (Hectic fever)—ऐसे-ऐ, आर्स, आर्स-आइ, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैप्सि, कार्बो वेज, चायना, सिमि आर्स, क्लोरो, हिपर, आइयो, इपि, कैलि-आर्स, कैलि कार्ब, कैलि-फास, कैलि-स, लैके, लाइको, मार्क, फास ऐ, फास, पल्स, पाइरो, सैंगु, सिनि सिपि, साइलि, स्टेनम सल्फ, टैरे, थूजा, टिवुब।

» घटना, खोलनेसे गात्रावरण—ऐकोन, आर्स, बोवि, कैमो, चायना, फेरम, इग्ने लेडम, लाइको, म्यू-ऐ, पल्स, वेरे।

» » पसीनेमें खुली हवामें—फास, पल्स।

» » भोजनके बाद—ऐनाका, आर्स, चायना, [illegible] ब्राइयो नेट्रम कार्ब, फास, रास-टक्स [illegible]।

» » हवा, खुली—कैम्फ, मर्क नेट्रम म्यू।

» » हिलनेसे—[illegible], लाइको पल्स रास-टक्स [illegible]।

» बहुधा खोलनेसे गात्रावरण—ऐकोन कैमो [illegible]।

हेक्टिक ज्वर, बढना, गरम आवरणसे—ऐकोन, **एपिस**, कैमो, **इग्ने**, लेडम, पेट्रो, **पल्स**, रास-टक्स, सल्फ, वेरे।

" " " घरमें—ऐमोन-म्यूर, **एपिस**, ब्राइयो, इपि, लाइको, **पल्स**, सल्फ।

" " गरमसे—एपिस, ब्राइयो, इग्ने, पल्स, ओपि, स्ट्रैफि।

" " पीनेसे, पीनेकी चीजें (Drinking)—बैरा-कार्ब, कैल्के, कैमो, काफि।

" " हवासे, खुली हुई—चायना, **नक्स-वोम**।

प्रसीना (PERSPIRATION)।

पसीना, साधारण (Perspiration in general)—ऐसे-ऐ, ऐकोन, ऐगा ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट**, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, **कैल्के**, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, सिड्रो, **चायना**, चिनि-स, काफि, डिजि, डाल्का, ड्रूसे, **फेरम**, जेल्स, ग्रैफा, गुयेज, **हिपर**, हाइयो, आइयो, **इपि**, **लाइको**, मैग-कार्ब, मार्क, मेजे, नेट्रम-आ, **नेट्रम-म्यूर**, **नक्स-वोम**, ओपि, आकजे, पेट्र, फास-ऐ, **फास**, पोडो, **सोरि**, रैना-सि, रास-टक्स, **सैम्बु**, सिके, **सिपि**, **साइलि**, सल्फ, वेले, **वेरे**, वेरे-वि, जिञ्जि।

" दिनमें—ऐण्टिम-टार्ट, बेल, ब्राइयो, **कैल्के**, चायना, डाल्का, **फेरम**, ग्रैफा, हिपर, **कैलि-कार्ब**, **लाइको**, मार्क, **नेट्रम-कार्ब**, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि-ऐ, **फास-ऐ**, पल्स, रियुम, सेलि, **सिपि**, साइलि, स्ट्रैफि, **सलफ**, वेरे।

" " और रातमें सभी समय—**हिपर**, सेम्बु।

" " आँख मूदनेसे—**कोना**।

" " मिचली और सुस्तीके साथ—**मार्क**।

पसीना, सवेरे—ऐल्यू मि, ऐमोन कार्ब, ऐण्टिम क्रूड, आर्ज-नाइ, आर्स, आइयो, **कैल्के**, **कार्बो-वेज**, कास्टि, चायना, काफि, कुप्रो, **फेरम**, हेलि, **हिपर**, लाइको, मैग-कार्ब, **मार्क**, मस्क, फास-ऐ, **फास**, पल्स, रास-टक्स, सेबाडि, **सैम्बु**, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, वेरे।

„ „ एक दिन नागा देकर—ऐण्टिम-क्राड, फेरम।

„ „ जागनेके बाद—ऐण्टिम-क्रूड, नक्स-वोम, **सैम्बु**, **सिपि**, **सल्फ**।

„ तीसरे पहर—कार्बं, हिपर, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, सल्फ।

„ सन्ध्यामें—सिनि, म्यू-ऐ, नेट्रम-फास, फास, सल्फ।

„ रातमें—ऐसे-ऐसि, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यू, ऐनाका, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, कैल्के, कैम्प, **कार्बो-ऐनि**, **कार्बो-वेज**, कास्टि, चायना, सिकि, **कोना**, डाल्का, गुर्ग-पर्फा, ग्रेफा, **हिपर**, आइयो, इपि, **कैलि-बाइ**, लैके, लेडम, लाइको, **मार्क**, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, पल्स, रास-टक्स, **सैम्बु**, **सिपि**, **साइलि**, स्टानि, **सल्फ**, टैरेक्स, **थूजा**, वेले, वेरे।

„ „ एक रात नागा देकर—ऐरा-कार्ब, **नाइ-ऐ**।

„ „ आधीरात—आर्स, म्यू-ऐ, फास, सैम्बु।

„ „ जागनेसे—चायना, साइक्ला, सैट्रि, नक्स वोम।

„ „ नींदके समय—चैन, चायना, **पल्स**।

„ „ सड़ा दुर्गन्धसे भरा हुआ—ब्रोमा, मैग कार्ब, रास टक्स स्टाइलि।

„ „ सारी रात होते रहना—**हिपर**, मैग्नि कार्ब मार्क।

„ „ सोयी हुई करवटमें—ऐकोन, मार्क ऐ।

„ „ पिछले पहरमें—ऐम्ब्र, कार्बो ऐनि, म्यूर ऐ।

„ „ बाद—ऐम्ब्रा, मैग कार्ब कैल्के, कैलि कोर्बो [illegible] [illegible], साइलि।

उदरामयके साथ (With diarrhœa)—ऐकोन, सल्फ, **वेरे** ।

ऋतुके पहले—ग्रैफा, हाइयो, सल्फ, थूजा ।

„ समय—कास्टि, ग्रैफा, हाइयो, सिपिया, **वेरे** ।

एकाएक (Sudden)—ऐमिल-ना, आर्स, वेल, क्रोटे-हो, इपि।

कपकपीके साथ (With shivering)—युपे पर्फो, मार्क, **नक्स-वोम,** पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

कमजोर करने वाला (Debiliating)—आर्स, **ब्राइयो,** कैलेडि, कैल्के, **कैम्फ,** कार्बो ऐनि, **चायना, चिनि-स, फेरम,** फेरम-आर्स, ग्रैफा, इग्ने, **आइयो, मार्क,** नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, **फास, सोरि, सैम्बु,** सिके, **सिपिया,** साइलि, स्टेनम, सल्फ, टेरे, वेरे ।

„ रातमें—कार्बो-ऐनि, चायना, मार्क, सैबु ।

खाँसनेसे (Coughing)—**आर्स,** कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, ड्रोसे, **हिपर,** इपि, कैलि-ना, मार्क, नक्स-वोम, **फास,** रास-टक्स, सैबाडि, **सैम्बु, सिपिया,** स्क्वि, सल्फ, थूजा, वेरे ।

खाल उधड जानेको तरह (Acrid)—कैप्सि, **कैमो,** कोना, लाइको, मार्क, रास-टक्स ।

„ घटना, खोलनेपर आवरण—ऐकोन, वेल, **कैमो,** चायना, **लाइको,** नाइट्रि-ऐ, पल्स, स्टैफि, सल्फ, थूजा, वेरे ।

„ „ घूमनेके समय—कैमो, चेलिडो, पल्स, थूजा ।

„ „ जागनेके बाद—आर्स, कैमो, **चेलिडो,** युफ्रे, हेलि, **फास,** प्लेटि, **पल्स,** सिपि, सल्फ ।

„ „ नींदके समय—आर्स, वेल, मार्क नक्स-वोम, फास, **सैम्बु** ।

„ „ पीनेकी चीजें पीनेसे (After drinking)—कास्टि, चिनि-स, फास ।

„ „ बिछावनसे बाहर आनेसे—कैल्के, हेलि, मार्क, पल्स, **रास-टक्स,** सिपि, सल्फ, **वेरे** ।

„ „ भोजनके समय—इग्ने, **फास** ।

खाल उधड जानेकी तरह घटना, भोजनके बाद—ऐनाका, चायना, फेरम, नेट्रम-कार्ब, रास-टक्स।

" " हिलने डोलनेसे—आर्स, कैप्सि, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सेम्बु, सल्फ-ए, सल्फ, वेले।

खोलनेसे अनिच्छा, आवरण (Aversion to uncovering)—ऐकोन, आर्स, चायना, युपे-पर्फो, हिपर, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, रास-टक्स, सेम्बु, स्ट्रेमो, स्टान्नि।

" इच्छा (ओढना उतारनेकी इच्छा—Desire to be uncovered)—ऐकोन, कैम्फ, लेडम, नेट्रम-म्यू, ओपि, सिके, वेरे, जिङ्क।

गन्ध, गन्धककी तरह—फास।

" खट्टी—ऐकोन, आर्नि, आर्स, ऐसार, ब्राइयो, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, साइले, कोलचि, ग्रेफा, हिपर, आइयो, इपि, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, सोरि, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, थूजा, वेरे।

" " सवेरे—ब्राइयो, कार्बो वेज, आइयो, लाइको, नेट्रम म्यू, रास टक्स, सल्फ।

" " रातमें—आर्नि, कैक्ट, ग्रेफा, हिपर, आइयो, लाइको, लिथ कार्ब, नेट्रम म्यू, नाइट्रि-ए, सिलि, सल्फ थूजा।

" तीखी—आर्टि-वा, ओपि, गाम्बि, लाइको, सिपिया।

" दुर्गन्ध युक्त (Offensive)—आर्नि, आर्स, बेरा कार्ब, बैप्टि, कार्बो-एनि, कार्बो वेज, डल्का, फेरम, ग्रेफा, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ए, नक्स वोम, पेट्रो, फास, सोरि, पल्स, रास टक्स, सिलि, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, वेरे।

" प्याजकी तरह—बाप्टि या बोवि लैके लाइको।

" पेशाबकी तरह—बर्बे कैन्थ, कालि कार्बो नाइट्रि-ए आदि।

गन्ध, पेशाबकी तरह, घोड़ेका—**नाइट्रि-ऐ।**

" मीठी—कौलेडि, पल्स, थूजा।

" मृग-नाभिकी तरह—एपिस, मस्क, पल्स, सल्फ।

" सड़ी (Putrid)—बैप्टि, **कार्बो-वेज,** मैग-कार्ब, रास-टक्स, साइलि, **स्टैफि,** स्ट्रैमो, विरे।

गरम (Hot)—ब्रस्कि, बेल, कैमो, **ड्रग्ने, ड्रपि, नक्स-वोम,** ओपि, **सोरि, सिपिया,** स्टैनम, स्ट्रैमो।

घरके भीतर (कमरेमें-In the room)—ऐकोन, एपिस, फ्लू-ऐ, **ड्रपि,** नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ, वैले।

घूमनेके समय (While walking)—ब्राइयो, कैल्के, काक, कैलि-कार्ब, मार्क, **नस-वोम, सोरि, सिपि, सल्फ।**

" खुली हवामें—**ब्राइयो,** कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कास्टि, चायना,** गुयेज, फास, सल्फ।

ज्वरके बाद—आर्स, लैकेडि, चायना, कूप्रम, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, जिङ्क।

जलन करनेवाला (Burning)—मार्क, मेजे, **नेट्रम-कार्ब,** वेरे।

ज्यादा देर तक ठहरनेवाला (Long lasting)—आर्स, **कास्टि,** फेरम, जेल्स, **हिपर,** लेडम, **सैम्बु,** वेरे।

ठण्डा (Cold)—ऐकोन, **ऐमोन-कार्ब,** ऐनाका, ऐन्थ्रा, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट,** आर्नि, **आर्स,** ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ, कार्बो-वेज, चायना,** क्लोरो, सिना, **काक्कि,** क्यूरे, ड्रले, हेलि, **हिपर,** हाइयो, इग्ने, **ड्रपि,** लैके, लोबे, **लाइको,** मार्क, **मार्क-कोर,** मेजे, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रूटा, **सिकि, सिपिया,** साइलि, स्पिञ्जि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरे, थूजा, **वेरे, वेरे-वि,** जिङ्क।

१५क—छोटे-घोर।

गन्ध, पेशाबकी तरह, घोड़ेका—**नाइट्रि-ऐ।**

„ मीठी—कैलेडि, पल्स, थूजा।

„ मृग-नाभिकी तरह—एपिस, मस्क, पल्स, सल्फ।

„ सड़ी (Putrid)—बैप्टि, **कार्बो-वेज**, मैग-कार्ब, रास-टक्स, साइजि, **स्टैफि**, स्ट्रैमो, विरे।

गरम (Hot)—इस्कि, बेल, कैमो, **इग्ने, इपि, नक्स-वोम, ओपि, सोरि, सिपिया,** स्टैनम, स्ट्रैमो।

घरके भीतर (कमरेमें-In the room)—ऐकोन, एपिस, फ्लू-ऐ, **इपि**, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ, वेले।

घूमनेके समय (While walking)—ब्राइयो, कैल्के, काक, कैलि-कार्ब, मार्क, **नक्स-वोम, सोरि, सिपि, सल्फ।**

„ खुली हवामें—**ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कास्टि, चायना,** गुयेज, फास, सल्फ।

ज्वरके बाद—आर्स, लैकेडि, चायना, कूप्रम, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, जिङ्क।

जलन करनेवाला (Burning)—मार्क, मेजे, **नेट्रम-कार्ब,** वेरे।

ज्यादा देर तक ठहरनेवाला (Long lasting)—आर्स, **कास्टि, फेरम,** जेल्स, **हिपर**, लेडम, **सैम्बु**, वेरे।

ठण्ढा (Cold)—ऐकोन, **ऐमोन-कार्ब**, ऐनाका, ऐन्थ्रा, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट**, आर्नि, **आर्स**, ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ, कार्बो-वेज, चायना**, क्लोरो, सिना, **काक्कि**, क्यूरे, इलै, हेलि, **हिपर**, हाइयो, इग्ने, **इपि**, लैके, लोबे, **लाइको**, मार्क, **मार्क-कोर**, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रूटा, **सिकी, सिपिया**, साइजि, सञ्जि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरे, थूजा, **वेरे, वेरे-वि**, जिङ्क।

„ एकाएक—कोटे-हौर।

ठण्डा, ऋतुके समय—सिके, वेरे।

„ कपालमें—ऐसे-ऐसि, ऐकोन, ऐसाफि, जेल्स, ग्रेफा, लेके, नक्स वोम, पल्स, वेरे।

„ लसदार पसीना, रक्त-स्रावके साथ—चायना।

„ सारे शरीरमें—क्रोटे-होर, मार्क-कोर, स्पाइजि, वेरे।

डरकी वजहसे (From fright)—ऐनाका, वेल, जेल्स, लाइको, ओपि, साइलि।

ढके हुए स्थानमें (Covered parts)—ऐकोन, वेल, फेरम, नक्स-वोम, पल्स, थूजा।

तेलकी तरह (Oily)—ब्राइयो, चायना, मैग-कार्ब, नक्स वोम, ओपि, सिलि, स्ट्रैमो, थूजा।

दाग लगता है, कपडेमें (Staining the linen)—वेल ग्रेफा, लेके, मैग-कार्ब, मार्क, रियुम, सिलि।

„ धोना कष्ट जनक—मैग-कार्ब, मार्क।

„ पीला—आर्स, वेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, चायना, फेरम, ग्रेफा, इपि लेके, मैग-कार्ब, मार्क, सिलि, थूजा वेरे।

„ रक्तात्त (Bloody)—केल्के, क्रिमि, क्रोटे-होर, ल्या, लेके, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम।

„ लाल—कार्बो-वेज, लेके, नक्स-म, नक्स वोम थूजा।

नहीं होता, ज्वरमें पसीना (Perspiration absent in fever)—एकोन, ऐनाका, आर्स, वेल, ओपि, केमो, गुफे कर्बो, जेल्स, ग्रेफा, ब्राइयो, इपि, लाइको, नक्स-म, फास ऐ फास, प्लेटि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रस टक्स, सल्फ।

„ उत्तापके साथ—ऐल्यु मि, ऐन्टिम क्रू ड, बेल, केल्के, केलि, केमो, कोना, डिजि, डेलि, हाइड्रो ऐ, इपि केलि-ऐ, मेजे मेट्रम-फार्म, नक्स वोम, ओपि फास, प्लेटि सोरि, रस टक्स, सिकेल, सिपि स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ।

ध, पेशाबकी तरह, घोडेका—**नाइट्रि-ऐ।**

,, मीठी—कैलेडि, पल्स, थूजा।

,, मृग-नाभिकी तरह—एपिस, मस्क, पल्स, सल्फ।

,, सडी (Putrid)—बैप्टि, **कार्बो-वेज,** मैग-कार्ब, रास-टक्स, स्पाइजि, **स्टैफि,** स्ट्रैमो, विरे।

रम (Hot)—इस्कि, वेल, कैमो, **इग्ने, इपि, नक्स-वोम,** ओपि, **सोरि, सिपिया,** स्टैनम, स्ट्रैमो।

रके भीतर (कमरेमें-In the room)—ऐकोन, एपिस, फ्लू-ऐ, **इपि,** नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ, वेले।

मनेके समय (While walking)—ब्राइयो, कैल्के, काक, कैलि-कार्ब, मार्क, **नक्स-वोम, सोरि, सिपि, सल्फ।**

,, खुली हवामें—**ब्राइयो,** कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कास्टि, चायना,** गुयेज, फास, सल्फ।

वरके बाद—आर्स, लैकेडि, चायना, कूप्रम, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, जिङ्क।

ालन करनेवाला (Burning)—मार्क, मेजे, **नेट्रम-कार्ब,** वेरे।

यादा देर तक ठहरनेवाला (Long lasting)—आर्स, **कास्टि, फेरम,** जेल्स, **हिपर,** लेडम, **सैम्बु,** वेरे।

ण्डा (Cold)—ऐकोन, **ऐमोन-कार्ब,** ऐनाका, ऐन्थ्रा, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट,** आर्नि, **आर्स,** ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ, कार्बो-वेज, चायना,** क्लोरी, सिना, **काकि,** क्यूरे, ड्रले, हेलि, **हिपर,** हाइयो, इग्ने, **इपि,** लैके, लोबे, **लाइको,** मार्क, **मार्क-कोर,** मेजे, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रूटा, **सिकि, सिपिया,** स्पाइजि, स्प्जि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरे, थूजा, **वेरे, वेरे-वि,** जिङ्क।

,, एकाएक—क्रोटे-टिग।

ठण्ढा, ऋतुके समय—सिके, वेरे।

„ कपालमें—ऐसे-ऐसि, ऐकोन, ऐसाफि, जेल्स, ग्रेफा, लेके, नक्स-वोम, पल्स, वेरे।

„ लसदार पसीना, रक्त-स्रावके साथ—चायना।

„ सारे शरीरमें—क्रोटे-हौर, मार्क-कोर, स्पाइजि, वेरे।

डरकी वजहसे (From fright)—ऐनाका, बेल, जेल्स, माइकी, ओपि, साइलि।

ढके हुए स्थानमें (Covered parts)—ऐकोन, बेल, फेरम, नक्स-वोम, पल्स, थूजा।

तेलकी तरह (Oily)—ब्राइयो, चायना, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, ओपि, सिलि, स्ट्रैमो, थूजा।

दाग लगता है, कपड़ेमें (Staining the linen)—बेल ग्रेफा, लेके, मैग-कार्ब, मार्क, रियुम, सिलि।

„ धोना कष्ट जनक—मैग-कार्ब, मार्क।

„ पीला—आर्स, बेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, चायना, फेरम, ग्रेफा, हपि, लेके, मैग-कार्ब, मार्क, सिलि, थूजा वेरे।

„ रक्तात्म (Bloody)—केल्के, क्रिमि, क्रोटे-हौर, ग्राफ़ि, लेके, माइको, नक्स-म, नक्स-वोम।

„ लाल—कार्बो-वेज, लेके, नक्स-म, नक्स वोम, थूजा।

नहीं होता, ज्वरमें पसीना (Perspiration absent in fever)—एपिस, ऐरानि, आर्स, बेल, ब्रोमि कैम्फो, युपे पर्फो, जेलस, इपेका, ब्राइयो, हपि, माइको, नक्स-म, फास ऐ, फास [illegible], [illegible], [illegible], पल्स, [illegible] [illegible]।

„ उत्तापके साथ—[illegible], [illegible], [illegible], केल्के, [illegible], [illegible], फोना, [illegible], ऐनि, [illegible], हपि, [illegible], [illegible] [illegible] कार्ब, नक्स वोम, ओपि फास, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], स्टेनम, [illegible], स्ट्रैमो, [illegible]।

गन्ध, पेशाबकी तरह, घोड़ेका—**नाइट्रि-ऐ।**

„ मीठी—कैलेडि, पल्स, थूजा।

„ मृग-नाभिकी तरह—एपिस, मस्क, पल्स, सल्फ।

„ सड़ी (Putrid)—बैप्टि, **कार्बो-वेज**, मैग-कार्ब, रास-टक्स, स्पाइजि, **स्टेफि**, स्ट्रैमो, विरे।

गरम (Hot)—इस्कि, वेल, कैमो, **इग्ने**, **इपि**, **नक्स-वोम**, **ओपि**, **सोरि**, **सिपिया**, स्टैनम, स्ट्रैमो।

घरके भीतर (कमरेमें-In the room)—ऐकोन, एपिस, फ्लू-ऐ, **इपि**, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ, वेले।

घूमनेके समय (While walking)—ब्राइयो, कैल्के, कक, कैलि-कार्ब, मार्क, **नस-वोम**, **सोरि**, **सिपि**, **सल्फ।**

„ खुली हवामें—**ब्राइयो**, कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कास्टि**, **चायना**, गुयेज, फास, सल्फ।

ज्वरके बाद—आर्स, लैकेडि, चायना, कूप्रम, लैकि, लाइको, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, जिङ्क।

जलन करनेवाला (Burning)—मार्क, मेजे, **नेट्रम-कार्ब**, वेरे।

ज्यादा देर तक ठहरनेवाला (Long lasting)—आर्स, **कास्टि**, **फेरम**, जेल्स, **हिपर**, लेडम, **सैम्बु**, वेरे।

ठण्ढा (Cold)—ऐकोन, **ऐमोन-कार्ब**, ऐनाका, ऐन्थ्रा, ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट**, आर्नि, **आर्स**, ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ**, **कार्बो-वेज**, **चायना**, क्लोरी, सिना, **काक्कि**, क्यूप्रे, इस्के, हेलि, **हिपर**, हाइयो, इग्ने, **इपि**, लैकि, लोबे, **लाइको**, मार्क, **मार्क-कोर**, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रूटा, **सिकि**, **सिपिया**, स्पाइजि, स्क्विल, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरे, थूजा, **वेरे**, **वेरे-वि**, जिङ्क।

„ एकाएक—कोटे-होर।

प्रचुर, सवेरे—चिनि-सल्फ, फेरम, मैग-कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, ओपि, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि।

„ „ जागते ही—फेरम, सिपि, सल्फ।

„ रातमें—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, हिपर, लोबे, लाइको, मार्क, नैट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फास, सोरि, सैम्बु, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरेक्स, थूजा, वेरे।

„ „ नींदके समय—चायना, फास, थूजा।

„ ऋतुके समय—हाइयो, ग्रैफा, म्यूरे, वेरे।

„ कमजोर करनेवाला—चायना, मार्क, फास-ऐ, फास।

„ धूलिके समय—मार्क, सोरि, सिपि, सल्फ।

„ „ खुली हवामें—कास्टि, चायना।

„ जागनेसे—फेरम, सैंबु, सिपि, सल्फ।

„ ढँके स्थानमें—बेल, कैमो, चायना, फेरम, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

„ दिन रात, समान भावसे—हिपर, मार्क, सैंबु।

„ नींद न आनेके साथ—कैमो, सल्फ।

पाखाना जानेके पहले—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, मार्क, फास, रास-टक्स, ट्राम्बि, वेरे।

पीनेके बाद, पीनेकी चीजें (After drinking)—आर्स, कैमो, चायना, काकि, मार्क, पल्स, रास-टक्स सिलि, सल्फ।

„ गर्म—ब्राइयो, कैल्कि कार्ब, मार्क, फास, सल्फ-ऐ।

बिछावनपर (In bed)—ऐलूमि, कैल्के, कैमो फेरम, ... मार्क, म्यू-ऐ, नाइट्रि ऐ, रास टक्स, सैबु, सिलि, सल्फ।

बैठे रहनेसे (While sitting)—ऐनाका, आर्स हिपार, कैल्के, ... कैलि कार्ब, रास टक्स, स्टैफि।

बैठ जाना (बन्द हो जाना Suppressed)—ऐकोन, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, चायना, क्रिप, कोलोसि, डल्का, ... कैलि कार्ब,

नींदकी आरम्भमें (On begining to sleep)—आर्स, कैल्के, कोना, मैग-कार्ब, मार्क, म्यूर-ऐ, फास, सेनि, सिपि, सल्फ, टैरेक्स, थूजा, वेरे।

„ समय—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, चेलिडो, चायना, चिनि-सल्फ, कोना, फेरम, हाइयो, लैकसी, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, ओपि, फास-ऐ, फास, प्लैटि, पाडो, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि, साइलि, सिलि, सल्फ, थूजा।

„ आंख मूंदते ही—ब्राइयो, कोना, लैके।

„ जागनेके बाद—ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, कैल्के, कैलेडि, चेलिडो, चायना, क्लिमे, फेरम, मार्क, नक्स वोम, फास, सैंबु, सिपि, सल्फ, रास-टक्स।

परिश्रमसे, थोड़ेसे ही (During slight exertion)—आर्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, चायना, काकि, फेरम, फेरम-मेट, जेल्स, हिपर, आइयो, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि-ऐ, ओपि, फास, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, वेरे।

„ मानसिक—कैल्के, हिपर, कैलि-कार्ब, लैकि, सोरि, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

प्रचुर (Profuse)—ऐकोन, ऐगा, ऐण्टिम टार्ट, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिड्रो, चायना, चिनि-सल्फ, कोलचि, डिजि, फेरम, जेल्स, हिपर, इग्नि, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, मेजि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास ऐ, फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सैंबु, सिकि, सिलि, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ, टैरेक्स, थूजा, वेरे।

फास-ऐ, फास, प्लम्ब, सोरि, सिके, स्पाइ, सल्फि, सल्फ-ऐ, वेरे, जिङ्क।

लक्षणोंका बढ़ना, पसीनेके समय (Symptoms aggravated while sweating)—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, कास्टि, कैमो, चायना, फेरम, फार्मि, इपि, मार्क, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, सोरि, रास-टक्स, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे।

" पसीनेके बाद—ऐकोन, चायना, कोना, मार्क, फास-ऐ, फास, पल्स, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

लक्षणोंका घटना, पसीनेके समय—ऐकोन, आर्स, बेप्टी, बेल, बोवि, ब्राइयो, कैलेडि, कैमो, क्यूप्रम, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, लैके, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स, स्ट्रासि, थूजा, वेरे।

लिखनेके समय (While writing)—हिपर, कैलि-कार्ब, सोरि, सिपि, सल्फ।

श्वास कष्टके साथ (With dyspnœa)—ऐण्टिम टार्ट, आर्स, कार्बो-वेज, लैके, लाइको, साइलि, सल्फ, थूजा।

स्वल्प (थोड़ा-Scanty)—ऐण्टिम-क्रू, एपिस, सिनि स, मिना, ग्रुपे पर्की, ग्रुपे-पार्वि, इग्ने, इपि, केलि कार्ब, कैलि सा, लैके, लेडम, नक्स म, नक्स-वोम, सिपि, साइलि।

स्थान, अण्डकोषमें—नेट्रम-म, पेट्रो, थूजा।

" ऊपरके भागोंमें, शरीरके—ऐमोन, कार्बो वेज, कैमो, चायना, ग्रुपे पर्की, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, ओपि, रियुम, सेबे, वेरे।

" कपालमें—ऐट्रा, केना इ, काइ, मिना, क्रोटन, इग्नेव ग्रुपे वार्वि, ल्यूकोमी, इपि, कैलि सा, लेडम, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, ओपि, टिबिना, स्ट्रैमम, स्ट्रैमो, वेरे।

" किसी एक जगहपर (Single part)—ऐकोन ऐश्मा, वेग कार्ब, इस ब्राइयो ऐन्थ्रो, कास्टि कैमो, चायना, हिपर, इग्ने, लेडम मार्क मेजे, नक्स वोम, पल्स, रास टक्स, सिलि, सिपि, स्याफि स्पर, स्ट्रैमम, सल्फ थूजा।

लाइको, मार्क, नक्स-वोम, नक्स-मस, फास, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, **सिपि, साइलि, सल्फ।**

बोलनेके समय (While talking)—ग्रैफा, ब्राइयो।

भोजनके समय (While eating)—वैरा-कार्ब, वेञ्जो-ऐसि, कैल्के, **कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज,** कोना, **कैलि-कार्ब, मार्क,** नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** फास-ऐ, फास, पल्स, **सिपि,** साइलि।

„ बाद—**ब्राइयो, कैल्क, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज,** कास्टि, कैलि-कार्ब, लोरो, लाइको, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, **फास, सिपि,** साइलि, **सल्फ,** वायो-ड्रि।

„ गर्म खानेकी चीजोंसे—ब्राइयो, कार्बो-वेज, फेरम, कैलि-कार्ब, **फास,** पल्स, **सल्फ-ऐ,** थूजा।

मक्खीको आकर्षित करता है (Attracting flies)—कैलेडि, पल्स, थूजा।

मानसिक उद्वेगके समय (During anxiety)—ऐम्ब्रा, **आर्स, कैल्क,** कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो, चायना, फेरम, फ्लू-ऐ,** मैग-कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, **फास-ऐ,** फास, पल्स, रास-टक्स, **सिपि,** सल्फ, थूजा।

„ रातमें—**आर्स,** कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यूर।

मूर्च्छाके साथ (With fainting)—ऐगा, एपिस, कार्बो-वेज, इग्ने, ह्वाइयो।

मैथुनके बाद (After coition)—कैल्के, चायना, युजि, **ग्रैफा,** नेट्रम-कार्ब, सिलि, **सिपि।**

यन्त्रणाके साथ (With pain)—ऐण्टिम-टार्ट, ब्राइयो, कैमो, चेलिडो, कोलोसि, हिपर, **लैके, मार्क, नेट्रम-कार्ब,** रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

रक्तात्त (Bloody)—"दाग लगता है कपड़ेमें" देखिये।

लसदार (Clammy)—ऐण्टि-टार्ट, **आर्स,** कैल्के, **कैम्फ, कैमो, फेरम,** फ्ल-ऐ, हेलि, हिपर, **लाइको, मार्क,** मार्क-को, मस्क, नक्स-वोम,

स्थान, रोगसे आक्रान्त स्थानमें—ऐम्ब्रा, ऐण्टि टा, कैल्के, क्रोटे-टी, मर्क-रे, लैके, लाइको, नक्स-म, नाम-वोम, पेट्रो।

" शरीरमें, सारे—ऐण्टि-टा, वेञ्जो, ऐमि, कार्बो, काक्कि, काफि, डाल्का, इग्नेप, गैम्बो, हाइयो, आइयो, लेडम, लाइको, मैंग्ने, फॉस्फि, मार्क, नेट्रम-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रेमो, सल्फ, टैरे, टैरि, थूजा।

" सामनेके भागमें, शरीरके—आर्ज-मे, कैल्के, मार्क, नक्स-वोम, फास्फ, सिलि।

" सिरमें—कैल्के, चायना, साइमे, गुये-पार्षि, मैग-स, म्यू-ऐ, फॉस्फि, पेट्रो, फास, पोडो, सैबाडि, साइलि, जिङ्क।

" " कुकड़ी (थोड़ा)—साइलि।

" " छोड़कर, सारे शरीरमें—बेल, मार्क, नक्स-वो, रास टक्स, मैंगु, सिके, सिपि, थूजा।

" हाथमें- कैल्क, सिना, काक्कि, ग्लोनो, फेलिका, मेडम, फास, सिके, स्ट्रिक्ना, जिङ्क।

" " सन्धियोंमें—ब्रोमि, कैल्के, काफि डिजि, डाल्का, पल्स, ऐ, गुयेक, आइयो, मेडो पेट्रो, सोरि, सिपि।

सोनेके समय (While lying)—कैम्फ़ि, फेरम, मैग-म, मिनि, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सैम्बु, सिपि।

हवा, खुलेमें (In the open air)—आइयो कैल्के, कार्बो वेजि, कार्बो, चायना, सोरि, साइलि।

हिलने डोलनेसे (Motion)—ऐम्ब्रा, आर्स, आइयो, कैल्के, कार्बो वेजि कार्बो, चायना, विनि म, काफि, फेरम, ग्रेफा हिपर, केलि-ब. केलि-कार्ब, मार्क, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू नाइ ऐ, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स सिपि, सिपिया, साइलि, स्ट्रेमो स्टेनम, सल्फ, थेरे, जिङ्क।

" शीत सामान्य होनेके बाद—गुये-कार्बो, नक्स-वोम।

स्थान, चेहरेमें—ऐगा, ऐल्यूमि, आर्जे-मे, बेञ्जो-ऐ, काफि, चायना, ड्रोसे, ग्लोनो, हाइड्रोफो, नेट्रम-सल्फ, पाडो, प्रूण, सोरि, पल्स, रास-टक्स, बोवि, सेबाडि, सँगु, साइलि, स्ट्रैमो।

„ „ छोड़कर, सारे शरीरमें—रास-टक्स, सिपि।

„ जननेन्द्रियमें—ऐरम, कैन्थ, कोना, जेल्स, नेट्रम-स, पेट्रो, सेनि, स्टैफि।

„ „ पुं—हाइड्रो, पेट्रो, सोरि, सिपि।

„ „ दुर्गन्धसे भरा हुआ प्रचुर—हाइड्रो, पेट्रो।

„ निचले भागमें, शरीरके—ओकास, साइक्ला, हाइयो, मार्क।

„ पार्श्वमें, एक—ऐम्ब्रा, ऐकोन, बैरा-कार्ब, बेञ्जो-ऐसि, ब्राइयो, केमो, चायना, फ्लू-ऐ, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ दाहिने—नक्स-वोम।

„ „ बायें—बैरा-कार्ब, फ्लू-ऐ, पल्स, फास।

„ „ रोगी—ऐम्ब्रा, नक्स-वोस।

„ „ सोनेवाली करवट—ऐकोन, ब्राइयो, बेल, चायना, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स।

„ पीठमें—ऐकोन, चायना, चिनि-स, डाल्का, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ पुट्ठेमें—आइरि।

„ पैरमें—बेल, कैल्के, केलेण्डु, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ड्रोसे, ग्रैफा, लेडम, पोडो, पेट्रो, फास, पल्स, सेबाइ, साइलि, स्टैफि, थ्यूज, जिङ्क।

„ „ और हाथमें—हाइपि, लेक्टि-ऐसि।

„ „ तलवेमें—नाइ ऐ, सेबाडि।

„ „ दुर्गन्धसे भरा हुआ—ग्रैफा, सोरि, पाइरो, सैनि, साइलि, जिङ्क।

„ बगलमें—ऐसा, बेञ्जो ऐ, बोवि, कैड्मि-स, कैल्का, कार्डु, चिनि-स, क्रोटे-टी, डाल्का, कैलि कार्ब, लैके, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, स्क्रोडो।

स्थान, रोगसे आक्रान्त स्थानमें—ऐम्ब्रा, ऐरिट टा, केल्के, क्रोटे-टी, मर्-रे, लैके, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो।

" शरीरमें, सारे—ऐरिट-टा, बेल्लो, ऐमि, कान्थ्रि, काक्कि, काफि, डाल्का, इलेप, ग्रेफो, हाइयो, आइयो, लेडम, लाइको, मेट्ट, ओपि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, मिके, सिपि, साइलि, ष्ट्रैमो, सल्फ, टैरे, टेरि, थूजा।

" सामनेके भागमें, शरीरके—आर्जे-मे, कैल्के, मार्क, नक्स-वोम, थार्स, सिलि।

" सिरमें—कैल्के, चायना, माइमे, गुये-पार्वि, मेग-म, म्यू-ऐ, ओपि, पेट्रो, फास, पोडो, सैवाडि, साइलि, जिङ्क।

" " कुछ्छी (थोड़ा)—साइलि।

" " छोड़कर, सारे शरीरमें—बेल, मार्क, नक्स वो, रास टक्स, सैंगु, सिके, सिपि, थूजा।

" हाथमें- कैम्फ, सिना, काक्कि, ग्लोनो, कैलि-का, लेडम, फास, मिके, स्ट्रिकटा, जिङ्क।

" " तलवेमें—ओमि, कैल्के, काफि डिजि, डाल्का, फ्लू ऐ, गुये‍ेज, आइयो, लेडो, पेट्रो सोरि, सिपि।

सोनेके समय (While lying)—कैम्फ, फेरम, मेग-म, मिनि, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सैम्बु, सिपि।

हवा, खुलेमें (In the open air)—ब्राइयो, कैल्के, कार्बो वेजि, काफि, चायना, सोरि, माइनि।

हिलने डोलनेसे (Motion)—ऐम्ब्रा, थाम, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो वेजि, कान्थ्रि, चायना, सिमिस, काक्कि, फेरम, हेपर, लिपर, कैलि-म, कालि-फार्स, मार्क, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू, नाइ ऐ, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, सिपि, सिपिया, माइनि, ष्ट्रैमो, स्टैनम, सल्फ, थेर, जिङ्क।

" गीत सामान्य होनेके साथ—गुये-पार्वो, नक्स-वोम।

स्नानि, चेहरेमें—ऐगा, ऐल्यूमि, आर्जे-मे, वेञ्जो-ऐ, काफि, चायना, **ड्रोसे,** क्लोनो, हाइड्रोफो, नेट्रम-सल्फ, पाडो, प्रूण, **सोरि, पल्स,** रास-टक्स, बोवि, सैवाडि, **सेंगु, साइलि, स्ट्रैमो।**

„ „ छोड़कर, सारे शरीरमें—रास-टक्स, सिपि।

„ जननेन्द्रियमें—ऐरम, कैन्थ, कोना, जेल्स, नेट्रम-स, पेट्रो, सैनि, स्टैफि।

„ „ पुं—हाइड्रो, पेट्रो, सोरि, सिपि।

„ „ दुर्गन्धसे भरा हुआ प्रचुर—हाइड्रो, पेट्रो।

„ निचले भागमें, शरीरके—**क्रोकास,** साइक्ला, हाइयो, मार्क।

„ पार्श्वमे, एक—**ऐम्ब्रा,** ऐकोन, बैरा-कार्ब, बेञ्जो-ऐसि, ब्राइयो, केमो, चायना, फ्लू-ऐ, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ दाहिने—नक्स-वोम।

„ „ बायें—बैरा-कार्ब, फ्लू-ऐ, पल्स, फास।

„ „ रोगी—**ऐम्ब्रा,** नक्स-वोम।

„ „ सोनेवाली करवट—ऐकोन, ब्राइयो, बेल, **चायना, नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, पल्स।

„ पीठमें—ऐकोन, चायना, चिनि-स, डाल्का, नक्स-वोम, पल्स, **सिपि,** सल्फ।

„ पृष्ठमें—आइरि।

„ पैरमें—बेल, कैल्के, कोलेफ्, कैम्फ, केन्थ, **कार्बो-ऐनि,** कार्बो-वेज, ड्रोसे, ग्रेफा, लेडम, पोडो, पेट्रो, फास, पल्स, सैबाड, **साइलि,** स्टैफि, थ्यूज, जिङ्क।

„ „ और हाथमें—हाइपि, लेक्टि-ऐसि।

„ „ तलवेमें—**नाइ ऐ,** सैबाडि।

„ „ दुर्गन्धसे भरा हुआ—ग्रेफा, सोरि, पाइरो, सैनि, **साइलि,** जिङ्क।

„ बगलमें—ऐसा, **बेञ्जो ऐ,** बोवि, कैड्मि-स, कैल्का, कार्डु, चिनि-स, क्रोटे-टी, डाल्का, कैलि कार्ब, लेके, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, क्रोडी।

स्थान, रोगसे आक्रान्त स्थानमें—ऐम्ब्रा, ऐण्टि-टा, कैल्के, क्रोटे-हो, क्यू-रे, लैके, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो।

„ शरीरमें, सारे—ऐण्टि-टा, बेञ्जो, ऐसि, कास्टि, काकि, काफि, डाल्का, हलेप, गैम्बो, हाइयो, आइयो, लेडम, लाइको, मैङ्ग, ओपि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, टैरे, टेरि, थूजा।

„ सामनेके भागमें, शरीरके—आर्जे-मे, कैल्के, मार्क, नक्स-वोम, आर्स, सिलि।

„ सिरमें—कैल्के, चायना, साइमे, गुये-पार्पि, मैग-स, म्यू-ऐ, ओपि, पेट्रो, फास, पोडो, सैबाडि, साइलि, जिङ्क।

„ „ कुछही (थोडा)—साइलि।

„ „ छोडकर, सारे शरीरमें—बेल, मार्क, नक्स-वो, रास-टक्स, मैंगु, सिके, सिपि, थूजा।

„ हाथमें - कैम्फ, सिना, काकि, ग्लोनो, कैलि-का, लेडम, फास, सिके, स्टिक्टा, जिङ्क।

„ „ तलवेमें—ब्रोमि, कैल्के, काफि, डिजि, डाल्का, फ्लू-ऐ, गुयेज, आइयो, मेडो, पेट्रो, सोरि, सिपि।

सोनेके समय (While lying)—केफि, फेरम, मैग-म, मिनि, मार्क, परस, रास-टक्स, सैम्बु, सिपि।

हवा, खुलेमें (In the open air)—आइयो, कैल्के, कार्बो-वेनि, कास्टि, चायना, सोरि, साइलि।

हिलने डोलनेसे (Motion)—ऐम्ब्रा, आस, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेनि, कास्टि, चायना, चिनि-स, काकि, फेरम, ग्रेफा, हिपर, केलि-च, कैलि-कार्ब, मार्क, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, सिलि, सिपिया, साइलि, स्ट्रैमो, स्टैनम, सल्फ, वेरे, जिङ्क।

„ शीत मालूम होनेके साथ—गुये पार्पि, नक्स-वोम।

स्थलि, चेहरेमें—ऐगा, ऐल्यूमि, आर्जे-मे, बेञ्जो-ऐ, काफि, चायना, ड्रोसे, ग्लोनो, हाइड्रोफो, नेट्रम-सल्फ, पाडो, प्लग, सोरि, पल्स, रास-टक्स, बोवि, सैबाडि, सँगु, साइलि, स्ट्रैमो ।

„ „ छोड़कर, सारे शरीरमें—रास-टक्स, सिपि ।

„ जननेन्द्रियमें—ऐरम, कैन्थ, कोना, जेल्स, नेट्रम-स, पेट्रो, थैनि, स्टैफि ।

„ „ पुं—हाइड्रो, पेट्रो, सोरि, सिपि ।

„ „ दुर्गन्धसे भरा हुआ प्रचुर—हाइड्रो, पेट्रो ।

„ निचले भागमें, शरीरके—ओकास, साइक्ला, हाइयो, मार्क ।

„ पार्श्वमें, एक—ऐम्ब्रा, ऐकोन, बैरा-कार्ब, बेञ्जो-ऐसि, ब्राइयो, केमो, चायना, फ्लू-ऐ, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

„ „ दाहिने—नक्स-वोम ।

„ „ बायें—बैरा-कार्ब, फ्लू-ऐ, पल्स, फास ।

„ „ रोगी—ऐम्ब्रा, नक्स-वोम ।

„ „ सोनेवाली करवट—ऐकोन, ब्राइयो, बेल, चायना, नोइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स ।

„ पीठमें—ऐकोन, चायना, चिनि-स, डाल्का, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, सल्फ ।

„ पुट्ठेमें—आइरि ।

„ पैरमें—बेल, कोल्के, कोलेचु, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ड्रोसे, ग्रैफा, लेडम, पोडो, पेट्रो, फास, पल्स, सैबाड, साइलि, स्टैफि, थ्यूब, जिङ्क ।

„ „ और हाथमें—हाइपि, लैक्टि-ऐसि ।

„ „ तलवेमें—नाइ ऐ, सैबाडि ।

„ „ दुर्गन्धसे भरा हुआ—ग्रैफा, सोरि, पाइरो, सैनि, साइलि, जिङ्क ।

„ बगलमें—ऐसा, बेञ्जो ऐ, बोवि, कोड्मि-स, कैल्का, कार्डु, चिनि-स, क्रोटे-हो, डाल्का, कैलि कार्ब, लेके, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, झोडो ।

उद्भेद, अन्धौरी, वेगनी रङ्गका—ऐकोन' आइलेन्थ, काफि।

„ „ सद्यः प्रसूताओंका—ब्राइयो, कूप्रम, इपि।

„ „ सफेद—एपिस, आर्स, ब्राइयो, इपि, फास, सल्फ, वेलें।

„ „ स्कारलेट ज्वरसे (Scarlet fever)—ऐकोन, ब्राइयो काफि, मार्क, रास-टक्स, सल्फ, जिङ्क।

„ आवरण (Desquamating)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यूर, वेल, क्लिमे, लिडम, मेजे, फास, पल्स, मिपि, साइलि, स्टेफि, सल्फ।

„ उपदंशज—आर्स-ऐ, गुयेक, हिपर, केलि-आ, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-प्रे, मार्क-आ-रू, नाइ-ऐ, फाइटो, थूजा।

„ एकजिमा (Eczema)—आर्स, कैलेडि, कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, सिकि, क्लिमे, क्रोटन-टि, डाल्का, ग्रेफा, हिपर, यालरि, जुग-के, लिथि, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-म, ओलियेंडर, पेट्रो, फाइटो, सोरि, रैना-ब, रास-टक्स, स्टेफि, सल्फ, थूजा, वायो-ट्रि।

„ काटता है, कटकटाता है (Aching)—ऐमोन म्यूर, ब्राइयो, कैम्फ, कास्टि, कोलचि, गुफे, इपि, लैके, लिडम, माइको, मेजे, ओलियेंडर, परस, स्पञ्जि सल्फ।

„ कार्बंकल (Curbuncle)—एपिस, ऐन्थ्रा, आर्नि, आर्स, वेल, म्यूको, हिपर, हाइयो, लैके, साइलि, सल्फ।

„ „ जखम भरा हुआ—ऐन्थ्रा, एपिस, चार्को।

„ „ उङ्ग मानसे अंगे दर्दके साथ—एपिस, कार्बो एनि साइलि।

„ फाला—आर्स, बेल मारको, मेजे रास टक्स सिके।

„ फफोले भरे हुए स्थानोंमें—मिलि, मार्क, नेट्रम म्यूर रास टक्स।

„ कोढ़ (Leprosy)—हिमाग्रा आर्स, कैल्के, कार्बो वेज कार्बो, ईपेर माइकोफा, हाइड्रोको, कास्टि कैलि ब्र मेपि, नेट्रम म्यूर पेट्रो सिके सिपि साइलि, सल्फ।

उद्भेद, आमवात, पसीनाके समय—एपिस, **रास-टक्स**।
„ „ वातके साथ—रास-टक्स, आर्टि-ड्र।
„ „ बोखारके समय—एपिस, **इग्ने**, **रास-टक्स**, सल्फ।
„ „ भीगकर—रास-टक्स।
„ „ मांस खाकर—**ऐण्टिम-क्रूड**।
„ „ शीतावस्थाके पहले (Before chill)—हिपर।
„ „ „ समय—आर्स, **नेट्रम-म्यूर**, **रास-टक्स**।
„ „ „ बाद—इलेटे, हिपर।
„ „ स्नानसे—फास।
„ „ „ ठण्डे पानीसे—कैल्के-फास।
„ „ हवासे खुली—नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, रूमे, सिपि।
„ „ „ ठण्डी—एपिस, डाल्का, नाइ-ऐ, **रास-टक्स**, सिपि।
„ „ घटना, गरमसे—हिपर।
„ „ „ „ ठण्डी हवासे—कैल्के।
„ „ बढ़ना, ठण्डा पानी पीनेसे—बेल।
„ ओरी (Rash)—**ऐकोन**, ऐगा, आइलैन्थ, ऐण्टिम-टार्ट, ऐपिस, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, क्लिमे, ग्रैफा, हिपर, इपि, जुग-कै, कैलि-बाइ, कैलि-ब्रोम, लैके, **मार्क**, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिके, सिलि, सिपि, साइलि, स्टैफि, **स्ट्रैमो**, **सल्फ**।
„ „ खुजलानेके बाद—ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, ग्रैफा, इपि, मार्क, मेजे, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।
„ „ खुजलीके साथ—ऐगा, ब्राइयो, कैलेडि, सल्फ।
„ „ टाइफायेड ज्वरसे—आर्निका, **आर्स**, बैप्टि, **ब्राइयो**, कैम्फ, कोना, क्रोटे-होर, हाइयो, लैके, फास-ऐ, **फास**, **रास-टक्स**, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, टेरि।
„ „ नीले रङ्गका—आइलैन्थ, काफि।
„ „ बालकोंका—ऐकोन, ब्राइयो, कैमो, इपि, सल्फ।

छद्देद, खसरा, बढ़ना गरमसे बिछावनकी—ऐमोन-का, ऐपिट-टा, क्रिमि, लैति-आ, सोरि, रास-टक्स, सल्फ, वेरे।

» खुजलानेके बाद—ऐमोन कार्ब, आर्स, वैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, साइक्ला, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, कोनि ना, क्रियो, लैके, लाइकी, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, ओलियै, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टेफि, सलफ।

» गरम होनेसे ज्यादा निकलता है—बोवि, कार्बो-वेज, कोना, नेट्रम-म्यूर, सोरि, पल्स।

» चप्टा—ऐमोन-कार्ब, आर्स, ऐसाफि, बेल, लैके, लाइको, नेट्रम कार्ब, फास-ऐ, सिलि, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

» चिड़चिड़ करना (Smarting)—ऐल्यूमि, एपिस, आर्जे मेट, आर्स, आरम, ब्राइयो, कैल्के, कैंथि, सिकि, कोल्चि, क्रोटे, ग्रैफा, हिपर, लैके, मेज़े, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पेरि, पेट्रो, फास ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाइ, स्क्वि, सल्फ, वेसि, वेरे, जिङ्क।

» चेंउटा से सटा हुआ (Scaly)—ऐमोन म्यूर, ऐण्टि क्रूड, आर्स, आरम, बैरा-म्यू, बेल, कैलेडि, कैल्के, क्रिमि, कलु ऐ, डाइको की, फैनि का, फैनि-स, क्रियो, लेडम, सैग-का, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, ओलिए फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, रास टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

» चेचक (Small pox)—ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कैमो, मार्क, नेट्रम म्यूर, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

» » काली (Black pox)—ऐण्टि क्रूड, आर्स, बेल, ब्राइयो, लैके, म्यू-ऐ रास-टक्स, सिके, साइलि साइलि।

» » जलनसे भरी हुई—ऐल्यू, आर्जेण्ट-मेट, आरम ब्राइयो कैल्के, सिकि, कोल्चि क्रोटे, ग्रैफा, हिपर, लैके मर्क मेज़े, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, पेरि, पेट्रो, फास ऐ, पल्स, रास टक्स सिपि, स्पाइ, स्क्वि, सल्फ वेरे जिङ्क।

उद्भेद, खसरा (Scabies)—ऐसिड-क्रूड, आर्स, ऐस्टि, केल्के, **कार्बो-वेज, कास्टि,** क्रूप्रम, डाल्का, हिपर, क्रियो, लैके, लाइको, मेझे, मार्क, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, **सोरि, सिलि, सिपि,** सल्फ-ऐ, **सल्फ,** वेरे, जिङ्क।

" " चर्बीसे भरा हुआ—कास्टि, क्रियो, **मार्क,** सिपि, सल्फ।

" " बैठजानेसे (Suppressed)—आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, डाल्का, सिलि, सिपि, **सल्फ।**

" " " पारा और गन्धकसे—**कास्टि,** चायना, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **सोरि,** पल्स, सिलि, **सिपि,** स्टेफि।

" " भींगा भींगा—कार्बो-वेज, ग्रेफा, लाइको, मार्क, साइलि, सल्फ।

" " सूखा—आर्स, केल्के, हिपर, लेडम, मार्क, सोरि, **सिपि, साइलि,** सल्फ, वेरे।

" " खुजलीसे भरा हुआ—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐनाका, ऐसिड-क्रू, ऐसिड-टा, आर्निका, **आर्स,** आर्स-आ, ब्राइयो, कैलेडि, केल्के, केल्के-फास, कैन्थ, कास्टि, कैमो, क्लिमे, क्रोटन-टिग, हिपर, डल्के, जुग-कै, कैलि-कार्ब, कैलि-ऐ, क्रियो, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, **नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम,** ओलियेे, पेरि, फाइटो, सोरि, पल्स, रैना-ब, **रास-टक्स,** सिलि, **सिपि,** साइलि, स्क्रु्इ, **स्टेफि, सल्फ,** वायो-ट्रि।

" " रातमें—आर्स, क्लिमे, आइरि, मार्क, मेजे, रास-टक्स।

" " पोशाक उतारनेसे—आर्स-आ, कैलि-ऐ, नेट्रम-सल्फ, क्लिमे।

" " हवामें खुली—लेडम, नाइ-ऐ।

" " " ठण्डी—कैलि-ऐ, रूमे।

" " बढ़ना, गरमसे—ऐलूमि, मोवि, क्लिमे, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, सोरि, पल्स, सल्फ।

" " " " घरमें—सिपि।

उद्भेद, खसरा, बढ़ना गरमसे बिछावनकी—ऐमोन-का, ऐण्टि-क्रू, क्लिमे, कैलि-आ, सोरि, रास-टक्स, सल्फ, वेरे।

„ खुजलानेके बाद—ऐमोन कार्ब, आर्स, वेरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, साइक्ला, डाल्का, ग्रेफा, हिपर, कैलि-बा, क्रियो, लैके, **लाइको**, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, ओलिये, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टेफि, **सल्फ**।

„ गरम होनेसे ज्यादा निकलता है—वोवि, कार्बो-वेज, कोना, **नेट्रम-म्यूर**, सोरि, पल्स।

„ चप्टा—ऐमोन-कार्ब, आर्स, ऐसाफि, वेल, लैके, लाइको, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, सिलि, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ चिडचिड करना (Smarting)—ऐल्यूमि एपिस, आर्ज-मेट, आर्स, आरम, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फि, सिक्कि, कोल्चि, ड्रोसे, ग्रेफा, हिपर, लैके, मेज़ि, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पेरि, पेट्रो, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाइ, स्क्‍वि, सल्फ, वेसे, वेरे, जिङ्क।

„ चेंउटा से सटा हुआ (Scaly)—ऐमोन-म्यूर, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, आरम, वेरा-म्यू, वेल, कैलेडि, कैल्के, क्लिमे, पल्-ऐ, हाइड्रो-को, कैलि का, कैलि-स, क्रियो, लेडम, मेग-का, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, ओलिए, फास, फाइटो, प्रम्य, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ चेचक (Small pox)—ऐण्टि-क्रूड, **ऐण्टि-टार्ट**, एपिस, आर्स, वेल, ब्राइयो, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, **मार्क**, नेट्रम म्यूर, पल्स, **रास-टक्स**, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ „ काली (Black pox)—ऐण्टि क्रूड, **आर्स**, वेल, ब्राइयो, लैके, म्यू-ऐ, **रास-टक्स**, सिके, साइलि आर्जि।

„ „ जलनसे भरी हुई—ऐमो, **आर्जेण्ट-मेट**, आरम, ब्राइयो, कैल्के, सिकि, कोल्चि, ड्रोसे **ग्रेफा**, **हिपर**, कैलि-सल्फ, लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पेरि, पेट्रो, फास-ऐ, पल्स, रास टक्स, **सिपि**, स्पाइ, स्क्‍वि, सल्फ वेरे, जिङ्क।

उद्भेद, खसरा (Scabies)—ऐसिट-क्रुड, आर्स, ऐस्टि, कैल्के, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, कूप्रम, डाल्का, हिपर, क्रियो, लेके, लाइको, मेङ्ग, मार्क, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, **सोरि**, **सिलि**, **सिपि**, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, वेरे, जिङ्क।

" " चर्बीसे भरा हुआ—कास्टि, क्रियो, **मार्क**, सिपि, सल्फ।

" " बैठजानेसे (Suppressed)—आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, डाल्का, सिलि, सिपि, **सल्फ**।

" " " पारा और गन्धकसे—**कास्टि**, चायना, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **सोरि**, पल्स, सिलि, **सिपि**, स्टैफि।

" " भीगा भींगा—कार्बो-वेज, ग्रैफा, लाइको, मार्क, साइलि, सल्फ।

" " सूखा—आर्स, कैल्के, हिपर, लेडम, मार्क, सोरि, **सिपि**, **साइलि**, सल्फ, वेरे।

" " खुजलीसे भरा हुआ—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐनाका, ऐसिट-क्रू, ऐसिट-टा, आर्निका, **आर्स**, आर्स-आ, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कास्टि, कैमो, क्लिमे, क्रोटन-टिग, हिपर, इग्ने, जुग-कै, कैलि-कार्ब, कैलि-ऐ, क्रियो, लेके, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, **नेट्रम-म्यूर**, **नक्स-वोम**, ओलिये, पेरि, फाइटो, सोरि, पल्स, रेना-व, **रास-टक्स**, सिलि, **सिपि**, साइलि, स्कुइ, **स्टैफि**, **सल्फ**, वायो-ट्रि।

" " रातमें—आर्स, क्लिमे, आइरि, मार्क, मेजे, रास-टक्स।

" " पोशाक उतारनेसे—आर्स-आ, कैलि-ऐ, नेट्रम-सल्फ, क्लिमे।

" " हवामें खुली—लेडम, नाइ-ऐ।

" " " ठण्डी—कैलि-ऐ, रूमे।

" " बढ़ना, गरमसे—ऐलूमि, मोवि, क्लिमे, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, सोरि, पल्स, सल्फ।

" " " " घरमें—सिपि।

उद्भेद, खसरा, बढ़ना गरमसे बिछावनकी—ऐमोन-का, ऐण्टि-क्रू, क्लिमे, कैलि-आ, सोरि, रास-टक्स, सल्फ, वेरे।

„ खुजलानेके बाद—ऐमोन कार्व, आर्स, वैरा-कार्व, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, साइक्ला, डाल्का, ग्रेफा, हिपर, कैलि बा, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, ओलियै, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टेफि, सल्फ।

„ गरम होनेसे ज्यादा निकलता है—वोवि, कार्बो-वेज, कोना, नेट्रम-म्यूर, सोरि, पल्स।

„ चपटा—ऐमोन-कार्व, आर्स, ऐसाफि, वेल, लैके, लाइको, नेट्रम-कार्व, फास-ऐ, सिलि, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ चिडचिड करना (Smarting)—ऐल्यूमि, एपिस, आर्ज-मेट, आर्स, बरम, ब्राइयो, कैल्के, केप्सि, सिकि, कोल्चि, ड्रोसे, ग्रेफा, हिपर, लैके, मैङ्ग, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पैरि, पेट्रो, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाङ, स्कुइ, सल्फ, वेल्ले, वेरे, जिङ्क।

„ चेंइटा से सटा हुआ (Scaly)—ऐमोन-म्यूर, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, बरम, वैरा-म्यू, वेल, कैलेडि, कैल्के, क्लिमे, फ्लु-ऐ, हाइड्रो-को, कैलि का, कैलि-स, क्रियो, लेडम, मैग-का, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, ओलिए, फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ चेचक (Small pox)—ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्स बेल, ब्राइयो, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कैमो, मार्क, नेट्रम म्यूर, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ „ काली (Black pox)—ऐण्टि-क्रूड, आर्स, बेल, ब्राइयो, सैके, म्यू-ऐ, रास-टक्स, सिके, साइलि ब्यारति।

„ „ जलनसे भरी हुई—ऐल्यू, आर्जेण्ट-मेट, बरम, ब्राइयो कैल्के, सिकि, कोल्चि, ड्रोसे ग्रेफा, हिपर, कैलि सल्फ सैग, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पैरि, पेट्रो, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स सिपि, स्पाङ, स्कुइ, सल्फ वेरे जिङ्क।

उद्भेद, बेचक डंक मारने जैसे दर्दके, साथ—ऐनाका, ऐण्टिम-क्रू ड, एपिस, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, क्लिमे, साइक्ला, ड्रोसे, हिपर, लेडम, मार्क, नेट्रम-म्यू र, नाइ-ऐ, प्लेटि, **पल्स**, रैना-ब, रास-टक्स, सेबाइ, **सिपि**, **साइलि**, स्टैफि, **सल्फ**, वायो-ड्रि।

„ „ पकी—**ऐण्टिम-क्रू ड**, आर्स, बैरा-का, बोरा, कैल्के, कार्बो-स, **कैमो**, सिकि, क्लिमे, कोना, डाल्का, **ग्रैफा**, हिपर, कैलि-स, **लाइको**, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, **नाइ-ऐ**, **पेट्रो**, सोरि, **रास-टक्स**, सेगु, सार्सा, **सिपि**, **साइलि**, स्कुइ, स्टैफि, सल्फ, वायो-ड्रि, जिङ्क।

„ „ बैठनेसे (Suppressed)—आर्स, आर्स-आ, बेल, **ब्राइयो**, कार्बो-बेज, कास्टि, कैमो, कोना, **कैम्फ**, कूमम, **डाल्का**, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, **इपि**, कैलि-स, लाइको, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, **फास-ऐ**, **सोरि**, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्टैफि, **स्ट्रैमो**, **सल्फ**, थ्यू बा, वायो-ड्रि, जिङ्क।

„ छाला—ऐनाका, आर्स, ब्यू फो, कास्टि, क्लिमे, क्रोटे-टोर, डालका, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैके, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि ऐ, पेट्रो, रैना-ब, रैना-सि, **रास-टक्स**, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ जल जानेकी तरह—बेल, कैन्थ, लाइको, फास, सिपि, सल्फ।

„ जखम होता है—आर्जे-मेट, ग्रैफा, हिपर, **मार्क**, सिपि, **सल्फ**।

„ जलन भरा—ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, एपिस, **आर्स**, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कैप्सि, **कार्बो-ऐसि**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-बेज, **कास्टि**, **सिकि**, कोना, ग्रैफा, हिपर, कैलि-ऐ, लैके, लाइको, **मार्क**, मेजे, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, रैना-ब, **रास-टक्स**, साइलि, स्टैफि, सल्फ, वायो-ड्रि।

„ ज्वरके छाले—"उद्भेद, हार्पिस ज्वर" देखिये।

„ डंक मारने जैसे दर्दके साथ—एपिस, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो,

क्लिमे, साइक्ला, ड्रोसे, हिपर, लेडम, मार्क, नाइट्रि-ऐ, प्लेटि, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सैवा, सिपि, साइलि, स्टेफि, वायो-ट्रि।

उद्भेद, तांबेके रङ्गकी आभा लिये हुए—आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐनि, क्रियो, मेजे, रास-टक्स, वेरे।

» दरार (Chapped)—कैल्के, साइक्ला, ग्रेफा, हिपर, लेके, मार्क, नाइ-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

» दाने (Tubercles)—ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कोना, फ्लू-ऐ, ग्रेफा, हिपर, कैलि-बा, लेके, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नाइ-ऐ, सल्फ, थूजा।

» » उपदंशज—आर्स आ, फ्लू ऐ, हिपर, केलि-ब्रा, कैलि आ, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, साइलि, थूजा।

» » कुष्टसे उत्पन्न—नेट्रम-कार्ब, फास, साइलि।

» दाने, कड़े—ब्राइयो, लेके, मैग-क, मैग-म।

» » खुजली भरे हुए—अरम, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कैमो, काकि, डाल्का, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, लेके, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, स्टेफि, स्ट्रान्सि, जिङ्क।

» » नरम (Soft)—बेल, क्रोटे-हो, लेके।

» » पीब होती है—ऐमोन-कार्ब, कास्टि, कैलि-आ, नाइ-ऐ।

» » पीला—ऐण्टिम-क्रूड, रास-टक्स।

» » यन्त्रणा दायक—ऐमोन कार्ब, आर्स, बेल, ब्रोवि, लेके, लाइको।

» » यन्त्रणा हीन—आर्निका बेल, ग्रेफा, हस्ने, लेडम, ओनिये, स्क्वि, वेरे।

» » लाल—ऐमोन-म्यूर, हिपर, लेके, लेडम।

» » सफेद—डाल्का, सिपि, वेने।

» दानेदार—एगा, कार्बो-वेज, ग्रेफा, हिपर, मस्कोम फास, थेने, जिङ्क।

» दादकी तरह (Herpetic)—ऐन्द्रिस पवित, आर्स, बेरा कार्ब, बेरा म्यूर, बोवि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो ऐनि, कास्टि, सिस्टा क्लिमे, कोना, क्रोटन-टिग, डाल्का, ग्रेफा, हिपर, कैलि-ऐ, क्रियो, मैकर्के, मेर्क मेडम, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क,

नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-मूर,** नेट्रम-सल्फ, ओलियै, पेट्रो, फास, सोरि, रैना-व, **रास-टक्स, सिपि, साइलि,** स्टैफि, **सलफ, टेल्यू।**

उद्भेद, दादकी तरह, अच्छा होना नही चाहता (Indolent)—लाइको, मैग-कार्ब, सोरि।

„ „ खाल उधाड़नेवाला (Corrosive)—कैल्के, क्लिमे, कोना, **ग्रैफा,** पेट्रो, रास-टक्स, सिपि, **साइलि,** सल्फ।

„ „ खुजली भरी हुई—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बोवि, कास्टि, **क्लिमे, ग्रैफा,** हिपर, लेडम, मार्क, नाइट्रि-ऐ, **रास-टक्स,** सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ चेउटाका छोड़ना (Scaly)—आर्स, कैल्के, क्लिमे, कोना, डाल्का, ग्रैफा, लेडम, लाइको, मार्क, फास, सोरि, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ „ ज्वरसे—कार्बो-वेज, **नेट्रम-म्यूर,** रास-टक्स।

„ „ जलन भरी—**आर्स,** कैल्के, कास्टि, कोना, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क,** फास, सोरि, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ „ जोस्टर, जोना (Zoster, herpes, zona)—आर्स, ग्रैफा, हिपर, **आइरि,** कैलि-कार्ब, कैलि-क्लो, **मार्क, मेजे,** नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, **रैना-व, रास-टक्स,** साइलि, सल्फ, थूजा।

„ „ डङ्क मारने जैसे दर्दके साथ—आर्स, क्लिमे, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, **सिपि,** साइलि, सल्फ।

„ „ डङ्क मारने जैसा दर्द मिला—एपिस, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, क्लिमे, साइक्ला, ड्रोसे, हिपर, लेडम, मार्क, **नाइट्रि-ऐ,** प्लैटि, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सेबा, सिपि, **साइलि,** स्टैफि, वायो-ट्रि।

„ „ पपड़ी मिला—आर्स, **कैल्के,** क्लिमे, **कोना,** डाल्का, **ग्रैफा,**

उद्भेद, पनसही माता, खुजलानेसे पीव पडता है, पीला—ऐल्यू, ऐनाका, ऐण्टि-क्रूड, कैल्के, **कार्बोनिस**, कार्बो-वेज, क्लिमे, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, केलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ**, रास टक्स, वायो-ट्रि।

„ „ खुजलानेसे रस झरता है—बैरा-कार्ब, कैल्के, कोना, ग्रैफा, हिपर, **लाइको**, मार्क, **रास-टक्स**, सैबाडि, स्टैफि, **सल्फ**।

„ „ , पीला—ऐण्टि-क्रूड, बैरा-म्यू, कैल्के, सिकि, मार्क, मेजे।

„ „ ताँबेके रङ्गके दाने—आर्स, आर्स-आ, कैल्के, केलि-आ, **कार्बो-ऐनि**, क्रियो, लाइको, मार्क, मेजे, नाइट्रि-ऐ, सोरि, रास-टक्स, वेरे।

„ „ लिपे हुए (Confluent)—ऐण्टि-टा, कैम्फ़ि, क्लोरम, सिकि, फास-ऐ।

„ पपडी मिले हुए (Scabby, crusty)—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐन्थ्रा, ऐण्टि-क्रूड, **आर्स**, बैरा-कार्ब, वेल, ब्राइयो, **कैल्के**, कार्बो-ऐनि, सिकि, क्लिमे, **कोना**, **डाल्का**, फ्लू-ऐ, **ग्रैफा**, हिपर, लेडम, **लाइको**, मार्क, **मेजे**, म्यू-ऐ, **नेट्रम म्यूर**, **नाइ-ऐ**, ओलिये, **पेट्रो**, फाइटो, सोरि, पल्स, रैना-बो, **रास-टक्स**, सैबाडि, सिपि, साइलि, स्क्वि, स्टैफि, सल्फ, वायो-ट्रि।

„ „ काली—वेल, चायना, सल्फ, वाइपे।

„ „ कडी—रैना-ब।

„ „ खुजलानेके बाद—ऐमोन-कार्ब, बैरा-कार्ब, कैल्के, कोना, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, **लाइको**, **मार्क**, **रास-टक्स**, सैबाडि, स्टैफि, **सल्फ**।

„ „ जलन भरी—ऐमोन-कार्ब, कैल्के, सिकि, सल्फ, सार्सा।

„ „ दुर्गन्ध भरी—ग्रैफा, लाइको, मार्क, प्लम्ब, सोरि, **सल्फ**।

„ „ पीले रङ्गकी—ऐण्टिम-क्रूड, बैरा-म्यू, सिकि, मार्क।

„ „ भीगी भीगी—ऐन्थ्रा, आर्स, बैरा-कार्ब, कैल्के, **ग्रैफा**, हेलि, **लाइको**, मार्क, **मेजे**, **रास-टक्स**, **स्टैफि**, **सल्फ**।

„ „ सारे शरीरमें—आर्स, डाल्का, सोरि।

उद्भेद, पपड़ी मिला हुआ, सूखो—आर्स, आर्स-आ, अरम, अरम-म्यूर, बेरा-कार्ब, कैल्के, ग्रैफा, मार्क, थूजा।

» पीवसे भरी हुई फुन्सियां (Pestules)—ऐण्टिम-क्रूड, **ऐण्टिम-टार्ट,** ऐण्टिम-सल्फ, आर्स, बेल, कोल्के, कार्बो-ऐनि, चेलिडो, क्लिमे, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, हिपर, हाइयो, आइरि, केलि-ब्राइ, केलि-ब्रोम, केलि-आ, क्रियो, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, **रास-टक्स,** सिपि, साइलि, स्टेफि, **सल्फ।**

» » खुजलानेके बाद—ऐमोन म्यूर, आर्स, बेल, ब्राइयो, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

» » खुजली भरी हुई—क्रोटन-टिग, ग्रैफा, मार्क, नक्स-वोम, रास-टक्स, सल्फ।

» » दोषाक्त (Malignant)—ऐनथ्रा, एपिस, **आर्स,** बेल, ब्यूफो, कैल्य, कार्बो-वेज, क्रोटे-होर, **लैकी,** रैना-ब, रास-टक्स, साइलि।

» » लाल—ऐनाका, आर्स, सिकि, क्रोटे-होर, हाइड्रो, नाइट्रि-ऐ।

» पीव भरा—**ऐण्टिम-क्रूड,** आर्स, बेरा-कार्ब, बोरा, कैल्के, **केमो,** सिकि, क्लिमे, कोना, **ग्रैफा,** हिपर, **लाइको, मार्क,** नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि ऐ, पेट्रो,** सोरि, **रास-टक्स,** सैम्बु **सिपि, साइलि,** स्कुइ, स्टेफि, सल्फ, वायो-ट्रि, जिङ्क।

» पीले रङ्गका—ऐण्टिम-क्रूड, बेरा-कार्ब, सिकि, डाल्का, युफ्रे, केलि क्लोर, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, थ्रुन्नि।

» पीड़ा नारङ्गा (Pomphagus)—ऐनाका, आर्स, क्रोटे होर, डाल्का, **लैके,** लाइको, मार्क, नेट्रम म्यूर, नेट्रम-सल्फ, सोरि, रास-टक्स सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा।

» फटा हुआ (Chapped)—कैल्के, साइका, ग्रैफा, हिपर, पेट्र, मार्क, नाइ-ऐ, **पल्स,** रास-टक्स, **सिपि,** साइलि सल्फ।

» फुन्सियां (Pimples)—ऐकोन पिना, **ऐण्टिम-क्रूड, आर्स,** बेल, ब्राइयो, केमेटि कैल्के-फास, कैल्क **कार्स्टि,** कैमो कालि,

कोना, डाल्का, फ्लू-ऐ, गैम्बो, ग्रैफा, हिपर, क्रियो, लेडम, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, **नाइ-ऐ**, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सेने, **सिपि**, स्पञ्जि, स्कुइ, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा, **जिङ्क**।

उद्भेद, फुन्सियाँ, खुजली भरी हुई—एपिस, आर्स, ब्राइयो, कास्टि, कोना, **ग्रैफा**, हिपर, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " खुजलानेके बाद—ऐण्टिम-क्रूड, कास्टि, ग्रैफा, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सल्फ, **सिपि**, सल्फ, जिङ्क।

" " चिड़चिड़ करना—ऐगा, बेल, कैल्के, कैमो, कोलचि, डिजि, केलि-कार्ब, लाइको, मार्क, स्यूक्रि, वेरे।

" " जलन भरी हुई—**आर्स**, कैन्थ, ग्रैफा, मार्क, सल्फ।

" " डङ्क मारने जैसे दर्दके साथ—बेल, कैन्थ, कैप्सि, केलि-कार्ब, क्रियो, नेट्रम-कार्ब, स्कुइ, स्टैफि।

" " स्पर्शासहिष्णु—बार्ब, हिपर।

" विषैला फोड़ा (Boils)—ऐनाका, ऐनथ्रा, ऐण्टिम क्रूड, एपिस, **आर्निका**, आर्स, **बेल**, कैल्के, कोना, क्रोटे-होर, युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, आइयो, **लैके**, लेडम, **लाइको**, **मार्क**, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, फास-ऐ, फास, फाइटो, **सोरि**, **रास-टक्स**, सिके, सिपि, सल्फ-ऐ, **सल्फ**, थूजा।

" " छोटा छोटा—**आर्निका**, फ्लू-ऐ, सल्फ।

" " नीले रङ्गका—ऐन्थ्रा, क्रोटे-होर, लैके।

" " बड़ा—हिपर, लैके, लाइको, नाइट्रि-ऐ, साइलि।

" " रक्त—बेल, कैल्के, आइयो, लेडम, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, **फास**, साइलि, सल्फ।

" " सामयिक—आर्स, आइयो, मार्क, साइलि, सल्फ।

" बैठ जानेसे—आर्स, बेल, **ब्राइयो**, कास्टि, कैमो, हिपर, **इपि**, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-मस, **फास-ऐ**, **सोरि**, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्टैफि, **सल्फ**।

उद्भेद, यन्त्रणा दायक—आर्नि, आर्स, ऐसाफि, वेल, चायना, क्लिमे, कोना, कूप्रम, डाल्का, हिपर, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैग कार्ब, मैग-म्यू, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, सल्फ, विरे।

» यन्त्रणा हीन—ऐम्ब्रा, ऐना-कार्ड, काकि, कोना, हेलि, हाइयो, लाइको, ओलियै, पल्स, सिकि, स्ट्रेमो, सल्फ।

» रस भरे दाने (Vesicles)—ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, वेल, वोवि, ब्राइयो, ब्यूफो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, सिकि, क्लिमे, क्रोटन-टिग, डाल्का युफ्रे, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हेलि, हिपर, कैलि वा, कैलि-क्लो, कैलि-नाइ, क्रियो, लैकि, लैकि-ऐ, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, सोरि, रैना-व, रैना-सि, रास-टक्स, सेवाइ, सिके, सिलि, सिलि, सल्फ, टेम्यू।

» » काला—ऐनथ्रा, आर्स, कैल्के।

» » खुजलानेके बाद—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, माइका, हिपर, लैके, फास, रैना-व, रास-टक्स, सल्फ।

» » खुजली भरे—ऐनाका, कैल्के, कैन्थ, कार्बो ऐनि, फ्लू ऐ, ग्रैफा, लैके, रास-टक्स, सल्फ।

» » चिडचिड करता है—कोना, ग्रैफा, ऐलि, मैग कार्ब, नेट्रम कार्ब, फास ऐ, रास टक्स, रास वे, साइलि, थूजा।

» » जलन भरी—ऐनाका, आर्स, क्रोटन टिग, मेजे रैना व।

» » नीले—ऐनथ्रा, आर्स, थेन, रैना व, रास टक्स।

» » यन्त्रणादायक—थेन, क्लिमे, कैलि कार्ब, फास।

» » रक्त जैसा रङ्ग—साइक्लेम, आर्स, कैन्थ, लैके सिके, सल्फ।

» » सफेद—हिपर, लैके, मार्क मेजे, नेट्रम कार्ब, थूजा।

» » सड़नेवाला (Gangrenous)—आर्स ब्यूफो हिपर, लैके, रैना व, सेपा, सिके, साइलि।

उद्भेद, रस स्राव होने वाला (Discharging moist)—ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, आर्स-आ, वेरा-कार्ब, बोवि, कैल्के, **कार्बो-वेज,** कास्टि, सिकि, क्लिमे, कोना, डालका, **ग्रैफा,** हेलि, हिपर, जुग-कै, कैलि-ब्रोम, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, **लाइको,** मार्क, **मेजे, नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम-स, पेट्रो, फास-ऐ, फास, **रास-टक्स,** सार्सा, सिलि, सिपि, **साइलि,** स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ „ खाल उधेड़नेवाला—आर्स, कैल्के, ग्रैफा, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स, सल्फ, थूजा।

„ „ पतला—ऐण्टिम-टार्ट, क्लिमे, रैना-म्यू, रास-टक्स।

„ „ पीले रङ्गका—ऐल्यूमि, ऐनाका, ग्रैफा, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि-स, लाइको, नेट्रम-म्यूर, **नेट्रम-स, नाइ-ऐ, फास, पल्स,** रास, **सिपि, साइलि, सल्फ,** थूजा।

„ „ रक्त रङ्गका—कैल्के, क्रोटे-हो, लैके, मार्क, नक्स-वोम।

„ „ सफेद—**कैल्के,** कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यूर, फास, **पल्स, साइलि।**

„ „ हरा रङ्गका—कैलि-क्लोर, रास-टक्स।

„ „ लेईकी तरह—**ग्रैफा,** नेट्रम-म्यूर, सल्फ।

„ रुपिया (Rupia)—**आर्स,** ग्रैफा, हिपर, कैलि-आ, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, फाइटो, सल्फ, सिफि।

„ रोमाञ्च होना (रोये खड़े हो जाना)—ऐकोन, ऐङ्गा, आर्म, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कोना-से, कास्टि, चायना, क्रोकस, **हेलि,** लेडम, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, **नक्स वोम,** पेरि, फास, सेबाडि, साइलि, थूजा, **वेरे।**

„ रोजियोला (Roseola)—**ऐकोन,** बेल, **ब्राइयो,** काफि, हाइयो, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ लाल लाल—ऐगा, **ऐमोन-कार्ब,** आर्निका, आर्म, कैल्के, क्लिमे, ग्रैफा, **कैलि-कार्ब,** मैग कार्ब, मार्क, नाइट्रि-ऐ, **फास,** रास-टक्स, स्ट्रैमो, **सल्फ-ऐ,** सल्फ।

उद्भेद, लाल लाल, खुजलानेके बाद बाहर निकलता रहता है—कैल्के, चायना, लैके, लाइको, नक्स-वोम, **सल्फ** ।

» शीतके समय—ऐलो, कैल्के, डालका, हिपर, पेट्रो, मार्क, **रास-टक्स**, सोरि, सिपि, स्ट्रान्सि, सल्फ ।

» सम्मिलित (Confluent)—ऐण्टिम-टार्ट, क्लोरे, सिकि, कैम्फि, फस्फो-ऐ ।

» सूखा—ऐल्यूमि, आर्स, **बेरा-कार्ब**, बोवि, ब्राइयो, **कैल्के**, कार्बो-वेज, कूप्रम फ्लू-ऐ, हिपर, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, पेट्रो, फास, सार्सा, **सिपि**, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, **वेरे**, वायो-ट्रि ।

» सोरायेसिस (Psoriasis)—आर्स, **आर्स-आ**, केल्कि, कैन्थ, चायना, आइरि, केलि-आ, **लाइको**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, **फाइटो**, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सेरा, सार्सा, **सिपि**, सल्फ ।

» उपदंशज—आर्स, **आर्स-ऐ**, कोरा रू, **मार्क**, नाइट्रि-ऐ, **फाइटो**, सार्सा ।

» स्कारलेटिना (Scarlatina)—ऐइलैन्थ, **ऐमोन-कार्ब**, **एपिस**, आर्स, ऐरम-ट्रि, **बेल**, ब्राइयो, कैम्फ, कैल्कि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, क्रोकस, कूप्रम, हाइयो, **लेके**, **लाइको**, **मार्क**, **नाइट्रि-ऐ**, फास, फास-ऐ, **रास टक्स**, **स्ट्रैमो**, सल्फ, जिङ्क ।

» सड़नेवाला (Gangrenous)—आइलैन्थ, **ऐमोन-कार्ब**, आर्स, लैके ।

» सूजनके सहित—बेल, चायना, फेरि-कार्ब, **मार्क**, पल्स, **रास-टक्स**, सैम्बु, सिपि, सल्फ, थूजा ।

कड़ापन, ढेला (Induration, nodules etc)—ऐगा, **ऐण्टिम-क्रूड**, आर्स-आ, बेरा-कार्ब, कैल्कि, कार्बो-ऐनि, सिक्यूटो, क्लिमे, **कोना**, **डाल्का**, ग्रेफा, आइयो, केलि-आयो, लेडम, **लाइको**, **फास**, रैना-ब, **रास-टक्स**, सार्सा, **सिपि**, साइलि, थूजा ।

कड़ा, ढड्डा पड़ना (Hard like callosities)—ऐण्टिम क्रूड, डाल्का, **ग्रेफा**, रैना-ब, रास टक्स, **सिपि**, साइलि, सल्फ, थूजा ।

काडा, ढढ्ढा पडना, काँटा होनेके साथ—डालका, लेके, रेना-व, **रास-टक्स,**
सिपि, सल्फ, थूजा।

„ पार्चमेण्टकी तरह (Like perchment)—आर्स, चायना, लाइको, साइलि।

काला दाग (Blotches)—ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, क्रोटि-हो, हिपर, हाइयो, लेके, लेडम, मैग-कार्ब, मैङ्ग, मार्क, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, पेट्रो, फास, पल्स, रास-वे, सार्सा, सिके, साइलि।

काले दागका पडना (Ecchymoses)—**आर्निका,** ब्राइयो, कैल्कि, कार्बो-वेज, कोना, क्रोटि-होर, हिपर, लेके, नक्स-वोम, **फास-ऐ, फास,** पल्स, सिके, **सल्फ-ऐ,** सल्फ, टेरे।

काटना, विषैले जानवरका (Bites of poisonous animals)—आर्नि, आर्स, अरम, बेल, कैलेडि, लैके, लेडम, सल्फ-ऐ।

कुटकुट करना, खुजलानेके बाद (Tickling after scratching)—मार्क, **सैबाडि,** साइलि।

केशका झडना (Hair falls out)—आर्स, कैल्कि, कार्बो-वेज, ग्रैफा, हेलि, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, ओपि, फास, सैबाडला, सिके, सिपि, सल्फ।

खाल उधड जाना (Excoriation)—आर्स, बैरा-कार्ब, **कैल्के,** कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **ग्रैफा,** हिपर, कैलि-कार्ब, **लाइको,** मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,** ओलियै, पेट्रो, **रास-टक्स, सिपि,** **सल्फ।**

„ खुजलानेके बाद—**ग्रैफा,** लेके, लाइको, ओलियै, **पेट्रो,** सिपि, सल्फ।

„ रगडकी वजहसे, बगल, पुट्ठा इत्यादि जगहोंमें (Intertrigo)—ऐमोन-कार्ब, बैरा-कार्ब, बोरा, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चायना, **ग्रैफा,** हिपर, इग्ने, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, पेट्रो, फाइटो, सिपि, साइलि, सल्फ।

खींचन (Tension)—आर्जे-ना, आर्नि, बैप्टो, बैरा-कार्ब, **कास्टि,** कोना,

नाइट्रि-ऐ, फास, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, वायो-ट्रि ।

चिन, खुजलानेके बाद—कास्टि, लैके, फास-ऐ, स्टानि ।

जली (Itching)—**ऐगा,** ऐग्न, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्रा, ऐण्टिम-क्रूड, **आर्स,** बेरा-कार्ब, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कैल्के-फास, **कार्बो-वेज,** कार्बोनि-स, कास्टि, **चेलिडो,** सिके, सिस्टा, क्लिमे, काकि, क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, कूप्रम, साइक्ला, डिजि, डोलि, डालका, फ्लू-ऐ, गैम्बो, **ग्रैफा,** हाइड्रो-को, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैके, लेडम, **लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलियै, ओपि, पेट्रो, फास, प्लेटि, **सोरि, पल्स, रास-टक्स,** सेबाडि, **सिपि, साइलि,** स्पाइ, स्पञ्जि, स्क्विल, **स्टैफि,** सल्फ, टैबे, **टैरे,** यूजा, आर्टि-इ, वैस्पा, वायो-ट्रि ।

" सवेरे—रास-टक्स, सार्सा, सल्फ ।

" सन्ध्यामें—कोना, **क्रियो,** मार्क, नक्स-वोम, पल्स, सल्फ, यूजा ।

" रातमें—सिपि, ग्रैफा, कैलि-बा, लैके, लेडम, मार्क, मेजे, **सल्फ ।**

" " बिछावनपर—कैल्के, ग्रैफा, कैलि बा, मार्क, मेजे, फास, **सोरि,** पल्स, **सल्फ,** टिलि ।

" आराम दायक—मार्क, साइलि, सल्फ ।

" ऋतुके समय—ग्रैफा, कैलि-कार्ब ।

" गरम होनेसे—ऐल्यूमि, डोलि, लाइको, **मार्क, सोरि,** पल्स, सल्फ ।

" चिड़चिड़ करना (Smarting)—आर्ज-मे, ग्रैफा, **प्लेटि,** रास टक्स, सिपि, सल्फ, जिङ्क ।

" जलन भरी—ऐकोन, ऐगा, एपिस, **आर्स,** बेल, **ब्राइयो,** कैमेडि, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कास्टि सिकि, फैरो, लिथ, ड्रग-ऐ, कैलि कार्ब, **लैके, लाइको,** मार्क, मेजे, फास, **पल्स,** रास टक्स, सिपि, **साइलि,** स्पाइ, स्क्विल, **सल्फ ।**

खुजली, जलन खुजलानेके बाद—ऐमोन कार्ब आर्स बेल, ब्राइयो कैमेडि, कैन्थ **कास्टि,** क्रोटन टिग डाल्का ग्रुफे, आर्स हिप, क्रियो मेज़े

लैके, लेडम, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, मेजे, नेट्री-स, ओलियें, फास, **रास-टक्स**, सिपि, **साइलि**, **सल्फ**, थूजा ।

खुजली, ठण्डी हवासे—एपिस, कैलि-आ, सोरि, रास-टक्स, सिपि, स्पञ्जि ।

„ बिछावनकी गर्मीसे—ऐल्यूमि, बोवि, कार्बो-वेज, साइक्ला, ग्रेफा, मार्क सोरि, पलस, सिपि, सल्फ ।

„ वृश्चिकाली लगनेकी तरह—कोल्चि, लुपुलस ।

„ रक्तपात होताहै, खुजलानेके बाद—आर्स, चायना, काकि, डाल्का, कैल्नि-कार्ब, मार्क, नाइ-ऐ, सोरि, सल्फ ।

„ लाल होता है, चर्म, खुजलानेके बाद—ऐगा, आर्नि, बेल, बोवि, ग्रेफा, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलियें, फास-ऐ, पलस, **रास-टक्स**, स्पंजि, टेरे, व्यूफि ।

„ सड सड करनेके साथ, (Crawling, tickling, creeping)—ऐकोन, ऐगा, आर्जेण्ट-मेट, आर्नि, बेरा-कार्ब, कास्टि, कोल्चि, डिजि, कैलि-कार्ब, मार्क, लाइको, नक्स-वोम, ओलिए, **प्लैटि**, **प्लम्ब**, **पलस**, रैना-बा, ड्रोडो, **रास-टक्स**, सेबाडि, सिकि, **सिपि**, साइलि, स्टैफि, **सल्फ** ।

„ स्थान परिवर्तन करता है खुजलानेके बाद—ऐनाका, कैल्के, चेलिडो, कोना, साइक्ला, ड्रग्ने, मैग-कार्ब, मेजे, नाइट्रि-ऐ, सेड्र, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ-ऐ, जिङ्क ।

„ सुन्नताके साथ खुजलानेके बाद—ऐनाका, लैके, लाइको, ओलि, सल्फ ।

„ घटना, गर्मीसे, स्टोवकी—रुमेक्स, व्यूब ।

„ „ „ खुजलानेके बाद—ऐसाफि, ब्रोमि, ब्रायो, **कैल्के**, कोम्य, सिना, क्रोटन-टिग, **साइक्ला**, ड्रोसे, गुयेज, ड्रग्ने, जुग-के, कैलि-कार्ब, क्रियो, मैग-का, मेझे, **म्यू-ऐ**, **नेट्रम-आर्व**, **फास**, प्लम्ब, रुटा, सार्सा, सिपिया, सल्फ, थूजा, जिङ्क ।

„ „ ठण्डी हवासे—कैल्नि-वा ।

„ बढना, गर्मीसे—ऐल्यू, कास्टि, क्लिमे, लेडम लाइको, मेजे, मार्क, सोरि, पल्स, सल्फ ।

खुजली, बढ़ना, गर्मीसे, अग्निकी—मेजे।

" " " बिछौनेकी—ऐल्यू, क्लिमे, कैलि-ब्रा, सोरि, पलस, रास-टक्स, सल्फ, टिलिया।

" " खुजलानेसे—ऐमोन-कार्ब, आर्स, बिस्मथ, कोलेडि, कैप्सि, कास्टि, कोना, लेडम, मेजे, पलस, रास-टक्स, स्टान्सि, सल्फ।

" " पसीनेसे—मैङ्ग, मार्क।

खुजलानेके बाद—कार्बो-वेज, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, क्रियो, लेके, लाइको, मार्क, मेजे, ओलियें, पेट्रो, रास-टक्स, सिपिया, स्टैफि, सल्फ।

गन्ध (Odor)—"पसीना देखिये" खट्टी (Sour)—हिपर, आइयो, लाइको, मैग-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, सिपि, साइलि, सल्फ।

" तीखी—ऐग्ना, आर्टिं वा, कोपे, लाइको, सिपि।

" दुर्गन्ध, बार बार धोने पर भी—सल्फ।

" प्याजकी तरह—लेके, लाइको।

" पेशाबकी तरह—कैन्थ, नाइट्रि-ऐ।

" सड़ी—ऐनाका, आर्निका, हिपर, लाइको, मार्क, थूजा, ट्यूबा।

चमकदार, सफेद (Shining)—ऐपिस, बेल, चेलिडो, कोलचि, क्रियो।

चीलड़ (Louse)—लाइको, मार्क, सोरि, सेबाडि, सल्फ।

ज़ख्म (Ulcers)—ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, आर्ज नाइट्रि, आर्स, ऐसाफि, बरम, बेल, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कोना, कूप्रम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा हिपर, आइयो, कैलि बा, कैलि-कार्ब, कैलि क्लोर, क्रियो, लेके, लाइको, मिजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फोवि, पेट्रो, फास ऐ, फास, फाइटो, सोरि पल्स, फाइटो, रास टक्स, सार्सा, सिके, सिपि, साइलि, स्टैफि सल्फ, थूजा, जिङ्क।

जखम, नकाड़न जैसे दर्दके साथ—ऐसाफि, वैरा-कार्ब, **कोना**, आइयो, लैके, मार्क, फास, फाइटो, **प्लस**, रास-टक्स, स्प्जि, **स्टान्सि**, **सल्फ** ।

„ „ चारोंबगल (Areola)—ऐसाफि, लैके, **पल्स**, स्टान्सि ।

„ असमान (Uneven)—आर्स, कार्बो-वेज, हिपर, लैके, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास-ऐ, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा ।

„ उन्नेद, चारोतरफ—आर्स, कास्टि, हिपर, लैके, पेट्रो, रास-टक्स, सिपि, सल्फ ।

„ उपदंशज—अरम, अरम-म्य, अरम-म्यू-ने, कार्बो-वेज, सिस्टा, हिपर, कैलि-बा, कैलि-क्लोर, **बेलि-आ**, लैके, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्क-आ-रू, नाइट्रि-आ, **फाइटो**, सार्सा, स्टैफि, टिलि, **थूजा** ।

„ ऊँचा और कड़ा (चारों किनारे)—एपिस, **आर्स**, हिपर, **लाइको**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, पल्स, **साइलि**, सल्फ ।

„ „ चारों तरफ—आर्स, ऐसाफि, वेल, लैके, लाइको, पल्स ।

„ कड़ा (Indurated)—आर्स, ऐसाफि, **वेल**, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, **चेलिडो**, चायना, क्लिमे, कोना, डालका, हिपर, कैलि-बा, लैके, **लाइको**, मार्क, **पल्स**, **साइलि**, सल्फ ।

„ „ चारों तरफ (Areola)—आर्स, **ऐसाफि**, वेल, **लैके**, लाइको, **पल्स**, सल्फ ।

„ „ चारों किनारो पर (Margins)—आर्स, ऐसाफि, **कोल्चि**, कोना, हिपर, लैके, **लाइको**, **मार्क**, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, **साइलि**, सल्फ ।

„ काट डालनेकी तरह दर्दके साथ (With cutting pain)—बेल, कैल्के, नेट्रम-कार्ब, साइलि ।

„ काटनेके साथ—बेल, यूफ्रे, लैके, लेडम, लाइको, **पल्स**, सल्फ ।

„ काले रङ्गका—ऐन्थ्रा, **आर्स**, ऐसाफि, **कार्बो-वेज**, कोना, **लैके**, **लाइको**, म्यू-ऐ, प्लम्ब, **सिकि**, साइलि ।

„ चारों किनारोंपर (Edges)—आर्स, कोना, **लैके**, साइलि, सल्फ ।

जखम, कैन्सरकी तरह—"अर्बुद" देखिये।

" खुजली भरा—आर्स, कास्टि, चायना, ग्रेफा, **हिपर**, **लाइको**, **मेजे**, नाइट्रि-ए, फास ए, सोरि, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सिपिया, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

" " चारों तरफ—**हिपर**, लैके, लाइको, **पल्स**, रैना ब, **साइलि**।

" खुजलानेके बाद—आर्स, ऐसाफि, कास्टि, हिपर, आइयो, लैके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

" गला हुआ—ऐन्थ्रा, **आर्स**, कार्बो-वेज, कास्टि, क्रोटे-होर, हाइपि, लैके, **लाइको**, मार्क, **मार्क-कोर**, मार्क-आ-रू, मेजे, नेट्रम-म्यु, **नाइट्रि-ऐ**, **साइलि**, **सल्फ**।

" गहरा (Deep)—ऐगा, ऐग्नि-क्रू, ऐन्थ्रा, **आर्स**, ऐसाफि, आरम, बेल, **कैल्के**, कैमो, कोना, **कोलि-वा**, कौनि-आ, **लैके**, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, **नाइट्रि-ऐ**, पेट्रो, सोरि, **साइलि**, **सल्फ**।

" गहरा नहीं (Superficial)—आर्स, ऐसाफि, चायना, **लैले**, **लाइको**, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्युर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सिलि, सिपि, साइलि, सल्फ।

" गांसोंमें, हरएक, चारों ओर—आर्स, कार्बो वेज, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास ऐ, साइलि, सल्फ, थूजा।

" चर्बी भरा—ग्रेफा, **थ्योपि**, फाइटो, **साइलि**।

" चलचल करता है—ऐसाफि, बेरा कार्ब, कास्टि, **कोना**, मेजे, मार्क, फास, पल्स, रास टक्स, स्पाजि, स्टाफि सल्फ।

" चिड़चिड़ करता है—आर्स कैमो, ग्रेफा, मार्को मार्क, नेट्रम-म्युर, फास ऐ, फास, **पल्स**, रास टक्स, सिपिया, स्टैफि, सल्फ।

" चिमक मारने जैसे दर्दके साथ—ऐसाफि कैल्के, **कास्टि**, नेट्रम म्यु, मर्क-कोर, **पल्स**, रास टक्स, **साइलि**, स्टैफि।

जखम, जखम जैसे दर्द से भरा (Gnawing pain, with)—ऐग्ना, बेरा-कार्ब, कैमो, ड्रोसे, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, फास, प्लैटि, स्टैफि, सल्फ।

" जलन भरा—**ऐन्थ्रा, आर्स,** ब्यूफो, **कार्बो-वेज, कास्टि,** कैमो, क्लिमे, कोना, ड्रोसे, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, **लाइको, मार्क,** मेजे, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, प्लम्ब, **पल्स,** रैना-ब, **रास-टक्स, साइलि,** स्टैफि, **सल्फ,** थूजा।

" " चारो तरफ—आर्स, ऐसाफि, कास्टि, लैके, लाइको, मार्क, **पल्स,** रास-टक्स, साइलि।

" " चारो ओर—**आर्स,** कास्टि, हिपर, लैके, **लाइको, मार्क, साइलि,** सल्फ।

" " रातमें—हिपर, लैके, मार्क, स्टैफि।

" " छूनेसे—आर्स, लैके, लाइको, सल्फ।

" जल गया है मानो—**आर्स,** कार्बो-वेज, साइली, नक्स-वोम, सिके।

" टपकके साथ—ऐसाफि, केल्के, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क,** नेट्रम-कार्ब, **सल्फ,** साइलि।

" ठण्डा मालूम होना—आर्स, **ब्राइयो,** रास-टक्स, साइलि।

" डंक मारने जैसा, सुई बेधनेकी तरह दर्द भरा—एपिस, **आर्स,** ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, ग्रैफा, हिपर, लाइको, **मार्क,** नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ,** पेट्रो, **पल्स,** रास-टक्स, सिपिया, **साइलि,** स्टैफि, **सल्फ,** थूजा।

" " चारो तरफ (Areola)—आर्स, **ऐसाफि,** बेल, हिपर, मार्क, **पल्स,** साइलि, सल्फ।

" " चारों किनारोंमें (Margins)—**आर्स,** ऐसाफि, हिपर, लाइको, **मार्क,** पल्स, **साइलि,** सल्फ, थूजा।

" दूषित (Foul)—ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्रा, आर्स, ऐसाफि, केल्के, कार्बो-

वेज, चायना, **हिपर, म्यू-ए,** फास-ऐ, रास-टक्स, **साइलि,** सल्फ।

जखम, नासूर—"शोथ जखम" देखिये।

» नीली आभा लिये हुए—**आर्स,** ऐसाफि, अरम, कार्बो-वेज, कोना, हिपर, कैलि ऐ, **लैके,** लाइको, **साइलि।**

» » चारों किनारोंपर—ऐसाफि।

» प्रदाह भरा—**ऐकोन, आर्स,** बेल, ब्राइयो, कैमो, **हिपर,** हाइयो, नैका-कै, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **फास,** पल्स, रास-टक्स, **साइलि,** स्टेफि, सल्फ।

» पारेसे उत्पन्न (Mercury)—ऐसाफि, अरम, कार्बो-वेज, सिस्टा, **हिपर,** केलि-बा, लैके, लाइको, **नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फाइटो,** सार्सा, **साइलि,** सल्फ।

» पीव भरा (Purulent)—आर्स, **ऐसाफि,** बेल, कैल्क, कार्बो-वेज, **कास्टि, हिपर,** लाइको, **मार्क,** नाइट्रि-ऐ, **पल्स, रास-टक्स,** सिपिया, **साइलि,** स्टेफि, सल्फ।

» पुराना फिरसे पैदा हो जाना—आर्स, लैके, सिपिया, साइलि।

» फाड़ डालनेकी तरह दर्द भरा—आर्स, कैल्के, साइका, **लाइको,** मार्क, नक्स-वोम, सिपिया, स्टेफि, सल्फ।

» फुन्सियाँ, चारों तरफ—आर्स, कास्टि, हिपर, पल्स, सिपिया सल्फ।

» फैलनेवाला—ऐन्थ्रा, **आर्स, कार्बो-वेज,** कास्टि, क्रोटे-होर, ग्रेफा, हिपर, कैलि-बा, केलि-कार्ब, **लाइको, मार्क, मार्क-कोर,** मार्क-प्रा-रू, मेज़े, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ, पेट्रो,** पल्स, रेना-ब, रेना-सि, रास-टक्स, सिपिया, **साइलि,** सल्फ।

» मांस बढ़नेके साथ बीमार (Proud flesh)—ऐन्थ्र, **आर्स,** कैल्के, कैमो, लैके, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, **सिपिया, साइलि,** सल्फ, थूजा।

» मैला (Dirty)—आर्निका, आर्स, लैके, आइरो आर्स, सल्फ।

जखम, जखम जैसे दर्दसे भरा (Gnawing pain, with)—ऐग्ना, बेरा-कार्ब, कैमो, ड्रोसे, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, फास, प्लैटि, स्टैफि, सल्फ।

" जखन भरा—**ऐन्थ्रा**, **आर्स**, ब्यूफो, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, कैमो, क्लिमे, कोना, ड्रोसे, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, **लाइको**, **मार्क**, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, प्रुन्स, **पल्स**, रैना-ब, **रास-टक्स**, **साइलि**, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा।

" " चारों तरफ—आर्स, ऐसाफि, कास्टि, लैके, लाइको, मार्क, **पल्स**, रास-टक्स, साइलि।

" " चारों ओर—**आर्स**, कास्टि, हिपर, लैके, **लाइको**, **मार्क**, **साइलि**, सल्फ।

" " रातमें—हिपर, लैके, मार्क, स्टैफि।

" " छूनेसे—आर्स, लैके, लाइको, सल्फ।

" जल गया है मानो—**आर्स**, कार्बो-वेज, साइक्ला, नक्स-वोम, सिकै।

" टपकके साथ—ऐसाफि, कैल्के, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, **सल्फ**, साइलि।

" ठण्डा मालम होना—आर्स, **ब्राइयो**, रास-टक्स, साइलि।

" डंक मारने जैसा, सुई बेधनेकी तरह दर्द भरा—एपिस, **आर्स**, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, ग्रैफा, हिपर, लाइको, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ**, पेट्रो, **पल्स**, रास-टक्स, सिपिया, **साइलि**, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा।

" " चारों तरफ (Areola)—आर्स, **ऐसाफि**, बेल, हिपर, मार्क, पल्स, साइलि, सल्फ।

" " चारों किनारोंमें (Margins)—**आर्स**, ऐसाफि, हिपर, लाइको, **मार्क**, पल्स, **साइलि**, सल्फ, थूजा।

" दूषित (Foul)—ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्रा, आर्स, ऐसाफि, कैल्के, कार्बो-

वेज, चायना, **हिपर, स्यू-ए,** फास ऐ, रास-टक्स, **साइलि,** सल्फ।

ज़खम, नासूर—"शोथ जखम" देखिये।

„ नीली आभा लिये हुए—**आर्स,** ऐसाफि, अरम, कार्बो-वेज, कोना, हिपर, कैलि ऐ, **लैकि,** लाइको, **साइलि।**

„ „ चारो किनारोंपर—ऐसाफि।

„ प्रदाह भरा—**ऐकोन, आर्स,** वेल, व्राइयो, केमो, **हिपर,** हाइयो, लैक-कै, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **फास,** पल्स, रास-टक्स, **साइलि,** स्टेफि, सल्फ।

„ पारेसे उत्पन्न (Mercury)—ऐसाफि, अरम, कार्बो-वेज, सिस्टा, **हिपर,** केलि-बा, लैके, लाइको, **नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फाइटो,** सार्सा, **साइलि,** सल्फ।

„ पीव भरा (Purulent)—आर्स, **ऐसाफि,** वेल, चैन्य, कार्बो-वेज, **कास्टि, हिपर,** लाइको, **मार्क,** नाइट्रि-ऐ, **पल्स, रास-टक्स,** सिपिया, **साइलि,** स्टेफि, सल्फ।

„ पुराना फिरसे पैदा हो जाना—आर्स, लैके, सिपिया, साइलि।

„ फाड डालनेकी तरह दर्द भरा—आर्स, कैल्के, साइका, **लाइको,** मार्क, नक्स-वोम, सिपिया, स्टेफि, सल्फ।

„ फुन्सियां, चारों तरफ—आर्स, कास्टि, हिपर, पल्स, सिपिया, सल्फ।

„ फैलनेवाला—ऐन्थ्रा, **आर्स, कार्बो-वेज,** कास्टि क्रोटे होर, ग्रेफा, हिपर, कैलि बा, कैलि-कार्ब, **लाइको, मार्क, मार्क-कोर,** मार्क-बा-रु, मेजे, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ, पेट्रो,** पल्स, रेना ब, रेना-सि, रास टक्स, सिपिया, **साइलि, सल्फ।**

„ मांस बढ़नेके साथ बीमार (Proud flesh)—ऐन्थ्र, **आर्स,** कैल्के, केमो, लैके, मार्क, नाइट्रि ऐ, पेट्रो, **सिपिया, साइलि,** सल्फ, थूजा।

„ मैला (Dirty)—आर्सिका आर्स, लैकि, लाइको, मार्क सल्फ।

अखम, जखम जैसे दर्दसे भरा (Gnawing pain, with)—ऐग्ना, बेरा-कार्ब, कैसी, ड्रोसे, केलि-कार्ब, लाइको, मार्क, फास, प्लेटि, स्टैफि, सल्फ।

" जलन भरा—**ऐन्था**, **आर्स**, ब्यूफो, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, कैमो, क्लिमे, कोना, ड्रोसे, हिपर, कैलि-कार्ब, क्रियो, **लाइको**, **मार्क**, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ए, फास, प्लम्ब, **पल्स**, रैना-ब, **रास-टक्स**, **साइलि**, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा।

" " चारो तरफ—आर्स, ऐसाफि, कास्टि, लैके, लाइको, मार्क, **पल्स**, रास-टक्स, साइलि।

" " चारों ओर—**आर्स**, कास्टि, हिपर, लैके, **लाइको**, **मार्क**, **साइलि**, सल्फ।

" " रातमें—हिपर, लैकि, मार्क, स्टैफि।

" " छूनेसे—आर्स, लैकै, लाइको, सल्फ।

" जल गया है मानो—**आर्स**, कार्बो-वेज, साइला, नक्स-वोम, सिके।

" टपकके साथ—ऐसाफि, कैल्के, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, **सल्फ**, साइलि।

" ठण्डा मालूम होना—आर्स, **ब्राइयो**, रास-टक्स, साइलि।

" डंक मारने जैसा, सुई बेधनेकी तरह दर्द भरा—एपिस, **आर्स**, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, ग्रैफा, हिपर, लाइको, **मार्क**, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ए**, पेट्रो, **पल्स**, रास-टक्स, सिपिया, **साइलि**, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा।

" " चारो तरफ (Areola)—आर्स, **ऐसाफि**, बेल, हिपर, मार्क, **पल्स**, साइलि, सल्फ।

" " चारो किनारोंमें (Margins)—**आर्स**, ऐसाफि, हिपर, लाइको, **मार्क**, पल्स, **साइलि**, सल्फ, थूजा।

" दूषित (Foul)—ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्रा, आर्स, ऐसाफि, कैल्के, कार्बो-

वेज, चायना, **हिपर**, **म्यू-ए**, फास ऐ, रास-टक्स, **साइलि**, सल्फ।

जखम, नासूर—"शोथ जखम" देखिये।

„ नीली आभा लिये हुए—**आर्स**, ऐसाफि, अरम, कार्वो-वेज, कोना, हिपर, कैलि ऐ, **लेक्सि**, लाइको, **साइलि**।

„ „ चारों किनारोंपर—ऐसाफि।

„ प्रदाह भरा—**ऐकोन**, **आर्स**, वेल, ब्राइयो, केमो, **हिपर**, हाइयो, लैक-कै, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यु, नाइट्रि-ऐ, **फास**, पल्स, रास-टक्स, **साइलि**, स्टेफि, सल्फ।

„ पारेसे उत्पन्न (Mercury)—ऐसाफि, अरम, कार्वो-वेज, सिस्टा, **हिपर**, केलि-बा, लैके, लाइको, **नाइट्रि-ऐ**, **फास-ऐ**, **फाइटो**, सार्सा, **साइलि**, सल्फ।

„ पीव भरा (Purulent)—आर्स, **ऐसाफि**, वेल, कैल्क, कार्बो वेज, **कास्टि**, **हिपर**, लाइको, **मार्क**, नाइट्रि-ऐ, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपिया, **साइलि**, स्टेफि, सल्फ।

„ पुराना फिरसे पैदा हो जाना—आर्स, लैके, सिपिया, साइलि।

„ फाड डालनेकी तरह दर्द भरा—आर्स, बेल्स, सार्सा, **लाइको**, मार्क, नक्स-वोम, सिपिया, स्टेफि, सल्फ।

„ फुन्सियां, चारों तरफ—आर्स, कास्टि, हिपर, पल्स, सिपिया सल्फ।

„ फैलनेवाला—ऐन्थ्रा, **आर्स**, **कार्वो-वेज**, कास्टि, क्रोटे होर पेका, हिपर, कैलि बा, केलि-कार्ब, **लाइको**, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्क-ऐसा-रू, सेनी, नेट्रम-म्यु, **नाइट्रि-ऐ**, **पेट्रो**, पल्स, रेना ब, रेना-सि, रास-टक्स, सिपिया, **साइलि**, सल्फ।

„ मांस बढ़नेके साथ बीमार (Proud flesh)—ऐन्थ्र, **आर्स**, कैल्क, कैमो, लैके, मार्क, नाइट्रि ऐ, पेट्रो, **सिपिया**, **साइलि**, सल्फ, थूजा।

„ मैला (Dirty)—आर्निका, आर्स, लेसि, लाइको, मार्क, सल्फ।

जखम, यन्त्रणा दायक (Painful)—**आर्स**, **बेल**, कार्बो-एनि, कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हिपर, कैलि-बा, क्रियो, लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ „ रातमें—ऐसाफि, कोना, मार्क।

„ „ चारों तरफ—आर्स, हिपर, लैके, **पल्स**।

„ „ चारों ओर (Margins)—आर्स, ऐसाफि, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, साइलि।

„ „ बिछावनकी गरमीसे—मार्क, पल्स।

„ यन्त्रणा हीन—आर्स, वेप्टी, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो वेज, काकि, कोना, डाल्का, हेलि, हाइयो, **लाइको**, ओलियै, ओपि, **फास-ऐ**, फास, पल्स, सिकै, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ रक्त स्रावी (Bleeding)—**आर्स**, ऐसाफि, कैल्के, कार्बो-वेज, कोना, क्रोटे-होर, ग्रैफा, हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, **लैके**, **लाइको**, **मार्क**, मेजे, **नाइट्रि-ऐ**, फास-ऐ, **फास**, पल्स, रैना-ब, सिकै, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ ऋतुके समय—**फास**।

„ „ चारों ओर (Margins)—**आर्स**, लाइको मार्क, फास, पल्स, साइलि, सल्फ।

„ „ छूनेसे—कार्बो-वेज, **हिपर**, लैके, मेजे, नाइट्रि-ऐ।

„ रस भरी फुन्सियाँ (Vesicles)-चारों तरफ—आर्स, फ्लू-ऐ, हिपर, **लैके**, मेजे, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स, थूजा।

„ लाल होता है चारों तरफ (Red areola)—ऐकोन, **आर्स**, बेल, कैल्के, कैमो, **हिपर**, कैलि-बाइ, लैके, लाइको, मार्क, **मेजे**, पेट्रो, **पल्स**, रास-टक्स, **साइलि**, **सल्फ**।

„ शिरा फूलनेके साथ (Varicose)—आर्स, कैल्के, कार्बो-वेज, **कास्टि**, फ्लू-ऐ, लैके, **लाइको**, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

„ शोष जखम (Sinus)—ऐगा, ऐसाफि, बेल, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, **कास्टि**, सिनेबा, कोना, फ्लू-ऐ,

लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ए, पेट्रो, फास, पल्स, साइलि, स्टेफि, सल्फ, थूजा।

जखम, सडसड करता है—आर्नि, कैमो, क्लिमे, कोना, लैके, रास-टक्स, सिपि।

„ सारकोमा को वजह से (Sarcomatous)—आर्स, हिपर, नाइट्रि-ए।

„ स्क्रुफुलाके दोषके कारण (Scrofulous)—आर्स, अरम, बेल, बोवि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिस्टा, ग्रेफा, हिपर, लैके, लाइको, नक्स-वोम, फास, साइलि, सल्फ।

„ स्पञ्जको तरह (Spongy)—ऐसिडम-फ्लु, आर्स, कार्बो-ऐनि, क्लिमे, हिपर, आइयो, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क, पेट्रो, फास, सिपि, स्टेफि, सल्फ, थूजा।

„ „ चारो ओर (Margins)—आर्स, कार्बो-ऐनि, लैके, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ स्पर्शसहिष्णु (Sensitive)—आर्नि, आर्स, ऐसाफि, बेल, कास्टि, चायना, क्लिमे, काकि, कोरा रू, डालका, ग्रेफा, हिपर, आइयो, क्रियो, लैके, लाइको, मार्क, पेट्रो, फास-ए, सिपि, स्टेफि, पल्स, सिकि, साइलि, स्टेफि, सल्फ।

„ „ चारों तरफ—आर्स, ऐसाफि, हिपर, लैके, पल्स।

„ स्राव कोड़ेके साथ (Discharge—Maggots)—आर्स, कैल्के, मार्क, सैवाडि, साइलि, सल्फ।

„ „ खट्टा दुर्गन्ध भरा—कैल्के, ग्रेफा, हिपर, मार्क, नेट्रम कार्ब, सिपि, सल्फ।

„ „ मांस उधेड़ने वाला (Ichorous)—आर्स, ऐसाफि, कास्टि, चायना, कोना, क्लिमे, हिपर, कैलि कार्ब, कैलि फास, लैके, लाइको, मार्क, मेजि, फास, मोरि, रैना ब, रैना सि, रास-टक्स, साइलि, स्टेफि सल्फ।

जख्मके दाग, रक्तस्रावी—लैके, फास।

„ लाल—ऐण्टिम-क्रूड, बेडि, फ्लू-ऐ, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, थूमो, सल्फ-ऐ।

जख्म जैसा दर्द—ब्राइयो, चायना, सिकि, कैलि-कार्ब, कैलि-आ, मेज़े, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपि, सल्फ-ऐ, थूजा।

जलन (Burning)—**ऐकोन**, ऐगा, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्जे-ना, आर्नि, **आर्स**, **बेल**, **ब्राइयो**, ब्यूफो, कैल्के, कैफि, कार्बो-एनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिकि, काकि, क्रोटन-टिग, डाल्का, युफ्रे, फेरम, हिपर, हाइयो, इग्ने, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, **लैके**, **लाइको**, मार्क, मेजे, नक्स-वोम, ओपि, **फास**, पल्स, रैना-बा, **रास-टक्स**, सिपिया, **साइलि**, स्पाइजि, स्क्विल, स्टैफि, सल्फ।

„ आगकी लपट जैसी—वायो-ओ।

„ खुजलानेके बाद—"खुजली" "जलन" देखिये।

„ बूंदकी तरह जगहमें—आर्स, कैलि-कार्ब, मेजे, **फास-ऐ**, रास-टक्स, सल्फ।

„ रातमें—आर्स, कोना, डालि, मार्क, ओलियै, रास-टक्स।

„ सोये हुए बगलमें—सल्फ।

ठण्डा (Coldness)—"ठण्डापन" देखिये।

ठण्डापन (Coldness)—ऐनाग्नि, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, बेल, कोक्क, **कैल्के**, कैल्के-फास, **कैम्फ**, कैप्सि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, **चेलिडो**, चायना, सिकि, क्रोटे-हो, क्यूप्रम, हेलि, हाइड्रो-ऐसि, इग्ने, आइयो, इपि, कैलि-कार्ब, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नाइ-ऐ, **नक्स-म**, नक्स वोम, ओपि, फास, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, **रास-टक्स**, सैम्बु, **सिपि**, **सल्फ**, टैबे, **वेरे**।

„ अनुभव—कैल्के, मार्क, प्लैटि, रास-टक्स, वेरे-वि।

„ ऋतुके पहिले—साइलि।

„ „ समय—टैबे, वेरे।

ठण्डापन, अकडनके समय (During convulsion)—कोम्फ हेलि, ऐनान्थि।
» खोलनेसे, शरीरका आवरण, बाध्य होता है—कैम्फ, सिके।
» गर्भावस्थामें—नक्स-म।
» ज्वरके समय—कैम्फ, आइयो।
» बरफकी तरह—आर्स, कैल्के, **कैम्फ, कार्बो-वेज,** नेट्रम-म्यूर, सिके, वेरे।
» बायाँ अङ्ग—लेके, साइलि।
» भीतरी गर्मीके साथ—इग्ने, आइयो, वेरे।
» रातमें—आर्स, कार्बो-वेज, हाइयो।
» रोगी स्थानमें—साइलि।
डंक मारने जैसा, कीडेका (Stings of insects)—एपिस, आर्नि, कैलेडि, कार्बो-ऐ, लेडम, नेट्रम-म्यू, सल्फ।
तरी (Moisture)—आर्स, बोवि, **कार्बो-वेज, ग्रेफा,** कैलि-कार्ब, क्रियो, लेके, लेडम, **लाइको,** मार्क, मेजे, पेट्रो, **रास-टक्स,** सिलि, सिपिया, स्टैफि, सल्फ।
तिल (Nœvi)—कैल्के, कार्बो-वेज, लाइको, फास।
दर्द (Pain)-काँटा बेधनेकी तरह (Prickling)—ऐकोन, **एपिस,** कोनचि, **प्लेटि,** रैना-सि, **रास-टक्स,** सल्फ, आर्टि-ई।
» काटने जैसा (Biting)—ऐग्न, ऐमोन-म्यूर, आइयो, कैल्के, कार्बो वेज, कास्टि, कोलचि, **युफ्रे,** गेल्सी, इपि, लैके, **लेडम,** माइको, मेजे, नक्स-वोम, ओलियें, **पलस,** स्पञ्जि, सल्फ।
» » खुजलाने बाद—ऐमोन म्यूर, कास्टि, युफ्रे, **लेके,** लेडम, माइको, मेजे, पलस, स्पञ्जि, सल्फ।
» खुजलानेके बाद—**वेरा-कार्ब,** पेट्रो, **साइलि, सल्फ।**
» चबानेकी तरह (Gnawing)—**ऐग्न,** बेरा-कार्ब, माइला, ड्रिजि, ड्रोसेरा, **लाइको,** पिनि, **ओलियें, प्लेटि,** रैना स्यू, रुटा, स्पञ्जि, सल्फ, वेरे।
» » खुजलानेके बाद—माइको, **ओलियें,** स्टैफि।

दर्द, फाड डालनेकी तरह (Tearing)—कैम्फ, ग्रैफा, क्रियो, नाइ-ऐ, फास।
„ „ खुजलानेके बाद—आर्स, मेन, कैल्के, रास-टक्स, सल्फ।
„ बरफकी तरह ठण्डा, सुई बेधनेकी तरह—ऐगा।
दरार (Cracks)—इस्कि, ऐण्टि-क्रूड, आर्नि, अरम, बेडि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कैमो, साइक्ला, ग्रैफा, हिपर, क्रियो, लैकै, लाइको, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपिया, साइलि, सल्फ, जिङ्क।
„ गहरी, रक्तमय—मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, पल्स, सार्सा, सल्फ।
„ जखम भरी—ब्राइयो, मार्क।
„ जलन भरा—पेट्रो, सार्सा, जिङ्क।
„ दर्द करनेवाली—ग्रैफा, मैङ्ग, जिङ्क।
„ धोनेके बाद—ऐण्टि-क्रूड, कैल्के, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ।
„ पारेसे उत्पन्न—हिपर, नाइ-ऐ, सल्फ।
„ शीतके समय—लैकै, ग्रैफा, पेट्रो, सोरि, सिपि, सल्फ।
धब्बा, खुजलानेके बाद—ऐमोन-कार्ब, फास, रास-टक्स, सैबाडि, सल्फ।
„ चिडचिड करनेके साथ—फेरम, हिपर, लैडम, पल्स, साइलि।
„ जल जानेकी तरह—आर्स, कार्बो-वेज, साइक्ला, क्रियो, रास-टक्स।
„ डंक मारने जैसा दर्द भरा—कैम्फ, लैकै, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पल्स, साइलि।
परप्युरा हेमोरेजिका (Purpura hæmorrhagica)—आर्नि, आर्स, बेल, कार्बो-वेज, क्रोटे-होर, कूप्रम-ऐ, कैलि-आ, लैकै, लैडम, फास-ऐ, फास, रास-टक्स, सिकि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैरि।
„ छोटा छोटा—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, आर्नि, बेल, काफि, डालका, सल्फ-ऐ, सल्फ।
„ बुढ़ापेमें—आर्स, बैरा-कार्ब, आइ
सल्फ-ऐ।

प्रदाह (Inflammation)—ऐकोन, ऐनाका, एपिस, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, अरम, बैरा-म्यू, कोल्कि, कैमो, डाल्का, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फ्लम्ब, रास-टक्स, साइलि, स्टेफि, सल्फ।

„ प्रवणता—ऐसाफि, बेरा-कार्ब, बोरैक्स, कैमो, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, पल्स, साइलि, सल्फ।

बतौडी-मांसका बढ़ना (Excrescences)—ऐण्टिम-क्रूड कोल्कि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, ग्रैफा, हिपर, लाइको, नाइट्रि-ऐ, साइलि, स्टेफि, सल्फ, थूजा।

„ कानडाइलोमेटा (Condylomata)—अरम, कोल्कि, सिनैबा, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फाइटो, सेबा, सार्सा, स्टेफि, थूजा।

„ „ उपदंशज—सिनेबार, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

„ „ खुजली भरी—लाइको, सोरि, सैबाइना, स्टेफि, थूजा।

„ „ जलन भरी—एपिस, सिनेबर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सैबाइ, थूजा।

„ „ दुर्गन्धभरी—कैल्कि, हिपर, पोडो, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

„ „ रस स्राव करनेवाला—सिनेबार, नाइट्रि-ऐ, सल्फ, थूजा।

„ „ रस निकलता है—एपिस, नाइट्रि-ऐ, थूजा।

„ „ रक्त भरा—लाइको।

„ फूलगोभीकी तरह, स्पञ्जकी तरह आकृति वाला—(Cauliflower-like)—ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, कोना, क्रियो, लैपि, नाइट्रि-ऐ, साइलि, स्टेफि, सल्फ।

„ „ उपदंशज—आर्स, आइयो, लैपी, सिलि, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि-ऐ, साइलि, थूजा।

„ „ मज्जामय—कार्बो ऐनि, फास, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ „ रक्तमय—(Hæmatodes)—आर्स, कार्बो-वेज, लैके, थूजा, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, सल्फ।

मसा (Warts)—आर्स, आरम, वेरा-कार्ब, बेल, कैल्के, कास्टि, डाल्का, हिपर, कैलि-क्लोर, लैके, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, नाइट्रि-ए, आकजे-ए, फास-ए, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, थूजा ।

„ आरेके दाँतोंकी तरह कटाव (Jagged)—कास्टि, लाइको, नाइट्रि-ए, सिपिया, थूजा ।

„ उपदंशज—आरम, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ए, थूजा ।

„ एक धाध—लाइको, थूजा ।

„ कड़ा—ऐण्टि-क्र, कैल्के, कास्टि, साइलि, सल्फ ।

„ खुजली भरे—कैलि-का, नाइट्रि-ए, सिपिया, थूजा ।

„ गन्धसे भरा हुआ सड़ा—हिपर, थूजा ।

„ गोलाकार—कैल्के ।

„ चपटा—कास्टि, डाल्का, सिपिया, थूजा ।

„ चिकना—ऐण्टि-क्रू, डाल्का ।

„ छोटा छोटा—कैल्के, कास्टि, नाइट्रि-ए, सार्सा, सिपिया, सल्फ, थूजा ।

„ जलन भरा—आर्स, पेट्रो, फास, रास-टक्स, सल्फ ।

„ डंक मारने जैसा दर्द भरा—कैल्के, हिपर, नाइट्रि-ए, सल्फ, थूजा ।

„ दर्द भरा—कैल्के, कास्टि, हिपर, नाइट्रि-ए, सल्फ, थूजा ।

„ नर्म—ऐण्टि-क्रूड, कैल्के, नाइट्रि-ए, थूजा ।

„ पारेके अपव्यवहारसे—आरम, नाइट्रि-ए, स्टैफि ।

„ पीवसे भरे हुए—कैल्के, कास्टि, हिपर, नेट्रम-कार्ब, साइलि, थूजा ।

„ पुराना—कैल्के, कास्टि, कैलि कार्ब, नाइट्रि-ए, सल्फ, थूजा ।

„ बड़ा बड़ा—कास्टि, डाल्का, नाइट्रि-ए, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, थूजा ।

„ भींगा भींगा—कास्टि, नाइट्रि-ए, रास-टक्स, थूजा ।

„ मोटा (Fleshy)—कैल्के, डाल्का ।

„ रक्त जैसे रंग—कैल्के, थूजा ।

मर्षा, रक्त-स्रोव करनेवाला—**कास्टि**, नाइट्रि-ए, रास-टक्स, **थूजा**।
„ रस निकलना—"भींगा भींगा" देखिये।
„ विशीर्ण (Withered)—आर्स, **चायना**, फेरम, आइयो, फास-ए, सार्सा, **सिके**, सल्फ, वेरे।
„ वृन्त भरा—(Pedunculated)—**कास्टि**, डाल्का, लाइको, नाइट्रि-ए, रास-टक्स, स्टैफि, थूजा।
„ सींगकी तरह (Horney)—**ऐण्टि-क्रू**, केल्के, नाइट्रि-ए, सिपि, सल्फ, थूजा।
„ सुई वेधनेकी तरह दर्द भरा—वोवि, **हिपर, नाइट्रि-ए**।
„ सूखा—स्टैफि।
„ स्पन्दन भरा (Pulsating)—केल्के, साइलि, सल्फ।
„ स्पर्शसहिष्णु (Sensitive)—हिपर, नेट्रम-कार्ब, स्टैफि, थजा।
मुखके दाग—ऐमोन-कार्ब, एण्टि-क्रूड, केल्के, डाल्का, फेरम, मेफा, **लाइको**, म्यू-ए, नेट्रम कार्ब, नाइ-ए, फास, पल्स, सिपि, सल्फ।
मैला (Dirty, filthy)—एपिस, आर्स, ब्राइयो, कोष्कि, फेरम, आइयो, मार्क, फास, सल्फ।
मोटा (Thick)—डाल्का, मेके, रैना-बा, **रास-टक्स**, सिपि, सल्फ, थूजा।
„ खुजलानेके बाद—डाल्का, आइयो, कैलि-बा, मेके, रैना-बा, **रास-टक्स**, सिपि।
„ मोमकी तरह (Waxy)—**ऐसि-ए, एपिस, आर्स**, क्रमम, **फेरम**, स्पि, **लाइको**, फास, साइलि।
रक्त बिगड़ना (Discolouration)—
„ काला—एपिस, आर्ज नाइट्रि, क्रोटे-होर, सिके।
„ „ जगह जगह (Spots)—आर्स, क्रोटे-हो, मेके, राम-टक्स, सिके।
„ मोती आभा लिये हुए—ऐण्टिम-टा, एपिस, आर्स, ईथूटी, बेल, ब्रोमि, कैम्फ, कार्बो-वेज, क्रमम, **हिलि**, काइको ए, लेकै, मोरो, **नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि**, आकजे फाइटो, पिक, स्ट्रेमो, **वेरे**, वेरे-वि।

रङ्ग, नीले चकत्ते—**आर्निका,** आर्स, ब्राइयो, कोना, फेरम, लेके, लेडम, लाइको, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास, **सिके,** सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ फीका (Pale)—ऐसे-ऐ, ऐन्थ्रा, एपिस, आर्स, **बेल,** कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कोना, कुप्रम, डिजि, फेरम, फ्लू-ऐ, हेलि, हेलो, कैलि-कार्ब, क्रियो, **लाइको,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स वोम, फास, **प्लेटि,** प्लम्ब, पोडो, **पल्स, सिके,** सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ-ऐ, **सल्फ, वेरे।**

„ भूरा (Brown, liver spots)—ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, अरम, कार्बो-वेज, कोना, डाल्का, हाइयो, **लेके,** लोरी, **लाइको,** मार्क, मेजे, नाइट्रि, ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, **सिपि, सल्फ,** थूजा।

„ मैला (Dirty)—फेरम, आइयो, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, प्लम्ब, सोरि, सल्फ, थूजा।

„ लाल (Red)—ऐकोन, **ऐगा,** ऐमोन-कार्ब, एपिस, आर्निका, **बेल,** ब्राइयो, क्रोटे-हो, क्रोटन-टिग, डाल्का, **ग्रैफा,** लाइको, मेन्सि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, फास-ऐ, पल्स, **रास-टक्स,** सैबाडि, सल्फ, टेलू।

„ „ चकत्ते (Spots)—**ऐमोन-कार्ब,** एपिस, आर्निका, **बेल,** ब्राइयो, कैल्के, **काकि,** कोना, साइक्ला, ग्रेफ, जुग-कै, लेके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, **फास,** रास-टक्स, **सैबाडि, सिपि,** साइलि, स्ट्रेमो, सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ „ अग्निको तरह—ऐकोन, बेल, फेरम-मेट, स्ट्रेमो।

„ „ गाढ़ा लाल (Scarlet red)—**ऐमोन-कार्ब,** आर्स, **बेल,** ब्राइयो, क्रोकस, हाइयो, मार्क, स्ट्रेमो, सल्फ।

„ „ ताँबेके रङ्गकी तरह—ऐल्युमि, आर्स, कार्बो-ऐनि, कोरा-रू, क्रियो, **लेके,** मेजे, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, वेरे।

„ „ नीली आभा लिये हुए—ऐन्थ्रा, एपिस, बेल, लेके।

रङ्ग, लाल भूरी आभा लिये हुए—कार्बो-वेज, **नाइट्रि-ऐ**, फास, **सिपि** ।

„ पीला, कामला (Jaundice)—**ऐकोन**, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमोन म्यूर, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कोन्य, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, **कोना**, **क्रोटे-होर**, डिजि, फेरम, ग्रेफा, इग्ने, आइयो, लेप्टा, **मार्क**, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, ओपि, फास, **प्लम्ब**, पोडो, पल्स, सेंगु, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ ।

„ „ चकत्ते (Spots)—**आर्निका**, कोना, फेरम, लैके, लाइको, नेट्रम-कार्ब, फास, सोरि, सिपि, **सल्फ**, थूजा ।

„ सफेद—**एपिस**, **आर्स**, फ्लू-ऐ, कैलि-कार्ब ।

„ „ जगह जगह—ऐल्यूमि, **आर्स**, अरम, बार्ब, कोन्के, फास, सिपि, **साइलि**, सल्फ ।

„ हरा, जगह जगह—आर्निका, ब्यूफो, **कोना**, लैके ।

रूखा—ऐल्यूमि, कैल्के, ग्रेफा, आइयो, लिथि, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, प्लम्ब, राम-टक्स, सिपि, **सल्फ** ।

लसदार (Stickly)—ऐकोन, ऐगा, **एपिस**, आर्निका, ऐसाफि, **बेरा-कार्ब**, **ब्राइयो**, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, चायना, काकि, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, साइक्ला, **ग्रेफा**, क्रियो, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाडि, सिपि, साइलि, **स्पञ्जि**, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टेरे, थूजा, **वायो-ट्रि** ।

„ जलन भरा—ऐकोन **एपिस**, आर्स, **ऐसाफि**, ब्राइयो, कैन्थ, काकि, कैलि-कार्ब, मेर्क, लाइको, मार्क, मेजे, नक्स वोम, फास, पल्स राम टक्स, साइलि, **स्टैफि**, सल्फ ऐ, **थूजा**, **आर्टि-ड** ।

„ खुजलाने के बाद—**बेरा-कार्ब**, ब्राइयो, काकि, साइक्ला ग्रेफा मेर्क, मार्क, पल्स, **रास-टक्स**, सेबाडि स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, वायो ट्रि ।

विद्युतकी झटकेकी तरह मालूम होना (Sensation as from electric spark)—ऐगा, आर्जेण्ट-नेट, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, सिके, सिलि।

विसर्प (Erysipelas)—**ऐकोन**, ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्रा, **एपिस**, आर्निका, आर्स, अरम, **बेल**, बोरा, ब्राइयो, केल्के, कैम्फ, केन्थ, कार्बो-ऐनि, कैमो, चायना, क्लिमे, क्रोटे-होर, **युफ्रो**, **ग्रेफा**, हिपर, आइयो, इपि, जुग-के, केलि-कार्ब, **लेके**, लाइको, **मार्क**, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फास, पल्स, **रास-टक्स**, रूटा, साइलि, सल्फ, टेरि, थूजा।

„ ऋतुके समय—ग्रेफा।

„ खुजलानेके बाद—ऐमोन-कार्ब, बेल, ग्रेफा, हिपर, लेके, लाइको, **मार्क**, **रास-टक्स**, सल्फ।

„ पुराना—ग्रेफा, टेरि।

„ „ फैलता है दाहिनेसे बायें—एपिस, ग्रेफा, लाइको।

„ „ बायेंसे दाहिने—लेके, रास-टक्स।

„ „ बदलने वाला (Erratic)—म्यू-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ बार बार—एपिस।

„ रस भरी फुन्सियां (Vesicular)—आर्स, बेल, **युफ्रो**, ग्रेफा, हिपर, लेके, **रास-टक्स**, सिपि, सल्फ।

„ सड़नेवाला (Gangrenous)—ऐन्थ्रा, **आर्स**, एपिस, बेल, कैम्फ, कार्बो-वेज, लेके, म्यू-ऐ, रास-टक्स, सेकाइना, सिके, साइलि।

„ सूजनके साथ—ऐकोन, **एपिस**, आर्निका, आर्स, **बेल**, कैल्के, ग्रेफा, हिपर, लेके, **मार्क**, **रास-टक्स**, सल्फ, थूजा, वेरे-वि।

शिथिल (ढीला, झूलता हुआ Flabbiness)—एपिस, कैल्के, कैम्फ, कैप्सि, चायना, क्लिमे, कालि, क्रूमम, फेरम, हाइयो, लेके, लाइको, सार्स, वेरे।

सङ्कोचन (Contraction)—चायना, ग्रेफा, नक्स-वोम, प्लेटि, **रास-टक्स**, सिलि।

संयुक्त (Adherent)-अस्थिमें—ऐसाफि, फास-ऐ, साइलि।

सरसरी, चींटी चलनेकी तरह (Formication)—ऐकोन, ऐरानि, आर्स,

बैरा-ऐसे, बैरा-कार्ब, फेरम, हाइपि, आइयो, लाइको, मैग-म्यू र, मेजि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू र, नक्स-मोस, ओलियें, फास-ऐ, फास, पिक्रि-ऐ, प्लैटि, पल्स, रैना ब, रोडो, रास-टक्स, सैबाडि, सिके, स्टैफि, सल्फ, टैरे, आर्टि-ड, वायो-ट्रि, जिङ्क।

सुरसुरी, पक्षाघात-ग्रस्त स्थानमें—फास, प्लम्ब।

" सुन्नताके साथ—युफ्रे।

सूखा (Dry)—ऐकोन, ऐल्यू मि, ऐमोन-कार्ब, ऐन्यू, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्निका, आर्स, बेल, बिस्मथ, ब्राइयो, वेम्फ, वेना-से, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, काकि, कोलचि, क्रोटे-हौर, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, ग्रेफा, हाइयो, हाइड्रो ऐ, आइयो, इपि, कैलि-कार्ब, लैके, लेडम, लिथि, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यू र, नाइट्रि-ऐ, नक्स मस, ओलियें, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, फाइटो, प्लैटि, प्लम्ब, सैबाड, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिकि, सेनै, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्क्इ, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थ्यूजि, वेरे, वार्बा, वायो-ओ।

" जलनके साथ—ऐकोन, एपिस, आर्निका, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैस्टे, चेलिडो, काकि, काफि, डाल्का, हेलि, कैलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, रास टक्स, सेम्बु, सिके, सिपि, साइलि, स्क्इ, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेले।

" पसीना नहीं निकलता—ऐल्यूमि, ऐनाका, बेल, कैमो, चायना, कोलचि, कोना, डाल्का, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, लेडम लाइको, नक्स-मस, फास ऐ, सोरि, रास टक्स सैम्बु, साइलि, स्क्इ, स्टैफि, सल्फ।

" रूखा—आइयो, मार्क, नेट्रम-कार्ब।

स्थिति स्थापकताका अभाव (Inelastic)—बोवि कूप्रम, मेज रास टक्स वेरे।

स्पर्शानुभविता (Sensitiveness)—ऐकोन, ऐगा, एपिस, बेल, ब्राइयो,

चायना, काफि, कोना, फेरम, **हिपर**, इपि, क्रियो, **लैके**, लेडम, मैग-कार्ब, मस्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-मस, नक्स-वोम, **पेट्रो**, **फास-ऐ**, रास-टक्स, सैंगु, सिलि, सिपि, **साइलि**, साइजि, **सल्फ**, थूजा।

सड़ा (Gangrene)—ऐगा, ऐन्थ्रा, एपिस, **आर्स**, ऐसाफि, कैन्थ, कार्बो-वेज, **कास्टि**, **क्रियो**, लैके, रास-टक्स, स्ट्रैमो।

सड़ा घाव, थोड़ा कटने या फट जानेसे ही घाव हो जाता है—बोरेक्स, कैल्के, कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, कैमो, ग्रेफा, हिपर, लैके, पेट्रो, फास, सोरि रास-टक्स, साइलि।

सिकुड़ा हुई (Wrinkled)—ऐसिट-क्रू, बोरा, कोना, कूप्रम, क्रियो, लाइको, मेजे, सार्सा, **सिके**, सिपि, सल्फ, वैरे।

सुन्न (Anæsthesia)—ऐलि-सि, ऐल्यूमि, ऐनाकां, आर्स, वेल्फ, कैम्फि, कार्बो-ऐसि, **चायना**, क्लोरे, काफि, कैलि-ब्रो, कैलि-आ, मार्क, **नक्स-वोम**, **ओलिये**, ओपि, पेट्रो, फास, प्लम्ब, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिके, सल्फ, जिङ्क।

सुन्न भाव (Numbness)—ऐम्ब्रा, **ऐनाका**, हाइपि, लाइको, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, **सिके**, सल्फ।

„ खुजलानेके बाद—ऐनाका, कैमो, कोना, साइक्ला, लैके, लाइको, **ओलिये**, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, सिपिया, सल्फ।

सूजन (Swelling)—ऐसिटम-क्रूड, **एपिस**, आर्निका, **आर्स**, आर्स-आ, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, बेल, **ब्रोइ**, चायना, सिकि, कोना, कोपे, डाल्का, **युफ्रे**, हाइड्रोको, लैके, लेडम, लाइको, **मार्क**, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, सैबा, सैम्बु, **सल्फ**।

„ कड़ा—आर्नि, **ब्राइयो**, कास्टि, लेडम, **फास**, **पल्स**, **रास-टक्स**, सैम्बु, स्ट्रान्सि, सल्फ, थूजा।

„ काला—आर्नि, **आर्स**, बेल, डिजि, लैके, मार्क, नक्स-वोम, ओपि, **पल्स**, वेरे।

सूजन, खुजलानेके बाद—आर्स, बेल, कोन्य, हिपर, लैके, लाइको, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ चमकदार—आर्नि, आर्स, ब्राइयो, मार्क, रास-टक्स, सल्फ।

„ जलन भरा—ऐकोन, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, लैके, लाइको, मार्क, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ ठण्डा—आर्स, कोना, डाल्का, लैके, सिकै, साइजि।

„ डंक मारने जैसा दर्द भरा—ब्राइयो, कास्टि, नाइट्रि ऐ, रास-टक्स, सल्फ, थूजा।

„ प्रदाह भरी—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, हिपर, मार्क, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ फीका (Pale)—आर्निका, आर्स, ब्राइयो, कैल्के, चायना, फेरम, आयोड, लैके, लाइको, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ फूला फूला (Puffy)—ऐकोन, ऐसीन म्यू, ऐसिड-क्रूड, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कूप्रम, फेरम, ओलियै, पल्स, रास-टक्स, सेने, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

„ शोथके साथ—ऐसिट-क्रूड, आर्स, बेल, ब्राइयो, चायना, कोलचि, डिजि, डाल्का, फेरम, हेलि, लेडम, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सैबाइ, सैम्ब, स्क्वुइ, सल्फ, टेल्यू।

„ सरसरीके साथ—आर्नि, कोलचि, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ।

„ स्पञ्जकी तरह—ऐसिट-क्रूड, आर्स, कार्बो एनि, लैके, फास, साइलि, सल्फ।

अङ्ग-प्रत्यङ्ग (LIMBS) ।

अकड़न (Convulsion)—ऐकोन, ऐगा, आर्स, बेल, ब्यूफो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐसि, कास्टि, कैमो, क्लोरे, **सिकि**, **सिना**, काकि, कोना, **कूप्रम**, कूप्रम-आ, हाइड्रो-ऐ, **हाइयो**, लेके, लाइको, मार्क-कोर, मस्क, नक्स-म, **नक्स-वोम**, **ओपि**, प्लम्ब, पल्स, सिके, साइलि, **स्ट्रैमो**, सल्फ, वेरे ।

„ जर्ज़ाङ्गकी—**बेल**, केमो, सिकि, काकि, इग्ने, आइयो, इपि, ओपि, प्लैटि, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ ।

„ „ हाथकी—बेल, आइयो, स्ट्रैमो ।

„ „ „ अङ्गुलीका—बेल, कैल्के, **चेलि**, सिकि, कूप्रम, इग्ने ।

„ „ „ „ अंगूठा—काकि ।

अनावृत्त (खोलना) करनेकी इच्छा—कोना, जिङ्क ।

„ निम्नाङ्ग—प्लैटि ।

„ „ चरण—**कैमो**, मैग-कार्ब, **मेडो**, पेट्रो, **पल्स**, सैंगु, सैनि, **सल्फ** ।

„ करनेसे बढ़ना—आइयो, **हिपर**, नेट्रम-म्यूर, **रास-टक्स**, **साइलि**, थूजा ।

अपटुता (Awkwardness)—**ऐगारि**, **एपिस**, **बोवि**, **कैल्के**, कैफि, कास्टि, कोना, इग्ने, **इपि**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पल्स ।

„ हाथकी—ऐगारि, एपिस, **वैडि**, कोना, फास ।

„ „ अङ्गुलीका—एपिस, कैल्के, नक्स-वोम, **बोवि**, साइलि ।

„ „ चीज गिर पडती है—**एपिस**, **बोवि**, कोना, नेट्रम-म्यूर, स्ट्रैमो ।

„ निम्नाङ्गकी—**ऐगा**, ऐल्यूमि, **कास्टि**, कोना, नक्स-म, साइलि, वेरे ।

अपटुता निम्नाङ्गका, झटका लगता है, चलनेके समय—**ऐगा**, कोल्के, **कास्टि,** कोलचि, कोना, इग्ने, लैके, नेट्रम-म्यूर, फास।

असम्बन्ध, सञ्चालन क्रियाका (In-cordination)—ऐना, ऐल्यू, कैल्के, **कोना,** क्यूप्रम, जेल्स, श्रोनस, फास, स्ट्रेमो, जिङ्क।

» ऊर्द्धाङ्गका—मार्क, आर्स।

» निम्नांगका—ऐल्यूमि, नक्स-म, ओनस, फास, साइलि।

अस्थिका जखम (Caries)—आर्स, **ऐसाफि,** कैल्के, फ्लु-ऐ, हिपर, **लाइको,** मार्क, **नाइ-ऐ,** फास-ऐ, फास, पल्स, सिपि, **साइलि,** स्टैफि, थेरि।

» ऊर्द्धाङ्गका—साइलि।

» निम्नांगका—साइलि।

» » टिबिया (जंघास्थि) अस्थिका—ऐसाफि, आरम, कैल्के, फास, **साइलि।**

» » फीमर (रानकी हड्डी) अस्थिका—कैल्के, **साइलि,** स्टैनम।

» » फिब्यूला (अनुजंघास्थि) अस्थिका—साइलि।

» » पैरकी गाँठका (Ankle joint)—कैल्के, साइलि।

» » » तलवेकी अस्थिका—मार्क, साइलि।

» » » एँड़ीका—कैल्के-फास, साइलि।

» » » अंगूठेका—साइलि।

अस्थिका बढ़ना (Exostosis)—कैल्के-फास, साइलि।

» बाँहकी—डाल्का।

» हाथकी अङ्गुलीका—कैल्के-फास।

» टिबिया (जंघास्थि) का—ऐड्डा, कैल्के फास, मिजेरि, डानका, नाइ ऐ, फास्टो।

अँगुल हाड़ा (Felon-panaritum, whitlow)—**ऐमोन-कार्ब,** ऐमोन म्यू, ऐनाका, **ऐन्थ्रा, एपिस,** ब्यूफो, कैल्के, कालि सिलि, **फ्लु-ऐ, हिपर,** इयडि, ल्याकेसि, लाइको, मैरे, मार्क नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम स **नाइट्रि-ऐ,** फास्टो, रास टक्स सेंगु, सिपिया **साइलि,** सल्फ **टेरे-क्यू।**

अँगुल हाडा, अँगूठेमें—ब्यू फो, हिपर, साइलि, सल्फ।

„ तल हड्डीमे—लैके, **साइलि**, सल्फ।

„ अस्थिके जखमके साथ—लैके, **साइलि**।

„ चोटकी वजहसे—लेडम।

„ डंक मारने जैसे दर्दके साथ—**एपिस**, **लैके**, सिपिया, **साइलि**।

„ नाखूनकी खाल अलग होकर—**लाइको**, **नेट्रम म्यू**, सल्फ।

„ नाखूनसे आरम्भ—फाइटो, रास-टक्स, **साइलि**, सल्फ।

„ „ जडमें—कास्टि, ग्रेफा।

„ „ नीचेमें—ऐल्यूमि, कास्टि, कक्क, सल्फ।

„ „ पीव होनेपर (Suppurating)—**हिपर**, **साइलि**।

„ „ सडने वाला (Gangrenous)—आर्स, लेके।

„ „ सुई गडकर—बैरा-कार्ब, लेडम।

„ „ सुई गडकर नाखूनके नीचे—बोवि, **लेडम**, सल्फ।

उद्भेद (Eruption)—ऐमोन-कार्ब, एपिस, **आर्स**, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, **कैल्के**, **कास्टिट**, कैलि-आर्स, **कैलि-कार्ब**, क्रियो, **लाइको**, मैन्सि, मार्क, **सेजी**, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि-ऐ, सोरि, पल्स, **रास-टक्स**, रूमे, **सिपि**, साइलि, सल्फ, थूजा।

उद्भेद, आमवात (Urticaria)—ऐपिस, बेल, कैल्के, कोपे, लेके, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स, रास-वे, सल्फ, आर्टि-इ।

„ काले रंगका—आर्स, सिके।

„ खाल उधडनेके साथ—ऐमोन-कार्ब, आर्स, आर्स-आयोड, क्रोटन-टिग, मार्क, **सेनी**।

„ काला—आर्स।

„ दादकी तरह (Herpes)—कोना, डाल्का, ग्रेफा, नेट्रम-म्यूर।

„ पीव भरी फुन्सियाँ (Pustules)—रास-टक्स, **सल्फ**।

„ फुन्सियाँ (Pimples)—**आर्स**, **ब्राइयो**, कैल्के-फास, कैल्के-सल्फ,

- **कास्टि**, कोना, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ **रास-टक्स**, सिपि, सल्फ।

उद्भेद, फोड़ा (Boils)—बेल, ब्राइयो, **हिपर**, लाइको, मार्क, रास-टक्स, **सल्फ।**

» » जलन भरा—**ऐन्थ्रा, आर्स, मार्क, रास-टक्स।**

» रक्तस्राव होनेवाला—कैल्के।

» रसभरी फुन्सियाँ (Vesicles)—**ऐरिट-क्रू, ऐरिट-टा, आर्स**, आर्स-आयोड, कैल्के, कास्टि, कार्बो-वेज, डाल्का, लैके, मार्क, **नेट्रम-म्यूर, फास, रैना-ब, रास-टक्स, रास-वे**, सल्फ।

ऊरु-सन्धिका रोग (Hip-joint disease)—**कैल्के, कैल्के-फास, कार्ड, कास्टि, कैमो, कोलोसि, कैलि-कार्ब**, हिपर, **कैलि-स**, नाइट्रि-ऐ, **फास-ऐ, साइलि**, ष्ट्रैमो, **टियुब।**

» दाहिने—**लैडम**, फाइटो।

» बायें—ष्ट्रैमो।

ऐंठन—आर्स, **बेल**, कैल्के, कास्टि, काक्कि, कोलोसि, कोना, कुप्रम, डायस्को, डाल्का, ग्रैफा, हेलि, हाइयो, कैलि-कार्ब, **लाइको**, मार्क, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, **प्लैटि**, प्लम्ब, रोचि, रास-टक्स, सिके, सिपिया, साइलि, सल्फ, टैबै, वेरे, जिङ्क।

» सन्धिमें—ऐनाका, बैल, ब्राइयो, **कैल्के**, हाइयो, इग्ने, पैरि, **प्लैटि**, सिके, ष्ट्रैमो, सल्फ।

» ऊर्ध्वाङ्गमें—**ऐमोन-कार्ब**, कैल्के, औङ्गो, नेट्रम म्यू, टैबै।

» » कंधेमें—प्लैटि।

» » कलाईमें—फास-ऐ।

» » हाथमें—ऐगा, बेल, कैल्के, कोलोसि, कुप्रम, डेफा, फेरि म्यार, कैलि कार्ब, नेट्रम म्यूर, फाइसो।

» » » निगलनेके समय—ऐनाका, माइका, नेट्रम फास।

» » » पैरोंमें—कुप्रम, सिकेलि।

ऐंठन, जङ्घाङ्गमें हाथमें अँगुलोमें —आर्निं, कार्बों वेज, **चेलि,** कूप्रम, कूप्रम-आ नेट्रम-म्यू, स्टेनस, सल्फ ।

„ „ „ „ लिखनेके समय—मैग-फास, **स्टेनम ।**

„ „ „ „ हैजासे—कोलचि, **कूप्रम, वेरे ।**

„ निम्नागमें—केल्के, फेरम, फेरम-म्यू ।

„ „ पैरका (Leg)—आर्स, बोवि, **कैल्के,** कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कैमो,** कोलचि, **कोलोसि, कूप्रम,** फेरम, कैलि-क्लोर, मैग-फास, नेट्रम-म्यू, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

„ „ पैरकी पोटलीमें (Calf)—ऐकोन, ऐल्यमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, केल्के, केल्के-फास, कैम्फ, कास्टि, कैमो, कोलचि, **कोलोसि,** कोना, क्रोटे-हीर, कूप्रम, फेरम, हैके, **ग्रेफा, हिपर,** आइरि, कैलि-कार्ब, **लाइको,** मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, **सिकी,** सिपि, सिलि, **साइलि, सल्फ,** वेरे, वेरे-वि, जिङ्क ।

„ „ „ रातमें—ऐम्ब्रा, **कैल्के,** फेरम, फेरम-म्यूर, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, **लाइको,** मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **सल्फ** ।

„ „ „ „ बिछौनेमें—कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, फेरम, फेरम-म्यूर, कैलि-कार्ब, **रास-टक्स, सल्फ ।**

„ „ „ घूमनेके समय—**ऐनाका, कैल्के-फास, सल्फ ।**

„ „ „ हैजासे—ऐण्टिम-टार्ट, कैम्फ, कूप्रम, कोलचि, जेट्रो, कैलि-फास, मैग-फास, **सल्फ, वेरे ।**

„ „ पैरके ऊपरी भागमें (Foot)—ऐकोन, ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐसलि-टिग, बेल, कैल्के, कैम्फ, **कार्बोनि-सल्फ, कास्टिं,** कोलचि, कोलासि, **कूप्रम,** जेट्रो, मैग-कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब,

नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास-ऐ, रास-टक्स, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

ऐंठन, निम्नाङ्गमें पैरके ऊपरी भागमें हैजासे—कूप्रम, वेरे।

» » पैरके तलवेमें—ऐगा, ऐल्यू, ऐमोन-कार्ब, ऐपोसा, कैल्के, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलचि, इग्नेटि, फेरम, हिपर, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, स्टेनम, सल्फ, सिपि, वेरे, वार्बा।

» » » रातमें—ऐगा, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, नक्स-वोम, सल्फ।

» » » घूमनेके समय—वेरा-कार्व, साइलि, सल्फ।

» » » हैजामें—सल्फ।

» » अंगुलोंमें—ऐमोन-कार्ब, आर्स, ऐसाफि, वैरा-म्यूर, कैल्के, कास्टि, कैमो, चेलिडो, क्रोटे-होर, कूप्रम, कूप्रम-आ, फेरम, हिपर, कैलि-आई, लाइको, फास-ऐ, नक्स-वोम, सिके।

कम्पन (Trembling)—ऐनाका, ऐगा, ऐम्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-स, कार्बो-वे, कास्टि, चेलि, चिनि-स, सिकि, सिमि, काक्कि, कोना, जेल्स, हायो, इग्ने, आइयो, कैल्मि, मैग-फास, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास, प्लम्ब, प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, सिके, साइलि स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेबे, वेरे।

» सवेरे—नाइट्रि-ऐ।

» खाँसनेके समय—बेल कूप्रम, फास।

» पक्षाघात ग्रस्त पङ्गका—कास्टि, प्लम्ब।

» परिश्रमसे, थोड़ा—रास-टक्स, साइली।

» सर्वाङ्गका—ऐम्ब्रो, आर्ज-नाइट्रि, कैल्के-फास, कार्बोनि-स, कूप्रम, हायो, प्लम्ब, नाइट्रि-ऐ, ओपि, फास, रास-टक्स, सार्सनि, स्पञ्ज, स्ट्रैमो।

» » हाथका—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, ऐगा, ऐमिल-ना, ऐपिस, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, आर्स-आइ, कैल्के, कैल्के-फास

ऐंठन, अधोङ्गमे हाथमें अँगुलीमें —आर्नि, कार्बो-वेज, चेलि, कूप्रम, कूप्रम-आ नेट्रम-म्यू, स्टेनम, सल्फ ।

" " " " लिखनेके समय—मैग-फास, स्टेनम ।

" " " " हैजासे—कोलचि, कूप्रम, वेरे ।

" निम्नागमे—कैल्के, फेरम, फेरम-म्यू ।

" " पैरका (Leg)—आर्स, बोवि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कैमो, कोलचि, कोलोसि, कूप्रम, फेरम, कैलि-क्लोर, मैग-फास, नेट्रम-म्यू, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सल्फ ।

" " पैरकी पीटलीमें (Calf)—ऐकोन, ऐल्यमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कास्टि, कैमो, कोलचि, कोलोसि, कोना, क्रोटे-होर, कूप्रम, फेरम, हेके, ग्रेफा, हिपर, आइग्नि, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, सिपि, सिपि, सिलि, साइलि, सल्फ, वेरे, वेरे-वि, जिङ्क ।

" " " रातमें—ऐम्ब्रा, कैल्के, फेरम, फेरम-म्यूर, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सल्फ ।

" " " " बिछौनेमें—कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, फेरम, फेरम-म्यूर, कैलि-कार्ब, रास-टक्स, सल्फ ।

" " " घूमनेके समय—ऐनाका, कैल्के-फास, सल्फ ।

" " " हैजासे—ऐण्टिम-टार्ट, कैम्फ, कूप्रम, कोलचि, जेट्रो, कैलि-फास, मैग-फास, सल्फ, वेरे ।

" " पैरके ऊपरी भागमें (Foot)—ऐकोन, ऐगा, ऐङ्गा, ऐसलि-टिग, वेल, कैल्के, कैम्फ, कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, कोलचि, कोलोसि, कूप्रम, जेट्रो, मैग-कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब,

नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास-ऐ, रास-टक्स, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

ऐंठन, निम्नाङ्गमें पैरके ऊपरी भागमें हैजासे—कूप्रम, वेरे।

„ „ पैरके तलवेमें—ऐगा, ऐल्यू, ऐमोन-कार्ब, ऐपोसा, कैल्के, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलचि, इलेटे, फेरम, हिपर, नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, स्ट्रैनम, सल्फ, सिकि, वेरे, वार्बा।

„ „ „ रातमें—ऐगा, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, नक्स-वोम, सल्फ।

„ „ „ घूमनेके समय—वेरा-कार्ब, साइलि, सल्फ।

„ „ „ हैजामें—सल्फ।

„ „ अंगुलीमें—ऐमोन-कार्ब, आर्स, ऐसाफि, बेरा-म्यूर, कैल्के, कास्टि, कैमो, चेलिडो, क्रोटे-होर, कूप्रम, कूप्रम-आ, फेरम, हिपर, कैलि-बाई, लाइको, फास-ऐ, नक्स वोम, सिकि।

कम्पन (Trembling)—ऐनाका, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-स, कार्बो-वे, कास्टि, चेलि, चिनि-स, सिकि, सिमि, काफि, कोना, जेल्स, हाइयो, इग्ने, आइयो, कैलि, मैग फास, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि पेट्रो, फास, प्लम्ब, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, सिके साइलि, स्पन्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेबे, वेरे।

„ सवेरे—नाइट्रि-ऐ।

„ खाँसनेके समय—बेल कूप्रम, फास।

„ पक्षाघात ग्रस्त अङ्गका—कास्टि, प्लम्ब।

„ परिश्रमसे, थोड़ा—रास-टक्स, साइली।

„ ऊर्ध्वाङ्गका—ऐग्नो, आर्ज-नाइट्रि, कैल्के [illegible], कार्बोनि-स, कूप्रम [illegible] प्लम्ब, नाइट्रि-ऐ, [illegible], रास टक्स, साइलि, [illegible]।

„ „ हाथका—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, [illegible] आर्ज-नाइट्रि, आर्स, [illegible]

कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-सल्फ, **कास्टि,** चायना, कान्नि,
काफि, क्रोटे-हो, फेरम, जेलस, ग्लोनो, हाइयो, इग्ने,
आइयो, केलि-फास, लैके, **मार्क, नेट्रम-म्यूर,**
नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम,** श्रम, फास,
फाइटो, प्लेटि, प्लम्ब, सोरि, पलस, साइलि, स्टैनम, स्ट्रैमो,
सल्फ, थूजा, जिङ्क।

कम्पन ऊर्ध्वाङ्गका, हाथकी अंगुलीका—ग्लोनो, मार्क।
" " " कामजोरीसे—लेडम, मार्क, स्टैनम।
" " " टाइफायड ज्वरमें—आर्ज-नाइट्रि, जिङ्क।
" " " पकडनेसे कुछ—साइलि, स्टैफि।
" " " लिखनेके समय—ऐलि-सि, ऐण्टि-क्रूड, कार्बो-ऐनि,
कास्टि, चायना, सिमि, कोलचि, इग्ने, केलि-कार्ब,
नेट्रम-म्यू, नेट्रम-फास, नेट्रम-स, फास-ऐ, फास,
पलस, **सल्फ,** जिङ्क।

कम्पन, ऊर्ध्वाङ्गमें हिलनेसे हाथ—कैम्फ, केलि-ब्रोम, लेडम।
" निम्नाङ्गमें—ऐगा, ऐम्ब्रा, आर्ज-मेट, **आर्ज-ना,** केल्के, सिमि, क्रोटे,
होर, ग्लोनो, **लैके,** लेडम, मार्क, नेट्रम-म्यू, **नाइट्रि-ऐ,**
नक्स-वोम, फाइटो, वेरे।
" " पैरका—साइक्ला, नेट्रम-म्यू, फास, प्लेटि, पलस, रूटा, साइलि।
" " " तलवाका—बेरा-कार्ब, कूप्रम, हाइयो, **मार्क,** नेट्रम-म्यू,
सोरि, **पलस,** स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, थूजा।

कमजोरी—ऐगारि, ऐल्युमि, ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस,
आर्ज-मेट, **आर्ज-नाइ, आर्स,** आर्स-हा, वेरा-म्यू, **ब्राइयो,**
कैल्के, केल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-वेज, **कास्टि,** कैमो, चिनि-
स, सिकि, ककास, **कोना,** क्रोटन-टिग, कूप्रम, डलका, **फेरम,**
फेरम-आयोड, ग्रैफा, हिपर, केलि, लैके, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब,
नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास-ऐ, प्लम्ब,** पलस,

रेना-व, रास-टक्स, सेङ्गाडि, सिक्रि, साइलि, स्टेनम, स्टेफि, सल्फ, थूजा, वेरे, जिङ्क।

कमजोरी घूमनेके समय—ऐनाका, आर्ज-मेट, ब्राइयो।

" परिश्रमके बाद, थोड़ा—ऐनाका, आर्स, कैल्के, कार्बो वेज, फास।

" सन्धिकी—ऐकोन, ऐलो, आर्ज-मेट, आर्नि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, कोना, फेरम, कैलि-कार्ब, कैलि-स, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि स्टेफि, सल्फ, वेरे।

" अर्द्धाङ्गकी—ऐकोन, ऐलि-सि, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐनाका, एपिस, आर्स, बेल, बिस्मथ, कैल्के, कैल्के-सल्फ, कार्बो-व, कास्टि, चेलिडो, चायना, सिकि, कोना, क्रोटन-टिग, कुप्रम, क्यूरे, डिजि, जेल्स, ग्लोनो, ग्रेफे, गुयेज, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लोडो, रास-टक्स, साइलि, स्टेनम, स्टेफि, थूजा।

" " कन्धेकी—कोमो।

" " कलाईको—कार्बो वेज, कास्टि, क्यूरे, ग्लोनी, मार्क, प्रम्ब, साइलि।

" " केहुनीको—ऐड्रा, चिनि स, कोन्नोसि, डायस्को, ग्लोनो, श्राइपि, लेडम, नेट्रम-सल्फ, ओपि, प्रम्ब।

" " हाथकी—वोपि, सिना, क्ष्टा, फ्ल्-ऐ, थैनि या, मेनो, नाइट्रि-ऐ, नेट्रम सल्फ, स्टेनम।

" " लिखनेके समय—ऋम्फि, मेजी, स्टेनम, जिङ्क।

" " " घुटनीकी—कार्बो वेज नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स।

निम्नाङ्गका—ड्रसिक, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन म्यू, ऐनाका, ऐगा, एपिस, आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि, आरम, आइयो, क्यूरो कैल्के, कार्बो-ऐसि, कार्बो-व, कार्बो वेज, कास्टि, चायना,

चिनि-गार्स, मिना, **काफि**, **कोना**, क्रोटन-टिग, कूप्रम, फेरम-आयोड, जेल्स, **ग्लोनो**, हेलि, हाइड्रो, **कैलि-ब्रा**, कैलि-कार्ब, कैलि ना, कैलि-फास, मेजि, मैग-म्यू,. **म्यू-ऐ**, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, **फास**, फास-ऐ **पिक्रि-ऐ**, **प्लम्ब**, रास-टक्स, सार्सा, सिकेलि, सिपि, साइलि, स्ट्रेनम, सल्फ, सल्फ-ऐ, **जिङ्क**।

कामजोरी, निम्नाङ्गका ऋतुके समय—काकि, नाइट्रि-ऐ, जिङ्क।

" " खड़े होनेसे—ऐनाका, ब्राइयो, **नक्स-म**।

" " चढनेके समय सीढ़ीसे—आर्स, कैल्के।

" " भ्रमणके बाद—**ड्रस्कि**, **आर्ज-मेट**, ब्राइयो, **कैल्के**, कैल्के-स, **कोना**, म्यू-ऐ, प्लम्ब, साइलि, रास-टक्स।

" " सङ्गमके बाद—कैल्के।

" " ऊरु सन्धिमें—ऐलि-सि, आकजे-ऐ, काली-कार्ब, पिक्रि-ऐ।

" " ऊरुकी—ऐल्यूमि, कैल्के, चायना, **काकि**, **कोना**, ग्लोनो, गुयेज, कैलि-कार्ब, मार्क-कोर, **म्यू-ऐ**, **नेट्रम-स**, नक्स-वोम, फास, प्लेटि, प्लम्ब, रूमे, रूटा, स्ट्रेनम।

" " " भ्रमणके समय—कैल्के, कैलि-आयोड, ओपि।

" " " सङ्गमके बाद—कैल्के।

" " " स्वप्नदोष होनेके बाद—**ऐगा**, कैल्के।

" " घुटनेकी—ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, आर्ज-मे, आर्ज-नाइ, आर्ज-मेट, आर्स, बेरा-कार्ब, वोवि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-इ, कैन्थ, कास्टि, चायना, चिनि-आर्स, चिनि-स, **काकि**, कोलोसि, **कोना**, कूप्रम, डिजि, डायस्को, डाल्का, फेरम फेरम-फास ग्लोनो, हेलि, हाइड्रो, इग्ने, इपि, आइरि, कैलि-बा, कैलि ना, लैके, लेडम, लाइको, **नेट्रम-म्यूर**, **नेट्रम-स**, फास, नक्स-म, नक्स-वोम, फास ऐ, प्लेटि, प्लम्ब, सोरि, रास-वेन, रूटा, सार्सा, साइलि, स्ट्रेनम, स्ट्रेफि, थूजा।

जोरो, निम्नाङ्गका, घुटनेका उतरनेसे सीढ़ी होकर—कैलि-कार्ब ।
" " " खड़े रहनेपर—ऐनाका, सिकि, कूप्रम, मस्क ।
" " " चढ़नेसे सीढ़ी होकर—ब्राइयो, कैन्थ, **कोना**, कैलि-कार्ब, प्लैटि, रूटा, स्टैनम, सल्फ, थूजा ।
" " " भ्रमणके समय—ब्राइयो, चायना, **कार्कि**, कोलोसि, कूप्रम, लेडम ।
" " " सङ्गमके बाद—**कैल्के**, सिपि ।
" " पैरका—**ड्रस्कि**, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, आर्ज-मे, आर्ज-नाइ, आर्स, बैरा-कार्ब, बोवि, कैक्ट, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैन्थ, कैना-इ, कास्टि, सिकि, **कोकि**, कोना, कूप्रम, फेरम, फेरम-म्यू, ग्लोनो, ऐमा, हाइड्रा, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि नाइ, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-भा, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-स**, **नक्स-म**, **नक्स वोम**, ओपि, पेट्रो, **फास-ऐ**, फास, पिक्रि-ऐ, प्लैटि, प्रम्प, **रास-टक्स**, सिपि, साइलि, सल्फ, थूजा, जिङ्क ।
" " " चढ़नेमें सीढ़ीसे—ब्राइयो ।
" " " बैठे रहनेसे—रास-टक्स, थूजा ।
" " " भ्रमणके समय—कास्टि कोना, रास-टक्स, नक्स-म, सल्फ ।
" " पैरकी पोटलीकी—आर्ज-मेट, कैल्के-फास, कैल्मि, नेट्रम म्यू ।
" " पैरकी गांठको (गुल्फ सन्धि Ankle joint)—कार्बो ऐनि, कास्टि, **नेट्रम-भा**, फेरम, लेक-कि, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम-म्यू, **नेट्रम-फास**, **नेटम-स**, **नाइट्रि-ऐ**, रास-टक्स, रास वे, सिपिया, **साइलि**, सल्फ, सल्फ-ऐ ।
" " " घूमनेके समय—**नाइट्रि-ऐ**, नेट्रम कार्ब ।
" " पैरके तलवेकी—आर्स बोवि कैल्के, कैमो चायना ड्रोसि ग्रैफि, लाइको, नेट्रम म्यू, पोलि ऐनि, कास्टि, प्लैटि, पल्स रास टक्स साइलि सल्फ ।

खटखट आवाज, सन्धिमें—ऐङ्गा, ऐगिट-कूड, कैल्के, कैम्फ, **कौसि,** कैमो, काकि, फेरम, कैलि वा, कैलि-कार्ब, **लेडम,** लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, पेट्रो, फास, **रास-टक्स,** सैबाडि, **सल्फ।**

„ जङ्घामें—क्रोक।

„ „ कन्धेमे—कैल्के, सिकि, कैलि-कार्ब।

„ „ केहुनीमें—कैलि।

„ „ कलाईमें—आर्नि, कोना।

„ „ अङ्गुलीमें—कार्बो-ऐनि।

„ निम्नाङ्गमें—बेञ्जो-ऐ, कैमो, सिपिया।

„ „ जानु सन्धिमें—कैम्फ, क्रोका।

„ „ घुटनेमें—आर्स, बेञ्जो-ऐ, कैल्के, कैम्फ, **कास्टि,** कैमो, काकि, कोना, लेडम, मेजे, नक्स-वोम, पल्स, सिपिया, **सल्फ।**

„ „ „ घूमनेके समय—आर्स, **कास्टि,** कैल्के।

„ „ पैरकी गाठमें—कैम्फ, **कैन्थ,** नाइट्रि-ऐ, सिपिया।

खालका निकलना, नाखूनकी जड़से (Hang nails)—कैल्के, मार्क, **नेट्रम-म्यूर,** रास-टक्स, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ दर्द भरा—सिलि, स्टैनम।

„ प्रदाह मिला—कैलि-क्लोर।

खाल उधेड़ने वाला (Excoriation)-सन्धियोंके गांसेमें—कास्टि, **ग्रैफा,** मैङ्ग, ओलि-ऐनि, पेट्रो, सिपि, सल्फ।

„ दोनों चूतड़ोंके बीचमें—**ग्रैफा,** नाइट्रि-ऐ, सिपि।

„ उरु दोनोंके बीचमें—ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, **कास्टि,** कैल्के, चायना, ग्रैफा, हिपर, **कैलि-कार्ब, क्रियो,** लाइको, **मार्क,** नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, सिपि, सल्फ-ऐ, सल्फ।

„ „ ऋतुके समय—ऐमोन-कार्ब, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लैक-की, नेट्रम-स, सार्सा, **साइलि,** सल्फ।

खाल उधड़नेवाला, घुटनेके गढ़ेमें—ऐम्ब्रा, सिपि ।

„ अंगुलीके गांसेमें दोनो पैरके—ग्रेफा, फ्लू-ऐ, लेके, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्य, सिपि, **साइलि** ।

खिंचाव (तनाव Tension) सन्धिमें—ऐमोन-म्यूर, बोवि, ब्रायो, केमि, कास्टि, आइरि, केलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मैङ्ग, मेजि, **नेट्रम-म्यूर**, नाइ-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सेने, सिपि, सल्फ, थ्यूक्रि ।

„ जङ्घामें—ऐल्यूमि, आर्ज-मेट, केलि-कार्ब, मैङ्ग, मेजि, नेट्रम-स, नाइ-ऐ, सिपि, साइलि, थूजा, जिङ्क ।

„ „ कन्धेमें—एपिस, ब्रायो, युफ्रे, केलि-कार्ब, लाइको, सिपि, जिङ्क ।

„ „ कलाईमें—मार्क ।

„ „ केहुनीमें—मेजि, म्यू-ऐ, सिपि ।

„ „ हाथमें—ऐल्यूमि, आर्ज मेट, कार्बो वेज, क्लिमे, केलि-कार्ब, लैके, लाइको, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-कार्ब, प्रुन्न, सोरि, सिपि, सल्फ, जिङ्क ।

„ „ „ अंगुलीमें—मोटे-होर, पल्स ।

„ निम्नांगमें—ऐल्यूमि, बैराइटा कार्ब, कार्बो-ऐनि, कोलोसि, मैग म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, पल्स, सिपि, जिङ्क ।

„ „ उरु-सन्धिमें—कार्बो-वेज कोलोसिन्थ, लाइको, रास टक्स, सल्फ ।

„ „ उरुमें—ऐगा, ऐल्यूमि, **ऐमोन-म्यू**, बेराइटा कार्ब, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, क्रियो, लैक डि, मैङ्ग, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, प्लैटि, **पल्स**, सैबाई, सिपि, स्पञ्जि, थूजा ।

„ „ घुटनेमें—पार्निका, बेराइटा म्यू, ब्रायो, कास्टि, मेडम, मैग कार्ब, नाइट्रि ऐ, फास, रास टक्स, सेनि, सिपि सल्फ ।

„ „ „ टहलनेके समय—मेडम, सल्फ ।

„ „ „ बैठकर उठनेमें—रास टक्स सल्फ ।

खिंचाव, निम्नागमें, पैरमें—ऐल्यूमि, ऐनाकार्ड, ब्राइयो, कौल्को, नेट्रम-मूर, पल्स, रास-टक्स, सिपि, थूजा, जिङ्क ।

" " " पोटलीमें—ऐल्यूमि, ऐनाका, आर्जे-नेट, ब्राइयो, कैमो, सिमे, कौलि-बा, कौलि-कार्ब, नेट्रम-मूर, फास, पल्स, सेवाडि, साइलि ।

" " " " घूमनेके समय—ऐलूमि, ऐनाका, कार्बो-ऐनि, नेट्रम-मूर, रास-टक्स, साइलि ।

" " " " बैठे रहनेसे—**नेट्रम-मूर**, **वेले** ।

" " " " अंगुलीमें—मेजे, नेट्रम-स, फास-ऐ, थूजा ।

" " " " गाँठमें (गुल्फ-सन्धि Ankle joint)—कास्टि, मार्क, फास ।

" " " " टेण्डो एकिलिसमें—कास्टि, सिपि ।

" " " " पैरमें—ऐलूमि, कास्टि ।

" " " " तलवेमें—ऐल्यूमि, कास्टि, जिङ्क ।

खुजली—**ऐगा**, ऐल्यूमि, आर्स, बिसमथ, कैल्के-स, कास्टि, कौलि-आ, **नेट्रम-स**, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, **सल्फ**, **टेलू** ।

" अनावृत्त करनेपर—नेट्रम-स ।

" जलन, खुजलानेके बाद—**सल्फ** ।

" घटना, खुजलानेसे—कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, मैंगे, **नेट्रम-कार्ब**, थूजा ।

" बढ़ना, खुजलानेसे—ऐल्यूमि, बिसमथ, लेडम, **सल्फ** ।

" ऊर्द्धाङ्गमें—ऐगा, कास्टि, नक्स-वोम, रास-टक्स, सिपि, साइलि, **सल्फ**, **टेलू**, आर्टि-ड्रू ।

" " हाथमें—**ऐगा**, ऐल्यूमि, **ऐनाका**, ऐन्थ्रा, आर्ब, कैम्फ, हिपर, पेट्रो, फास-ऐ, सोरि, रास-टक्स, **सल्फ** ।

" " " तलहथ्थीमें (Palm)—**ऐनाका**, बेञ्जो-ऐ, कैम्फ, कास्टि, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, रास-टक्स, रास-वे, सिलि, **सल्फ** ।

खुजली, जर्द्धाङ्गमें हाथमें अ गुलीमें—ऐगा, ऐल्यूमि, कास्टि, सल्फ, आर्टि-डै।

" " " " बीचमें—फास-ऐ, पल्स, सोरि, सल्फ।

" निम्नांगमें—ऐगा, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, एपिस, आर्स, बेरा-कार्ब, बिस्मथ, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, काक्कि, ग्रैफा, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, सोरि, पलस, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्पञ्जि, स्टैफि, सल्फ, टैरेण्ट, टेल्यू, थूजा।

" " रातमें—मेजे, रास-टक्स, सल्फ।

" " अनावृत्त करनेपर—नेट्रम-स, रूमे।

" " बिछावनकी गर्मीसे—ऐगा, ऐल्यूमि, सल्फ।

" " बढ़ना, खुजलानेसे—ऐल्यूमि, बिस्मथ, लेडम।

" " उरुदेशमें—ऐल्यूमि, आर्स, बेरा-कार्ब, बेरा-म्यूर, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, गुयेज, केलि-भा, स्पाइजि, सल्फ, जिङ्क।

" " पैरमें—कैल्के, पेट्रो, फास, रास-टक्स।

" " पैरमें—बेल, बार्ब, रोवि, कैल्के, चेलिडो, काक्कि मेजे, लेडम, रास टक्स सिलि, सल्फ, सिपि, टेम्यू।

" " " तलवेमें—ऐगा, ऐम्ब्रा, बार्ब, कैल्के-फ, चेलिडो, हिपर, हाइड्रोको, कैलि फास, माइलि, सल्फ।

" " " अ गुलीमें—ऐगा, ऐलूमि, ऐम्ब्रा, बार्ब मे कार्बो वेजि, क्लिमे, कोलचि, मारका, ग्रैफा, हिपर, पल्स सोकि सल्फ।

" " " " बीचमें—नेट्रम म्युर नेट्रम स।

गर्मी-उत्ताप (Heat)—गुयेज, सल्फ जिङ्क।

" सन्धिमें (Joints)—सिलि, ऐल्म केल्मि लिथा।

" जर्द्धाङ्गमें—मेजे, नेट्रम म्यूर फास।

" " बांहमें—रास टक्स।

गर्मी-उत्ताप जर्वाङ्गमें, कलाईमें—रास-टक्स, सल्फ ।

" " हाथमें—**ऐगा**, ऐण्टिम-टार्ट, बेरा कार्ब, **बेल**, कार्बो-वेज, कैमो, **चेलिडो**, साइक्ला, फ्लू-ऐ, ग्लोनो, ग्रैफा, **गुयेक**, भाइयो, कैलि-या, कैलि-कार्ब, **लैकै**, **लेडम**, **लाइको**, **नेट्रम-कार्ब**, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-म**, नक्स-वोम, **ओपि**, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लेटि, सोरि, **पल्स**, **रोडो**, **सिपि**, **स्टैफि**, **सल्फ** ।

" " " की पीठके ऊपरी भाग (करभ) में—एपिस, **नेट्रम-कार्ब**, **रास-टक्स** ।

" " " तलहत्थीका (Palm)—**ऐकोन**, **ऐगार**, **ब्राइयो**, कोल्को, युपे-पर्फो, फेरम, फ्लू-ऐ, इपि, **लैकै**, लिलि-टिग, लाइको, **म्यूर-ऐ**, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास**, सल्फ ।

" निम्नांगकी—मेजे ।

" " उरु सन्धिमें—चेलि ।

" " घुटनेकी—बैरा-म्यूर, लैके, लाइको, सल्फ ।

" " पैरकी—कोल्को, हैमा, लाइको, मेफा, नेट्रम-स, वेरे ।

" " " गांठकी—कैलि-बाई ।

" " " पञ्जेकी—एपिस, **कैमो**, कैलि-बाई, कास्टि, ग्लोनो, लाइको, नेट्रम-स, नक्स-वोम, पेट्रो, सोरि, **पल्स**, रूटा, सिके, सिपि, साइलि, **सल्फ** ।

" " " " सन्ध्यामें—लेडम, नेट्रम-स, साइलि ।

" " " " रातमें—इग्ने, नेट्रम-स, सिपि, साइलि, **सल्फ** ।

" " " " जलन भरी—ऐगा, ग्रैफा, लाइको, **मेडो**, नेट्रम-स, **फास-ऐ**, **पल्स**, सैंगु ।

" " " " अनाच्छन्न रखना चाहता है—कैमो, **मेडो**, **पल्स**, सैंगु, सैनि, सल्फ ।

गर्मी-उत्ताप, निम्नाङ्गमें पैरके तलवेमें—कैमो, फेरम, ग्रेफा, लेके, लिनि टिग, **लाइको**, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पल्स, सेङ्गु, सेनि, सिपि, साइलि, **सल्फ**।

" " " " खोल रखता है—कोल्के, मेगु **कैमो**, पेट्रो, **पल्स**, सेनि, **सल्फ**।

" " " " ज्वरके साथ—फेरम, लैके, **सल्फ**।

गट्टे (Corns)—ऐसे-ऐसि, ऐमोन-कार्ब, **ऐण्टिम-क्रू**, आर्नि, बैरा-कार्ब, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-स, कार्बो-ऐनि, कास्टि, क्यूवे, ग्रेफा, इग्ने, **लाइको**, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, पेट्रो, फास ऐ, फास, बेरा-म्यूर, रास-टक्स, **सिपि, साइलि, सल्फ**।

" जलन भरे—ऐण्टिम-क्रूड, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-स, लाइको पेट्रो, फास-ऐ, फास, रैना सि, रास टक्स, सल्फ।

" डंक मारने जैसे, दर्दके साथ—ऐगा, **ऐल्यूमि**, बैरा-कार्ब, **ब्राइयो**, बोवि, **कैल्के**, कैल्के-स, लाइको, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम-म्यूर, फास, पल्स, रैना-सि, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, **सल्फ**, जिङ्क।

" दर्द करनेवाले—ऐण्टिम-क्रूड, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के-स, लाइको, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

" " जोरसे दबानेसे—ऐण्टि-क्रूड, ब्राइयो, कैल्के-स, कास्टि, **लाइको**, सिपिया, **सल्फ**।

" पैरके तलवेमें, नोकदार—**ऐण्टि-क्रूड**, चार्म, कोन्कें।

" प्रदाह मिला—ऐण्टिम-क्रूड, लाइको, पल्स, सिपिया, **साइलि**, स्टेफि **सल्फ**।

" स्पर्शसहिष्णु (Sensitive)—चार्नि बैरा-कार्ब, ब्राइयो कैल्के, कैल्के-स, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, फ्लू ऐ, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, **लाइको**, नक्स-वोम, पल्स, रैना स, रास टक्स सिपिया, **साइलि**, स्टाफि, सल्फ।

चमड़ा मोटा होता है देखो—ऐगारि, बैरा कार्ब **कैल्के, कैल्के-फास, कास्टि, नेट्रम-म्यूर**, सीलि, सार्सा।

चूहा दौड़ता फिरता है मानो—सिपि, कैल्कि, साइलि, सल्फ।

" ऊर्द्धाङ्गमें—कैल्कि।

" निम्नाङ्गमें—कैल्कि, सिपि, सल्फ।

चोट, ऊर्द्धाङ्गकी कन्धेमें—फेरम-म्यू, रास-टक्स।

" " कलाईमें—आर्नि, कैल्कि, रास टक्स, रूटा।

" " हाथमें—आर्नि।

" " " मोच खाना—आर्नि, कैल्कि, रास-टक्स, रूटा।

" निम्नाङ्गकी ऊरुसन्धिमें—रास-टक्स।

" " पैरकी गाँठमें (गुल्फ-सन्धि Ankle joint)—आर्नि, कैल्कि, रास-टक्स, रूटा, स्ट्राफि।

" " " मोच खाना—**आर्नि, लेडम, रास-टक्स,** रूटा, स्ट्राफि।

झुनझुनी (Tingling)—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐल्यू, ऐम्ब्रा, आर्नि, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, कूप्रम, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-कार्ब, **लाइको,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, **पेट्रो, फास, पल्स,** रोडो, **रास-टक्स,** सिके, सिपि, साइलि, वेरे।

" ऊर्द्धाङ्गमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, अरम, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, काकि, डिजि, ग्रैफा, सिके, **साइलि।**

" " सोनेवाली करवटमें—बैरा-कार्ब, कैल्कि, कार्बो-वेज, ग्रैफा, लैके, फास, **पल्स, रास-टक्स।**

" " हाथमें—ऐकोन, एपिस, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, कैलि-नाई, लैके, लाइको, मेजे, रास-टक्स, वेरे।

" " " करनेसे कुछ—रास-टक्स।

" " " तलहत्थीमें—एपिस, कैलेडि, कास्टि, रूटा, सेने, स्टिक्नि, सेम्बुल।

" " " अंगुलीमें—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, आर्स, कार्बोनि-स, डिजि, ग्लोनो, लाइको, मैग-म्यूर, **नेट्रम-म्यूर,** पल्स, वैना-व, रास-टक्स, साइलि, थूजा, वेरे।

झुनझुनी जड़ाङ्गमें, हाथमें, अंगुलीके अग्रभागमें—ऐमोन-म्यूर, हिपर, कैलि-कार्ब, नेट्रम स, रास टक्स, थूजा।

„ निम्नाङ्गमें—ऐल्यूमि, कार्बोनि-स, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, लाइको, पेट्रो।

„ „ पैरमें—कैल्के-फास, कार्बो-हा, रास-टक्स।

„ „ „ बैठनेसे, पैरके ऊपर पैर रखकर—ऐगा, क्रोटे-हो, फास, सिपि।

„ „ पैरके पञ्जेमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, कार्बोनि-स, कोलचि, कैलि-कार्ब, पल्स, झोडो।

„ „ „ खड़े होनेसे—नेजा, पल्स।

„ „ „ लेटनेकी अवस्थामें—हाइपि।

„ „ „ तलवेमें—आर्ज, कास्टि, कालि, नक्स-म, साइलि।

„ „ „ अंगुलीमें—कोलचि, हिपर, लैके, नक्स-म।

„ „ „ अग्रभागमें—ऐमोन-म्यूर।

जकड़ जाना, कड़ापन (Stiffness)—ऐगा, ऐरानि, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्रायो, केल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-भ, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिमि, कालि, कोलचि, डाल्का, हेलि, हाइयो, कैलि-कार्ब, कैल्मि लैके, लोरो, लेडम, लाइको, मेडो, मार्क, नेट्रम-म्य, नेट्रम-स, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, सैम्बु, सिकि, सिपिया, साइलि, स्पाञ्जि, स्ट्रैमो, स्टिकृनि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ अकड़नके साथ—ऐसाफि, बेल, कैम्फ सिकि, सिना, कालि, झोमे, इग्ने, इपि, लोरो, लाइको, मार्क, मस्क, ओपि, पेट्रो, प्लेटि, वेरे, जिङ्क।

„ खांसनेके समय—क्रमम।

„ नींद आनेके बाद—लैके, रास टक्स, सिपिया।

„ पक्षाघातकी वजहसे—कालि।

„ शीतावस्थामें—चिनि स, नेट्रम म रास टक्स।

„ सन्धियां (Joints)—ऐगा, आर्ज, आर्स, बेन कैल्के, कैलि फास्टि, कालि, कोलचि, कोलोसि [illegible] कैलि-कार्ब कैलि-फा

लेडम, लाइको, नेट्रम-श्रा, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **पेट्रो**, फास, पल्स, **रास-टक्स, सिपिया, साइलि,** स्टैफि, **सल्फ,** जिङ्क।

जकड़ जाना, सन्धिका सवेरे—कैलि-बा, लेडम।

" " शीतावस्थामें—कास्टि, कैल्के, लाइको, ओपि।

" " ऊर्द्धाङ्गका—ऐमोन-कार्ब, कास्टि, कैमो, फेरम, हैमा, नक्स-वोम, रास-टक्स, सिपिया।

" " " कन्धेका—कैल्के-स, कूप्रम, फ्लू-ऐ, इग्नि, लाइको, नेट्रम-कार्ब, पेट्रो, रास-टक्स।

" " " कलाईका—एपिस, बेल, लाइको, फास, पल्स, **रास-टक्स,** सैबाइ, सिपिया, सल्फ।

" " " केहुनीका—**ब्राइयो,** चेलि, कैल्के, कैलि-कार्ब, सिपिया।

" " " हाथका—ऐगा, आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कोलोसि, कूप्रम, फेरम, नक्स-वोम, स्टिक्टा।

" " " वातसे उत्पन्न—ऐगा, आर्स, फेरम, कैलि-कार्ब, मार्क, **रास-टक्स,** रूटा, सल्फ।

" " " अंगुलीका—ऐगा, एपिस, आर्स, कैल्के, कैल्के-स, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-स, कोलोफा, कास्टि, कूप्रम, ड्रोसे, फेरम, लेडम, लाइको, मार्क, **रास-टक्स,** साइलि।

" " " " " अंगूठा—कैल्के-स, कैलि-कार्ब, **क्रियो,** लेडम।

" " " " " सवेरे—आर्म, कैल्के, फेरम, लैके, लेडम, रास-टक्स।

" " निम्नाङ्गका—ऐकोन, आर्ज-मेट, अरम-म्यूर, ब्राइयो, **ऐट्रो, बार्ब,** कैल्के, कार्बो-वे, सिकि, सिना, काकि, काक, युपे-पर्फो, फेरम, मैग-फास, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, **नक्स-वोम,** पेट्रो, **प्लैटि, रास-टक्स, सिपिया, साइलि,** सल्फि, वेरे, जिङ्क।

जकड़ जाना, सन्धिका निम्नांगका, उरु-सन्धिका—बेप्टि, ईमा, लाइको, फास, रास-टक्स, साइलि, जिङ्क।

" " " उरुका—कौलुकै, कोलोसि, ग्रे फा।

" " " घुटनेका—ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, आर्स, ऐट्रो, वार्ज, ब्राइयो, कोना-इ, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, कोलोमि, ग्रे फा, कोलि-ब्रा, लेडम, लाइको, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्टे नम, स्टैफि, सल्फ।

" " " " वात से उत्पन्न—ब्राइयो, लाइको, फास, रास-टक्स।

" " " " हिलने डोलनेसे—कार्बो-वेज, कास्टि, युफ्रे, लाइको, रास-टक्स।

" " " घूमनेके समय—कास्टि, पल्स।

" " " पैरकी गाठका (गुल्फ-सन्धि, Ankle joint)—कास्टि, चेलिडो, कोलोमि, हाइपि, लाइको, पेट्रो, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, जिङ्क।

" " " पैरके पञ्जेका (Foot)—एपिस, कोलोमि, फेरम, कोलि कार्ब, लेडम, फोपि, रास-टक्स, सिके, स्टिक्टा, सल्फ, जिङ्क।

" " " पैरकी अंगुलीका—ग्रे फा, लेडम, साइलि।

" हिलाने डोलानेके आरम्भमें—पेगा, लाइको, सोरि, रास-टक्स।

जख्म (Ulcer)-जलन भरा—आर्स, मिपिया।

" -दुर्गन्ध भरा—पेट्रो।

" नासूरमें—आर्स, फ्लू ए. ग्रे फा, हिपर, मेके, मार्क, आइड्रि-ए, पल्स, पाइ., साइलि, सल्फ।

" रुकावटमें, कारभमें—लाइको।

" " सनसनीमें—लाइको।

जखम, आर्जाङ्गमें, तलहत्थीमें अंगुलीमें —आर्स, बोरेक्स, ब्राइयो, बोल्ले, केलि-बा, रैना-ब, सिपिया।

„ „ „ अङ्गुलीके, अग्रभागमें (Tip)—आर्स, नेट्रम-कार्ब, पेट्रो, सिपिया।

„ „ „ नाखूनमें—हिपर, साइलि, सल्फ।

„ „ „ „ चारोंतरफ—कार्बोनि-स, नेट्रम-स, रास-टक्स, सेङ्ग, साइलि, सल्फ।

„ „ „ „ नीचे—आर्स।

„ निम्नाङ्गमें—आर्स, ऐसाफि, कैल्के, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, सिष्टा, कैमो, क्रोटे-होर, फेरम-म्यू, ग्रेफा, ग्रिण्डे, हाइड्रो, केलि-कार्ब, केलि-आयोड, लैक-के, लेकि, लाइको, मार्क, मेजे, म्यू-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सेवाड़, सिपिया, साइलि, सल्फ।

„ „ अच्छा होना नहीं चाहता, जल्दी (Indolent)—कार्बो-वेज, हाइड्रो, स्टिफि।

„ „ उरुमें—कैल्के, मेजे, नेट्रम-सा, जिङ्क।

„ „ घुटनेमें—कैल्के, फास।

„ „ जलन भरी—कार्बो-वेज, मार्क।

„ „ दुर्गन्ध-भरा—ब्राइयो, कार्बो-वेज, लेके, मार्क, म्यू-ए।

„ „ नीले रंगका चारों तरफ—कार्बो-वेज, लेके, पल्स।

„ „ रक्त पड़ता है, थोड़ा—मार्क।

„ „ सड़नेवाला (Gangrenous)—आर्स, कार्बो-वेज, लेकि।

„ „ पैरमें (Leg)—ऐन्ना, आर्स, ऐसाफि, कैल्के, कैल्की-स, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, सिष्टा, क्रोटे-होर, फेरम-म्यू, ग्रेफा, ग्रिण्डे, केलि-आर्स, केलि-बा, केलि कार्ब, केलि आयोड, लैके-के, लेके, लाइको, मार्क, मेजे, म्यू-ए, नाइट्रि-ए, फास-ए, फाइटो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

जखम, निम्नागमें, पैरकी गांठमें—कैल्को-फास, हाइड्रो, सिकि।
„ „ „ पञ्जेमें—ऐन्थ्रा, कार्बो-ऐ, फ्लू-ऐ, ग्रेफा, कैलि-ना, सोरि, पल्स, सल्फ, जिङ्क।
„ „ „ „ पृष्ठमें (Dorsum)—सोरि, सिपिया, सल्फ।
„ „ „ „ तलवेमें—आर्स, सिपिया।
„ „ „ „ एँड़ीमें—आर्स, कास्टि, नेट्रम-कार्ब, सिपिया, साइलि।
„ „ „ „ „ जूतेकी रगड़की वजहसे—मोरेक्स, सिपिया।
„ „ „ „ „ छालेके जखम—ग्रेफा, पेट्रो।
„ „ „ „ अंगुलीमें—आर्स, कास्टि, नेट्रम-कार्ब, सिपिया, साइलि।
„ „ „ „ „ अग्रभागमें—कार्बो-वेज।
„ „ „ „ नाखूनमें—कास्टि, मैग्ने-आ, सिपिया, साइलि, सल्फ।
टपक—फेरम, इग्ने, कैलि-कार्ब, लैके, रास-टक्स।
„ उर्ध्वांगमें—कैलि-कार्ब।
„ „ कन्धेमें—कोलोसि, कैलि-कार्ब, लेडम।
„ „ केहुनीमें—स्टिलि।
„ „ कलाईमें—लैके।
„ „ अंगुलीमें—ऐमोन मूर, सल्फ।
„ „ „ सन्धिमें—हिपर।
„ „ „ नाखूनके नीचे—ऐमोन मूर, ग्रेफा, सिपि।
„ निम्नांगमें—आर्ज-मेट, कैलि-कार्ब, नेट्रम-मूर, मक्स सोल, सिपि।
„ „ उरुसन्धिमें—कोलोसि, इग्ने।
„ „ घुटनेमें—ऐकोन।
„ सन्धिमें—मार्क, रूटा।
टेढ़ा, हायकी तरह—साइ-ऐ।
ठण्डा—ऐकोन, ऐगा, ऐग्नस क्र, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, आर्ज नाइ, आर्स, आर्स हा, आर्स आयोड, औरम मूर, बेर, कैल्के, कैम्फ, कार्ब

कैम्फ, कोन्य, कैप्सि, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, सिकि, काफि, कोलोसि, **कोलचि**, क्रोकस, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, **कूप्रम**, **डिजि**, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, फेरम-फास, गेम्बो, जेल्स, हैमा, हाइयो, आइयो, आइरि, केलि-बाइ, कैलि-ब्रोम, केलि-कार्ब, केलि-फास, केल्मि, लैकै, लोरो, लेडम, लेप्टा, लाइको, लाइकोपा, मेडो, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यूर-ऐ, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, आक्जे-ऐ, फास-ऐ, फास, फाइटो, पिक्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सेबाडि, **सिकि**, साइलि, **स्ट्रैमो**, टैबे, **वेरे**, वेरे-वि, जिङ्क।

ठण्डा, अकड़नके साथ—इथू, **वेल**, सिकि।

" उदरामय रोगमें—**आर्स**, कार्बो-वेज, **कैम्फ**, लोरो, सिके, टैबे, **वेरे**।

" ऋतुके समय—केल्के, सिके, साइलि।

" ज्वरमें—कार्बो-ऐनि, केलि-आर्स, सिपि, **स्ट्रैमो**।

" दर्द भरा अङ्ग—लेडम, मार्क, साइलि।

" पक्षाघात ग्रस्त अङ्ग—**आर्स**, कास्टि, काकि, डालका, **ग्रैफा**, **नक्स-वोम**, **रास-टक्स**, जिङ्क।

" जार्बागमें—**बेल**, केल्के, वेम्फ, डालका, कास्टि, लेडम, मेजे, ओपि, **फास**, प्लम्ब, **पल्स**, रास-टक्स, साइलि।

" " कर्षमें—कास्टि, कैलि-बाइ।

" " " मृगी रोगमें—कास्टि।

" " हाथ (तलहत्थी)—ऐकोन, ऐगा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्निका, आर्जेण्ट नाइ, **आर्स**, **आर्स-आयोड**, **अरम**, बेरा-म्यूर, बोवि, ब्रोमि, कैक्ट, कैल्के, **कैल्के-फास**, **कैम्फ**, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, सिड्रो, **चेलिडो**, **चायना**, चिनि-आर्स, चिनि-सल्फ, सिना, क्रोकस, **साइक्ला**, डिजि, ड्रोसे, युपे-पर्फो, **फेरम**, **फेरम-आयोड**, **फेरम-फास**, जेल्स, हेलि, आइयो, इपि,

कैलि-आयोड, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, लैकि, लाइकी, मैगी, मेडो, मिलि, मार्की, मेजे, म्यूर-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओलि, ओपि, पेले, पेट्रो, फास-ऐ, फास, पल्स, रोबि, रास-टक्स रूटा, सैबाड़, सैंगु, सैम्बु, सिके, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे, वेरे-वि, जिङ्क।

ठण्डा, जहाँ गर्मी हाथ, सन्ध्यामें—ऐकोन, कार्बो-वेज।

" " " रातमें—फास।

" " " ऋतुके समय—आर्ज-ना, ग्रेफा, फास।

" " " एक, दूसरा हाथ गरम—चायना, डिजि, इपि, मस्क, पल्स।

" " " गरमीके साथ पैरका पञ्जा—ऐलो, कैल्के, सिपि।

" " " " सिर—आर्नि, आरम, वैल, ग्लोनो, नेट्रम-कार्ब।

" " " " चेहरा—आर्नि, स्ट्रैमो, थूजा।

" " " पसीनेके साथ—लिलि-टिग।

" " " बरफकी तरह—ऐकोन, आर्ज-नाइ, कैम्फ, कोम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, सुपे पर्फा, मैग्नि, मिनि, नेट्रम-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, फास-ऐ, सम्ब, वेरे।

" " " शीतावस्थामें—कैम्फ, कार्बो-वेज, मिनि, मेजे, नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, फास, सिकी, वेरे।

" " " अंगुली—कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो म, केमो, चेलिडो, डिजि, हेलि, कैलि कार्ब, लैक-के मेज डि, मिनि, फास-ऐ, रास टक्स, सिपि, वेरे, थूजा।

" " " " शीतावस्थामें—एपिस कैक्ट नेट्रम म्यूर, रास टक्स सिपि।

" " " " अग्रभाग—ऐण्टिम-टार्ट, कैम्फि, चेलिडो, मेज, थूजा।

ठण्डा, निम्नाग—आर्स, आर्स-आयोड, वेल, कैलेडि, चेलिडो, लैक-कै, लेडम, मेजे, नाइट्रि-ऐ, ओपि, आकजा-ऐ, फास, पल्स, सिकेलि, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " उरु—कैल्के, सण्डि, सल्फ, यूजा।

" " घुटना—ऐगा, आम, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-आ, चिनि-स, कोलचि, इग्ने, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिकेलि, सिपिया, साइलि, वेरे।

" " " शीतावस्थामें—एपिस, कार्बो-वेज, फास।

" " पैर (Leg)—एपिस, आर्जे ना, आर्स, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कार्बो-वेज, काष्टि, कैमो, चेलि, चायना, चिनि-आ, चिनि-स, कोलचि, कूप्रम, डिजि, फेरम, ह्विपर, लैंके, लोरो, लेडम, मेडो, मिनि, मार्क, नेजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, रास टक्स, सिके, सिपिया, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, स्ट्रिक्नि, टैवे, वेरे।

" " " ऋतुके समय—कैल्के, सिके, साइलि।

" " " ज्वरके समय—कार्बो-ऐनि, युपे-पर्पि, स्ट्रैमो, मेफा, सिपिया।

" " " बरफकी तरह—एपिस, कैल्के, सिपिया, साइलि, टैबे।

" " पैरका पञ्जा—ऐकोन, ऐस्कू, ऐमोन-कार्ब, ऐनाका, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, अरम, वेल, ब्रोमि, काष्टि, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, चिनि-आर्स, कोना, कूप्रम, डिजि, ड्रोसि, फेरम, फेरम-आ, ग्रैफा, आइयो, इपि, कैलि-आ, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, कैलि-फास, कैलि-स, क्रियो, लैके, लाइको,

मिनि, मार्क, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-स्यू, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पल्स, र्होडो, सिपिया, साइलि, स्कुइ, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा ।

ठण्डा, निम्नांग, पैरका पञ्जा, दिनमें—हिपर, सिपि, साइलि ।

„ „ „ सवेरे—सिपि, साइ ।

„ „ „ सन्ध्या—एकोन, ऐमोन-कार्ब, कोल्चि, कार्बो-वेज, सिपि, साइलि, जिङ्क ।

„ „ „ „ बिछावनपर—ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यू, कोल्चि, कार्बो-वेज, फेरम, ग्रैफा, केलि-कार्ब, फास, सिपि, साइलि, जिङ्क ।

„ „ „ रातमें—कोल्चि, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, फेरम, फास, जिङ्क ।

„ „ „ „ बिछावनपर—कोल्चि, फेरम ।

„ „ „ उत्तापके साथ, सिरमें—ग्लानिका, कोक्क, बेल, कैल्के, फेरम, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ ।

„ „ „ „ चेहरेपर—ऐगारि, सिपि, स्ट्रैमो ।

„ „ „ „ हाथमें—नक्स-म, सिपि ।

„ „ „ ऋतुके पहले—लाइको, नक्स-म ।

„ „ „ „ समय—ग्राफ-माइड्रि, कैल्के, कोटे हो, ग्रैफा, नक्स म, फास, साइलि ।

„ „ „ ज्वरके साथ—ग्लानिका, ब्राइरि, मेर्क, स्ट्रैमो, सल्फ ।

„ „ „ बरफकी तरह—एपिस, कार्बो-वेज, कैम्फ, क्युप्रम, युपे-पर्फो, जेल्स, हिपर, मेर्क, लाइको, मार्श, मार्क कोर, नक्स म, फास, सोरि, सिपि, साइलि, सल्फ, वेरे ।

„ „ „ „ शीतापन्ना—फेरम, सिपि, फास, वेरे, जिङ्क ।

„ „ „ भ्रमणके समय—ऐगारि, हेलानि, ब्रायना ।

ठण्डा, निम्नाग, पेरका मानसिक परिश्रमसे—ऐमोन-कार्ब, ऐना-कार्ड, **अरम**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, कास्टि, कूप्रम, लैके, लाइको, **नेट्रम-कार्ब**, **नक्स-वोम**, **फास**, फास-ऐ, **पल्स**, **सिपि**, **साइलि**।

" " " तलवा—कोलोसि, नाइट्रि-ऐ, सल्फ।

" " " " ऋतुके समय—कैल्के-कार्ब, ग्रैफा, नक्स-म, फास, साइलि।

" " " " " बरफकी तरह—नाइट्रि-ऐ।

" " " " अंगुली—ऐकोन, फेरम, सिके, सल्फ।

तड़का—"अकड़न" देखिये।

ताण्डव रोग (Chorea)—**ऐगा**, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, ऐसाफि, वेल, कैल्के, **कास्टि**, सिड्रन, कैमो, सिकि, सिमि, क्रोकस, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, लैके, **माइगेल**, नेट्रम-म्यूर, ओपि, सिपि, स्ट्रैमो।

" डरकर—कैल्के, **कास्टि**, इग्ने, कैलि-ब्रोम, लोरो, नेट्रम-म्यूर, स्ट्रैमो।

थरथराना, काँपना, डगमगाना (Tottering)—ऐगा, **ऐलूमि**, ऐम्ब्रा, ऐमोन-ऐनाका, एपिस, **आर्जेण्ट-मे**, आर्स, **अरम**, **वैरा-कार्ब**, कैल्के, कार्बो-एसिड, कार्बो-वेज, **कास्टि**, काकि, कोना, जेल्स, ग्लोनो, हेलि, आइयो, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओपि, फास-ऐ, **फास**, **पिक्रि-ऐ**, **रास-टक्स**, सार्सा, साइलि, सल्फ।

दर्द (Pain in general)—ऐब्रो, ऐकोन, इस्कि, **ऐगा**, ऐल्यूमि, एपिस, आर्नि, **आर्स**, **वेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, **कास्टि**, कैमो, **चेलिडो**, सिना, **कोलचि**, कोलोसि, ड्रोसे, डाल्का, **युपे-पर्फो**, फेरम, जेल्स, हेलि, इपि, **कैलि-आर्स**, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, **कैलि-सल्फ**, कैल्मि, **लाइको**, क्रियो, **मेडो**, **मार्क**, मार्क कोर, म्यू-ऐ, नेट्रम-आ, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, **फाइटो**, प्रस्व, **पल्स**, **फ्रोडो**, **रास-टक्स**, सैंगु, सार्सा, सिके, **सल्फ**, थेम्ने, **वेरे**।

दर्द, दाहिनेसे बायें जाता है—लाइको ।

„ बायेंसे दाहिनी तरफ जाता है—कोलचि, क्रियो, लैकी ।

„ सवेरे, बिछावन छोड़नेके पहले—नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स ।

„ सन्ध्यामें—आर्स, बेल, कैल्मि, केलि-स, लेडम, पल्स, रास-टक्स ।

„ रातमें—ऐगा, आर्स, ऐसाफि, अरम, फेरम, फ्लु-ऐ, हिपर, केलि आयोड, लैके, मार्क, मेजि, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, ऋोडो, रास-टक्स, सार्सा, सल्फ ।

„ „ १२ बजेके बाद—आर्स, मार्क, सल्फ, सार्सा, थूजा ।

„ „ बिछावन छोड़नेको बाध्य होता है—कैमो, फेरम, मार्क ।

„ इन्फ्लुएञ्जाकी वजहसे—ऐकोन, ब्राइयो, कास्टि, चेलि, युप्रे, युपे पर्फो, जेल्स ।

„ ऋतुके समय—बेल, कैष्टोर, सिमि, कोना, ग्रेफा, कैल्मि, केलि ना, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपिया ।

„ घूमता रहता है (Wandering)—थार्निका, ऐमोन-म्यूर, कैल्के-फास, कार्बो-स, कोलोफा, कास्टि, केलि-बा, केलि स, केल्मि, लैक-कै, लाइको, मैग-फास, नक्स-मस, प्लम्ब, पल्स, ऋोडो, सेरे-वि ।

„ दबाकर सोनेसे—ब्रोमि, ग्रैफा, केलि-कार्ब ।

„ नींदके बाद—ऐगा, लैके, थोपि ।

„ पक्षाघात आक्रान्त अंगका—अरम, मैग म्यू, नक्स वोम, रास-टक्स ।

„ पर्यायक्रमसे एक बगलसे दूसरी बगल—लैक-कै ।

„ परिश्रमके बाद, साधारण—ऐगा, कास्टि, नेट्रम म्यूर, रास टक्स, रूटा सिपि ।

„ पारेके अपव्यवहारकी वजहसे—बेल, कार्बो वेज, कैमो, चायना, गुयेक, हिपर, केलि आयोड, लैके, फाइटो सार्सा, सल्फ ।

„ बोखारके समय—आर्नि, ब्राइयो, [illegible], [illegible], युपे पर्फो, [illegible]

दर्द, रह रह कर (Paroxysmal)—काकि, **कार्बोनि-स, प्लम्ब, पल्स,** सिकेलि ।

„ शीतावस्थाके पहिले—**आर्निका,** कैल्के, कार्बो-वेज, सिना, युपे-पर्फो ।

„ शीतावस्थामें—**आर्स, बोवि,** कैल्के, कैप्सि, चिनि-स, साइमी, सिना, काकि, **डाल्का, युपे-पर्फो,** युपे-पर्पि, युफ्रे, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, **कैलि-ना, लाइको, मेजे,** नेट्रम-आर्स, **नक्स-वोम,** ओपि, **पल्स,** फास-ऐ, **पाइरो, रास-टक्स,** सिपि, थ्यूजा ।

„ सगसके बाद—**साइलि,** थ्यूजा ।

„ हिलने डोलनेसे, पहिले, पहले पहल हिलनेसे—**कैप्सि,** कास्टि, **फेरम,** कैलि-फास, लेडम, **लाइको,** फास-ऐ, **फास, पल्स,** पाइरो, **रास-टक्स,** साइलि ।

„ अस्थिमें (Bone)—आर्ज-मे, आर्नि, आर्स, **ऐसाफि,** अरम, कैल्के, कैल्के-फास, काकि, कोल्चि, कोना, कूप्रम, **युपे-पर्फो,** फेरम, फ्लू-ऐ, हिपर, इपि, कैलि-आयोड, लेडम, लाइको, मार्क, **नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ,** फास, **पल्स, पाइरो,** रास-टक्स, **रूटा,** सार्सा, सिपिया, साइलि, स्टैफि, सल्फ ।

„ टेण्डनमें (कण्डरा Tendon)—ऐनाका, कैल्के-फास ।

„ नाखूनमें—कास्टि, ग्रैफा, हिपर, मार्क, नाइट्रि-ऐ नक्स-वोम, पेट्रो, साइलि ।

„ घटना, गरमीसे—आर्स, ब्रायो, कास्टि, लाइको, नक्स-वोम, रास-टक्स, साइलि, सल्फ ।

„ „ „ बिछावन की—आर्स, नक्स-वोम, फास-ऐ, पाइरो, **रास-टक्स ।**

„ „ ठण्डे प्रयोगसे—एपिस, लैक-कै, **लेडम, पल्स, सिकेलि,** थूजा ।

„ „ दबानेसे—आर्स, ब्रायो, प्लम्ब ।

„ „ पसीनेसे—**आर्स, ब्रायो, नक्स-वोम,** थूजा ।

दर्द, घटना, भोजनके बाद—कैलि-बाइ, नेट्रम-कार्ब।

" " हिलने डोलनेसे—आर्जे-मेट, फेरम, लाइको, म्यू-ऐ, नेट्रम-सल्फ, पाइरो, **फ्रोडो**, रास-टक्स, टियुबा, वेलि, जिङ्क।

" " " लगातार—कैमो, **रास-टक्स**।

" बढना-उत्तापसे—**ब्राइयो, सिकि, सलफ**।

" " गरमीसे, बिछावनकी—लैक-कैं, लेडम, **मार्को**, सल्फ, वेरे।

" " ठण्डे पानीसे—ऐण्टिम क्रूड, **आर्स, फास**, रास-टक्स।

" " " लगानेसे—नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स।

" " हिलने डोलनेसे—**ब्राइयो, कोलचि**, ग्रुफ़े, कैल्मि, लेडम, नक्स-म, नक्स-वोम, फाइटो, प्लम्ब, रेना-ब।

" वातसे उत्पन्न (Rheumatic)—ऐब्रा, ऐकोन, इस्कि, ऐगा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जे-मेट, **आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड**, बेडि, **आरम-म्यू-ने**, वेल, **वेञ्जो-ऐ, ब्राइयो**, कैक, **कोल्को**, केल्के-फास, कैल्के-स, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कार्बो वेज, कौलोफा, काकि, **कास्टि, कैमो, चेलि**, चायना, चिनि आर्स, सिमि, **कोलचि**, कौलोसि, क्रोटे-होर, क्रोटन-टिग, डिजि, डाल्का, फेरम, फेरम-आर्स, **फार्मि**, जेल्स, गुयेज, हैमा, हिपर, इग्ने, **कॉल्मि**, कैलि-आ, कैलि-बा, कैलि कार्ब, **कैलि-आयोड**, कैलि ना, लैक-ऐ, लैक-कैं, लैके **लाइको**, मेग-कार्ब, मेडो, मार्क, मेजे, **नेट्रम-आ**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पैट्रो, फास, फास ऐ, **फाइटो**, पोडि, **पल्स**, रैना-ब, **फ्रोडो, रास-टक्स, रूटा**, सैंगि ऐ, **सेङ्ग, सार्सा**, सिपिया, साइलि **सलफ**, सिफि टैरेन्ट, थेरि, वेरे।

" " दाहिनेसे बायें जाता है—**लाइको**।

" " बायें से दाहिने जाता है—लैकी, लेजा, **रास टक्स**।

" " भर्ग स्थान—ऐब्रा।

" " उदरामय इत्यादि—पिट्रो।

दर्द, वातसे उत्पन्न, उपदंशसे उत्पन्न—वेञ्जो-ऐ, फ्लू-ऐ, कैलि-आयोड, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो।

" " घूमता फिरता है—**ऐमोन-मूर**, आर्नि, कैल्के-फास, **कार्बो-स**, कोलोसि, कास्टि, कैलि-बा, **कैलि-स**, कैल्मि, लाइको, मैंग-फास, नक्स-म, प्लम्ब, फ्लोडो, वेरे-वि।

" " ~टेण्डन (कण्डरा) में खींचनके साथ—कास्टि, गुयेज, **नेट्रम-मूर**।

" " ठण्डा लगकर—ब्राइयो, कैल्के-फास, कोलोसि, डाल्का, गुयेज, मार्क, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स।

" " नया (Acute)—ऐकोन, ऐसिट-क्रूड, आर्स, वेल, **ब्राइयो**, कैमो, चेलि, कोल्चि, डाल्का, कैलि-बा, कैल्मि, लैक-कै, लैके, **मार्क**, नक्स-वोम, पल्स, फ्लोडो, **रास-टक्स**, सेलि-ऐ।

" " पसीनेके साथ—**फार्मि**, **मार्क**, सल्फ, टिलिया।

" " पर्याय क्रमसे-उदरामयके साथ—डाल्का, **कैलि-बा**।

" " रक्तामाशयके साथ - ऐब्रो।

" " पारेके अपव्यवहारकी वजहसे—वेल, कार्बो-वेज, कैमो, **चायना**, गुयेज, हिपर, कैलि-आयोड, लैके, फाइटो, **सार्सा**, सल्फ।

" " बैठे रहनेसे—पाइरो, **वेले**।

" " सुजाक रुककर—क्लिमे, कोपे, लाइको, **मेडो**, पल्स, सार्सा, सिपिया, सल्फ, थूजा।

" " हवा गीली लगकर—आर्जे-मेट, **कैल्के**, **कोलचि**, डाल्का, **मार्क**, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, **पलस**, **फ्लोडो**, **रास-टक्स**, सार्सा, सिपिया, साइलि, टियुबर, **वेरे**।

" " घटना, गरमीसे—**आर्स**, ब्राइयो, कास्टि, लाइको, नक्स-वोम, रास-टक्स, साइलि।

" " " " बिछावनकी—**आर्स**, नक्स-वोम, फास-ऐ, पाइरो, रास-टक्स।

दर्द, वातसे उत्पन्न, घटना, घूमने फिरनेसे—ऐगा, आर्म, कैमो, फेरम, मार्क, पल्स, रास-टक्स, वैले, वेरे ।

" " " ठण्डा लगनेसे—लेक-कै, लेडम, पल्स, सिपि ।

" " " पसीनेसे—आर्स, नक्स-वोम ।

" " बढना, गरमसे—ब्राइयो, पल्स ।

" " " " नींदके बाद—ऐगा, लैके ।

" " " हवासे, ठण्डी—ब्राइयो, कैल्के, कोलोचि, डाल्का, कैलि, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, रोडो, रास-टक्स, टियुबर ।

" सन्धिमें (Arthritic)—ऐल्यूमि, एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैपि, कार्बो सल्फ, कास्टि, कैमो, चायना, साइमि, सिनिया, काफि, कोलचि, कोलोसि, डाल्का, फेरम, फेरम-आयोड, गुयेक, आइयो, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लैक-ऐ, लैक-फे, लेडम, लाइको, मैङ्गे, मार्क, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-सल्फ, फास-ऐ, फास, फाइटो, प्रम्ब, पल्स, रूमे, रास-टक्स, रूटा, सैबाइ, सैङ्ग्, साइलि, स्टैफि, सल्फ ।

" " गठियाकी (Gouty)—ऐब्रो, ऐम्न, एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, बेल्टो, बेरा-कार्ब, बेञ्जो-ऐ, ब्राइयो, ब्यूफो, केल्के, केल्के-सल्फ, कार्बो सल्फ, कास्टि, चेलिडो, चिमा, चायना, चिनि आर्स, सिनिया, काफि, कोलचि, कोलोसि, डाल्का फेरम, फार्मि, ग्नेफा, गुयेक, हिपर, हाइयो, इग्ने, आयडो, केलि आर्स, केलि-कार्ब, केलि आयोड, कैल्मि, लीडो लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैङ्गे, मार्क, मेजे, नेट्रम आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ नक्स-वोम, फास ऐ फास फाइटो, प्लम्ब, पल्स, रैना ब, रोडो रास-टाक्स, सैबाइना, सेनि ऐ

सैंगु, सार्सा, **सिपि**, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, **स्टैफि**, स्ट्रान्सि, सल्फ, थूजा।

दर्द, स्नायुशूल (Neuralgic)—आर्स, कैमो, कर्पास, जेल्स, लाइको, मैग-फास, प्लम्ब, पल्स, टेरे।

„ जोड़ोंमें—इस्कि, आर्स, **ब्राइयो**, कैक्ट, कास्टि, कैमो, काकि, **युपे-पर्फो**, जेल्स, ग्लोनो, हिपर, कैल्मि, लेडम, नेट्रम-आर्स, नक्स-वोम, फास, फाइटो, **पल्स**, रैना-ब्यूर, **रास-टक्स**, सैंगु, सल्फ, वेरे।

„ „ कंधेमें—आर्जेण्ट-मेट, आर्स, बार्ब, ब्राइयो, कैक्ट, कैलेडि, कैल्के, कास्टि, कैल्के-फास, कैल्की-सल्फ, कार्बो-सल्फ, चेलिडो, सिष्टा, कोलचि, क्रोटे-होर, डाल्का, इचिने, **फेरम**, फेरम-आर्स **फेरम-म्यूर**, फेरम-फास, ग्रैफा, हैमा, हिपर, आइरि, कैलि-बाई, कैलि-आयोड, कैल्मि, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मार्क, मेजी, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, पल्स, रैना-ब, रोडो, **रास टक्स**, **सैंगु**, स्टैफि, **सल्फ**।

„ „ „ दाहिने—कैल्के, **चेलिडो**, कोलोसि, **फेरम-म्यूर**, कैल्मि, लेडम, सेपूटा, लाइको, फाइटो, **सैंगु**।

„ „ „ बायें—**लेडम**, फास-ए, **सल्फ**।

„ „ „ सवेरे—कास्टि, फास।

„ „ „ सन्ध्यामें—मेजी।

„ „ „ रातमें—कास्टि, कैलि-बाई, कैलि-नाई, मार्क, फास, **सैंगु**।

„ „ „ घूमता फिरता है—कैलि-सल्फ, फाइटो।

„ „ „ ठण्डा लगकर—चेलिडो, डाल्का, **हिपर**, मार्क, **नक्स वोम**, रोडो, **रास-टक्स**, **साइलि**, सल्फ।

„ „ „ वातसे उत्पन्न—बार्ब, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कास्टि, चेलिडो, चिमा, चायना, कोलचि, डाल्का, फेरम, फेरम-म्यूर, फेरम-फास, फ्लू-ऐ, हैमा, आइरि, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लैक-कै, लेडम, लाइको, मार्क,

नेट्रम-आर्स, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, फाइटो, पल्स, **फ्लोडो, रास-टक्स**, सेंगु, सेनि, स्टेफि, **सल्फा।**

दर्द, जहाँ गर्म, कन्धेमें, हिलने डोलनेपर—ब्राइयो, फेरम, रेना-ग।

„ „ „ घटना, घूमने फिरनेसे—**रास-टक्स**, फ्लोडो।

„ „ „ „ हिलने डोलनेसे—**फेरम**, फेरम-फास, लाइको, फास ऐ, रास टक्स, सिपि।

„ „ ऊपरी बाँहमें (Arm)—**एनाका**, बेल, ब्राइयो, कैलि-कार्ब, कैल्मि, मेङ्ग, फ्लोडो, रास-टक्स, सेङ्गु, वेरे।

„ „ वातसे उत्पन्न—आर्स, चिमा, कोलचि, **फेरम**, फेरम-आयोड, कैल्मि, फाइटो, फ्लोडो, रास-टक्स, सेङ्गु।

„ „ „ हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, काकि, कोलचि, कैल्मि, लेडम, मार्क।

„ „ „ घटना, हिलने डोलनेसे—आर्ज-मेट, **रास-टक्स।**

„ „ केहुनीमें—एल्यूमि, ब्राइयो, कास्टि, गुयेक, फाइयो, कैलि या, लाइको, रास-टक्स, साइलि।

„ „ „ वायुसे उत्पन्न—ब्राइयो, कार्बो-व, कोलचि, फेरम, कैलि या, नेट्रम-कार्ब।

„ „ „ घटना, गरमसे—कास्टि, रास-टक्स।

„ „ „ „ हिलने डोलनेसे—आर्ज-मेट, थरम म्यूर, लाइको, **रास-टक्स।**

„ „ निचली बाँहमें—इग्नि, **कोलचि**, मेजे, नाइ ऐ, पोडो, फ्लोडो, रास टक्स।

„ „ „ वातसे उत्पन्न—इग्नि कोलचि लाइको फाइटो, रास-टक्स।

„ „ „ घटना, गरमसे—चेमिडो चायना, डाल्का कैलि कार्ब, नाइ ऐ **नक्स-वोम**, **रास-टक्स**, साइलि, जिङ्क।

„ „ कलाईमें—ऐग्नि म्यूड, कैल्के, कौलोफा, कुप्रे धर्म, गुयेक हिपर, कैलि या, कैलि लाइको, दम्भा, फ्लोडो, **रास-टक्स**, साइलि, जिङ्क।

दर्द, अर्द्धाङ्गमें, कलाईमें, दाहिनी—लाइको, रास-टक्स, वायो-ओ।
" " " बायी—गुयेज।
" " " घूमता फिरता है—कैलि, पल्स।
" " " वातसे उत्पन्न—कोलोफा, कोलचि, गुयेज, कैलि-बा, लैके, पल्स, **रास-टक्स**, रूटा, वायो-ओ।
" " " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, कैलि, मेजे।
" " " घटना, हिलने डोलनेसे—आर्ज-मेट, फ्रोडो, **रास-टक्स**।
" " हाथमें—ऐक्टि-स्पा, कैल्के, कोलचि, डिजि, गुयेज, हिपर, **रास-टक्स**, स्टेफि, सल्फ।
" " " वातसे उत्पन्न—कोलोफा, क्लिमे, **कोलचि**, गुयेज, लैक-कै, पल्स, रास-टक्स, वायो-ओ।
" " " समय समय (Paroxysmal)—युफ्रे, मिनि।
" " " घटना, ठण्डा लगनेसे—लेडम, पल्स।
" " अँगुलीमें—ऐकोन, कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कोलोसि**, डायस्को, हिपर, नेट्रम-आ, नाइट्रि-ऐ, प्लम्ब, रास-टक्स।
" " " वातसे उत्पन्न—कोलोफा, कोलचि, फाइटो।
" " अङ्गुलीकी गाँठमें—**ऐण्टिम-क्रूड**, कैल्के, **कोलोफा**, **कास्टि**, कोलचि, गुयेज।
" " " गठियासे उत्पन्न—कैल्के, हिपर, लाइको, सल्फ।
" " " वातसे उत्पन्न—ऐक्टि-स्पा, ड्रस्कि, कैल्के, **कोलोफा**, कोलचि, ग्लोनो, ग्रैने, गयेज, कैलि-बा, मैग्नि, पोडो।
" " नाखूनमें—कैल्के-फास, कास्टि, ग्रैफा, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो।
" " निम्न भागमें—**ऐलूमि**, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, साइलि, सल्फ।
" निम्नागमें—**ऐगा**, एपिस, आर्जेण्ट-मेट आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलिडो, कोलोसि, फेरम, जेल्स, कैलि, लैका-कै, लिलि-टिग, मेग-फास, मेडो, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पेट्रो, फाइसो,

फाइटो, प्लम्ब, पल्स, रैना-व, **रास-टक्स,** सिपि, साइलि, सल्फ, टैरे, जिङ्क।

दर्द, निम्नाङ्गका सन्ध्यामें—कैलि-सल्फ, लेडम, लाइको, नेट्रम म्यूर।

" " रातमें—आर्स, बेल, व्राइयो, लेक-के, फेरम, लाइको, मेडो, **मार्क,** मेजि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, फास, **फाइटो, रास-टक्स,** सल्फ।

" " घूमता फिरता है—कोलोफा, कोलोसि, आइरि, केलि-बाई, केलि लैक-कै, लैके, सैंगु।

" " घूमने फिरनेसे—कोलोसि, नक्स-वोम, फाइटो, रैना व, सल्फ।

" " पक्षाघातकी वजहसे—ऐमोन-म्यूर, कैमो, काकि, नेट्रम-म्यूर, सेने, सिपि, साइलि, स्ट्रैनम, सल्फ।

" " पाखाना जानेके समय—नक्स-वोम, रास-टक्स, टैल्यू।

" " बैठे रहनेसे—ऐगा, **आर्जेण्ट-मेट,** ऐमन-म्यूर ने, वैले।

" " वातसे उत्पन्न—एपिस, क्लिमे, केलि-कार्ब, लेक-के, लेडम, फास पै, रास-टक्स, वेरे।

" " शीतावस्थामें—**आर्स, चायना,** फेरम, **नक्स-वोम, पाइरो,** पल्स, रास-टक्स।

" " हिलना आरम्भ करनेपर—कास्टि, फेरम, केलि-फास, पेट्रो, प्रेटि, **फ्लोडो, रास-टक्स।**

" " घटना, गरमीसे—आर्स, थेरा-कार्य, कास्टि।

" " " " बिछावनकी—ऐगा, आर्स, डाल्का, लाइको मेग फास, **नक्स-वोम,** फास पै पाइरो रास टक्स।

" " " घूमने फिरनेसे—**ऐगा,** आर्ज मेट, आर्स हिम, डाल्का, **फेरम,** इण्डिगो, केलि-आयोड लाइको [illegible] [illegible] **पाइरो, रास-टक्स,** सेलि, टियुब, पिरे।

" " " ठण्ड लगनेसे—एपिस [illegible] [illegible] लिडम, पल्स, सिफि।

दर्द, निम्नाङ्गका बढना, हिलने डोलनेसे—ऐगा, आर्जेण्ट-नेट, बेल, कौल्के, कोलोसि, फेरम, कैलि-बा, कैलि-स, लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम स, फास-ऐ, **पल्स, फ्लोर्डो, रास-टक्स,** सिपि, टेरे, **टियुबा,** वेले, जिङ्क।

" " बढना, गरमीसे—लैक-कै, लेडम, पल्स।

" " " हिलने डोलनेसे—एपिस, लैक-कै, ब्राइयो, लेडम, मार्क, नक्स-वोम, फाइटो, रेना-ब।

" " सायेटिका (गृध्रसी वात Sciatica)—आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, बेल, **ब्राइयो, ब्यू फो,** कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो-स, कास्टि, कैमो, सिमि, काफि, **कोलोसि,** डाय, इलेप्स, इलेटि, फेरम, फेरम-आर्स, जेल्स, नैफि, गुयेज, इग्ने, इरिड, आइरि, कैलि-आर्स, कैलि-बा, **कैलि-आयोड,** लैक-कै, लैके, लेडम, लाइको, मैग फास, नेट्रम-म्यूर, नक्स म, **नक्स-वोम,** पेट्रो, फास, फाइटो, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रेना-ब, **रास-टक्स,** रूटा, सिपि, स्टैफि, स्टिलि, सल्फ, टेल्यू, वेले, वेरे।

" " " दाहिने—कार्बो-स, चिनि-स, कोलोसि, **लैके, लाइको, फाइटो,** प्लैटि, सिपि, टेल्यू।

" " " बायें—सिमि, इलेटि, ग्रुपे-पर्पि, आइरि, **कैलि-बा,** लैके, फास, टेल्यू, थूजा।

" " " सवेरे—ब्राइयो।

" " " सध्यामें—कैलि-आयोड, पल्स।

" " " रातमें—आर्स, कोलोसि, फेरम-आर्स, जेल्स, कैलि-आयोड, लैके, मेजे, पल्स, रास-टक्स, सिफि।

" " " कदम रखने पर—ऐसार, बैरा-कार्ब, नैफे, नक्स-म।

" " " करवट बदलनेसे बिछावनपर—नेट्रम-स।

" " " खडे होनेपर, बैठे रहने बाद—नेट्रम-स।

" " " खडे रहनेकी अवस्थामें—**इग्नि,** ऐगा, बैरा-कार्ब, फेरम, कैलि-बा, कैलि-आयोड, नक्स-वोम, **सल्फ, वेले।**

दर्द, निम्नाङ्गका, सायेटिका झुकनेसे—ऐगा, काड्, नेट्रम-स, टेल्यू ।

" " " फैलता है; ऊपरकी तरफ—**लेडम,** नक्स वोम, फाइटो, प्लम्ब ।

" " " " नीचे—एपिस, कार्बो-वेज, केल्के, केलि-का, केलिम, **लेकी,** फाइटो, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ ।

" " " बैठे रहने पर—**आर्ज-मेट,** अरम-म्यू-नै, लैके, लाइको, साइलि, रास-टक्स ।

" " " भ्रमणके समय—चिनि-स, कोलोसि, लेडम, सल्फ ।

" " " शीर्ण (दुबला) होनेके साथ, पैर—कोलि-ऑ, प्लम्ब ।

" " " सामयिक—**चिनि-स, लाइको,** लाइसि, रास-टक्स ।

" " " सुन्नताके साथ—कोलोसि, नैफे, फाइटो, रास-टक्स ।

" " " सोनेसे—कोलोसि, फेरम, **केलि-आयोड,** नेफे, मिनि, **नेट्रम-म्यूर,** रूटा, सिपि, टेल्यू, वैले ।

" " " " दर्द वाली करवट दबाकर—केलि का, **केलि-फा, लाइको,** नक्स-वोम, फास, सिपि, टेल्यू ।

" " " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, काक्कि, कोलोसि, काफि, डाग, ग्नाइफ, केलि-कार्ब, रैना ब, स्ट्रैफि ।

" " " हिलना आरम्भ करनेपर—युफा, लीडस, **रास-टक्स ।**

" " " घटना गरमीसे—आर्स, कैलि फास, **मैग फास,** नक्स वोम, **रास टक्स,** साइलि ।

" " " " " बिछावनकी—आर्स, मैग फास आदि, नक्स वोम साइलि ।

" " " " खड़े होनेके समय—आर्ज मेट, डाल्का मुर्न, **फेरम,** केलि फा, केलि आयोड लाइको, नक्स **रास-टक्स,** रूटा ।

दर्द, निम्नाङ्गका घटना, हिलने डोलनेसे—ऐगा, आर्जेण्ट-मेट, वेल, कैल्क, कोलोसि, फेरम, कैलि-बा, कैलि-स, लाइको, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम स, फास-ऐ, **पल्स, फ्रोडो, रास-टक्स**, सिपि, टैरे, **टियुबा**, वेले, जिङ्क।

" " बढ़ना, गरमीसे—लैक-कै, लेडम, पल्स।

" " " हिलने डोलनेसे—एपिस, लैक-कै, ब्राइयो, लेडम, मार्क, नक्स-वोम, फाइटो, रेना-ब।

" " सायेटिका (गृध्रसी वात Sciatica)—आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, वेल, **ब्राइयो, ब्यूफो**, कोल्कि, कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो-स, कास्टि, कोमो, सिमि, काफि, **कोलोसि**, डाय, इलैप्स, इलेटे, फेरम, फेरम-आर्स, जेल्स, 'नेफि, गुयेज, इग्ने, इरिड, आइरि, कैलि-आर्स, कैलि-बा, **कैलि-आयोड**, लैक-कै, लैके, लेडम, लाइको, मैग-फास, नेट्रम-म्यूर, नक्स म, **नक्स-वोम**, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रेना-ब, **रास-टक्स**, रूटा, सिपि, स्टैफि, स्टिलि, सल्फ, टेल्यू, वेले, वेरे।

" " " दाहिने—कार्बो-स, चिनि-स, कोलोसि, **लैके, लाइको, फाइटो**, प्लैटि, सिपि, टेल्यू।

" " " बायें—सिमि, इलेटे, युपे-पर्पि, आइरि, **कैलि-बा**, लैके, फास, टेल्यू, थूजा।

" " " सवेरे—ब्राइयो।

" " " सध्यामें—कैलि-आयोड, पल्स।

" " " रातमें—आर्स, कोलोसि, फेरम-आर्स, जेल्स, कैलि-आयोड, लैके, मेजे, पल्स, रास-टक्स, सिफि।

" " " कदम रखने पर—ऐसार, वेरा-कार्ब, नैफे, नक्स-म।

" " " करवट बदलनेसे बिछावनपर—नेट्रम-स।

" " " खड़े होनेपर, बैठे रहने बाद—नेट्रम-स।

" " " खड़े रहनेकी अवस्थामें—**इस्कि**, ऐगा, बेरा-कार्ब, फेरम, कैलि-बा, कैलि-आयोड, नक्स-वोम, **सल्फ, वेले**।

दर्द, निम्नाङ्गका, सायेटिका झुकनेसे—ऐगा, कार्ड्, नेट्रम-स, टेल्यू।

" " " फैलता है, ऊपरकी तरफ—**लेडम,** नक्स-वोम, फाइटो, प्लम्ब।

" " " " नीचे—एपिस, कार्बो-वेज, कौल्को, कैलि-आ, कैलि, **लैकि,** फाइटो, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ।

" " " बैठे रहने पर—**आर्ज-मेट,** अरम-म्यू-नै, लैकै, लाइको, साइलि, रास-टक्स।

" " " भ्रमणके समय—चिनि-स, कोलोसि, लेडम, सल्फ।

" " " शीर्ण (दुबला) होनेके साथ, पैर—ओलि-जै, प्लम्ब।

" " " सामयिक—**चिनि-स, लाइको,** लाइसि, रास-टक्स।

" " " सुन्नताके साथ—कोलोसि, नेफे, फाइटो, रास-टक्स।

" " " सोनेसे—कोलोसि, फेरम, **कैलि-आयोड,** नेफे, मिनि, **नेट्रम-म्यूर,** रूटा, सिपि, टेल्यू, वैले।

" " " " दर्द वाली करवट दबाकर—कैलि-का, **कैलि-आ, लाइको,** नक्स-वोम, फास, सिपि, टेल्यू।

" " " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, काकि, कोलोसि, काफि, डाय, ग्नाइरि, कैलि-कार्ब, रैना-ब, स्ट्रैफि।

" " " हिलना आरम्भ करनेपर—यूजा, **जेल्स, रास-टक्स।**

" " " घटना, गरमीसे—**आर्स,** कैलि-फास, **मैग-फास,** नक्स-वोम, **रास-टक्स,** साइलि।

" " " " " बिछावनकी—आर्स, मैग-फास, कास्टि, नक्स-वोम, साइलि।

" " " " खड़े होनेके समय—आर्ज-मेट, डास्का, गुआ, **फेरम,** कैलि-आ, कैलि-आयोड, लाइको, पल्स, **रास-टक्स,** रूटा।

दर्द, निम्नाङ्गका घटना, हिलने डोलनेसे—ऐगा, आर्जेण्ट-मेट, वेल, कैल्के, कोलोसि, फेरम, कैलि-बा, कैलि-स, लाइको, मार्क, म्यू-ए, नेट्रम स, फास-ए, **पल्स**, **फ्रोडो**, **रास-टक्स**, सिपि, टेरे, **टियुवा**, वेले, जिङ्क ।

„ „ बढना, गरमीसे—लैक-कै, लेडम, पल्स ।

„ „ „ हिलने डोलनेसे—एपिस, लैक-कै, ब्राइयो, लेडम, मार्क, नक्स-वोम, फाइटो, रेना-ब ।

„ „ सायेटिका (ग्टध्रसी वात Sciatica)—आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, वेल, **ब्राइयो**, **व्यू फो**, कोल्को, कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो-स, कास्टि, केमो, सिमि, काफि, **कोलोसि**, डाय, इलेप्स, इलेटे, फेरम, फेरम-आर्स, जेल्स, नैफे, गुयेज, ह्यमे, इग्नि, आइरि, कैलि-आर्स, कैलि-बा, **कैलि-आयोड**, लैक-कै, लैके, लेडम, लाइको, मैग-फास, नेट्रम-म्यूर, नक्स म, **नक्स-वोम**, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लम्ब, पोडो, पल्स, रेना-ब, **रास-टक्स**, रूटा, सिपि, स्टैफि, स्ट्रिलि, सल्फ, टेल्यू, वेले, वेरे ।

„ „ „ दाहिने—कार्बो-स, चिनि-स, कोलोसि, **लैके**, **लाइको**, **फाइटो**, प्लेटि, सिपि, टेल्यू ।

„ „ „ बायें—सिमि, इलेटे, युपे-पार्प, आइरि, **कैलि-बा**, लैके, फास, टेल्यू, थूजा ।

„ „ „ सवेरे—ब्राइयो ।

„ „ „ सध्यामें—कैलि-आयोड, पल्स ।

„ „ „ रातमें—आर्स, कोलोसि, फेरम-आर्स, जेल्स, कैलि-आयोड, लैके, मेजि, पल्स, रास-टक्स, सिफि ।

„ „ „ कदम रखने पर—ऐसार, बैरा-कार्ब, नैफे, नक्स-म ।

„ „ „ करवट बदलनेसे बिछावनपर—नेट्रम-स ।

„ „ „ खडे होनेपर, बैठे रहने बाद—नेट्रम-स ।

„ „ „ खडे रहनेकी अवस्थामें—**इस्कि**, ऐगा, बैरा-कार्ब, फेरम, कैलि-बा, कैलि-आयोड, नक्स-वोम, **सल्फ**, **वेले** ।

दर्द, निम्नाङ्गका, सायेटिका झुकनेसे—ऐगा, काउं, नेट्रम-म, टेल्यू।

" " " फैलता है, ऊपरकी तरफ—लेडम, नक्स वोम, फाइटो, प्लम्ब।

" " " " नीचे—एपिस, कार्बो-वेज, कोल्चि, कोलि-आ, कैम, लैकें, फाइटो, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास टक्स, सल्फ।

" " " बैठे रहने पर—आर्जे-मेट, अरस-म्यू-ने, लैके, लाइको, स्पाइजि, रास-टक्स।

" " " भ्रमणके समय—चिनि स, कोलोसि, लेडम, सल्फ।

" " " शीर्ण (दुबला) होनेके साथ, पैर—कोलि-जै, प्लम्ब।

" " " सामयिक—चिनि-स, लाइको, स्पाइजि, रास-टक्स।

" " " सुन्नताके साथ—कोलोसि, नैफे, फाइटो, रास-टक्स।

" " " सोनेसे—कोलोसि, फेरम, कैलि-आयोड, नैफे, मिनि, नेट्रम-म्यूर, रूटा, सिपि, टेल्यू, येले।

" " " " दर्द वाली करवट दबाकर—कैलि का, कोलि-फा, लाइको, नक्स-वोम, फास, सिपि, टेल्यू।

" " " हिलने डोलनेसे—ब्रायो, काफि, कोलोसि, काफि, डाय, आइरि कैलि-कार्ब, रैना ब, स्टैफि।

" " " हिलना आरम्भ करनेपर—फ्यूजा, लैक्स, रास-टक्स।

" " " घटना गरमीसे—थार्म, कैलि फास मैग फास, नक्स वोम रास टक्स, माइनि।

" " " " " बिछावनकी—थार्म मैग फास काफि नक्स वोम, माइनि।

" " " " " सर्द होनेके समय—थार्म-मेट, डल्का, फुर्से, फेरम, कैलि का कैलि कार्ब आरनि, वरुण राम-टक्स, रूटा।

दर्द, निम्नाङ्गका, सायेटिका घटना, भ्रमणसे—कक्क, **फेरम**, कैलि-बा, कैलि-आयोड, **रास-टक्स**, वेले।

" " " " सोनेसे—**ऐमोन-म्यू**, बैरा-कार्ब, **ब्राइयो**, **डाय**, लैके।

" " " " " दर्दवाली करवट दबाकर—**ब्राइयो**, कोलोसि।

" " " " हवासे खुली—**कैलि-आयोड**, मेजि, **पल्स**, थूजा।

" " " बढना, गरमसे—**लेडम**।

" " " " छूनेसे—**चिनि-स**, कोलोसि, कैलि-कार्ब, **लैके**, लेडम, मैग-फास।

" " " " झटका लगनेसे—**वेल**, नक्स-म।

" " " " ठण्डा लगनेसे—**आर्स**, ऐसार, कोलोसि, मैग-फास, पैलेडि, **रैना-ब**, साइलि।

" " " " " प्रयोगसे—**आर्स**, **ब्राइयो**, **मैग-फास**, **नक्स-वोम**, रूटा।

" " " " दबानेसे—कोलोसि, कैलि-बा, कैलि-आ, लाइको।

" " उरु सन्धिमें (Hip joint)—ऐकोन, इस्कि, आर्नि, आर्ज-मेट, **आर्स**, आर्स-आयोड, अरम, बैरा-कार्ब, बेल, बार्ब, ब्राइयो, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, **कार्ड**, कास्टि, **चेलिडो**, सिमि, **कोल्चि**, **कोलोसि**, युफ्रे, फेरम, फेरम-आयोड, फ्लू-ऐ, **हिपर**, हाइड्रो, आइयो, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, कैलि-स, क्रियो, केल्मि, लेक-डि, लैके, **लेडम**, लाइको, मार्क, म्यूरेक्स, नेट्रम-सल्फ, फास, फास-ऐ, फाइटो, **पल्स**, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, **स्ट्रेमो**, सल्फ, वेले।

" " " दाहिने—कैलि-कार्ब, **लेडम**, म्यूरेक्स।

दर्द, निम्नाङ्गमें, उरु-सन्धिमें, बायें—ऐकोन, कौष्टि, नेट्रम-स, सैनि, स्ट्रेमो, सल्फ।

" " " सवेरे—रास-टक्स।

" " " सन्ध्यामें—फेरम, कैलि-बा, टेरेण्ट।

" " " रातमें—कोलोसि, कैलि-कार्ब, रास-टक्स।

" " " ऋतुके पहिले—सिमि।

" " " " समय—कैल्के, ग्रेफा।

" " " खड़े होनेसे—लेडम, वैले।

" " " घूमता फिरता है—कोलूचि, आइरि।

" " " पक्षाघात सम्बन्धी—अरम, वैल।

" " " " घटना, गरमसे—रास-टक्स।

" " " वातसे उत्पन्न—ऐकोन, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कोलूचि, कैलि-बा, लैक-कै, लेडम, नाइ-ऐ, फास, पाइरो, पल्स, रास-टक्स, वैले।

" " " " दाहिने—सिपि।

" " " " बायें—ऐकोन, सैनि, स्ट्रेमो।

" " " " तर हवामें—रास-टक्स, साइलि।

" " " " सोनेसे, उरु सन्धि दबाकर—रास-टक्स।

" " " " फैलता है, अङ्गुलीमें—कैलिम, नेट्रम सल्फ।

" " " " " नीचे—कैल्मि।

" " " " " घुटनेमें—कैलि-बाई, कैलि-कार्ब, कैल्मि, सिपि, नेट्रम-सल्फ।

" " " " घटना, भ्रमणसे—फेरम, रास-टक्स, वैले।

" " " हिलने डोलनेसे—कार्बो-स, लेडम, नेट्रम आ, नक्स-वोम, सल्फ।

" " " हिलना आरम्भ करने पर—काष्टि, फेरम, लाइको, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स।

" " उरुमें—ऐगा, ऐब्ध नि, नेट्र...

... सायटिका घटना, भ्रमणस—कक, फेरम, कैलि-बा, कैलि-आयोड, रास-टक्स, वेले।

" " " " सोनेसे—ऐमोन-म्यू, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, डाय, लैके।

" " " " " दर्दवाली करवट दबाकर—ब्राइयो, कोलोसि।

" " " " हवासे खुली—कैलि-आयोड, मेजे, पल्स, थूजा।

" " " बढना, गरमसे—लेडम।

" " " " छूनेसे—चिनि-स, कोलोसि, कैलि-कार्ब, लैके, लेडम, मैग-फास।

" " " " झटका लगनेसे—वेल, नक्स-म।

" " " " ठण्डा लगनेसे—आर्स, ऐगार, कोलोसि, मैग-फास, पैलेडि, रैना-ब, साइलि।

" " " " " प्रयोगसे—आर्स, ब्राइयो, मैग-फास, नक्स-वोम, रूटा।

" " " " दबानेसे—कोलोसि, कैलि-बा, कैलि-आ, लाइको।

" " उरु सन्धिमें (Hip joint)—ऐकोन, इस्कि, आर्नि, आर्ज-मेट, आर्स, आर्स-आयोड, अरम, बैरा-कार्ब, वेल, बार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्ड, कास्टि, चेलिडो, सिमि, कोल्चि, कोलोसि, युफ्रे, फेरम, फेरम-आयोड, फ्लू-ऐ, हिपर, हाइड्रो, गाइयो, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, कैलि-स, क्रियो, केल्मि, लेक-डि, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, म्यूरेक्स, नेट्रम-सल्फ, फास, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सार्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेले।

" " " दाहिने—कैलि-कार्ब, लेडम, म्यूरेक्स।

दर्द, निम्नांगमें, उरु-सन्धिमें, बायें—ऐकोन, कौस्टि, नेट्रमे-स, सैनि, स्ट्रेमो, सल्फ।

„ „ „ सवेरे—रास-टक्स।

„ „ „ सन्ध्यामें—फेरम, कैलि-ब्रा, टेरेण्ट।

„ „ „ रातमें—कोलोसि, केलि-कार्ब, रास-टक्स।

„ „ „ ऋतुके पहिले—सिमि।

„ „ „ „ समय—कौल्के, ग्रेफा।

„ „ „ खड़े होनेसे—लेडम, वेले।

„ „ „ घूमता फिरता है—कोलुचि, आइरि।

„ „ „ पक्षाघात सम्बन्धी—श्ररम, वेल।

„ „ „ „ घटना, गरमसे—रास-टक्स।

„ „ „ वातसे उत्पन्न—ऐकोन, कार्बो-ऐसि, कार्बो-स, कोलुचि, कैलि-ब्रा, लैक-कै, लेडम, नाइ-ऐ, फास, पाइरो, पल्स, रास-टक्स, वेले।

„ „ „ „ दाहिने—सिपि।

„ „ „ „ बायें—ऐकोन, सैनि, स्ट्रेमो।

„ „ „ „ तर हवामें—रास-टक्स साइलि।

„ „ „ „ सोनेसे, उरु सन्धि दबाकर—रास-टक्स।

„ „ „ „ फैलता है, अंगुलीमें—कैलिस, नेट्रम सल्फ।

„ „ „ „ „ नीचे—कैल्मि।

„ „ „ „ „ घुटनेमें—केलि-बाई, कैलि-कार्ब, केल्मि, सिपि, नेट्रम-सल्फ।

„ „ „ „ घटना, भ्रमणसे—फेरम, रास-टक्स, वैले।

„ „ „ हिलने डोलनेसे—कार्बो स, लेडम, नेट्रम का, नक्स वोम, सल्फ।

„ „ „ हिलना आरम्भ करने पर—कास्टि फेरम, माइको, फास ए, पल्स, रास टक्स।

„ „ उरुमें—ऐगा, ऐल्युमि, ऐनाका, आर्से, बेल, बायें, बरस म्यु र, माइयो, बेंज, कार्बो-सल्फ, कार्बो वेज, चायना, सिनि सल्फ,

दर्द, निम्नाङ्गका, सायेटिका घटना, भ्रमणसे—कक्क, फेरम, कैलि-बा, कैलि-आयोड, रास-टक्स, वेले।

" " " " सोनेसे—ऐमोन-म्यू, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, डाय, लैके।

" " " " " दर्दवाली करवट दबाकर—ब्राइयो, कोलोसि।

" " " " हवासे खुली—कैलि-आयोड, मेजे, पल्स, थूजा।

" " " बढना, गरमसे—लेडम।

" " " " छूनेसे—चिनि-स, कोलोसि, कैलि-कार्ब, लैके, लेडम, मैग-फास।

" " " " झटका लगनेसे—वेल, नक्स-म।

" " " " ठण्डा लगनेसे—आर्स, ऐसार, कोलोसि, मैग-फास, पैलेडि, रैना-ब, साइलि।

" " " " " प्रयोगसे—आर्स, ब्राइयो, मैग-फास, नक्स-वोम, रूटा।

" " " " दबानेसे—कोलोसि, कैलि-बा, कैलि-आ, लाइको।

" " उरु सन्धिमें (Hip joint)—ऐकोन, इस्कि, आर्नि, आर्ज-मेट, आर्स, आर्स-आयोड, अरम, बैरा-कार्ब, बेल, बार्बे, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, काउं, कास्टि, चेलिडो, सिमि, कोल्चि, कोलोसि, युफ्रे, फेरम, फेरम-आयोड, फ्लू-ऐ, हिपर, हाइड्रो, आइयो, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, कैलि-स, क्रियो, कोल्मि, लेक-डि, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, म्यूरेक्स, नेट्रम-सल्फ, फास, फास-ऐ, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सार्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेले।

" " " दाहिने—कैलि-कार्ब, लेडम, म्यूरेक्स।

दर्द, निम्नागमें, उरु-सन्धिमें, बायें—ऐकोन, कार्ब्रि, नेट्रम-स, सेनि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " " सवेरे—रास-टक्स।

" " " सन्ध्यामें—फ़िरम, केलि-वा, टेरेण्ट।

" " " रातमें—कोलोसि, केलि-कार्ब, रास-टक्स।

" " " ऋतुके पहिले—सिमि।

" " " " समय—कैल्के, ग्रेफा।

" " " खड़े होनेसे—लेडम, वेले।

" " " घूमता फिरता है—कोल्चि, आइरि।

" " " पक्षाघात सम्बन्धी—ग्ररम, बेल।

" " " " घटना, गरमसे—रास-टक्स।

" " " वातसे उत्पन्न—ऐकोन, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कोल्चि, कैलि-वा, लेका-के, लेडम, नाइ-ऐ, फास, पाइरो, पल्स, रास-टक्स, वेले।

" " " " दाहिने—सिपि।

" " " " बायें—ऐकोन, सेनि, स्ट्रैमो।

" " " " तर हवामें—रास-टक्स साइलि।

" " " " सोनेसे, उरु सन्धि दबाकर—रास-टक्स।

" " " " फैलता है, अंगुलोंमें—कैलिम, नेट्रम सल्फ।

" " " " " नीचे—कैल्मि।

" " " " " घुटनेमें—केलि बाई, केलि-कार्ब, केल्मि, सिपि, नेट्रम सल्फ।

" " " " घटना, भ्रमणसे—फ़िरम, रास-टक्स, येले।

" " " हिलने डोलनेसे—कार्बो-स, लेडम, नेट्रम था, मस्क योस, सल्फ।

" " " हिलना आरम्भ करने पर—कार्बि फ़िरम, आइको, फास ऐ, पल्स, रास टक्स।

" " उर्ज़ों—ऐगा, ऐण्टि, ऐमाका, आर्स, बेल, बार्ये, बरम म्यू र, मारयो, चैट, कार्बो-वस्ट, कार्बो वेज, ग्रायना, सिनि सल्फ,

सिमि, साइमे, सिस्टा, कोलोसि, डाल्का, गुयेज, हाइपि, हिपर, इग्निगो, केलि-ब्राइ, केलि-कार्ब, कैलि-आयोड, केल्मि, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, म्यूरेक्स, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास-ऐ, **पाइरो**, **प्लम्ब**, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, स्टेफि, सल्फ, थूजा, वार्बा।

दर्द, निम्नांगमें उरुमें, पिछले भागमें—ऐगा, आर्स, हिपर।

" " " सामनेवाले भागमें—अरम-म्यूर, काकि, हाइपि, लिलि-टिग, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, थूजा।

" " " अस्थिमें—**ऐगा**, युफ्रे, इग्निगो, लेडम, मेजे।

" " " घूमता फिरता है—कैलि-बाई।

" " " पक्षाघात सम्बन्धी—सिना, फेरम।

" " " वातसे उत्पन्न—आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, कैलि-कार्ब, जिङ्क।

" " घुटनेमें—ऐकोन, ऐलिसि, ऐग्ना, ऐण्टिम-टार्ट, इस्कि, एपिस, आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड, **अरम**, बैरा-कार्ब, बेल, **बेञ्जो-ऐ**, **कैल्के**, **कैल्के-फास**, कैल्के-सल्फ, कैम्फ, **कास्टि**, **चेलिडो**, सिने-बा, काकि, कोलोसि, कोना, कोपे, जेल्स, आइयो, **कैलि कार्ब**, केल्मि, लैके, **लेडम**, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, फास, फाइटो, पाइरो, सोरि, पल्स, ऋोडो, रास-टक्स, स्टिक्टा, रास-वेन, सार्सा, सल्फ, **वेरे**, वार्बा।

" " " उठनेमें बैठे रहनेके बाद—नक्स-वोम, **रास-टक्स**, **सल्फ**, वेरे।

" " " घूमता फिरता है—कैल्मि, सल्फ।

" " " बैठे रहनेसे—ऐगा, **रास-टक्स**।

" " " वातसे उत्पन्न—ऐकोन, ऐगा, आर्स, बार्ब, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कास्टि, सिनेबा, क्लिमे, कैलि-बाइ, लैक-कै, **कैलि-कार्ब**, लैके, लेडम, लाइको, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, ऋोडो, **रास-टक्स**, स्टिक्टा, थूजा, वेरे-वि।

दर्द, निम्नांगमें, घुटनेमें, हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, कार्बो-सल्फ, चेलिडो, केल्मि, लेडम।

„ „ „ हिलना शुरु होनेसे, पहिले—पल्स, रास-टक्स।

„ „ पैरका (Leg)—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐनाका, ऐपो, आर्निका, आर्स, वेल, कैम्फि, कास्टि, काफि, डाल्का, युपे पर्फो, जेल्स, गुयेज, हाइड्रो, कैल्कि-बाइ, कैल्कि-कार्ब, कैल्कि-आयोड, कैल्कि नाइ, क्रियो, केल्मि, लैकि, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लैटि प्रम्ब, पल्स, पाइरो, फ्लोडो, रास-टक्स, रास-वेन, सेंगु, सिफि, व्यूबा, स्ट्रैनम, स्टेफि, सल्फ, सिपि, वेरे।

„ „ „ सन्ध्यामें—फास, पल्स, सल्फ।

„ „ „ रातमें—ऐगा, बैरा-कार्ब, कैल्कि-कार्ब, काफि, कैल्कि-आयोड, मार्क, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास-ऐ, फास, फाइटो, रास-टक्स, सल्फ, सिफि।

„ „ „ पैरकी, अस्थिमें—ऐगा, डाल्का, गुयेज, कैल्कि-बाई, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, फाइटो, सिफि।

„ „ „ गरमीसे, बिछावनकी—मार्क, सल्फ, सिफि, वेरे।

„ „ „ ज्वरावस्थामें—पल्स, रास-टक्स, स्पाञ्ज।

„ „ „ पक्षाघात सम्बन्धी—ऐगा, नाइट्रि-ऐ फास।

„ „ „ वातसे उत्पन्न—कैक्ट, कार्बो सल्फ, डाल्का, इग्नेस, कैल्कि-कार्ब, कैल्मि, लैकै, लेडम, लिथि, लाइको, मेडो, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, फ्लोडो, रास टक्स, वेरे।

„ „ „ सूजाक होनेके बाद—मेडो, मार्स।

„ „ „ टेण्डो एकिल्सिसमें (Tendo achilis)—कौष्टि, सिनेबा, बेना से कार्बो-ऐनि, कोल्चि, कैल्मि-बाइ, लिड्र।

„ „ „ पैरकी पोटलीमें (Calf)—ऐनाका, आर्निका, बेल आर्स, कैल्के, इग्नेस, जेल्स, कैल्मि-बाई, मार्क प्रा-रु, नक्स वोम, पल्स, रास टक्स वेरि।

दर्द, निम्नाङ्गका, पैरकी गाँठमें (गुल्फ-सन्धि Ankle joint)—ऐलि-सि, ऐण्टिम-टार्ट, कार्बो-ऐनि, कौलोफा, कास्टि, कैमो, चेलिडो, कोपे, कैल्मि, **लेडम**, लिथि, लाइको, मेजे, फाइटो, साइलि-ऐ।

" " " मोच खा जाने—**लेडम**, कास्टि, कोलोसि, चेलिडो।

" " " वातसे उत्पन्न—चेलिडो, कैल्मि, लैक-कै, लाइको, वेरे-वि।

" " " सूजाक रुककर—**मेडो, थूजा**।

" " पैरके ऊपरी भागमें—ऐनाका, एपि, आर्निका, अरम-म्यूर, आर्स, कैल्के, कैना-सै, कौलोफा, कास्टि, कोलोसि, डिजि, डाल्का, गुयेज, लैके, लेडम, लिथि, लाइको, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, पेट्रो, फाइटो, प्लम्ब, रडोडो, रूटा, साइलि, सिपि, थूजा, वेरे।

" " " पक्षाघात सम्बन्धी—चायना, प्लम्ब, **रास-टक्स**।

" " " वातसे उत्पन्न—कास्टि, लैके, **लेडम**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, रडोडो।

" " " पृष्ठमें (Dorsum)—कोपे, फाइटो, टेरे।

" " " तलवेमें—कैल्म, क्रोटन, लेडम, पेट्रो, फास, साइलि, स्टैनम, जिङ्क।

" " " घूमनेके समय—आर्स, लेडम, जिङ्क।

" " " एँडीमें—ऐमोन-म्यूर, कार्बो-ऐनि, चेलिडो, फेरम, फेरम-आर्स, पेट्रो, **पल्स**, रास-टक्स, वेले, जिङ्क।

" " " अंगुलीमें—अरम, वेञ्जो-ऐ, कैल्के, कौलोफा, कास्टि, कोलोसि, लिथि, लाइको, फास, फाइटो, प्लेटि, साइलि, स्टिक्टा, सल्फ, सिपि, जिङ्क।

" " " अंगूठेमें—ऐलि-सि, ऐमोन-कार्ब, अरम, बार्ब, वेञ्जो-ऐ, सिमि, कौलचि, डाल्का, ग्रैफा, गुपे-पर्फो, आइयो, लेडम, लाइको, फाइटो, प्लम्ब, रडोडो, जिङ्क।

" अवसन्न (टनक Bruised, soreness)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐल्यूमि, एपिस, **आर्निका, वैप्टि, वेल**, बैरा-कार्ब, आइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो एसिड, **कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज**,

कास्टि, चेलिडो, चायना, चिनि-स, सिमि, सिस्टा, क्लिमे, कोलचि, ड्रोसे, युपे-पर्फो, जेल्स, हैमा, हिपर, क्रियो, कैल्मि, लेक-ऐ, लैक-कै, लेकि, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पिक्रि-ऐ, पल्स, रूटा, रास-टक्स, साङ्गलि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, थूजा, टियुबा, जिक ।

दर्द, अकड़न, अस्थिमें—कैलि-आई, मेज्रे, नाइट्रि-ऐ ।

" " ज्वरके समय—चायना, नेट्रम-म्यूर रोडो, नक्स-वोम, पल्स, टियुब ।

" " शीतावस्थामें—आर्निका, वैप्टी, नक्स-वोम, रास-टक्स, टियुबा ।

" " " घटना, गरमसे—नक्स-वोम, रास-टक्स ।

" " सन्धिमें—ऐगा, ऐल्यूमि, एपिस, आर्निका, आर्ज-मेट, अरम, बेल, बोवि, कैल्के, कास्टि, कार्बो-स, कार्बो-वेज, चायना, सिस्टा, कोना, क्रोटे, डिजि, ड्रोसे, फेरम, हाइपे, लैक-कै, लेडम, लिथि, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सिपि, स्पाइ, सल्फ, वेरे ।

" " " हिलने डोलनेसे—आर्निका, कैल्के ।

" " जर्दाङ्गमें—आर्निका, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कार्बो-ऐनि, पल्सें, युपे-पर्फो, फेरम, मैकि, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, प्रेटि, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, वेरे ।

" " " कन्धेमें—चायना, सिकि, कोना, ड्रोसे, फेरम, फेलि कार्ब, लेडम, नाइको, नक्स-वोम, पोडो ।

" " " बांहमें (Arm)—सिस्ना, कैल्के, युपे-पर्फो, हिपर, फास-ऐ, सल्फ ।

" " " " अस्थिमें—काकि, हिपर, माइनि ।

" " " केहुनीमें—कार्बो वेज फोलि ऐ ।

" " " निचली बांहमें—आर्नि, कैल्के, कास्टि, सिक्रि, युपे पर्फो,

दर्द, निम्नाङ्गका, पैरकी गाँठमें (गुल्फ-सन्धि Ankle joint)—ऐलि-सि, ऐण्टिम-टार्ट, कार्बो-ऐनि, कोलोफा, कास्टि, कैमो, चेलिडो, कोपे कैल्मि, **लेडम**, लिथि, लाइको, मेजे, फाइटो, साइलि-ऐ।

„ „ „ मोच खा जाने—**लेडम**, कास्टि, कोलोसि, चेलिडो।

„ „ „ वातसे उत्पन्न—चेलिडो, कैल्मि, लैक-कै, लाइको, वेरे-वि।

„ „ „ सूजाक रुककर—**मेडो, थूजा**।

„ „ पैरके ऊपरी भागमें—ऐनाका, एपि, आर्निका, अरम-म्यूर, आर्स, कैल्के, कैना-से, कोलोफा, कास्टि, कोलोसि, डिजि, डाल्का, गुयेज, लैके, लेडम, लिथि, लाइको, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, पेट्रो, फाइटो, प्लम्ब, ह्रोडो, रूटा, साइलि, सिफि, थूजा, वेरे।

„ „ „ पक्षाघात सम्बन्धी—चायना, प्लम्ब, **रास-टक्स**।

„ „ „ वातसे उत्पन्न—कास्टि, लैके, **लेडम**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, ह्रोडो।

„ „ „ पृष्ठमें (Dorsum)—कोपे, फाइटो, टेरे।

„ „ „ तलवेमें—कैम्फ, क्रोटन, लेडम, पेट्रो, फास, साइलि, स्टैनम, जिङ्क।

„ „ „ घूमनेके समय—आर्स, लेडम, जिङ्क।

„ „ „ एँड़ीमें—एमोन-म्यूर, कार्बो-ऐनि, चेलिडो, फेरम, फेरम-आर्स, पेट्रो, **पल्स**, रास-टक्स, वेले, जिङ्क।

„ „ „ अंगुलीमें—अरम, वेञ्जो-ऐ, कैल्के, कोलोफा, कास्टि, कोलोसि, लिथि, लाइको, फास, फाइटो, प्लैटि, साइलि, स्टिक्टा, सल्फ, सिपि, जिङ्क।

„ „ „ अंगूठेमें—ऐलि-सि, ऐमोन-कार्ब, अरम, बार्ब, बेञ्जो-ऐ, सिमि, कोलचि, डाल्का, ग्रैफा, युपे-पर्फो, आइयो, लेडम, लाइको, फाइटो, प्लम्ब, ह्रोडो, जिङ्क।

„ अवहन (टनक Bruised, soreness)—ऐकोन, ऐगा, ऐलि-सि, ऐल्यूमि, एपिस, **आर्निका**, **वेप्टि**, **वेल**, वेरा-कार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-एसिड, **कार्बो-सल्फ**, **कार्बो-वेज**,

दर्द, काट डालता है मानो (Cutting)—एपिस, मिना ।
„ „ ऊर्द्धाङ्गमें—ऐनाका, एपिस, डिजि, आकाजा-ऐ ।
„ „ „ कान्धेमें - बेल, कोल्चि, डिजि ।
„ „ „ ऊपरी बाँहमें (Arm)—चेलि ।
„ „ „ केहुनीमें—सिङ्गो, हाइड्रो, मेडो, फास-ऐ, टेल्यु ।
„ „ „ अग्र बाहुमें—विस्मथ, मस्क, म्यू-ऐ, ब्यु क्रि ।
„ „ „ कलाईमें– बेल, फास-ऐ, रास बेन, ष्ट्रिकनि ।
„ „ „ हाथमें—म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब ।
„ „ निम्नाग—बेल, ड्रोसे, ग्रेफा, इग्ने, नेट्रम-कार्ब, सिपिया, माइलि, स्टेनम ।
„ „ „ ऊरु सन्धिमें—ग्राइयो, इग्ने, फाइटो ।
„ „ „ ऊरुमें—घरम-म्यु, बेल, कोल्के, मल्फ-ऐ ।
„ „ „ घुटनेमें—ऐकोन, कोल्के ।
„ „ „ पैरमें—रासृक्स, थूजा ।
„ „ „ पैरकी गांठमें (गुल्फ सन्धि) में—कोलोमि ।
„ „ „ पैरके पञ्जेमें (Foot)—चिनि स, नेट्रम-कार्ब ।
„ „ „ पैरके तलवेमें—ऐम्यु मि, आर्स, कोलोसि, डालका, म्यू-ऐ, माइलि, सल्फ ।
„ „ „ „ अँगुलीमें—साइलि ।
„ खींचनकी तरह (Drawing)—ऐम्यु मि, ऐमोन-कार्ब, आर्स, बेप्टी, ब्राइयो, कार्बो-म, कार्बो-वेज, चेलि, कोलोका, थायना, कष्टु, कोलोसि, फ़मम, डाल्का, ग्रेफा, हपि, कैलि कार्ब, नेट्रम, नाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम म्यु, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, प्रेटि, पनस, रोडो, रास-टक्स, सिके मल्फ, थूजा, येने ।
„ „ रातमें—कार्बो-वेज, फेसो, नाइको, नक्स वोम, रोडो, रास टक्स ।
„ „ सन्धिमें—फेसो, थायना, क्रालि, जेल्स, नेट्रम, मार्क, सल्फ ।
„ „ सहारके समय—नक्स वोम स्पन्जि ।
„ „ घूमता फिरता है—थायमा, कोल्चि, सल्फ ।
„ „ सन्धिमें— माइगो, सिलि, नेट्रम, नक्स म सल्फ ।

दर्द, कनकनी, जर्द्वांगमें, कलाईमें—कोलोफा, लेडम।
" " " हाथमें—ब्रिक्, ऐसाफि, कैल्के-फास, युफ्रे, हैमा, केल्मि, लेडम, मेजे, नाइट्रि-ऐ।
" " " अंगुलीमें—एपिस, ब्राइयो, सिकि, युफ्रे, हैमा, हेलि, कैल्मि, मेजे।
" " निम्नाङ्गमें—सिमि, **रास-टक्स**, थ्यूजा।
" " " ज्वरावस्थामें—पल्स, **रास-टक्स**।
" " " चूतड़में—कैल्के।
" " " उरु-सन्धिमें—फास, फाइटो, रास-टक्स।
" " " उरुमें—लैके, पाइरो, **रास-टक्स**, थूजा, टियुब।
" " " घुटनेमें—ब्रिक्, हाइड्रो, मार्क, म्यू-ऐ, पोडो, **रास-टक्स**, स्ट्रैमो।
" " " " घुटना हिलने डोलनेसे—म्यू-ऐ, **रास-टक्स**।
" " " " शीतावस्थामें—नेट्रम-म्यू, रास-टक्स।
" " " पैरमें—आर्स, ब्राइयो, कार्बो-ऐसि, कार्बो-ऐनि, युपे-पर्फो, **ड्रपि**, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैक-ऐसि, **लैकै**, लेडम, मार्क, म्यू-ऐ, **फास-ऐ**, **फाइटो**, **पाइरो**, **रास-टक्स**, **टियुब**।
" " " " ज्वरावस्थामें—पाइरो, **रास-टक्स**, **टियुब**।
" " " " शीतावस्थामें—**युपे-पर्फो**, नेट्रम-म्यू, **रास-टक्स**, थ्यूजा।
" " " टिबियामें (जंघास्थि Tibia)—कार्बो-ऐसि, लैके, फास-ऐ।
" " " पैरकी पीटलीमें (Calf)—कैलि-बा, पल्स।
" " " पैरकी गांठमें (गुल्फ-सन्धि-Ankle joint)—ऐगा, लैक-डि, लेडम, पोडो, रास-टक्स।
" " " पैरके पञ्जेमें (Foot)—कोलोसि, क्यूरे, केलि-कार्ब, सल्फ।
" " " " अंगुलीमें—आर्नि, कक, क्रमम, हैमा, हेलि, लेडम, मेजे, मस्क, फास, सल्फ।

दर्द, काट डालता है मानो (Cutting)—एपिस, सिना ।

„ „ ऊर्द्धाङ्गमें—ऐनाकार्डि, एपिस, डिजि, आकजा-ऐ ।

„ „ „ कन्धेमें - बेल, कोल्चि, डिजि ।

„ „ „ ऊपरी बाँहमें (Arm)—चेलि ।

„ „ „ केहुनीमें—सिङ्को, हाइड्रो, मेडो, फास-ऐ, टेल्यू ।

„ „ „ अग्र बाहुमें—बिस्मथ, मस्क, म्यू-ऐ, थ्यूजि ।

„ „ „ कलाईमें— बेल, फास-ऐ, राम बेन, स्ट्रिकनि ।

„ „ „ हाथमें—म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब ।

„ „ निम्नाग—बेल, ड्रोसे, ग्रे फा, इग्ने, नेट्रम-कार्ब, सिपिया, साइलि, स्टैनम ।

„ „ „ ऊरु सन्धिमें—ब्राइयो, इग्ने, फाइटो ।

„ „ „ ऊरुमें—आरम-म्यू, बेल, कोल्चि, सल्फ-ऐ ।

„ „ „ घुटनेमें—ऐकोन, कौल्कि ।

„ „ „ पैरमें—रास्टक्स, थूजा ।

„ „ „ पैरकी गाँठमें (गुल्फ सन्धि) में—कोल्चि ।

„ „ „ पैरके पञ्जेमें (Foot)—चिनि स, नेट्रम-कार्ब ।

„ „ „ पैरके तलवेमें—ऐल्यूमि, आर्स, कोल्चि, डाल्का, म्यू-ऐ, साइलि, सल्फ ।

„ „ „ „ अँगुलीमें—साइलि ।

„ खींचनकी तरह (Drawing)—ऐल्यूमि, ऐमोन कार्ब, आर्स, बैप्टी, ब्राइयो, कार्बो स, कार्बो-वेज, चेनि, कोल्चि, कायना, कपरु, कोल्चि, क्रमस, डाल्का, ग्रेफा, इपि, कैलि कार्ब, मैगम म्याग्नो, मार्क, मेनी, नेट्रम म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स मोम, प्लेटि, पलस, रोडो, राम-टक्स, सिके, सल्फ, थूजा, जिंक ।

„ „ रातमें—कार्बो-वेज, फेरो मास्को, नक्स मोस, रोडो, रास टक्स ।

„ „ सन्धिमें—फेरो, कायना, कालि, लिथम, लिडम, मार्क, सल्फ ।

„ „ ऋतुके समय—नक्स मोस प्लाटि ।

„ „ घूमता फिरता है—कायना, कोल्चि सल्फ ।

„ „ सन्धिमें—मास्को सिपि, लिडम, मक्यु र सल्फ ।

दर्द, खींचनकी तरह ऊर्द्धाङ्गमें—ऐगा, आर्ज-ना, आर्स, बेप्टी, कैल्के, कार्बो-वेज, **कास्टि**, चेलि, सिना, क्लिमे, कोलोसि, कूप्रम, गुयेकम, नक्स-म, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साङ्गलि, सल्फ, टियुक्रि, थूजा, वेले।

" " " कंधेमें—ऐकोन, ब्राइयो, फास, प्लेटि, पल्स।

" " " ऊर्द्ध बाहुमें (Arm)—आर्स, बेल, डालका, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास।

" " " केहुनीमें—आर्ज-मेट, **आर्स**, ब्राइयो, कैल्के, रास-टक्स।

" " " अधः बाहुमें—ऐगा, **कैल्के**, **कास्टि**, कार्बो-वेज, **कार्ड**, चेलि, क्लिमे, नक्स वोम, पल्स, फाइटो, रोडो, **रास-टक्स**, सिपिया, सल्फ, थूजा, वेले, वेरे।

" " " कलाईमें—ऐसाफि, कोलोफा, कास्टि, लाइको, **रास-टक्स**।

" " " हाथमें—**कास्टि**, क्लिमे, नाइट्रि-ऐ, **रास-टक्स**, सल्फ।

" " " अँगुलीमें—**ऐण्टिम-क्रूड**, कैम्फ, कोलोफा, कास्टि, रास-टक्स, साङ्गलि।

" " " सन्धिमें—ऐण्टि-क्रूड, **कास्टि**, कोलोसि, रास्टक्स।

" " निम्नाङ्गमें—ऐकोन, ऐगा, ऐड्रा, बेप्टी, **बेरा-कार्ब**, ब्राइयो, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कैमो, **चेलिडो**, फेरम, जेल्स, ग्रैफा, **हिपर**, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, **रास-टक्स**, सिपि, साङ्गलि स्टैनम, सल्फ, टियुब, वेले, जिङ्क।

" " " उरु-सन्धिमें—ऐण्टिम-क्रूड, आर्निका, आर्स, कैल्के, कैम्फि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, चेलिडो, काकि, कोलोसि, डिजि, डाल्का, नेट्रम-म्यूर, फाइटो, **पल्स**, रास्टक्स, सिपि, स्टैनम, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" " " उरुमें—ऐगा, ऐकोन, ऐनाका, आर्निका, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, कोलोफा, कास्टि, **चेलिडो**, चायना,

क्रिमि, चिनि-आर्स, कोलोसि, डाल्का, फेरम, जेल्स, गुयेक, हिपर, केलि-कार्ब, लाइको, मार्क, मेज़े, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स मस, नक्स-वोम, ओलि-ऐनि, प्लेटि, पल्स, रेनाय, रोडो, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्ट्रेमो, सल्फ, थूजा, जिङ्क ।

दर्द, खोचन, निम्नाङ्गमें, घुटनेमें—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐनाका, ब्राइयो, कोल्कि, कोलोफा, कास्टि, चेलिडो, चायना, चिनि-आर्स, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, फास, पल्स, रोडो, रास-टक्स, स्टानि, जिङ्क ।

„ „ „ पेरमें—ऐगा, ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, आर्स, वेप्टी, वेरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कोलोफा, कास्टि, चेलिडो, डाल्का, फेरम, जेल्स, गुयेक, हिपर, लाइको, मेग-कार्ब, मार्क, मेज़े, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम सल्फ, नक्स-वोम, पल्स, रोडो, रास-टक्स, सिपि, टेरे, टियुप ।

„ „ „ पेरके पोटलीमें—ऐल्यूमि, ऐनाका, आर्स, सिकि, कैल्के-फास, कैना-इ, कार्बो-ऐनि, फ्रमस, गुयेक, कैलि-थाइ, कैलि फास, मेडम, मेजे नक्स वोम, पल्स, रास्ट्रयस, सल्फ ।

„ „ „ पेरकी गांठमें (गुल्फ सन्धि)—ऐगा, आर्स, कोलोफा, वेरे ।

„ „ „ पेरके पञ्जेमें—ऐनाका, आर्स बरम कास्टि, चेलिडो, कोलोफा, कोलोसि, लाइको मेग कार्ब, मेजे, रोडो, थोमि ऐनि पल्स, रास-टक्स, स्टानि ।

„ „ „ पेरके, तलवेमें—ऐलम्, ऐनाका, बेल हिपर, नेट्रि फास ।

„ „ „ एड़ीमें—पेणिट्रम-फ्लू ।

„ „ „ पद्बोंमें—बरा-म्यूरि ऐम्ब्र ऐनाका, थूजा ।

„ जलन करनेवाला (Burning)—आर्स, बेल, कार्बो वेज, कैलि कार्ब फास ए ।

„ „ सन्धियोंमें—कार्बो वेज, मेज़े, नेट्रम कार्ब, नाइट्रि ऐ, प्लेटि ।

दर्द, जलन अङ्गाङ्गमें—आर्स, ऐसाफि, अरम, कार्बो-वेज, वेल, क्यूवे, फास-ऐ, रास-टक्स, आर्टि-यू।

" " " कन्धेमें—आर्स, कार्बो-वेज, आइरि, रास-टक्स।

" " " हाथमें—**ऐगा**, आर्स, कैल्के, कैल्के-स, कार्बो-स, फ्लू-ऐ, कैलि-स, **मेडो**, पेट्रो, फास, पल्स, रास-टक्स, सिगि, स्पिञ्जि, स्टैनम, **सल्फ**।

" " " " सन्ध्यामें—पल्स, **सल्फ**।

" " " " तलहत्थीमें—कैल्के, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-वेज, ड्रपि, लैके, लाइको, पेट्रो, फास, सैङ्गु, स्टैनम, **सल्फ**।

" " " " अङ्गुलीमें—ऐगा, साइलि।

" " निम्नाङ्गमें—एपिस, साइलि, जिङ्क।

" " " उरु-सन्धिमें—आर्स, कार्बो-वेज, जिङ्क, कैलि-कार्ब।

" " " घुटनेमें—आर्ज—मेट, **चेलि**, म्यू-ऐ।

" " " पैरमें—ऐगा, एपिस, **आर्स**, ऐसाफि, कैलि-कार्ब, लेडम, नेट्रम-स, पेट्रो, पिक्रि-ऐ, सिपिया, सल्फ, जिङ्क।

" " " " गुल्फ-सन्धिमें—पल्स, जिङ्क।

" " " " पैरके पंजेमें—ऐमोन-म्यू, आर्नि, आर्स, बार्ब, कैल्के, कैल्के-स, कार्बोनि-स, कास्टि, काकि, ग्रैफा, हिपर, कैलि-कार्ब, लैके, कैलि-स, लाइको, **मार्क**, मेडो, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फास, पल्स, सिके, साइलि, सिपिया, स्पाइजि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, **सल्फ**, जिङ्क, टेरे।

" " " " संध्यामें—नेट्रम-स, सल्फ।

" " " " रातमें—नेट्रम-कार्ब, सिपिया, **सल्फ**।

" " " " तलवेमें—ऐम्ब्रा, ऐनाका, **कैल्के**, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कोलोफा,

कूप्रम, ग्रेफा, केलि-स, लैके, लिलि-टिग, लाइको, मैग-म्यू, मैनृसि, मेङ्गे, नेट्रम कार्ब, नेट्रम स, फास-ए, प्लम्ब, पल्स, सेंगु, साइलि, सल्फ, सल्फ-आयोड, जिङ्क।

दर्द, जलन, करनेवाला, निम्नाङ्गमें सन्ध्यामें—लैके, फास।

" " " " " रातमें—फेल्के, कैमो, लैकी, फास-ए, सेंगु, सल्फ।

" " " " " बिछावनपर—कैमो, फास-ए, प्लम्ब, सेंगु, सल्फ।

" " " " एँड़ीमें—साइक्ला, ग्रेफा, इग्ने, केलि-ना।

" " " " अङ्गुलीमें—एगा, एपिस, ऐसाफि, बार्ब, ऐरम म्यू, बोरेक्स, कोना, फेरम-फास, हपि, केलि-कार्ब, लाइको, पल्स, स्टैफि, टैरे।

" फाड डालता है मानो (Tearing)—ऐकोन, ऐगा, ऐर्नि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, आर्स, अरम, बैरा कार्ब, बार्ब, ब्राइयो, केल्के, केप्सि, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, चिनि-आर्स, सिना, काकि, कोल्चि, कोलोसि, कूप्रम, डाल्का, गुफ्रे, फेरम, जेल्स, ग्रेफा, गुयेज, केलि कार्ब, केलि आयोड, केलि ना, लैके, लाइको मैग कार्ब, मैग म्यू, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम म, थोनि ऐनि, फास-ए, फास ऑरि, पल्स रोडो, रास-टक्स, सिके, स्पाइजि, टैरे, टैबे, जिङ्क।

" " संध्यामें—पार्स, डाल्का फेरम।

" " रातमें—ऐमकृ, कैमो, डाल्का फेरम, लियर, मार्को रोडो रास-टक्स, टिगुव।

" " " बिछावन छोड़ना पड़ता है—कैमो, फेरम, मार्क।

" " घुमता फिरता है—कास्टि, ऐमोन-म्यूर, कार्बो स, कोल्चि, फेरम, केलि या मार्क, पल्स।

दर्द, फाड़ डालता है मानो, ज्वरावस्थामें—कैल्के, **कार्बो-वेज**, **चायना**, डाल्का, फेरम, कैलि-कार्ब, **लाइको**, नक्स-वोम, पल्स, रास्टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, टियुब।

„ „ पक्षाघात ग्रस्त अङ्गमें—**कैमो**, काकि, कैलि-ना, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब।

„ „ पानीसे भींगकर—डालका, **रास-टक्स**।

„ „ वातसे उत्पन्न—कोलचि, गुयेज, **रास-टक्स**, सल्फ।

„ „ शीतावस्थामें—**आर्स**, **वेल**, कैप्सि, फेरम, हिपर, कैलि-कार्ब, **लाइको**, नक्स-वोम, पल्स, **रास-टक्स**, सेबाडि, टियुब।

„ „ सन्धिमें—ऐकोन, ऐग्ना, **आर्ज-मेट**, आर्स, आर्स-आयोड, अरम, **वेल**, बोवि, ब्राइयो, कैम्फर, कैल्के, **कास्टि**, चायना, कोलचि, कोलोसि, कोना, ड्रोसे, ग्रेफा, हाइयो, आइयो, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-ना, लेडम, **लाइको**, **मार्क**, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लैटि, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाइ, सार्सा, साइलि, सिपिया, स्टैफि, स्ट्रैमो, **स्टैनम**, **सल्फ**, टियुब, **जिङ्क**।

„ „ „ ज्वरावस्थामें—कैल्के, हेलि, **रास-टक्स**, सल्फ, टियुब।

„ „ जर्दाङ्गमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-म्य, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, आर्स, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, **कास्टि**, चायना, सिना, काकि, कोलचि, कोलोसि, कोना, कूप्रम, फेरम, गुयेज, कैलि-ना, लेडम, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-स**, फास-ऐ, फास, सोरि, रोडो, **रास-टक्स**, सार्सा, साइलि, सल्फ, थ्यूक्रि, थूजा, **वेलेरि**, जिङ्क।

„ „ „ अस्थिमें—चायना, जिङ्क।

„ „ „ शीतावस्थामें—आर्स, रास-टक्स।

„ „ „ „ सन्धिमें—स्ट्रान्सि, सल्फ, थ्यूक्रि।

„ „ „ „ घटना, हिलने डोलनेसे—आर्स, लाइको, रास-टक्स।

दर्द, फाड डालता है, अर्धाङ्गमें, कन्धेमें—ऐल्यू मि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-म्यू, आर्स, वेल, वार्वे, आर्स, चायना, युनि, **फेरम,** फेरम-म्यू, ग्रैफा, **केलि-कार्ब,** लेडम, **लाइको,** मैग-कार्ब, मैग म्यू, मैंगु, मार्क, मेजे, नेट्रम-स, पल्स, रेटा, रोडो, रास-टक्स, स्टेनम, स्ट्रान्सि, यूजा, जिङ्क।

" " " " ठण्ड लगकर—**हिपर,** लाइको, **नक्स-वोम,** फास, **रास-टक्स,** साइलि, सल्फ।

" " " " पक्षाघात सम्बन्धी—फेरम, फेरम-म्यू।

" " " " वातसे उत्पन्न—ब्राइयो, फेरम, फेरम-म्यू, रास्टक्स।

" " " जर्द बाहुमें—ऐगा, ऐल्यूमि, आर्स, वेल, वार्वे, ब्राइयो, चायना, केलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, म्यू-ऐ, **नेट्रम-सल्फ,** पल्स, रास्टक्स, स्टेनम, स्टेफि, सल्फ, यूजा, वेले, जिङ्क।

" " " केहुनीमें—ऐल्यूमि, **आर्स,** आर्स-आयोड, कास्टि, कोल्के, कार्बो स, चिनि-आर्स, **ब्राइयो, केलि-कार्ब,** लाइको, नेट्रम सल्फ, **रास-टक्स।**

" " " अध बाहु (Fore arm)—ऐकोन, ऐन्टि ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, बिस्मथ, ब्राइयो, कोल्के, कार्बो-म, **कास्टि,** कार्बो-वेज, कैमो, कोलचि, कोलोसि, डिजि, ग्रैफा, केलि-बाइ, **केलि-कार्ब,** मैग म्यू, मार्क, मेजे, म्यू-ऐ, **नेट्रम-सल्फ,** नाइ ऐ, फास, पल्स, रोडो, रास्टक्स सार्सा, सल्फ, यूजा, येमि।

" " " कलाईमें—ऐकोन ऐरम फोल्के फास, बिस्मथ, **कार्बो-वेज,** मैग म्यू, मार्क, **नेट्रम-सल्फ,** फास ऐ रास्टक्स सार्सा, साइलि, सल्फ जिङ्क।

" " " हाथमें—ऐकोन ऐगार, ऐम्ब्रा, कार्बो वेज कास्टि, सिना कोलचि कोलोसि, ग्रैफा केलि कार्ब केलि कार्ब मैग म्यू, मैंगे मेजे, नेट्रम सल्फ नाइट्रि ऐ, फॉस्फि-

दर्द, फाड़ डालता है मानो, ज्वरावस्थामें—**कैल्के**, **कार्बो-वेज**, **चायना**, डाल्का, फेरम, कैलि-कार्ब, **लाइको**, नक्स-वोम, पल्स, रास्टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, टियुब।

" " पक्षाघात ग्रस्त अङ्गमें—**कैमो**, काकि, कैलि-ना, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब।

" " पानीसे भीगकर—डालका, **रास-टक्स**।

" " मातसे उत्पन्न—कोलचि, गुयेज, **रास-टक्स**, सल्फ।

" " शीतावस्थामें—**आर्स**, **वेल**, कैप्सि, फेरम, हिपर, कैलि-कार्ब, **लाइको**, नक्स-वोम, पल्स, **रास-टक्स**, सेबाडि, टियुब।

" " सन्धिमें—ऐकोन, ऐग्ना, **आर्ज-मेट**, आर्स, आर्स-आयोड, ओरम, **वेल**, बोवि, ब्राइयो, कैम्फर, कैल्के, **कास्टि**, चायना, कोलचि, कोलोसि, कोना, ड्रोसे, ग्रेफा, हाइयो, आइयो, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-ना, लेडम, **लाइको**, **मार्क**, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लैटि, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाड, सार्सा, साइलि, सिपिया, स्टैफि, स्ट्रैमो, **स्टैनम**, **सल्फ**, टियुब, **जिङ्क**।

" " " ज्वरावस्थामें—केल्के, हेलि, **रास-टक्स**, सल्फ, टियुब।

" " जर्राङ्गमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-म्य, आर्ज-मेट, आर्ज-ना, आर्स, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, **कास्टि**, चायना, सिना, काकि, कोलचि, कोलोसि, कोना, क्रूप्रम, फेरम, गुयेज, कैलि-ना, लेडम, लाइको, मैग-म्यू, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-स**, फास-ऐ, फास, सोरि, रोडो, **रास-टक्स**, सार्सा, साइलि, सल्फ, थ्यूक्रि, थूजा, **वैलेरि**, जिङ्क।

" " " अस्थिमें—चायना, जिङ्क।

" " " शीतावस्थामें—आर्स, रास-टक्स।

" " " " सन्धिमें—स्टान्सि, सल्फ, थ्यूक्रि।

पड़ना, हिलने डोलनेसे—आर्स, लाइको, रास-टक्स।

दर्द, फाड़ डालती है, निम्नाङ्गमें भ्रमणसे—बेल, फेरम, लाइको, रास-टक्स, वेलेरि।

" " " " हिलने डोलनेसे—आर्स, रोडो, रास-टक्स, टेरे।

" " " उरु-सन्धिमें—ऐकोन, आनि, आर्स, आर्वे, कैन्थ, कार्बो वेज, कास्टि, कोलोसिन्थ, युफ्रे, फेरम, आइयो, केलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, केल्मि, लाइको, मैग-म्यू, मेजि, नेट्रम-कार्ब, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सिफि, जिङ्क।

" " " " वातसे उत्पन्न—ऐकोन, कैल्के, केल्मि, रास-टक्स।

" " " उरुमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यू, आर्स, आरम-म्यूर, बेरा-कार्ब, बेल, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, चिनि-आर्स, सिकु, क्लिमे, कोलचि, कोलोसि, डाल्का, युफ्रे, फेरम-आर्स, मेफा, गुयेकम, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, केल्मि, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, फास-ऐ, प्लम्ब, फाइटो, रास-टक्स, सार्सा, स्ट्रैनम, स्ट्रामो, सल्फ, सिफि, येले, जिङ्क।

" " " " अस्थिमें—नाइट्रि ऐ, जिङ्क।

" " " " फैलता है, नीचेकी तरफ—ऐमोन म्यूर, आरम-म्यूर, सिफि, केल्मि, प्लम्ब, रास टक्स।

" " " " घटना, गरमीमें विछावनकी—कास्टि, लाइको।

" " " " " भ्रमणसे—डाल्का, लाइको, रोडो रास-टक्स, येले।

" " " " " हिलने डोलनेसे—डाल्का रोडो रास टक्स, सल्फ, येले।

" " " घटनेमें—ऐकोन ऐग्ना, ऐल्यूमि, आर्निका, बेरा-कार्ब, बार्ट, बेल, कैल्के, कास्टि, चायना, सिकुटा क्लिमे, कोलचि, कैलि-कार्ब, केलि मा ... लाइको,

" " " " ऐनि, फास, रोडो, सिलि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, जिङ्क।

दर्द, फाड़ डालता है, अँगुलीमें—ऐकोन, ऐग्नस, ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, आर्स, अरम, कार्बो-स, **कार्बो-वेज**, काकि, चायना, चिनि-आर्स, कोलचि, कोलोसि, डिजि, कैलि-कार्ब, कैलि-बाइ, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-सल्फ, मैङ्ग, मार्क, मेजी, नेट्रम-स, **फास**, फास-ऐ, रास-टक्स, साइलि, स्टैनम, स्ट्रान्सि, **सल्फ**, जिङ्क।

" " " " अँगुलीकी सन्धिमें—ऐगा, **अरम**, कोलोसिन्थ, लाइको, रास्टक्स, सल्फ।

" " " " अग्र भागमें—ऐमोन-म्यू, आर्स, रियुम, जिङ्क।

" " निम्नाङ्गमें—ऐकोन, ऐगा, **ऐलुमि**, **आर्स**, अरम-म्यू, बेल, कैल्के, कैल्के-आर्स, **कास्टि**, कैमो, चायना, चिनि-आर्स, सिकि, कोलचि, **कोलोसिन्थ**, कोना, फेरम, ग्रैफा, ड्रग्न, ड्रग्डि, **कैलि-आर्स**, **कैलि-कार्ब**, कैलि-स, **कैलुमि**, **लाइको**, मैग म्यू, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, पल्स, **रास-टक्स**, साइलि, स्ट्रान्सि, सल्फ, टैरे, थ्यूब, वेरे, जिङ्क।

" " " रातमें—नाइट्रि-ऐ, रोडो, वेरे।

" " " अस्थिमें—ऐगा, कैल्के, कैलि-ना, मार्क, **नाइट्रि-ऐ**, रोडो, जिङ्क।

" " " गरमीसे बिछावनकी—**कास्टि**, **लाइको**, रास-टक्स।

" " " ठण्ड लगकर—फास, रास-टक्स।

" " " फैलता है, ऊपरकी तरफ—बेल, नक्स-वोम।

" " " " नीचेकी तरफ—बैरा-कार्ब, कैमो, सिकि, कैल्मि, सल्फ।

" " " शीतावस्थामें—**रास-टक्स**।

" " " हिलने डोलनेसे—ब्राइयो, कैलुमि।

" " " घटना, गर्म प्रयोगसे—कास्टि, थैमो।

दर्द, फाड डालती है, निम्नाङ्गमें, भ्रमणसे—बेल, फिरम, लाइको, रास-टक्स, वेलेरि।

" " " " छिलने डोलनेसे—आर्म, रोडो, रास-टक्स, टेरे।

" " " उरु-सन्धिमें—ऐकोन, आर्नि, आर्स, आर्वे, कैन्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसिन्थ, युफ्रे, फिरम, आइयो, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, केलि-फास, कोल्मि, लाइको, मैग-म्यू, मेजे, नेट्रम-कार्ब, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सिफि, जिङ्क।

" " " " वातसे उत्पन्न—ऐकोन, कोल्चि, कोल्मि, रास-टक्स।

" " " उरुमें—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यू, आर्स, आरम-म्यूर, बेरा-कार्ब, बेल, बैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, चिनि-आर्स, सिके, क्लिमे, कोल्चि, कोल्नोमि, डाल्का, युफ्रे, फिरम-आर्स, ग्रेफा, गुयेकम, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, कोल्मि, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, फास-ऐ, प्लम्ब, फाइटो, रास-टक्स, सार्मा, स्ट्रैनम, स्ट्रामि, सल्फ, सिफि, वैले, जिङ्क।

" " " " अस्थिमें—नाइट्रि ऐ, जिंक।

" " " " फैलता है, नीचेकी तरफ—ऐमोन म्यूर, आरम म्यूर, सिफि, कोल्मि, प्लम्ब, रास-टक्स।

" " " " घटना, गरमीसे बिछावनकी—कास्टि, लाइको।

" " " " " भ्रमणसे—डाल्का, लाइको, रोडो, रास-टक्स, वैले।

" " " " " हिलने डोलनेसे—डाल्का, रोडो रास-टक्स, सल्फ, वैले।

" " " फटनेमें—ऐकोन सिना, ऐलूमि, आर्निका बेरा-कार्ब, बर्बे, बेल, बैल्के, कास्टि, चायना, सिना, क्लिमे कोलचि, कैलि-कार्ब, कैलि आयोड, लाइको,

मैग-म्यूर, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-सल्फ, फास, **पल्स**, रोडो, रास-टक्स, भार्सा, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्ट्रान्सि, सल्फ, जिङ्क ।

दर्द, फाड़ डालता है, घुटनेमें, दाहिने—कोलोसि ।
" " " " बायें—कैलि-आयोड, सोरि ।
" " " " सन्ध्यामें—सिस्टा, पल्स, सल्फ ।
" " " " रातमें—कैलि-आयोड, लाइको ।
" " " " सर्दी लगकर—कैल्के, लाइको, कैलि-कार्ब, मार्क, रास-टक्स, साइलि ।
" " " " वातसे उत्पन्न—लैके, **रास-टक्स** ।
" " " " फैलता है नीचेकी तरफ—**ऐल्यूमि**, दैरा-कार्ब ।
" " " घटना, हिलने डोलनेसे—बेल, **रास-टक्स**, साइलि ।
" " " पैरमें—ऐकोन, **ऐल्यूमि**, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कास्टि**, कैमो, सिकि, सिनेबा, कोलोसि, डाल्का, युफ्रे, फेरम, गुयेक, इग्ने, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, कैलि-नाइ, कैल्मि, लेडम, लोबे, लाइको, मार्क, मैग म्यू, मेजे, **नेट्रम-स**, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रोडो, रास-टक्स, साइलि, स्टेनम, **सल्फ**, टेरे, जिङ्क ।
" " " पैरकी गाठमें (गुल्फ-सन्धि Ankle joint)—ऐकोन, आर्ज-मेट, आर्निका, आर्स, **बेल**, कैल्के-फास, कोलचि, गुयेक, **कैलि-कार्ब**, लाइको, नेट्रम-सल्फ, **रास-टक्स**, टियूक्रि, जिङ्क ।
" " " पैरके पंजेमें—आर्ज-मे, आर्स, बेल, कैम्फ, कास्टि, कैमो, चायना, कोल्चि, कोलोसि, कैल्के, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, कैल्मि, लाइको, मार्क, मार्क-आ-स, मेजे, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-स**, पल्स, फ्लोडो, साइलि, स्ट्रान्सि, सल्फ, टेरि ।

दर्द, फाड डालता है, पैरकी तलवेमें—ऐल्यु मि, आर्जे-मेट, आर्स, कोल्चि, कैलि-कार्ब, मार्क-आ-रू, नेट्रम-सल्फ, टेरि।

" " " " एँडीमें—ऐमोन,-म्यू, आर्जे-मेट, आर्जे-नाइट्रि, आर्स, कोल्चि, लाइको, साइलि।

" " " " अंगुलोंमे—ऐकोन, ऐग्रा, ऐमोन-म्य, ऐनाका, आर्जे-मेट, बेञ्जो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, कोल्चि, कोलोसि, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लेडम, नेट्रम-कार्ब, प्लेटि, स्टान्नि।

" " " " " अग्रभागमें—ऐमोन-म्यू, कैम्फ।

" मोच खानेकी तरह—(Sprained, as if)—रास-टक्स।

" " सन्धिमें—ऐम्ब्रा, आर्जे नाइ, आर्नि, ब्राइयो, ऐरम-ट्रि, कैम्फे, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कोना, कोरा रू, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-बा, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यू, पेट्री, फास, प्रूनस, पल्स, रोडो, रास-टक्स, रूटा, सिपि, स्पाइजि स्टैनम, सल्फ।

" " जर्ध्वाङ्गमें, कन्धेमें—ऐल्यु मि, ऐम्ब्रा, इग्ने, नेट्रम-म्यु, मेथाडि, रास-टक्स, सल्फ।

" " , कलाईमें—ऐमोन-कार्ब, आर्नि बोवि, ब्राइयो, कैल्के कार्बो-ऐनि, कास्टि, सिना लैके, लाइको, पार्ले ऐ, रोडो, रूटा, स्टानि, सल्फ, थूजा।

" " निम्नाङ्गमें, उरु सन्धिमें—आर्नि, कैल्के, कास्टि, ग्रूजे, इग्ने नेट्रम-म्यु, फास, पल्स रोडो, रास टक्स।

" " " पैरकी गांठमें—ऐनाका, आर्नि, कैल्के, लेडम, प्रूनस, रास-टक्स, रूटा, स्टानि, सैबिना।

" " " पैरके तलवेमें—आर्नि, ब्राइयो, कैम्फ, कास्टि, सिना, कैमि, रास-टक्स।

दर्द, सुई वेधनेकी तरह (Stitching)—ऐकोन, इस्कि, ऐगा, एपिस, बार्ब, आइयो, कैल्के, कोल्चि, कार्बो-स, कोना, डाल्का, इलेटे, फेरम, जेल्स, गुयेज, हिपर, आइरि, कैलि-आर्स, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-आयोड, कैलि-स, लोरो, लाइको, मार्क, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, प्लम्ब, सोरि, पल्स, **रास-टक्स**, सिपि, स्पाइजि, सल्फ, वेले।

" " संध्यामें—आर्स, डाल्का, लेडम।

" " रातमें—डाल्का, फेरम, हिपर, साइलि।

" " घूमता फिरता है—कैलि-स, पल्स।

" " ज्वरावस्थामें—डाल्का, **रास-टक्स**।

" " शीतावस्थामें—आर्स, हिपर, रास-टक्स।

" " घटना, हिलने डोलनेसे—फेरम, फास, **रास-टक्स**, य्यूब, वेले।

" " सन्धिमें—ऐग्ना, एपिस, आर्नि, ऐसाफि, बैरा-कार्ब, वेल, बोवि, **कैल्के, ब्राइयो**, कैम्फ, कार्बो स, कास्टि, काफि, कोल्चि, कोना, ड्रोसे, ग्रेफा, गुयेज, **हेलि**, हिपर, इग्ने, **कैलि-कार्ब**, कैलि-आयोड, कैलि-ना, कैलि-स, क्रियो, लेडम, मैग-म्यू, मैंगे, मिनि, **मार्क**, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यू, फास, प्लैटि, पल्स, फ्रोडो, **रास-टक्स**, सार्सा, **सैबाइ**, सिपि, **साइलि, स्पाइजि**, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ-ऐ, **सल्फ, टैरैक्स, थूजा, जिङ्क**।

" " जाङ्गमें—एपिस, कार्बो-स, सिना, काकि, कोना, क्रोटन, कूप्रम, डाल्का, फेरम, लिथि, लाइको, फास, फाइटो, रैना-ब, **रास-टक्स**, सार्सा, सिपि, स्टिक्टा, ट्रिलि, सल्फ, थूजा।

" " " कन्धेमें—बेल, ब्राइयो, **कैल्के**, चायना, कार्बो-स, कार्बो-वेज, काकि, **फेरम**, फेरम-आयोड, ग्रेफा, गुयेज, आइरि, कैलि-कार्ब, लेडम, लाइको, नक्स-वोम, **रैना-ब**, रास-टक्स, स्टैफि, थूजा, वेले।

" " " " दाहिने—एपिस।

दर्द, सुई बेधनेकी तरह, अर्द्धाङ्गमें, कन्धेमे, बायें—बेल, ग्रैफा ।

" " " ऊर्द्धबाहुमें (Arm)—ब्राइयो, कार्बो-स, फेरम, लेडम, रास-टक्स, सार्सा ।

" " " अधःबाहुमें (Fore-arm)—ऐकोन, गुयेज, रैना-ब, साइलि, स्पञ्जि, जिङ्क ।

" " " केहुनीमें—आर्जेण्ट-मे, ऐमाफि, ब्राइयो, सिपि, फौस्फो-फास, स्पाइजि ।

" " " कलाईमें—ऐकोन, ब्राइयो, हेलि, लेडम, नेट्रम-म्यू, सिपि ।

" " " हाथमें—कौनोसि, कोल्मि, नेट्रम-स, प्लम्ब, रैना-ब, रास-टक्स, स्पञ्जि, सल्फ, थार्वा ।

" " " अङ्गुलीमे—ऐमोन-म्यू, एपिस, कोल्चि, कास्टि, नेट्रम-स, रास-टक्स ।

" " " " अग्रभागमे—ऐमोन-म्यू, मैके, पेट्रो, रास-टक्स, सल्फ ।

" " " " सन्धिमें—ऐकोन, हेलि, सिपि, सल्फ ।

" " निम्नाङ्गमें—ऐगा, बेल, कार्बो-स, काफि, फेरम, ग्रैसि, कैलि-कार्ब, केलि स, लाइको, मार्क, मैग-कार्ब, नेट्रम-फास, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टैनम, सल्फ, जिङ्क ।

" " " उरु-सन्धिमें—ऐगा, ऐण्टिमि, एपिस, आर्स, बेल, बार्ब, फौस्फो, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कास्टि, चैमि, सिमि-फ्यूगा, सिना, कौनोसि, फेरम, फ्लू ऐ, हेलि, कैलि-बा, कैलि-आयोड, फैमुसि, लाइको, मैग कार्ब, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम म्यू, नेट्रम स, रास टक्स, सिपि, साइलि जिङ्क ।

" " " " दाहिने—कौनोसि, लाइको ।

" " " " बायें—कार्बो ऐनि ।

" " " " घूमनेके समय—नेट्रम स, कौनोसि ।

" " " " फैलता है मोचकी तरह—आर्सो, कैमुसि, ... रास्टा ।

दर्द, सुई वेधनेकी तरह, निम्नांगमें, घुटनेपर—ब्राइयो, कोलोसि, कैलि-जा, कैलि-आयोड ।

„ „ „ उरुमें—**ऐगा**, ऐनाका, **आर्स**, अरम-म्यू, बेल, बोवि, ब्राइयो, कैल्के-फास, फेरम, कार्बो-ऐनि, गुयेज, इग्नि, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, कैल्मि, मैङ्ग, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, पैलेडि, फ्लिया, रास-टक्स, सेबाडि, सैबु, सार्सा, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टैनम, टेरेक्स, थूजा, जिङ्क ।

„ „ „ घुटनेमें—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, एपिस, आर्ज-मे, बेरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कोलोसि, कार्बो-ऐनि, इग्नेप, हेलि, आइयो, **कैलि-आर्स**, **कैलि-कार्ब**, कैलि-ना, कैल्मि, नेट्रम-म्यू, पेट्रो, **नाइट्रि-ऐ**, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्टैफि, **सल्फ** ।

„ „ „ „ जलन भरा—आर्जेण्ट-मेट ।

„ „ „ „ भ्रमणके समय—ब्राइयो, कैल्के, लेडम, वैले ।

„ „ „ „ हिलाने डोलानेसे—ब्राइयो, इग्नेप, सल्फ, स्टैफि ।

„ „ „ „ पैरमें (Leg)—ऐगा, एपिस, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कास्टि, चायना, काकि, कोलोसि, कोना, युप्रे, फेरम, जेल्स, ग्रेफा, गुयेज, हाइपि, कैलि-आयोड, कैल्मि, लाइको, मार्क, मेजि, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, प्लैटि, प्लम्ब, रास-टक्स, सिपिया, **साइलि**, थूजा, ज्यूब ।

„ „ „ „ घटना, हिलने डोलनेसे—कैल्के, कैलि-कार्ब, कैल्मि ।

„ „ „ पैरको पोटलीमें (Calf)—ऐगा, कैल्के-फास, ग्रेफा, गुयेज, इग्नि, लाइको, रास-टक्स, स्पाइजि, सल्फ ।

„ „ „ गुल्फ-सन्धिमें (Ankle joint)—ऐकोन, कैल्के, हेलि, लिथि, रास-टक्स, रूटा ।

दर्द, सुई बेधनेकी तरह निम्नांगमें, पैरके पञ्जेमें (Foot)—ऐनाका, बेन्ज, बोवि, कैल्के-फास, कैन्थ, फेरम-फास, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, गुयेक, हेलि, कैलि-कार्ब, कैलि, मार्क, म्यू-ऐ, नक्स-वोम, मार्स, सिपिया, साइलि, सल्फ, थूजा।

„ „ „ पैरके तलवेमें—ऐगा, बोरेक्स, इग्ने, कैलि, पल्स।

„ „ „ एँड़ीमें—ग्रैफा, मैन्गि, पेट्रो, नेट्रम-स, पल्स, रास टक्स, सैवाडि, सिपिया, साइलि, वेलै।

„ „ „ अङ्गुलीमें—ऐकोन, ऐगारि, ऐमोन-म्य, बार्ब, अरम-म्यू-ने, कैल्के, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, ऐलि, हिपर, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रोलि, पल्स, रेनाम्रि, सिस्टा, सल्फ, थेरे।

„ पैरके पञ्जेमें, लेकिन पसीना नहीं होता—ग्रैफा, सिपि, साइलि।

नाखूनका कोना गड़ना, पैरका (Ingrowing too nails)—कास्टि ग्रैफा, मैग्ने-आस्टा, नेट्रम म्यूर नाइट्रि-ऐ, फास, साइलि, सल्फ, थ्यूक्रि, थूजा।

„ अस्वास्थ्यकर मांस बढ़नेके साथ—लेपी, मैंगु।

„ जखम भरा—नाइट्रि-ऐ, साइलि, थ्यूक्रि।

नासूर—"गोप, जख़म" देखिये।

निजके नहीं हैं मानो, पैर—ऐगा, बेप्टो, ओपि, सम्बुस।

पसीना (Perspiration) ठण्डा—कार्बो, कैमाफि, फेरम मेट, आर्स कोर, मार्फि सिफि, सिके, टैवे वेरे, वेर वि।

„ पक्षाघात ग्रस्त अङ्गमें—आर्स, स्ट्रैमो, रस टक्स।

„ सन्धिमें—ऐमोन-कार्ब, माइजो, रस-टक्स।

„ स्तनोंमें—पेट्रो।

„ „ बगलमें—ऐम्न, ऐसिड ट्टाट, कार्स, कोनि, कैल्के कम्स काग्नि सिना कोना कोलोसि कैली फ्लू ऐ, हिपर, एर्ब, इपि कैलि-कार्ब, लैड्रम, माइजो आर्स, आर्स कोर, सिपि-

मूरर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, **फास**, रास-टक्स, **सिपि**, **साइलि**, **सल्फ**, **थूजा**, जिङ्क।

पसीना, जहाँ-तहाँ में, हाथमें, ठण्डा—आर्स, पेट्रो, कैल्के-सल्फ, ब्रोमि, **कैन्थ**, सिमि, हिपर, इग्नि, कैलि-बाइ, लैके, लिलि-टिग, लाइको, **नाइट्रि-ऐ**, फास-ऐ, फास, सोरि, रास-टक्स, सिके, **सिपि**, स्पाइ, सल्फ, टैबे, थूजा, वेरे, वेरे-वि।

" " " तलहत्थीमें—ऐकोन, ऐलि-सि, कैल्के, कैमो, **डाल्का**, फ्लू-ऐ, इग्ने, आइयो, कैलि-कार्ब, लेडम, मार्क, **नक्स-वोम**, फास, सोरि, **सिपि**, **साइलि**, **सल्फ**, स्यूब।

" " " " ठण्डा—ऐकोन, कैमो।

" " " लसदार—आर्स, **फास**।

" निम्नांगमें, पैरमें—कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, युफ्रे, **मैङ्ग**, **पेट्रो**, **पोडो**, सोरि, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" " पैरके पञ्जे में—आर्स, आर्स-आयोड, **बैरा-कार्ब**, बैरा-मूरर, बेल, **कैल्के**, **कैल्के-सल्फ**, **कार्बोनि-सल्फ**, कैन्थ, **कार्बो वेज**, कास्टि, **काकि**, **कोलोसि**, क्युप्रम, फ्लू-ऐ, **ग्रैफा**, **आइयो**, कैलि-बाइ, लैकि-ऐ, **लाइको**, मैग-मूरर, **मार्क**, **नेट्रम-मूरर**, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, सोरि, **पल्स**, **सिपि**, **साइलि**, **स्टैफि**, **सल्फ**, **थूजा**, वेरे, **जिङ्क**।

" " " खट्टा—कैल्के, नाइट्रि-ऐ।

" " " खाल उधेड़ने वाला—बैरा-कार्ब, कैल्के, कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ, आइयो, लाइको, नाइट्रि-ऐ, सेनि, सिके, साइलि।

" " " जलन भरा—कैल्के, लाइको, सल्फ।

" " " ठण्डा—**बैरा-कार्ब**, **कैल्के**, कैल्के-सल्फ, कैन्थ, **कार्बोनि-सल्फ**, **कार्बो वेज**, कास्टि, काकि,

कूप्रम, डिजि, ड्रोसे, हिपर, इपि, कैलि-फास, कैलि-सल्फ, लिलि-टिग, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, **म्यू-ऐ**, सोरि, **पल्स**, सैपि, सिपि, साइलि, **स्टैफि**, सल्फ, **वेरे**।

पसीना, निम्नाङ्गमें दुर्गन्ध-भरा—**वेरा-कार्ब**, कैल्के, कार्बोनि-सल्फ, **ग्रेफा**, कैलि-कार्ब, **लाइको**, नाइट्र-ऐ, फास, प्लम्ब, **पल्स**, रास-टक्स, सैनि, सिके, सिपि, **साइलि**, सल्फ, **टेलु**, **थूजा**, जिङ्क।

„ „ „ प्रचुर—कार्बोनि-सल्फ, ग्रेफा, इपि, केलि-कार्ब, लैकि-ऐ, **लाइको**, सोरि, सेनि, सिपि, **साइलि**, थूजा, जिङ्क।

„ „ „ तलवेमें—**ऐमोन-म्यूर**, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, मार्क, **नाइ-ऐ**, नक्स-म, प्लम्ब, पल्स, **साइलि**, सल्फ।

„ „ „ „ खाल उधड़नेवाला—कैल्के।

„ „ „ „ खुजलीके साथ—**साइलि**, सल्फ।

„ „ „ „ ठण्डा—ऐकोन, **सल्फ**।

„ „ „ „ दुर्गन्धसे भरा—पेट्रो, प्लम्ब, साइलि।

„ „ „ अँगुलीमें—फाइटो, पल्स, **साइलि**, थूजा।

„ „ „ „ बीचमें—बेरा-का, फ्लू-ऐ, क्रिमी, कैलि-कार्ब, लाइको, नाइ-ऐ, पल्स, **साइलि**, जिङ्क।

„ „ „ „ खाल उधेड़ने वाला—बैरा-कार्ब, कार्बो वेज, ग्रेफा, नाइ-ऐ, सेनि, सिपि, साइलि, **जिङ्क**।

„ „ „ „ दुर्गन्ध भरा—बैरा कार्ब, कैलि-कार्ब, पल्स, सिपि, साइलि, थूजा, जिङ्क।

पक्षाघात (Paralysis)—**ऐकोन**, ऐगा, ऐलि सि, ऐम्ब्र ग्रि, ऐनाका, आर्जे-नाइट्रि, आर्स, आर्टि-वा, बरम, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कास्टि**, चेलिडो, सिकि, **काक्कि**, कोनाय, कोना, कूप्रम, म्यूरे, ड्रोसे, डामका, फार्मि, जेल्स, गुयेकि, कैलि आयोड, केल्मि,

नेट्रम-मूर, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, ओलि, ओपि, फास, **प्लेटि, प्लम्ब; रास-टक्स,** रूटा, सिके, सिपि, **साइलि, ष्ट्रेमो, सल्फ,** टैरेण्ट, वेरे, ज़िङ्क।

पक्षाघात आंशिक (Partial)—आर्स।

" ऊपरकी तरफ उठता है—कोना, फाइझो-ए, मैङ्ग।

" एक पार्श्व का (Hymiplegia)—ऐल्यूमि, ऐनाका, एपिस, आर्स, कैड्मि, काकि, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, लेके, मूर-ए, फास-ए, रास-टक्स, सार्सा, ष्ट्रैनम, सल्फ-ए।

" " दाहिने—एपिस, **कास्टि,** ग्रैफा, प्लम्ब, रास-टक्स।

" " बायें—**एपिस, लेषि, नक्स-वोम, रास-टक्स,** ष्ट्रैनम।

" " दूसरे पार्श्व का स्पन्दनके साथ—एपिस, बेल, ष्ट्रैमो।

" काम, इन्द्रियके अधिक सेवनकी वजहसे, ज्यादा—नेट्रम-मूर, रास-टक्स।

" चर्म-रोग बैठ जानेसे—डालका, सोरि, सल्फ।

" जकड़ जानेके साथ—कास्टि, कोना, लेके, लाइको, नेट्रम-मूर, रास-टक्स, साइलि।

" टाइफायेड ज्वरसे—ऐगा, लेके, रास-टक्स।

" ठण्डा लगकर—डाल्का, क्रोडो।

" डिफिथरिया रोगके बाद—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्ज-मे, आर्नि, आर्स, **कास्टि, काकि,** क्रोटे-हो, जेल्स, केलि-ब्रोम, केलि-फास, लेका-के, **लेषि, नेटम-म्यूर,** नक्स-वोम, फास, सिके, सल्फ।

" धीरे धीरे प्रकाश होने वाला—**कास्टि।**

" पसीना दब जानेके कारण—कोलचि, रास-टक्स।

" परिश्रमके बाद शारीरिक, ज्यादा—आर्स, कास्टि, नक्स-वोम, **रास-टक्स।**

" वातसे उत्पन्न—**कास्टि, काकि।**

" वृद्ध आदमियोंका—बैरा-कार्ब, कोना, केलि-कार्ब।

" भींगकर जलसे—**कास्टि,** रास-टक्स।

पक्षाघात, मानसिक उत्तेजनाके बाद—**एपिस**, इग्ने, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, स्ट्रैनम।

" मांस पेशीका, फ्लेक्सर (*Flexor*)—कास्टि, **नेट्रम-म्यूर**।

" " एक्सटेन्सर (Extensor)—ऐल्यूमि, आर्स, **काकि**, कैल्के, प्लम्ब।

" यन्त्रणाहीन—ऐनाका, आर्ज-ना, आर्स, अरम, बैप्टी, **कैना-इ**, **काकि**, **कोना**, कूप्रम, जेल्स, **हाइयो**, लोरो, **लाइको**, मार्क, नक्स-वोम, **ओलि**, ओपि, फास-ऐ, फास, **प्लम्ब**, पल्स, **रास-टक्स**, सिके, वेरे, जिङ्क।

" शीतल, दूसरा अङ्ग—कास्टि, काकि, डाल्का, ग्रैफा, नक्स-वोम, रास-टक्स।

" सन्यास रोगकी वजहसे (Apoplexy)—ऐल्यूमि, बैरा-कार्ब, कास्टि, काकि, कूप्रम, जेल्स, **लेर्की**, लोरो, नक्स-वोम, **ओपि**, फास, प्लम्ब, स्ट्रैमो।

" ऊर्ध्वाङ्गका—ऐकोन, **ऐगा**, एपिस, बैरा-कार्ब, आर्स, बेल, कैल्के, **कैना-इ**, कास्टि, काकि, डाल्का, हेलि, कैलि-कार्ब, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, ओपि, **प्लम्ब**, **रास-टक्स**, स्ट्रैनम, सल्फ।

" " दाहिने—इस्कि, **ऐमोन-कार्ब**।

" " बायें—डिजि।

" " आंशिक—सिकि, कोलि-ब्रा, लैक-के, मार्क **नक्स-वोम**, फास, प्लम्ब।

" " डिफथीरियाके बाद—कास्टि।

" " सन्यास रोगके बाद—**फास**।

" " कंधेका—कास्टि, फ्यू्रे।

" " कलाईका—ऐकोन, प्लम्ब।

" " पांवका—एपिस, कास्टि, **काकि**, जेल्स, प्लम्ब रास टक्स साइलि जिङ्क।

पक्षाघात, अर्द्धांगका हाथका, मालूम होना—कार्बो-ऐनि, **कास्टि,** चायना, कैलि, टैबे।

" " अँगुलीका—कैल्के, कास्टि, काकि, मेजे, फास, प्लम्ब।

" " " एक्सटेन्सर पेशीमें—आर्स, कास्टि, काकि, प्लम्ब।

" निम्नांगका—ऐब्रो, **ऐगा,** ऐल्यूमि, **आर्ज-ना,** आर्स, बेल, कैल्के, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐसि, सिकि, काकि, कूप्रम, डाल्का, जेल्स, कैलि-कार्ब, लैके, माइगेल, नक्स-म, **नक्स-वोम,** ओलि, ओपि, फास, पिक्रि-ऐ, **प्लम्ब,** सोरि, **रास-टक्स,** सिके, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे।

" " कामेन्द्रियके विशेष सेवनकी वजहसे, ज्यादा—नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** फास।

" " चर्म-रोग बैठ जानेसे—सोरि।

" " टीका देनेके बाद—थूजा।

" " ठण्डा लगकर—काकि, रास-टक्स।

" " डिफ्थीरिया रोगके बाद—**आर्स,** काकि, कोना, लैके, फास, प्लम्ब, सिके, साइलि।

" " प्रसवके बाद—कास्टि, प्लम्ब, रास-टक्स।

" " भींगकर मलसे—नक्स-वोम, रास-टक्स।

" " यन्त्रणाहीन—**कोना,** ओलि, जिङ्क।

" " मालूम होना—**ड्रस्कि,** ऐलूमि, अरम, चेलि, **वेरे।**

प्रदाह (Inflammation)-अस्थिका—ऐसाफि, कैल्के, **फ्लू ऐ, मार्क,** मेजे, **फास-ऐ, साइलि।**

" सन्धिका—**ऐकोन,** ऐङ्गा, आर्नि, अरम, **बेल,** ब्राइयो, कास्टि, फेरम, फास, आइयो, कैलि-श्रा, कैलि, क्रियो, **लेडम,** लिथि, मेङ्ग, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, सोरि, र्होडो, रास-टक्स, रूटा, सार्सा, सिपि, **साइलि।**

" " विसर्प सम्बन्धी—**ब्राइयो,** र्होडो।

प्रदाह, सन्धिका, साइनोवियल मेम्ब्रेनका (Synovitis)—**एपिस**, बेल, **ब्राइयो**, कैल्के, कास्टि, फेरम फास, आइयो, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लेडम, लाइको, मार्क, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

" ऊर्द्धाङ्गका—रास-टक्स।

" " विसर्प सम्बन्धी—कैलि-कार्ब, एपिस, फास-ऐ, **रास-टक्स**।

" " केहुनीसे कलाईके बिचले भाग तक—**आर्स**, लाइको, रास-टक्स।

" " " पेरियोस्टियमका—अरम।

" " कलाईका—थुजा, रास-टक्स।

" " हाथका—ऐन्थ्रा, क्रोटे-हो, कैलि, क्रोटे-हो, लेकै, लाइको, रास-टक्स, साइलि।

" " अंगुलीका—**ऐमोन-कार्ब**, एपिस, क्यूप्रम, हिपर, मैग-कार्ब, साइलि।

" " " विसर्प सम्बन्धी—रास-टक्स फ्लोडो, सल्फ, थूजा।

" " नाखूनके चारों तरफ—कोना, **नेट्रम-म्यूर**, **नेट्रम-सल्फ**, फास-ऐ।

" निम्नाङ्गका, उरु-सन्धिका—एपिस।

" " पेरियोस्टियमका—अरम, मेजे, फाइटो।

" " घुटनेका—एपिस, आर्निका, बेरा-म्यू, **ब्राइयो**, कैल्के, कास्टि, फ्लू-ऐ, गुयेज, आइयो, लेडम, नक्स वोम, फाइटो, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सार्सा, सल्फ।

" " " विसर्प सम्बन्धी—रास टक्स।

" " " सूजाक रुककर (Suppressed)—मेडो, साइलि।

" " पेरियोस्टियमका—**ऐसाफि**, **फास**।

" " " विसर्प सम्बन्धी—**एपिस**, बोरा, कैल्के, हिपर, लाइको, मेरि, नेट्रम कार्ब, रास टक्स, सल्फ, साइलि सल्फ, टेरि।

" " पैरका—ग्रैफीन, बोरा, कैल्के।

प्रदाह, निम्नागका, पैरका, टेण्डोएकिलिसका—सिपि, जिङ्क।

„ „ पैरोंकी गाँठका (गुल्फ-सन्धि-Ankle joint)—आर्नि, **मैङ्ग**, फाइटो।

„ „ „ विसर्प सम्बन्धी—**रास-टक्स**, सिपि।

„ „ पैरके पञ्जे का—**ब्राइयो**, केमो, मार्क, पल्स, रास-वे, सल्फ।

„ „ „ विसर्प सम्बन्धी—एपिस, आर्नि, ब्राइयो, रास-टक्स।

„ „ „ पेरियोस्टियमका—अरम-मूर, गुयेज।

„ „ „ तलवेका—पल्स।

„ „ „ एँडीका—ऐसिड-क्रूड, सेबाई।

„ „ „ अंगुलीका—कार्बो-ऐनि, नाइ-ऐ, फास, पल्स, सिपि, टेरे, थूजा, जिङ्क।

„ „ „ विसर्प सम्बन्धी—**एपिस**।

फटना, जर्द्धाङ्गमें—केलि-आर्स, साइलि।

„ „ हाथमें—इस्कि, ऐन्थ्रा, आर्नि, **कैल्के**, **कैलेण्डि**, ग्रैफा, **हिपर**, केलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-मूर, नाइ-ऐ, **पेट्रो**, सोरि, पल्स, **रास-टक्स**, **सार्स**, **सिपिया**, साइलि, **सल्फ**, जिङ्क।

„ „ „ खुजली भरी—मार्क, **पेट्रो**।

„ „ „ जलन भरी—**पेट्रो**, सार्स, जिंक।

„ „ „ शीतके समय—**कैल्के**, सिस्टा, मार्क, पेट्रो, सोरि, सैनि, सिपि, सल्फ।

„ „ „ पानीमें काम करनेके कारण—**कैल्के**, रास-टक्स, सिपि, **सल्फ**।

„ „ „ पीठमें—मार्क, रास-टक्स, सैनि, सिपि।

„ „ „ तलहत्थीमें—**सिस्टा**, **पेट्रो**, सल्फ।

„ „ „ अंगुलोमें—**कैल्के**, सिस्टा, मार्क, **पेट्रो**, **सार्स**।

„ „ „ अग्र भागमें—अरम-मूर, **ग्रैफा**, **पेट्रो**।

टना, जहाँगमें, हाथमें नाखूनके चारों तरफ—ऐण्टिम-क्रूड, नेट्रम-म्यूर।
" " " सन्धिमें—ग्रैफा, सेनि, सल्फ।
" निम्नागमें—ऐल्यूमि, अरम, अरम-म्यूर, हिपर, कोल्चि, लैके, पेट्रो, सल्फ, जिंक।
" " पैरका पञ्जा (Foot)—अरम-म्यू, कैमो, हिपर, सार्सा, सल्फ।
" " एँड़ी—लाइको।
" " अंगुलीके गड्ढेमें—ग्रैफा, लैके, नेट्रम-म्यूर, साइलि।
" " " गहरा—हाइड्रो।
" " " खुजली भरी ज्यादा—नेट्रम म्यूर।
फड़कना, झटका लगना—ऐगा, ऐलूमि, एमोन म्यू, ऐनाका, एपिस, आर्स, आर्ज-ना, बेरा-म्यूर, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, सिकि, कुप्रम, हाइयो, इग्ने, बेलि-आयोड, लाइको, मार्क, प्लम्ब, मिलिया, स्ट्रैमो, वेलेरि, विस्कम, जिंक।
" एक पैर और एक हाथ—एपिस, ऐपोसा, हेलि, स्ट्रैमो।
" नींदके उपक्रममें—ऐगा, ऐलूमि, आर्स, जेल्स, इग्ने, फाइसो, सल्फ, थूजा।
" पक्षाघात ग्रस्त—फास, नक्स-वोम, सिकेलि।
" मृगी रोगमें—कूप्रम, ग्लोनो, ओपि।
" अर्द्धाङ्गका—ऐलूमि, आर्ज नाइट्रि, बेरा-म्यूर, सिकि, कुप्रम, ग्रैफा, हाइयो, इग्ने, पल्म्ब, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, जिंक।
" " हाथका—सिना, कास्टि, कुप्रम, मार्क, नेट्रम म्यूर, स्ट्रैमो।
" " अंगुलीका—कैल्के, सिकि, कास्टि, नेट्रम कार्ब।
" निम्नांगका—ऐगा, ऐलूमि, आर्ज मे, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, बेल्ड़े, सिकि, कुप्रम, जेल्स, कैमि-कार्ब, लाइको मिलि, मार्गान, नेट्रम-आर्स, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम ओपि, प्लेटि, स्ट्रैमो, सल्फ, थेरि, जिंक।
" " नींदकी अवस्थामें—ऐगि-टा आर्ज नाइट्रि, कैल्कि कार्ब, लाइको, नेट्रम म्यूर, सल्फ जिंक।

प्रदाह, निम्नांगका, पैरका, टेण्डोएकिलिसका—सिपि, जिङ्क।
„ „ पैरोकी गाँठका (गुल्फ-सन्धि-Ankle joint)—आर्नि, मैङ्ग, फाइटो।
„ „ „ विसर्प सम्बन्धी—**रास-टक्स,** सिपि।
„ „ पैरके पञ्जेका—**ब्राइयो,** केमो, मार्क, पल्स, रास-वे, सल्फ।
„ „ „ विसर्प सम्बन्धी—एपिस, आर्नि, ब्राइयो, रास-टक्स।
„ „ „ पेरियोस्टियमका—अरम-मूर, गुयेज।
„ „ „ तलवेका—पल्स।
„ „ „ एँडीका—ऐग्रिट-क्रूड, सेबाइ।
„ „ „ अंगुलीका—कार्बो-ऐनि, नाइ-ऐ, फास, पल्स, सिपि, टेरे, थूजा, जिङ्क।
„ „ „ विसर्प सम्बन्धी—**एपिस।**

फटना, ऊर्द्धाङ्गमें—कैलि-आर्स, साइलि।
„ „ हाथमें—इस्कि, ऐन्थ्रा, आर्नि, **कैल्के, कैलेंडि,** ग्रैफा, **हिपर,** कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम-मूर, नाइ-ऐ, **पेट्रो,** सोरि, पल्स, **रास-टक्स, सार्सा, सिपिया,** साइलि, **सल्फ,** जिङ्क।
„ „ „ खुजली भरी—मार्क, **पेट्रो।**
„ „ „ जलन भरी—**पेट्रो,** सार्सा, जिंक।
„ „ „ शीतके समय—**कैल्के,** सिस्टा, मार्क, पेट्रो, सोरि, सेनि, सिपि, सल्फ।
„ „ „ पानीमें काम करनेके कारण—**कैल्के,** रास-टक्स, सिपि, **सल्फ।**
„ „ „ पीठमें—मार्क, रास-टक्स, सेनि, सिपि।
„ „ „ तलहत्थीमें—**सिस्टा, पेट्रो,** सल्फ।
„ „ „ अंगुलीमें—**कैल्के,** सिस्टा, मार्क, **पेट्रो, सार्सा।**
„ „ „ अग्र भागमें—अरम-मूर, **ग्रैफा, पेट्रो।**

फटना, अद्धांगमें, हाथमें नाखूनके चारों तरफ—ऐण्टिम-क्रूड, नेट्रम-म्यूर ।

„ „ „ सन्धिमें—ग्रैफा, सेनि, सल्फ ।

„ निम्नांगमें—ऐल्यूमि, अरम, अरम-म्यूर, हिपर, कोल्को, लैके, पेट्रो, सल्फ, जिंक ।

„ „ पैरका पञ्जा (Foot)—अरम-म्यू, कैमो, हिपर, सार्सा, सल्फ ।

„ „ एँड़ी—लाइको ।

„ „ अंगुलीके गड्ढेमें—ग्रैफा, लैके, नेट्रम-म्यूर, साइलि ।

„ „ „ गहरा—हाइड्रो ।

„ „ „ खुजली भरी ज्यादा—नेट्रम म्यूर ।

फड़कना, झटका लगना—ऐगा, ऐलूमि, एमोन म्यू, ऐनाका, एपिस, आर्स, आर्ज-ना, बैरा-म्यूर, कास्टि, बैसी, चायना, सिना, सिकि, कप्रम, हाइयो, इग्ने, कैलि-आयोड, लाइको, मार्क, मस्क, सिपिया, स्ट्रैमो, वेले, विस्काम, जिंक ।

„ एक पैर और एक हाथ—एपिस, ऐपोसा, हेलि, स्ट्रैमो ।

„ नींदके उपक्रमसे—ऐगा, ऐलूमि, आर्स, जेल्स, इग्ने, फास्यो, सल्फ, थूजा ।

„ पक्षाघात ग्रस्त—फास, नक्स-वोम, सिकेलि ।

„ मृगी रोगसे—कूप्रम, स्लोनो, ओपि ।

„ अर्द्धांगका—ऐलूमि, आर्ज नाइट्रि, बैरा म्यूर, सिकि, कूप्रम, ग्रैफा, हायश्यो, इग्ने, पल्स, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, जिंक ।

„ „ हाथका—सिना, काक्कि, कूप्रम, मार्क, नेट्रम म्यूर, स्ट्रैमो ।

„ „ अंगुलीका—कैल्के, सिकि, काक्कि, नेट्रम कार्ब ।

„ निम्नांगका—ऐगा, ऐलूमि, आर्ज मे, आर्ज-नाइट्रि, आर्स, कैल्के, सिकि, कूप्रम, जेल्स, कैलि-कार्ब, लाइको, मेनि माग्नम, नेट्रम-आर्स, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, ओपि, प्लैटि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे, जिंक ।

„ „ नींदकी अवस्थामें—ऐण्टि टा, आर्ज नाइट्रि, कैलि कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, सल्फ, जिंक ।

फड़काना, निम्नांगका नींदके उपक्रमसे—ऐनाका, आर्ज-मेट, **कैलि-कार्ब**, सल्फ, थूजा, जिंक ।

" " लटका रखनेसे पैर—वेरे ।

" " सोनेके समय—वेरे ।

फूलन, स्फीति (Swolling)—आर्नि, बेरा कार्ब, डाल्का, कैल्मि, पेट्रो, **मार्क-स**, सिके, साइलि ।

" शोथ भरी (Oedematous)—एपिस, ऐपो, **आर्स**, आर्स-आयोड, फास, अरम, कैक्ट, चायना, कोलचि, क्रोटे-ह्रो, कोना, डिजि, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, फ्लु-ऐ, हेलि, ब्राइयो, कैल्मि, लाइको, मार्क-स, नेट्रम-आर्स, नैजा, सिपि, सल्फ, टेरि ।

" संधिकी—ऐब्रो, **ऐकि-स्पा**, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, अरम, म्यूर, **बेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, सिमि, काकि, **कोलचि**, फेरम, गुयेक, हैमा, हिपर, कैलि-क्लोर, कैल्मि, लेके, **लेडम**, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फ्लोडो, रास-टक्स, सैलि-ऐ **सल्फ**, टेरि, वेरे-वि ।

" " शोथ भरा—कास्टि, नेट्रम-म्यूर ।

" जलांगमें—ऐन्थ्रा, एपिस, आर्स, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, क्यूरे, फेरम फास, हाइड्रो, लेके, मेजे, फास, **रास-टक्स**, सल्फ ।

" " गरम—एपिस, काकि, मार्क ।

" " दर्द करनेवाला—लेके, मस्क, सल्फ, थूजा ।

" " लाल—**बेल**, ब्राइयो, ब्यूफो, लाइको, हिपर, मार्क, थूजा ।

" " शोथ मिला—एपिस, अरम, फेरम, लेके, लाइको, मार्क-कोर, फास ।

" " बाँहकी (Arm)—एपिस, ब्राइयो, ग्रेफा ।

" " " टीका देनेके बाद—**साइलि**, **थूजा**, सल्फ ।

" " " दर्द

" " केहुनी

" " निचले [illegible] ग्रेफा, लेके,

म

फूलन, अर्द्धांगमें, कलाईमें—ऐक्टि-स्पा, एपिस, ब्यूफो, क्रोटे-हौर, लैके, मार्क, रास-टक्स, रास-वे, सैवाईं।

" " हाथमें—ऐगा, **ऐपिस**, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, कैक्ट, केल्के, काकि, **कोलचि**, फेरम, लैके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, सोरि, रास-टक्स, सेम्बु, सिके, स्टिक्टा, सल्फ।

" " " ऋतुके समय—ग्रेफा, मार्क।

" " " गरम—बेल, ब्राइयो, सिस्टा, रास-टक्स।

" " " दर्द, करनेवाला—क्यूरे, लैसी।

" " " विसर्पकी तरह (Erysipelatous)—**रास-टक्स**, रास बे।

" " " शिरामें—आर्नि, चेलि, चायना, सिकि, फ्लू-ऐ, हैमा, लोरो, लेडम, नक्स-वोम, ओपि, फास, **पल्स**, रास-टक्स।

" " " सड़नेवाली (Gangrenous)—**आर्स**, लैके, **सिकेलि**।

" " " हृदरोगमें—अरम-म्यू, कैक्ट।

" " " अंगुलीमें—एपिस, आर्स, ब्राइयो, डिजि, ग्रेफा, लाइको, मैग-कार्ब, **रास-टक्स**, थूजा।

" अर्द्धांगमें अंगुलीके पोरमें—आर्स, ब्राइयो कैल्के, कोलोफा, ग्रेफा, हिपर, लाइको, मार्क।

" निम्नाङ्गकी—औरा म्यु, बर्बे, केल्के, चेनि, कैलि आर्स, कैलि कार्ब, लेडम, लाइको, रास टक्स, फास, सिपिया, साइलि, सल्फ।

" " शोथ मिली (*Oedematous*)—**एपिस**, एसे एसि, **आर्स**, आर्स-आयोड, अरम म्यु, कैक्ट, कैल्के, कार्बो वेजि, कार्बो ए, चेलि धिसा, **चायना**, कोलचि, डिजि, डल्का, फेरम, ग्रैफा, हेलि, लिपो, हाइड्रो कैलि कार्ब, लेडम, ... लैग सि, मैग म्यु, मैगि, मार्क, फास्फ सिलि, जिङ्क।

फड़कना, निम्नांगका नींदके उपक्रमसे—ऐमाका, आर्जे-मेट, **कैलि-कार्ब,** सल्फ, थूजा, जिंक ।

" " लटका रखनेसे पैर—वेरे ।

" " सोनेके समय—वेरे ।

फूलन, स्फीति (Swelling)—आर्नि, बैरा-कार्ब, डाल्का, कैल्मि, पेट्रो, **मार्क-स,** सिके, साइलि ।

" शोथ भरी (Oedematous)—एपिस, ऐपो, **आर्स,** आर्स-आयोड, फास, अरम, कैक्ट, चायना, कोलचि, क्रोटे-हो, कोना, डिजि, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, फ्लु-ऐ, हेलि, आइयो, कैल्मि, लाइको, मार्क-स, नेट्रम-आर्स, नैजा, सिपि, सल्फ, टेरि ।

" संधिकी—ऐब्रो, **ऐक्टि-स्पा,** ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, अरम, मूर, **बेल, ब्राइयो,** कैल्का, सिमि, काकि, **कोलचि,** फेरम, गुयेक, हैमा, हिपर, कैलि-क्लोर, कैल्मि, लेके, **लेडम,** लाइको, मार्क, नेट्रम-मूर, नक्स-वोम, फ्लोडो, रास-टक्स, सेलि-ऐ, **सल्फ,** टेरि, वेरे-वि ।

" " शोथ भरा—कास्टि, नेट्रम-मूर ।

" जङ्घांगमें—ऐन्थ्रा, एपिस, आर्स, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, क्यूरे, फेरम फास, हाइड्रो, लेके, मेजि, फास, **रास-टक्स,** सल्फ ।

" " गरम—एपिस, काकि, मार्क ।

" " दर्द करनेवाला—लेके, मस्क, सल्फ, थूजा ।

" " लाल—**बेल,** ब्राइयो, ब्यूफो, लाइको, हिपर, मार्क, थूजा ।

" " शोथ मिला—एपिस, अरम, फेरम, लेके, लाइको, मार्क-कोर, फास ।

" " बाँहकी (Arm)—एपिस, ब्राइयो, ग्रेफा ।

" " " टीका देनेके बाद—**साइलि, थूजा,** सल्फ ।

" " " दर्द करनेवाला—पल्स ।

" " केहुनीमें—ब्राइयो, कोलोसि, मार्क ।

" " निचले बाहुमें (Fore arm)—आर्स, फेरम-फास, ग्रेफा, लेके, मार्क, रास-टक्स ।

फूलन, ऊर्द्धांगमें, कलाईमें—ऐक्टि-रसा, एपिस, ब्यूफो, क्रोटे-होर, लैके, मार्क, रास-टक्स, रास-वे, सैबाई।

" " हाथमें—ऐगा, ऐपिस, आर्स, अरम, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, कैक्ट, कैल्के, कार्कि, कोलचि, फेरम, लैके, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, सोरि, रास-टक्स, मेम्ब्यु, सिकि, स्ट्रिक्ना, सल्फ।

" " " ऋतुके समय—ग्रैफा, मार्क।

" " " गरम—बेल, ब्राइयो, सिस्टा, रास-टक्स।

" " " दर्द, करनेवाला—क्यूरे, लैकेसि।

" " " विसर्पकी तरह (Erysipelatous)—रास-टक्स, रास वे।

" " " शिरामें—आर्नि, बेलि, चायना, सिकि, फ्लू-ऐ, हैमा, लीरो, लेडम, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स।

" " " सड़नेवाली (Gangrenous)—आर्स, लैके, सिकेलि।

" " " हृद्रोगमें—आरम-म्यू, कैक्ट।

" " " अंगुलीमें—एपिस आर्स, ब्राइयो, डिजि, ग्रैफा, लाइको, मैग-कार्ब, रास-टक्स, थूजा।

" ऊर्द्धांगमें अंगुलीके पोरमें—आर्स, ब्राइयो, कैल्के, कोनोफा, फेरम, हिपर, लाइको, मार्क।

" निम्नाङ्गकी—बेरा म्यू, थार्नि, कैल्के, चेलि, फेरि फास, कैलि कार्ब, लेडम, लाइको, रास टक्स फास, सिपिया, साइलि सल्फ।

" " शोथ मिली (Oedematous)—एपिस, ऐसे आर्स, आर्स-आयोड, आरम म्यू, कैल- कैल्के, कार्बो एनि, कार्बो व बेलि, सिमा, चायना, कोलचि, डिजि, डल्का, फेरम फ्लू ऐ ग्रैफा, इपि, हिपो, आइको, कैलि कार्ब लेडम लाइको, मैग मि, मैग म्यू, मैगे, मार्क, फास्टो, रास टक्स सिनि, जिङ्क।

फड़कना, निम्नागका नींदके उपक्रमसे—ऐनाका, आर्जे-मेट, **कैलि-कार्ब**, सल्फ, थूजा, जिंक ।

„ „ लटका रखनेसे पैर—वेरे ।

„ „ सोनेके समय—वेरे ।

फूलन, स्फीति (Swelling)—आर्नि, बैरा-कार्ब, डाल्का, कैल्मि, पेट्रो, **मार्क-स**, सिके, साइलि ।

„ शोथ भरी (Oedematous)—एपिस, ऐपो, **आर्स**, आर्स-आयोड, फास, अरम, कैक्ट, चायना, कोलचि, क्रोटे-हो, कोना, डिजि, डाल्का, युपे-पर्फो, फेरम, फलु-ऐ, हेलि, आइयो, कैलि, लाइको, मार्क-स, नेट्रम-आर्स, नेजा, सिपि, सल्फ, टेरि ।

„ संधिकी—ऐन्ट्रो, **ऐक्टि-स्पा**, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, अरम, मूर, **बेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, सिमि, काक्कि, **कोलचि**, फेरम, गुयेज, हैमा, हिपर, कैलि-क्लोर, कैलि, लेके, **लेडम**, लाइको, मार्क, नेट्रम-मूर, नक्स-वोम, फ्लोडो, रास-टक्स, सेलि-ऐ, **सल्फ**, टेरि, वेरे-वि ।

„ „ शोथ भरा—काल्टि, नेट्रम-मूर ।

„ ऊर्द्धांगमें—ऐन्थ्रा, एपिस, आर्स, बेल, ब्राइयो, ब्यूफो, क्यूरे, फेरम फास, हाइड्रो, लेके, मेजे, फास, **रास-टक्स**, सल्फ ।

„ „ गरम—एपिस, काक्कि, मार्क ।

„ „ दर्द करनेवाला—लेके, मस्क, सल्फ, थूजा ।

„ „ लाल—**बेल**, ब्राइयो, ब्यूफो, लाइको, हिपर, मार्क, थूजा ।

„ „ शोथ मिला—एपिस, अरम, फेरम, लेके, लाइको, मार्क-कोर फास ।

„ „ बाँहकी (Arm)—एपिस, ब्राइयो, ग्रेफा ।

„ „ „ टीका देनेके बाद—**साइलि**, **थूजा**, सल्फ ।

„ „ „ दर्द करनेवाला—पल्स ।

„ „ केहुनीमें—ब्राइयो, कोलोसि, मार्क ।

„ „ निचले बाहुमें (Fore arm)—आर्स, फेरम-फास, ग्रेफा, लेके, मार्क, रास-टक्स ।

फूलन, निम्नागको, शोथ मिली ऐलबूमैन्यूरियाके साथ (अण्डलाल मिला मूत्रके With albuminuria)—एपिस, आर्स, कैल्के-आर्स, फेरम, लेके, सार्सा, टेरि।

" " उरुमें—हैमा, लेके।

" " घुटनेमें—इस्कि, ऐन्थ्रा, एपिस, आर्निका, आर्स-आयोड, आर्स, बेरा-म्यू, **बार्ब, ब्राइयो, कैल्के,** कैल्के-फास, चायना, सिकि, क्लिमे, काकि, कोल्चि, कोपे, हिपर, आइयो, कैलि-कार्ब, लेके, **लेडम, लाइको,** नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फाइटो, **पल्स, रासट-क्स,** सैलि-ऐ, सार्सा, साइलि, **सल्फ,** टेरि।

" " दाहिने—बेञ्जो-ऐ, इलेटे, सल्फ, टेरि।

" " " बांये—इस्कि।

" " " गरम—बेल, कैल्के, चायना, फेरम-फास, आइयो, **पल्स, वेरे-वि।**

" " " दर्द-मिली—एपिस, लेडम, **पल्स,** मैंगे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रास-टक्स।

" " " दर्द होन—लाइको, **पल्स।**

" " " वातकी वजहसे—ऐकोन, एपिस, आर्स, **ब्राइयो, लेडम,** लाइको, रास-टक्स।

" " " " घटना, शीतल प्रयोगसे—लैक-के, पल्स, **लेडम।**

" " " शोथ भरा—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, कैल्के, ब्राइयो, कोना, मार्क, आइयो, **रास-टक्स,** साइलि, **सल्फ।**

" " " सूजाक होनेके बाद—**क्लिमे,** मेडो।

" " " स्क्रोफुला दोषके साथ (गण्डमाला-Scrofulous)—आर्स, **कैल्के,** फेरम-आयोड, लाइको, पल्स, साइलि, सल्फ।

" " पेरमें (Leg)—**ऐकोन,** आर्स, अरम, अरम-म्यूर, बोवि, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कास्टि, कोलचि, हेलि, कैलि-बाइ,

कोलि-क्लोर, लेके, **लेडम**, मार्क, **लाइको**, नेट्रम-कार्ब, पल्स, **सैंगु**, सिफि, जिङ्क।

फुलन, निम्नागकी, लिये हुये, नीली आभा—लेकी, लेडम पल्स।

" " " टेखो ऐकिलिसकी—मूर ऐ, सिपि, जिङ्क।

" " पैरकी पोटलीकी (Calf)—कैल्के, डाल्का, लेडम।

" " पैरकी गाँठ (गुल्फ-सन्धि) में—**एपिस**, आर्स, ऐसाफि, कैक्ट, कैल्क, चेलिडो, कोलोसि, कोपे, डिजि, गुपे-पर्फो, फेरम, हिपर, हाइड्रो, लैक-कै, लैके, लाइको, **लेडो**, फास, फाइटो, सोरि, पल्स, रास-टक्स, रूटा।

" " " वातकी वजहसे—चेलिडो, कोल्चि, लेके।

" " " पैरके पञ्जेका—**एपिस**, आर्नि, **आर्स**, आर्स-आयोड, औरम, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-आर्स, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-सल्फ, कास्टि, चायना, काकि, कोलचि, डिजि, डल्केम, फेरम, ग्लोनो, ग्रेफा, हाइयो, कैलि-कार्ब, लेके, **लाइको**, **लेडो**, मार्क, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-मूर, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, पल्स, फाइटो, रास-टक्स, सेबु सिके, सिपि साइलि, स्टिक्टा।

" " " " दाहिनी—सिके स्पाइ, जिंक।

" " " " बायें—एपिस, डल्केम।

" " " " शोथके साथ (Oedematous)—एपिस, **एपिस**, ऐपो, आर्जेण्ट-नेट, आर्ज-नाइ, **आर्स**, आइयो, औरम, औरम मूर, कैक, कैल्के, कैल्के आर्स, कैम्फ, कैन्थ, **चेलिडो**, चायना, काफि, कोलचि, डिजि, गुपे-पर्फो, फेरम फेरम-आयोड, फेरम मूर, **ग्रेफा**, हेलि हाइड्रो आइयो कैलि कार्ब, लेके, **लाइको**, मार्की, मार्क, मार्क मूर **मार्क-कोर**, नेट्रम कार्ब नेट्रम मूर, नेट्रम [illegible], नाइट्रि-ऐ, [illegible] फास प्रुन्स **सैम्बु**, सुल्फि, जिंक।

फूलन, निम्नांगकी, पैरके पञ्जेकी, ऋतुके पहले—लाइको।
" " " " समय—कैल्के, ग्रैफा, लाइको, मार्क।
" " " " गर्भावस्थामें—मार्क-कोर, जिंक।
" " " " गर्म—आर्स, ब्राइयो, लाइको।
" " " " ठण्डा—एपिस, कैल्के।
" " " पैरका तलवाकी—ब्राइयो. कैल्के, चायना, कोलोसि, **लाइको**, नेट्रम-कार्ब, पेट्रो, पल्स।
" " " " ऍगुलीकी—एपिस, आर्नि, अरम-म्यूर, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कोलोसि, डैफ, लेडम, नेट्रम-कार्ब, पियोनि, सल्फ, थूजा।

फोड़ा (Abscess)-सन्धिमें—हिपर, मार्क, फास, साइलि।
" तलहत्थीमें—आर्स, बूफ़म, फ्लू-ऐ, सल्फ।
" ऍगुलीमें—फ्लू-ऐ, हिपर, लैके, मैङ्ग।
" निम्नांगमें—**ऐन्थ्रा**, चायना।
" , चूतड़में—सल्फ, थूजा।
" " सोयस ऐब्सेस (Psoas abscess)—आर्नि, ऐसाफि, चायना, **फास-ऐ, साइलि, सल्फ।**
" " ऊरूमें—**हिपर**, लैके, **साइलि**, टैरेण्ट।
" " घुटनेमें—वेल, कैल्के, गुयेज, आइयो, **साइलि**।
" " पैरकी पोटलीमें—चायना।
" " पैरकी गाँठमें—ऐड्रा, गुयेज, साइलि, **ओलि-जे**।
" " पैरके पञ्जेमें—**मार्क**, साइलि, टैरेण्ट।
" " एँड़ीमें—ऐमोन-कार्ब, आर्स, लैके।

बदरङ्ग होना-विवर्णता (Discoloration)—
" काला—आर्स, टैरेण्ट, ब्राइयो।
" काली लकीर पड़ना (Echymosis)—सिके, **सल्फ-ऐ**।
" नीला—**कार्बो-वेज**, डिजि, लैके, मार्क, ओपि।
" नील रङ्ग (Livid)—ऐगा, वैप्टी, आकजा-ऐसि, फास, सल्फ-ऐ।

बेरङ्ग, पीला रङ्ग—फास।

„ बैंगनी (Purple)—एपिस, वेरे-वि, जिंक।

„ फीका (पीला)—हाइड्रो-ऐ, आक्ज़ा-ऐ, वोवि, सिकेलि।

„ लाल रङ्ग—वेल, सिपि, स्ट्रैमो, वाइपे।

„ अङ्गोंमें, हाथमें काला—सल्फ-ऐ, टेरेण्ट, वाइपे।

„ „ „ नीला—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, आर्नि, ब्रोमि, वोक्ट, कैम्फ, कार्बो-वेज, काष्टि, क्रोटे-होर, डिजि, कोलि-कार्ब, लैके, मोरो, नक्स-वोम, प्लम्ब, स्ट्रैमो, वेरे, वेरे-वि, जिंक।

„ „ „ „ शीतावस्थामें—कैम्फ, म्यज्जि, वेरे।

„ „ „ पीला—चेलिडो।

„ „ „ लाल—ऐगा, एपिस, वेल।

„ „ „ सफेद—आर्स, वोल्के, केम्फ, इपि, प्लम्ब, सेगु, सिकेलि।

„ „ अंगुलीमें काला—सिकेलि, वाइपे।

„ „ „ काली लकीरके साथ—आफा।

„ „ „ नीला—काजि, क्रोटे-होर, फ्लुअम, पेट्रो, सल्फ।

„ „ „ लाल—ऐगा, वोरा, लाइको, नक्स वोम, थूजा।

„ „ नाखून, काले—आर्स, ग्रेफा।

„ „ „ नीले—आर्जेण्ट नाइ, आर्स, कार्बो-वेज, कैम्फ, चेलिडो, चायना, चिनि-सल्फ, फ्लुअस, डिजि, ड्रोसे, फेरम, ग्रेफा, मेजो, नेट्रम म्यूर, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, आक्ज़ा-ऐ, पेट्रो, फास, साइलि सल्फ, थूजा, वेरे, वेरे-वि।

„ „ „ „ ज्वरके समय—आर्जेण्ट नाइ, थूजा।

„ „ „ „ शीतावस्थामें—आर्स, चिनाफि, कार्बो वेज, चेलिडो, चायना, सिमि म, काफि, ड्रोसे, गुफर्स, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रास-टक्स।

बदरङ्ग, अर्द्धाङ्गमें, नाखून, पीला—**कोना**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **सिपि**, **साइलि**, सल्फ।

„ निम्नांग, काली लकीर—**सल्फ-ऐ**, फास।

„ „ नीला—क्यूप्रम, **आक्जा-ऐ**, सिकेलि, वेरे।

„ „ लाल दाग भरा—केलि-आयोड, **लैकी**, सल्फ।

„ „ पैरका पञ्जा (Foot), नीला—आर्जेण्ट-नाइ, केलि-कार्ब, म्यूर-ऐ।

„ „ „ उजला—एपिस, चायना, फास-ऐ।

„ „ „ लाल—कार्बो-सल्फ, पल्स, साइलि।

„ „ „ पीठ, नीली लकीरकी तरह—**कास्टि**, थूजा।

„ „ अंगुली काली—क्रोटे-होर, फास, **सिकेलि**।

„ „ „ लाल—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, अरम म्यूर, कार्बो-वेज, नक्स-वोम।

„ „ नाखून—आर्स, ग्रेफा, नाइट्रि-ऐ, आक्जा-ऐ, साइलि।

बेचैनी (Restlessness)—ऐल्यूमि, **आर्स**, कास्टि, चेलिडो, **चायना**, चिनि-आ, सिमि, सिमे, क्यूप्रम, **फेरम**, फेरम-आ, ग्लोनो, केलि-फास, **लाइको**, **नक्स-वोम**, फाइटो, प्लैटि, **पल्स**, **रास-टक्स**, **साइलि**, स्टेनम, **स्ट्रैमो**, **टैरे**, जिङ्क।

„ रातमें—ऐल्यूमि, **कास्टि**, कोल्चि, नाइ-ऐ, रास-टक्स, **जिङ्क**।

„ अर्द्धाङ्गका—**कास्टि**, ग्लोनो, सेफा, म्यूर-ऐ, टैरेण्टु।

„ „ हाथका—ऐल्यूमि, हाइयो।

„ निम्नागका—ऐनाका, **आर्स**, बेल, कोल्के-फास, कास्टि, चिनि-आ, **केलि-कार्ब**, लाइको, मेजे, नेट्रम-म्यूर, फास, फाइटो, प्लैटि, **रास-टक्स**, सिपि, **टैरे**, जिङ्क।

„ „ रातमें—**आर्स**, फाइटो।

„ „ पैरका—**ऐमोन-कार्ब**, ऐनाका, आर्ज-नाइ, **आर्स**, बेल, कोल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, चिनि-आ,

सिमि, फेरम, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, लैके, लाइको, मेडो, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, नक्स-म, फास, प्लेटि, रास-टक्स, सिपि, सल्फ, टेरे, जिङ्क ।

बेचैनी, निम्नाङ्गका पैरका, उत्तापके साथ—कैल्के, नक्स-वोम, रास-टक्स, सेवाडि ।

" " " पञ्जेका (Foot)—ऐल्यूमि, आर्स, कैमो, मेडो, नेट्रम-म्यूर, पल्स, रास-टक्स, ष्ट्रेमो, सल्फ, टेरे, जिङ्क ।

भार मालूम होना—ऐलो, ऐल्यूमि, एपिस, आर्जे-मेट, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कैमो, चेलि, चायना, क्लिमे, कोलोसि, कोना, कूमम, जेल्स, ग्रेफा, हेलि, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, लाइको, नाइसि, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, ओनस, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सैबाडि, सिके, सिपिया, साइलि, सल्फ ।

" गर्भावस्थामें—कैल्के-फास ।

" ज्वरावस्थामें—कैल्के, जेल्स, रास-टक्स, नक्स-वोम ।

" जर्द्धाङ्गमें—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यू, ऐम्ब्रा, एपिस, ऐण्टि-टार्ट, आर्जे-मेट, कैल्के, कास्टि, कार्बो ऐ, कोना, क्यूरे, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, हैमा, लैके, लेडम, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नक्स-म, ओनस, फास, प्लम्ब, पल्स, सैबाडि, साइलि, ष्ट्रेनम, ष्ट्रेमो, सल्फ, थेबुल ।

" " दाहिने—ऐमोन-म्यूर, पेरिस ।

" " बायें—डिजि ।

" " हाथमें—ऐल्यूमि, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, बोवि, कास्टि ... ऐ, फास, जिङ्क ।

" " अंगुलीमें—प्लम्ब ।

" " भुजाके भाग—ऐल्यू, एपिस, ... वोम ...

" निम्नांगका—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोनि, आर्जे-मेट, आर्स ... बार्य, कैल्के, ...

सिमि, काक्कि, कोना, डाल्का, जेल्स, ग्रैफा, हैमा, हिपर, इग्ने, केलि-आर्स, केलि-कार्ब, लाइको, मैग-म्यू, मेडो, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, ओनूस, पेट्रो, फास, पिक्रि-ऐ, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सेबाडि, सेने, सिपिया, साइलि, स्टेनम, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

भार मालूम होना, निम्नाङ्गका, ऋतुके पहिले—कोना, ग्रैफा।

„ „ ऋतुके समय—ऐमोन-कार्ब, ग्रैफा, सिपिया, जिङ्क।

„ „ „ रुक जानेसे (Suppressed)—ग्रैफा।

„ „ घूमनेके समय—बार्वि, कैल्के, कोना।

„ „ हिलने डोलनेके बाद—कोना, जेल्स, रास-टक्स।

„ „ उरुमें—ऐग्न, ऐगा, आर्नि, ब्राइयो, कैल्के, चायना, गुयेज, हिपर, केलि-कार्ब, लाइको, मार्क, पल्स, सिपिया, स्टेनम, थूजा।

„ „ घुटनेमें—कोना, नक्स-म, प्लेटि, स्टेनम।

„ „ पैरमें (leg)—इथु, ऐगा, ऐल्यूमि, आर्जे-ना, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कार्बो ऐ, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कैमो, चेलि, चायना, सिमि, कोल्चि, कोलोसि, फेरम, जेल्स, केलि-बा, ग्रैफा, केलि-कार्ब, मैग-म्यू, मेडो, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नक्स-म, नक्स-वोम, ओनूस, पेट्रो, फास, फाइटो, पिक्रि-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ „ पैरके पञ्जेमें (Foot)—ऐगा, ऐग्न, एल्यूमि, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, अरम, बेल, बोवि, कैल्के, काक्कि, साइक्ला, ग्रैफा, इग्ने, केलि-आर्स, केलि-कार्ब, लेडम, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, ओलि-ऐनि, पेट्रो, फास, प्लेटि, पिक्रि-ऐ, पल्स, सेबाडि, सार्सा, सिपिया, साइलि, सल्फ।

मसा, जननेन्द्रियमें—कैल्के, कास्टि, नेट्रम सल्फ, सिपि, साइलि।

मसा, हाथका—ऐसिड-क्रूड, बेरा कार्ब, कैल्के, कास्टि, डाल्का, फेरम, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, सोरि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, **सल्फ, थूजा।**

" " अंगुलीमें—बैरा-कार्ब, कैल्के, कास्टि, डाल्का, फेरम, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, सिपि, थूजा।

" " " अगले भागमें—कास्टि, डाल्का, थूजा।

मिल्क लेग (Milk leg)—ऐलि-सि, आर्नि, बेल, **ब्राइयो**, ब्यूफो, कोल्चि, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, सल्फ।

मुट्ठी बन्द, अंगुली—एपिस, बेल, सिकि, कोनोसि, ग्लोनो, हाइड्रो-ऐ, एपिस, लोरो।

" " अंगूठा (Thumb)—ड्रयू, एपिस, केम्फ, कास्टि, कैमो, काक्वि, **कूप्रम**, ग्लोनो, सिकेलि।

" " मृगी रोगसे—ब्यूफो, कास्टि, सिकि, लेके, स्ट्रेनम।

मोटा नाखून—ऐन्यूमि, **ऐसिड-क्रूड, ग्रेफा,** केल्के, मार्क, मेबाडि, सिपि, **साइलि**, सल्फ, कास्टि।

रुखडा, हाथ—ड्रस्लि, ऐनेन्थ, आर्नि, कैल्के, कैलेण्डु, **ग्रेफा, हिपर, पेट्रो, रास-टक्स**, कैलि-कार्ब, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, नेट्रम म्यू, **सार्सा, सिपिया**, साइलि, **सल्फ**, जिङ्क।

" नाखून—ग्रेफा, **साइलि।**

लङ्गडापन (Lameness)—एपिस, आर्स, ऐसि, कास्टि, कैमो, पायगा, **सिनेबा**, काकि, **कोल्चि**, कोना, ड्रोसे, फार्मि, **मार्क**, रास-टक्स, साइलि, जिङ्क।

" सन्धिका—**रास-टक्स**, साइलि।

" जङ्घाङ्गका—ड्रोसि, केल्के, सिनेबा, माइक्रो, काकि फेरम, फ्लु ऐ, मैग-कार्ब, फाइटो, सोरि, रास टक्स सिपि।

" " दाहिने—फेरम, **सैंगु।**

" " बायें—रास टक्स।

लंगड़ापन, ऊर्द्धांगका, कन्धेका—ऐलि-सि, फ्लू-ऐ, लैके, नेट्रम-म्यू, रास-टक्स।
„ „ केहुनीका—ऐलि-सि ।
„ „ हाथका—कूप्रम, कैलि-बाइ, जिङ्क ।
„ „ अंगुलीका—सिपि ।

„ निम्नांगका—कोलचि, प्लम्ब, रास-टक्स ।
„ „ ऊरुका—आर्स, कार्बो-वेज, कैल्के, चायना, आइरि, कैलि-कार्ब, मार्क, स्टैनम, जिङ्क ।
„ „ घुटनेका—ऐलि-सि, बैरा-कार्ब, कैल्के, कैलि-कार्ब, न्युक्सि ।
„ „ पैरकी गाँठका—आर्निका, रूटा ।
„ „ पैरके पञ्जेका—अरम, कोलचि, रास-टक्स ।
„ „ अंगुलीका—अरम ।

शिथिलता (Relaxation)—चायना, कार्बो-वेज ।
„ सन्धिका—बैरा-कार्ब, लोबी ।
„ ऊर्द्धांगका—गुयेज, हेलि ।
„ हाथका—जेल्स, नेट्रम-कार्ब ।
„ निम्नांगका—ऐम्ब्रा, ऐमोन म्यू, ऐंगा, कैम्फ, कैन्थ, सिकि, गुयेज, हेलि, लैके, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, स्ट्रैमो, वेरे ।
„ „ जानु सन्धिका—कैल्के, थूजा ।
„ „ घुटनेका—लिथि, फास, प्लम्ब, सल्फ ।
„ „ पैरके पञ्जेका (Foot)—जेल्स ।

शिरा फूलना (Varicose veins)-ऊर्द्धांगका—नक्स-वोम, पल्स ।
„ निम्नांगका—ऐम्ब्रा, आर्नि, आर्स, कैल्के, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, क्रोटे, फेरम, ग्रैफा, फ्लू-ऐ, हैमा, हिपर, कैलि-आर्स, क्रियो, लैके, लाइको, लाइकोप, नेट्रम-म्यू, प्लम्ब, पल्स, सल्फ, थूजा जिङ्क ।
„ „ गर्भावस्थामें—आर्नि, आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, फेरम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हैमा, लाइको, मिलि, नक्स-वोम, पल्स, जिङ्क ।

शिरा फूलना, निम्नाङ्गका, ऊरुमें—कैल्के, पल्स, लिड।
" " पैरमें (Leg)—कैल्के, कार्बो-स, कार्बो-वेज, फ्लू-ए, हैमा, लाइको, मिलि, नेट्रम म्यू, पलुरा, सल्फ, जिङ्क।
" " खुजलीके साथ—ग्रेफा।
" " " गर्भावस्थामें—फेरम, लाइको पलस, लाइकोप, मिलि, जिङ्क।
" " " दर्द करने वाला—कास्टि, हैमा, लाइको, मिलि, पल्स, जिङ्क।
" " " दर्द—कैल्के।
" " " रक्त-स्राव होने वाला—हैमा, पल्स।
" " पैरके पञ्जेमें (Foot)—फेरम, पलस, थूजा।
शीत मालूम होना (Chilliness)—आर्स, जेल्स, हाइयो, नेट्रम म्यूर, नक्स, बोम, सोरि, रास-टक्स।
" ऊर्ध्वाङ्गमें—कैल्के, कास्टि, ग्रैफि, पल्स।
" निम्नाङ्गमें—काकि, पेरि, सिपि।
" " ऊरुमें—सोरि, स्पञ्जि।
" " पैरके पञ्जेमें (Foot)—ग्रेसिरा, नाइट्रि-ए, फास, रास टक्स सल्फ।
" " अँगुलीमें—ऐगा, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, क्रोकस, पेट्रो, सल्फ।
शीर्णता (दुबलापन Emaciation)—कैल्के, प्लम्ब, सिकेलि, सल्फ।
" पक्षाघात ग्रस्त शरीरका—कैलि फास, प्लम्ब, सिके, सिपि।
" पीड़ा ग्रस्त शरीरका—आर्स, ग्रेफा लीडम, मेजे, प्लम्ब, पल्स सिकलि, सिपि।
" ऊर्ध्वाङ्गका-टीका देनेके बाद—सिलिशि, थूजा।
" " कन्धेका—प्लम्ब, सम्बुक।
" " बाँहका (Arm)—नाइट्रि ए।
" " निचली बाँहका (Fore arm)—फास।
" " हाथका—फास।

शीर्णता ऊर्द्धाङ्गका, अँगुलीका—लैके, साइलि, थूजा।
„ निम्नांगका—ऐब्रो, एपिस, आर्जेण्ट-नाई. आर्स, कैल्के, सैनि।
„ „ उरुका—कैल्के, नाइट्रि-ऐ, सिलि।
„ „ पैरका (Leg)—ऐब्रो, एपिस, बोवि, कैल्के, कैम्फि, **नक्स-वोम, रास-टक्स।**
„ „ पैरके पञ्जेका (Foot)—आर्स, **कास्टि।**

गोप (नासूर), सन्धिमें—कैल्के, हिपर, **फास, साइलि,** सल्फ।
„ तलहत्थीमें—आर्स।
„ उरु सन्धिमें—कैल्के, कार्बो-वेज, **लैके, फास,** साइलि।
„ उरुमें—कैल्के।
„ पैरमें (Leg)—रूटा।
„ पैरकी गाँठमें—कैल्के-फास।

सड़ना (Gangrene)—**आर्स,** कार्बो-वेज, चायना, क्रोटे-हो, **लैके,** फास, प्लम्ब, सिके।
„ ऊर्द्धाङ्गका—**आर्स,** क्रोटे-हो, सिके।
„ „ ठण्डकके साथ—सिकेलि।
„ „ हाथका—आर्स, लैके, सिके।
„ „ अँगुलीका—सिकेलि।
„ निम्नागका—ऐन्थ्रा, **आर्स,** क्रोटे-हो, लैके, सिकेलि।
„ „ पैरका—ऐन्थ्रा, क्रोटे-हो, आइयो, **सिकेलि।**
„ „ पैरके पञ्जेका—ऐसिट-क्रूड, ऐसिट-टा, कैलेण्डु, **लैके,** मार्क, **सिकेलि,** वाइपे।
„ „ „ ठण्डकके साथ—सिकेलि।
„ „ अँगुलीका—क्रोटे-हो, कूप्रम, आइयो, लैके **सिकेलि।**
„ „ „ बुड्ढे आदमियों का—कार्बो-वेज, कूप्रम, **फास-ऐ, सिकेलि।**

सङ्कोचन मास पेशीका और टेण्डनका—आर्स, बैरा कार्ब, बेल **कैल्के, कास्टि, कोलोसि,** क्रोटे-होर, कूप्रम, **ग्रैफा,** गुयेकम, कैलि बाइ, मार्क, **लाइको,** नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, रूटा, **सिके,** सिपि, साइलि।

,, ऊर्द्धाङ्गका—कैल्के, हाइड्रो ऐसि, इपि, रास-टक्स।

,, ,, हाथका—ऐनाका, कास्टि, नक्स वोम, सिके, साइलि।

,, ,, अंगुलीका—ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आस, **कास्टि,** कैल्के, कूप्रम ऐसि, फेरम, ग्रैफा, मार्क, नेट्रम-कार्ब, प्लंटि, सिके, साइलि।

,, ,, ,, अकड़न भरा (Spasmodic)—ऐनाका, बेल, कैल्के, सिकि, ग्लोनो, हाइड्रो ऐसि, इपि, लके, लोरो, मैग फास।

,, ,, ,, मृगी रोगमें—लैके, मैग-फास, मार्क।

,, निम्नाङ्गका—**ऐमोन म्यूर,** बैरा कार्ब, कास्टि, कोलोसि, गुयेज, फास, रास टक्स।

,, ,, घुटनेका—ऐमोन-म्यूर, **कास्टि,** सिमे, **गुयेज,** ग्रफा, मर्जे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, रास टक्स, **स्टैफि,** सल्फ, टल।

,, ,, पैरका (Leg)—**ऐमोन-म्यूर,** एस्टिरि, सिकि, नेट्रम म्यूर, फाइटो।

,, ,, पैरकी पोटलीका—ग्नैफि, कास्टि।

,, ,, टेण्डो एकिलिसका (Tendo-achilis) कल्के, कैना सं, कार्बो ऐनि, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, सिपि।

,, ,, परके पञ्जेका—कैना सं, कास्टि, सिकेलि।

,, ,, अंगुलीका—फेरम।

सिकुड़ा हुआ (Shrivelled) हाथ—आस, लग, लाइको, फास ए, **फास,** वेरे।

,, ,, अँगुली—फास, वेर।

,, ,, ,, पसीनेसे भाग—**मार्क, वेरे।**

सिकुड़ी हुई अंगुली, हैजामे—कैम्फ, **वेरे** ।

" " पैरका पञ्जा—आर्स, मार्क-कोर, वेर।

सुड़सुड़ाना, कीड़ा रेंगता है मानो—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, आर्जेण्ट नाई, कैम्फ, इग्ने, लोरो, **लाइको,** नक्स वोम, फास ऐ, फास, पल्स, होडो, **रास-टक्स, सिके, टैरेण्ट,** जिङ्क।

" पक्षाघात रोगमे—**फास** ।

" ऊर्द्धाङ्गमे—**ऐकोन,** ऐल्यूमि, वल, काक्कि, ग्रैफा, हिपर, होडो, सिकेलि।

" " हाथमे—ऐकोन, ग्रैफा, हाइयो, हाइपि, होडो, सिके, सल्फ।

" , अंगुलीमे—**ऐकोन, लाइको,** मैग सल्फ, रास टक्स।

" " " अग्र भागमे (Tip)—**ऐमोन-म्यूर, सिके** ।

" निम्नांगमे—आर्स, **कैल्के,** प्लंटि, सिपि।

" " पक्षाघात ग्रस्त शरीरमें—नक्स-वोम।

" " उरुमे—गुयेज, नेट्रम कार्ब, पैलेडि।

" " पैरमे (Leg)—आर्जेण्ट नाइ, आर्निका, कैल्के-फास, हिपर, **नक्स-वोम,** फास ऐ, होडो सिके, सिपि, टवे, जिङ्क।

" " पैरके पञ्जेमे—**ऐगा,** कास्टि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, रास-टक्स, सिके, रटेनम, सल्फ।

" " पैरके तलवेमे—**कास्टि,** कोलोसि।

" " एडीमे—**ग्रैफा,** सल्फ।

" , अंगुलीमे—ऐमोन-म्यूर, होडो, सिके।

सुन्न होना (Numbness)—ऐकोन, **ऐगा,** ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **आर्ज-मे,** आर्ज ना, आर्नि, आर्स, अरम, कैल्के, [illegible] **कार्बो-वेज,** कैमो, चायना, चिनि-स, [illegible] हो, डालका, फ्लूर-ऐ, **जेल्स, ग्रैफा,** [illegible] कैलि स, क्रियो, लेडम, **लाइको,** मार्क, [illegible] वोम, ओनस, पेट्रो, फास, प्लम्ब, पल्स, [illegible] साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे, जिङ्क।

सुन्न होना, सोनेसे—अरम, कार्बो-वेज, चायना, सल्फ, वेरे, जिङ्क ।

„ „ दबाकर—कैल्के, **कार्बो-वेज,** चायना, कैलि-कार्ब, पल्स, **रास-टक्स**, साइलि ।

„ ऊर्द्धाङ्गका—**ऐकोन,** ऐल्यूमि, ऐल्यू, ऐम्ब्रा, **एपिस,** बैरा-कार्ब ब्यूफो, कैक्ट, **कार्बो-स,** कार्बो वेज, कैमो, काकि, कोना, कोकस, कूप्रम, इथू, डालका फूल-ऐ **ग्रैफा,** हिपर, लैके, **लाइको,** नक्स वोम, ओनम, पले, फास, प्लम्ब, पल्स, होडो, **रास-टक्स,** सिके, सिपि, सल्फ ।

„ „ दाहिने—हिपर, लिलि-टिग, लाइको, साइलि ।

„ „ बायें—ऐकोन, बैरा-कार्ब, **कैक्ट,** ग्र फा, लैके, फास ।

„ „ „ हृद् रोगसे—**ऐकोन, कैक्ट,** ग्लोनो, लैके, नेजा, **रास-टक्स** सम्बुल ।

„ „ रातमे—ऐम्ब्रा, कोक, इग्ने, लाइको, नक्स-वोम, पैलेडि ।

„ „ सोनेसे दबाकर—ऐम्ब्रा, बैरा-कार्ब, कैल्क, कार्बो-वेज, कैलि कार्ब, लैके, फास, पल्स, **रास-टक्स,** साइलि ।

„ „ कन्धेका—प्लम्ब, आर्टि-यु ।

„ „ बाँहका—**ऐकोन,** कार्बोनि स, कैमो, काकि, कूप्रम, ग्लोनो, कलि कार्ब, नेट्रम म्यूर, नाइ ऐ, ओपि, पैले, प्लम्ब, सल्फ ।

„ „ कलाईका—प्लम्ब, जिङ्क ।

„ „ हाथका—ऐकोन, एपिस, आर्स, कैल्क, कैम्फ **कार्बो-एनि,** कार्बोनि स, कार्बो-वेज, कास्टि, **काकि,** कोलचि, कोना, डाल्का, फेरम, **ग्रै फा,** कलि-आ, **कैलि-कार्ब,** लैक, **लाइको,** मर्क, नेट्रम-म्यूर, नाइ ऐ, नक्स-वोम, ओपि, **फास,** प्लम्ब, पल्स, सिके, सारजि, जिङ्क ।

„ „ „ दाहिने—बेल्स, हिपर ।

„ „ „ बायें—ब्लेट-ओर, ग्र फा, लैके, नार्टि ए, रास टक्स ।

सुन्न होना, उद्धागका, हाथका, रातमें—**साइलि** ।

" " " शीतावस्थामें—एपिस, सिमे, लाइको, **पल्स, सिपि** ।

" " " अंगुलीका—ऐकोन, एपिस, आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-सल्फ, कास्टि, सिकि, सिमे, कोना, क्युप्रम, **डिजि,** फेरम, फेरम-आ, **ग्रैफा,** हिपर, आइयो, कैलि-आ, कैलि-ह्वो, क्रियो, **लाइको, फास,** प्लम्ब, **रास-टक्स,** सिके, सल्फ, सिपि, साइलि ।

" " " अग्रभाग—एपिस, कास्टि, लैके, मेजे, फास, सिके, स्पञ्जि, स्टैफि।

" " " अंगूठेका—कास्टि ।

" निम्नांगका—ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, कैल्क-फास, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चेलिडो, चिनि-सल्फ, कोना, **कैलि-कार्ब, ग्रैफा,** लाइको, नक्स-वोम ओनस, फास **पल्स,** रास-टक्स, सिके, सिपि ।

" " घूमने फिरनेसे—ऐल्यूमि, प्लम्ब, रास-टक्स, सिपि, थूजा ।

" " चूतड़का (Nates)—कैल्के-फास।

" " " बैठे रहनेसे—ऐलूमि, कैल्के-फास, सल्फ ।

" " बैठे रहनेसे—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, कैल्के-फास ।

" " उरु-सन्धिका (Hip joint)—एपिस ।

" " उरुका—आर्स, कैल्के, कोना, फ्लुओ-ऐ, फेरम, ग्रैफा, क्रियो, लैक डि, प्लम्ब, स्पञ्जि ।

" " घुटनेका (Knee)—कोलोसि, प्लैटि ।

" " पैरका (Leg)—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, कास्टि, ऐल्यूमि, एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई आर्स, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, काक्कि, कोलोसि, **कोना,** क्रोटे-होर, **ग्रैफा,** लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** ओनस, ओपि, फास, फाइटो, फाइटो **प्लैटि,** पल्स, **रास-टक्स,** साइलि।

" " " बैठे रहनेसे—ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के-फास ।

सुन्न होना, निम्नागका, पैरकी गाँठका—लैक-कै।

" " पैरके पञ्जेका—ऐकोन, ऐलूमि, एपिस, आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, ३पटी, कैल्के-कार्ब, कार्बो-वेज, कास्टि, काफि, कोना, ग्रेफा, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, पल्स, सिकै, थूजा।

" " " बैठे रहनेसे—ऐण्टिम-टा, कैल्के, प्लैटि, पल्स।

" " " शीतावस्थामें—सिपि, लाइको, पल्स।

" " पैरके तलवेका—ऐल्यूमि, भार्स, केना-ई, काफि।

" " पैरकी एँडीका—ऐल्यूमि, स्ट्रैमो।

" " पैरकी अंगुलीका—ऐकोन, आर्स, कैल्के, कास्टि, कैमो, चेलिडो, कोना, ग्रैफा, फास, सिकै।

स्थानसे हट जाना, अस्थिका, (Dislocation), उरु-सन्धिका—बेल, ब्राइयो, कैल्क, कास्टि, कोलोसि, लाइको, पल्स, रास टक्स, सल्फ, जिङ्क।

" पैरकी सन्धिका (Ankle joint)—ब्राइयो, कैलि-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, रूटा, नक्स-वोम, सल्फ।

स्पन्दन, फड़कना (Twitching)—ऐगा, ऐल्यूमि, एपिस, आर्स, बेल, कैमो, चेलिडो, चायना, सिकै, सिना, काकि, काफि, क्युप्रम, हाइयो, इग्ने, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्युर, नक्स मस, नक्स वोम, ओपि, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, स्ट्रिक्नि, जिङ्क, वेलि।

एक बगलका, दूसरे बगलका पक्षाघात—एपिस, बेल, स्ट्रैमो।

" एक हाथ और एक पैर—एपिस, ऐपो, हेलि, स्ट्रैमो थ्यूजा।

" घूमता फिरता है—काकि, ग्रैफा कोलोसि, मार्क, नेट्रम सल्फ, प्लैटि।

" नींदके उपक्रममें—आर्स, कैमो, नेट्रम म्यूर।

. नींदकी अवस्थामें—आर्स, कोन्नि हेलि, कैलि-कार्ब, लाइको, सिपि, स्ट्रैमो, जिङ्क।

स्पन्दन, पक्षाघात ग्रस्त शरीरमें—आर्जेण्ट-नाइ, सिके।

„ सुन्नताके बाद—**रास-टक्स**।

„ जोड़ोंमें—एण्टिम-टार्ट, एसाफि, कास्टि, चेलिडो, **सिकि**, काकि, कूप्रम, केलि-कार्ब, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, नक्स-वोम, ओलि, **थूजा**, वेले।

„ „ बाँहका (Arm)—लाइको, रेना-ब।

„ „ निचली बाँहका (Fore-arm)—लेडम, टैरेण्ट।

„ „ हाथका—एसाफि, सिना, काकि, काफि, कूप्रम, ओपि, हाइयो, नक्स-वोम, स्ट्रैमो।

„ „ अंगुलीका—एकोन, एगा, एल्यूमि, एनाका, काकि, चायना, सिकि, सिमि, सिना, मार्क, नेट्रम-कार्ब, ओम्नि।

„ „ निम्नांगका—एल्यूमि, कूप्रम, हेलि, नक्स-वोम, ओपि, रास-टक्स, स्टान्नि, वेरे।

„ „ चूतड़में—**एगा**।

„ „ उरुका—एनाका, कास्टि, ग्रैफा, कैलि-आर्स, **कैलि-कार्ब**, कैलि-स, मैङ्ग, मेजि, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स, सिपिया, सल्फ।

„ „ घुटनेका—बेल।

„ „ पैरका—एनाका, कैम्फ, चेलिडो, कूप्रम, ग्रैफा, हेलि, इपि, लेके, मार्क-कोर, ओपि, रास-टक्स, वेरे।

„ „ पैरकी पोटलीका—**ग्रैफा**।

„ „ पैरके पञ्जेका—एल्यूमि, ग्रैफा, **हाइयो**, इपि, नेट्रम-कार्ब, थूजा, स्ट्रैमो।

„ „ पैरके तलवेका—क्रोटन-टिग, कूप्रम, ग्रैफा, प्लैटि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

„ „ एँड़ीका—एलि-सि, एमोन-कार्ब, कैल्मि, लिथि, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब।

„ „ अंगुली—एकोन, सिमि, कूप्रम, मार्क।

साधारण लक्षण (GENERALITIES) ।

दिनमें—ऐमोन-म्यूर, फेरम, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सेगु, **सिपि, सल्फ** ।

सवेरे—ऐबि-ना, ऐकोन, ऐगा, ऐलो, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, **ऐमोन-म्यूर,** ऐनाका, ऐण्टि-क्रूड, **आर्ज-मेट,** आर्ज-नाई, आर्नि, आर्स, **आर्स-आयोड, अरम,** बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, बोरा, बोवि, **ब्राइयो, केल्के,** केन्थ, केप्सि, **कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज,** केमो, **चेलिडो,** चायना, क्रोमि-ऐसि, सिना, कोका, काफि, कोलचि, कोलोसि, कोना, **क्रोका,** क्रोटे-ह्री, कूप्रम, डिजि, डायस्को, ड्रोसे, डाल्का, इयुपे-पर्फो, इयुफ्रे, फेरम, फेरम-फास, गैम्बो, जेल्स, ग्रेफा, गुयेज, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, आइयो, इपि, **केलि-बा,** केलि-कार्ब, केलि-आर्स, **केलि-ना,** केल्मि, क्रियो, लेके, लाइको, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यू,** नेट्रम-स, **नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओनस,** ओपि, **पेट्रो, फास-ऐ, फास,** फाइटो, प्लम्बे, प्लेटि, प्लम्ब, **पोडो,** सोरि, **पल्स,** रैना-ब, रियुम, **रोडो, रास टक्स, रूमे,** सैबाई, सेंगु, सिलि, सिनि, सेने, **सिपि,** साइलि, स्पाइजि, स्क्रुई, स्टेनम, स्टेफि, स्ट्रेमो, **सल्फ,** टेबे, **वेलि,** थेरे, वेरे-वि, जिङ्क ।

» सूर्योदयके पहले—ब्रोमो, नक्स-वोम, पल्स ।

» ७ बजे—इयुपे पर्फो, पोडो ।

» ८ बजे—केमो, केलि-कार्ब, पोडो ।

» १० बजे—सिलि, जेल्स, **नेट्रम-म्यू,** नक्स वोम ।

» ११ बजे—आर्ज-मेट, आर्म आर्स, केल्ट, हाइयो, इपि, सल्फ ।

पूर्वान्हमें (दोपहरके पहले)—ऐण्टि क्रूड, ऐण्टि टा, आर्ज मेट, आर्स, बेल, ब्राइयो, केल्के, **कोना-से,** कार्बो वेज, काफि, केमो, ग्रायना

कोलोसि, कूप्रम, ड्रोसे, डाल्का, ड्युफ्रे, फेरम, ग्रेफा, गुयेज, हिपर, इग्ने, इपि, लेके, लोरो, लाइको, मार्क, मेजे, **नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर,** नक्स-म, फास-ऐ, फास, **पोडो,** पल्स, रैना व, रास-टक्स, **सैबाडि, सिपि,** साइलि, स्पाइजि, **स्टेनम,** स्टैफि, सल्फ, टैराक्स, टियुक्रि, वायो-ट्रि ।

मध्यान्हमें—एपिस, **आर्ज-मेट,** कार्बो-वेज, नक्स-म, सल्फ, वेले ।

अपरान्हमें (तीसरे पहर)—ऐगा, ऐलो, **ऐल्युमि,** ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन म्यूर, ऐण्टिम-क्रूड, एपिस, आर्ज-मे, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, ऐसार, **बेल,** बिस्मथ, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कैमो, चेलिडो, सिफि, सिमि, कोलोसि, डिजि, डाल्का, जेल्स, हिपर, हाइयो, इपि, **कैलि-वा, कैलि-ना,** लोरो, लेडम, **लाइको,** मार्क, मस्क, म्यू-ऐ, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, **पल्स,** रैना-ब, **रास-टक्स,** रूसे, सैंगु, सार्सा, सिलि, सेने, **सिपि, साइलि, सिना-ना,** स्टैफि, स्टिलि, **सल्फ,** टियुक्रि, **थूजा,** वेले, वायो-ट्रि, जिङ्क ।

„ १ बजे—आर्ज-मेट, मैग-कार्ब ।

„ २ बजे—कैल्के, लैके, लोबो, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सैंगु ।

„ ३ बजे—एपिस, आर्स, ऐसार, क्लिमे, साइलि, स्टैफि, सल्फ, थूजा ।

„ ४ बजे—ऐनाका, कार्बो-वेज, चेलिडो, जेल्स, हेलि, कैलि-कार्ब, **लाइको,** मैग-म्यूर, म्यूर-ऐ, पल्स ।

„ ४ बजेसे ८ बजे तक—बोवि, हेलि, **लाइको,** नक्स-म, सल्फ।

„ ५ बजे—सिमि, कोलोसि, कोना, हिपर, कैलि-कार्ब, सल्फ ।

सन्ध्यामें—ऐकोन, ऐलिसि, **ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब,** ऐमोन-म्यूर, **ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट,** एपिस, आर्ज-मेट, आर्ज-नाइट्रि, **आर्निका,** आर्स, ऐसाफि, ऐसार, बेप्टी, **बेल,** बोरा, **ब्राइयो,** केलेडि, कैमो, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, **कैप्सि,** कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कास्टि,** कैमो, सिमि, काकि, **कौलचि,** कोलोसि, कोना, क्रोकस, **साइक्ला,**

डाल्का, ड्रयुस्रो, फेरम, गेम्बो, गुयेज, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, कैलि-वा, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, कैलि-स, कैल्मि, लैकि, लोरो, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-मि, मैग्ने, सिनि, मार्क, मार्क-आ-रू, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, पेरि, पेट्रो, फास-ऐ, फास, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रैना-ब, रैना-सि, रोडो, रास-टक्स, रूमे, रूटा, सैबाड़ि, सैंबु, सैंगु, सार्सा, सेने, सिपि, साइलि, सिना-ना, स्टेनम, स्ट्रान्सि, सल्फ-ऐ, सल्फ, स्ट्रामो, थूजा, येसी, जिङ्क ।

सन्ध्यामें, उपशम—ऐल्यूमि, आर्निका, आर्जे-मेट, आरम, लाइको ।

» वृद्धि, खुली हवामें—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, ग्राफी, नाइट्रि-ऐ, सल्फ ।

» » गोधूलिके समय—ऐमोन-म्यू, आर्स, कैल्के, नेट्रम-म्यूर, पल्स, रास-टक्स ।

» » सूर्यास्तसे सूर्योदय तक—आरम, सिमि, फोस्फि, सिफि ।

» » सोनेके बाद—आर्स, इग्ने, लेडम, फास, सल्फ, थूजा ।

» ४ बजे—बैप्टी, कैल्के-फास, कास्टि, डिजि, हिपर, आइरि, सैनि-आयोड ।

» ६ बजेसे ७ बजे तक—हिपर ।

» ७ बजे—ऐण्टि-क्रूड, बोवि, लाइको, पेट्रो, रास टक्स ।

» ८ बजे—मार्क-आ-रू, स्ट्रामो ।

» ९ बजे—ब्राइयो, म्यू-ऐ, सल्फ ।

रातमें—ऐकोन, ऐमोन-ब्रोम, ऐमोन-म्यू, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज नाइ, आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, बराइ, बेरा कार्ब, बेल, बोवि, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, कैना इ, कैप्सि, कौस्टि, कैमो, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, कोक्कस, चायना, सिना, कोफि, काफि, कोलचि, कोलोसि, कोनि, क्रोकस, क्रोटे-ट, कुप्रम, साइक्ला, डिजि, डल्का

इकुई, **फेरम,** फलू-ऐ, गैम्बो, **ग्रैफा,** हेलि, **हिपर, हाइयो,** इग्ने, **आइयो, इपि,** कैलि-ब्रा, कैलि-ब्रोम, कैलि-कार्ब, कैलि-आ, **लैके,** लेडम, लिलि-टिग, लाइको, **मैग-कार्ब, मैग-मि, मैङ्ग, मार्क,** मार्क-कोर, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, ओलियै, ओपि, आक्जा-ऐ, पेट्रो, फास-ऐ, **फास,** फाइटो, पिक्रि-ऐ, **सल्ब, सोरि, पल्स,** रियुम, **रास-टक्स, रूमे,** रैंबु, सार्सा, सिके, सेलि, **सिपि, साइलि,** स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो, **स्ट्रान्सि,** सल्फ-ऐ, **सल्फ, टेलू,** थूजा, वायो-ट्रि, जिङ्क।

रातमें, सन्ध्या ६ बजेसे सवेरे ६ बजे तक—क्रियो, सिफि।

„ १० बजे—कैमो, पोडो, पल्स।

„ ११ बजे—बैल, कैक्ट, लैके, रूमे, साइलि।

„ आधी रातके पहले—ऐण्टि-टार्ट, **आर्जे-नाई, आर्स,** बैल, ब्राइयो, **कार्बो-वेज,** कास्टि, कैमो, कूप्रम, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, लैके, **लेडम, लाइको,** मैङ्ग, मार्क, मेजे, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, सोरि, **पल्स,** रैना-ब, **रैना-सि,** रास-टक्स, **रूमे,** रूटा, **सैबाडि,** सिपि, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, वेले।

„ „ बाद—ऐकोन, **आर्स,** ब्राइयो, कैल्के, कैना-सै, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, कूप्रम, **डोसे,** फिरम, जेल्स, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, **कैलि-कार्ब, कैलि-ना,** लाइको, मैग कार्ब, मार्क, मेजे, **नक्स-वोम,** फास-ऐ, **फास, पोडो,** जेल्स, रैना-सि, **रास-टक्स,** सैबु, **साइलि,** स्क्वइ, सल्फ, थूजा।

„ „ १ बजे—आर्स, म्यू-ऐ।

„ „ २ बजे—हिपर, कैलि-कार्ब।

„ „ ३ बजे—ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, बैप्टी, कैल्के, चायना, **कैलि-कार्ब,** नक्स-वोम, पोडो, थूजा, जिंक।

रातमें, आधी रातके बाद, ४ बजे—ऐल्यूमि, पोडो।

" " ५ बजे—पोडो।

" " ६ बजे—ऐलो, कैल्के-फास, साइलि, सल्फ, वेरे।

अकड़न (Stiffness, Rigidity)—बेल, कैमो, **चेलिडो**, सिकि, सिमि, कोल्चि, **ड्रोसे**, हाइयो, इग्ने, **कैल्मि**, **लेडम**, लिथि, नक्स-वोम, फाइटो, प्लैटि, पल्स, **रास-टक्स**, सिके, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

" मालूम होना—ऐगा, ऐमोन-म्यूर, आर्जेण्ट-मेट, **ऐसाफि**, वेप्टि, बार्ये, कैल्के-फास, कास्टि, कैमो, चायना, सिना, काकि, डाल्का, गुयेज, लैके, मेजे, प्लैटी, फ्लोडो, **सल्फ**।

अनुभूति लोप (Sensation, loss of)—ऐकोन, ऐनाका, आर्निका, आर्स, वेल, कैल्के, कास्टि, चायना, सिकि, काकि, हेलि, लौरो, नाइकी, मार्क, मस्क, **नक्स-वोम**, **ओलि**, ओपि, फास, फास ऐ, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, **रास-टक्स**, सिके, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

अवसाद (Weariness)—"थकान" देखिये।

अस्थि-कोमलता—**ऐसाफि**, वेल, **कैल्के**, कैल्के-फ्लु, कैल्के-फास, हिपर, लाइको, **मार्क**, नाइट्रि-ऐ, मेजे, फास, फास-ऐ, पल्स, रूटा, सिपि, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, थेरि।

" जख्म (Caries)—**ऐङ्गु**, आर्स, **ऐसाफि**, ऑरम, ऑरम-मि, ऑरम-मि-ने, कैल्के, कैल्के फ्लु, कैल्के-फास, सिस्टा, फ्लम, फ्लु ऐ, गुयेज, हिपर, मेजे, आइयो, कैलि-आयोड, **लाइको**, **मार्क**, नाइट्रि ऐ, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, **साइलि**, स्टैफि, सल्फ, **थेरि**।

अस्थि वृद्धि (Exostosis)—आर्जेण्ट-मेट, सल्फ, ऑरम-म्यूर, कैल्के, **कैल्के-फ्लु**, डाल्का, फ्लु ऐ, कैलि-आ, मार्क कोर, मेजे, नाइट्रि-ऐ, **फास**, रास-टक्स **साइलि**, सल्फ।

अस्थिका सड़ना (Necrosis of bone)—**आर्स**, मार्क, मार्क कोर, फास, सैया, साइलि, सल्फ।

आघात, चोट लगना, (Injury)—**आर्निका**, बेडि, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, सिकि, **कोनो**, डालका, **हिपर**, आइयो, लेके, लेडम, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, फास, **पल्स**, **रास-टक्स**, रूटा, स्टैफि, साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, सिम्फा।

„ अस्थिमें (Bones)—कैल्के, कैल्के-फास, **रूटा**, सिम्फा, सल्फ-ऐ।

„ कार्टरामें—ऐनाका।

„ कोमल अंशमें—**आर्निका**, कोना, डालका, पल्स, सल्फ-ऐ।

„ गांठोंमें (Glands)—**आर्निका**, कोना, डालका, फास, आइयो, सल्फ-ऐ।

„ पेरियोस्टियममें (Periostium)—रूटा।

„ स्नायुमें दर्दके साथ—फास, हाइपि।

आक्षेप, मांसपेशीका, (Cramps of muscles)—ऐम्ब्रा, **ऐनाका**, आर्निका, आर्स, ऐसाफि, **बेल**, **कैल्के**, कैना-से, कास्टि, **सिना**, काकि, कोलोसि, कोना, डाल्का, इयुफ्रे, ग्लोनो, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-कार्ब, मैग-म्यूर, मिनि, **मार्क**, म्यू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, **प्लैटि**, प्लम्ब, रास-टक्स, सिकी, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, संजि, स्टैनम, स्ट्रैमो, **सल्फ**, थूजा, वेले, वार्बा।

इन्फ्लुएञ्जा (Influenza)—ऐलि-सि, ऐकोन, आर्स, आर्स-आयोड, बेप्टि, ब्राइयो, वेल, **कैम्फ**, कार्बो-ऐसि, चिनि-सल्फ, डाल्का, इयुफ्रे, इयुपे-पार्फो, जेल्स, नेट्रम-सल्फ, **लाइको**, **मार्क**, नक्स-वोम, फास, **रास-टक्स**, सैबाडि, स्टिक्टा।

उठानेसे (From lifting)—आर्निका, बोरा, ब्राइयो, **कैल्के**, कार्बो-वेज, **ग्रैफा**, लाइको, मिलि, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, **रास-टक्स**, सिफि, साइलि, सल्फ।

उत्ताप मालूम होना (Sensation of heat)—ऐल्यूमि, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, ऐसार, कैल्के, **कैना-से**, **काफि**, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, आइयो, इपि,

लेके, लोरो, मैङ्गो, मार्क, नेट्रम-म्यू र, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास, **पल्स**, सिके, सेबाडि, सेने, **सल्फ-ऐसि**, **सल्फ**, वेले।

उत्ताप, अभाव, शारीरिक (Loss of animals heat)—ऐगा, ऐल्यूमि, **आर्स**, आरम, बेरा-कार्ब, **कोल्के**, **कोल्के-फास**, कैम्फ, **कार्बो-ऐनि**, कार्बो-वेज, **कास्टि**, चेलिडो, चायना, सिनेबा, कोना, **डाल्का**, फेरम, **हिपर**, कैलि-बाई, **कैलि-कार्ब**, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, **मैग-फास**, मैङ्गे, मस्क, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, फास, **प्लम्ब**, **सोरि**, रेना-ब, फ्लोडो, **रास-टक्स**, रूमे, सेबाडि, सिपि, **साइलि**, स्ट्रान्सि, सल्फ।

उद्वेग, शारीरिक (Anxiety)—ऐमिल-नाई, ऐण्टिम-टार्ट, **आर्जेण्ट-नाई**, **आर्स**, ब्रोमि, ब्राइयो, कोल्के, कैन्थ, **कैमो**, चेलिडो, चायना, काफि, कोल्चि, कूप्रम, **डिजि**, आइयो, **इपि**, लाइको, **नक्स-वोम**, **फास-ऐ**, **फास**, **पल्स**, रास-टक्स, सिके, सिपि, स्टैनम, **सल्फ**, टियुक्रि, वेरे, जिङ्क।

ऋतुके पहले (Before menses)—ऐमोन-कार्ब, बेरा-कार्ब, **वोवि**, **कोल्के**, कार्बो-वेज, कोना, **कूप्रम**, क्रियो, **लेके**, **लाइको**, मार्क, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, फास, प्लेटि, **पल्स**, **सिपि**, **सल्फ**, **वेरे**, **जिङ्क**।

" प्रारम्भमें—ऐकोन, कास्टि, कैमो, **हाइयो**, लाइको, फास, प्लेटि, पल्स, सिपि, साइलि।

" समय—**ऐमोन-कार्ब**, ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम-क्रूड, **वोवि**, ब्यूफो, कोल्के, सिकि, काकि, काफि, फेरम-फास, **ग्रैफा**, **हाइयो**, इग्ने, **केलि-कार्ब**, क्रियो, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास, **पल्स**, **सिपि**, साइलि, **सल्फ**, थाइया, **जिङ्क**।

" बाद—बोरा, वोवि, कोल्के, कोना, फेरम, **ग्रैफा**, केलि कार्ब, **क्रियो**, **लेके**, लिलि-टिग, लाइको, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, नाइट्रि ऐ, फास-ऐ, फास, पल्स, **सिपि**, स्ट्रैमो, सल्फ।

एकाङ्गकी बीमारी (Symtoms of one side)—इस्क्लि, ऐगा, **ऐल्यूमि**, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, **ऐनाका**, आर्जेण्ट-मेट, **ऐसाफि**, बेरा-कार्ब, **ब्राइयो**, कैल्के, कैन्थ, सिना, साइक्ला, डालका, गुयेज, **कैलि-कार्ब**, **कैलि-फास**, **क्रियो**, **लाइको**, **लेकी**, मैङ्ग, मेजि, मूर-ऐ, ओलि, पैरि, फास, **फास-ऐ**, **प्लेटि**, सेबाडि, सेबाई, **सार्सा**, साइजि, स्टैफि, स्ट्रान्सि, **वाब्र्बा**, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

" आडा आडी या कोना कोनी भावसे, दाहिना ऊर्द्धाङ्ग, बायाँ निम्नाग—ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-क्रूड, बोरा, बोवि, कैल्के, कास्टि, फेरम, लाइको, मार्क-आ-फ्ले, नेट्रम-कार्ब, **फास**, प्लम्ब, साइलि, **सल्फ-ऐ**।

" " दाहिना निम्नाग, बायाँ ऊर्द्धांग—ऐगा, ऐलूमि, ऐनाका, आर्नि, कार्बो-ऐनि, फ्लू-ऐ, कैलि-कार्ब, **लेडम**, पल्स, **रास-टक्स**, स्क्वुई, स्टैनम, **टैराक्स**, थूजा, वेरे, वाब्र्बा, वायो-ट्रि।

" दाहिने अङ्गकी—ऐकोन, इस्क्लि, ऐग्ना, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, **एपिस**, **आर्ज मेट**, आर्नि, **आर्स**, **अरम**, **बैप्टि**, **बेल**, बिस्म, **बोरा**, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैल्के-फास, **कैन्थ**, कास्टि, **चेलिडो**, काकि, कोलचि, **कोलोसि**, **कोना**, **क्रोटे**, ड्रोसे हिपर, इपि, आइरि, लिथि, **लाइको**, मैग-मूर, मैङ्ग, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, मस्क, नेट्रम-कार्ब, **नक्स-वोम**, पैलेडि, पेट्रो, प्लम्ब, पोडो, प्रूण, सोरि, पल्स, रैना-ब, **रैना-सि**, स्कोडो, सेबाडि, सेबाई, सैंगु, **सार्सा**, **सिकी**, साइलि, स्टैफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, टियुक्रि, जिङ्क।

" पीछे बायें—लाइको।

" बायें—ऐलि-सि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐण्टि क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्ज-मेट, **आर्ज-नाइट्रि**, आर्निका, **ऐसाफि**, **ऐसार**, ऐस-क्लिटि, ऐस्टिरि, बार्ब, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, **कैप्सि**,

केमो, चेलिडो, चायना, सिना, क्लिमे, कोलचि, कोलोसि, **क्रोक, क्रोटन-टिग, कूप्रम, डालका, इयुफोर, इयुफ्रे, फेरम, ग्रेफा, गुयेकम, केलि-क्लोर, क्रियो, लेकी, लिथि, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-आ-रू, मेजे, म्यूर ऐ, ओलि, नाइट्रि-ऐ, ओनसि, ओस्मि, पेरि, फास, रेना-सि, फ्रोडो, सेबाड़ि, सिलि, सिपि, साइलि, स्पाइ, टेरा, स्कुई, स्टेनम, सल्फ, वायो-ओ, वायो-ट्रि, थूजा ।

एकाङ्गकी बीमारी, बायें, फिर दाहिने— कोलचि, लेकी ।

„ , सोने वाली करवटसे—ऐकोन, ऐरिट-टा, आर्स, ऐमोन-कार्ब, बेरा-कार्ब, बेल, केले, केल्के, कास्टि, कार्बो-ऐनि, चायना, ड्रोसे, ग्रेफा, हिपर, आइयो, इग्ने, केलि-कार्ब, केलि-आयोड, लाइको, मैग-कार्ब, मैग म्यूर, मस्कस, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेरि, फास, फास ऐ, रियुम, रूटा, सेबाडि, सिपि, स्पाइजि, सल्फि, स्टेनम ।

„ „ „ विपरीत—ऐम्ब्रा, ब्राइयो, केल्के, कास्टि, केमो, कोलोसि, इग्ने, पल्स, रास-टक्स, बार्बा ।

कड़ापन, प्रदाहके बाद—ऐग्ना, आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, आर्स, अरम, अरम-म्यूर, बेडि, बेरा कार्ब, बेल, ब्राइयो, केल्के, चायना, क्लिमे, कोना, ग्रेफा, हिपर, आइयो, केलि-क्लोर, लाइको, केलि-आयोड, मैग-म्यूर, मार्क, फ्रम्म, मोरि, पल्स, साइलि, सल्फ।

कड़ा मालूम होना, बिछावन (Hard bed sensation)—ऐकोन, आर्निका, बैप्टी, ब्राइयो, कास्टि, कोना, ड्रोसे, ग्रेफा, केलि-कार्ब, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नक्स-वोम, फास, प्लेटि, सेबाडि, साइलि, स्टेनम, सल्फ, टेबा, थूजा, वेरे ।

कपड़े लत्ते, रखना असह्य—ऐमोन-कार्ब, एपिस आर्जेण्ट-नाई, बोवि, ब्राइयो, केल्के, कैम्फि, क्रोटि-टोर, ग्रेफा, हिपर, लेकी, लाइको, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, ओनस, पल्स, रेना ब, सेनि सार्सा, सिपि, स्पाइजि स्पञ्जि, स्टेनम ।

कपड़े लत्ते, पशमी—फास, सोरि, पल्स, सल्फ।

कम्पन (Trembling)-बाहरी—ऐकोन, ऐगा, ऐल्युमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्जे-नाई, आर्नि, आर्स, अरम, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, केल्के-फास, कैम्फ, कास्टि, चायना, चिनि-स, सिकि, सिपि, सिना, काकि, काफि, कोनचि, कोना, क्रोटे-ह्रो, कूप्रम, डालका, फेरम, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, केलि-कार्ब, केलि, लैके, लेडम, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, मस्क, नेट्रम-मूर, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलिये, ओपि, फास-ऐ, फास, फाइटो, प्लेटि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिकै, सेने, सिपि, साइलि, स्ट्रेमो, सल्फ, टैबे, थूजा, वेरे, जिङ्क।

„ सवेरे—आर्जे-नाई, डालका, नक्स-वोम।

„ पूर्वान्हमें (दोपहरके पहले)—प्लेटि।

„ तीसरे पहर—जेल्स।

„ सन्ध्यामें—चेलिडो, नेट्रम-म्यूर, प्लम्ब, स्टान्नि, सल्फ।

„ रातमें—बेल, हाइयो, फास।

„ „ नींदके बाद—साइलि।

„ „ तीन बजेके समय—रास-टक्स।

„ आनन्दकी वजहसे—अरम, काफि, बेले।

„ उद्वेगके कारण—आर्स, केल्के, कैमो, काकि, लैके, नेट्रम-कार्ब, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स वेले।

„ ऋतुके समय—ग्रेफा।

„ क्रोधकी वजहसे—ऐकोन, अरम, मार्क, नाइट्रि-ऐ, स्टेफि।

„ गड़बड़ीके कारण—बैरा-कार्ब, कास्टि, मस्क, टैबे।

„ ज्वरावस्थामें—आर्स, केल्के, कैम्फ, सिस्टा, इयुपे-पर्फो, लैके, सिपि।

„ धूम्रपानके कारण—नेट्रम-म्यूर, साइलि, सल्फ।

„ परिश्रमके कारण-सामान्य—बोरा, मार्क, फास, प्लेटि, प्लम्ब, पोलिगो, रास-टक्स, सिकै, सिपि।

कम्पन, पाखाना जानेके बाद—कार्बो-वेज, कोना।

„ विरक्तिके कारण—ऐकोन, अरम, नाइट्रि-ऐसि, रैना-ब।

„ भयके कारण—अरम, काफि, ग्लोनो, इग्ने, मेग-कार्ब, मोर्क, निको, ओपि, पल्स, रैटा।

„ „ थरथराना (Shuddering)—ऐमोन-म्यू, आर्निका, बेल काकि, लेडम, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, रास-टक्स, साइलि, स्पाइजि।

„ भीतरी—ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज नाइट्रि, ब्राकि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-वेज, कोलोफा, कास्टि, क्लिमे, क्रोटे-हो, इयुपे-पर्फो, ग्रैफा, आइयो, केलि-बा, लाइको, नेट्रम-मूर, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि, स्पाइजि, स्टैफि, स्ट्रामि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टियुक्रि, वेले।

„ भूखके समय—क्रोटे-हो, ओलियै, सल्फ।

„ मानसिक उत्तेजनाके बाद—काफि, प्लम्ब, सोरि, स्ट्रैमो, जिङ्क।

„ लिखनेके समय—फास, साइलि।

„ सामयिक—आर्जेण्ट-नाई।

कामेन्द्रियके बहुत व्यवहारके कारण (From sexual excesses)—ऐगा, आर्स, बोवि, कैल्के, कार्बो-वेज, चायना, कोना, आइयो, कैलि-कार्ब, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, फास, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ।

कोमलता, हड्डीको (Softening of bones)—ऐसाफि, बेल, कैल्के, कैल्के-फ्लु, कैल्के-फास, हिपर, लाइको, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, पल्स, सिपिया, साइलि, सल्फ।

कोयलेकी गैससे (From coal gas)—आर्निका, बोवि, कार्बो-वेज, कार्बोनि-सल्फ।

क्लान्ति, (Weariness, fatigue)—"श्रान्ति" देखिये।

क्लोरोसिस (Chlorosis)—ऐसे ऐ, ऐले-ह्नि, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, आर्जे-मेट, आर्स, बेल, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-स, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-आर्स, काकि, कोना, कूप्रम, साइक्ला, फेरम, फेरम-आर्स, फेरम-आयोड, फेरम-म्यू, ग्रेफा, हेलि, हिपर, केलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, लाइको, मैङ्ग, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लेटि, प्लम्ब, पल्स, सिमिसि, सिपिया, साइलि, सल्फ।

क्विनाइनका अपव्यवहार (Abuse of quinine)– ऐण्टि-टार्ट, आर्निका, आर्स, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, सिना, फेरम, इपि, लैके, नेट्रम-मूर, फास-ऐ, पल्स, सिपि, सल्फ, वेरे।

खर्व आकृति—बैरा-कार्ब, बैरा-म्यू, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बोनि-स, मेडो, साइलि, सल्फ।

खींचन-अकड़न (Convulsion)—ऐकोन, ऐगा, इथ्यू, ऐल्यूमि, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, ऐरानि, आर्जेण्ट-नाइ, आर्निका, ऐसाफि, आर्टि-वा, आर्स, ऐट्रो, बेल, बैरा-कार्ब, बेरा-म्यूर, ब्राइयो, ब्यूफो, कैम्फ, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कास्टि, कैमो, सिफि, सिना, काकि, काफि, कोना, क्रोटे-होर, कूप्रम, डिजि, कूप्रम-आर्स, फेरम, जेल्स, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, इग्ने, इपि, जैट्रो, कैलि-ब्रोम, कैलि-कार्ब, लैके, लोरो, लोबे, लाइको, मस्क, मैग-कार्ब, मैग-फास, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, पल्स, सिकि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे।

„ सवेरे—कैल्के, कास्टि, मैग-फास।

„ सन्ध्यामें—कैल्के, कास्टि, ओपि।

„ रातमें—आर्जेण्ट-नाइ, आर्टि-वा, कैल्के, काकि, कास्टि, हाइयो, ओपि, सिकि, साइलि, स्ट्रैमो।

„ अध्यापनके साथ—आरम म्यू, काकि, कूप्रम।

खींचन, अपरिचित मनुष्यको देखकर—हाइड्रोफो।

„ उत्तापावस्थामें—सिना, हाइयो, नक्स-वोम, ओपि, स्ट्रैमो।

„ उत्तेजनाकी वजहसे—ऐगा, ऐस्टिरि, बेल, कैमो, काफि, कूप्रम, जेल्स, हाइयो, इग्ने, कैलि-ब्रोम, नक्स-वोम, ओपि, पल्स।

„ उद्भेद बैठकर (-Suppiesssd eruption)—ऐण्टिम-टार्ट, कूप्रम, सल्फ, जिङ्क।

„ ऋतुके पहले—ब्यूफो, कास्टि, कूप्रम, पल्स।

„ „ समय—आर्जेण्ट-नाई, बेल, कोलोफा, सिड्रन, सिमि, काक्कि, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, कैलि-ब्रोम, नैट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, इग्नेन्थि, प्लैटि, सिकि, जिङ्क।

„ „ बन्द होनेके कारण (Suppressed)—ब्यूफो, काक्कि, कूप्रम, जेल्स, पल्स।

„ एक पार्श्वका—ऐपोसा, आर्टि-वा, बेल, कैल्के-फास, कास्टि, डालका, हृलेप्स, जेल्स, ग्रैफा, हेलि, डूपि, प्लम्ब।

„ „ दूसरे पार्श्वके पक्षाघातके साथ—एपिस, आर्टि-वा, बेल, स्ट्रैमो।

„ कृमिकी वजहसे—सिना, हाइयो, इग्ने, साइलि, स्टैनम, टेरि।

„ क्रोधके बाद—कैमो, कैलि-ब्रोम, ओपि, नक्स-वोम।

„ गन्धकी वजहसे तेज—हाइड्रोफो।

„ गर्भावस्थामें—कैमो, सिकि, कूप्रम, हाइयो।

„ गिर जाता है—ऐगा, आर्स, ऐस्टिरि, बेल, कैल्के, कैल्के-फास, कास्टि, सिक्रन, कैमो, कोना, कूप्रम, हाइयो, प्लाइयो, स्टैनम, स्ट्रैमो।

„ गोलमालकी वजहसे—ऐण्टिम-क्रूड आर्नि, सिकि, इग्ने, हाइड्रोफो नक्स-वोम, स्ट्रिक्नि।

„ चमकीले पदार्थ देखनेपर—स्ट्रैमो, हाइड्रोफो, बेल।

„ चेचक बैठकर—ऐण्टि-टार्ट।

खींचन, चेतनाके साथ—कैन्थ, सिना, हेलि, इपि, कैलि-कार्ब, मैग-कार्ब, नक्स-म, नक्स वोम, फास, सिपिया, स्ट्रैमो ।

„ „ हीनताके साथ—इथ्यू, ऐस्ट्रिरि, वेल, कैल्के, कैम्फ, कैन्थ, सिकि, काकि, कूप्रम, हाइयो, इपि, कैलि-कार्ब, मस्क, प्लैटि, प्लम्ब, सिपिया, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ ।

„ „ चोटकी वजहसे—आर्निका, आर्टि-वा, सिकि, हाइपि, नेट्रम-सल्फ, ओपि, रास-टक्स, सल्फा, वेरे ।

„ कूदनेपर—वेल, काकि, सिकि, नक्स-वोम, स्ट्रैमो ।

„ टीका लेने बाद—साइलि ।

„ ठण्डा होनेके साथ शरीर—कैम्फ, कास्टि, सिकि, हाइयो, मस्क, ओपि, वेरे ।

„ „ साथ हाथ पैर—कैमो, काकि ।

„ डरकर—ऐकोन, ऐगा, आर्ज-ना, कास्टि, आर्टि-वा, व्यूफो, वेल्की, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, इरिड, ओपि, प्लैटि, सिकेलि, स्ट्रैमो, जिङ्क ।

„ दाँत निकलनेके समय (During dentition)—ऐकोन, इथ्यू, वेल, आर्टि-वा, कैल्के, कैमो, सिकि, सिना, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, क्रियो, मार्क, स्टैनम, स्ट्रैमो ।

„ धनुष्टंकार—"पीठ" देखिये ।

„ निद्रितावस्थामें—कास्टि, कूप्रम, हाइयो, इग्ने, ओपि, लैके, साइलि, स्ट्रैमो ।

„ निगलनेकी चेष्टा करनेपर—हाइड्रोफो, ऐमोन-म्यू, स्ट्रैमो ।

„ पक्षाघातके साथ—कास्टि, हाइयो, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, रास-टक्स, स्टैनम, टेबे ।

„ परिश्रमसे मानसिक—वेल, ग्लोनो ।

„ „ शारीरिक—कैल्के, ग्लोनो, लैके, हाइड्रोफो, नेट्रम-म्य, सल्फ ।

„ पानी देखकर—वेल, हाइड्रोफो, स्ट्रैमो ।

खींचन, प्रसव-सम्बन्धी (Puerperal eclampsia)—आर्जे-ना, बेल, क्यूप्रम, कार्बो-वेज, कैमो, सिक्कि, काकि, काफि, जेल्स, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, इपि, लैके, मोरी, लाइको, मार्क-कोर, नक्स म, नक्स-वोम, ओपि, प्लैटि, स्ट्रैमो, वेरे।

" फेन निकलनेके साथ मुखमें—ओपि।

" बच्चोंका—इथ्यू, ऐम्ब्रा, एपिस, आर्टि-वा, बेल, कैल्के, कैम्फ, कैमो, सिकि, सिना, काकि, क्यूप्रम, जेल्स, हेलि, हिपर, हाइयो, इग्ने, इपि, लैके, लाइको, मैग-फास, नक्स-वोम, ओपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, वेरे, जिङ्क।

" बदहजमीके कारण—इपि।

" मूत्ररोध (Uræmia) से—क्यूप्रम, डिजि, प्लम्ब, टेरि।

" मृगी रोगसे उत्पन्न—ऐगा, ऐनाका, आर्जे-मे, आर्जे-ना, आर्म, आर्टि-वा, ऐस्टिरि, बैरा-म्यू, बेल, ब्यूफो, कैल्के, कैल्के-आर्स, कास्टि, कार्बो-ऐनि, सिक्किन, काकि, क्रोटे-हो, क्यूप्रम, क्यूप्रम-आर्स, जेल्स, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, इग्ने, कैलि-ब्रो, कैलि क्लो, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-फास, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, ऐनान्थि, ओपि, फास, फास-ऐ, प्लैटि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, साइलि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, सिकि।

" मृगीकी तरह—ऐनाका, आर्जे-नाइ, आर्म, बेल, ब्यूफो, कैल्के, कैम्फ, कास्टिट, सिक्किन, कैमो, सिकि, सिना, काकि, क्यूप्रम, ग्लोनो, जेल्स, हाइयो, इपि, कैलि कार्ब, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यू, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, प्लैटि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, सिके, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" रक्त-स्रावके साथ—चायना, हाइयो प्लैटि, सिकेलि।

" विरक्तिसे कारण—कैल्के, क्यूप्रम, इग्ने, इपि।

" शिथिलताके साथ मध्यमें (Clonic)—ऐगा आर्जे मेट, आर्नि, आर्स ऐमाफि, आर्टि-वा, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो ब्यूफो, कैल्के, कैल्के म,

कैल्क, वैन्य, कास्टि, कैमो, चिनि-स, सिकि, सिना, काकि, काफि, कोना, क्रोकास, कूप्रम, डिजि, डेलि, हाइयो, इग्ने, केलि-कार्ब, इपि, लोरी, लाइको, मेजे, हाइड्रोफो, फास्फो, नेट्रम-म्यूर, नक्स म, नक्स वोम, ओपि, फास, प्लेटि, रैना-सि, सैबाडि, सिना, सिके, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रेनम, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

खींचन, शीतावस्थामें—आर्स, लैके।

" शोतके बाद—आर्टि-वा, हाइयो, इग्ने, नेट्रम-म्यू, ओपि।

" साफ होनेके बाद—कैमो, सिना, इग्ने।

" स्थायी, बहुत देर तक, बीचमें शिथिलता नहीं रहती (Tonic)—बेल, व्यूफो, कैल्के, कास्टि, कैमो, सिकि, काकि, फेरम, इग्ने, इपि, लाइको, मार्क, मस्क, पेट्रो, फास, प्लैटि, सिके, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, विरे।

" हिस्टीरिया-सम्बन्धी—"हिस्टीरिया" देखिये।

" वृद्धि, रोशनीमें—बेल, हाइड्रोफो, ओलि, स्ट्रैमो।

" " हिलने-डोलनेपर—काकि।

खुजली, भीतरी प्रदेशमें—ऐस्वा, फेरम, आइयो, लोरो, नक्स-वोम, फास, स्ट्रैनम।

गण्डमाला धातु (Scrofula)—ऐल्यूमि, आर्स, आर्स-आयोड, बैसि, आरम, बैरा-कार्ब, ब्रोमि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कैप्सि, कास्टि, सिनेबा, सिस्टा, कोना, डिफथी, डाल्का, फेरम, हिपर, ग्रैफा, आइयो, केलि-बा, कैलि-आयोड, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, फास, पिनम-मूर, प्लम्ब-आयोड, सोरि, साइलि, सल्फ, थेरि, टियुब।

" गाठोंकी सूजनके साथ—बैरा-कार्ब, कैल्के, सिस्टा, कोना, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, फास, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पंजि, स्टैफि, सल्फ।

गण्डमाला धातु, तरुणावस्थामें (Early stage)—आर्स, **बेल**, **कैल्के**, चायना, फेरम, **सिना**, मैग-कार्ब, पल्स, रियुम, **सिपि**, **सल्फ**।

" पूर्ण विकासावस्थामें—**आर्स**, **ऐसाफि**, बेरा-कार्ब, **बेल**, कैल्के, कोना, कूप्रम, ड्रग्ने, मेजे, ओपि, **साइलि**।

गति-शक्ति राहित्य (Locomotor ataxia)—ऐगा, ऐल्यूमि, केल्के, **कोना**, कूप्रम, जेल्स, श्रोनोस, फास, स्ट्रैमो, जिङ्क।

गन्धकके अपव्यवहारकी वजहसे बीमारी—कैल्के, मार्क, **पल्स**।

चर्म-रोग बैठकर बीमारी—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, आर्स, बेल, **ब्राइयो**, कैलेडि, केल्के, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चायना, डाल्का, ग्रैफा, हिपर, **इपि**, लैके, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिलि, सिपिया, साइलि, स्टेफि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, वेरे।

चौंक उठना—आर्नि, आर्स, **बेल**, बिस्मथ, **ब्राइयो**, कास्टि चायना, कोल्चि, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, मार्क, **नक्स-वोम**, रास-टक्स, **स्ट्रामो**, सल्फ।

छटपटाना, दर्दकी वजहसे—**ऐकोन**, ऐल्यूमि, ऐण्टि-टार्ट, **आर्स**, **बेल**, **कैल्के**, **कैमो**, **चायना**, **सिना**, हेलि, लैके, **लाइको**, **मेग-कार्ब**, मैङ्ग, ओपी, फास, **पल्स**, रास-टक्स, सिपिया, **सल्फ**, टैरें।

जलन (Burning)—बाहरी (External)—ऐकोन, ऐगा, ऐमोन म्यू, ऐम्ब्रा, **एपिस**, आर्नि, **आर्स**, एरम ट्रि, ऐसाफि, ऐरंटि, बेरा कार्ब, बार्बे, बोरैक्स, **ब्राइयो**, ब्यूफो, कैल्के-फास, कैन्थ, कैप्सि, **कार्बो-स**, **कास्टि**, **कार्बो-वेज**, चेलि, सिमि, क्लिमे, कोनोमि, कोना, माइक्ला, ड्रोसेरा, डाल्का **डयुफ्रे**, फेरम, ग्रैफा ग्रैसि, इग्ने, **आइरि**, कैलि-ग्राई, कैलि-कार्ब, क्रियोसोट लैके लाइको, लैकि, **मार्क**, मार्क-कोर, म्यूर ऐ, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम म्यू**, नाइ ऐ, **नक्स-वोम**, ओलि, ओपि, **फास**, **फास-ऐ**, प्लम, ग्रैफि, पल्स,

रैटा, रियुम, **रास-टक्स,** रूमे, सेबाडिला, **सिपिया, सिकेलि, साइलि, स्टैनम,** स्टैफि, **सल्फ,** टैरे, थूजा, जिङ्क।

जलन, भीतरी (Internal)—**ऐकोन,** ऐगा, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-मूर, एपिस, आर्जे-नाई, आर्नि, **आर्स,** ऐसाफि, एरम-ड्रि, अरम, बैप्टि, बैरा-कार्ब, **बेल, वोर्वे,** बिस्मथ, **ब्राइयो,** ब्यूफो, केल्के, **कैन्थ,** केल्के फास, **कैना-इ, कार्बो-स,** कार्बो-वेज, कास्टि, चेलि, चायना, सिकि, क्लिमेँ कोल्चि, कोलोसि, कोना, कूप्रम, डाय, ड्रोसेरा, ड्युफोर, फ्लु-ऐ, गेम्बो, **ग्रैफा,** आइरि, **कैलि-बा,** कैलि-आयोड, क्रियो, लैके, लोरो, लिथि, लिलि-टिग, लोबे, लाइको, **मार्क, मार्क-कोर,** मार्क-आ-फ्ले, **मेजे,** नेट्रम-का, नेट्रम-मूर, **नाई-ऐ, फास, प्रूणा, पल्स,** सोरि, **पल्स,** रैना-ब, रहोडो, **रास-टक्स,** रूमेक्स, **सेबाडि,** सेबाई, **सैङ्गु,** सार्सा, सेने, **सिकेलि, सिपि,** साइलि, **स्पाइजि, स्पञ्जि,** स्टैनम, **सल्फ,** टेलू, टेरि, थूजा, वेरे, **जिङ्क।**

" भीतरी, शिरामें—**आर्स,** अरम, ब्राइयो, केल्के, ओपि, **रास-टक्स।**

" " हड्डीमें—ऐसाफि, अरम, कार्बो-वे, ड्युफोर, हिपर, लैके, **मेजे,** फास-ऐ, रास-टक्स, रूटा, सिपि, सल्फ, **जिङ्क।**

जलातङ्क (Hydrophobia)—**बेल,** कैन्थ, हाइड्रोफो, **हाइयो,** फास, **स्ट्रैमो।**

जीवित पदार्थ है मानो भीतर—**क्रोक,** इग्ने।

झूलना चाहता है, बच्चा हमेशा—सिना, इग्ने।

टपक-बाहरी—ऐकोन, इस्कि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जे-मेट, आर्जे-ना, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, बैरा कार्ब, कैक्ट, **केल्के,** केल्के-आर्स, केल्के-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, कोना, **फेरम, फेरम-आयोड,** ग्लोनो, **ग्रैफा,** इग्ने, आइयो, कैलि-बाई, **कैलि-कार्ब, कैलि-स, क्रियो, लैके,** लिलि-टिग, लाइको, **मेलिफो,** मार्क, **नेट्रम-म्यू,** नेट्रम-स, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, **ओपि,** फास,

प्लेटि, पल्स, क्रोडो, सेबाडि, सिपि, साइलि, स्ट्रेमोन, स्ट्रान्सि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

टपक, भीतरी—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमीन-म्यू, ऐमिल ना, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जे-ना, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, अरम, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैक्ट, कैम्फ, कैल्के, कैना-इ, कैना-से, कैप्सि, कैमो, सिकि, काकि, कोलोसि, कोना, डिजि, फेरम, फेरम-आयोड, ग्लोनो, ग्रैफा, इग्ने, आइयो, क्रियो, लीरो, मेलिलो, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नक्स-वोम, ओलि, फास, प्लैण्टे, प्लेटि, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सैगु, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

ठण्डक मालूम होना-भीतरी—कैल्के, लीरो।

„ प्रत्येक शिरामें (Blood vessels)—आर्स, रास-टक्स।

„ हड्डीमें—ऐरानि, आर्स, कैल्के।

सहम जाना, चलनेके समय—ऐकोन, ऐगा, आर्जे-ना, आर्म, ऐमार, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, कैप्सि, कैना-से, कास्टि, काकि, काफि, कोना, कूप्रम, जेल्स, हेलि, म्यू-ऐ, हाइयो, इग्ने, लीरो, मेजे, नक्स म, नक्स-वोम, ओलि, ओपि, फास-ऐ, रास-टक्स, रूटा, सिके, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, वेरे।

तनाव मालूम होना-बाहर—ऐलूमि, बेरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कास्टि, चेलिडो, कोलोसि, कोना, कूप्रम, मार्क, नक्स वोम, फास, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, मेसाड, सिके, सिपि, स्टेफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, वार्बा, वायो-धो।

„ भीतर—ऐण्टि-टार्ट, आर्स, ऐसाफि, बेल, बार्ब, कैल्के, कास्टि, सिकि, क्रिमि, कोलोसि, डल्क, ग्लोनो, ग्रैफा, कैलि ना, लाइको, मार्क, नक्स-वोम, पेरि, फास, पल्स, रेना, सिपि, स्ट्रान्सि, सल्फ, वेर, जिङ्क।

रैटा, रियुम, **रास-टक्स**, रूमी, सैबाडिला, **सिपिया**, **सिकेलि**, **साइलि**, **स्टैनम**, स्टैफि, **सल्फ**, टैरे, थूजा, जिङ्क।

जलन, भीतरी (Internal)—**ऐकोन**, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-मूर, एपिस, आर्जे-नाई, आर्नि, **आर्स**, ऐसाफि, एरम-ट्रि, अरम, वैप्टि, वैरा-कार्ब, **वेल**, **वार्ब**, विस्मथ, **ब्राइयो**, ब्यूफो, कैल्के, **कैन्थ**, कैल्के फास, **कैना-इ**, **कार्बो-स**, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलि, चायना, सिकि, क्लिमें कोल्चि, कोलोसि, कोना, कूप्रम, डाय, ड्रोसेरा, ड्युफोर, फ्लु-ऐ, गैम्बो, **ग्रैफा**, आइरि, **कैलि-बा**, कैलि-आयोड, क्रियो, लैके, लौरो, लिथि, लिलि-टिग, लोबे, लाइको, **मार्क**, **मार्क-कोर**, मार्क-आ-फ्ले, **मेजे**, नेट्रम-का, नेट्रम-मूर, **नाई-ऐ**, **फास**, **प्लम्ब**, **पल्स**, सोरि, पल्स, रैना-ब, रोडो, **रास-टक्स**, रूमेक्स, **सैबाडि**, सेबाई, **सैङ्गु**, सार्सा, सेने, **सिकेलि**, **सिपि**, साइलि, **स्पाइजि**, **स्पञ्जि**, स्टैनम, **सल्फ**, टेलू, टेरि, थूजा, वेरे, **जिङ्क**।

" भीतरी, शिरामें—**आर्स**, अरम, ब्राइयो, कैल्के, ओपि, **रास-टक्स**।

" " हड्डीमें—ऐसाफि, अरम, कार्बो-वे, ड्युफोर, हिपर, लैके, **मेजे**, फास-ऐ, रास-टक्स, रूटा, सिपि, सल्फ, **जिङ्क**।

जलातङ्क (Hydrophobia)—**वेल**, कैन्थ, हाइड्रोफो, **हाइयो**, फास, स्ट्रैमो।

जीवित पदार्थ है मानो भीतर—**क्रोका**, इग्ने।

झूलना चाहता है, बच्चा हमेशा—सिना, इग्ने।

टपक-बाहरी—ऐकोन, इस्कि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जे-मेट, आर्जे-ना, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, बैरा कार्ब, कैक्ट, **कैल्के**, कैल्के आर्स, कैल्के-म, कार्बो-वेज, कास्टि, कोलोसि, कोना, **फेरम**, **फेरम-आयोड**, ग्लोनो, **ग्रैफा**, इग्ने, आइयो, कैलि-बाई, **कैलि-कार्ब**, **कैलि-स**, **क्रियो**, **लैके**, लिलि-टिग, लाइको, **मेलिफो**, मार्क, **नेट्रम-म्यू**, नेट्रम-स, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, **ओपि**, फास,

प्लेटि, **पल्स**, फ्लोडो, **सेबाडि**, सिपि, साइलि, स्ट्रमोन, स्ट्रान्सि, **सल्फ**, थूजा, जिङ्क।

टपक, भीतरी—**ऐकोन**, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यू, ऐमिल ना, **ऐरिटम-टार्ट**, आर्ज-ना, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, अरम, वेल, बोरा, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैम्फ, **कैल्के**, **कैना-इ**, कैना-सै, कैप्सि, केमो, सिकि, काकि, कोलोसि, कोना, डिजि, **फेरम**, **फेरम-आयोड**, **ग्लोनो**, ग्रैफा, इग्ने, आइयो, क्रियो, लोरो, **मेलिलो**, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नक्स वोम, ओलि, **फास**, प्लैट्ट, प्लेटि, प्लम्ब, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, सेबाडि, सैंगु, **सिपि**, **साइलि**, स्ट्रमो, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

ठण्डक मालूम होना-भीतरी—केल्के, लोरो।

„ मत्येक शिरामें (Blood vessels)—**आर्स**, रास-टक्स।

„ हड्डीमें—ऐरानि, आर्स, कैल्के।

सहम जाना, चलनेके समय—ऐकोन, ऐगा, आर्ज-ना, आर्स, ऐसार, वेल, **ब्राइयो**, कैम्फ, कैप्सि, कैना-सै, कास्टि, काकि, काफि, कोना, क्रूप्रम, जेल्स, हेलि, म्यू-ऐ, हाइयो, इग्ने, लोरो, मेजे, मयत म, **नक्स-वोम**, ओलि, **ओपि**, फास-ऐ, **रास-टक्स**, रुटा, सिके, साइलि, **स्ट्रमो**, सल्फ, थूजा, **वेरे**।

तनाव मालूम होना-बाहर—ऐलूमि, **वेरा-कार्व**, वेल, **ब्राइयो**, **कास्टि**, चेलिडो, **कोलोसि**, **कोना**, क्रूप्रम, मार्क, नक्स वोम **फास**, **प्लैटि**, **पल्स**, **रास-टक्स**, सेबाड, सिक, सिपि, स्टेफि, **स्ट्रान्सि**, **सल्फ**, **वार्वा**, वायो-फो।

„ भीतर—ऐण्टि-टार्ट, आर्स, **ऐसाफि**, वेल, ब्रायो, कैन्थ, कास्टि सिकि, क्लिमे, कोलोसि, डाल, ग्लोनो, ग्रैफा, हैमि मा, **म्याइफो**, मार्क, **नक्स-वोम**, **पेरि फास**, **पल्स**, **रैना-ब**, रास टक्स **सिपि**, **स्ट्रान्सि**, **सल्फ**, थेर, जिङ्क।

तनाव मालम होना, मांस पेशीमें—**ऐकोन, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, फाइसों,** प्लैटि, पल्स, रास-टक्स, **सिपि, साइलि।**

„ सारे शरीरमें—ऐस्कु, ऐमोन कार्ब, बैरा-कार्ब, **ब्राइयो,** कैल्के, **ग्रैफा,** मार्क-कोर, मेजे, पलस, नक्स-वोम, **रास-टक्स,** सिपि।

दर्द-धीरे धीरे आरम्भ और धीरे धीरे लोप—ऐकोन, आर्निका, आर्स, बैरा-कार्ब, ब्यूफो, क्रोटे-होर, ग्लोनो, कैलि, मेजे, नेट्रम-म्यूर, ओपि, फास, **प्लैटि,** सोरि, सेबाइ, सार्सा, साइलि, **स्ट्रैनम,** स्टैफि, सल्फ, सल्फ-ऐ।

„ „ और एकाएक गायब हो जाता है—आर्जेण्ट-मेट, कास्टि, पल्स, सल्फ-ऐ।

„ एकाएक आरम्भ—आर्जेण्ट-मेट, **बेल, नाइट्रि-ऐ,** पल्स, सेबाइ, टैबे, बैले।

„ „ और धीरे धीरे लोप—ऐसाफि, कैल्के, फ्लू-ऐ, पल्स, सेबाइ, सिपि।

„ „ और एकाएक ही लोप—आर्जेण्ट-नाइ, ऐसाफि, **बेल,** म्यू-ऐ, इग्ने, **कैलि-बाइ,** केल्मि, लाइको, मैग-फास, मार्क-कोर, **नाइट्रि-ऐ,** सेबाइ।

„ अस्थियोंमें (Bones)—ऐगा, आर्जेण्ट-मेट, **ऐसाफि,** अरम, कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, कैमो, चायना, सिनेबा, काकि, कोना, कूप्रम, **युपे-पर्फो,** फ्लू-ऐ, हिपर, **इग्नि,** मेजे, **नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ,** फास, **पल्स** ऋोडो, रास-टक्स, **रूटा,** सेबाइ, सार्सा, सिपि, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ रातमें—**अरम,** कैमो, फ्लू-ऐ, **कैलि-आयोड,** मेड्, मेजे, **मार्को,** मार्क-आ-फ्ले, फास ऐ, फाइटो, **नाइट्रि-ऐ,** सार्सा।

काट डालनेकी तरह (Cutting)—ऐल्यूमि, **बेल,** ग्रैफा, **कैल्के,**

कोलोसि, **ड्रासे**, इग्ने, लाइको, मार्क, मूर-ऐ, **नेट्रम-कार्ब**, नक्स-वोम, **पेट्रो**, फास-ऐ, रास-टक्स, रेम्यु, सिपिया, साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, वायो-ट्रि ।

दर्द, काट डालनेकी तरह, भीतरी (Internal)—आर्नि, बेल, बार्ब, कैलेडि, **कैल्के**, **कैन्थ**, चेलि, चायना, **कोलोसि**, कोना, **डायस्को**, डाल्का, इलेटे, इक्कुई, **गेम्बो**, **हाइयो**, इपि, **कैलि-कार्ब**, कैलि-ना, कैलि-स, **लाइको**, **मार्क**, मूर-ऐ, **नेट्रम-मूर**, **नक्स-वोम**, ओपि, पेरि, पेट्रो, फास, **पल्स**, रियुम, सिपिया, **साइलि**, स्पाइजि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्राम्नि, **सल्फ**, **वेरे**, वाइवा, जिङ्क ।

" काँटा गड़नेकी तरह (Sensation of splinters)—ऐस्कि, ऐन्यू मि, **आर्ज-नाइ**, बैरा कार्ब, डोलि, कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ, **हिपर**, **नाइ-ऐ**, साइलि ।

" खींच रखनेकी तरह (Drawing)—ब्राइयो, केम्फ, **कार्बो-वेज**, कोलोफा, **चेलि**, ग्रेम्बो, **ग्रेफा**, मैग्न, **नाइट्रि-ऐ**, ओलि-ऐनि, पल्स, वेले ।

" खोदनेकी तरह-मानो कोई खोद रहा है (Digging)—ऐकोन, ऐगा ऐमोन-मूर, आर्नि, ऐसाफि, बेल, बोवि, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, सिना, कोलोसि, **डालका**, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, नेट्रम कार्ब, फास, प्लैटि, **फ्रोडो**, रास-टक्स, रूटा, सिपिया, **स्पाइजि**, स्ट्रैनम ।

" " अस्थिमें—कार्बो-ऐनि, काकि, मैग्न ।

" " गाँठमें—डालका, फ्रोडो ।

" घूमता फिरता है (Wandering)—ऐमोन मूर आरम, आर्नि बेल कैल्के-फास, कार्बोनि-स, कोमचि, कार्बो वे, कोलोफा डायस्को, ग्राइफ, कैलि-ना, कैलि-स, कैमुमि, लैप-फ, लिडम, मैग्न, नक्स-म, फास्टो, प्रम, पल्स, रियु स्पाइजि, सल्फ रि, टियुथ ।

दर्द, चबानेकी तरह दाँतसे (Gnawing)—आर्स, **मार्क**।

„ „ वाहरी—ऐग्ना, बैरा-कार्ब, कैल्क, कैमो, ड्रोसि, ग्लोनो, कैलि-कार्ब, मिनि, पैरि, फास-ऐ, **प्लैटि**, पल्स, **रैना-सि**, रूटा, **स्पञ्जि**, **स्टैफि**, टैरा।

„ „ भीतरी—आर्स, कैल्क, **कास्टि**, कोलोसि, कोना, क्रूप्रम, गैम्बो, क्रियो, लाइको, प्लैटि, **पल्स**, रैना-सि, **रूटा**, **सिपिया**।

„ „ हड्डीमें—वेल, ड्रोसे, फास-ऐ, रूटा, स्टैफि।

„ „ चिकोटी काटनेकी तरह (Pinching)—**आर्नि**, आर्स, वेल, कैल्क, कैप्सि, कैमो, कोलचि, ड्युफोर, लोरो, मार्क, मेजे, नेट्र-कार्ब, फास, **नक्स-वोम**, प्लैटि, पल्स, रियुम, रास-टक्स, सैवाडि, स्पञ्जि सल्फ।

„ „ वाहरी—कैल्क, क्लिमे, हाइयो, ड्रपि, **मिनि**, म्यूर-ऐ, ओलि, **फ्रोडो**, रास-टक्स, **सैवाडि**, साइ, **स्पञ्जि**, **स्टैनम**, सल्फ, **वार्ब्वा**।

„ „ भीतरी—ऐग्ना, ऐमोन-कार्ब, वेल, विस्मथ, ब्राइयो, कैल्क, कैना-सै, कैन्थ, कार्बो-वे, चेलिडो, चायना, सिना, **कार्कि**, कोलचि, **कोलोसि**, डालका, गैम्बो, **ग्रैफा**, हेलि, **इग्ने**, ड्रपि, कैलि-कार्ब, **लाइको**, मिनि, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, फास, प्लम्ब, पल्स, फ्रोडो, रैना-व, रास-टक्स, रूटा, सैवाडि, सिपि, साइजि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, थूजा, **वार्ब्वा**, जिङ्क।

„ „ हड्डीमें—फास-ऐ, वार्ब्वा।

„ छेदनेकी तरह (Boring)—ऐग्ना, ऐसाफि, आर्ज-मे, आर्ज-नाइ, **अरम**, **वेल**, विस्मथ, कैल्क, कास्टि, सिना, डालका, हेलि, ~ कार्ब, हिपर, लैके, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्र— — फास-ऐ, **पल्स**, **रैना-सि**, फ्रोडो, सेने, सिपि, टैवा, थूजा, जिङ्क।

„ „ वाहरकी ओर—विस्मथ, डालका, साइ, स्टैफि।

दर्द, छेदनेकी तरह, भीतरकी ओर—कैलि-कार्ब।

" " हड्डीमें—ऐसाफि, अरम, बेरा-कार्ब, वेल, कैल्के, लाइको, **मार्क**, मेजे, पल्स, सिपि, साइलि, स्पाई, थूजा।

" जखमकी तरह (Ulcerative) बाहरी—**ब्राइयो**, **ऐमोन-म्यू**, कैन्थ, कास्टि, सिकि, ग्रैफा, इग्ने, कैलि कार्ब, **कैलि-स**, मैङ्ग, म्यू-ऐ, नैट्रम-म्यू, नक्स-वोम, **पल्स**, **रास-टक्स**, सिपिया, **साइलि**, जिङ्क।

" " भीतरी—ऐमोन-कार्ब, ब्राइयो, आर्ज-ना, गेम्बो, कैना-सै, कैप्सि, कास्टि, कोलोसि, **लैकी**, मार्क, नक्स-वोम, सोरि, **पल्स**, **रास-टक्स**, **रैना-ब**, साइलि, सल्फ।

" " हड्डीमें—ब्राइयो, पल्स।

" झटका लगनेकी तरह (Jerking) बाहरी—ऐल्यूमि, आर्नि, **ऐसाफि**, अरम, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बोनि-स, **कास्टि**, चायना, सिना, क्लिमे, लाइको, मैग फास, **मिनि**, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यू**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, **पल्स**, रैना-ब, **रास टक्स**, सिपिया, साइलि, स्कुई, स्टैनम, टेरा, वैले।

" " भीतरी—बेल, कैल्के, **चायना**, **इग्ने**, **कैलि-कार्ब**, मार्क, **नाइट्रि ऐ**, **पल्स**, सिपिया, **साइलि**, स्पाइजि, स्टैनम, **सल्फ**, **थूजा**, वैले।

" " हड्डीमें—ऐसाफि, कैल्के, चायना, नेट्रम-म्यूर, पल्स, **सल्फ**, वैले।

" टनक (Soreness)—ऐकोन, इस्कि ऐल्यूमि, **आर्न-मेट**, **आर्नि**, ऐसार, बैडि, बेप्टी, ब्राइयो, कार्बोनि-स, कास्टि **सिकि**, **सिमि**, **सिना**, ड्रोसे, ऐसा, लेडम, मैङ्ग, मेडो, नेट्रम-कार्ब, नक्स म ओलि, फास, फाइटो, प्रैटि पल्स, **पाइरो**, रैना-ब, फ़ोडो, **रूटा**, **रास-टक्स**, **साइलि**, सल्फ-ऐ, टियुक्र।

दर्द, टनक, बाहरी—ऐकोन, इस्क्लि, ऐगा, ऐल्यूमि, एपिस, **आर्ज-मेट, आर्नि,** ऐसार, अरम, **बेप्टि, बेल,** ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, कैमो, **चायना,** सिना, क्लिमे, **काकि,** कोल्चि, कोलोसि, क्रोका, डालका, **डयुपे-पर्फो,** फेरम, हैमा, **हिपर,** इग्ने, कैलमि, मैग-कार्ब, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यू,** नक्स-म, नक्स-वोम, आकजा-ऐ, फास, फास-ऐ, फाइटो, पलस, **पाइरो, रैना-ब,** रोडो, **रास-टक्स, रूटा,** सैबाडि, सैबाइ, सिपि, **साइलि,** स्पाइजि, **स्पंजि,** स्टैनम, **सलफ,** थूजा, वेले, **वेरे** जिङ्क।

„ „ भीतरी—इस्क्लि, एपिस, अरम, **बेप्टि, कैम्फ, चायना,** काकि, कोलोसि, कूप्रम, रोडो, **जेलस,** हेलि, इपि, लोरो, मैङ्ग, **मार्क-कोर,** नक्स-वोम, ओपि, **पलस, पाइरो, रैना-ब,** साइलि, स्टैन, **सलफ,** वेरे, जिङ्क।

„ „ अस्थिमें—ऐगा, **आर्जेण्ट-मे,** ऐसाफि, कैल्के, **काकि,** कोरा-रू, कूप्रम, **हिपर,** इग्ने, इपि, कैलि-बा, लेडम, लिथि, मैङ्ग, मेजे, पैरि, फास, प स, **रूटा,** साइलि, स्पाइजि, वेरे।

„ „ कोमलास्थिमें (Cartilage)—**आर्जेण्ट-मेट।**

„ „ सोनेवाली करवटमें—**आर्नि,** हिपर, नक्स-म, मस्क, **रूटा,** सिपि, थूजा।

„ दबा रखनेकी तरह (Pressing)—ऐकोन, इस्क्लि, ऐगा, ऐमोन-म्यू, ऐनाका, ऐण्टिम-टार्ट, **ऐपोसा,** ऐसार, अरम, बैप्टी, बेल, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कैल्के-फास, कैम्फ, **कैना-इ,** कैना-से, कार्बो-ऐ, **कास्टि,** कैमो, चेलि, चायना, **चिनि-स,** सिमि, काकि, कोलचि, कोलोसि, कोना, साइक्ला, **ड्रोसे,** डालका, **डयुपे-पर्फो, फेरम,** जेलस, ग्लोनो, ग्रेफा, गुयेज, हेलि, हाइयो, इग्ने, इपि, **कैलि-बा,** कैल्मि, क्रियो, लोरो, लेडम, लिलि-टिग, लाइको, मेजे, मस्क,

नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, आक्जा-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पोडो, सोरि, पल्स, क्रोडो, रास-टक्स, रूटा, सेबाडि, सैम्बु, सैंगु, सार्सा, सिकि, सेनि, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, सिला, स्टैनम, स्टैफि, स्टिक्टा, सल्फ, टैरे, वेरे, जिङ्क ।

दर्द, दबा रखनेकी तरह, भीतरी—ऐकोन, आइलेन्थ, ऐलो, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐनाका, आर्ज-ना, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, ऐरम-ट्रि, ऐसाफि, अरम, बेल, बिस्मथ, बोरेक्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कैना-इं, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिड्रन, चायना, सिमि, काकि, काफ, कोलचि, कोलोसि, कोना, कूप्रम, डिजि, फेरम, गैम्बो, जेल्स, ग्लोनो, ग्रेफा, हैमा, हेलि, इग्ने, हाइड्रो-ऐ, केलि-कार्ब, केलि-आयोड, केल्मि, लैकि, लोरो, लेप्टा, लिलि-टिग, लिथि, मिलि, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, आक्जे-ऐ, फास, पेट्रो, फास-ऐ, फाइसो, फाइटो, पिक्रि-ऐ, प्लैटि, प्लम्ब, पोडो, प्रुण स्पा, पल्स, रैना-ब, रियुम, क्रोडो, रास-टक्स, रूमेक्स, रूटा, सेबाडि, सैंगु, सिकेलि, सेनि, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्कुइ, स्टैनम, सल्फ, टैरे, टेरि, वेले, वेरे, वेरे-वि, जिङ्क ।

„ „ अस्थिमें—आर्ज-मेट, बेल, बिस्मथ, कोलोसि, कूप्रम, माइक्रा, गुये, केलि-कार्ब, ओलि, रास-टक्स, सेबाडि स्टैफि, यूका ।

„ „ बाहरसे भीतरकी ओर—ऐनाका, कैल्के, चेलि, काकि, डल्का, हेलि, क्रियो, नाइ ऐ, ओलिये, प्लैटि, स्पाइजि, स्टैनम, सल्फ, जिङ्क ।

„ „ भीतरसे बाहरकी ओर—ऐकोन ऐलो ऐसाफि, अरम, बेल, ब्राइयो, सिमि, कोना इ, ड्रोसे, फेरम, इग्ने, केलि सल्फ

लिथि, मार्क, मार्का-कोर, मेजे, म्यूर-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि, पैरि, फास, प्रूण-स्पा, **पल्स**, सेबाडि, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्क्वि, स्क्वुइ, स्टैनम, स्टेफि, **सल्फ**, टियुक्रि, थूजा, **वेले**, वाल्वी।

दर्द, दबा रखनेको तरह, माँस पेशीमें—ऐनाका, ऐसाफि, ऐसार, कैप्सि, कार्बो-ऐनि कूप्रम, **साइक्ला**, ड्रम्ने, लेडम, मस्क, **नक्स-म**, ओलि, फास, फास-ऐ, प्लैटि, **रूटा**, सेबाडि, स्टैनम, स्टेफि, सल्फ-ऐ, टेरा, टियुक्रि, वेले, वेरे, वाल्वी।

„ दाँत काटनेकी तरह (Biting)—ऐम्ब्रा, कैन्थ, कास्टि, कार्बो-वेज, चाय, क्लिमे, ड्रोसे, ड्युफोर, ड्युफ्रे, फेलि, ड्रम्ने, ड्रपि, केलि-कार्ब, क्रियो, मार्क, मेजे, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, **पेट्रोसि**, प्रूण-स्पा, पल्स, रूटा, रैना-ब, **रैना-सि**, रास-टक्स, सिपि, स्टेफि, **सलफ**, टियुक्रि, जिङ्क।

„ फाड़ डालनेकी तरह (Tearing)—**ऐकोन**, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, **आर्नि**, आर्स, ऐसाफि, **बेल**, **बार्बे**, बिस्म, **ब्राइयो**, कैल्के, कैप्सि, **कार्बोनि-स**, **कोलचि**, कोलोसि, डालका, फेरम, फेरम-आर्स, गेम्बो, जेल्स, गुये, **हाइपि**, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब**, कैलि-आयोड, कैलि-ना, **कैलि-फास**, **कैलि-स**, क्रियो, **लेडम**, **लाइको**, मार्क, मैग-कार्ब, मेजे, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, **नेट्रम-स**, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, **पल्स**, फ्लोडो, रैना-ब, रास-टक्स, सिलि, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, स्टैनम, **सल्फ**, वेले, जिङ्क।

„ „ आभ्यन्तरीन (भीतरी)—ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, अरम, आर्जे-मेट, **बेल**, **बार्बे**, **ब्राइयो**, कार्बोनि-स, कैप्सि, **कार्बो-वेज**, कैमो, **चेलिडो**, कोलोसि, ड्रम्ने, **कोना**, कैलि-ना, **कैलि-स**, कैल्मि, लेके, **लेडम**, **लाइको**, मैग-कार्ब, मिनि, **मार्क**, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, फास, **पल्स**, फ्लोडो,

सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टेनम, सल्फ, टेरे, वेरे-वि, जिङ्क।

दर्द, फाड़ डालनेकी तरह, ऊपरकी ओर—ऐनाका, आर्स, वेल, कोना, डालका, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टेनम।

" " टुकड़े टुकड़ेकर—काफि, मेजी, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, स्टेफि, टियुक्रि।

" " नीचेकी ओर—ऐकोन, ऐगा, ऐग्ना, ऐण्टिम-टार्ट, बेरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैप्सि, कार्बोनि-स, चायना, कार्बो-वेज, कोलोसि, फेरम, ग्रेफा, कैलि-कार्ब, कैलि-स, लाइको, मिनि, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, स्पाइजि, सल्फ, वेरे।

" " पेरियोस्टियममें (अस्थिगात्रावरण)—मेजी, फ्रोडो।

" " बाहरकी ओर—ब्राइयो, कैल्के, काकि, प्रूणा-स्पा, रास-टक्स, साइलि, स्पाई।

" " मांसपेशीमें—ऐग्ना, ऐमोन-म्यूर, आर्ज-मेट, आर्स, ऐसाफि, ऑरम, बेल, बिस्मथ, बोरा, ब्राइयो, कैल्को, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, चायना, सिना, कोलचि, ग्रेफा, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यूर, मेजे, मार्क, म्यू ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, फास, पल्स, फ्रोडो, रूटा, मेगाई, सिपि, साइलि, स्टेनम, स्टेफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, टियुक्रि, जिङ्क।

" " हड्डीमें—ऐगा, ऐमोन-म्यूर, आर्ज मेट, ऑरम, ऑरम-म्यू, बेरा-कार्ब, बेल, बार्बे, कैप्सि, कास्टि, कार्बो वेज, चायना, सिना, काकि, क्युप्रम, साइका, ड्रोसे, फेरम कैलि-कार्ब, कैलि ना, लेके, लाइको, मेग कार्ब, मार्क, मार्क कौर, मार-

ऐ, मेजि, फास, फास-ऐ, फ्लोर्डो, रूटा, सेबाइ, स्पाइ, स्ट्रैफि, स्ट्रैम्सि, टैबे, थूजा, जिङ्क।

दर्द, फैलनेवाला चारों ओर (Radiating)—आर्जेण्ट-ना, मैग-फास, टेलू।

„ मरोड़की तरह (Twisting)—ऐगा, आर्ज-ना, बेल, ब्राइयो, कैम्फ, सिना, डायस्को, इग्ने, मार्क, नक्स-वोम, प्लैटि, रास-टक्स, सेबाडि, साइलि, वेरे।

„ सङ्कोचन (Constriction)-बाहरी—ऐमोन-कार्ब, ऐनाका, आर्जेण्ट-ना, बेल, कैल्के, कार्बो-वेज, सिना, डिजि, कैलि-ना, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पल्स।

„ „ भीतरी—ऐकोन, ऐम्ब्रा, कैल्के, काक्कि, कार्बो-वेज, कोलचि, कोलोसि, इग्ने, कैलि-कार्ब, मेजि, नक्स-वोम, फास-ऐ, प्लैटि, स्टैफि, सल्फ, टियुक्रि, जिङ्क।

„ „ गाँठोंमें—कैल्के, प्लैटि, पल्स।

„ „ हड्डीमें—ऐल्यूमि।

„ सुई गडनेकीतरह (Stitching)-बाहरी—ऐकोन, ऐगार, ऐलो, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यूर, ऐसाफि, आर्निका, बैरा-कार्ब, बेल, बार्बे, ब्राइयो, कैल्के-फास, कैना-इ, कैम्फि, कार्बोनि-सल्फ, कास्टि, चेलिडो, चायना, सिक्कि, क्लिमे, काक्कि, कोलोसि, कोना, डायस्को, ड्रोसे, फेरम, जेल्स, ग्रेफा, हेलिबो, इग्ने, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, कैलि-नाइ, कैलि-फास, कैली-सल्फ, लेडम, लिथि, लाइको, मार्क, मेजि, म्यूर-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि-ऐनि, आक्जा-ऐ, पेरि, फास, फास-ऐ, फाइटो, प्लम्ब, पल्स, रैना-ब, रैना-स्की, रास-टक्स, सेबाडि, सेबाइ, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्क्वि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टैरा, थूजा, वेले, वायो-ट्रि, जिङ्क।

„ भीतरी—ऐकोन, इस्कु, ऐगा, ऐल्यूमि, आर्स, ऐसाफि, ऐशार, अरम, बेल, बार्बे, बोरा, बोवि, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैना इ, कैम्थ, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, चायना,

सिना, कोलचि, काकि, कोलोसि, कोना, क्रोकस, डालिकस, फेरम, **डालका**, गैम्बो, ग्लोनो, **इग्ने**, केलि-बाई, **केलि-कार्ब**, केलि-आयोड, केलि नाई, **केलि-सल्फ**, केल्मि, क्रियो, **लेके**, लोरोसि, **लेडम**, लाइको, मेग-कार्ब, मेग-मूर, **मार्क**, **मार्क-कोर**, नेजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूरर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ए**, नक्स वोम, ओलि ऐनि, पैरि फास, फास ए, **प्लम्ब**, **पल्स**, रैना-ब, रेना-सि, रास-टक्स, सैबाडि, सार्सा, सेने, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, सिक्ता, स्टैफि, सल्फ, रैटा, थेरि, थूजा, वायो-ट्रि, जिङ्क ।

दर्द, सुई गड़नेकी तरह, मांस पेशीमें— ऐकोन, ऐल्यूमि, आर्निका, ऐमोन-मूरर, आर्स-आयोड, **ऐसाफि**, **बेल**, कैल्को, **ब्राइयो**, कास्टि, चायना, काकि, कोना, ग्रैफा, गुये, हेलि, इग्ने, **केलि-कार्ब**, लोरोसि, मिलि, **मार्क**, मूर-ए, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ए, **पल्स**, फास, रैना-सि, **रास-टक्स**, सेबाडि, सैबाइ, सार्सा, सिपि, साइलि, **स्पाई**, स्क्वि, स्टैनम, **स्टैफि**, **टैरा**, **सल्फ**, **थूजा**, वायो-ट्रि, जिङ्क ।

" " " जलनके साथ—ऐकोन, ऐल्यूमि, आर्जेण्ट-मेट, **ऐसाफि**, **काकि**, डिजि, **मेजे**, **नक्स-वोम**, ओलि, **रास-टक्स**, सैबाडि, **स्टैफि**, **सल्फ-ए**, **थूजा** ।

" " पेरियोस्टियममें (अस्थि-गात्रावरण-Periosteum)—**ऐसाफि**, केम्फ, कैमो, चायना, साइक्ला, केल्मि, मेङ्ग, मार्क, मेजे, **फास-ए**, फाइटो, रोडो, रूटा, साइलि ।

" सुन्न हो जानेके साथ (Benumbing)—ऐकोन, कोल्चि, **कैमो**, सिना, ग्रैफा, प्लाट्रि, मेजे, **ओलि**, **प्लेटि**, पल्स, रिगुम, **सेबाडि**, मेम्बु, वेर, **वाव्वी** ।

दुर्बलता—शारीरिक (Weakness)—ऐकोन, **ऐनाका**, **ऐण्टि-टार्ट**, **एपिस**, **आर्ज-मेट**, आर्ज-ना, **आर्नि**, **आर्स**, **आर्स-आयोड**,

वेप्टी, बैरा-कार्ब, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्कं, कैल्के-फास, कैम्फ, कार्बो-ऐसि, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, चिनि-स, काक्कि, कोलचि, कोना, क्रोटे-टी, कूमम, कूप्रम-आर्स, डिजि, फेरम, फेरम-आयोड, फेरम-म्यू, जेल्स, हिपर, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, कैलि-आर्स, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, कैल्मि, लैके, लोरो, लाइको, मेडो, मार्क, मार्क-कोर, मार्क-सल्फ, म्यू-ऐ, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-फास, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, फास, फास-ऐ, पिक्रि-ऐ, प्लम्ब, सोरि, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सिपि, सिलि, सिपि, साइलि, स्कु ई, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ-ऐ, सल्फ, टैबे, टेरि, टियुब, वेरे।

दुर्बलता, दिनमें—ऐमोन कार्ब, नेट्रम-म्यूर, स्टैनम, सल्फ।

„ प्रातःकालके समय—ऐम्ब्रा, आर्ज-मेट, आर्स, आर्स-आयोड, ब्राइयो, कैल्के-स, कार्बो-वेज, कोना, क्रोकस, जेल्स, ग्रैफा, आइयो, लैकि, लाइको, मार्क, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-फास, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, साइजि, स्टैफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, वेरे।

„ „ नींद खुलनेपर—आर्ज-मेट, ब्राइयो, कैल्के, डाल्का, लैके, लाइको, फास, सेंगु, सिपि, साइलि, साइजि, स्टैफि।

„ „ बिछावनपर—कार्बो-वेज, नेट्रम-म्यूर, पल्स, साइलि।

„ पूर्वाह्नमें (दोपहरके पहले)—ब्राइयो, लाइको, फास-ऐ, प्लेटि।

„ मध्याह्नमें—कार्बो-वेज, कास्टि, कोना, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, साइलि, सल्फ, टियुक्रि।

„ अपराह्नमें (तीसरे पहर)—ब्राइयो, जेल्स, साइलि, सल्फ।

„ सन्ध्यामें—ऐमोन-कार्ब, कैल्के-स, कास्टि, क्रोक, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-बा, लैके, नेट्रम-म्यूर, पेट्रो, सिपि, सल्फ।

दुर्बलता, रातमें—रास-टक्स, साइलि।

„ अनिद्राकी वजहसे—काकि, घूम्रम।

„ उत्तापके कारण—कार्बो-स, लैके, नेट्रम कार्ब, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ „ ग्रीष्मकी वजहसे—नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर।

„ „ सूर्यका—नेट्रम-कार्ब, सिपि।

„ उदरामयकी वजहसे—ऐल्यूमि, आर्स, चायना, डलका, नेट्रम-सल्फ, नक्स-वोम, ओलि, फास, पिक्रि-ऐ, पोडो, सिकेलि, साइलि, वेरे।

„ ऋतुके पहले—बेल, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर।

„ „ समय—ऐगा, ऐलो, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, आर्स, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, सिनेबा, काकि, ग्रैफा, ऐलोनि, आइयो, कैलि कार्ब, कैलि-स, लैके, लिलि-टिग, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, म्यूरे, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, सैबाडि, सिके, सिपि, सल्फ, वेरे।

„ „ बाद—ऐल्यूमि, कार्बो-ऐनि, चायना, सिपि, ड्रूपि, फास।

„ काँपा करता है, कमजोरीकी वजहसे—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐनाका, एपिस, आर्ज-नाई, आर्स, वैप्टि, कोना, क्रोटे-हो, जैलस, नाइट्रि ऐ, फास, प्लैटि, पल्स, सिपि, स्टैनम।

„ „ पाखाना हो जाने बाद—आर्स, कार्बो-वेज, कास्टि, कोना।

„ ज्वरावस्थामें—आर्स, वैप्टि, आइयो, इग्ने, म्यूर ऐ, नेट्रम म्यूर, फास, सल्फ-ए, पल्स, रास-टक्स, रोबि।

„ तरल पदार्थके क्षयके कारण—कार्बो-वेज, चायना, चिपर, कैलि कार्ब, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम म्यूर, नक्स वोम, फास-ऐ, सोरि, सल्फ, वेरे।

„ पक्षाघातसे—ऐल्यूमि, आर्जेण्ट-मेट, आर्स, बैरा कार्ब, बैरा म्यूर, बिस्मथ, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, काकि, कोलुबि, जैलस, हेलि, मार्क, म्यूर-ऐ, नाइट्रि ऐ, ओलियेँ, फास, फास-ऐ, पल्स, फ्रोड़ो, रास-टक्स, स्टैनम, वेरे।

दुर्बलता, परिश्रमकी वजहसे, शारीरिक, थोड़ा ही—ऐगा, **आर्स**, आर्स-आयोड, ऐमोन-कार्ब, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, काफि, कोलचि, **कोना**, **क्रोटे**, फेरम, जेल्स, लाइको, मैग-म्यूर, मार्क, मार्क-कोर, नेट्रम-आर्स, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, **फास**, **फास-ऐ**, **पिक्रि-ऐ**, सोरि, **रास-टक्स**, **सिलि**, सिपि, स्पाइजि, **स्पंजि**, स्टैनम, स्टेफि, सल्फ।

„ „ मानसिक—ऐलो, वेल, **कैल्के**, **कूप्रम**, कैलि-कार्ब, **लैके**, लाइको **नेट्रम-कार्ब**, **सोरि**, पल्स, **सिपि**, सल्फ।

„ पसीनेके कारण—"पसीना" देखिये।

„ पाखाना जानेके पहले—रास-टक्स, वेरे।

„ „ „ समय—वोरा, **प्लेटि**, वेरे।

„ „ „ बाद—ऐलो, **आर्स**, **आर्स-मे**, कैल्के, कार्बो-वेज, **कोना**, डाल्का, ग्रैफा, आयोड, लैके, लाइको, मार्व, **नेट्रम-सल्फ**, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, **पिक्रि-ऐ**, **पोडो**, सिके, सिपि, सल्फ, टेरि, वेरे।

„ बच्चोंकी—वेरा-कार्ब, वेल, कैल्के, लैके, **लाइको**, नक्स-वोम, साइलि, **सल्फ**।

„ बैठनेपर—आर्स, काफि, लाइको, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, प्लेटि, प्लम्ब, रास-टक्स, सल्फ।

„ बोलनेपर—**ऐल्यूमि**, कैल्के, काफि, फेरम, हाइयो, नेट्रम-म्यूर, सल्फ-ऐ, **स्टैनम**, **सल्फ**।

„ भ्रमणके कारण—**ऐल्यूमि**, ऐनाका, आर्स, आर्स-आयोड, **ब्राइयो**, वार्ब, कैल्के, कैना-ई, कार्बो-वेज, चायना, **कोना**, कूप्रम-आर्स, **फेरम**, आइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, **म्यू-ऐ**, नेट्रम-आर्स, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ**, **फास**,

फास ऐ, **पिक्रि-ऐ**, प्लम्ब, **सोरि**, पल्स, **रास-टक्स**, **सिपि**, साइलि, **स्कुइ**, **सल्फ**, वेरे, जिङ्क।

दुर्बलता, वृद्ध मनुष्योंकी—ऐम्ब्रा, अरम, बैरा-कार्ब, कोना, ओपि, फास, सिकै।

" सङ्गमके बाद—ऐगा, कैल्के, कोना, डिजि, थेफा, केलि-कार्ब, केलि-फास, नेट्रम-म्यूर, फास फास-ऐ, **सिलि**, सिपि, साइलि।

" स्नायविक (Nervous)—ऐल्यूमि, ऐसार, बैरा-कार्ब, बेल, कैल्के, **चायना**, काकि, कोना कुप्रम, गुयेज, इग्ने, आइयो, **केलि-फास**, मार्क, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम-फास, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, **फास**, फास-ऐ, प्लैटि, प्लम्ब, **पल्स**, **सिपि**, **साइलि**, **स्टेनम स्टैफि**, सल्फ, टियुक्रि, वेलै, वायो-ओ।

" स्वप्नदोषके बाद—बैरा-कार्ब, कैल्के, चायना, कोना, डिजि, जेल्स, हाइड्रो, केलि-कार्ब, **लाइकों**, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, **फास**, **फ़ास-ऐ**, पिक्रि-ऐ, सार्स, सिलि, सिपि, **साइलि**, स्टेनम, **स्टैफि**।

" हिस्टीरियाकी वजहसे—एपिस, **कोमो**, **इग्ने**, **मस्क**, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, सिपि, सल्फ।

" उपशम-निद्राके बाद—फास, फास-ऐ।

" " भ्रमणसे—**रास-टक्स**, रूटा, **सल्फ**।

" " विश्रामसे—आर्स, स्टेफि।

" हृदि-विश्रामसे—**हाइयो**, मस्क, **प्लेटि**।

" " सीढ़ी चढने पर—ऐनाका, **कोल्के**, कैल्के फास, **आइयो**, लाइको, स्टैनम।

" " हिलने डोलनेपर—आर्ज-मेट, **आर्स**, फास, **स्पञ्जि**।

नाड़ी, असम (Irregular)—ऐकोन, ऐगा, **ऐरिट्रम-क्रूड**, आर्ज नाइ **आर्स**, **आर्स-आयोड**, ऐमाकि, अरम आइयो, बैर बेलि **चायना**, चिनि-आर्स, सिमि, **डोलाचि**, कोम, क्रोटे टी, **डिजि**, जेल्स, हिपर हाइयो, केलि मार्ब केलि नाइ केलि-

नाड़ी, द्विगुणित (Double)—ऐगा, बेल, साइक्ला, ग्लोनो, फास, म-ग, **स्ट्रैमो।**

„ द्रुत (Rapid)—**ऐकोन,** इथ्यू, ऐण्टिम-टार्ट, **एपिस,** आर्जेण्ट-नाइ, **आर्निका, आर्स, आर्स-आयोड,** ऐसाफि, **अरम,** बेप्टी, **बेल, बार्वे, ब्राइयो,** कैम्फ, कैमो, चिनि-सल्फ, सिना, कोना, क्रोटे-होर, **क्यूप्रम, डिजि,** फेरम, **फेरम-फास,** जेल्स, ग्लोनो, हाइयो, इग्ने, **आइयो,** लैकि, लोरो, **मार्क,** मस्क, म्यू-ऐ, नेजा, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर,** नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, **नक्स वोम, ओपि, फास, फास-ऐ,** फाइटो, प्लम्ब, पल्स, **पाइरो, रास-टक्स,** सिके, सिपि, **साइलि, स्पाइजि, स्टेनम, स्ट्रैमो, सल्फ,** टैबे, वेले, वेरे, **वेरे-वि,** जिङ्क।

„ धीर गति-विशिष्ट (Slow)—ऐकोन, ऐगा, ऐण्टिम-टार्ट, बेल, **बार्वे,** केम्फ, **कैना-ई,** कैना-से, केन्थ, केप्सि, चेलिडो, चिनि-सल्फ, कोना, क्रोटे-होर, कूप्रम, **डिजि, जेल्स, हेलिबो,** केल्मि, लोरो, लोबे, नेजा, नक्स-मस, **एपिस,** पोडो, सैंगु, सिके, **सिपि, स्ट्रैमो,** टैबे, वेरे, वेरे-वि।

„ पूर्ण (Full)—**ऐकोन,** ऐलि-सि, **ऐण्टिम-टा,** आर्निका, बेल, **बार्वे, ब्राइयो,** केन्थ, **चेलिडो,** चायना, कूप्रम, **डिजि,** डाल्का, इयुपे-पर्फो, **जेलस,** ग्लोनो, हिपर, **हाइयो,** इग्ने, केलि-आई, **केली-बाई,** लैकि लेडम, मार्क, मेजे, मस्क, नेजा, नक्स वोम, ओपि, फास, फास-ऐ, सेबाई, सिपि, साइलि, स्पाई, **स्ट्रैमो,** सल्फ, टैबे, वेरे, वेरे-वि।

„ सविराम (Intermittent)—ऐकोन, इथ्यू, ऐगा, आर्जेण्ट नाई आर्स, अरम, ब्राइयो, कैम्फ, केन्थ, केप्सि, कार्बो-वेज, सिड्रन, **चायना,** सिमि, कोलचि, कोना, क्रोटे-होर, **डिजि,** जेल्स, हिपर, आइयो, केलि-कार्ब, केलि-आयोड, **केल्मि,** लैके, लोरो, लिलि-टिग, मार्क, मार्क-कोर, **नेट्रम-म्यूर,** नाइट्रि-ऐ, फास्फ-

ऐ, ओपि, **फास-ऐ,** प्लम्ब, रास-टक्स, सेम्बु, **सिकि,** सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, टेबे, जिङ्क।

नाड़ी, सूतकी तरह चीण (Thready)—ऐकोन, आर्निका, **आर्स,** बेल, कैम्फ, कैन्थ, कार्बो-वेज, कोलचि, कूप्रम, डिजि, हेलि, हाइयो, आइयो, कैलि-बाई, नेजा, ओलि, ओपि, आकजा-ऐ, प्लम्ब, पेट्रो, फास, फाइटो, रास-टक्स, सल्फ।

„ हीन, छूट जाना (Pulseless)—**ऐकोन,** आर्स, कैक्ट, कैन्थ, कार्बो-ऐसि, कार्बो-वेज, काकि, **कोलचि, कूप्रम,** ड्रपि, मार्क, नेजा, ओपि, सिकेलि, **साइलि, वेरे।**

„ प्रायः छूट जानेकी अवस्था—**ऐकोन,** एपिस, आर्स, **कैम्फ,** डिजि, **जेल्स,** ड्रपि, लैके, लोरो, मार्क, नेजा, पोडो, पल्स, रास-टक्स, सल्फि, टेबे, वेरे।

पक्षाघात (Paralysis)-आभ्यन्तरीन—ऐकोन, आर्स, **बेल,** काकि, कोना, **डाल्का,** जेल्स, **हाइयो,** लोरो, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, रास-टक्स, **स्ट्रैमो।**

„ पार्श्व का एक—ऐल्युमि, ऐनाका, एपिस, बेल, **कास्टि,** काकि, कक, इलैप, ग्रैफा, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैके, ओपि, फास, फास-ऐ, रास-टक्स, सार्सा, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ।

„ „ दाहिने—आर्निका, बेल, कैल्के, कैन्थ, **कास्टि,** इलैप, ग्रैफा, ओपि, नेट्रम-कार्ब, रास-टक्स।

„ „ बायें—ऐनाका, एपिस, आर्निका, बेरा-म्यूर, **लैकि,** नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम, रास-टक्स,** स्ट्रैमो।

„ उड्ढे द बैठकर—कास्टि, हिपर।

„ डिफ्थीरियाके बाद—आर्स, कास्टि **काकि,** कोना, क्रोटे-होर, हेलि, लेक-कै, लेके, नेट्रम-म्य, फास, प्लम्ब।

„ पहले पैरमें, पीछे हाथमें—हाइड्रो-ऐ।

„ हाथोंका—बेरा-कार्ब, जेल्स, मैग-फास, **मार्क,** फास, प्लम्ब, **रास-टक्स,** टैरेण्ट, **जिङ्क।**

पक्षाघात, वेदनाहीन—ऐनाका, आर्जेण्ट-नाइ, आर्स, अरम, बेप्टी, केरा-कार्ब, ब्यूफो, कैना-इ, कार्बो-सल्फ, कास्टि, काकि, कोना, कूप्रम, हाइयो, लाइको, मार्क, ओपि, ओलि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिकै, विरे।

„ शीतलताके साथ-पक्षाग्रस्त स्थानका—आर्स, कास्टि, काकि, डल्का, ग्रैफा, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स, जिङ्क।

पतन (Fall down)-ज्ञान रहनेके साथ (with consciousness)—ऐड्रा, आर्स, बेल, कैम्फ, कैन्थ, सिना, हेलि, मैग-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, फास, प्लैटि, पल्स, सल्फ।

„ ज्ञान न रहनेके साथ—ग्लोनो।

„ सहजमें ही—कास्टि, इग्ने, मैग-कार्ब, नक्स वोम, फास, फास-ऐ, स्ट्रैमो।

पतले केशवाले व्यक्तियोंको—ऐड्रा, बेल, बोरा, ब्रोमि, ब्राइयो, केल्के, कैम्फि, कैमो, क्लिमे, काकि, काना, डिजि, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, आइयो, केलि बा, लैके, लाइको, मार्क, मेजे, पेट्रो, फास, रास-टक्स, सिलि, सेनि, साइलि, स्टाइजि, स्पञ्जि, सल्फ, सल्फ ऐ, थूजा।

परिवर्तन शीलता, रोग लक्षणोंका—ब्राइयो, क्रोका, इग्ने, रास टक्स, केलि बा, प्लैटि, पल्स, सिपि, स्टानि, सल्फ।

पित्त-प्रधान धातु (Bilious constitution)—ऐकोन, आर्स, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, ऐसार, ऐसाफि, अरम, बेल, ब्राइयो, ब्रिमि, कैमो, चायना, कोलोसि, इग्ने, इपि, मार्क, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नक्स वोम, पल्स, रास टक्स, सिपि, स्टैफि, सल्फ, टैराक्स, विरे।

„ पुरुषोंका—नक्स-वोम, फास।

पूर्ण मालूम होना-भीतर (Internal)—ड्रस्कि, ऐकोन, एपिस, ऐण्टि-टार्ट, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, ऐसार, बैरा कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैम्फि, कार्बो-वेजि, कार्बोलिक ए, कार्बो वेज कैमो, चायना, सिमि,

कोरालि, कोना, क्रोटन-टिग, साइक्ला, डिजि, फेरम, **ग्लोनो**, गेफा, हैमा, हेलि, आइरि, केलि-कार्ब, केल्मिना, लाइको, **मिलि**, **मस्क्ष**, नेट्रम-आर्स, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास**, फाइटो, सोरि, पल्स, रेना-सि, **रास-टक्स**, सेबाई, सिपि, **सल्फ**, वेले।

रक्तिमाका अभाव—ऐल्यूमि, **ऐम्ब्रा**, **ऐमोन-कार्ब**, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, ब्रोमि, कैम्फ, **कैल्के**, केल्के-स, **कैप्सि**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कूप्रम, **कोना**, डालका, फेरम, फ्लू-ऐ, **जेल्स**, गेफा, गुये, **हेलि**, हाइड्रो-ऐ, आइयो, इपि, लेके, **लोरो**, लाइको, मार्क, मस्क, म्यू-ऐ, नक्स-म, **ओलि**, **ओपि**, फास, **फास-ऐ**, प्लम्ब, फ्रोडो, **सोरि**, सिके, सिपि, स्टेनम, स्ट्रेमो, **सल्फ**, सिकि, टेरे, वेले, वेरे, जिङ्क।

उदार-आभ्यन्तरिक (भीतरी)—**ऐकोन**, एपिस, **आर्स**, अरम-ट्रि, अरम, **बेल**, बार्ब, **ब्राइयो**, केक्ट, कैना-से, कैन्थ, कैमो, कोना, क्यूबे, **डूचिने**, फेरम, **जेल्स**, हाइयो, **आइयो**, केलि-आर्स, केलि-कार्ब, केलि-क्लोर, कैलि-आयोड, कैलि नाई, **लैके**, लाइको, **मार्क**, **नक्स-वोम**, **फास**, **प्लम्ब**, **पल्स**, **सिकि**, सिलि, सल्फ, **टेरि**, वेरे।

" बाहरी—ऐकोन, **आर्स**, **बेल**, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैमो, कोना, **डूचिने**, ड्युफ्रे, फेरम, फ्लू-ऐ, हिपर, केलि-आर्स, **लेकि**, लाइको, मार्क, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, **पल्स**, रास-टक्स, **साइलि**, साई, स्टेफि।

" अस्थिका (Bones)—ऐकोन, ऐसाफि, अरम म्यू, बेल, केल्के, फ्लू-ऐ, लाइको, मैज़े, **मार्क**, **मेजे**, फास, **फास-ऐ**, नाइ-ऐ, सोरि, **पल्स**, **साइलि**, **स्टैफि**, सल्फ।

" अस्थि-आवरणका (Of periostium, periostitis)—एपिस, आर्स, ऐसाफि, अरम-म्यू, **फ्लू-ऐ**, केलि-आयोड, मैज़े, मार्क, मार्क-कोर, **मेजे**, नाइ-ऐ, सोरि, **फास-ऐ**, रूटा, साइलि

प्रदाह, गाठोंका—"ग्लेण्ड" देखिये ।

" सिरस झिल्लीका (Serous membranes)—ऐकोन, एपिस, ऐपोसा, आर्स, अरम, अरम-म्यू, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, हेलि, आइयो, कैलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मार्क, नेट्रम म्यूर, फास, फास-ऐ, सोरि, पल्स, साङ्गुलि, सिना, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि ।

" स्नायुका—ऐकोन, आर्स, बेल, कैक्ट, सिकि, हिपर, हाइयो, इपि, केलि, लेडम, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स, साङ्गलि ।

प्रेम विफल होनेके कारण बीमारियाँ—अरम, कैल्के-फास, सिपि, काकि, हेलि, हाइयो, इग्ने, हैके, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, स्टेफि ।

बच्चोंके लिये उपयोगी—इथू, ऐग्ना, बेल, बोरा, कैल्के, कैल्के-फास, कैप्सि, कैमो, सिकि, काफि, क्रोक, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, लाइको, मार्क, नक्स-म, रियुम, साङ्गलि, सब्जि, सल्फ ।

" स्तन पीने वाले—आर्स, बेल बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, चायना, सिना, डल्का, इग्ने, इपि, मैग-कार्ब, नेट्रम-फास, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सिना, स्टेफि, सल्फ ।

बड़ा होनेकी तरह मालूम होना—ऐल्यूमि, ऐगार, बेन, बिस्मथ, बोवि, ब्राइयो, केम्फि, पैरानि, केलि-कार्ब, लोरो, मार्ग, पेरि, पल्स, रास-टक्स, स्पाइजि, स्ट्रेनम, थेरे ।

वात (Rheumatism)—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, केम्फ, कास्टि, कैना-मे, कार्बो-वेज, कैमो, चायना, कोल्चि, फ़ाम, डल्का, फ्लुफोर, जेल्स, इग्ने, कैल्मि, केलि फ़ोर, लेडम, मैग-कार्ब, मैग-म, सिका, मार्क, मार्क-म, मेजे, म्यू-ऐ, नाइ-ऐ, नक्स म, नक्स-वोम, पोन्मि, एपिस,

कोलचि, कोना, क्रोटन-टिग, साइक्ला, डिजि, फेरम, **ग्लोनो**, ग्रे फा, ईमा, हेलि, आइरि, केलि-कार्ब, केलिना, लाइको, **मिलि**, **मस्क**, नेट्रम-आर्स, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास**, फाइटो, सोरि, पल्स, रैना-सि, **रास-टक्स**, सैबाड़ि, सिपि, **सल्फ**, वेले।

इन्द्रियोंका अभाव—ऐल्यूमि, **ऐम्ब्रा**, **ऐमोन-कार्ब**, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, ब्रोमि, कैम्फ, **कैल्के**, कैल्के-स, **कौष्टि**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कूप्रम, **कोना**, डालका, फेरम, फ्लू-ऐ, **जेल्स**, ग्रेफा, गुये, **हेलि**, हाइड्रो-ऐ, आइयो, इपि, लेके, **लोरो**, लाइको, मार्क, मस्क, म्यू-ऐ, नक्स-म, **ओलि**, **ओपि**, फास, **फास-ऐ**, प्लम्ब, फ्लोडे, **सोरि**, सिके, सिपि, स्टैनम, स्ट्रेमो, **सल्फ**, सिफि, टेरे, वेले, वेरे, जिङ्क।

प्रदाह-आभ्यन्तरिक (भीतरी)—**ऐकोन**, एपिस, **आर्स**, अरम-ट्रि, अरम, **वेल**, वार्बे, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैना-से, कैन्थ, कैमो, कोना, क्यूवे, **इचिने**, फेरम, **जेल्स**, हाइयो, **आइयो**, केलि-आर्स, केलि-कार्ब, केलि-क्लोर, केलि-आयोड, केलि-नाइ, **लैके**, लाइको, **मार्क**, **नक्स-वोम**, **फास**, **प्लम्ब**, **पल्स**, **सिकि**, सिलि, सल्फ, **टेरि**, वेरे।

» बाहरी—ऐकोन, **आर्स**, **बेल**, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैमो, कोना, **इचिने**, ड्युफ्रे, फेरम, फ्लू-ऐ, हिपर, केलि-आर्स, **लैके**, लाइको, मार्क, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, **पल्स**, रास-टक्स, **साइलि**, स्पाइ, स्टैफि।

» अस्थिका (Bones)—ऐकोन, ऐसाफि, अरम म्यू, वेल, कैल्के, फ्लू-ऐ, लाइको, मैङ्ग, **मार्क**, **मेजे**, फास, **फास-ऐ**, नाइ-ऐ, सोरि, **पल्स**, **साइलि**, **स्टैफि**, सल्फ।

» अस्थि-आवरणका (Of periostium, periostitis)—एपिस, आर्स, ऐसाफि, अरम-म्यू, **फ्लू-ऐ**, केलि-आयोड, मैङ्ग, मार्क, मार्क-कोर, **मेजे**, नाइ-ऐ, सोरि, **फास-ऐ**, रूटा, साइलि, स्टैफि।

प्रदाह, गांठोंका—"ग्लेण्ड" देखिये।

" सिरस झिल्लीका (Serous membranes)—ऐकोन, **एपिस**, ऐपोसा, **आर्स**, अरम, अरम-म्यू, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, **हेलि**, आइयो, कैलि-कार्ब, लेडम, **लाइको**, मार्क, नेट्रम म्यूर, फास, फास ऐ, सोरि, पल्स, **साइलि**, सिना, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि।

" स्नायुका—**ऐकोन**, आर्स, **बेल**, कैक्ट, सिकि, हिपर, हाइयो, इपि, कैलि, लेडम, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **फास**, पल्स, रास-टक्स, साइलि।

प्रेम विफल होनेके कारण बीमारियां—अरम, कैल्के-फास, सिपि, काकि, हेलि, **हाइयो**, **इग्ने**, हेके, नेट्रम-म्यूर, **फास-ऐ**, स्टैफि।

बच्चोंके लिये उपयोगी—इथू, ऐग्नस, **हेल**, बोरा, **कैल्के**, कैल्के-फास, **कैसि**, **कैमो**, सिकि, काफि, क्रोक, **हाइयो**, इग्ने, आइयो, इपि, लाइको, **मार्क**, नक्स-म, रियुम, **साइलि**, सल्जि, सल्फ।

" स्तन पीने वाले—आर्स, बेल **बोरा**, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, चायना, सिना, डालका, इग्ने, इपि, मैग-कार्ब, **नेट्रम फास**, नक्स-वोम, फास-ऐ, **पल्स**, रास-टक्स, **सिपि**, सिना, स्टैफि, सल्फ।

बड़ा होनेकी तरह मालूम होना—ऐल्यूमि, ऐसार, बेल, बिस्माथ, बोवि, ब्राइयो, कैफि, ऐरानि, कैलि-कार्ब, लौरो, मार्क, **पेरि**, **पल्स**, **रास-टक्स**, साइजि, स्ट्रैनम, वेरे।

बात (Rheumatism)—**ऐकोन**, **ऐण्टिम-क्रूड**, ऐण्टिम-टार्ट, **आर्नि**, **आर्स**, **बेल**, **ब्राइयो**, कैल्के, केम्फ, **कास्टि**, कोलोसि **कार्बो-वेज**, **कैमो**, **चायना**, कोल्चि, फ्रम, डाल्का, इगुफोर, जेल्स, **इग्ने**, कैलि, कैलि क्लोर, लेडम, मैग कार्ब, मैग म, सिका, **मार्क**, मार्क-स, मेजे, म्यू-ऐ, नाइ ऐ, नक्स म, नक्स वोम, फिस

कौलचि, कोना, क्रोटन-टिग, साइक्ला, डिजि, फेरम, **ग्लोनो**, ग्रेफा, हैमा, हेलि, आइरि, कैलि-कार्ब, केलिना, लाइको, **मिलि**, **मस्क**, नेट्रम-आर्स, नाइ-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, **फास**, फाइटो, सोरि, पल्स, रैना-सि, **रास-टक्स**, सैबाइ, सिपि, **सल्फ**, वेले।

श्लैष्मिक झिल्लियोंका प्रभाव—ऐल्यूमि, **ऐम्ब्रा**, **ऐमोन-कार्ब**, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, ब्रोमि, कैम्फ, **कैल्के**, केल्के-स, **कैप्सि**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, चायना, काकि, कूप्रम, **कोना**, डाल्का, फेरम, फ्लू-ऐ, **जेल्स**, ग्रेफा, गुये, **हेलि**, हाइड्रो-ऐ, आइयो, इपि, लेके, **लोरो**, लाइको, मार्क, मस्क, म्यू-ऐ, नक्स-म, **ओलि**, **ओपि**, फास, **फास-ऐ**, प्लम्ब, फ्लोडो, **सोरि**, सिके, सिपि, स्टेनम, स्ट्रेमो, **सल्फ**, सिकि, टेरे, वेले, वेरे, जिङ्क।

प्रदाह-आभ्यन्तरिक (भीतरी)—**ऐकोन**, एपिस, **आर्स**, अरम-ट्रि, अरम, **वेल**, बार्बे, **ब्राइयो**, कैक्ट, कैना-सै, कैन्थ, कैमो, कोना, क्यूवे, **इचिने**, फेरम, **जेल्स**, हाइयो, **आइयो**, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, कैलि-क्लोर, कैलि-आयोड, कैलि नाइ, **लैके**, लाइको, **मार्क**, **नक्स-वोम**, **फास**, **प्लम्ब**, **पल्स**, **सिकि**, सिलि, सल्फ, **टेरि**, वेरे।

„ बाहरी—ऐकोन, **आर्स**, **वेल**, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैमो, कोना, **इचिने**, च्युफ्रे, फेरम, फ्लू-ऐ, हिपर, कैलि-आर्स, **लेकि**, लाइको, मार्क, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, **पल्स**, रास-टक्स, **साइलि**, स्पाइ, स्टेफि।

„ अस्थिका (Bones)—ऐकोन, ऐसाफि, अरम म्यू, वेल, केल्के, फ्लू-ऐ, लाइको, मैङ्ग, **मार्क**, **मेजे**, फास, **फास-ऐ**, नाइ-ऐ, सोरि **पल्स**, **साइलि**, **स्टेफि**, सल्फ।

„ अस्थि-आवरणका (Of periostium, periostitis)—एपिस, आर्स, ऐसाफि, अरम-म्यू, **फ्लू-ऐ**, कैलि-आयोड, मैङ्ग, मार्क, मार्क-कोर, **मेजे**, नाइ-ऐ, सोरि, **फास-ऐ**, रूटा, साइलि, स्टेफि।

प्रदाह, गाठोंका—"ग्लेण्ड" देखिये।

" सिरस झिल्लीका (Serous membranes)—ऐकोन, एपिस, ऐपोसा, आर्स, अरम, अरम-म्यू, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, हेलि, आइयो, कैलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मार्क, नेट्रम म्यूर, फास, फास ऐ, सोरि, पल्स, साइलि, सिना, स्ट्रैमो, सल्फ, टेरि।

" स्नायुका—ऐकोन, आर्स, बेल, कैक्ट, सिकि, हिपर, ब्राइयो, इपि, कैलि, लेडम, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फास, पल्स, रस-टक्स, साइलि।

प्रेम विफल होनेकी कारण बीमारियाँ—अरम, केल्के-फास, सिपि, काकि, हेलि, हाइयो, इग्ने, लैके, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, स्टैफि।

बच्चोंके लिये उपयोगी—इथू, ऐग्नस, हैल, वोरा, बेल्के, केल्के-फास कैमि, कैमो, सिकि, काफि, क्रोक, हाइयो, इग्ने, आइयो, इपि, लाइको, मार्क, नक्स-म, रियुम, साइलि, स्पञ्जि, सल्फ।

" स्तन पीने वाले—आर्स, बेल वोरा, ब्राइयो, कैल्के, केल्के-फास, चायना, सिना, डालका, इग्ने इपि, मैग-कार्ब, नेट्रम फास नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, रास टक्स, सिपि, सिना स्टैफि, सल्फ।

बड़ा होनेकी तरह मालूम होना—ऐल्यूमि ऐगार, बेल, सिमय बोवि ब्राइयो, केम्फि, ऐरानि, कैलि-कार्ब, लोरो, मार्क, पेरि, पल्स, रास-टक्स, स्पाइजि, स्टैनम, वेरे।

वात (Rheumatism)—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम टार्ट, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, केम्फ कास्टि, केमा कार्बो-वेज, कैमो, चायना, कोल्चि कुप्रम, डल्का, यूपेटर, फेरम, इग्ने, कैलि केलि ब्रोम, लेडम, मैग-कार्ब, मैग म, मिलफ, मार्क, मार्क-स, मेज़ि, म्यू-ऐ, नाइ ऐ, नक्स म, नक्स-वोम, फाइटो, रडिम,

पेलेडि, सोरि, पल्स, **रैना-व,** क्लोडो, **रास-टक्स,** सैगु, सिना, साइलि, स्टेनम, टियुक्रि, **वेले,** वेरे।

वाय, ऊपरकी ओरसे आरम्भ होकर नीचेकी ओर जाता है—कैल्मि।

„ नीचेकी ओरसे आरम्भ होकर ऊपरकी ओर जाता है—लेडम।

„ बाई ओर आक्रान्त होता है-पहले—इलैप्स।

बाहर निकल जानेकी तरह मालूम होना, भीतरके यन्त्र—**वेल,** नक्स-वोम, प्लेटि, सल्फ।

बेचैनी (Malaise)—**ऐकोन,** ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्स, बप्टि, वेल, व्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, सिफि, काफि, कोलचि, कोलोसि, **कोना,** जेल्स, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, कैलि-कार्ब, लोरो, लोवे, लाइको, मैङ्ग, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** ओपि, आकजा-ऐ, **फास ऐ,** फास, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सेने, सिपि, **साइलि,** स्पाइजि, स्टेनम स्ट्रैमो, **सल्फ-ऐ,** सल्फ, टेवे, स्टिक्टा, वेले, जिङ्क।

वेलेडोनाकी विषक्रिया—वेल, हाइयो।

बैठ जानेकी इच्छा—ऐगा, ऐमोन-म्यूर, आर्स, **वैरा-कार्ब,** वेल, कैना-से, कार्बो-वेज, चेलिडो, **चायना,** काकि, **कोना,** इयुफ्रे, ग्रेफा, गुयेज, आइयो, म्यूर-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, **नक्स-वोम, फास,** फास-ऐ, रेना म्यूर, **सिल्ला,** सिपि, सिकेलि, सल्फ, टैरा, टियुक्रि, जिङ्क।

भयकी वजहसे बीमारियां (Ailments form fright)—**ऐकोन,** एपिस, आर्जेण्ट-नाइ, आर्टि-वा, अरम, वेल,-कास्टि, काफि, कूप्रम, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हाइयो, हाइपि, **इग्ने,** लेके, **लाइको, ओपि, नेट्रम-म्यूर,** नक्स-वोम, **फास-ऐ, फास,** प्लेटि, **पल्स,** रासटक्स, **साइलि।**

मांसपेशीका कड़ापन (Induration)—वैरा-कार्ब, कोना, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, आइयो, कैलि-कार्ब, **कास्टि,** लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, पल्स, क्लोडो।

मांसपेशीका, छोटा हो जाना (Shortened)—ऐमोन-मूरर, वेरा-कार्ब, **कास्टि**, कोलोसि, **ग्रेफा**, लाइको, **नेट्रम-मूरर**, सिपि, नक्स-वोम, रास-टक्स।

» तनाव मालूम होना—**ऐकोन**, गुयेज, मस्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूरर, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, फास, **फाइसो**, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, साइलि।

» दुर्बलता (Weakness)—**वेरा-कार्ब**, कोल्चि, चायना, कार्बो-वेज, कोना, क्रोकस, डिजि, डाल्का, फेरम, लाइको, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-मूरर**, **नाइट्रि-ऐ**, प्लेटि, रोडो, सिपि, साइलि, सल्फ, वेरे।

» शिथिलता (ढीला पन relaxation)—ऐगा, **कोल्चि**, **कैप्सि**, केमो, क्लिमे, **काक्कि**, कोना, क्रोकस, हायो, आइयो, लाइको, मार्क, सेने, स्पञ्जि, सल्फ।

» सबसालटस टेण्डिनम फड़कना (Subsultus tendinum)—ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, आर्जेण्ट-नाइ, ऐसाफि, बेन, कास्टि, क्लिमे, काक्कि, कोलोसि, कूप्रम, ग्रेफा, इग्ने, **आइयो**, मेलि, **कैलि कार्ब**, **मेजे**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूरर, प्लेटि, रैना-सि, सिकि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पंजि, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, टैरे, वायो-ट्रि।

मुँह हिलाने, चबानेकी तरह—ऐकोन, केमो, सेके।

मूर्च्छा (Faintness)—**ऐकोन**, इस्कि, ऐल्यूमि, आर्निका, ऐण्टि-टार्ट, आर्जेण्ट-नाइ, **आर्स**, आर्स-आयोड, ब्रायो, बेरा मूरर, कैम्फ, कैना-से, कैन्थ, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-वेज, **कास्टि**, **केमो**, चेलिडो, **चायना**, काक्कि, चिनि-आर्स, सिपि, कोलोसि, कोना, **क्रोटे-होर**, **डिजि**, फेरम, फेरम आर्स, फेरम-आयोड, ग्रैफा, हिपर, हायो, **इग्ने**, **आइयो**, इपि, क्रियो, लोरो, लैकि, नेट्रम, लिलि-टिग, लाइको, मैग-मूरर, मार्क-कोर मस्क, मेजा, नेट्रम मूरर, **नक्स-मस**, **नक्स-वोम**, ओपि, पेट्रो, फास फास ऐ प्रुनस,

पोडो, सोरि, पल्स, मेगु, सार्सा, सेने, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रेमो, सल्फ, टैवे, वेरे, वेरे-वि, वाइवा।

मूर्च्छा, सवेरे—आर्स, कार्बो-वेज, काकि, कोना, कियो, नक्स-वोम, सेंगु, सल्फ।

" " उठनेपर, बिछावनसे—ब्राइयो, काकि, कार्बो-वेज, आइयो, लैके।

" पूर्वान्हमें—लैके, सल्फ।

" अपरान्हमें (तीसरे पहर)—ऐसार।

" संध्यामें—कैल्के, हिपर, लाइको, मस्क, नेट्रम-म्यूर नक्स-वोम, सिपि।

" रातमें—मस्क, नक्स-म, साइलि।

" आवद्ध वायुमें (घरके भीतर)—ऐसाफि, लैके, पल्स, टैरे।

" उठनेपर बिछावनसे—ब्राइयो, कार्बो-वेज, सिना, फाइटो।

" उत्तापकी वजहसे, ग्रीष्म ऋतुमें—ऐण्टि-क्रू ड, एपिस।

" उत्तेजित होनेपर—ऐसाफि, कास्टि, कैमो, काकि, इग्ने, लैकै, नेट्रम-कार्ब, नक्स-म, ओपि, फास-ऐ।

" ऋतुके पहले—लाइको, म्यूरे, नक्स-म, सिपि, थूजा।

" " समय—काकि, इग्ने, लैकै, मस्क, पल्स, नक्स-वोम, सार्सा, सिपि।

" " बाद—लैके।

" एकाएक (हठात्)—फास।

" कलेजा धड़कनेके साथ—नक्स-वोम, लैकै, काकि, आइयो, वेरे।

" खड़े होनेपर—ऐल्यूमि, ब्राइयो, डिजि, नक्स-म, सल्फ, जिङ्क।

" गन्धकी वजहसे—नक्स-वोम।

" गर्भावस्थामें—वेन, नक्स-वोम, पल्स, सिपि।

" गर्म घरमें—ऐकोन, इपि, लैके—पल्स, सिपि।

" चेहरा सफेद हो जानेके साथ—ऐकोन, वार्ब, लैके, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम।

मूर्च्छा, ज्वरावस्थामें—ऐकोन, आर्नि, नेट्रम-म्यू, फास, सिपि।

„ दर्दकी वजहसे—एपिस, ऐसाफि, कैमो, काकि, कोलोसि, नक्स-मस, नक्स-वोम, फाइटो, वेले, वेरे।

„ „ दांतमें—चायना, पल्स, वेरे।

„ दुर्बलताकी वजहसे, नाड़ी प्राय, विलुप्त रहनेके साथ—आर्स।

„ नाकसे रक्त स्रावके साथ—क्रोक, लेके।

„ परिश्रमसे—आर्स, कार्बो-वेज, काल्वि, काकि, सिपि, हेरि, वेरे।

„ प्रसवके समय—सिमि, काकि, पल्स, नक्स-वाम, सिकी, वेरे।

„ पेशाब करने बाद—ऐकोन, ऐलि-सि, मेडो।

„ वमनके बाद—आर्स, सेब्बु।

„ बार बार—आर्स, फास।

„ बैठे बैठे उठनेपर—ऐकोन, ब्राइयो, नक्स-वोम, ड्रपि, फाइटो, वाइया।

„ भयकी वजहसे—ऐकोन, जेल्स, इग्ने, लैके, ओपि।

„ मलत्यागके पहले—आर्स।

„ „ समय—सल्फ।

„ „ बाद—आर्स, काकि, कोना, माइकी, फास, पोडो, टेरि, वेरे।

„ रक्त देखकर—नक्स-म।

„ रक्तहीनताकी वजहसे—मस्क।

„ शोतावस्थामें—आर्स, ऐसार, सिपि।

„ सामान्य कारणसे—सिपि।

„ संगमके बाद—ऐगा, डिजि, नेट्रम-फास, सिपि।

„ सुस्त हो जानेके साथ, हाथ पैरका—नेट्रम म्यूर।

„ स्वप्नदोषके बाद—ऐसाफि, फास-ऐ।

„ हाथ पैर ठण्डे होनेके साथ—ऐकोन, कैम्फ, कोलोसि।

„ हिमनी खोलने पर—आर्स, काकि, नाइ-ऐ, क्राटि, वेरे।

„ हिस्टीरिया सम्बन्धी—कैमो, काकि, इग्ने, मस्क, नेट्रम म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम।

मृगी (Epilepsy)—वेल, **कैल्के**, कैम्फ, **कास्टि**, कैमो, **सिना**, काफि, **कूप्रम**, डूपि, कोलि-कार्ब, हैके, लाइको, **नेट्रम-मूर**, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, सिपि, साइलि, **स्ट्रैमो**, **सल्फ**।

„ अकड़नके साथ सारे शरीरकी—ऐङ्गा, ऐसाफि, कैम्फ, सिकि, कोलोसि, ड्रोसे, इग्ने, **इपि**, लोरो, मार्क, ओपि, **मस्क**, पेट्रो, **प्लैटि**, वेरे।

„ अज्ञानताके साथ—वेल **कैल्के**, कैम्फ, **कैन्थ**, सिकि, काकि, कूप्रम, **हाइयो**, **प्लम्ब**, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ ऋतु बन्द हो कर—मिलि, पल्स।

„ ज्ञानके साथ—कैन्थ, **सिना**, कोलि-कार्ब, मैग-कार्ब, नक्स-म, नक्स-वोम, प्लैटि, **स्ट्रैमो**।

„ दाँत निकलनेके समय, बच्चोंके—इग्ने, स्टैफि।

„ निद्रावस्थामें—कास्टि।

„ बाद गहरी नींद—हाइयो।

„ भय खाकर—आर्जेण्ट-नाइ, ब्यूफो, इग्ने, टैरेण्ट।

„ शिशुओंकी—वेल, **इग्ने**, स्टैनम।

मोंच खानेकी वजहसे (Sprain) दर्द—इग्ने, ऐग्नस, **ऐमोन-कार्ब**, **आर्निका**, ऐसार, बैरा-कार्ब, वेल, बार्ब, ब्राइयो, कैल्के, **कार्बो-वेज**, **कास्टि**, ड्रोसि, इग्ने, मेजे, **नेट्रम-मूर**, ओलि, **पेट्रो**, फास, पल्स, ह्रोडो, **रास-टक्स**, सिपि, स्पाइ, स्टैफि, **सल्फ**, थूजा, जिङ्क।

रक्त अल्पता (Anæmia)—ऐकोन, ऐण्टिम-टार्ट, **आर्स**, **ब्राइयो**, **कैल्के**, चायना, काकि, कोना, **फेरम**, फेरम-आर्स, लाइको, **मस्क** नाइ-ऐ, **नक्स-वोम**, फास, **प्लैटि**, **पल्स**, सिला, सिपि, **स्टैफि**, **सल्फ**।

„ आवद्ध मालूम होना (रुका हुआ—Stagnated feeling)—ऐकोन, लैके, **लाइको**, नक्स-वोम, ओपि, ह्रोडो, **सैवाडि**, सिपि।

रक्त, आधिक्य, अस्वास्थ्यकर (Plethora)—ऐकोन, आरम, बेल, ब्राइ
कैल्के, कैमो, क्रोकास, फेरम, चायना, हाइयो, कैलि-क
लाइको, नेट्रम मूर, नक्स-वोम, फास, पलस, रास-टक्स
सिपि, स्ट्रैमो, सलफ, थूजा।

„ उत्तेजना, आभ्यन्तरिक (Orgasm of blood)—ऐकोन, ऐम
ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-मूर, आर्नि, ऐमिल-ना, आर्जेण्ट-नाई, आ
आयोड, आरम, बेल, बोवि, कैल्के, कैल्के-आर्स, कार्बो-वे
कार्बोनि-स, कास्टि, कैमो, कोना, क्रोकस, कूप्रम, फेरम, फेरम
आयोड, जेल्स, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, कैलि कार्ब, क्रियो
लैके, लाइको, मिलि, मार्क, नेट्रम-मूर, नक्स म, नक्स वोम
ओपि, पेट्रो, फास, पलस, रास-टक्स, सेम्बु, सार्सा, सिपि, साइलि
स्क्वि, स्टेनम, स्ट्रैमो, सलफ, थूजा, वेरे।

„ „ मानसिक—ऐकोन, आरम, बेल, कैमो, कोनोसि, हाइयो, इग्ने
कैलि कार्ब, लेके, नेट्रम-फास, नाई-ऐ, नक्स वोम, पेट्रो, फास
फास-ऐ, पलस, सिपि, स्टैफि।

„ , ऋतुके पहले—ऐग्नस, कूप्रम।

„ „ विरक्तिकर—ऐकोन, कैमो, पेट्रो, सिपि।

„ काला (Black)—ऐमोन-कार्ब, ऐग्निस कैक्टस, कास्टि, चायना, क्रोकस,
मार्क-कोर, नाई-ऐ, नाइट्रा, नक्स वोम, प्लेटि।

„ „ जमता, नहीं है—लैके।

„ कालिमा लिये लाल (Dark red)—कैमो, क्रोकस, नक्स वोम, पल्स,
सिपि।

„ भूरा (Brown)—ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज, कोना पल्स, रास टक्स।

„ लाल, चमकीला (Bright red)—ऐकोन, बेल, हाइयो, डल्का,
लेडम, मिलि, सेबाईन।

„ सफेद (Pale)—बेल, ग्रैफा।

„ चयका दुष्परिणाम—कैल्के, चायना, फास ऐ, पल्स, सिपि, स्टैफि,
सलफ।

रक्त, जखम पैदा करनेवाला—ऐमोन-कार्ब, कोन्य, कैलि-कार्ब, नाइट्रो, साबा, साइलि।

„ जमता नहीं (Does not coagulate)—एपिस, कार्बो-वेज, क्रोटेल-होर, इलैप्स, लैके, नाइट्रि-ऐ, सिकि, सल्फ-ऐ।

„ थक्का थक्का (Clotted)—आर्निका, वेल, कास्टि, **कैमो**, चायना, हाइयो, इग्ने, इपि, मार्क, **मार्क-कोर**, क्रोकस, फेरम, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, **प्लेटि**, पल्स, सेवाइ, सिके, सिपि, स्ट्रैमो, स्टान्सि, जिङ्क।

„ बदबूदार—वेल, ब्राइयो, कार्बो-ऐनि, सेवाइ।

„ लसदार—क्रोकस, क्यूप्रम, मैग-कार्ब, सिपि।

„ सञ्चय, रक्त इकट्ठा होना (Congestion)—**ऐकोन, आर्निका, अरम, वेल, ब्राइयो, कैल्के**, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज, चायना, कोना, फेरम, ग्रैफा, हाइयो, लैके, लाइको**, नेट्रम-कार्ब, मार्क, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, फास, फास-ऐ, **पल्स**, रैना ब, **रास-टक्स, सेने, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा**, वेले, वायो-थो।

„ एक अङ्गमें (Single part)—**ऐकोन**, आर्निका, अरम, वेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेजे, **चायना, फेरम**, ग्रैफा, हाइयो, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, नक्स-वोम, **पल्स**, रैना-ब, रास-टक्स, सेने, सिपि, साइलि, स्पञ्जि, स्ट्रैमो, सल्फ, वायो-थो।

„ उदरमें—ऐकोन, एपिस, आर्निका, आर्स, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैल्के, चायना, फ्लु-ऐ, लाइको, मार्क, **नक्स-वोम**, फास, प्लम्ब, **पल्स, रास-टक्स, सिपि**, साइलि, **सल्फ**, थूजा।

„ ऊर्द्धाङ्गमें (Upper extremity)—ऐकोन, ऐमोन-म्यू, एपिस, **आर्निका**, ब्राइयो, **कैल्के, चायना**, फेरम, सिमि, लाइको,

मार्क, **नक्स-वोम, फास,** फास-ऐ, **सिपि, पलस, रास-टक्स,** साइलि, **सल्फ,** थूजा।

रक्त-सञ्चय, आंखमें— **ऐकोन,** आर्निका, **वेल, कोल्को,** नक्स वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि, **स्पाइजि, सल्फ।**

„ कानमें—ऐल्यूमि, अरम, कैल्के, कास्टि, कोना, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, कैलि, कार्ब, लाइको, मार्क, फास, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **पलस, सिपि,** स्पाइजि, सल्फ।

„ नाकमें, नासा-रोग, नाकसे खून गिरना—ऐकोन, आर्निका, **अरम, बेल, ब्राइयो, कोल्को,** कास्टि, चायना, क्रोक, क्युप्रम, ड्रोसे, फेरम, ग्रैफा, हपि, **कैलि-कार्ब, कैलि-ना,** लेडम, लाइको, मार्क, **मस्क,** नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास-ऐ, **पल्स, रास-टक्स, साइलि,** स्पाइजि, **सल्फ,** सल्फ ऐ, थूजा, वेरे।

„ निम्नांगमें (Lower extremity)—ऐकोन, एपिस, बेल, **आर्नि, अरम, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-वेज,** चायना, फेरम, ग्रैफा, लैके, **लाइको,** नेट्रम म्यूर, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ **पल्स, रास-टक्स,** सेवाइ, **सिपि, साइलि,** सल्फ, थूजा, जिङ्क।

„ मस्तिष्कमें (Brain)—ऐकोन, एपिस, **अरम, बेल,** ब्राइयो **कोल्को,** कार्बो वेज, चायना, काकि, ग्रैफा, **फेरम,** ग्लोनो, हाइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि ऐ, **नक्स-वोम,** ओपि, **फास,** फास-ऐ, पल्स, रास टक्स, सिपि **साइलि,** स्पञ्जि, स्ट्रैमो, **सल्फ,** थूजा।

„ मुखमण्डलमें—**ऐकोन,** ऐग्नि क्रु, **एपिस, आर्निका,** बेल, **ब्राइयो,** कैल्के, कैप्सि, कैमो, चायना, काफि, कार्फि, क्युप्रम, ड्रोसे, फेरम, हिपर, हाइयो, लैके, लाइको, **नक्स-वोम,** ओपि,

फास, फास ऐ, पल्स, रास-टक्स, साइलि, स्पाइजि, **स्ट्रैमो**, सल्फ।

रक्त-सञ्चय, वक्षमें—**ऐकोन**, ऐमोन कार्ब, एपिस, आर्निका, अरम, बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कैम्फ**, कार्बो-वेज, चायना, काकि, हाइयो, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, **फास**, **पल्स**, क्रोडो, सिला, **सेने**, सिपि, स्पाइजि, स्क्वि, सल्फ, थूजा।

रक्त-स्राव (Hæmorrage)—ऐक्य सि, एपिस, ऐरानि, आर्जेण्ट नाई, ऐकोन, ऐण्ट-क्रूड, **आर्निका**, आर्स, बेरा-कार्ब, **बेल**, बोवि, ब्राइयो, कैक्ट, **कैल्के**, **कैल्के-सल्फ**, **कैन्थ**, कैप्सि, कार्बोनि-सल्फ, कैमो, **कार्बो-वेज**, **चायना**, सिनेबा, काकि, कोलोसि, क्रोकस, **क्रोटे-होर**, कूप्रम, ड्रोसि, डालका, इलेप्स, फेरम-आर्स, **फेरम**, फेरम-आयोड, फेरम-फास, कैलि-क्लोर, कैलि-फास, ग्रैफा, **क्रियो**, **मिलि**, इरिजि, **हैमा**, हाइयो, आइयो, **इपि**, **लैके**, लेडम, लाइको, **मार्क**, मेजे, **मार्क-कोर**, मिलिफो, **नेट्रम-म्यूर**, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, **फास**, फास-ऐ, प्लेटि, सोरि, **पल्स**, रास-टक्स, **सैबाडि**, सिके, **सिपि**, सिमिसि, साइलि, स्ट्रैमो, **सल्फ**, **सल्फ-ऐ**, टेरि, ट्रिलि।

रिकेट (Rickets)—आर्स, कैल्के, **कैल्के-फास**, फेरम-म्यू, हेक्ला, हिपर, **आइयो**, मार्क, नाइट्रि-ऐ, फास, फास-ऐ, सेका-आफि, सिनि, सैनि, **साइलि**, सल्फ, थेरि, थूजा, आइरि, टियुबा।

रोगी मनुष्योंके लिये—**ऐस्त्रा**, आर्ज-नाई, **कैल्के-फास**, आइयो, लाइको, नाइट्रि-ऐ, फास, नक्स-वोम, **सिपि**, साइलि, **सल्फ**।

शराबके अपव्यवहारकी वजहसे बीमारियाँ—ऐमोन-म्यूर, ब्राइयो, कार्बो-वेज, काकि, काफि, लोरो, **नक्स-वोम**, **ओपि**, पल्स, स्क्वि, स्ट्रैमो।

शिथिलता, मांस-पेशियोंकी—ऐगा, आर्स, कैल्के, कैप्सि, कैमो, क्लिमे, **काकि**, कोना, क्रोक, डाय, फेरम, **जेल्स**, ग्रैफा, हेलि, हाइयो, आइयो,

इपि, **कैलि-कार्ब**, लाइको, मैग-कार्ब, मार्क, म्यू-ऐ, फास, सिके, सिपि, स्पंजि, सल्फ।

शिरा-स्फीति (Varicose veins)—ऐलूमि, ऐम्ब्रा, ऐण्टि-टार्ट, **आर्निका**, आर्जे-नाइ, आर्स, बेल **कैल्के**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, , क्रियो, क्रोट-हो, **फ्लू-ऐ**, ग्रेफा, फेरम, **हैमा**, हिपर, लाइको, **लाइकोपो**, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, पियोनि, प्लम्ब, **पल्स**, स्पाइजि, सल्फ, सिपि, वाइपे, जिङ्क।

" खुजलीके साथ—ग्रेफा।

" गर्भावस्थामें—**फेरम**, लाइको, **पल्स**, लाइकोपो, मिल्लि, जिङ्क।

" जलन भरी—एपिस, **आर्स**, कैल्के।

" डंक मारनेकी तरह दर्दके साथ—एपिस हैमा, पल्स।

" प्रदाह मिली—आर्निका, **आर्स**, **कैल्के**, **हैमा**, क्रियो, लाइको, **लाइको**, **पल्स**, माइलि, स्पाइजि, सल्फ, जिङ्क।

" यन्त्रणादायक (Painful)—व्रोमि, कास्टि, हैमा, लाइको, मिल्लि, **पल्स**।

शीत ऋतुमें—ऐकोन, इस्कि, ऐग्रा, ऐमोन-कार्ब, आर्ज-मेट, आर्स, **अरम**, बेल, व्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, केम्फ, कार्टि कक, डाल्का फेरम, **फ्लू-ऐ**, हेलि, हिपर, केलि-ना कैलि-कार्ब, कैलि-फास, मार्क, मैङ्ग, मेजे, मस्क, नक्स-म, **नक्स-वोम**, पेट्रो फास, सोरि **रास-टक्स**, सेवाडि, सिपि, माइलि, थूजा, वेरे।

" शीत थोड़ा मालूम होना—सेफा।

शुष्क-जो सब स्थान साधारणतः नरम रहते हैं—ऐकोन इस्कि, ऐण्टिम टार्ट, **ऐलूमि**, एपिस, आर्ज-नाइ, आर्नि, बेप्टी, बेरा-कार्ब, ब्रायं, **आर्स**, **बेल**, **व्राइयो**, **केलेडि**, **कैल्के**, केना-ई कैन्थ, केमो चेलिडो, कफ, काकि डायस्की जेल्स कैलि-वा, ग्रेफा, कैलि फायोड, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, नेट्रम कार्ब फास्फो, लाइको, मैङ्ग मार्क, नाइट्रि-ऐ **नेट्रम-म्यूर**, **नक्स-म**, नक्स वोम पेट्रि

फास, फास-ए, प्लम्ब, पल्स, फ्लोडो, **रास-टक्स**, सैबाडि, **सैने**, **सिपि**, साइलि, स्ट्रैमो, स्ट्रान्सि, **सलफ**, **वेरे**, **वेरे-वि**, जिङ्क ।

शुष्का (सखा)—मालूम होना—ऐकोन, इस्कि, **ऐल्युमि**, एपिस, आर्ज-नाई, **आर्स**, अरम-ह्रि, **बेरा-कार्ब**, **बेल**, बार्ब, ऐसाफि, ऐसार, ब्राइयो, कैलेडि, कैना-ई, सिने-बा, क्लिमे, काकि, **कोना**, गेम्बो, जेल्स, **कालि-बा**, केलि क्लोर, लैके, लोरो, मेजे, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, नाइट्रि-ए, नक्स-म, **नक्स-वोम**, **फास**, फास-ए, फाइटो, पोडो, सोरि, **रास-टक्स**, **पल्स**, सैवाडि, सैबाई, **सैंगु**, सेने, सिपि, साइलि, स्टैनम, **स्ट्रैमो**, **सलफ**, थूजा, **वेरे**, वाइ-वर्न, जिङ्क ।

शोकके कारण बीमारी—एपिस, **अरम**, कास्टि, कैल्के-फ्लू, काकि, कोलोसि, जेल्स, गैफा, हाइयो, **लैके**, **नेट्रम-म्यूर**, नक्स-वोम, पल्स, **इग्ने**, **फास-ए**, **स्टैफि** ।

„ रो नहीं सकता—जेल्स, नेट्रम म्यूर ।

शोथ—**ऐसिट-ऐसिड**, ऐण्टि-टार्ट, **एपिस**, ऐपो, **आर्स**, अरम-म्यू, बेल, बिस्मथ, लाइको, कैक्ट, कैल्को-आर्स, कैन्थ, **कार्ड**, कार्बोनि-स, चायना, चिनि-आर्स, **कोलचि**, कोना, क्रोटे-हो, डिजि, डालका, फेरम, फेरम-आयोड, **ग्रैफा**, **हेलि**, **आइयो**, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लैक-डि, लैके, लेडम, लाइको, **मेडो**, मार्क, नाइट्रि-ए, नक्स-म, **ओलि**, **ओपि**, प्लम्ब, पल्स, रूटा, सैबाई, सैम्बु, सेने, सिपि, **सिला**, सल्फ, टियुक्रि, टेरे, वाल्वी ।

„ भीतरी—ऐण्टिम-टार्ट, **एपिस**, ऐपोसा, आर्स, अरम-म्यूर, **बेल**, ब्राइयो, कैल्के, **कार्ड**, **चायना**, चिनि-आर्स, कोना, **कोलचि**, **डिजि**, डाल्का, फेरम, हेलि, लेडम, मार्क, रास-टक्स, सेने, सिपि, सिला, **सलफ** ।

श्रान्ति, क्लान्ति (Weariness, lassitude)—**ऐकोन**, ऐगा, **ऐलूमि**, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, **ऐरानि**, आर्स, आर्स-आयोड,

अरम, बेप्टी, बेल, बेञ्जो ऐ, बार्वे, कैलेडि, केल्को, कैम्फ, कैपि, कार्वोनि-स, कार्वो-वेज, कैम्फ, कास्टि, चेलिडो, चायना, सिकि, काकि, कौलचि, कोलोसि, कोना, कूप्रम, फेरम, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, हाइड्रो, इग्ने, कैलि-कार्ब, केलि-फास, लोरो, लाइको, मैङ्ग, मार्क, मेजे, नेट्रम कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओपि, आक्जा-ऐ, फास, फास-ऐ, पिक्रि-ऐ, सोरि, रास-टक्स, रूटा, सैंगु, सिपि, सेने, साइलि, स्प्जि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ऐ, टेराक्स, टियुक्रि, वैले, जिङ्क।

श्रान्ति, सवेरे—ऐमोन-कार्ब, ऐग्रिम-क्रूड, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नक्स-वोम।

" मध्यान्हमें—कार्वो-वेज।

" अपरान्हमें—आर्ज-नाई, जेल्स, लाइको, थूजा।

" सन्ध्यामें—आर्स, कार्वो-वेज, कास्टि, ग्रेफा, नेजा, नेट्रम-म्यूर, साइलि, थूजा।

" आहारके वाद—लाइको, फास-ऐ।

" बोलनेके वाद—ऐल्यूमि।

" सङ्गमके वाद—कैल्के।

" हिलने डोलनेपर—फास।

" उंपगम-खुली हवामें, टहलनेपर—ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब।

प्यास प्रधान धातु—बैरा-कार्ब, कैपि, काकि, क्रोकस, इग्ने, माइको, पल्स, सेने, साइलि।

सन्यास रोग (Apoplexy)—ऐकोन, आरम, ऐगारिका, ऐण्टिम क्रूड, आर्नि, बैरा-कार्ब, बेल, कैम्फ, कार्वो-वेज, चायना, काफि, काफि, कोना, डिजि, फेरम, हाइयो, इपि, लेके, लोरो माइको, नेट्रम-म्यूर नक्स-म, नक्स वोम, ओपि, फास, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स सिके, सिपिया, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

" अग्रात्ता, खुली आंखें चलजानेमें पिगाय और अथवा फून उठना—माइको।

संन्यास रोग, अज्ञानता, बन्द आंखें, गला घड़घड़ाना और नाक बोलनेके साथ —ओपि।

„ तन्द्राच्छन्न भाव, खुली आखें और चेहरा लाल होनेके साथ—बेल।

„ रक्त स्रावके साथ—**ऐकोन, अरम,** बेल, कैल्के, काकि, फेरम, इपि, क्रियो, लैके, **लाइको,** रास-टक्स, सैगु।

सर्दी प्रवणता (Susceptible to cold)—**ऐकोन, ऐल्यूमि,** ऐण्टि-क्रू, बेल, आर्ज-नाइट्रि, **बेरा-कार्ब, ब्राइयो,** कैल्के, कैल्के-स, **कैल्के-फास,** कार्बो वेज, कार्बोनि-स, कैमो, कोना, फेरम, फार्मि, **डाल्का,** ग्रेफा, **हिपर,** हाइयो, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब,** लैक-डि, **मार्क, लाइको, नेट्रम-आर्स,** नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ,** नक्स-म, **नक्स-वोम,** पेट्रो, फास, फास-ऐ, **सोरि,** पल्स, रास-टक्स, रूमे, **सिपि,** साइलि, सल्फ, सल्फ-ऐ, **टियुब।**

सर्दी लग जाना, थोड़ेमें ही—**ऐकोन, ऐल्यूमि,** ऐण्टिम-क्रूड, आर्ज-नाइ, **बेरा-कार्ब,** बेल, ब्राइयो, कैल्के, **कैल्के-फास,** कैल्के-स, कार्बो-स, कार्बो-वेज, **कैमो,** कोना, **डालका,** फेरम, जेल्स, ग्रेफा, **हिपर,** हाइयो, कैलि-बा, **कैलि-कार्ब,** लैक-डि, **लाइको, मार्क, नेट्रम-आर्स,** नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ,** नक्स-म, **नक्स-वोम,** फास, फास-ऐ, पेट्रो, **सोरि,** पल्स, रास-टक्स, **रियुम, सिपि, साइलि,** सल्फ, सल्फ-ऐ **टियुब।**

सविराम ज्वर-रुक (Suppressed) जानेकी वजहसे बीमारियाँ—आर्नि, आर्स, बेल, **कैल्के,** कार्बो-वेज, **कैप्सि,** सिना, फेरम, **इपि,** मिनि, मार्क, नेट्रम-म्यूर, **पल्स,** सिपिया, सल्फ, **वेरे।**

सङ्घियाकी विष-क्रिया (Arsenical-poisoning)—कैम्फ, चायना, **फेरम,** ग्रेफा, आइयो, **इपि, मार्क,** नक्स-वोम, सैंगु, वेरे।

साइकोसिस धातुकी प्रतिषेधक दवा (Anti-sycotic)—एविस, **आर्ज-मेट, आर्ज-ना,** ऐस्टिरि, अरम-म्यू, बैरा-म्यू, बेरा-कार्ब, कास्टि,

कौल्के, डाल्का, फेरम, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, आइयो, हैके, लाइको, मैग्ने, **मेडो**, मेजे, **नेट्रम-स**, **नाइट्रि-ऐ**, फाइटो, सार्सा, सिके, सिलि, **सिपिया**, साइलि, **स्टैफि**, सल्फ, **थूजा**।

सामुद्रिक मिचली (Sea-sickness)—कार्बो-ऐ, **काक्कि**, कोलचि, **कोना**, ग्लोनो, कैलि-बा, क्रियो, **नक्स-वोम**, **पेट्रो**, सिपिया, स्टैफि, **टैबै**, थेरि।

साँवली स्त्रियोंके रोगमें—ऐकोन, ऐनाका, आर्नि, आर्स, आइयो, केलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, **नाइ-ऐ**, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पल्स, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

सिफिलिस (उपदंश)-धातु प्रतिषेधक दवा (Anti syphilitic remedies) —आर्स, **आर्स-आयोड**, ऐसाफि, **ग्ररम**, **ग्ररम-म्यूर**, **ग्ररम-म्यूर-ने**, कैल्के-स, कार्बो-ऐनि, सिनेबा, कोना, फ्लू-ऐ, कैलि-**आयोड**, लेके, लेडम, **मार्क**, **मार्क-कोर**, **मार्क-आ-फ्ले**, **मार्क-आ-रू**, मेजे, **नाइट्रि-ऐ**, फास, फास-ऐ, **फाइटो**, सार्सा, स्टैफि, **साइलि**, **स्टिलि**, सल्फ, सल्फ-आयोड, **सिफि**, थूजा।

सिलाईका काम करनेके कारण बीमारियाँ (Sewing)—**नेट्रम-म्यूर**, लेके।

स्त्रियोंके लिये उपयोगी—**बेल**, ब्राइयो, **कैल्को**, **कैरिस**, कास्टि, **कैमो**, काक्कि, कोना, **क्रोका**, हाइयो, इग्ने, नेट्रम म्यूर, नक्स म, **प्लैटि**, **पल्स**, रास-टक्स, **सैबाइ**, सिकेलि, सिलि, **सिपि**, थेरि।

सुन्न भाव (Numbness)—ऐकोन, ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, आर्निका, आर्स, बैप्टि, बेल, **बार्ब**, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, चेलिडो, सिकु, **काक्कि**, कोना, जेल्स, ग्लोनो, **ग्रैफा**, हेलि, हिपर, **हाइयो**, इग्ने, इपि, मैके, लेडम, **लाइको**, मार्क, नक्स म, नक्स वोम, **ओलिये**, **फोपि**, आक्जा-ऐ, **फास-ऐ**, **फास**, पिक्रि ऐ, प्लैटि,

प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिफि, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ, आर्टि-ड्यु।

सुप्त भाव, भीतरी—आर्स, बेल, बोवि, कैल्के, चायना, जेल्स, हाइयो, इग्ने, कैलि-ब्रोम, ओलि, प्लैटि, पल्स, स्पाइजि।

„ रोगवाली जगह—ऐकोन, ऐनाका, आर्स, ऐसाफि, कैमो, कास्टि, कोना, लेके, हिपर, इग्ने, लाइको, नक्स-वोम, ओलियँ, प्लैटि, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

सुरासार मिली उत्तेजक दवा सेवनकी वजहसे रोगमें—ऐगा, ऐण्टि-क्रूड, आर्जे-नाई, बेल, आर्स, ऐसार, बैरा-कार्ब, कैल्के-आर्स, कैल्के, चेलिडो, काकि, कार्बोनि-स, कार्बो-वेज, चायना, कोना, क्रोटे हो, डिजि, इग्ने, लैकि, लेडम, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, नक्स-वोम, ओपि, पेट्रो, पल्स, रैना-ब, रोडो, रास-टक्स, रूटा, सैंगु, सिलि, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, सल्फ, सल्फ-ऐ।

सूजन (Swelling)—ऐकोन, एपिस, आर्नि, आर्स, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बोनि-स, कैमो, चायना, डालका, फेरम, हिपर, कैलि-आर्स, कैलि-वा, कैलि-कार्ब, नक्स-वोम, ब्राइयो, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइ-ऐ, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, रास-टक्स, पल्स, सिपि, सिफि, साइलि, स्पाई, स्ट्रैमो, सल्फ, थूजा, वाइपे।

„ अस्थिकी—ऐसाफि, अरम, कैल्के, लाइको, कैल्के-फास, कैलि-आयोड, मार्क, मेजे, नाइ-ऐ, फास, फास-ऐ, पल्स, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ गाँठोंकी—"गाँठ" देखिये।

„ चर्मके-कड़ापनके साथ—आर्नि, ब्राइयो, कास्टि, लेडम, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाई, सैंगु, स्ट्रान्सि, सल्फ।

„ „ काली या नीली आभा लिये—आर्नि, आर्स, बेल, डिजि, लैकि, मार्क, ओपि, पल्स, वेरे।

सूजन, चर्मको खुजलीके बाद—लैके, मार्क, लाइको, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ चमकीली—आर्नि, आर्स, ब्राइयो, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सैबाई, सल्फ।

„ „ जलनके साथ—ऐकोन, आर्नि, आर्स, बेल, ब्राइयो, लैके, लाइको, मार्क, फास, पल्स, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

„ „ डङ्क मारनेकी तरह दर्दके साथ—एपिस, कालि, ब्राइयो, कास्टि, लाइ-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सल्फ, थूजा।

„ „ नीली आभा लिये—आर्नि, आर्स, बेल, बेप्टो, कैलि-कार्ब, लैके, साइलि।

„ „ पीब पैदा होता है—कैल्के, बेफा, हिपर, मेरी, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

„ „ प्रदाह युक्त—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, हिपर, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

„ „ शोथ युक्त (Oedematous)—ऐसिड-टार्ट, आर्स, आर्स-आयोड, बेल, ब्राइयो, चायना, कोलचि, डिजि, डाल्का, फेरम-आर्स, हेलि, लीडम, लाइको, मार्क, नेट्रम म्यूर, नेट्रम-स, नक्स-म, पल्स, रास-टक्स, सैबाई, सेंगु, सिना, सल्फ, टेमू।

„ „ सर्द रहनेके साथ—आर्स, ऐसाफि, बेल, कालि, कोना, साइक्ला, डाल्का, लैके, फॉस्फो, सिकेलि, स्पाई।

„ „ सफेद—एपिस, आर्नि, ऐसिड म्यूर आर्स, ब्राइयो, बाराइ, लाइको, रास-टक्स, पल्स, सैबाई, सल्फ।

„ „ सुरसुरीके साथ—आर्नि, मार्क, पल्स, रास-टक्स, सिलि सल्फ।

„ चोट लगकर—आर्नि, कोना।

सूजन, पेरियोस्टियम (अस्थि आत्मावरणकी)—**ऐसाफि**, अरम, कोलि-आयोड, मार्क, नाई-ऐ, **फास-ऐ**, पल्स, साइलि।

„ प्रदाह युक्त—**ऐकोन**, एपिस, **आर्स**, **वेल**, आइयो, कैल्के, वेन्थ, कास्टि, कोना, आइयो, कैलि-आर्स, **कैलि-ना**, **कैलि-कार्व**, कैलि-आयोड, लाइको, **मार्क**, नेट्रम म्यू, नाइ-ऐ, फास, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, साइलि, सल्फ।

सूजाकका स्राव रुका कर बीमारी—**कैल्के**, क्लिमे, **मेडो**, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सार्सा, स्टैफि, **थूजा**।

सोनेकी इच्छा हमेशा—**ऐकोन**, **ऐल्युमि**, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्व, ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, ऐपिस, **ऐरानि**, आर्स, अरम, बेप्टी, वेरा-कार्व, **कोलेडि**, कैल्के, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, **कार्बोनि-स**, कार्बो-वेज, कैस्का, कास्टि, कैमो, चेलिडो, काकि, कोना, साइक्ला, **फेरम**, ग्रेफा, गुयेज, इग्ने, **कैलि-कार्व**, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, **नक्स वोम**, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, पिक्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि **साइलि**, स्पञ्जि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

सोरा धातुकी प्रतिषेधक दवाएँ (Antipsoric remedies)—ऐगा, ऐलुमि, ऐमोन-कार्व, ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, आर्स, अरम, वेरा-कार्व, वेल, बोवि, वैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, क्लिमे, कोलचि, कोना, डिजि, डालका, इयुफ्रे, ग्रेफा, गुयेज, हिपर, आइयो, कैलि-कार्व, कैलि-ना, लाइको, मैग-कार्व, मैग-म्यूर, मैङ्ग, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्व, नेट्रम-म्यू, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ, प्लैटि, रोडो, सार्सा, सेने, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

स्कर्वी (Scurvy)—ऐमोन-कार्व, आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, सिस्टा, डालका, हिपर, आइयो, कैलि-कार्व, **मार्क**, **म्यू-ऐ**, नेट्रम-म्यूर, नाई-ऐ नक्स-वोम, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

स्थान च्युति (हड्डी खिसकना) सहजमें हो (Dislocation)—**ऐग्ना**,

कैल्के, लाइको, कार्बो-ऐनि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, रास-टक्स, रूटा।

स्थूलता—अतिशय (Obesity)—ऐमोन-म्यूर, ऐण्टिम क्रूड, आर्स, कैल्के, कैल्के-आर्स, कैप्सि, फ्यूकस, फेरम, ग्रैफा, कैलि-ना, कैलि-कार्ब, लेक-डि, लाइको, पल्स, सल्फ।

स्नानसे अनिच्छा—ऐमोन कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-वेज, कैमो, क्लिमे, कोना, कैलि-ना, लोरो, मेजे, सोरि, पल्स, रास-टक्स, सार्सा, सिपि, स्पाइजि, स्टैफि, स्ट्रान्सि, सल्फ, जिङ्क।

स्पर्श-असहिष्णुता (Sensitiveness)—बाहरी—ऐकोन, एग्नि, ऐल्यूमि, एपिस, आर्नि, आर्स, बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, लोरो, कैन्थ, चायना, चिनि-स, क्लिमे, काकि, कोलचि, फेरम, जेल्स, हिपर, हाइयो, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, लैके, मार्क, मेजे, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, रैना-ब, रैना-स्यू, रास-टक्स, सैबाडि, सिनिनि, मेने, सिपि, साइलि, स्पाइ, स्टेनम, स्टैफि, सल्फ, थूजा।

„ भीतरी—ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, आर्स, बैप्टी, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कैमो, काकि, कोलोसि, इग्नि, ग्रैफा, हिपर, हाइयो, कैलि-बाइ, कैलि-आयोड, लैके, लिलि-टिग, मैग-म्यूर, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम कार्ब, नाइट्रि ऐ, नक्स-वोम, ओपी, फास, रूटा, सिकेलि, साइलि, स्ट्रैमो।

„ अस्थिमें (Bones)—आर्स, चिनि स, इयुपे-पर्फो, मार्क कोर, फास, पल्स, साइलि, स्ट्रैमो, टेल्।

„ अस्थि गात्रावरणमें (Periosteum)—ब्राइयो, चायना, लेडम, मेजे, फास-ऐ, पल्स।

„ गांठमें—आर्स, बेरा-कार्ब, कैमो, कोना, लाइको, फास, सिपि, साइलि।

सूजन, पेरियोस्टियम (अस्थि आतावरणकी)—**ऐसाफि**, अरम, केलि-आयोड, मार्क, नाई-ऐ, **फास-ऐ**, पल्स, साइलि।

„ प्रदाह युक्त—**ऐकोन**, एपिस, **आर्स**, **बेल**, ब्राइयो, केल्के, बैग्य, कास्टि, कोना, आइयो, केलि-आर्स, **केलि-बा**, **केलि-कार्ब**, केलि-आयोड, लाइको, **मार्क**, नेट्रम म्यू, नाइ-ऐ, फास, फाइटो, पल्स, रास-टक्स, **सिपि**, साइलि, सल्फ।

सूजाकका स्राव रुक कर बीमारी—**केल्के**, क्लिमे, **मेडो**, नाइट्रि-ऐ, पल्स, सार्सा, स्टैफि, **थूजा**।

सोनेकी इच्छा हमेशा—**ऐकोन**, **ऐल्यूमि**, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, ऐपिस, **ऐरानि**, आर्स, अरम, बेप्टी, बेरा-कार्ब, **केलेडि**, केल्के, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, **कार्बोनि-स**, कार्बो-वेज, कोक्क, कास्टि, कैमो, चेलिडो, काकि, कोना, साइक्ला, **फेरम**, ग्रैफा, गुयेज, इग्ने, **केलि-कार्ब**, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, **नक्स वोम**, पेट्रो, फास, फास-ऐ, फाइटो, पिक्रि-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सिपि **साइलि**, स्पञ्जि, स्टैनम, स्ट्रैमो, सल्फ, जिङ्क।

सोरा धातुकी प्रतिषेधक दवाएँ (Antipsoric remedies)—ऐगा, ऐलुमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, आर्स, अरम, बेरा-कार्ब, बेल, बोवि, केल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, क्लिमे, कोलचि, कोना, डिजि, डालका, ड्युफ्रो, ग्रैफा, गुयेज, हिपर, आइयो, केलि-कार्ब, केलि-ना, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मैङ्ग, मेजे, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नाइ-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ, प्लैटि, फ्रोडो, सार्सा, सेनी, सिपि, साइलि, स्टैनम, स्टान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

स्कर्वी (Scurvy)—ऐमोन-कार्ब, आर्स, केल्के, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, सिस्टा, डालका, हिपर, आइयो, केलि-कार्ब, **मार्क**, **म्यू-ऐ**, नेट्रम-म्यूर, नाई-ऐ नक्स-वोम, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

स्थान च्युति (हड्डी खिसकना) सहजमें ही (Dislocation)—**ऐग्ना**,

हिमाङ्ग (Collapse)—ऐसि-ऐ, ऐकोन, ऐमिल, एपिस, **आर्स,** आर्स-हा, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, सिना, क्रोटन-टिग, कूप्रम, कूप्रम-ऐ, कूप्रम-स, आइयो, कैलि-ना, मार्क, मार्क-कोर, मार्फि, नैजा, ओलिये, ओपि, फास, फाइसो, प्लम्ब, स्ट्रैमो, सल्फ-ऐ, टैवे, वेरे, वाइपे।

" उदरामयके वाद—आर्स, कैम्फ, कार्बो-वेज, वेरे।

" एकाएक—आर्स, फास।

" वमनके वाद—आर्स, बोवि, फाइसो।

हिलना-डोलना, गति (Movement) अनिच्छा—**ऐकोन, आर्स, ब्राइयो,** बैरा-कार्ब, **कैलेडि,** चेलि, काकि, साइक्ला, **गुयेज,** डिजि, इग्ने, लाइको, मेजे, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम,** थूजा।

" अभाव, रोगवाली जगहपर—ऐकोन, वेल, कास्टि, **कोकि,** डाल्का, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, प्लम्ब, रास-टक्स, साइलि, सल्फ।

" आक्षेप-युक्त (Spasmodic)—**वेल, कैमो, काकि, कूप्रम,** हेलि, हाइयो, इग्ने, आइयो, **इपि,** नक्स वोम, **ओपि,** प्लम्ब, स्कुटे, **सिकैलि,** स्टैनम, **स्ट्रैमो,** वेरे।

" इच्छा न रहनेपर भी (Involuntary)—काकि, कूप्रम, **हाइयो,** इग्ने, ओपि, **स्ट्रैमो।**

" कष्टकर—ऐड्र, आर्स, **वेल,** ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, **कास्टि,** कैमो, सिकि, काकि, कोलोसि, जेल्स, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-कार्ब, **लाइको,** मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **पेट्रो, रास-टक्स, सिपिया,** साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ, थूजा, वेरे।

" चाहता है—आर्नि, **कैमो, चायना,** फेरम, रास-टक्स।

हिस्टीरिया (Hysteria)—ऐसे-ऐ, ऐकोन, ऐगा, ऐनाका, आर्ज-नाइ, आर्स, **ऐसाफि, अरम,** बैरा-कार्ब, केल्क, कैल्के-स, कैम्फ, कैन्थ, कार्बोनि-स, कोलोफा, कास्टि, कैमो, सिमि, **काकि,** काफि, **कोना,** क्रोक, इलैप्स, फेरम, जेल्स ग्रैफा, ग्रैसि, हाइयो, **इग्ने,** केलि-कार्ब, **लैके,** लिलि-टिग, लाइको, **मैग-म्यू,** मार्क, मिलिफो,

स्पर्श-असहिष्णुता, दर्द वाली जगहोंमें—एकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि-क्रूड, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसार, **अरम**, बेरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैम्फ, कैन्थ, **कैमो**, चायना, काकि, काफि, कोलचि, कोना, कूप्रम, फेरम, **हिपर**, हाइयो, **इग्ने**, केलि-कार्ब, लैके, **लाइको**, मैग-कार्ब, **मेडो**, नेट्रम-कार्ब, **नाइट्रि-ऐ**, **नक्स-वोम**, पेट्रो, **फास**, फाइटो, **सोरि**, **पल्स**, रास-टक्स, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, **स्टैफि**, टियुब, जिङ्क।

हलका मालूम होना, अङ्ग-प्रत्यङ्ग—ऐसार, कैमो, **काकि**, हाइयो, **ओपि**, **स्ट्रैमो**।

हवा, खुली चाहता है—ऐग्न, ऐल्यूमि, ऐण्टि-क्रूड, एपिस, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसाफि, ऐसार, **अरम**, **अरम-ट्रूा**, बेरा-कार्ब, बोरैक्स, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के-स, कार्बोनि-स, **कार्बो-वेज**, **क्रोकस**, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हैलि, **आइयो**, लैके, **कैलि-आयो**, कैलि-स, लिलि-टिग, **लाइको**, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मेजे, नेट्र-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, प्लैटि, टिलिया, **पल्स**, सेनि, सिपि, स्पाई, स्ट्रैमो, सल्फ, टैबे, टैरा।

„ पखेकी चाहता है—कार्बो-वेज।

„ नहीं चाहता है—**ऐमोन-कार्ब**, ऐमोन-म्यू, **वेप्टी**, बेल, ब्राइयो, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैप्सि, कास्टि, **कैमो**, चायना, सिस्टा, **काकि**, **काफि**, कोना, साइक्ला, फेरम, फेरम-आर्स, गुयेज, हेलोनि, हिपर, **इग्ने**, **कैलि-कार्ब**, लैके, लोरो, लाइको, मार्बो, साइलि, मस्क, **नेट्रम-कार्ब**, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-सल्फ, नक्स-म, **नक्स-वोम**, **पेट्रो**, प्सम्म, सोरि, रास-टक्स, **रूमे**, सिपि, **साइलि**, स्पाइजि, **सल्फ**, सल्फ-ऐ, वायो-ट्रि।

हवा नहीं खुलती—**चायना**।

वृद्धि, उठनेपर (Rising)—**ऐकोन**, ऐमोन-म्यू र, ऐण्टिम टार्ट, आर्जि, आर्स, **ब्रेल, ब्राइयो**, कैना-इ, कैना-सै, कैमो, चेलि, सिकि, **काकि**, कोना, **डिजि**, फैरम, ह्यने, लाइको, म्यू -ऐ, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम, ओपि**, ओस्मि, फास, पल्स, **रास-टक्स**, सेङ्ग, **साइलि**, सिला, सल्फ, वायो-ट्रि।

„ „ आसनसे—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, **कोष्सि**, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, **कोना**, इयुफोर, फैरम, लोरो, लेडम, **लाइको**, नेट्रम-म्यू र, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, पेट्रो, **फास**, फास-ऐ, **पल्स**, रास-टक्स, रूटा, सिपिया, **स्पाइजि**, स्टेफि, सल्फ, थूजा, वेरे।

„ „ बिछावनसे—ऐकोन, बेल, **ब्राइयो**, कैल्के, कैप्सि, **कार्बो-वेज**, कैमो, सिना, **काकि, कोना**, ग्रेफा, हिपर, ह्यने, लेकि, लाइको, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, ओलि, फास, फास-ऐ, रोडो, रास-टक्स, सैबाडि, सिलि, साइलि, स्पाइजि, स्टेफि, थूजा।

„ उठानेपर भारी चीज—एम्ब्रा, **आर्नि**, बोरैक्स, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-स, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, काकि, **कोना**, फैरम, ग्रेफा, कैलि कार्ब, लाइको, सिलि, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, **रास-टक्स**, सिके, **साइलि**।

„ उत्ताप होनेपर—**ऐण्टि-क्रू ड**, आर्ज-ना, आर्नि, बेल, **ब्राइयो**, कैम्फ, साइक्ला, डिजि, फैरम, ग्लोनो, **कैलि-कार्ब**, कैलि-स, ओपि, फास, **पल्स**, रैना ब, सिपिया, साइलि, थूजा, जिङ्क।

„ „ आगके पास—ऐण्टिम-क्रू ड, इयुफोर, जिङ्क।

„ छूने—बैरा-कार्ब, **कैल्के**, चेलि, **क्रोकस**, ह्यने, **प्राइयो**, ग्रेटि, मैग्नाशि, सिपिया, स्पाइजि, **स्टेफि**, टेराण्ट, थार्मो।

सेजे, मस्क, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, मर्क्स-म,** नक्स-वोम, पैलेडि, **फास, प्लैटि,** प्लम्ब, **पल्स,** रैफे, रास-टक्स, सिकेलि, **सिपि,** साइलि, स्ट्रिक्टा, सल्फ, **टैरेण्ट,** थेरि, **वैले, वेरे, वायो-ओ।**

हिस्टीरिया, ऋतुके पहले—हाइयो, मस्क, प्लैटि।

„ ऋतुके समय—सिपि।

वृद्धि (Aggravation)।

वृद्धि अकेले रहने पर—आर्स, ड्रोसे, कोना, फ्लू-ऐ, **हिपर,** केलि-कार्ब, **लाइको,** फास, **स्ट्रैमो।**

„ अन्धकारमें—ऐमोन-म्यू, केल्के, लाइको, कार्बो-ऐनि, प्लैटि, **प्लम्ब,** रास-टक्स, **स्ट्रैमो।**

„ अपरिचित मनुष्योंमें—**सिपि, स्ट्रैमो।**

„ अमावस्यामें—ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, केल्के, **कास्टि, कूप्रम,** लाइको, सेबाडि, **सिपि,** साइलि, थूजा।

„ आडे भावसे रखनेपर हाथ पैर—ऐसाफि, डिजि।

„ आदर करनेपर—वेल, केल्के, चाय, इग्ने, प्लैटि।

„ आनन्दसे, अत्यधिक—काफि, पल्स।

„ आँख उठानेपर, ऊपरकी ओर—ब्राइयो, चायना।

„ „ खोलनेपर—ब्राइयो, केल्के, क्रोक, इग्ने, लाइको, नक्स-वोम, स्पाइजि।

„ „ घुमाने फिरानेपर—साइलि, स्पाइजि।

„ „ मूंदनेपर—वेल, ब्राइयो, केल्के, चायना, क्लिमे, हेलि, मैग-म्यूर, पल्स, थेरि।

रियुम, रास-टक्स, रूटा, सैवाडि, सेबाई, सैंगु **सिपिया,** साइलि, **सल्फ,** टैरा, टियुब, **वैलो,** वेरे, वाल्वा, जिङ्क।

वृद्धि, खसड़ा होनेके समय—**ऐक्रोन,** ऐनाका, ऐण्टि-क्रूड, **एपिस,** आर्नि, आर्स, कार्बो-स, कार्बो-वेज, वेल, **ब्राइयो,** चेलि, काफि, कोपे, क्रोटे-होर, ड्रोसे, **ड्युम्रो,** फेरम, फास, जेल्स, हिपि, कैलि-बा, फास, **पल्स,** रास-टक्स, सिला, स्ट्रैमो, सल्फ।

" , बाद—ऐण्टिम-क्रूड, वेल, ब्राइयो, **कैम्फ,** कार्बो-स, **कार्बो-वेज,** कैमो, चायना, ब्राइयो, इग्ने, मस्क, नक्स-वोम, **पल्स,** रास-टक्स, सल्फ।

" " बैठ जानेपर—ऐकोन, ब्राइयो, ड्रोसे, डालका, पल्स, रास-टक्स।

" खाद्यसे-अण्डा—चिनि-आर्स, कोलचि, **फेरम,** फेरम-म्यूर।

" " " की गन्धसे—**कोलचि।**

" " आलू—**ऐलूमि,** ऐमोन-म्यूर, केल्के, **कोलोसि,** मैग-सल्फ, मार्क-कोर, **नेट्रम-सल्फ, सिपि, वेरे।**

" " काफी—इथू, **कैन्थ, कास्टि, वैमो,** काफि, हिप, **इग्ने,** इपि, लाइको, मार्क, **नक्स-वोम,** फास-ऐ, पल्स, सल्फ, थूजा।

" " केकड़ा-मछली इत्यादि—कार्बो-ऐ, **लाइको,** आर्टि-इयु।

" " खट्टा—**ऐण्टिम-क्रूड,** आर्जण्ट-नाई, आर्स, बेल, फेरम, नेट्रम-फास, सिपि, सल्फ।

" " " गन्धसे—ड्रोसे।

" " गन्धसे—आर्स, काकि, **कोलचि,** डिजि, इपि, सिपि, थूजा।

" " गर्म—ऐम्ब्रा, ऐनाका, बैरा-का, बेल, **ब्राइयो,** कार्बो-वेज, कैमो, कूप्रम, इयुफोर, केलि फास, ऐसे, मेजे, नाइट्रि-ऐ, **फास,** फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स।

" " गरम मसालेदार चीजें—फास।

हृद्, ऊपर चढ़नेमें (Ascending)—ऐमोन-कार्ब, **आर्स**, बैरा-कार्ब, लोरेंष्स, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कार्बो-वेज, कार्बो-स, **काकि**, बेले, फूगस, ग्लोनो, कैलि-आयोड, कैलि-ना, कैल्मि, मार्क, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, ओपि, आकाजा-ऐ, फास, रूटा, सेने, सिपिया, स्पाइजि, **स्पञ्जि**, स्टैनम, टैबै, सल्फ, जिङ्क।

" " मोटी होकर—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, कैल्के, कार्बो-वेज, नक्स-वोम, प्लैटि, प्लम्ब, रैटा, रास-टक्स, स्टैनम, सल्फ, थूजा।

" ऋतु (Menses) के पहले, आरम्भमें, समय या बाद—"साधारण लक्षण" देखिये।

" ऋतु-परिवर्त्तनसे—**आर्स**, कार्बो-वेज, लैके, पल्स, सेबाड़ि, **रैना-ब**, **वाल्बा**।

" करवटें लेनेपर—बिछावनपर—ऐकोन, बोरा, ब्राइयो, कैना-से, कैम्फि, कार्बो-वेज, कोना, ड्युफोर, फेरम, हिपर, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, **पल्स**, साइलि, स्टैफि, सल्फ।

" कहानी उत्तेजक—कैल्के, टियुक्रि।

" काम प्रवृत्तिके दमनसे—**एपिस**, **कैल्के**, **कोना**, हेलिबो, लिलि-टिग, **पल्स**, फास-ऐ।

" केश झाड़नेपर—**ब्राइयो**, चायना, **सिलि**।

" " छँटवानेपर—बेल, **सिपि**, पल्स, लेडम।

" " छूनेपर—बेल, फेरम, नक्स-वोम, पल्स, **सिलि**।

" क्रोधसे—**ऐकोन**, आर्स, बेल, ब्राइयो, **कैमो**, काकि, **कोलोसि**, इग्ने, लाइको, ओपि, **नक्स-वोम**, फास, प्लैटि, पल्स, **स्टैफि**।

" खड़े होनेपर—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यू, अरम, बेल, बार्ब, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-स, कास्टि, चायना, **काकि**, **कोना**, **साइक्ला**, डिजि, ड्युफोर, ड्युफे, फेरम, फ्लू-ऐ, कैलि-बा, **लिलि-टिग**, म्यूरे, नाइट्रि-ऐ, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, रैना-ब,

वृद्धि, खाद्यसे, पूरी, कचौरी, हलवा (Pastry)—कैलि-क्लोर, लाइको, फास, पल्स।

„ „ प्याज—लाइको, नक्स-वोम, पल्स, थूजा।

„ „ फल—ऐलो, एण्टिम-क्रूड, **आर्स,** बोरा, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-वेज, चायना, चिनि-आर्स, सिस्टा, **कोलोसि,** क्रोटोन-टिग, फेरम, इपि, आइरि, लाइको, मैग-मूर, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-सल्फ,** ओलि, फास-ऐ, पोडो, पल्स, रोडो, मिलि, वेरे, सिपि।

„ „ बाँधागोभी—**ब्राइयो,** चायना, **लाइको,** नेट्रम-सल्फ, **पेट्रो,** पल्स।

„ „ मक्खन—आर्स, कार्बो-वेज, साइक्ला, फेरम, फास, हिलिया, पल्स, सिपि, टैराक्स।

„ „ मछली—कैलेडि, कार्बो ऐनि, चिनि-आर्स, कोलि-कार्ब, **प्लम्ब।**

„ „ „ सड़ी—आर्स, **कार्बो-वेज,** चायना, **पल्स।**

„ „ माँस—कोलचि, फेरम, कैलि-बाई, हिलिया, पल्स।

„ „ „ राँधनेकी गन्धसे—आर्स, कोलचि।

„ „ मिष्टान्न—ऐण्टिम-क्रूड, **आर्जेण्ट-नाई,** कैमो, **इग्ने,** मार्क, मिलि, सल्फ।

„ „ मिर्चा—आर्स, **सिना,** नेट्रम-कार्ब, साइलि, सिपि।

„ „ मैदाकी बनी चीजें—कास्टि, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-मूर,** नेट्रम-सल्फ।

„ „ रोटी—**ब्राइयो,** कास्टि, नेट्रम-मूर, नाइ-ऐ, नक्स वोम **पल्स,** रास-टक्स, मार्सा, सिपि, सल्फ, जिङ्क।

„ „ विनिगर—ऐण्टिम-क्रूड, आर्स, बेल, फेरम, नेट्रम फास, सिपि, सल्फ।

„ „ श्वेत-सार युक्त (Starchy)—**कार्बो-वेज,** चायना लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म, सल्फ।

„ „ शलजम—ब्राइयो, लाइको, पल्स।

वृद्धि, खाद्यसे गुरुपाक—ब्राइयो, **कार्बो-वेज**, इपि, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि ऐ, **पल्स**, सिपि।

" " घृतपक्व पदार्थ—आर्स, ऐसाफि, **कार्बो-वेज**, कास्टि, कोलचि, साइक्ला, ड्रोसेरा, फेरम, हेलिबो, इपि, कैलि-क्लोर, मैग-म्यूर, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, इग्नालि, पल्स, सिपि, स्पिञ्जि, सल्फ, टैरेक्स, थूजा।

" " बोंधा-वगैरह—ऐलो, ब्रोमि, लाइको, पोडो, सल्फ-ऐ।

" " चाय—चायना, फेरम, **सिलि**, थूजा।

" " ठण्डा—ऐण्टिम-क्रूड, आर्जेण्ट-नाइ, **आर्स**, बोवि, ब्राइयो, कैल्के-फास, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, काकि, कोना, **डाल्का**, ग्रेफा, हिपर, कैलि-कार्ब, कैलि-नाइ, क्रियो, **लैके**, **लाइको**, मैङ्ग, मार्क, नेट्रम-सल्फ, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, **नक्स-वोम**, फास-ऐ, पल्स, रोडो, **रास-टक्स**, सिपि, **साइलि**, स्पाइ, सल्फ, वेरे।

" " " पानीय—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐण्टि-क्रूड, ऐपोसा, आर्स, बेल, **कैक्थ**, कार्बो-वेज, चेलिडो, काकि, क्रोक, डिजि, **फेरम**, ग्रेफा, इग्ने, लाइको, मैग-फास, नेट्रम-कार्ब, नक्स-मस, नक्स-वोम, फास-ऐ, रोडो, **रास-टक्स**, साइलि, स्पाइ, सल्फ, सल्फ-ऐ, टियुक्रि।

" " दूध—ऐल्यूमि, ऐम्ब्रा, आर्जेण्ट-मेट, आर्स, ब्राइयो, **कैल्के**, **कैल्के-सल्फ**, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, **चायना**, सिकि, **कोना**, कूप्रम, आइरि, कैलि-कार्ब, लैक-डि, लाइको, मैग-कार्ब, **मैग-म्यूर**, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नेट्रम-सल्फ, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, फास, सोरि, सिपि, सल्फ, **जिङ्क**।

" " देखनेपर—**कोलचि**, कैलि-बाइ, लाइको, **सल्फ**।

" " नमक—कार्बो-वेज, ड्रोसे, फास, सिलि।

वृद्धि, गरमीसे—ऐगा, ऐलि-सि, ऐलूमि, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टिम-टा, एपिस, आर्जे-ना, आर्स-आयोड, बिस्मथ, ब्रम-मूर, बोरा, ब्राइयो, कैम्फ, कार्बो-स, काष्ठ, ड्रोसे, डालका, ग्लोनो, ग्रेफा, गुयेज, आइयो, इपि, कैलि-स, लेक-के, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-मूर, नेट्रम-स, ओपि, फास, पल्स, सिके, सेने, सिपि, सल्फ, वेरे, जिङ्क।

" " आगको—ऐण्टिम-क्रूड, आर्जे-ना, ब्राइयो, एपिस, काकि, कोना, ड्युफीर, आइयो, ग्लोनो, लोरो, केलि-आयोड, मार्क, पल्स, सिके।

" " शय्याको—ऐल्यूमि, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, ऐसाफि, ब्रम-मूर, ब्राइयो, कैल्के-स, कैम्फ, कार्बो-वेज, कैमो, क्लिमे, काकि, काष्ठ, ड्रोसे, ड्युफीर, फ्लू-ऐ, ग्लोनो, ग्रेफा, आइयो, इपि, केलि स, लैक-कै, लैके, लेडम, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-मूर, ओपि, फास-ऐ, प्लेटि, पल्स, सेबाड, सिके, सेने, स्पञ्जि, थजा, सल्फ, वेरे।

" गर्म आवरणसे—ऐकोन, एपिस, आर्ज मेट, आर्ज-ना, आर्स-आयोड, ऐसार, ब्रम-मूर, बोरा, ब्राइयो, केल्के, केम्फ, काष्ठ, फेरम, फ्लू ऐ, आइयो, केलि-स, लैक-के, लेडम, नाइ-ऐ, लाइको, पल्स, सिकी, सेने, स्पाई, सल्फ, वेरे।

" " घरमें—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐण्टि क्रूड, एपिस, आर्जे-ना, ऐसाफि, ऐसार, ब्रम-मूर, ब्रोमि, ब्राइयो, कोल्को-स, कार्बो स, काष्ठ क्रोक, फ्लू-ऐ, ग्लोनो, ग्रेफा, इग्नि, आइयो, इपि, केलि-आयोड, कैलि-स, लेडम, लिनि टिग ओपि, लाइको, मैग-मूर, नेट्रम-कार्ब नेट्रम-स, पिक्रि ऐ, टिलिया पल्स, सेबाई, सेनि, सिपी, सेने, स्पञ्जि, सल्फ, टेथे टिगुन, वेरे।

" " स्नानसे—ऐनो, ऐण्टि क्रूड, ऐण्टि टा आर्जे ना, ऐसार, ब्रम मूर,

हृदि, पाखरी, साग सब्जी कच्ची—ब्राइयो, हेलि, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-सल्फ।**

„ „ सूखा—**कैल्के**, लाइको, नेट्रम-कार्ब, पल्स।

„ „ सूअरका मांस—ऐण्टि-म-क्रूड, कोलचि, **कार्बो-वेज, साइली,** इपि, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूर, **पल्स, सिपि।**

„ „ खांसीके समय—ऐकोन, आर्जेण्ट-मेट, आर्निका, आर्स, वेल, **ब्राइयो,** कैल्के, कोफि, कार्बो-वेज, चायना, सिना, **ड्रोस,** हिपर, **इपि,** लेके-के, नेट्रम-मूर, **नक्स-वोम, फास, पल्स, रास-टक्स,** सिला, **सिपि,** सल्फ, वेरे।

„ „ के बाद—सिना, फास, सिपि।

, खुजलानेपर (Scratching)—ऐनाका, विस्मथ, केलेडि, **कोफि,** कास्टि, कोनायम, लेडम, मेजे, **पल्स,** साइलि, स्ट्रान्सि।

„ खोलनेपर-गालावरण—ऐकोन, ऐगारि, ऐमोन-कार्ब, आर्ज-ना, **आर्स,** ऐड्रो, अरम, वेल, वेञ्जो-ऐ, ब्राइयो, कैफि, कार्बो-ऐनि, चायना, सिकि, क्लिमे, काकि, काफि, कोल्चि, कोना, डालका, ग्रेफा, **हिपर,** इग्ने, **कैलि-आर्स,** कैलि-बा, **कैलि-कार्ब,** लेके, लाइको, मैग-मूर, मैग-फास, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूर, **नक्स-म, नक्स-वोम,** फास, फास-ऐ, **रोडो, रास-टक्स,** रियुम, सेग्यु, **साइलि, सिला, स्ट्रान्सि,** जिङ्क।

„ „ अंग-विशेष—ब्राइयो, **हिपर,** नेट्रम-मूर, **रास-टक्स, साइलि,** थुजा।

„ गन्दगासे—**कोफि,** चायना, सल्फ।

„ गन्धसे तेज—ऐकोन, **अरम, वेल,** कैमो, चायना, **काफि,** कोलचि, ग्रेफा, **इग्ने,** लाइको, **नक्स-वोम,** फास, सल्फ।

„ गर्भावस्थामें—ऐकोन, वेल, ब्राइयो, कोल्के, कैफि, कास्टि, **कैमो, काकि,** क्रोक, हाइयो, इपि, लेके, नक्स-म, प्लेटि, पल्स, रास-टक्स, **सैबाई,** सिके, **सिपि,** स्ट्रेमो, सल्फ, वेरे।

वृद्धि, घरके भीतर—ऐकोन, ऐग्न, ऐल्यूमि, ऐनाका, ऐण्टिम क्रड, आर्ज-मेट, ऐसाफि, ऐसार, ब्राइयो, क्रोक, फ्लू-ऐ, ग्रेफा, हेलि, ह्यपि, मैग-कार्ब, मैग-मूर, फास, प्लेटि, पल्स, रैना-सि, रास-टक्स, सेबाडि, स्पञ्जि, वेले।

„ „ गर्म—"गर्म" देखिये।

„ „ मनुष्योंसे भरे—ऐम्ब्रा, ऐण्टिम-क्रड, आर्ज-नाई, हेलि, लाइको, मैग-कार्ब, फास, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ घुटनेके बल बैठकर—"बैठनेपर" देखिये।

„ घुमानेपर माथा (Turning)—आर्नि, बेल, कैल्के, ब्राइयो, सिकि, हिपर, इग्ने, कोलि-कार्ब, लाइको, फास, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-मूर, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सेङ्ग, सिलि, सिपि, स्पञ्जि।

„ घूमनेके समय—"चलना" देखिये।

„ चढनेपर गाड़ीमें—आर्जेण्ट-मेट, आर्जेण्ट-नाई, आर्नि, बोरेक्स, कार्बो, कोना, हिपर, इग्ने, ल्केसि, लाइसि, नक्स-म, पेट्रो, सोरि, रियुम, पिसि, सिलि, साइलि, सल्फ, थेरि।

„ „ घोड़ेपर—वेल, ग्रेफा, लिलि-टग, नेट्रम-कार्ब, सिपि, सल्फ ऐ।

„ चन्द्रमाकी वृद्धिके साथ—ऐल्यूमि, थूजा।

„ „ ह्रासके साथ—डाल्का।

„ चबानेके समय (During Mastification)—ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-मूर, ब्राइयो, चायना, इयुफ्रे गुये, हिपर, हायो, इग्ने, मिनि, नेट्रम-मूर, ओलि, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स सेबाडि, सिपि, स्टैफि, थूजा, वार्ब्या, जिङ्क।

„ चलनेपर, जोरसे—ऐनाका, ऐम्ब्रा, ऐण्टि क्रूड, आर्नि, ऐसार, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कास्टि, चायना, कोना, ग्रेफा, हेलि, लेडम, लाइको, मैग मूर, नेट्रम कार्ब, नेट्रम मूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, फास, रैना-ब, रास-टक्स, सेबाडि, सिपि, साइलि सल्फ।

„ छींकनेपर—ऐमोन-मूर, आर्स, बोरेक्स, ब्राइयो, कार्बो वेज, कोसी, ड्रोसे, लाइको, मार्क, नक्स वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, स्पाइजि।

आइयो, केल्के-स, काकि, ड्युफोर, फ्लू-ऐ, ग्लोनो, इग्नि, आइयो, इपि, कैलि-स, लैके, लाइको, मार्क, मेजे, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, ओपि, फास, पिक्रि-ऐ, पल्स, सिके, सेने, सल्फ।

हृद्धि, गर्म हवामें खुली—ऐण्टि-क्रूड, अरम-म्यूर, बेल, ब्राइयो, डालका, ग्लोनो, आइयो, लाइको, मार्क, नेट्रम-स, ओपि, पल्स, सेबाडि, फास, सिके, सेने, साइलि, स्पाई, सल्फ, वेरे।

„ „ „ तर—कार्बो-वेज, जेल्स, आइयो, कैलि-बा, लैके, नेट्रम-स, साइलि।

„ गानेके समय—ऐमोन-कार्ब, कार्बो-वेज, ड्रोसे, फास, स्टैनम, सल्फ।

„ गाने-बजानेसे, सगोतसे (Music)—ऐकोन, केल्के, कैमो, डिजि, काफि, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास-ऐ, सिपि, स्टैनम, वायो-ओ, जिङ्क।

„ गोधूलि समय—ऐमोन-म्यूर, आर्स, केल्के, फास, पल्स, रास-टक्स।

„ गोलमालसे—ऐकोन, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, ऐसार, बेरा-कार्ब, बेल, बोरा, ब्राइयो, केल्के, कार्बो-स, कार्बो-वे, कास्टि, कैमो, चायना, काकि, काफि, कोना, फेरम, फ्लू-ऐ, हेलि, इग्ने, इपि, कैलि-कार्ब, कैलि-फास, लैके, लाइको, लाइसि, मैग-म्यूर, मेडो, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, प्लैटि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, थेरि, जिङ्क।

„ ग्रीष्म ऋतुमें—ड्रथ्य, ऐण्टिम-क्रूड, बेल, ब्राइयो, कार्बो-स, कार्बो-वेज, फ्लू-ऐ, गुये, आइयो, कैलि-बा, लैके, नेट्रम कार्ब, नक्स-वोम, सोरि, पल्स।

„ घण्टेकी आवाजसे—ऐण्टिम-क्रूड।

हाइयो, **हाइपि**, इग्ने, इपि, **कैलि-आर्स**, कैलि, कैलि-बाई, **कैलि-कार्ब**, क्रियो, लैकडि, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, **मैग-फास**, मैङ्ग, मार्क, मेजि, **मस्क**, मूर-ऐ, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-मूयर, नेट्रम-फास, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स मस, **नक्स वोम**, पेट्रो, **फास**, फास-ऐसि, **सोरि**, पल्स, **पाइरो**, रेना-ब, फ्रोडो, **रास-टक्स**, रियुमे, **सेबाडि**, **सिपि**, **साइलि**, **स्पाइजि**, स्टेनम, **स्ट्रान्सि**, सल्फ, सल्फ-ऐ, थेरि, टियुब, जिङ्क।

वृद्धि, ठण्डे में, और गर्मी में—आर्स-आयोड, लाइको, कार्बो-सल्फ, कास्टि, फ्लु-ऐ, ग्रेफा, इपि, लैके, मार्क, नेट्रम मूयर, फास ऐ, सोरि, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ ठण्डी हवामें (Cold air)—ऐग्नो, ऐकोन, इस्कि, **ऐगा**, **ऐलि-सि**, ऐल्यूमि, ऐल्यूमेन, ऐमोन-कार्ब, ऐरानि, **आर्स**, **अरम**, **बेडि**, **बैरा-कार्ब**, बैरा-मूयर, बेल, ब्राइयो, **कैल्के**, **कैल्के-फास**, **कैम्फ**, कार्बो-ऐनि, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, **कास्टि**, **सिपि**, **सिस्टा**, काकि, कोनचि, कोलोसि, कोना, डिजि, **डालका**, हलेप, फेरम, ग्रेफा, **हेलि**, **हिपर**, हाइयो, **हाइपि**, इग्ने, इपि, **कैलि-आर्स**, कैलि-बाई, **कैलि-कार्ब**, क्रियो, लैक-डि, लाइको, मैग-कार्ब, **मैग-फास**, मैङ्ग, मार्क, मस्क, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-फास, **नक्स-मस**, **नक्स-वोम**, ओलि, पेट्रो, फास, फास ऐ, प्रैपटे, **सोरि**, पल्स, **रेना-ब**, **फ्रोडो**, **रास-टक्स**, रियुम, **सेबाडि**, **सिपि**, **सोइलि**, **स्ट्रान्सि**, सल्फ, सल्फ-ऐ, थेरि, जिङ्क।

„ „ सूखी हवामें (Dry cold)—**ऐकोन**, आर्स, **ऐसार**, ब्राइयो, कास्टि, कोट-शोर, **हिपर**, इपि, **कैलि-कार्ब**, नक्स वोम, सैबाडि, साइलि, स्पन्जि।

„ „ तर हवामें (Cold damp air)—ऐगा, **ऐमोन-कार्ब**, ऐलि-फ्लुर, एपिस, ऐरानि, पाईप्ट मैट, आ [illegible] स्पूर ने,

वृद्धि, जम्हाई लेनेपर—आर्नि, कास्टि, चेलिडो, **सिना**, क्रियो, ग्रेफा, **इग्ने**, सिपि, म्यूर-ऐ, **नक्स-वोम**, ओलि, फास, **रास-टक्स**, सेवाडि, **सार्सा**, स्टैफि।

„ ज्वरके पहले—आर्नि, **आर्स**, कैल्के, कार्बो वेज, **चायना**, सिना, इपि, **पल्स**, रास-टक्स, सल्फ, वेरे।

„ „ समय—ऐण्टि-क्रूड, **आर्स**, ब्राइयो, कैल्के, कैमो, **चायना**, फेरम, इपि, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, **सिपि** सल्फ।

„ „ बाद—**आर्स**, वेल, **चायना**, हिपर, नक्स-वोम।

„ झुकनेपर—ऐकोन, **इस्कि**, ऐल्यूमि, **ऐमोन-कार्ब**, आर्ज-मेट, अरम, बैप्टि, वेरा-कार्ब, बोराक्स, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैप्सि, कैमो, सिकि, क्लिमे, काकि, कोलोसि, कोरा-रू, क्रोक, ड्रोसे, फेरम, ग्लोनो, ग्रेफा, हिपर, इपि, कैलि-बाई, कैलि-ना, **लेडम**, लिथि, मैग म्यूर, **मैंगे**, मिनि, **सार्स**, नक्स-वोम, ओलि, पेरि, पेट्रो, प्लम्ब, **पल्स**, **रैना-व**, रोडो, रास-टक्स, रूटा, सैंगु, सेने, **सिपिया**, साइलि, **स्पाइजि**, स्टैनम, स्ट्रामो, **सल्फ**, टियुक्रि, थूजा, **वैले**, वाब्र्बा, वेरे।

„ झुला रखनेपर, अंग—ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, **कैल्के**, कार्बो-वेज, कास्टि, पल्स, सैवाईं, वाइपे।

„ झूलनेपर—बोरा, कार्बो-वेज।

„ टीका देने बाद—साइलि, थूजा।

„ ठण्डेमें—ऐकोन, ऐगा, ऐल्यूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-क्रूड, ऐपोसा, ऐरानि, आर्जेण्ट-मेट, **आर्स**, अरम, बैडि, **वेरा-कार्ब**, वेल, बोरा, बोवि, ब्राइयो, **कैल्के**, **कैल्के-कार्ब**, **कैल्के-फास**, **कैप्सि**, **कार्बो-ऐनि**, कार्बो-सल्फ, -कार्बो वेज, **कास्टि**, कैमो, **चायना**, चिनि-आर्स, सिकि, सिस्टा, काकि, कोलोसि, कोना, साइक्ला, डिजि, **डालका**, फेरम, **ग्रेफा**, हेलि, हेलोनि, **हिपर**,

हाइयो, हाइपि, इग्ने, इपि, कैलि-आर्स, कैलि, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैकाडि, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-फास, मैङ्ग, मार्क, मैजे, मस्क, म्यूर-ऐ, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, नक्स मस, नक्स वोम, पेट्रो, फास, फास-ऐसि, सोरि, पल्स, पाइरो, रैना-ब, रोडो, रास-टक्स, रियुमे, सेबाडि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्टेनम, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, थेरि, टियुब, जिङ्क।

वृद्धि, ठण्डे में, और गर्मी में—आर्स-आयोड, लाइको, कार्बो-सल्फ, कास्टि, फ्लू-ऐ, ग्रेफा, इपि, लेके, मार्क, नेट्रम म्यूर, फास ऐ, सोरि, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ ठण्डी हवामें (Cold air)—ऐग्नो, ऐकोन, इस्कि, ऐगा, ऐलि-सि, ऐल्यूमि, ऐल्यूमेन, ऐमोन-कार्ब, ऐरानि, आर्स, अरम, बेडि, बेरा-कार्ब, बेरा-म्यूर, बेल, ब्राइयो, कैल्को, कैल्को-फास, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, कास्टि, सिपि, सिस्टा, काक्कि, कोलचि, कोलोसि, कोना, डिजि, डालका, इलेप्स, फेरम, ग्रेफा, हेलि, हिपर, हाइयो, हाइपि, इग्ने, इपि, कैलि-आर्स, कैलि-बाइ, कैलि-कार्ब, क्रियो, लैक-डि, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-फास, मैङ्ग, मार्क, मस्क, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-फास, नक्स-मस, नक्स-वोम, ओक्सि, पेट्रो, फास, फास ऐ, प्लेटे, सोरि, पल्स, रैना-ब, रोडो, रास-टक्स, रियुम, सेबाडि, सिपि, साइलि, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, थेरि, जिङ्क।

„ „ सूखी हवामें (Dry cold)—ऐकोन, आर्स, ऐसार, ब्राइयो, कास्टि, क्रोटे-टिग, हिपर, इपि, कैलि-कार्ब, नक्स वोम, सैबाडि, साइलि, स्पंजि।

„ „ तर हवामें (Cold damp air)—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, ऐन्थ्र-क्रू ड, ऐपिस, ऐरानि, आर्जेन्ट-नाइ, आर्स, अरम म्यूर ऐ,

वेडि, वैरा-कार्ब, कैल्के, कैल्के-फास, कार्बो-सल्फ, कार्बो-वेज, सिमि, कोल्चि, डालका, फेरम, फ्लू-ऐ, जेल्स, ग्रेफा, हाइपि, हाइयो, केलि-बाई, लैके, लाइको, मैङ्ग, **मेडो**, सार्वा, मेजी, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-सल्फ**, नाइट्रि-ऐ, नक्स-मस, पेट्रो, फाइटो, पल्स, रैना-ब, **पाइरो**, **फ्रोडो**, **रास-टक्स**, रूटा, **साइलि**, साइजि, स्टैनम, सल्फ, सल्फ-ऐ, थूजा, **टियुबर**, वेरे।

वृद्धि, ठण्डी हवा, लगनेपर—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, **आर्स**, आर्निका, **अरम**, वेडि, **वैरा-कार्ब**, **ब्राइयो**, **कैल्के**, कैल्के-फास, कैम्फ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, **कार्बो-सल्फ**, कार्बो-वेज, कास्टि, **कैमो**, सिमि, काक्कि, डिजि, **डालका**, फेरम, ग्रेफा, **हिपर**, हाइयो, हाइपि, **केलि-आर्स**, **केलि-बाई**, **केलि-कार्ब**, क्रियो, **लाइको**, मैग-कार्ब, मैग-फास, मेडो, **मस्क**, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-फास, **नक्स-वोम**, पेट्रो, फास, **फास-ऐ**, सोरि, **पाइरो**, **रैना-ब**, रास-टक्स, रियुम, सैबाडि, **सिपि**, साइलि, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, जिङ्क।

" " " अङ्ग विशेषमें—वैरा-कार्ब, वेल, हेलि, **हिपर**, **रास-टक्स**, सिपि, साइलि।

" " " पाकस्थलीमें—आर्स, पल्स।

" " " पैरमें—वैरा-कार्ब, कोना, पल्स, साइलि।

" " " माथेमें—**वेल**, **साइलि**, **सिपि**।

" " जगहमें प्रवेश करनेपर—**आर्स**, डालका, फेरम, फेरम-आर्स, ग्रेफा, हिपर, नक्स-वोम, **केलि-आर्स**, पेट्रो, सोरि, पल्स, **रैना-ब**, रास-टक्स, वेडि, सिपि, साइलि, रियुम, वार्बा।

" डकारसे—ऐगा, केना-हे, **कैमो**, काक्कि, लैके, फास, रास-टक्स, सिपिया, वार्बा, जिङ्क।

वृद्धि, तम्बाकू पीनेपर (Smoking)—ऐल्यू मि, ऐण्टिम-क्रू ड, **आर्स**, ब्राइयो, कैलेडि, क्लिमी, काक्कि, साइक्ला, डयुफ्रो, जेल्स, हेलि, **इग्ने**, इपि, लैके, लाइको, मिलि, मैग-म्यूर, नेट्रम-कार्ब, **नक्स-वोम**, पेरि, फास, **प्लेटि**, **पल्स**, रूटा, **स्पाइजि**, मिलि, **स्पञ्जि**, **स्टैफि**, रैटा, थूजा।

" " खानेपर—**आर्स**, प्लेटि, वेरे।

" तरल पदार्थ क्षयकी वजहसे, शरीरके—आर्स, कैलेडि, **काल्के**, **कैल्के-फास**, कोना, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, चिनि-आर्स, **चिनि सलफ**, क्रोटे-हीर, **कार्बो वेज**, **चायना**, फेरम, **ग्रैफा**, आइयो, कैलि-कार्ब, केलि-फास, मार्क, नेट्रम-फास, नक्स-वोम, फास, **फास-ऐ**, **पल्स**, सिना, **सिलि**, **सिपि**, साइलि, **स्टैफि**, सल्फ।

" दबावसे (Pressure)—**ऐगा**, **एपिस**, आर्जेण्ट-मेट, आर्स, आर्स-आयोड, बैप्टि, **वेरा-कार्ब**, ब्राइयो, कैलेडि, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, चेलिडो, **सिना**, गुये, **हिपर**, **आइयो**, केलि-बा, केलि-कार्ब, केलि-आयोड, **लैके**, **लिलि-टिग**, **लाइको**, मस्क, मैग-कार्ब, मार्क, **मार्क-कोर**, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, फोलि, फोपि, प्लेटि, रेना-ब, रेना-सि, रूटा, सेबाडि, सिपि, **साइलि**, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, टियुक्रि, वेले, वार्वा।

" " टोपीसे—कार्बो-वे, नाइट्रि-ऐ, साइलि, येले।

" " बिना दर्दके पाखानेमें—ऐम्ब्रा, **ब्राइयो**, फेल्के, कोलोसि, **इग्ने**, केलि कार्ब, फास्टि, **पल्स**, रास टक्स, सिपि, सल्फर, थायो-ड्रि।

" दांत निकलनेके समय—**ऐकोन**, **कैमो**, कैल्के-फास **फेमो**, सिकि, काक्कि, फ्रायम, हिपर, इग्ने, आइयो, इपि, मार्क, मार्क कोर, पोडो, रास टक्स, सिके।

हृडि, दाँतपर दाँत दबानेसे—ऐमोन कार्ब गुयेज, हिपर, इपि, रास-टक्स, सिपि, वाल्वा।

„ देखनेपर-ऊपरकी ओर—**कैल्के**, चेलिडो, कूप्रम, फास, पल्स, सेबाडि, सिलि, थूजा।

„ „ चमकीले पदार्थकी ओर—वेल, ब्राइयो, स्ट्रैमो।

„ „ टकटकी लगाकर किसी चीजकी ओर—ऐसाफि, अरम, **कैल्के**, कार्बो-वेज, कास्टि, सिकि, **सिना**, **क्रोकस**, ग्रेफा, **कैलि**, **कार्ब**, **लाइको**, नेट्रम-कार्ब, **नेट्रम-म्यूर**, फास, **फ्लोडो**, **रूटा**, सार्स, **सेने**, सिपि, **साइलि**, स्पाइजि, स्क्वि।

„ „ दूरकी चीजकी ओर—रूटा।

„ „ नीचे—कैल्के, ओलि, स्पाइजि, सल्फ।

„ „ रोशनीकी ओर—कैल्के, ब्राइयो, मैग-म्यूर, मार्क, फास।

„ दौड़नेपर—आर्नि, **आर्स**, वेल, **ब्राइयो**, कैना-से, कास्टि, काकि कोना, कूप्रम, फेरम, इग्ने, कैलि-कार्ब, लेडम, लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, ओलि, **पल्स**, फ्लोडो, रास टक्स, सेने, साइलि, स्पाइजि, **सल्फ**।

„ धुएँसे—इयुफ्रे, सिपि, **स्पाइजि**।

„ धूपमें—ऐगा, **ऐसिट-क्रूड**, आर्ज-नैट, वेल, वेरा-कार्ब, ब्राइयो, कैम्फ, इयुफ्रे, **ग्लोनो**, कैलि, लैके, लाइसि, **नेट्रम-कार्ब**, नक्स-वोम, सोरि, **पल्स**, सिलि, वेले।

„ नाक छिड़कनेपर—आर्नि, **अरम**, वेल, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, कोलचि, **हिपर**, कैलि-कार्ब, **मार्क**, नक्स-वोम, फास-ए, **पल्स**, रैना-ब, सिपि, **स्पाइजि**, स्टैफि, सल्फ।

„ निगलनेके समय—वेरा-कार्ब, ब्राइयो, काकि, क्रोक, **हिपर**, मार्क, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, थूजा।

दृष्टि, निगलनेके समय, तरल पदार्थ—बेल, कोन्य, आइयो, मार्क, फास।

" " लार—ब्राइयो, कार्फि, हिपर, लेकि, मार्क, मार्क-कोर, पल्स, रास-टक्स।

" निद्राके पहले—ऐग्न, आर्स, बेल, ब्राइयो, कैलेडि, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, चायना, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, कैलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, मार्क, फास, पल्स, रास-टक्स, सार्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

" " प्रारम्भमें—आर्स, आर्जे-मेट, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कैप्सि, कैलि-आ, लाइको, ग्रेफा, मार्क, फास, पल्स, रास-टक्स, सिपि, सल्फ।

" " समय—ऐकोन, ऐगेरि-टार्ट, एपिस, आर्नि, आर्स, बेरा-कार्ब, बेल, बोरा, ब्राइयो, कैलेडि, कैना-ई, कोमो, चेलिडो, चायना, कोना, ग्रेफा, हिपर, हाइयो, इग्ने, कैलि-आर्स, कैलि-कार्ब, लेके, लाइको, मार्क, म्यूर-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, फास, नक्स-म, ओपि, फास-ऐ, पल्स, रियुम, सेंबु, सिपि, साइलि, स्ट्रेमो, सल्फ, जिङ्क।

" " बाद—ऐकोन, एपिस, आर्नि, आर्स, कैल्के, कार्बो-ऐ, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, काफि, कोना, इयुफ्रे, फेरम, हिपर, लेकि, लाइको, ओपि, फास, फास-ऐ, पल्स, रियुम, सैबाडि, सिलि, सिपि, स्पञ्जि, स्टेफि, स्ट्रेमो, सल्फ, थेरे।

" " न होनेपर—कास्टि, सिमि, काफि, कोलचि, कुप्रम, नाइ ऐ, नक्स-मोस, स्ट्रेमो, सल्फ।

" " बहुत देरतक होनेकी वजहसे—कैल्के, कास्टि, कोना, ग्रेफा, हिपर, नक्स-वोम, स्ट्रेमो, सल्फ।

" लिखनेमें लगनेपर—"पढ़नेमें लगनेपर" देखिये।

" पढ़नेसे (Reading)—ऐग्न, ऐमोनि, बेल, कैल्के, कास्टि, सिना, काफि, कोना, ग्राम्का, ग्रेफा, हिपर, कैलि-कार्ब, लाइको,

नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि, फास, पल्स, फ्रोडो, रूटा, साइलि, सल्फ-ऐ, सल्फ, वार्व्वा।

हृद्धि, पढ़नेसे, चिल्लाकर--कार्वो-वेज, फास, मैङ्ग, पैरि, वार्व्वा।

„ परिश्रमसे, मानसिक—ऐनाका, अरम, वेल, कैल्के, सिस्टा, काकि, कौलचि, इग्ने, लैके, कैलि-बा, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि, प्लैटि, पल्स, सिपि, साइलि, सल्फ।

„ „ शारीरिक—ऐगा, ऐल्यूमि, ऐलूमेन, ऐम्ब्रा, ऐनाका, ऐण्टि-टार्ट, आर्जे-मे, आर्जे-नाई, आर्नि, आर्स, आर्स-आयोड, अरम, वैरा-कार्ब, वेञ्जो-ऐ, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कैना-सै, कार्बो-वेज, कास्टि, चेलिडो, चायना, कोकि, कौलचि, कोना, क्रोटे-होर, डिजि, फेरम, फेरम-आर्स, फेरम आयोड, जेल्स, गुये, हैमा, हेलोनि, हेलि, हिपर, आइयो, कैलि-आर्स, कैलि-फास, कैलि-कार्ब, कैल्मि, क्रियो, लैके, लोरो, लाइको, मार्क, मार्क-कोर, म्यूर-ऐ, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-फास, नक्स-वोम, आक्जा-ऐ, फास, फास-ऐ, पिक्रि-ऐ, प्लम्ब, पोडो, सोरि, पल्स, रियुम, रास-टक्स, रूटा, सैबाडि, सेगु, सिलि, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, सल्फ, टियुब, वेले, जिङ्क।

„ पसीनेके समय—ऐकोन, ऐण्टि-क्रूड, ऐण्टि-टार्ट, आर्स, कैल्के, कास्टि, कैमो, चायना, काकि, डिजि, फेरम, फार्मिका, हिपर, इग्ने इपि, फ्रोडो, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सिपि, स्ट्रैमो, सल्फ, टिलिया, वेरे, वेरे-वि।

„ „ बाद—कैल्के, चायना, मार्क, फास, फास-ऐ, पल्स, सिपि, स्टैफि, सल्फ।

वृद्धि, पसीनेके समय पानीय पीनेपर—ऐकोन, ऐण्टि-टार्ट, ऐपोसा, आर्जे-ना, आर्नि, आर्स, ब्राइयो, कैम्फि, सिमि, चायना, कार्बि, कोलोसि, कोना, क्रोक, क्रोटन-टिग, कुप्रम, इयुपे-पर्फो, फेरम, हिपर, हिपो, हाइयो, लोरो, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइ-ऐ, नक्स-वोम, पल्स, रास-टक्स, सिपि साइलि, स्टैफि, सल्फ, टैरा, टियुक्रि, वेरे।

„ „ गर्म—ऐनाका, ब्राइयो, वोमो, कार्बो-वेज, ड्रोसे, इयुफोर, हेलि, कैलि कार्ब, लैके, मार्क, सेजि, फास, फास-ऐ, फाइटो, पल्स।

„ „ ठण्ढा—ऐल्यूमि, आर्स, बेल, कैल्के, कैन्थ, क्रोक, डिजि, डल्केमा, ग्रैफा, इग्ने, कैलि-बा, नेजा-के, लाइको, म्यूर ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, फ्लोडो, रास-टक्स, स्पाइजि, स्टैफि, थूजा, सल्फ।

„ „ जल्दी जल्दी—आर्स, नाइट्रि-ऐ, नक्स वोम, साइलि।

„ पारदके अपव्यवहारसे—ऐण्टि-क्रूड, आर्जे-मेट, ऐसाफि, औरम, बेल, कार्बो-वेज, चेलि, चायना, क्लिमे, कोनचि, कुप्रम, इयुफोर, गुये, हिपर, केलि-आयोड, लाइयो, लैकी, मेडम, म्यूर ऐ, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, फाइटो, पल्स, थामे, साइलि स्टैफि, सल्फ।

„ पास रहनेपर कोई—बेल, हेलिबो, मैग कार्ब, फास, पल्स, सिपि, सल्फ।

„ प्रतिवादसे—औरम, ओनि।

„ प्रातःकालमें—“साधारण लक्षण” देखिये।

„ प्रातर्भोजनसे (जलपान Break fast) पहले—बेरा कार्ब, कैल्के, चेलि क्रोकस, लाइया, इग्ने, मेजे, प्रेटि, रैना ब, सैबाडि, सिपिया स्पाइजि, स्टैफि, टेरा, थार्जा।

„ „ के बाद—ऐसोन म्यूर, आरयो, कैल्के, कार्बि, कैमो, कोना, डिजि ग्रैफा, कैलि कार्ब, कैलि ना, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर नक्स-वोम, फास, सिपिया, सल्फ थूजा जिङ्क।

वृद्धि, फैलानेपर (अँगड़ाई लेनेकी तरह)—ऐमोन-कार्ब, **रैना-व**, **रास-टक्स**।

" " अंग-मत्यंग—ऐकोन, **ऐल्यूमि**, ऐङ्गा, बेल, कैल्के, कैमो, **सिना**, इग्ने, इपि।

" बैठनेपर (Sitting)—**ऐगा**, ऐलो, **ऐमोन-मूार**, ऐस्र्, आर्ज-मेट, **आर्स**, ऐसाफि, अरम, अरम-मूर-ने, अरम-मूर, बेरा-कार्ब, ब्राइयो, **कौपि**, सिना, चायना, काकि, कोलोसि, **कोना**, साइक्ला, ड्रोसे, **डालका**, **इयुफोर**, इयुफ्रे, फेरम, गेस्बो, हेलि, कैलि-बा, लेके, लेडम, **लाइको**, मैग-मूर, मिनि, मार्क, मस्क, मूर-ऐ, नेट्रम-कार्ब, पेट्रो, **फास**, फास-ऐ, प्लेटि, प्रूणस, **पलस**, रोडो, रूटा, **रास-टक्स**, सेबाडि, सेने, **सिपिया**, साइलि, **सल्फ**, टेरे, थूजा, **वैले**, **वार्ब्रा**, **वायो-ट्रि**, **जिङ्क**।

" " घुटनेके बल—**काकि**, सिपिया, मैग-कार्ब।

" " टेढ़े होकर—ऐकोन, ऐङ्गा, ऐमोन-मूार, आर्स, ब्रोमि, सिकि, डिजि, फास, रास-टक्स, सैबाई, सैम्बु, सिला, सल्फ, **ऐण्टि-टार्ट**।

" " उठकर—"उठनेसे" देखिये।

" बोलनेपर—**ऐनाका**, आर्नि, बेल, कैल्के, **कौना-से**, कार्बो-वेज, केमी, **चायना**, **काकि**, ड्रोसे, डालका, ग्रेफा, हिपर, आइयो मैग-मूर, **मैङ्ग**, **नेट्रम-मूार**, **नेट्रम-कार्ब**, फास, फास-ऐ, **रास-टक्स**, सार्सा, **सिलि**, सिपि, साई, **स्टैनम**, **सल्फ**, **वेरे**।

" भींजनेपर पानीमें—ऐपिस, बेल, ब्राइयो, **कैल्के**, कैल्के-स, **कास्टि**, चायना, कोल्चि, डालका, हिपर, इपि, लाइको, नक्स-म, **पल्स**, **रास-टक्स**, सार्सा, सिपिया।

" " पसीनेके समय—ऐकोन, कोल्चि, डालका, नक्स-म, **रास-टक्स**, सिपिया।

" " पैर—ऐलिमि, डाल्का, नक्स म, फास, **पल्स**, रास-टक्स, सिपिया, साइलि।

वृद्धि, भोजनेपर मस्तक—बेल, पल्स।

„ भूख लगनेपर—आइयो, केलि-कार्ब, स्पाई।

„ भोजनके पहले—ऐम्ब्रा, बोवि, केल्के, केना-से, चेलि, चायना, ओकस, फेरम, फ्लु-ऐ, ग्रेफा, इग्ने, आइयो, लैके, लोरो, नेट्रम-कार्ब, फास, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सेबाडि, सिपिया, स्टानि, सल्फ, टैरेण्ट।

„ भोजनके समय—ऐमोन-कार्ब, ब्रैरा-कार्ब, केल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, कास्टि, केमो, सिकि, काकि, कोना, ग्रेफा, हिपर, केलि-कार्ब, लाइको, मैग म्यूर, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, फास, सल्फ, सिपिया।

„ „ जल्दी-जल्दी खानेपर—हपि, नक्स-वोम।

„ „ ज्यादा भोजनसे—कैल्के, लाइको, सल्फ।

„ „ थोड़े भोजनसे—कार्बो-वेज, लाइको, नक्स-वोम।

„ „ बाद—ऐनाका, ब्राइयो, कैल्के, कार्बो-ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, चायना, कोना, साइक्ला, ग्रेफा, केलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, फास, फास-ऐ।

„ भ्रमणके आरम्भमें—ऐगा, ब्राइयो, कैप्स, कैल्के, कैप्सि, कार्बो वेज, कास्टि, कोना, इयुफोर, फेरम, लाइको, फास, पल्स, रास-टक्स, रूटा, सेबाडि, सैम्बु, साइलि, थूजा, जिङ्क।

„ समय—ऐकोन, इग्नि, ऐगा ऐग्न, ऐल्मा, ऐन्टिम, ऐन्टि टार्ट, आर्जि, आर्स, बेप्टि, बेल, बार्य, बोवि ब्राइयो, कैक, कैलेडि, कैल्के, कैल्के स, कैना से, कैम्फ, कार्बो ऐनि, कार्बो-ऐनि, कार्बो सल्फ कास्टि, कैमिलो काक्कि, काफि, कालचि, कोलोसि, कोना, क्रोकस, [illegible], [illegible] ग्रेफा, हेलि, हिपर, [illegible], [illegible] लैके, लिडम, लिलि टिग, मार्क, मेजे, म्यूर, नेट्रम म्यू, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फास, नेट्रम स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोमि, [illegible]

फास-ऐ, फाइटो, सोरि, रैना ब, रियुम, **रास-टक्स,** रूटा, सैबाड़ि, सार्सा, सिलि, **सिपि,** साइलि, स्पाइजि, स्पंजि, सिला, स्टैफि, **सल्फ,** टैरा, टैरे, जिङ्क, वेरे-वि ।

वृद्धि, भ्रमण, खुली हवामें—ऐगा, ऐमोन-कार्ब, **आर्स,** बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैम्फ, कार्बो-ऐ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, **कास्टि,** चेलि, सिना, **काक्कि,** काफि, कोलचि, कोना, ड्युफ्रे, गुयेज, हिपर, लेडम, मार्क, नक्स-म, **नक्स-वोम,** फास, प्लैटे, सोरि, पल्स, रैना-सि, रास-टक्स, **सिलि,** सेने, सिपि, साइलि, **स्पाइजि,** स्पंजि, स्ट्रेमो, **सल्फ,** वार्ब्वा ।

" " तेज—ऐल्युमि, एपिस, आर्नि, **आर्स,** अरम, अरम-म्यूर, **बेल,** ब्राइयो, कोक्क, कैल्के, कैल्के-स, कैना-सै, कास्टि, **कोना,** कूप्रम, फेरम, इग्ने, आइयो, कैलि-कार्ब, **लेडम,** लाइको, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नक्स-वोम, ओलि, **फास,** प्लम्ब, **पल्स,** फ्रोडो, रास-टक्स, सेने, **साइलि,** स्पाइजि, **सल्फ** ।

" " धीरे धीरे—**अरम, अरम-म्यू,** फेरम, कैलि-फास, पल्स ।

" मलत्यागके पहले—ऐण्टिम-टार्ट, बैरा-कार्ब, बोरा, कैल्के, कैप्सि, कास्टि, कैमो, डालका, कैलि-कार्ब, **मार्क,** मेजे, मार्क-कोर, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, स्पाइजि, सल्फ, **वेरे** ।

" " समय—ऐमोन-म्यूर, ऐण्टि-क्रूड, **आर्स,** बार्ब, कैप्सि, कैल्के, कार्बो-वेज, **कैमो,** चायना, कोलोसि, कोना, क्रोटन-टिग, डालका, फेरम, हिपर, इपि, **मार्क,** मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, **नाइट्रि-ऐ,** नक्स-वोम, फास, पोडो, **पल्स,** रियुम, रास-टक्स, सार्सा, **सिपिया, साइलि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ, वेरे** ।

" " बाद—ऐलो, ऐमोन-म्यूर, **आर्स,** बार्ब, कैल्के, कैन्थ, कास्टि, कार्बो-वेज, **कास्टि,** आइरि, डैट्रो, कैलि-ब्रोम, चायना,

कैल्नि-कार्ब, लैके, लेप्टा, मैग म्यूर, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, म्यूर-ऐ, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फास, पोडो, पल्स, रियुम, सिलि, साइलि, स्टैफि, सल्फ, वेरे, सल्फ-ऐ।

वृद्धि, माथा खोल रखनेपर—आर्स, अरम, वेल, कैल्के, कोना, कौलचि, हिपर, हाइयो, लैके, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स म, नक्स-वोम, सोरि, सेंबु, रास-टक्स, रियुम, सिना, सिपि, साइलि, स्ट्रान्सि, थूजा।

" " झुकानेपर पीछे—सिकि, पल्स, सिपि।

" " बगलमें—स्पिञ्जि।

" " सामने—वायो-ओ।

" मुँह फाड़नेपर—ऐड्रा, मार्क, फास, मेवाडि।

" मूत्र त्यागके पहले—ऐण्टिम-टार्ट, आर्नि, बोरा, कोलोसि, ब्राइयो, डिजि, नक्स-वोम, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, साइलि।

" " प्रारम्भमें—कैन्थ, क्लिमे, मार्क।

" " समय—ऐकोन, कैना-से, कैन्थ, क्लिमे, कौलचि, कोना, हिपर, लाइको, इपि, मार्क, मार्क-कोर, नाइट्रि ऐ, नक्स वोम, फास, फास-ऐ, सार्सा, पल्स, सिपि, सल्फ, थूजा, वेरे।

" " समाप्त होनेके समय—कैन्थ, सल्फ।

" " बाद—ऐनाका, आर्नि, बेल, कैल्के, कैना से, कैन्थ, कैप्सि, कायना, कोलोसि, कोना, डिजि, हिपर, मार्क, मार्क कोर, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, पेरि, नक्स वोम, पल्स, स्टा, स्टैफि, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" मौसम बदलने पर (Change of weather)—ऐण्टिम टार्ट, [illegible], ब्राइयो, कैल्के, कैल्के फास [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], नेट्रम-कार्ब नाइट्रि ऐ, नक्स-[illegible], [illegible]

फास, सोरि, पल्स, रियुम, रैना-व, टियु-व, फ्रोडो, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, वेरे।

„ „ अन्धड पानीके समय—कैमो, चायना, लैके, म्यू-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, पल्स, फ्रोडो, रास-टक्स।

„ „ कुहरामें—कैमो, चायना, मेङ्ग, नक्स-म, रास-टक्स, सिपिया।

„ „ ज्यादा गर्मी या सर्दीमें—ड्रसि, लैके।

„ „ ठण्डके बाद गर्मीमें—ब्राइयो, चेलि, फेरम, कैलि-स, लेके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, सोरि, पल्स, सल्फ, टियुब।

„ „ अन्धड-पानीके समय—कैमो, चायना, लैके, म्यू-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, पल्स, फ्रोडो, रास-टक्स।

„ „ कुहरामें—कैमो, चायना, मैङ्ग, नक्स-म, रास-टक्स, सिपिया।

„ „ तर दिनोंमें (Damp)—ऐमोन-कार्व, ऐण्टिम-टार्ट, ऐरानि, आर्स, वेडि, कैल्के, कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो वेज, सिस्टा, कोलचि, डालका, फेरम, हैमा, हिपर, आइयो, कैलि-आयोड, लैके, लाइको, मार्क, मैग-फास, मैङ्ग, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्व, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, फाइटो, पल्स, रैना-व, फ्रोडो, रास-टक्स, रूटा, सिपिया, साइलि, स्टैनम, सल्फ, थूजा, टियुब, वेरे, जिङ्क।

„ „ और ठण्डा—ऐमोन-कार्व, बोराक्स, कैल्के, डालका, नक्स-म, फ्रोडो, रूटा, थूजा।

„ „ मेघहीन दिनमें—ऐकोन, ऐसार, ब्राइयो, कास्टि, हिपर, नक्स-वोम, प्लम्ब, सेबाडि, स्पञ्जि।

„ रगड़नेपर—ऐमोन-म्यू, ऐनाका, बिस्मथ, कैलेडि, कैम्फि, कास्टि, कार्बो, कोना, लेडम, पल्स, सिपि, साइलि, स्टानि, सल्फ।

„ रोनेपर—आर्निका, बेल, क्रोकस, कूप्रम, हिपर, स्टैनम, टियुक्रि, वेरे।

वृद्धि, रोशनीसे—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, बेरा कार्ब, बेल, कैल्के, चायना, कोना, क्रोक, ड्रोसे, ड्युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपि, साइलि, स्ट्रेमो, सल्फ।

„ „ आगकी—ऐण्टिम-क्रूड, ड्युफोर, ग्लोनो, जिङ्क।

„ „ दिनकी—ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, कोना, ड्रोसे, ड्युफ्रे, ग्रैफा, हिपर, नक्स-वोम, फास, सिपि, साइलि।

„ „ दीयेकी—बैरा कार्ब, बेल, कैल्के, कोना, क्रोकस, ड्रोसे, ग्लोनो, ग्रैफा, हिपर, इग्ने, लाइको, मार्क, फास, फास ऐ, सिपिया, साइलि।

„ „ सूर्यकी—ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, चायना, ड्युफ्रे, ग्लोनो, ग्रैफा, इग्ने, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, पल्स, सल्फ।

„ लिखनेके समय—ऐमाफि, आइयो, कैल्के, कोना-से, मिना, कालि, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, ओलि, रोडो, रूटा, सेवाई सिपि, साइलि जिङ्क।

„ वमनसे—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ऐसार, आइयो, कैल्के, कोनचि, कूप्रम, ड्रोसे, हाइयो, ड्रूपि, लाइको, नक्स वोम, फास, प्रम्ब, पल्स, सार्सा, सिपिया, साइलि, सल्फ, वेरे।

„ वसन्त ऋतुमें—ऐल्ला, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, बेल, कैल्के, चेलि, कोनचि, कोलि था, लैकै, लाइको, नेट्रम-म, पल्स, रास टक्स वेरे।

„ चिरक्तिकी वजहसे (Vexation)—ऐकोन, आर्स, बेल, आइयो, कैमो, काफि, कोलोसि, लाइको, इग्ने, ओपि, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पल्स, स्टैफि।

„ शराब पीनेपर—ऐण्टिम-क्रूड, आर्नि, आर्स, बेरा, कैल्के, चायना, काफि, पल्स ऐ जेल्स ग्लोनो, इग्ने, लैके, लेडम, लाइयो, मेजे, नेट्रम-आर्स, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू, मस्क स, नक्स वोम, ओपि, रैना-ब, रोडो सेवाडि सिलि, साइलि, जिङ्क।

फास, सोरि, पल्स, रियुम, रैना-ब, टियु-ब, फ्रोडो, रास-टक्स, साइलि, सल्फ, वेरे।

„ „ अन्धड पानीके समय—कैमो, चायना, लैके, म्यू-ऐ, **नक्स-म,** नक्स-वोम, फास, पल्स, **फ्रोडो,** रास-टक्स।

„ „ कुहरामें—कैमो, चायना, मैङ्ग, नक्स-म, रास-टक्स, सिपिया।

„ „ ज्यादा गर्मी या सर्दीमें—इपि, लैके।

„ „ ठण्डकी बाद गर्मीमें—**ब्राइयो,** चेलि, फेरम, **कैलि-स,** लैके, लाइको, नैट्रम-म्यूर, नेट्रम-स, **सोरि,** पल्स, सल्फ, **टियुब।**

„ „ अन्धड-पानीके समय—कैमो, चायना, लैके, म्यू-ऐ, **नक्स-म,** नक्स-वोम, फास, पल्स, **फ्रोडो,** रास-टक्स।

„ „ कुहरामें—कैमो, चायना, मैङ्ग, नक्स-म, रास-टक्स, सिपिया।

„ „ तर दिनोंमें (Damp)—**ऐमोन-कार्ब,** ऐण्टिम-टार्ट, ऐरानि, **आर्स,** **वेडि,** **कैल्के,** कैल्के-फास, कैल्के-स, कार्बो वेज, सिस्टा, कोलचि, डालका, फेरम, हैमा, हिपर, आइयो, कैलि-आयोड, लैके, लाइको, मार्क, मैग-फास, मैङ्ग, नेट्रम-आर्स, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म,** फाइटो, **पल्स,** रैना-ब, **फ्रोडो,** **रास-टक्स,** रूटा, सिपिया, साइलि, स्टैनम, सल्फ, थूजा, टियुब, वेरे, जिङ्क।

„ „ और ठण्डा—ऐमोन-कार्ब, बोराक्स, कैल्के, डालका, नक्स-म, फ्रोडो, रूटा, थूजा।

„ „ मेघहीन दिनमें—ऐकोन, **ऐसार,** **ब्राइयो,** **कास्टि,** **हिपर,** नक्स-वोम, प्लम्ब, सेबाडि, स्पञ्जि।

„ रगडनेपर—ऐमोन-म्यू, **ऐनाका,** बिस्मथ, केलेडि, कैम्फि, कास्टि, कार्बि, कोना, लेडम, **पल्स,** **सिपि,** साइलि, **स्टान्सि,** **सल्फ।**

„ रोनेपर—आर्निका, बेल, क्रोकस, कूप्रम, हिपर, स्टैनम, टियुक्रि, वेरे।

वृद्धि, रोशनीसे—ऐकोन, ऐण्टिम-क्रूड, बैरा कार्ब, बेल, कैल्के, चायना, कोना, क्रोक, ड्रोसे, ड्युफ्रे, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, लाइको, मार्क, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, फास, पल्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो, सल्फ।

„ „ आगकी—ऐण्टिम-क्रूड, ड्युफोर, ग्लोनो, जिङ्क।

„ „ दिनकी—ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, कोना, ड्रोसे, ड्युफ्रे, ग्रेफा, हिपर, नक्स-वोम, फास, सिपि, साइलि।

„ „ दीयेकी—बैरा कार्ब, बेल, कैल्के, कोना, कोकास, ड्रोसे, ग्लोनो, ग्रेफा, हिपर, इग्ने, लाइको, मार्क, फास, फास ऐ, सिपिया, साइलि।

„ „ सूर्यकी—ऐण्टिम-क्रूड, कैल्के, चायना, ड्युफ्रे, ग्लोनो, ग्रेफा, इग्ने, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, पल्स, सल्फ।

„ लिखनेके समय—ऐसाफि, ब्राइयो, कैल्के, कोना-से, सिना, काफि, कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नक्स वोम, ओलि, रोडो, रूटा, सेनाई सिपि, साइलि, जिङ्क।

„ वमनसे—ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, ऐसार, ब्राइयो, कैल्के, कोनचि, क्यूप्रम, ड्रोसे, हाइयो, इपि, लाइको, नक्स वोम, फास, प्रम्ब, पल्स, सार्सा, सिपिया, साइलि, सल्फ, वेरे।

„ वमन्ना प्रसूतिमें—एम्ब्रा, ऐण्टि-टार्ट, एपिस, बेल, कैल्के, चेलि, कोम्लि, कोलि था, लैके, लाइको, नेट्रम म, पल्स, रास टक्स, वेरे।

„ विरक्तिकी वजहसे (Vexation)—ऐकोन, चार्म, बैन ब्राइयो, कैमो, काफि कोलोसि, लाइको, इग्ने, ओपि, नक्स-वोम, फास, प्लैटि, पल्स, स्टेफि।

„ शराब पीनेपर—ऐण्टिम-क्रूड, आर्नि आर्स, बोरा, कैम्फ, कार्बो काफि, पल्स ऐ जेल्स ग्लोनो इग्ने, लैके, लैडम, लाइको, मैग्नि, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यू, नक्स म, नक्स वोम ओपि, रैना-ब, रोडो सेबाडि सिलि साइलि, जिङ्क।

वृद्धि, शराब बियर—ऐलो, ब्राइयो, फेरम, कैलि-बा, नक्स-वोम, रास-टक्स।

„ शुष्क जलवायुमें—ऐकोन, **ऐसार**, बेल, ब्राइयो, **कास्टि**, **हिपर**, इपि, नक्स-वोम, सैबाडि, सिपि, स्पञ्जि।

„ सङ्गमके समय—कैन्थ, कैलि-कार्ब, ग्रैफा, सिलि।

„ „ बाद—**ऐगा**, एपिस, बोवि, कैलेडि, सिड्रन, कैल्के, चायना, कोना, ग्रैफा, **कैलि-कार्ब**, **कैलि-फास**, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-फास, नाइट्रि-ऐ, पेट्रो, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, सिलि, **सिपि**, **साइलि**, स्टैफि।

„ ऋतुके समय—ऐमोन-म्यू, **आर्स**, कैल्के, कार्बो-वेज, ग्रैफा, **कैमो**, हिपर, लैके, लाइको, **मार्क**, सिपि, **नक्स-वोम**, **पल्स**, सैबाडि, साइजि।

„ „ बैठ जानेपर (Suppressed)—ऐमोन-म्यू, **ब्राइयो**, **कैल्के**, चायना, डालका, फ्लू-ऐ, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-वोम**, पल्स, सिपि, साइलि।

„ सामयिक (Periodicity)—ऐगा, **ऐल्यूमि**, ऐनाका, ऐण्टिम-क्रूड, आर्नि, **आर्जेण्ट-मेट**, **आर्स**, असम, ऐसार, बैरा-कार्ब, बेल, कैक्ट, कैल्के, केन्थ, कैम्फि, कार्बो-वेज, **सिड्रो**, **चायना**, **चिनि-आर्स**, क्यूप्रम, **चिनि-स**, ऐरानि, फेरम, फेरम-म्यू, इपि, इग्ने, कैलि-आर्स, लैके, लाइको, **मैग-कार्ब**, मार्क, **नेट्रम-म्यू**, नेट्रम-स, **नाइट्रि-ऐ**, नक्स-वोम, फास, प्लम्ब, पल्स, रोडो, रास-टक्स, **सेबाडि**, सैंबु, सैंगु, सिके, **सिपि**, **साइलि**, स्टैफि, साइजि, स्टैनम, टियुब, वैले वेरे।

„ प्रत्यह—आर्स, चायना, लैके, लाइको, मैग-कार्ब, नक्स-वोम, थूजा।

„ एक दिनका अन्तर देकर—ऐल्यूमि, फास।

„ ७ दिनका अन्तर देकर—ऐमोन-म्यूर, चायना, कैन्थ, क्रोक, रास-टक्स, सेका, साइलि, **सल्फ**, टियुब।

वृद्धि, सामयिक, १५ दिनका अन्तर (पाक्षिक)—ऐमोन-म्यूर, आर्स, कोल्को, चायना, चिनि-स, कोना, लैकि, सोरि, पल्स।

„ „ २१ दिनका अन्तर—ऐसिड-फ्लूड, चिनि-स, मैग-कार्ब, सोरि, सल्फ, टियुब।

„ „ २८ दिनका अन्तर—नक्स-म, नक्स-वोम, पल्स, सिपि, टियुब।

„ „ वात्सरिक (वर्ष भर पर)—आर्स, थूजा, आर्टि-यु।

„ सूर्यास्तके बाद—पल्स।

„ सूर्योदयके बाद—कैमो, नक्स-वोम।

„ सोनेपर—ऐकोन, ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐण्टिम-टार्ट, एपिस, ऐपो, आर्जं-मेट, आर्स, ऐसाफि, बरम, बैप्टि, बैन, कैण्टि, ब्राइयो, कैमो, कोना, साइक्ला, ड्रोसे, डल्का, ड्युफोर, ड्युफ्रे, फेरम, ग्लोनो, हेलि, हाइयो, कैलि-मा, कैलि-ब्रोम, कैलि ना, लैके, लाइको, मैग-म, मिनि, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, ओपि, नेट्रम-स, नक्स-वोम, फास, फास-ऐ, फ्लोडो, प्लेटि, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, रियुमे, रुटा, सैबाडि, सेस्बु, सैंगु, सिपि, स्ट्रान्सि, सल्फ, टैरा, वैले, वार्बा, वायो-ट्रि, जिंन्ज।

„ „ के बाद—ऐम्ब्रा, ऐमोन कार्ब, आर्स, आर्जं-मेट, ऐसाफि, बरम, कैप्सि, हिपि, कैमो, कोना, साइक्ला, डाल्का, ड्युफोर, ड्युफ्रे, फेरम, हाइयो कैलि कार्ब, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यू, मिथि, प्लेटि, ग्रम, पल्स, रास-टक्स, सेस्बु, सैबाडि, सिपि स्ट्रान्सि, सल्फ, टैरा।

„ „ करवट—ऐकोन, ऐनाका, आर्जं-ना, ब्राइयो, कैमेडि, कोल्की, कार्बो-ऐनि, सिना, कोना, फेरम, ड्रसे, इपि, कैलि-कार्ब, क्रियो, लाइको, मार्क, मार्क कोर, नेट्रम म, पेरि, फास, पल्स, रास-टक्स, सैनि, साइलि, स्टैनम, सल्फ थूजा।

वृद्धि, सोनेपर करवट, दाहिनी—ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यूर, बेञ्जो-ए, बोरे, मार्क, नक्स-वोम, फास, स्पिञ्जि।

„ „ „ बाईं—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्ज-ना, बैरा-कार्ब, कैक्ट, कोलचि, नेजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, पेरि, **फास**, पल्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

„ „ „ दर्द युक्त—ऐकोन, ऐरिट-क्रूड, आर्स, बैप्टि, **बैरा-कार्ब**, बेल, कैलेडि, चायना, ड्रोसे, ग्रैफा, **हिपर**, आइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, कैलि-आयोड, मैग-कार्ब, मार्क, मस्क, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म**, नक्स वोम, पेरि, फास, फास-ऐ, रियुम, रास-टक्स, रियुमे, **रूटा**, सैबाडि, **साइलि**, स्पिञ्जि।

„ „ „ दर्द रहित—ऐम्ब्रा, आर्ज-मेट, आर्स, चायना, कोलचि, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **पल्स**, स्पाइजि।

„ „ चित होकर—ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, आर्स, कास्टि, कोमो, कोलोसि, कूप्रम, आइयो, नेट्रम-स, ओपि, **नक्स-वोम**, **फास**, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

„ „ माथा नीचाकर—ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, चायना, कोलचि, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **पल्स**, स्पाइजि।

„ „ शय्यामें—ऐगा, **ऐम्ब्रा**, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, अरम, बोरा, ब्राइयो, क्लिमे, कोलोसि, ड्रोसे, ड्युफोर, **फेरम**, **फेरम-आयोड**, **आइयो**, कैलि-कार्ब, कैलि, लैके, लेडम, लिलि-टिग, लिथि, **लाइको**, मैग-कार्ब, मैङ्ग, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, मेजि, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, आक्जा-ऐ, **फास**, फास-ऐ, प्लेटि प्लम्ब, **पल्स**, फ्लोडो, रास-टक्स, रियुमे, **सैंगु**, सार्सा, सिलि, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, स्टान्नि, **सल्फ**, टेलू, वेरे, जिङ्क।

„ „ सो वैठकर दिन वितानेकी वजहसे—ऐकोन, ऐलो, ऐल्यूमि, आर्स, अरम, ब्राइयो, कोवास, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

वृद्धि, स्थिति-परिवर्त्तनसे (Change of position)—ब्राइयो, कैप्सि, कास्टि, कार्बो-वेज, कोना, ड्युफोर, फेरम, लेके, लाइको, फास, पल्स, रेना-व, रास-टक्स, सेबाडि, सेग्बु, साइलि।

„ स्नानसे (Bathing)—इस्कि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि क्रूड, ऐरानि, आर्स-आयोड, वेरा-कार्ब, वेल्, केल्के, केल्के-स, केन्थ, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, ग्रेफा, क्लिमे, डालका, केलि-कार्ब, केलि-ना, लैक-डि, लाइको, मैग-फास, मेड्र, मार्क, मेजे, पेट्रो, नाइट्रि-ए, फास, रास-टक्स, रियुम, सार्सा, सिपि, स्पाइजि, स्ट्रैनम, सल्फ।

„ „ ठण्डे पानीसे—ऐण्टि-क्रूड, बेरा-कार्ब, बेल, कैप्सि, कास्टि, कोलचि, क्रियो, लेक-डि, नाइट्रि-ए, रास-टक्स, सिपि, टियुब।

„ „ समुद्रमें—आर्स, मैग-म्यू, रास-टक्स, सिपि।

„ स्पर्श (Touch)—ऐकोन, इस्कि, ऐगा, ऐग्ना, एपिस, ऐण्टिम-क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-मेट, आर्नि, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैना-से, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, सिना, चिनि-आर्स, चिनि-स, सिनै-बा, काकि, काफि, कूप्रम, कोलचि, कोलोसि, ड्युफोर, हैमा, हाइयो, हिपर, आइयो, केलि-आर्स, केलि-बा, केलि-कार्ब, केलि-आयोड, केलि-ना, केलि-फास, क्रियो, लेके, लेडम, लाइको, मैग-कार्ब, मैग म्यू, मेड्र, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम-म्यू, नाइट्रि-ए, नक्स-वोम, ओलि, पेरि, फास, फास-ए, पल्स, रेना-ब, रडो, रास-टक्स, सेबाडि, सेंगु, सेने, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्क्वि, स्टैफि, स्ट्रैमो, स्टागि, सल्फ, टेरा, टेमु, थूजा, वेरे, जिङ्क।

„ „ थोड़ा भी—बेल, चायना, कोलचि, इग्ने, लेके, मार्क, मेजे, नक्स-वोम, फास, स्टागि।

वृद्धि, सोनेपर करवट, दाहिनी—ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यूर, बेञ्जो-ए, बोरे, मार्क, नक्स-वोम, फास, स्पञ्जि।

" " " बाईं—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्ज-ना, बैरा-कार्ब, कैक्ट, कोलचि, नेजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, पैरि, **फास**, पल्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

" " " दर्द युक्त—ऐकोन, ऐण्टि-क्रूड, आर्स, ढेप्टि, **बैरा-कार्ब**, बेल, केलेडि, चायना, ड्रोसे, ग्रैफा, **हिपर**, आइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, कैलि-आयोड, मेग-कार्ब, मार्क, मस्क, नाइट्रि-ए, **नक्स-म**, नक्स वोम, पैरि, फास, फास-ए, रियुम, रास-टक्स, रियुमे, **रूटा**, सैबाडि, **साइलि**, स्पञ्जि।

" " " दर्द रहित—ऐम्ब्रा, आर्ज-मेट, आर्स, चायना, कोलचि, हिपर, नाइट्रि-ए, **पल्स**, स्पाइजि।

" " चित होकर—ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, आर्स, कास्टि, केमो, कोलोसि, क्यूप्रम, आइयो, नेट्रम-स, ओपि, **नक्स-वोम**, **फास**, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

" " माथा नीचाकर—ऐण्टि-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, चायना, कोलचि, हिपर, नाइट्रि-ए, **पल्स**, स्पाइजि।

" " शय्यामें—ऐगा, **ऐम्ब्रा**, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, अरम, बोरा, ब्राइयो, क्रिमे, कोलोसि, ड्रोसे, ड्युफोर, **फेरम**, **फेरम-आयोड**, **आइयो**, कैलि-कार्ब, कैल्मि, लेके, लेडम, लिलि-टिग, लिथि, **लाइको**, मेग-कार्ब, मैङ्ग, मार्क, मार्क-आ-फ्ले, मेजे, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, आकज़ा-ए, **फास**, फास-ए, प्लेटि प्लम्ब, **पल्स**, फ्लोडो, रास-टक्स, रियुमे, **सेंगु**, सार्सा, सिलि, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, स्ट्रान्सि, **सल्फ**, टेलू, वेरे, जिङ्क।

" सो बैठकर दिन बितानेकी वजहसे—ऐकोन, ऐलो, ऐल्यूमि, आर्स, अरम, ब्राइयो, क्रोकस, लाइको, मेग-कार्ब, मेग-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

वृद्धि, स्थिति-परिवर्त्तनसे (Change of position)—आइयो, कैप्सि, कास्टि, कार्बो-वेज, कोना, ड्युफोर, फेरम, लैके, लाइको, फास, पल्स, रैना-ब, रास-टक्स, सेबाडि, सेरवु, साइलि।

„ स्नानसे (Bathing)—इस्कि, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टि क्रूड, ऐरानि, आर्स-आयोड, वेरा-कार्ब, बेल, कैल्के, कैल्के-स, कैन्थ, कार्बो-स, कार्बो-वेज, कास्टि, कैमो, ग्रेफा, क्लिमे, डालका, कैलि-कार्ब, कैलि-ना, लैक-डि, लाइको, मेग-फास, मेर्क्, मार्क, मेजे, पेट्रो, नाइट्रि-ऐ, फास, रास-टक्स, रियुम, सार्सा, सिपि, साइजि, स्टैनम, सल्फ।

„ „ ठण्डे पानीसे—ऐण्टि-क्रूड, वेरा-कार्ब, बेल, कैप्सि, कास्टि, कोलचि, क्रियो, लैक-डि, नाइट्रि-ऐ, रास-टक्स, सिपि, टियुब।

„ „ समुद्रमें—आर्स, मैग-म्यू, रास-टक्स, सिपि।

„ स्पर्श (Touch)—ऐकोन, इस्कि, ऐगा, ऐग्नस, एपिस, ऐण्टिम क्रूड, ऐण्टिम-टार्ट, आर्जेण्ट-मेट, आर्नि, ऐसाफि, बेल, ब्राइयो, कैक्ट, कैना-सै, कैन्थ, कैप्सि, कार्बो-वेज, कैमो, चेलिडो, चायना, सिना, चिनि-आर्स, चिनि-स, सिमि-वा, काकि, काफि, कूप्रम, कोलचि, कोनोसि, ड्युफोर, हैमा, हाइयो, हिपर, आइयो, कैलि-आर्स, कैलि-बा, कैलि-कार्ब, कैलि आयोड, कैलि-ना, कैलि फास, क्रियो, लैके, लिडम, लाइको, मैग कार्ब, मैग म्यू, मेर्क्, मार्क, मार्क-कोर, मेजे, नेट्रम म्यू, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, फोलि, फेरि, फाम, फास ऐ, पल्स, रैना-ब, रोडो, रास-टक्स, सेबाडि, सेंगु, सेले, सिपि, साइलि, स्पाइजि, स्क्वि, स्टैफि, स्ट्रेमो, सल्फ्यु सल्फ, टेरा, टेरु, थूजा, वेरे, जिङ्क।

„ „ थोड़ा भी—बेल, चायना, कोलचि, इग्ने, लैके, मार्क, मेजे, नक्स-वोम, फास, सल्फ्यु।

वृद्धि, सोनेपर बारबट, दाहिनी—ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यूर, बेल्लो-ऐ, बोरै, मार्क, नक्स-वोम, फास, सल्फ।

" " " बाई—ऐकोन, ऐमोन-कार्ब, आर्ज-ना, बैरा-कार्ब, कैक्ट, कोलचि, नेजा, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, पेरि, **फास**, पल्स, सिपि, सल्फ, थूजा।

" " " दर्द युक्त—ऐकोन, ऐसिड-क्रूड, आर्स, बैप्टि, **बैरा-कार्ब**, बेल, कैलेडि, चायना, ड्रोसे, ग्रैफा, **हिपर**, आइयो, कैलि-कार्ब, लाइको, कैलि-आयोड, मैग-कार्ब, मार्क, मस्क, नाइट्रि-ऐ, **नक्स-म**, नक्स वोम, पेरि, फास, फास-ऐ, रियुम, रास-टक्स, रियुमे, **रूटा**, सैबाडि, **साइलि**, सल्फ।

" " " दर्द रहित—ऐग्ना, आर्ज-मेट, आर्स, चायना, कोलचि, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **पल्स**, स्पाइजि।

" " चित होकर—ऐमोन-म्यू, आर्ज-मेट, आर्स, कास्टि, कैमो, कोलोसि, कूप्रम, आइयो, नेट्रम-स, ओपि, **नक्स-वोम**, **फास**, रास-टक्स, सिपि, साइलि, स्पाइजि, सल्फ।

" " माथा नीचाकर—ऐसिड-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, चायना, कोलचि, हिपर, नाइट्रि-ऐ, **पल्स**, स्पाइजि।

" " शय्यामें—ऐगा, **ऐम्ब्रा**, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्ज-मेट, आर्स, अरम, बोरा, ब्राइयो, क्लिमे, कोलोसि, ड्रोसे, ड्युफोर, **फेरम**, **फेरम-आयोड**, **आइयो**, कैलि-कार्ब, कैलि, लैके, लेडम, लिलि-टिग, लिथि, **लाइको**, मेग-कार्ब, मैङ्ग, मार्क, मार्क-आ-पली, मेजे, नेट्रम-म्यू, नक्स-वोम, आकजा-ऐ, **फास**, फास-ऐ, प्लेटि प्लम्ब, **पल्स**, ड्रोडो, रास-टक्स, रियुमे, **सैंगु**, सार्सा, सिनि, **सिपि**, **साइलि**, स्पाइजि, स्टान्नि, **सल्फ**, टेलू, वेरे, जिङ्क।

सो बैठकर दिन बितानेकी वजहसे—ऐकोन, ऐलो, ऐल्यूमि, आर्स, अरम, ब्राइयो, कोकस, लाइको, मेग-कार्ब, मेग-म्यूर, **नक्स-वोम**, ओपि, फास, पल्स, रास-टक्स, सल्फ।

केलेडि, केल्के-फास, केल्के-स, केम्फ, कैना-से, केन्थ, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-स, कार्बो-वेज, **चेलिडो**, सिमि, सिमे, सिनेबा, काकि, काफि, कोल्चि, कोलोसि, कोना, क्रोक, क्रोटे-ट्री, डिजि, ड्युपे-पर्का, फेरम, फ्लु-ऐ, जेल्स, ग्लोनो, ग्रेफा, गुये, हेलि, हिपर, आइयो, इपि, आइरि, केलि-बा, केलि-ना, केल्मि, लैके, **लेडम,** मैग फास, मैङ्ग, मिलि, **मार्कं, नेट्रम म्यूर,** नेट्रम-फास, नेट्रम-स, नाइ-ऐ, **नक्स-वोम,** ओनस, आकजा ऐ, पेट्रो, फास, फाइटो, प्लम्ब, सोरि, **रैना-व,** रियुम, सेबाडि, सैंगु, सैनि, सिके, सिलि, सिपि, **साइलि,** स्पाइजि, सिला, स्टैनम, स्टेफि, **सल्फ,** थेरि, वेरे, जिङ्क।

" " आरम्भमें—ऐगा, केप्सि, काष्टि, कार्बो-वेज, **कोना, ड्युफार, फेरम,** केलि-फास, **लाइको,** फास, फास-ऐ, सीपि, **पल्स, रास-टक्स,** सेबाडि, सैम्बु, साइलि, थेरि, जिङ्क।

" " बाद—**ऐगा,** ऐनाका, **कैना-से, आर्सं,** कार्बो-वेज, क्रोका, हाइयो, केलि-कार्ब, नाइ-ऐ, **पल्स, रास-टक्स,** रूटा, **स्पञ्जि, स्टैनम,** स्ट्रैमो, वेले।

" " रोगी अङ्गको—ऐकोन, इस्कि, ऐण्टि-टार्ट, **आर्नि,** आर्स, वेल, **ब्राइयो,** कैना-से, कैप्सि, **कैमो,** चायना, काकि, कोल्चि, कोलोसि, कोमो, जेल्स, ग्लोनो, केल्मि, लेके, **लेडम,** मार्क, मेजे, फास, पल्स, रियुम, रास-टक्स, ड्रोसो, सेबाडि, सैंगु, थार्मा, माइनि, **स्पाइजि,** स्टैनम, सल्फ।

उपशम (ह्रास—Amelioration)।

उपशम, पश्चात्‌में—ऐकोन, ऐण्टि-क्रू ड, ऐगा-कार्ब, बेल, बोरेक्स, चायना, **कोना,** क्रोकस, ड्रोसे, **ग्रैफा, ड्युफोर,** हिपर, इग्ने, ...

वृद्धि, स्वप्नदोषकी वजहसे—ऐल्यू्मि, वैरा-कार्ब, चायना, कोल्को, आइय
कैलि-कार्ब, लाइको, नेट्रम-फास, नक्स-वोम, फास, फा
ऐ, पिक्रि-ऐ, सोरि, सिपि, सिलि, साइलि, स्टैफि ।

„ हवामें खुली—ऐकोन, ऐगार, ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, वैरा-का
वेल, ब्राइयो, केल्को, कैल्के-फास, कैप्सि, कार्बो-ऐनि, कार्बो-
कास्टि, कैमो, चेलि, चायना, सिमि, काकि, काफि, कोलो
कोना, डालका, फिरम, ग्रेफा, गुयेक, हैमा, हेलोनि,
केलि-आर्स, केलि-बा, केलि-बा, केलि-कार्ब, केलि-ना, केलि-
क्रियो, लैके, लाइको, लाइलि, मैङ्ग, मार्क, मार्क-कोर, म्यू-ऐ, ने
कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, नक्स-वोम, पेट्रो, फास, फा
सोरि, रास-टक्स, रूटा, सिलि, सेने, सिपिया, साइलि, स्पा
स्टैनम, स्ट्रैमो, स्ट्रान्सि, सल्फ, सल्फ-ऐ, टियुक्रि, वेले, जिङ्क ।

„ „ जोरको—ऐकोन, आर्स, कैमो, वेल, कैल्के-फास, चायना,
लेके, लाइको, नक्स-वोम, फास, सोरि, पल्स, क्री

„ „ ठण्डी—ऐकोन, आर्स, कैमो, वेल, ब्राइयो, कास्टि,
कैलि-बा, नक्स-वोम, सिपिया, साइलि, स्पञ्जि ।

„ हवा खुलनेपर—फ्लू-ऐ ।

„ हस्तमैथुनकी वजहसे—ऐस्त्रा, आर्जेण्ट-मेट, व्यूफो, कैल्के, कार्ब
चायना, काक्कि, कोना, आइयो, कैलि-फास, लाइको,
मार्क-कोर, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-फास, नक्स-वोम, फास,
पल्स, सिलि, सिपि, स्पाइजि, स्टैफि, सल्फ ।

„ हँसनेपर—आर्स, वेल, बोरैक्स, कार्बो-वेज, चायना, मैङ्ग,
प्लम्ब, स्टैनम ।

„ हिचकीसे—ऐमोन-म्यू, ब्राइयो, साइक्ला, हाइयो, दूग्ने, नक्स
टियुक्रि ।

„ हिलने डोलनेपर—ऐकोन, ऐग्ना, एपिस, आर्नि, आर्स, आर्स-
ऐसाफि, ऐसार, ऐस्पर, वैरा-कार्ब, वेल, वार्व, ब्रिसाथ, ब्राइयो

उपशम, उपवाससे—ब्राइयो, कास्टि, कैमो, चायना, कोना, डिजि, केलि-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नक्स-म, फास-ऐ, साइलि, जिङ्क।

„ ऋतुके समय—कैलि-कार्ब, लैकि, मस्क, स्ट्रेनम, जिङ्क।

„ खड़े होनेपर—आर्स, ऐसार, बेल, कैलेडि, केना से, कोलचि, आइयो, लेडम, नक्स-वोम, फास, रैना-ब, सिलि, साइजि।

„ खुजलानेपर—ऐगा, ऐसाफि, ब्रोमि, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, सिना, क्रोटन-टिग, साइला, ड्रोसे, गुये, इग्ने, कैलि-कार्ब क्रियो, मैग-कार्ब, मैङ्ग, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, फास, प्लम्ब, सार्सा, सिपिया, सल्फ थूजा, जिङ्क।

„ खोलनेपर, माथा—ऐकोन, एपिस, बोरेक्स, कैल्के, कार्बो-वेज, फेरम, आइयो, लेडम, लाइको, ओपि, फास, पल्स, सिना, साइजि, वेरे।

„ खोंटनेपर नाक या कान—नेट्रम-कार्ब, स्पाइजि।

„ गरमीसे-आगको—आर्स, कोलि-मो, डालका, हिपर, इग्ने, मेग-फास, नक्स-म, नक्स-वोम, रास-टक्स, रियुम, स्प्रागि, साइलि।

„ गरम प्रयोगसे—आर्स, ब्राइयो, कैल्के-फ्लू, लैके, मेग फास, नक्स म, रास टक्स, सिपिया।

„ „ शय्याकी—ऐमोन-कार्ब, आर्स, ऐरम, ब्राइयो, कैल्के-फास, कास्टि, कोनोसि, डालका, यैका, हिपर, कैलि-म्यू, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, लाइको, मेग-फास, नक्स-म, नक्स-वोम, फास, रास-टक्स, रियुमे, सेबाडि, सिपिया, साइलि, रियुम।

„ ग्रीष्म ऋतुमें—ऐण्टिम-क्रू, ऐरम-म्यू, कैम्फे, साइलि, (गरमी देखिये)।

„ गेंडुरी मारकर सोने (Bending double)—कैमो, चायना, कोलोसि, मेग फास। ("दबानेसे" देखिये)

„ गोदमें लेकर घूमनेपर बच्चेका—"घूमनेपर" देखिये।

सार्स, नेट्रम-कार्ब, नक्स-वोम, **फास,** फास-ऐ, पल्स, सिपि, साइलि, स्ट्रैमो।

उपशम, अलग करनेपर, कपड़े लत्ते—ब्राइयो, **कैल्के,** कैना-इ, कैम्फि, कार्बो-वेज, कास्टि, हिपर, **लैकि, लाइको, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम,** पल्स, सेनि, सार्सा, सिपि, साइलि, स्क्वि, स्टेनम, सल्फ।

„ आँख खोलनेपर—वेल, **ब्राइयो,** चायना, क्लिमे, हेलि लेडम, मैग-म्यू, पल्स।

„ उठनेपर—**ऐमोन-कार्ब,** ऐण्टि-टार्ट, **आर्स,** बोराक्स, **कैल्के,** कैमो, क्युप्रम, डिजि, हाइयो, इग्ने, केलि-कार्ब, लाइको, **सैंगु, सिपिया,** साइलि।

„ „ आसनसे—अरम, डाल्का, इग्ने, मैग-कार्ब, पल्स, सिपिया, वेरे।

„ „ „ बाद—ऐगा, ऐम्ब्रा, ऐङ्ग, आर्ज-मेट, ऐसाफि, बेरा-कार्ब, **कैम्फि,** सिना, ड्रोसे, **कोना, साइक्ला, डालका,** ड्युफोर, फेरम, लैकै, लाइको, मैग-म्यू, मस्क, मिनि, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, फास-ऐ, **प्लैटि, पल्स,** फ्रोडो, **रास-टक्स,** रूटा, सेबाडि, सेने, **सिपिया,** टेरा, वेले, **वाल्वी, वायो-ट्रि।**

„ बिछावनसे—आर्स, **अरम,** कैम्फि, फेरम, **डालका, इग्ने,** लेडम, लाइको, प्लैटि, **पल्स,** रास-टक्स, सैंगु, **सिपिया,** वेरे।

„ „ बाद—**ऐम्ब्रा,** ऐमोन-कार्ब, ऐण्टिम-टार्ट, आर्स, आर्ज-मेट, अरम, वेल, बोरेक्स, कार्बो ऐनि, ड्रोसे, कोलोसि, ड्युफोर, फेरम, **आइयो,** केलि-कार्ब, इग्ने, लेडम, **लाइको,** मैग-कार्ब, नक्स-वोम, मार्क, फास, प्लैटि, **पल्स,** फ्रोडो, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्ट्रान्सि, सल्फ, वेरे।

केलि-बा, केलि-आयोड, लैके, **लिलि-टिग, मैग-म्यू,** मैग-फास, मैङ्ग, **मिनि,** म्यू-ए, **नेट्रम-कार्ब,** नेट्रम-म्यू, **नेट्रम-स,** नाइट्रि-ऐ, नक्स म, पेरि, फास-ऐ, **प्लम्ब, पल्स,** रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, ट्रिलिया।

उपशम, देखनेपर-टकटकी लगाकर, किसी चीजकी ओर—नेट्रम-कार्ब।

" " नीचेकी ओर—सैबाडि।

" " बगलकी ओर—ओलि।

" " सामने सीधे—वेल।

" दौड़नेपर—इग्ने, **सिपिया**।

" धोनेपर-ठण्डे पानीसे (स्नान देखिये)—ऐम्यू मि, **एपिस,** ऐसार, बेल, फेर-फास, केलि-म्यू, मार्क, फास, **पल्स,** सैबाडि।

" नाक छिड़कनेपर—मैङ्ग, साइलि।

" नींदमें—कैल्केडि, कोलचि, मार्क, **नक्स-वोम,** फास, **सैंगु,** सिपिया।

" पढ़नेपर चिल्लाकर (Reading aloud)—नेट्रम-कार्ब।

" परिश्रमसे, मानसिक—क्रोक, नेट्रम-कार्ब।

" " शारीरिक—इग्ने, रास-टक्स, सिपिया।

" पसीनेके समय—आर्स, **बोवि,** ब्राइयो, कैल्केडि, फ्रमम।

" " बाद—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, केल्केडि, कैम्फ, **कैमो, जेल्स,** ग्रेफा, हिपर, **नेट्रम-सल्फ, सोरि, रास-टक्स,** स्टान्नि, सल्फ, थूजा वेरे।

" पानीमें ठण्डा—ऐन्टो, **ब्राइयो,** कास्टि, **लेड्रो, फास,** सिपिया।

" " गर्म—स्पाइजि।

" पानीय पीनेपर—ब्राइयो, कास्टि, सिनेरा, सिस्ट्रा, फ्रमम, फास, साइलि, टेल्यू।

" " काफी—इग्ने, रैमि ऐ।

" " गर्म—टेल्यू रि।

" " ठण्डा—ऐन्टो, एपिस, ऐसार, कैम्फ, कास्टि, कार्बि, फ्रमम, फास, पल्स, **सिपिया**।

उपशम, गोधूलिके समय—ब्राइयो, फास।

„ घरके भीतर—ऐगा, कैम्फ, कार्बो-एनि, कार्बो-वेज, कोमो, चेलि, चायना, क्यालि, काफि, कोना, फेरम, **गुये**, क्रियो, लैके, **नक्स-म**, **नक्स-वोम**, पेट्रो, सिलि, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, टियुक्रि, वेले।

„ चबानेके समय—ब्राइयो, सेने।

, चलनेके समय—"भ्रमण" देखिये।

„ छींकनेपर (Sneezing)—मैग-म्यूर।

„ छूनेपर—आर्स, बिस्मथ, ब्राइयो, **कौल्चि**, कोलोसि, **साइली**, मिनि, म्यू-ए, फास, थूजा।

„ जम्हाई आनेपर (Yawning)—स्टैफि।

„ झुकनेपर—ऐण्टिम-टार्ट, कैना-से, **कोलचि**, कोना, हाइयो, रैना-ब, वायो-क्रि।

„ झुला रखनेपर—किसीमें—कार्बो-वेज, **फेरम**।

„ ठण्डसे—ऐलि-सि, बोरैक्स, ब्राइयो, फैगो, आइयो, लेके, लेडम, **लाइको**, ओनस, ओपि, फास, पल्स, सिकेलि।

„ ठण्डे प्रयोगसे—"धोनेपर" देखिये।

„ डकारसे—अरम, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैन्थ, **कार्बो-वेज**, कालि, डिजि, ग्रेफा, **इग्ने**, **कैलि-कार्ब**, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, प्लेटि, साइलि, सल्फ।

„ डोलनेपर—ऐकोन, कोमो, सिना, पल्स, रास-टक्स।

„ तम्बाकू सेवनसे—ऐरानि, कोलोसि, हिपर, मार्क, नेट्रम-कार्ब, सिपिया।

„ तर हवामें—ऐकोन, **ऐसार**, ब्राइयो, **कास्टि**, **हिपर**, **नक्स-वोम**, प्रम्न, सेबाडि, स्पञ्जि।

, दबानेपर—ऐग्न, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, एपिस, ऐसाफि, आर्जे-ना, अरम, बोरैक्स, **ब्राइयो**, कार्बो-स, चेलि, **चायना**, क्लिमे, कोलोसि, **कोना**, क्रोकस, ड्रोसे, डालका, ग्लोनो, ग्रेफा,

कैलि-बा, कैलि-आयोड, लैके, लिलि-टिग, मैग-म्यू, मैग-फास, मैङ्ग, मिनि, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स-म, पेरि, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, ट्रिलिया।

उपशम, देखनेपर-टकटकी लगाकर, किसी चीजकी ओर—नेट्रम-कार्ब।

„ „ नीचेकी ओर—स्पेवाडि।

„ „ बगलकी ओर—ओलि।

„ „ सामने सीधे—बेल।

„ दौड़नेपर—ड्रुस्रे, सिपिया।

„ धोनेपर-ठण्डे पानीसे (स्नान देखिये)—ऐन्थ्रमि, एपिस, ऐसार, बेल, फेर-फास, कैलि-म्यू, मार्क, फास, पल्स, सैवाइ।

„ नाक छिड़कनेपर—मैङ्ग, साइलि।

„ नींदमें—कैलेडि, कोलचि, मार्क, नक्स-वोम, फास, सैंगु, सिपिया।

„ पढ़नेपर चिल्लाकर (Reading aloud)—नेट्रम-कार्ब।

„ परिश्रमसे, मानसिक—कोक, नेट्रम-कार्ब।

„ „ शारीरिक—ड्रुस्रे, रास-टक्स, सिपिया।

„ पसीनेके समय—आर्स, वोवि, ब्राइयो, कैलेडि, फ़्रमम।

„ „ बाद—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, कैलेडि, कैम्फ, कैमो, जेल्स, ग्रेफा, ह्लिपर, नेट्रम-सल्फ, ओपि, सोरि, रास-टक्स, स्ट्रामो, सल्फ, थूजा वेरे।

„ पानीसे ठण्डा—ऐन्टी, ब्राइयो, कास्टि, जेट्रो, फास, सिपिया।

„ „ गर्म—स्पाइजि।

„ पानीय पीनेपर—ब्राइयो, कास्टि, मिनेरा, निक्स, फ़्रमम, फास, साइलि, टेन्।

„ „ काफी—क्युफ्र, ऐगि-ऐ।

„ „ गर्म—ऐन्थ्रसि।

„ „ ठण्डा—ऐसो, वविस, ऐसार, कैल्क, कास्टि, कार्बि, फ़्रमम, फास, पल्स, सिपिया।

उपशम, गोधूलिके समय—ब्राइयो, फास।

„ घरके भीतर—ऐगा, कैम्फ, कार्बो-ऐनि, कार्बो-वेज, केमो, चेलि, चायना, क्राक्कि, काफि, कोना, फेरम, **गुये**, क्रियो, लेके, **नक्स-म, नक्स-वोम**, पेड्रो, सिलि, साइलि, स्पाइजि, स्ट्रैमो, टियुक्रि, वेसे।

„ चबानेके समय—ब्राइयो, सेने।

„ चलनेके समय—"भ्रमण" देखिये।

„ छींकनेपर (Sneezing)—मैग-म्यूर।

„ छूनेपर—ग्रार्स, बिस्मथ, ब्राइयो, **कैल्के**, कोलोसि, **साइला**, मिनि, म्यू-ऐ, फास, थूजा।

„ जम्हाई आनेपर (Yawning)—स्टैफि।

„ झुकानेपर—ऐण्टिम-टार्ट, केना-से, **कोलचि**, कोना, हाइयो, रैना-ब, वायो-ट्रि।

„ झुला रखनेपर—किसीस—कार्बो-वेज, **फेरम**।

„ ठण्डसे—ऐलि-सि, बोरैक्स, ब्राइयो, फेगो, आइयो, लेके, लेडम, **लाइको**, ओनस, ओपि, फास, पल्स, सिकेलि।

„ ठण्डे प्रयोगसे—"धोनेपर" देखिये।

„ डकारसे—अरम, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैन्थ, **कार्बो-वेज**, काकि, डिजि, ग्रेफा, **इग्ने, कैलि-कार्ब**, लाइको, नेट्रम-कार्ब, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, प्लेटि, साइलि, सल्फ।

„ डोलनेपर—ऐकोन, केमो, सिना, पल्स, रास-टक्स।

„ तम्बाकू सेवनसे—ऐरानि, कोलोसि, हिपर, मार्क, नेट्रम-कार्ब, सिपिया।

„ तर हवामें—ऐकोन, **ऐसार**, ब्राइयो, **कास्टि, हिपर, नक्स-वोम**, प्रस्थ, सेबाडि, स्पञ्जि।

„ दबानेपर—ऐग्न, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, एपिस, ऐसाफि, आर्ज-ना, अरम, बोरैक्स, **ब्राइयो**, कार्बो-स, चेलि, **चायना**, सिमि, कोलोसि, **कोना**, क्रोकस, ड्रोसे, डल्का, ग्रेफा,

कोनि आ, कोनि-आयोड, लैके, लिलि-टिग, मैग-म्यू, मैग-फास, मैङ्गे, सिनि, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-म्यू, नेट्रम-स, नाइट्रि-ऐ, नक्स म, पेरि, फास-ऐ, प्लम्ब, पल्स, रास-टक्स, सिपिया, साइलि, स्पाइजि, ट्रिलिया।

उपशम, देखनेपर-टकटकी लगाकर, किसी चीजकी ओर—नेट्रम-कार्ब।
" " नीचेकी ओर—सेबाडि।
" " बगलकी ओर—ओलि।
" " सामने सीधे—बेल।
" दौड़नेपर—इग्ने, सिपिया।
" धोनेपर-ठण्डे पानीसे (स्नान देखिये)—ऐन्य मि, एपिस, ऐमार, बेल, फेर-फास, कैलि-म्यू, सार्क, फास, पल्स, सेबाई।
" नाक छिड़कनेपर—मैङ्गे, साइलि।
" नींदमें—कैलेडि, कोलचि, मार्क, नक्स-वोम, फास, सैङ्ग, सविया।
" पढ़नेपर चिल्लाकर (Reading aloud)—नेट्रम-कार्ब।
" परिश्रमसे, मानसिक—ओक, नेट्रम-कार्ब।
" " शारीरिक—इग्ने, रास-टक्स, सिपिया।
" पसीनेके समय—आर्स, बोवि, ब्राइयो, कैलेडि, फ्रामम।
" " बाद—ऐकोन, आर्स, ब्राइयो, कैलेडि, कैम्फ, कैमो, जेल्स, ग्रेफा, हिपर, नेट्रम-सल्फ, ओलि, सोरि, रास-टक्स, स्ट्रामो, मस्क, थूजा वेरे।
" पानीसे ठण्डा—ऐलो, ब्राइयो, काष्टि, कैट्री, फास, सिपिया।
" " गर्म—स्पाइजि।
" पानीय पीनेपर—ब्राइयो, काष्टि, मिलेरा, सिट्रा, कूपम, फास, साइलि, टेल।
" " काफी—इग्रुफ, थिम ऐ।
" " गर्म—ऐन्य मि।
" " ठण्डा—ऐलो, एपिस, ऐमार कैम्फ काष्टि काष्टि, कूपम, फास, प्लम्ब, सिपिया।

उपशम, पेशाब करनेपर—जेल्स, इग्ने, फास-ऐ, साइलि।

„ प्रातर्भोजनके पहले—ब्राइयो, कार्ब्लि, कैमो, चायना, कोना, डिजि, कैलि-कार्ब, नेट्रम-म्यूर, नक्स-म, फास-ऐ, साइलि, जिङ्क।

„ „ के बाद—कोल्लो, चेलि, क्रोक, इग्ने, आइयो, लैके, प्लैटि, रैना-ब, सैबाडि, सिपिया, साइलि, स्टैफि, वार्ब्बा।

„ बैठनेपर—एकोन, ऐण्टि-टार्ट, ब्राइयो, कैलेडि, काकि, कोलचि, कोलोसि, ग्लोनो, मार्क, नक्स-वोम, पल्स, रियुम, साइलि, सिला।

„ „ उठकर—"उठनेपर' देखिये।

„ „ टेढ़े होकर—वैल, कोल्चि, कोलोसि, कोना, इग्ने, कैलि-कार्ब, लाइको, मार्क, मेजे, रियुम।

„ भोजनके समय—ऐल्यूमि, ऐग्ना, ऐनाका, कैप्सि, चेलि, क्रोक, इग्ने, लैकै, मेजे, साइलि, जिङ्क।

„ भ्रमणसे—ऐकोन, ऐमोन म्यूर, आरम, ब्रोमि, ब्राइयो, कैप्सि, साइक्ला, डायस्को, ड्रोसे, डाल्का, इयुफोर, फेरम, फ्लू-ऐ, कैलि-आयोड, लाइको, कैलि-सल्फ, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, मिलि, मिनि, मार्क, मस्क, नेट्रम-म्यूर, फास-ऐ, प्लैटि, पल्स, रोडो, रैना-ब, रास-टक्स, रूटा, सैबाडि, सैंबु, सिपि, सल्फ, टैबा, वैले, वेरे, वार्ब्बा, वायो-ट्रि, जिङ्क।

„ „ खुली हवामें—ऐल्यूमि, आर्जेण्ट-नाई, ऐसार, आरम, ब्रोमि, ब्राइयो, कोना, डाल्का, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, कैलि-आयोड, कैलि-सल्फ, लिलि-टिग, लाइको, मैग-कार्ब, मैग-म्यूर, नैजा, फास-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सैबाडि, सैंबु, सेने, सिपि, सल्फ, टैरा, टियुक्रि, थूजा।

„ धीरे धीरे—आरम, आरम-म्यूर, फेरम, कैलि-फास, पल्स।

मलत्यागके बाद—ऐमोन-म्यूर, बोरा, ब्राइयो, कोलचि, कोना, फ्लू-ऐ, पल्स, रास-टक्स, सैंबु, साइलि, सल्फ।

उपशम, माथा खोलनेपर—ऐकोन, एपिस, बोरैक्स, कैल्के, कार्बो-वेज, फेरम, आइयो, लेडम, लाइको, ओपि, फास, पल्स, सिकेलि, साइलि, वेरे।

" " गर्म रखनेपर—बेल, ग्रेफा, हिपर, सोरि, मेनि, साइलि।

" " झुकानेपर-पीछे—कैमो, हिपर, लेडम।

" " " बगलमें—पल्स।

" " रखनेपर, किसीके ऊपर—बेल, मार्क।

" " " टेबुलके ऊपर—फेरम, सेवाडि।

" रगड़नेपर (Rubbing)—ऐन्थ्रसि, ऐमोन म्यू, आर्नि, आर्स, ऐसाफि, कैल्के, कैम्फ, कैथ, कार्बो-ऐ, साइक्ला, ड्रोसे, गुये, इग्ने, मार्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, फास, नक्स-वोम, ओलि-ऐनि, प्लम्ब, रूटा, सल्फ, थूजा, जिङ्क।

" रोनेपर—ग्रेफा।

" रौशनीसे चमकीली—ऐमोन-म्यूर, कैल्के, ग्रेटि, कार्बो-ऐ, कार्बो वेज, स्ट्रान्सि, वेले।

" लटकानेपर किसी चीज़में—कार्बो-वेज, फेरम।

" लिखनेके समय—फेरम।

" वमनसे—ऐकोन, ऐगा, आर्स, कार्बोनि स, काफ, कोलचि, डिजि, हाइयो, नक्स-वोम, ओपि, पल्स, सैंगु, सिकि।

" विश्रामसे—इस्कु, ऐण्टि-क्रूड, बेन ब्राइयो, कैडमि, कैना इं, कोलचि, स्ट्रैफि, क्रोटे-टिग, मार्क-कोर, नक्स-वोम, फाइटो, पियुलै, साइलि, स्ट्रिक्नि-फास, वायो-घो।

" शराब पीनेपर—ऐकोन, कैन्थ, कार्बो-ऐ, कोना, ओपि।

" सन्ध्याके समय—"साधारण लक्षण" देखिये।

" सोनेपर—ऐमोन म्यूर, आर्निका, ऐसार, बैरा-कार्ब, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैल्के-फास, कैन्थ, कार्बो ऐनि, कार्बो वेज, कास्टि, कोलचि, फेरम, ग्लोनो, ग्रेफा, इग्ने, लेडम, मेडो, मैग्नम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, पिक्रि ऐ, सोरि, स्पाइजि स्टफि सिली, सल्फ।

उपशम, सोनेपर-कड़े बिछावनपर—बेल, नेट्रम-म्यूर, रास-टक्स ।

„ „ करवट—कार्फि, नक्स-वोम, फास, सिपि ।

„ „ चित होकर—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, ऐनाका, एपिस, ब्राइयो, कैक्ट, कैल्के, कैन्थ, कार्बो-ऐनि, कोलचि, इग्ने, कैलि-कार्ब, कौल्चि, लाइको, मार्क-कोर, नेट्रम-म्यूर, नेट्रम-सल्फ, पल्स, फास, रास-टक्स, सैंगु, सेने, स्पञ्जि, स्टैनम, थूजा।

„ „ टेढ़े होकर—कोलचि, कोलोसि, रियुम ।

„ „ दर्दवाली करवट—ब्राइयो, कैल्के, कैमो, कोलोसि, पल्स, सिपि ।

„ „ दर्द रहित करवट—बैप्टी, बैरा-कार्ब, बेल, हिपर, कैलेडि, आइयो, कैलि-कार्ब, नक्स-मस, नक्स-वोम, रूटा, साइलि, स्पञ्जि ।

„ „ पेरके बल—बेल, कोलोसि, चेलिडो, सिना, इग्नेश, नाइट्रि-ऐ, फास, स्टैनम ।

„ „ बाद—आर्स, बेल, ब्राइयो, कैल्के, कैन्थ, कार्बोनि-सल्फ, कार्बो-वेज, सिना, क्रोकस, फ्लू-ऐ, ग्रैफा, हिपर, आइयो, लैके, मार्क, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, ओलि, पल्स, सिपि, सिली, साइलि, स्टैफि, स्ट्रैमो, सल्फ ।

„ शय्यापर—ऐकोन, ऐमोन-म्यूर, आर्स, बैरा-कार्ब, ब्राइयो, कैन्थ, कास्टि, सिकि, कार्कि, काक, कोना, हिपर, लैके, लाइको, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-ऐ, नक्स-वोम, रास-टक्स, साइलि, स्पञ्जि, स्टैनम, स्टैफि, स्ट्रैमो ।

„ „ लम्बे होकर—आर्निका, स्पञ्जि ।

„ „ माथा ऊँचा रखनेपर—स्पाइजि ।

„ „ नीचाकर— आर्निका, स्पञ्जि ।

उपशम, स्नानसे—ऐकोन, ऐल्यूमि, ऐमोन-म्यूर, एपिस, आर्स, ऐसार, बोरे, **कास्टि,** चेलिडो, ड्युफ्रे, फ्लू-ऐ, लेक-कै, **लेडम,** पिक्रि-ऐ, सीरि, **पल्स,** स्पाइजि।

„ „ गरम पानीसे—ऐण्टिम क्रूड, ब्यफो, रेडि, स्टान्नि, थिया।

„ „ ठण्डे पानीसे—आर्जेण्ट-नाई, आर्निका, **अरम-म्यूर,** ब्यफो, कैल्के-सल्फ, फ्लू-ऐ, मिफा, नेट्रम-म्यूर, सिपि।

„ स्राव निकलनेपर—लैके, मस्क, स्टेनम, जिङ्क-मेट।

„ „ हवामें खुली—ऐकोन, ऐग्न, ऐलिसि, ऐलो, **ऐल्यूमि,** ऐमोन-म्यू, ऐमिल ना, ऐण्टिम-क्रूड, एपिस, आर्ज-मेट, **आर्ज-ना,** आर्स, ऐसाफि, ऐसार, अरम, बोवि, ब्राइयो, कोक्ट, कैलेडि, कैल्के-स, कैम्फ, **कैना-इ,** कार्बोनि-स, चेलि, क्लोरो, सिमि, सिनेबा, काफि, कोना, क्रोक, डायस्को, फ्लू-ऐ, गेम्बो, ग्रैफा, ऐलि, हाइड्रो-ऐ, हाइयो, **आइयो,** इपि, कैलि-आई, **कैलि-सायोड,** केलि-ना, कैलि-स, लिलि-टिग, लाइको, **मेग-कार्ब,** मिलि, मैग-म्यू, मेजे, मस्क, नेट्रम-म्यू, **नेट्रम-स,** योथि, फास, फाइटो, प्लेटि, क्लिनिया, **पल्स,** रैना-ब्कि, **रास-टक्स,** **सेबाडि,** **सेबाड,** सेनि, सिकेलि, सेनै, सिपिया, स्पञ्जि, सल्फ, टैबे, टेलू, वाइबा, जिङ्क।

„ „ गर्म—अरम-म्यू, कैल्के, कास्टि, लेडम, मैग-कार्ब, मार्क, पेट्रो, रास-टक्स।

„ „ ठण्डी, दरवाजे खिड़कियाँ खोल रखना चाहता है—("दमा" देखिये)—**ऐमिल,** **आर्जेण्ट-नाई,** कैल्के, लैके, **पल्स,** **मल्फ**।

„ „ पानीसे तर ठण्डा (Cold water)—ऐगा, ऐमो, ऐन्ट, ब्राइयो कैम्फ, कैना इ, **कास्टि,** क्रूप्स, कैलो **लेडम,** **फास,** पिक्रि ऐ, **पल्स,** सिपिया।

उपशम, हवा छूटनेपर (Passing of flatus)—आर्जेण्ट-नाइ, कार्बोलि सल्फ, **कार्बो-वेज**, केमो, चायना, काकि, कोलचि, कोलोसि, ग्रेफा, इग्ने, **लाइको**, **नेट्रम-सल्फ**, **नक्स-वोम**, फास, फास-ऐ, प्लम्ब, **पल्स**, रोडो, **सैंगु**, **स्टैफि**, **सल्फ**, वेरे।

„ हिलने डोलनेपर (Movement)—ऐकोन, ऐगा, **ऐलो**, ऐलूमि, ऐमोन-कार्ब, ऐमोन-म्यू, ऐनाका, आर्जे-मेट, आर्ज-ना, ऐट्रो, **अरम**, **अरम-म्यू**, अरम-म्यू-नै, वेरा-कार्ब, विस्मथ, ब्रोमि, **कैप्सि**, चिनि-आर्स, सिना, काकि, कोलोसि, **कोना**, **साइक्ला**, डाय, ड्रोसे, **डाल्का**, **ड्युफोर**, **फेरम**, गेम्बो, जेल्स, हपिड़, कैलि-कार्ब, कैलि-आयोड, कैलि-ना, **कैलि-स**, क्रियो, लिलि-टिग, **लाइको**, मैग-कार्ब, मैग-म्यू, मिनि, मार्क-कोर, मस्क, म्यू-ऐ, नेट्रम-कार्ब, नेट्रम-स, फास-ऐ, प्लैटि, **पाइरो**, **पल्स**, क्लोडो, रास टक्स, रूटा, **सैबाडि**, **सैम्बु**, सिपिया, स्टैनम, स्ट्रान्सि, **सल्फ**, **टैरा**, टियुब, **वेले**, वार्बा, वाइवा, वायो-ट्रि, जिङ्क।

„ „ क्रमागत-लगातार—ऐम्ब्रा, ऐमोन-म्यू, कैक्ट, **कैप्सि**, सिना, कोना, साइक्ला, ड्रोसे, **ड्युफोर**, फेरम, लाइको, **टिलि**, पल्स, **सैम्बु**, साइलि, वैले, वेरे।

„ „ रोगी अङ्गका—ऐगा, ऐमोन-म्यू, आर्स, अरम, **कैप्सि**, चायना, कोना, **डाल्का**, ड्युफोर, **फेरम**, कैलि-बा, लाइको, मैग-म्यू, मस्क, फास-ऐ, पल्स, क्लोडो, रास-टक्स, सैबाडि, सैम्बु, **सल्फ**, सिपिया।

औषध-सूची।

Abies canadensis	ऐबिस कैनाडेन्सिस	ऐबिस-कैन।
„ Nigra	ऐबीस नाइग्रा	ऐबिस-ना।
Abrotanum	ऐब्रोट्रेनम	ऐब्रो।
Absinthium	ऐब्सिन्थियम	ऐब्सिन्थ।
Acalypha indica	ऐकालिफा इण्डिका	ऐकालि।
Acetic acid	ऐसेटिक एसिड	ऐसि-ए।
Aconite napellus	ऐकोनाइट नेपेलस	ऐकोन।
Actæa racemosa }	ऐक्टिया रेसिमोसा	ऐक्टिया-रे।
Cimicifuga racemosa }	सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा	सिमि।
Actæa spicata	ऐक्टिया स्पाइकेटा	ऐक्टिया-स्पा।
Adonis vernalis	ऐडोनिस वार्नेलिस	ऐडोनि।
Adrenalin	ऐड्रिनेलिन	ऐड्रि।
Æsculus hippocastanum	इस्कुलस हिपोकेस्ट्रेनम	इस्कि, इस्कु।
Æthiops mercurialis	इथियोप्स मर्क्युरियालिस	इथियोप्स।
Æthusa cynapium	इथूजा सिनापियम	इथू।
Agaricus muscarius	ऐगारिकस मस्केरियस	ऐगा।
Agnus castus	ऐग्नस कैस्टस	ऐग्ना।
Ailanthus glandulosa	ऐइलैन्थस ग्लेण्डुलोसा	ऐइलैन्थ।
Alcohol sulphuris	ऐलकोहल सल्फ्युरिस	ऐल्को।
Aletris farinosa	ऐलेट्रिस फैरिनोसा	ऐलेट्रि।
Alfalfa	ऐल्फाल्फा	ऐल्फा।
Allium cepa	ऐलियम सिपा	ऐलि-सि।
Allium sativa	ऐलियम सैटाइवा	ऐलि से।
Aloe socrotrina	ऐलो सोक्रोट्रिना	ऐलो।
Alstonia	ऐल्स्टोनिया	ऐल्स्टो।
Alumen	ऐल्युमेन	ऐल्यु।
Alumina	ऐल्युमिना	ऐल्युमि।

Ambra grisea	ऐम्ब्रा ग्रिसिया	ऐम्ब्रा।
Ammoniacum	ऐमोनियेकम	ऐमोन।
Ammonium benzoicum	ऐमोनियम बेञ्जोयिकम	ऐमोन-बेञ्जो।
„ bromatum	„ ब्रोमेटम	ऐमोन-ब्रोम।
Ammonium carbonicum	ऐमोनियम कार्बोनिकम	ऐमोन-कार्ब।
„ causticum	„ कास्टिकम	ऐमोन कास्टि।
„ muriaticum	„ म्यूरियेटिकम	ऐमोन-म्यूर।
Amygdala amara	ऐमिग्डेला-ऐमेरा	ऐमिग।
Amyl nitrosum	ऐमिल नाइट्रोसम	ऐमिल-ना।
Anacardium	ऐनाकार्डियम्	ऐनाका।
Anagalis	ऐनागेलिस	ऐनागे।
Angustura vera	ऐङ्गास्टुरा वेरा	ऐङ्गा।
Anthraxinum	ऐन्थ्रासिनम	ऐन्थ्रा।
Antimonium arsenicosum	ऐण्टिमोनियम आर्सेनिकोसम	ऐण्टि-आर्स।
„ crudum	„ क्रूडम	ऐण्टि-क्रूड।
„ iodatum	„ आयोडेटम	ऐण्टि-आयोड।
„ sulphuratum -auratum	„ सल्फ्युरेटम आरेटम	ऐण्टि-सल्फ।
„ tartaricum	„ टार्टारिकम	ऐण्टि-टार्ट।
Antipyrin	ऐण्टि-पाइरिन	ऐण्टि-पा।
Apis mellifica	ऐपिस मेलिफिका	एपिस।
Apium graveolens	ऐपियम ग्रेवियोलेन्स	ऐपियम-ग्रे।
Apocynum cannabinum	ऐपोसाइनम कैनाबिनम	ऐपोसा।
Aralia racemosa	ऐरेलिया रेसिमोसा	ऐरेलि।
Aranea diadema	ऐरानिया डायाडेमा	ऐरानि।
Argenticum metallicum	आर्जेण्टिकम मेटालिकम	आर्ज-मेट।
„ nitricum	आर्जेण्टम नाइट्रिकम	आर्ज-नाइट्रि।
Arnica montana	आर्निका माण्टेना	आर्नि।
Arsenicum album	आर्सेनिकम ऐल्बम	आर्स।

Arsenicum hydrogenisatum	आर्सेनिकम हाइड्रोजेनिसेटम	आर्स-हाइड्रो।
„ iodatum	आर्सेनिकम आयोडेटम	आर्स-आयोड।
„ sulphuratum flavum	„ सल्फ्युरेटम फ्लेवम	आर्स-सल्फ।
Artemicia vulgaris	आर्टिमिसिया वल्गरिस	आर्टि म।
Arum tryphillum	आरम ट्रिफाइलम	आरम-ट्रि।
Arundo	ऐरण्डो	ऐरण्ड।
Asafœtida	ऐसाफिटिडा	ऐसाफि।
Asarum	ऐसेरम, ऐसोरम	ऐसार।
Asclepias tuberosa	ऐस्क्लिपियस टियुबरोसा	ऐस्क्लि-टि।
Asperula	ऐस्पारियुला	ऐस्पार।
Asterias rubens	ऐस्टिरियस रूबेन्स	ऐस्टिरि।
Atropin	ऐट्रोपिन	ऐट्रो।
Aurum metallicum	आरम मेटालिकम	आरम।
„ muriaticum natronatum	„ म्युरियेटिकम नेट्रोनेटम	आरम म्यु।
Avena sativa	ऐवेना सैटाइवा	ऐवेना।
Bacillinum	बेसिल्लिनम	बेसि।
Badiaga	बैडियेगा	बैडि।
Balsamum peru	बाल्समम पेरु	बालसमम।
Baptisia tinctoria	बप्टिसिया टिङ्कटोरिया	बेप्टि।
Baryta carbonica	बेराइटा कार्बोनिका	बैरा-कार्ब।
„ iodata	„ आयोड	बैरा आयोड।
„ muriatica	„ म्युरियेटिका	बैरा-म्युर।
Belledona	बेलेडोना	बेल।
Benzinum	बेञ्जिनम	बेञ्जि।
Benzoicum acidum	बेञ्जोयिकम एसिडम	बेञ्जो ए।
Berberis vulgaris	बर्बेरिस वल्गारिस	बार्ब।
Bismuth subnitrate	बिस्मथ सबनाइट्रेट	बिस्म।

Blatta orientalis	ब्लेटा ओरियेण्टालिस	ब्लेटा ।
Borax	बोरैक्स	बोरा ।
Bothrops	बोथ्राप्स	बोथ्र ।
Bovista	बोविस्टा	बोवि ।
Brachyglottis	ब्रैकिग्लाटिस	ब्रैकि ।
Bromium	ब्रोमियम	ब्रोमि ।
Brucea	ब्रूसिया	ब्रूसि ।
Bryonia	ब्राइयोनिया	ब्राइयो ।
Bufo vulgaris	ब्यूफो वलगरिस	ब्यूफो ।
Cactus grandiflora	कैक्टस ग्रैण्डिफ्लोरा	कैक्टस ।
Cadmium sulph	कैडमियम सल्फ	कैड्मि ।
Caffeine	कैफिन	कैफिन ।
Caladium seguinum	कैलेडियम सेग्विनम	कैलेडि ।
Calcaria arsenica	कैल्केरिया-आर्सेनिका	कैल्के-आर्स ।
,, carbonica	,, कार्बोनिका	कैल्के-कार्ब ।
,, fluorica	,, फ्लुरिका	कैल्के-फ्लु ।
,, iodata	,, आयोडेटा	कैल्के-आयोड ।
,, phosphorica	,, फास्फोरिका	कैल्के-फास ।
,, picrata	,, पिक्रेटा	कैल्के-पिक्रेटा ।
,, renalis	,, रेनालिस	कैल्के-रे ।
,, silicata	,, सिलिकेटा	कैल्के-सिलि ।
,, sulphurica	,, सल्फयुरिका	कैल्के-सल्फ ।
Calendula officinalis	कैलेण्डुला-आफिसिनेलिस	कैलेण्ड ।
Calotropis	कैलोट्रोपिस	कैलोट्र ।
Camphora	कैम्फोरा	कैम्फ ।
Cannabis indica	कैनाबिस इण्डिका	कैना-इ ।
,, sativa	,, सैटाइवा	कैना-सै ।
Cantharis	कैन्थरिस	कैन्थ ।
Capsicum	कैप्सिकम	कैप्सि ।
Carbo-animalis	कार्बो-ऐनिमैलिस	कार्बो-ऐनि

Carbo-vegetabilis	कार्बो-वेजिटेबिलिस	कार्बो-वेज।
Carbonium hydro-genisatum	कार्बोनियम हाइड्रो-जीनिसेटम	कार्बोनि-हा।
" oxygenisatum	" आक्सिजेनिसेटम	कार्बोनि-आक्स।
" sulphuratum	" सल्फ्यूरेटम	कार्बोनि सल्फ।
Carbolic acid	कार्बोलिक एसिड	कार्बो-ए।
Carcinosin	कार्सिनोसिन	कार्सिनो।
Carduus marianus	कार्डुयस-मेरियेनस	कार्ड-मे।
Carlsbad	कार्ल्सबाड	कार्ल्स।
Cascara	केस्कारा	केस्का।
Castoreum	केस्टोरियम	केस्टो।
Caulophyllum	कौलोफाइलम	कौलोफा।
Causticum	कास्टिकम	कास्टि।
Ceanothus americanus	सियेनोथस-अमेरिकेनस	सियानो।
Cedron	सिड्रोन	सिड्रो।
Cenchris	सेन्क्रिस	सेन्क्रि।
Chamomilla	कैमोमिला	कैमो।
Chelidonium majus	चेलिडोनियम मेजस	चेलि।
Chenopodium anthel	चेनोपोडियम ऐन्थेल	चिनो।
Chimaphila umbellata	चिमाफिला ऐम्बेलाटा	चिमा।
China officinalis	चायना आफिसिनेलिस	चायना।
Chininum arsenicosum	चिनिनम-आर्सेनिकोसम	चिनि आर्स।
Chininum sulphuricum	चिनिनम सल्फ्यूरिकम	चिनि सल्फ।
Chionanthus virginica	चियोनेन्थस वर्जिनिका	चियो।
Chlorum	क्लोरम	क्लोर।
Cicuta virosa	सिक्युटा विरोसा	सिकु।
Cimex	सिमेक्स	सिमेक्स।
Cimicifuga racemosa or	सिमिसिफ्युगा रेसिमोसा	सिमि।
Actea racemosa	एक्टिया रेसिमोसा	एक्टि।
Cina	सिना	सिना।

Cineraria	सिनेरेरिया	सिने।
Cinnabaris	सिनाबेरिस	सिनावे।
Cinnamomum	सिनामोमम	सिनामो।
Cistus canadensis	सिस्टस केनाडेन्सिस	सिस्टस।
Citricum acidum	साइट्रिकम-ऐसिडम	साइट्रि-ऐ।
Citrus vulgaris	साइट्रस वलगेरिस	साइट्रा-व।
Clematis erectra	क्लिमेटिस-इरेक्टा	क्लिमे।
Coca	कोका	कोका।
Cocainum	कोकेइनम	कोके।
Cocculus indicus	काकुलस इण्डिकस	काकि, काकु।
Coccus cacti	काकस-केक्टाई	काकस।
Cochlearia	काक्लियेरिया	काक्लि।
Codeinum	कोडिनम	कोडिन।
Coffea cruda	काफिया क्रूड।	काफिया।
Colchicum autumnale	कोल्चिकम आटमनेल	कोल्चि।
Collinsonia	कालिन्सोनिया	कालिन्सो।
Colocynthis	कोलोसिन्थिस	कोलोसि।
Colostrum	कोलोस्ट्रम	कोलोस्ट।
Commocladia dentata	कोमोक्लेडिया डेण्टाटा	कोमो।
Condurango	काण्डुरेङ्गो	काण्डु।
Conium maculatum	कोनायम मैकुलेटम	कोना।
Convallaria majalis	कान्वेलेरिया मेजालिस	कान्वे।
Copaiva	कोपेवा	कोपे।
Corallium rubrum	कोरेलियम रूब्रम	कोरा-रू।
Cornus florida	कार्नस फ्लोरिडा	कार्नस।
Crataegus	क्रेटेगस	क्रेटे।
Crocus sativa	क्रोकास सैटाइवा	क्रोकस।
Crotalus cascavella	क्रोटेलस-केस्काविला	क्रोटे-कै।
horridus	हॉरि[illegible]	
[illegible] tiglium	क्रो[illegible]	

Cubeba	क्यूबेबा	क्यूबे।
Cuprum aceticum	क्युप्रम ऐसिटिकम	क्युप्रम-ऐ।
„ arsenicum	„ आर्सेनिकम	क्युप्रम-आर्स
„ metallicum	„ मेटालिकम	क्युप्रम मेट।
„ sulphuricum	„ सल्फ्युरिकम	क्युप्रम-सल्फ
Curare	क्यूररि	क्यूररि।
Cyclamen	साइक्लामेन	साइक्ला।
Cypripedium	साइप्रिपीडियम	साइप्रि।
Damiana	डेमियाना	डेमिया।
Daphne indica	डेफ्नि इण्डिका	डेफ्नि।
Datura arborea	डेटुरा आरबोरिया	डेटुरा।
Digitalis	डिजिटेलिस	डिजि।
Dioscorea villosa	डायस्कोरिया विलोसा	डाय।
Diphtherinum	डिफ्थिरिनम	डिफ्थि।
Dolichos	डालिकास	डालि।
Drosera rotundifolia	ड्रोसेरा रोटण्डिफोलिया	ड्रोसे।
Duboisia	डियुबोसिया	डियुबो।
Dulcamara	डल्कामारा	डल्का।
Echinacea	इचिनेसिया	इचिने।
Elaps corallinum	इलैप्स कोरेलिनाम	इलैप।
Elaterium	इलेटेरियम	इलेटे, इलेटे।
Equisetum hyemale	इक्विसिटम हाइमेल	इक्वि।
Erigeron	इरिजिरन	इरिजि।
Eucalyptus	इयुकैलिप्टस	इयुके।
Eugenia jambos	इयुजिनिया जेम्बस	इयुजि।
Euonymin	इयोनिमिन	इयोनि।
Eupatorium perfoliatum	इयुपेटोरियम पर्फोलियेटम	इयु पर्फ।
Eupatorium purpureum	इयुपेटोरियम पर्पुरियम	इयु पर्पु।
Euphorbium corrollata	इयुफोर्बियम कोरोलेटा	इयुफोर कोर।
Euphrasia	इयुफ्रेसिया	इयुफ्रे।

Kali sulphuricum or „ sulphuratum	कैलि सल्फ्युरिकम या „ सल्फ्युरेटम	कैलि-सल्फ।
Kalmia latifolia	कैल्मिया लैटिफोलिया	कैल्मि।
Kaolinum	कैयोलिनम	कैयोलि।
Kreosotum	क्रियोजोटम	क्रियो।
Lac caninum	लैक कैनिनम	लैक-कै।
„ defloratum	लैक-डिफ्लोरेटम	लैक-डि।
Lachesis	लैकेसिस	लैके।
Lachnanthes	लैकनैन्थिस	लैकने।
Lactic acid	लैक्टिक-एसिड	लैक्टि-ए।
Lathyrus	लैथिरस	लैथि।
Laurocerasus	लोरोसिरैसस	लोरो।
Ledum	लेडम	लेडम।
Leptandra	लेप्टैण्ड्रा	लेप्टा।
Lilium tigrinum	लिलियम टिग्रिनम	लिलि-टिग।
Lithium carbonicum	लिथियम कार्बोनिकम	लिथि-कार्ब।
Lobelia inflata	लोबेलिया इन्फ्लैटा	लोबे।
Lycopodium	लाइकोपोडियम	लाइको।
Lycopus virginicus	लाइकोपस वर्जेनिकस	लाइकोप।
Lyssin	लाइसिन	लाइसि
Magnesia carbonica	मैग्नेशिया कार्बोनिका	मैग-कार्ब।
„ muriatica	„ म्यूरियेटिका	मैग-म्यूर।
„ phosphorica	„ फास्फोरिका	मैग-फास।
„ sulphurica	„ सल्फ्युरिका	मैग-सल्फ।
Magnolia	मैग्नोलिया	मैग्नो।
Malandrinum	मैलैण्ड्रिनम	मैलेण्ड्र।
Malaria officinalis	मैलेरिया आफिसिनैलिस	मैलेरि।
Mancinella	मैन्सिनेला	मैन्सि।
Manganum	मैङ्गनम	मैङ्ग।
Medorrhinum	मेडोरिनम	मेडो।

Melilotus	मेलिलोटस	मेलि ।
Menispermum	मेनिसपर्मम	मेनिस्पा ।
Mentha pipereta	मेन्था पिपारिटा	मेन्था ।
Menyanthes	मेनियेन्थस	मिनि ।
Mephitis	मिफाइटिस	मिफा ।
Mercurius corrosivus	मर्क्युरियस कोरोसाइवस	मार्क-कोर ।
" cynatus	" सायानेटस	मार्क-स ।
" dulcis (calomel)	" डलसिस	मार्क-डाल ।
" iodatus flavus (proto-iodide of mercury)	" आयोडेटस फ्लेवस प्रोटो-आइयोडाइड आव-मर्करी	मार्क-आ-फ्ले
" iodatus ruber (Bin-iodide of mercury)	मार्क्युरियस आयोडेटस रुबर (बिन-आइयोडाइड आव मर्करी)	मार्क-आ रू ।
Mercurius solubilis	मार्क्युरियस सोल्युबिलिस	मर्क-सोल ।
" vivus	" वाइवस	मार्क-वा ।
Mezereum	मेजेरियम	मेजि ।
Millefolium	मिलिफोलियम	मिलि ।
Morphinum	मार्फिनम	मार्फि ।
Moschus	मस्कस	मस्क ।
Mullein oil	मूलेन आयल	मूलेन आयल ।
Murex	म्युरेक्स	म्युरे ।
Muriatic acid	म्युरियेटिक एसिड	म्युरे ।
Myrica cerifera	माइरिका सिरिफेरा	माइरि ।
Naja tripudians (cobra)	नेजा ट्रिपुडियन्स (कोब्रा)	नेजा ।
Natrum arsenicum	नेट्रम आर्सेनिकम	नेट्रम-आर्स ।
" carbonicum	" कार्बोनिकम	नेट्र कार्ब ।
" muriaticum	" म्युरियेटिकम	नेट्रम-म्युर ।
Natrum phosphoricum	नेट्रम फास्फोरिकम	नेट्रम फास ।
" salicylicum	" सेलिसिलिकम	नेट्रम-से

Natrum sulphuricum	नेट्रम सल्फरिकम	नेट्रम-सल्फ।
Niccolum	निकोलम	निको।
Nitric acid	नाइट्रिक ऐसिड	नाइट्रि-ऐ।
Nuphar luteum	न्यूफर लूटियम	न्यूफो।
Nux moschata	नक्स मस्केटा	नक्स-मस्क।
Nux vomica	नक्स-वोमिका	नक्स-वोम।
Ocimum canum	ओसिमम कैनम	ओसिमा।
Oleander	ओलियेण्डर	ओलि।
Oleum jacoris	ओलियम जेकोरिस	ओलि-जे।
Onosmodium	अनस्मोडियम, ओनोस्मोडियम	अनस, ओनोस।
Opium	ओपियम	ओपि।
Oreodaphne	ओरियोडेफिन	ओरियो।
Origanum	ओरिगेनम	ओरिगे।
Osmium	ओस्मियम	ओस्मि।
Oxalic acid	आक्जैलिक ऐसिड	आक्जा-ऐ।
Oxydendrum	आक्सिडेण्ड्रन	आक्सिडे।
Oxytropis	आक्सिट्रोपिस	आक्सिट्रो।
Palladium	पैलेडियम	पैले।
Paraffinum	पैराफिनम	पैरा।
Pareira brava	पैरिरा-ब्रेवा	पैरि।
Paris quadrifolia	पैरिस क्वाड्रिफोलिया	पैरिस।
Passiflora incarnata	पेसिफ्लोरा इनकार्नेटा	पेसिफ्लो-ई।
Petroleum	पेट्रोलियम	पेट्रो।
Phellandrium	फेलैण्ड्रियम	फेलेन।
Phosphoric acid	फास्फोरिक एसिड	फास-ऐ।
Phosphorus	फास्फोरस	फास।
Physostigma	फाइसोस्टिग्मा	फाइसो।
Phytolacca	फाइटोलेका	फाइटो।
Pilocarpus microphyllus	पाइलोकार्पस माइक्रोफाइलस	पाइलो।

Ranunculus bulbosus	रेननकुलस बाल्बोसस	रैना-बा।
" scleratus	" स्कु लेरेटस	रैना-स्क्ले।
Raphanus sativus	रैफेनस-सेटाइवस	रैफे।
Ratanhia	रैटानहिया	रेटा।
Rheum	रियुम	रियुम।
Rhododendron	रोडोडेण्ड्रन	रोडो।
Rhus radicans	रास-रैडिकेन्स	रास-रै।
Rhus-toxicodendron	रास-टाक्सिकोडेण्ड्रन	रास-टक्स।
Rhus venenata	रास-वेनिनेटा	रास-वेन।
Robinia	रोबिनिया	रोबि।
Rumex crispus	रूमेक्स क्रिसपस, रियुमेक्स	रूम, रियुमेक्स।
Ruta graveolens	रूटा ग्रेवियोलेन्स	रुटा।
Pimenta	पाइमेण्टा	पाइमे।
Plantago major	प्लेण्टेगो-मेजर	प्लेण्टे।
Platina	प्लेटिना	प्लेटि।
Plumbum metallicum	प्लम्बम मेटालिकम	प्लम्ब।
Podophyllum	पोडोफाइलम	पोडो।
Polygonum punctatum	पोलिगोनम पङ्कटेटम	पोलिगे।
Polyporus officinale	पोलिपोरस आफिसिनेल	पोलिपो।
" pinicola	" पिनिकोला	पोलिपो-पि।
Prunus spinosa	प्रूनस स्पाइनोसा	प्रून-स्पाइ।
Psorinum	सोरिनम	सोरि।
Ptelea trifoliata	टिलिया ट्राइफोलियेटा	टिलि-ट्राई।
Pulsatilla nigricans	पल्सेटिला नाइग्रिकेन्स	पल्स।
Pyrarara	पाइरेरारा	पाइरे।
Pyrogenium	पाइरोजिनियम	पाइरो।
Radium	रेडियम	रेडि।
Sabadilla	सेबाडिला	सेबा, सेबाडि।
Sabal serulata	सेबाल सेरुलेटा	सेबाल।
Sabina	सेबाइना, सेबिना	सेबाई

Salicylic acid	सेलिसिलिक एसिड	सेलि-ऐ।
Sambucus	सैम्बुकस	सैम्बु।
Sanguinaria	सैंगुनेरिया	सैंगु।
Sanicula	सेनिकुला	सेनिकु।
Santoninum	सेण्टोनिनम	सेण्टो।
Saponin	सेपोनिन	सेपो।
Sarsaparilla	सार्सापेरिला	सार्सा।
Scilla or squilla	सिला या स्कुइला	सिला या स्कुइ।
Scutellaria	स्कुटेलेरिया	स्कुटे।
Secale cornutum	सिकेलि कार्नुटम	सिके।
Selenium	सिलिनियम	सिलि।
Senega	सेनेगा	सेने।
Sepia	सिपिया	सिपि।
Silicea	साइलिसिया	साइलि।
Solanum nigrum	सोलेनम नाइग्रम	सोले।
Solidago	सोलिडेगो	सोलिडे।
Spigelia	स्पाइजिलिया	स्पाइजि।
Spongia tosta	स्पञ्जिया	स्पञ्जि।
Squilla or scilla	स्कुइला या सिला	स्कुइ या सिला।
Stannum metallicum	स्टैनम मेटालिकम	स्टैनम।
Staphisagria	स्टैफिसेग्रिया	स्टैफि।
Stellaria	स्टेलारिया	स्टेलर।
Sticta pulmonaria	स्टिक्टा पल्मोनेरिया।	स्टिक्टा।
Stillingia	स्टिलिञ्जिया	स्टिलि।
Stramonium	स्ट्रैमोनियम	स्ट्रैमो।
Strophanthus hispidus	स्ट्रोफान्थस हिस्पिडस	स्ट्रोफैन्थ।
Strychninum	स्ट्रिकनिनम	स्ट्रिकनिन।
Sulphur	सल्फर	सल्फ।
Sulphuric acid	सल्फ्युरिक ऐसिड	सल्फ-ऐ।
Sumbul	साम्बल	साम्ब।

Symphytum	सिम्फाइटम	सिम्फ।
Syphilinum	सिफिलिनम	सिफि।
Syzygium jambolanum	सिजिजियम जैम्बोलेनम	सिजि-जै।
Tabacum	टैबेकम	टैबे।
Tanacetum	टैनासिटम	टैना सि।
Tannic acid	टैनिक ऐसिड	टैनि ऐ।
Taraxacum	टैराक्से कम	टैरा।
Tarantula hispana	टैरैण्टुला हिस्पाना	टैरे।
Tellurium	टेलूरियम	टेलू।
Terebinthina	टेरिबिन्थिना	टेरि।
Teucrium	टियुक्रियम	टियुक्रि।
Thallium	थेलियम	थेलि।
Thaspium	थैस्पियम	थेस्पि।
Thea (Tea)	थिया	थिया।
Theridion	थेरिडियन	थेरि।
Thlaspi bursa postoris	थ्लैस्पि-बर्सा पैस्टोरिस	थ्लैस्पि।
Thrombidium	थ्राम्बिडियम	थ्राम्बि।
Thuja occidentalis	थूजा आक्सिडेण्टैलिस	थूजा।
Thyroidinum	थाइरायडिनम	थाइरायेड।
Tilia	टिलिया	टिलिया।
Tryfolium pratenso	ट्राइफोलियम प्रेटेन्स	ट्राइफो-प्रे।
Trillium	ट्रिलियम	ट्रिलि।
Tuberculinum	टियुबर्कुलिनम	टियुब।
Uranium nitrate	इयुरेनियम-नाइट्रेट	इयुरेना।
Ustilago	आस्टिलेगो	आस्टि।
Uva ursi	इयुवा-उर्सि	इयुवा-उ।
Vaccininum	वैक्सिनिनम	वैक्सि।
Valeriana	वैलेरियाना	वैले।
Variolinum	वेरियोलिनम	वेरियो।